

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

अंग्रेजी-हिन्दी

वृहत्

जीव विज्ञान कोश

Encyclopaedia of Biological Terms

जिसमें

जन्तु विज्ञान (Zoology) और वनस्पति विज्ञान (Botany) के अतिरिक्त समस्त सम्बन्धित विज्ञानों जैसे चिकित्सा (Medical), आकारकी (Morphology), कार्यकी (Physiology) आदि के पारिभाषिक शब्द सम्मिलित हैं।

डॉ० महेश्वरसिंह सुंद, एम० एस० सी०, पी० एच० डी०
जीव विज्ञान शास्त्री

* एवं

KOT

डॉ० अरुणकुमार, एम० एस० सी० (प्री०) वनस्पति विज्ञान, एम० बी० बी० एस०, एम० एस०

प्रदत्ता

मेडीकल कालेज, उत्तर प्रदेश

प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

भूमिका

किसी राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति का वहाँ की सांस्कृतिक निधि से अदृष्ट सम्बन्ध है। देश की प्रगति का विशाल भवन समृद्ध संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर ही निर्मित होता है। राष्ट्रोत्थान के लिये यह अनिवार्य है कि हम अपनी राष्ट्र-भाषा का उत्थान करें तथा शीघ्रातिशीघ्र उसकी न्यूनताओं एवं त्रुटियों को दूर कर-उसे विश्व की सर्वतोधिक उन्नत भाषाओं के स्तर पर लावें।

आज हिन्दी की जटिलतम समस्या, जो उसकी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध किये खड़ी है पारिभाषिक शब्दों की कठिनाई है। कला के क्षेत्र में तो यह समस्या पर्याप्त रूप से हल कर ली गई है और जो कुछ शेष है उसे भी शीघ्र ही समाप्त कर लिया जावेगा। किन्तु जहाँ तक विज्ञान का सम्बन्ध है अभी इस दिशा में प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। यह भी निश्चित है कि जब तक वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावलि अन्तिम रूप से स्थिर नहीं हो जाती, देश तथा मातृ-भाषा की प्रगति अवरुद्ध ही रहेगी और विज्ञान भारतीय विद्यार्थियों के लिये एक कष्ट-साध्य विषय बना रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक विषय भी मातृ-भाषा द्वारा उसी प्रकार बोधगम्य बनाये जायें जिस प्रकार वे अभी तक अंग्रेजी माध्यम के द्वारा समझे जाते रहे हैं।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक विद्वानों के मत प्रकाशित होते रहे हैं और प्रायः सभी सहमत हैं कि वर्णनात्मक शब्दों का तो आंगुल भाषा से भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जावे परन्तु वर्गों, कुलों आदि के नाम और अस्थियों, मांसपेशियों आदि के नाम लैटिन या अंग्रेजी में जिस रूप के हैं उसी रूप में अपना लिये जावें। लैटिन के स्थान पर संस्कृत या मातृ-भाषा के नाम गढ़कर एक और नाम देने से उसकी अन्तर्राष्ट्रीयता का लोप हो जावेगा और साथ ही विषय भी अधिक कठिन प्रतीत होगा। शब्दों को यथावत् ग्रहण करने से एक लाभ यह भी होगा कि हमें समस्त भारतीय भाषाओं के लिये भी एक समान शब्दावलि सुलभ हो सकेगी।

इसके विपरीत दूसरे मत में वे विद्वान आते हैं जो पारिभाषिक शब्दावलि के विषय में शुद्ध अंग्रेजी को ही बनाये रखने के पक्ष में हैं। उनका कथन है कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी में शब्दावलि बनाने से हम लोग वैज्ञानिक दौड़ में पीछे रह जायेंगे। किन्तु वस्तुतः इस कथन में कुछ भी तथ्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि समस्त विश्व में सम्पर्क स्थापित करना केवल अन्वेषकों का कार्य है। इसके लिये उन्हें केवल अंग्रेजी ही नहीं अपितु जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी आदि अन्य भाषाओं भी सीखनी होंगी जिसमें उस विशिष्ट शाखा की प्रख्यात रचनायें हैं। उन्हें विदेशी भाषाओं सीखने के कष्ट से परित्राण नहीं मिल सकता। वे जहाँ अन्य भाषाओं का ज्ञान अर्जन करेंगे वहीं उस शृङ्खला में अंग्रेजी को भी जोड़ा जा सकता है। अतः यह कथन युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता कि पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्तन ही न किया जाय। हमें अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का थोक-रूप से प्रयोग नहीं करना है अपितु उनमें चुनाव करना है। हमारे लिये उपयुक्त यह होगा कि जो शब्द हमारे अनुकूल हों उन्हें हम ग्रहण कर लें और शेष को अर्थ पूर्ण पर्याप्य मिलने पर छोड़ दें। शब्द अपने अन्दर निहित भावों तथा विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी शब्द भाषा में तभी चल सकेगा जब वह सरल तथा यथार्थ आशय को व्यक्त करने वाला हो और भाषा की आत्मा के साथ सामञ्जस्य रखता हो।

जहाँ तक नवीन शब्दों के निर्माण का सम्बन्ध है इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि हमारे लिये सर्व-तोषिक उपयुक्त स्रोत संस्कृत ही है। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और जिस प्रकार लैटिन और ग्रीक समस्त यूरोपियन भाषाओं का आधार है उसी प्रकार समस्त भारतीय भाषायें संस्कृत पर आधारित हैं। अतः जो शब्द इससे बनेंगे वे सम्पूर्ण देश की भाषाओं में समान रूप से ग्राह्य होंगे और शीघ्र ही भारत, ब्रह्मदेश, स्याम आदि देशों में प्रचलित होकर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त कर सकेंगे।

प्रस्तुत कोश, जो अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम का फल है, इन्हीं मूल-भूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसके अन्तर्गत समाविष्ट ४०,००० शब्द जीव-विज्ञान तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञानों के लगभग समस्त क्षेत्र को पूर्ण करते हैं। शब्द निर्माण में निम्नलिखित आधारों को प्रयुक्त किया गया है।

(१) आँग्ल-भाषा के वे शब्द जो एक-पदी (monosyllable) हैं तथा सरलता से बोलचाल की भाषा में अपनाये जा सकते हैं, यथावत् ग्रहण कर लिये गये हैं जैसे gill (गिल), fin (फिन), cusp (कस्प), keel (कील), barb (बारब), Barbel (बारबेल), velum (वीलम), valve (वाल्व) आदि। यह ध्यान रखा गया है कि ग्रहणशीलता तथा अभिवृद्धि एक जीवित भाषा के आवश्यक गुण हैं। भाषा अबाध-गति से अग्रसर होती हुई एक महान सरिता है जिसे उसकी शाखायें निरन्तर समृद्धिशालिनी बनाया करती हैं। कोई भी भाषा जो विकास की दिशा से मुँह मोड़ती है, अवनति की तरफ अग्रसर होने लगती है। उपर्युक्त शब्द उसी प्रकार सरलतापूर्वक ग्रहण किये जा सकते हैं जिस प्रकार अँग्रेजी के 'रिल', 'टिकट', 'स्कूल', आदि शब्द, और जिस प्रकार आज अशिक्षित वर्ग भी इन शब्दों को सहज-रूप से प्रयुक्त कर लेता है उसी प्रकार शीघ्र ही जीव-विज्ञान के ये शब्द भी हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग बन जायेंगे।

(२) यह भी ध्यान रखा गया है कि जो शब्द सर्वसाधारण में पहले से ही प्रचलित हो चुके हैं उन्हें भी यथावत् रखा जाय। सभी पारिभाषिक शब्द अन्ततोगत्वा जन-साधारण के लिए ही निर्मित किये जाते हैं। अतः किसी शब्द को केवल इसीलिये तिरस्कृत नहीं किया गया क्योंकि वह मूलतः 'विदेशी' है अथवा शास्त्रीय संस्कृत से मेल नहीं खाता। यदि कोई शब्द भाषा का अविभाज्य अङ्ग बन चुका है और यदि वह यथार्थ आशय लिए हुए है तो विदेशी होते हुए भी उसे ग्रहण कर लिया गया है।

(३) केवल इन्हीं प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया गया है जो देश के समस्त क्षेत्रीय भाषाओं में भी एक ही अर्थ रखते हैं। वे शब्द जिनका मूल तो संस्कृत है किन्तु देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, छोड़ दिये गये हैं।

(४) जिन शब्दों को ग्रहण किया गया है उनके लिप्यन्तर के साथ-साथ उनकी ग्रीक अथवा लैटिन धातु भी दी गई है।

(५) नवीन शब्दों का निर्माण संस्कृत-धातुओं से किया गया है और उनमें उच्चारण की सुविधा तथा शब्द के माधुर्य का विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे संयुक्त शब्द नहीं बनाये गए हैं जिनके उच्चारण करने में कठिनाई हो तथा सुनने में अप्रिय लगें। अतः शब्दों की सन्धि करके उनको संयुक्त करने की अपेक्षा उनको पृथक ही रखकर हाइफन (-) विराम-चिह्न से संयुक्त किया गया है।

(६) प्रत्येक विदेशी उपसर्ग तथा प्रत्यय के लिये भाषा का एक ही उपसर्ग तथा प्रत्यय ग्रहण किया गया है जैसे ab-प्रतिकूल, sub- उप, a-ऊन, निर, para-परा, ad-आसन्न, proto-पुरा, supra-सुपरा, ऊर्ध्व, आदि तथा blast- ज. clast-नाशक, genesis-जनन, phore-धारी।

(७) कठिन शब्द की अपेक्षा सरल, सुबोध तथा सुस्पष्ट शब्द को प्राथमिकता दी गई है। किन्तु यह ध्यान रखा गया है कि ऐसा करने में उसके यथार्थ आशय का हनन न होने पावे।

(८) एक शब्द के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द उपलब्ध होने पर उन सभी शब्दों को, यदि उनका आशय सर्वथा एक है, दे दिया गया है ताकि अपनी रचि के अनुसार किसी भी शब्द को प्रयुक्त किया जा सके। सुविधा के हेतु प्रधानता उस शब्द को दी गई है जिससे तज्जनित शब्द (derivatives) बनाने में सहायता मिले जैसे Intestines के लिए 'अन्त्र', 'आंत' तथा 'अंतड़ी' में से 'अन्त्र' तथा Fish के लिए 'मत्स्य', 'मीन' तथा 'मछली' में से 'मत्स्य' इत्यादि।

(९) पारस्परिक सामञ्जस्यपूर्ण शब्दों को हिन्दी में भी उसी प्रकार सामञ्जस्यपूर्ण रखा गया है जिस प्रकार कि वे अंग्रेजी में हैं ताकि उदका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो सके और उनके अंग्रेजी पर्याय को सरलता से पहचाना जा सके जैसे eocene—नवोदय, oligocene—ऊन-नव, miocene—नव, pliocene—नवतर, pliestocene—नवतम, or holocene—आधुनिक तथा ametabola—अरूपान्तरी, paurometabola—क्रमिक रूपान्तरी, hemimetabola—अंश रूपान्तरी, holometabola—पूर्ण-रूपान्तरी आदि।

(१०) प्रत्येक शब्द के साथ उसका हिन्दी अनुवाद तथा उसका मूल उद्गम दोनों ही दिये गये हैं।

(११) जहाँ मूल ग्रीक अथवा लैटिन धातु उस वस्तु का यथार्थ आशय नहीं देती जिससे उस शब्द का सम्बन्ध है वहाँ नवीन शब्द के निर्माण में समानता तथा अनुकरण के स्थान पर यथार्थ-आशयता को प्रधानता दी गई है और एक मिश्र शब्द का निर्माण किया गया है।

(१२) जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावलि का सम्बन्ध है यह ध्यान रखा गया है कि इस शब्द की एकाङ्गीयता तथा इसके संकुचित अर्थ दोनों से ही बचा जाय। किसी शब्द को न तो केवल इसीलिये ग्रहण किया गया है कि वह 'अन्तर्राष्ट्रीय' है और न केवल इसीलिये कि वह संस्कृत व्याकरण के अनुसार शुद्ध है। अपितु दोनों सीमाओं के प्रति एक उदार निष्पक्षता की नीति ग्रहण कर दोनों के समन्वय के आधार पर एक नवीन शब्दावलि का निर्माण किया गया है जिसमें व्यापकता, ग्रहणशीलता, परिवर्तनशीलता तथा यथार्थ-आशयता हो।

यह भी ध्यान रखा गया है कि केवल अंग्रेजी, फ्रेंच, तथा जर्मन भाषाओं के शब्द ही 'अन्तर्राष्ट्रीय' नहीं हैं। वस्तुतः वे केवल पश्चिमी यूरोप में ही व्यवहृत होते हैं। किसी भी शब्द के पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय होने के लिये यह आवश्यक है कि वह शब्द रूस, चीन, जापान आदि अन्य उन्नत देशों में भी प्रयुक्त होता हो। अन्यथा उसकी 'अन्तर्राष्ट्रीयता' कोई अर्थ नहीं रखती और यदि हम उसे केवल पश्चिमी यूरोप में प्रयोग के ही आधार पर ग्रहण कर लेते हैं तो वह केवल हमारी भावुकता है।

अतः जहाँ तक मूर्त वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके प्रचलित नाम को ही ग्रहण किया गया है किन्तु अमूर्त वस्तुओं के लैटिन अथवा ग्रीक मूल के आधार पर नवीन शब्द का निर्माण किया गया है और यह ध्यान रखा गया है कि नवीन शब्द लैटिन अथवा ग्रीक का अन्धानुकरण मात्र न हो।

प्रस्तुत कोश की शब्दावलि के आधार पर विद्यालयों में सफलतापूर्वक शिक्षा दी जा रही है तथा जीव-विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों में भी इसका प्रयोग किया जा चुका है जिससे यह प्रयोग की कसौटी पर परखी जा चुकी है। आशा है इससे न केवल सम्पूर्ण जीव-विज्ञान की उच्चतम शिक्षा ही दी जा सकेगी अपितु यह शिक्षकों, अन्वेषकों तथा विज्ञान में रचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिये लाभदायक सिद्ध होगी। यदि यह पुस्तक इस महान् उद्देश्य की पूर्ति में तनिक भी सहयोग देती है तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे।

जीव विज्ञान बृहत् कोश

A

Ac cells—ए-कोशिकायें—लैंगरहैन्स के द्वीपों (islets of Langerhans) की ऐल्फा (alpha) कोशिकायें ।

a disc—ए-विम्ब—पेशीतन्तुक (myofibrillae) का दोहरा अपवर्तनिक (doubly refracting) या विषम-दैशिक (anisotropic) पट्टी या बैंड (band) ।

abactinal—(L. *ab*, from; Gk. *aktis*, ray) पाद-प्रतिकूल ! कंटक-देहियों—एकाईनोडरमस (Echino derms) में पाया जाने वाला वह प्रदेश (region) जिसमें नलिकापाद (tube feet) नहीं होते । [पाद शब्द का अर्थ संस्कृत में, चरण और किरण दोनों होता है, इस कारण 'aktis' के लिये 'पाद' शब्द का प्रयोग विशेषतया उपयुक्त है ।]

abambulacral—(L. *ab*, from, *ambulare*, to walk) पाद-प्रतिकूल ।

abapical—(L. *ab*, from; *apex*, summit) अधः ध्रुवीय या अधः ध्रुव स्थिति ।

abaxial—(L. *ab*, from; *axis*, axle) अपाक्ष; (१) केन्द्रच्युत या उत्केन्द्रक (excentric); (२) किसी संरचना क वह तल जो अक्ष (axis) से परे हो ।

abaxile—(L. *ab*, from; *axis*, axle) अपाक्षीय; अपाक्षीय; ऐसा भ्रूण (embryo) जिसका अक्ष (axis) बीज की अक्ष की दिशा में नहीं होता है ।

abbreviated—(L. *ab*, intensive, and *brevis*, short) संक्षिप्त ।

abdomen—(L. *abdomen*, belly) उदर । (१) कशेरुकों में वक्ष (thorax) और वस्ति (pelvis) के बीच का

भाग, जिसमें आनाशय (stomach), अन्न, (intestine), यकृत (liver), प्लोम (pancreas), प्लीहा (spleen), वृक्क (kidney) आदि स्थित होते हैं । (२) सन्धिपाद (ऑर्थोपोडा) में शरीर का लम्बा खण्डों का बना पश्च (पिछला) भाग ।

abdominal—उदर सम्बन्धी; उदर; उदरस्थ; उदरीय ।

abdominal air sac—उदरीय वायु-कोष ।

abdominal cavity—उदर-कोटर ।

abdominal pores—उदर-छिद्र ।

abdominal regions—उदर के वे नौ क्षेत्र जो दो क्षैतिज (horizontal) और दो उर्ध्वाधर (vertical) कल्पित रेखाओं से विभक्त होकर बनते हैं । जैसे

हाइपोकांड्रियक (hypochondriac) दो;

कटि (lumbar) दो;

वक्षण (inguinal) दो ;

अधिजठर (epigastric) एक ,

नाभि (umbilical) एक ;

अधोजठर (hypogastric) एक ;

abdominal ribs—उदर-पर्शुका; उदरस्थ पसली ।

abducent or abducent nerve—(L. *abducere*, to lead away) ऐबड्युसेन्ट तंत्रिका (नाड़ी); अपसारिणी तंत्रिका; अपचालिनी तंत्रिका; छटवीं मस्तिष्कीय तंत्रिका जो चक्षुगोलक (eye ball) के रेक्टस एक्सटर्नस (rectus externus) पेशी से लगी होती है ।

abductor—(L. *abducere*, to lead away) अपसारिणी; वहिर्नायनी; [अपवर्तनी] किसी भाग को मध्याक्ष

aberrant

(median axis) से दूर खींचकर ले जाने वाली पेशी (muscle) को अपसारिणी या अपवर्तनी या बहिर्नायनी पेशी कहते हैं।

aberrant—(L. *aberare*, to wander away) आदर्श च्युत; विपथी; आदर्श भ्रष्ट; विपथन। वे जाति (species) जिनके लक्षण अपने आदर्श (type) के अनुसार नहीं होते, आदर्श च्युत कहे जाते हैं।

absience—(L. *abire*, to depart) प्रतिक्रिया वर्जन; उत्तेजना-निवर्तन; किसी उत्तेजना या प्रतिक्रिया (reaction) से अलग हटना।

[देखिये—*adience* प्रतिक्रिया प्रथम]

abiogenesis—(Gk. *a*, not, *bios*, life; *genesis*, birth) स्वतंत्रोपादन; आजीव जीवोत्पत्ति; अभीवाद् जनन; स्वयंमुत्पत्ति (spontaneous generation)। जीवों की निर्जीव पदार्थों से उत्पत्ति हो सकती है—यह मत।

abiology—(Gk. *a*, not; *bios*, life) निर्जीव विज्ञान।

abomasum—(L. *ab*, from, *omasum* pouch) एवोमैसम; जठरान्त; चतुर्थ आमाशय; रौमंथशीलों (ruminants) में पाया जाने वाला आमाशय (stomach) का चतुर्थ भाग।

aboral—(L. *ab*, from *as*, *oris*, mouth) मुख-प्रतिकूल; अपमुख।

abortion—(L. *abortus*; birth premature) गर्भ-साव; गर्भपात; वृद्धिरोध।

abortive—(L. *ab*, from, *orirs*, to rise) (1) अपूर्ण कालज; अपूर्णज (2) निष्फल; विफल; (3) वर्धनावरुद्ध (arrested in development) (4) अवरुद्धवृद्धि।

abranchiate—(Gk. *a*, without; *branchia*, gills) (without gills) गिलहीन।

abrupt—(L. *abruptere*, to break off) विच्छिन्न; प्रपान; असंबंध, असंलग्न, खंडित। सिर पर गटा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत होना।

abruptly-acuminate—उदग्र स्थल—ऐसी विस्तृत परा कोटि जिसमें नवीन पर्ण अथवा शाखा निकले।

abscission—(L. *abscindere*, to cut off) विल-गित।

absorption—(L. *absorbere*, to suck in) शोषण; अवशोषण; अवचूषण; सोखना। वह क्रिया जिससे पचा हुआ (digested) भोजन झिल्ली में से होकर रक्त में जा मिले।

abstriction—(L. *abstringere*, to cut off) स्पोर् या बीजाणु पृथकीकरण; जैसे फफूंदियों (mildews) में बीजाणुघर (sporophores) के सिरों के गोलाकार होने पर स्पोर या बीजाणु (spores) पृथक होते हैं।

abterminal—(L. *ab*, from; *terminus*, end) अन्तअभयान्तरी। अन्त (end) से अन्दर की ओर (inwards) जाना।

abysmal, abyssal—(Gk. *abyssos*, bottomless) अगाध-सामुद्रिक; नितलीय; वितलीय।

acanaceous—(Gk. *akanos*, thistle) सकंटक; सशूकी; काँटे युक्त।

acanthat—(Gk. *akantha*, thorn) काँटा; शूल-प्रवर्धन (spinous process)।

acanthaceous—(Gk. *akantha*, spine) सकंटकी; सशूली; काँटेदार।

acanthin—(Gk. *akautha*, thous) एकेन्थिन; कुछ रेडियोलेरिया (Radiolaria) में अस्थि बनाने वाला पदार्थ।

acanthion—(Gk. *akantha*, thorn) एकेन्थियोन; अग्रनासा शूल (nasal spine) का उन्नत बिन्दु (prominent point)।

acanthocarpous—(Gk. *akantha*, thorn; *karpos*, fruit) कंटक-फलीय; सकंटकी या काँटे दार फल (fruit) वाला।

acanthocephala—(Gk. *akantha*, thorn; *kephale*, head) एकेन्थोकिफैला; कंटक शीर्ष। कंटक-शीर्ष। सूत्र देही या नीमेटहैलमिन्थीज संघ (Phylum Ncmathel

- minthes) का एक ब्लास या वर्ग (class) । इस वर्ग में आन्तरिक परजीवी (internal parasites) होते हैं जिनका शुब्द या प्रोथ (proboscis) निःसरण शील या बहिःसारी (prouisible) और कटक-धारी होता है ।
- acanthocept**—(Gk. *akantha*, thorn; *klados*, branch) कटक-शाखीय ।
- acanthocyst**—(Gk. *akantha*, thorn; *kystis*, bladder) कटक-कोषीय; निर्मेटिया (Nemertea) जन्तुओं का कोष (sac) जिसमें पार्श्व (lateral) शूलिकायें (styl-ets) होती हैं ।
- acanthodei**—अकैन्थोडिआई; मत्स्यवर्ग (class pisces) के उपास्थिमीन (इलास्मोब्रैकाई-Elasmobranchi) उप वर्ग (subclass) का एक गण (order) जिसमें विलुप्त (extinct) मछलियाँ हैं ।
- acanthopore**—(Gk. *akantha*, thorn; *phesein*, to bear) कंकट-धारी ।
- acanthopore**—(Gk. *akantha*, thorn; *poros*, passage) नलिकाकार शूल ।
- acanthopteri**—अकैन्थोप्टेरी । मत्स्य वर्ग (class pisces) में पाये जाने वाले अस्थिमत्स्य उपवर्ग (sub-class osteichthyes) के अन्तर्गत ऐक्टिनोप्टेरिजी (Actinopterygii) गण (order) के टेलियोस्टिआई (teleostei) उपवर्ग की एक श्रेणी (Grade) ।
- acanthozoid**—(Gk. *akantha*, thorn; *zoon*, animal; *eidos*, form) पुच्छीय मुकुल; सेस्टोडा (cestoda) के प्रोस्कोलेक्स (prosclex) का पुच्छीय भाग [देखिये cystozoid—कोषिकीय मुकुल]
- acapnia**—(Gk. *akapnos*, without smoke) एकेपनिया; रक्त में कार्बन डाई आक्साईड की कम मात्रा होने की दशा ।
- acarida**—अकैरिडा । अरेकनोइडा (arachnoida) वर्ग (class) का एक गण (order), जिसमें चीचड़ी, वीर बहूटी आदि सम्मिलित हैं ।
- acaulescent**—(Gk. *a*, without; *kaulos*, stalk) लघु स्तम्भी(तना); छोटे तने वाला ।

- acauline**—(Gk. *a*, without; *kaulos*, stalk) अस्तम्भी (तना); बिना स्तम्भ या तने वाला ।
- accelerator**—(L. *accelerare*, to hasten) गति वर्धक; त्वरक; तरिक् ।
- acceptor**—(L. *accipere*, to accept) ग्राही; वह शरीर या पदार्थ जो बाहर से प्रवेश कराये हुए किसी पदार्थ को अपने में ग्रहण कर लेता है ।
- accessoriotous**—(L. *accedere*, to go to) (१) सहायी पेशी; वह पेशी जो किसी अन्य पेशी के कार्य में सहायता करती है । (२) ग्यारहवीं मस्तिष्कीय तंत्रिका (eleventh cranial nerve) ।
- accessory**—सहायी; सहकारी; सहगामी; गौण; अतिरिक्त; सहायक ।
- accessory bid**—अपर कलिका; अधिक् कलिका ।
- accessory chromosomes**—लिंग परम्परा सूत्र (क्रोमोसोम) ।
- accessory genital organ**—सहकारी (गौण) जननेन्द्रियाँ ।
- accessory gland**—सहगामी ग्रन्थियाँ; जनन वाहिनियों (genital ducts) से सम्बन्धित ग्रन्थियाँ ।
- accessory pulsatory organs**—सहायी स्पन्दनीय अंग; कीटों में विविध स्थिति कोषाकार (sac like) स्वतन्त्र स्पन्दनीय अंग ।
- acclimation**—(L. *ad* to; *climae*, climate) पारिस्थितिक अनुकूलन ।
- acclimatisation**—(L. *ad*, to; *clima*, climate) पारिस्थितिक अनुकूलन (मानव द्वारा पारिस्थितियों का नियंत्रण करने से) ।
- accomodation**—(L. *ad*, to; *commodus*, fitting) संधान क्षमता; संधान; समंजन । नेत्रों की विविध दूरी की वस्तुओं के देखने के लिये एक व्यवस्था ।
- acrescent**—(L. *acrescere*, to increase) अभिवृद्धिक; (१) ऐसे पीछे जो पुष्पित होने के बाद भी बढ़ते रहते हैं । (२) परागण (pollination) के पश्चात् कैलिकस (calyx) का आना ।

(median axis) से दूर खींचकर ले जाने वाली पेशी (muscle) को अपसारिणी या अपवर्तनी या बहिर्नायनी पेशी कहते हैं।

aberrant—(L. *aberare*, to wander away) आदर्श च्युत; विपथी; आदर्श भ्रष्ट; विपथन। वे जाति (species) जिनके लक्षण अपने आदर्श (type) के अनुसार नहीं होते, आदर्श च्युत कहे जाते हैं।

abscence—(L. *abire*, to depart) प्रतिक्रिया वर्जन; उत्तेजना-निवर्तन; किसी उत्तेजना या प्रतिक्रिया (reaction) से अलग हटना।

[देखिये—*adience* प्रतिक्रिया प्रगम]

abiogenesis—(Gk. *a*, not, *bios*, life; *genesis*, birth) स्वतंत्रोपादन; आजीव जीवोत्पत्ति; अजीवात् जनन; स्वयंमुत्पत्ति (spontaneous generation)। जीवों की निर्जीव पदार्थों से उत्पत्ति हो सकती है—यह मत।

abiology—(Gk. *a*, not; *bios*, life) निर्जीव विज्ञान।

abomasum—(L. *ab*, from, *omasum* pouch) एवोमैसम; जठरान्त; चतुर्थ आमाशय; रोमंथशीलों (ruminants) में पाया जाने वाला आमाशय (stomach) का चतुर्थ भाग।

aboral—(L. *ab*, from *as*, *oris*, mouth) मुख-प्रतिकूल; अपमुख।

abortion—(L. *abortus*; birth premature) गर्भ-स्राव; गर्भपात; वृद्धिरोध।

abortive—(L. *ab*, from, *orirs*, to rise) (1) अपूर्ण कालज; अपूर्णज (2) निष्फल; विफल; (3) वर्धनावरुद्ध (arrested in development) (4) अवरुद्धवृद्धि।

abranchiate—(Gk. *a*, without; *branchia*, gills) (without gills) गिलहीन।

abrupt—(L. *abruptere*, to break off) विच्छिन्न; प्रपान; असंबंध, असंलग्न, खंडित। सिरे पर रुटा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत होना।

abruptly-acuminate—उदग्र स्थल—ऐसी विस्तृत परा कोटि जिसमें नवीन पर्ण अथवा शाखा निकले।

abscission—(L. *abscindere*, to cut off) विल-गित।

absorption—(L. *absorbere*, to suck in) शोषण; अवशोषण; अवचूषण; सोखना। वह क्रिया जिससे पचा हुआ (digested) भोजन झिल्ली में से होकर रक्त में जा मिले।

abstriction—(L. *abstringere*, to cut off) स्पोर या बीजाणु पृथकीकरण; जैसे फफूंदियों (mildews) में बीजाणुघर (sporophores) के सिरों के गोलाकार होने पर स्पोर या बीजाणु (spores) पृथक होते हैं।

abterminal—(L. *ab*, from; *terminus*, end) अन्तअभयान्तरी। अन्त (end) से अन्दर की ओर (inwards) जाना।

abysmal, abyssal—(Gk. *abyssos*, bottomless) अगाध-सामुद्रिक; नितलीय; वितलीय।

acaneous—(Gk. *akanos*, thistle) सकंटक; सशूकी; काँटे युक्त।

acanthat—(Gk. *akantha*, thorn) काँटा; शूल-प्रवर्धन (spinous process)।

acanthaceous—(Gk. *akantha*, spine) सकंटकी; सशूली; काँटेदार।

acanthin—(Gk. *akautha*, thorn) एकेन्थिन; कुछ रेडियोलेरिया (Radiolaria) में अस्थि बनाने वाला पदार्थ।

acanthion—(Gk. *akantha*, thorn) एकेन्थियोन; अग्रनासा शूल (nasal spine) का उन्नत बिन्दु (prominent point)।

acanthocarpous—(Gk. *akantha*, thorn; *karpos*, fruit) कंटक-फलीय; सकंटकी या काँटे दार फल (fruit) वाला।

acanthocephala—(Gk. *akantha*, thorn; *kephale*, head) एकेन्थोकिफैला; कंटक शीर्ष। कंटक-शीर्ष। सूत्र देही या नीमेटहैलमिन्थोज संघ (Phylum Nematel

- minthes) का एक वलास या वर्ग class) । इस वर्ग में आन्तरिक परजीवी (internal parasites) होते हैं जिनका शुण्ड या प्रोथ (proboscis) निःसरण शील या वहिःसारी (prouisible) और कटक-धारी होता है ।
- acanthocept**—(Gk. *akantha*, thorn; *klados*, branch) कटक-शाखीय ।
- acanthocyst**—(Gk. *akantha*, thorn; *kystis*, bladder) कटक-कोषीय; निर्मेटिया (Nemertea) जन्तुओं का कोष (sac) जिसमें पार्श्व (lateral) शूलिकायें (styl-ets) होती हैं ।
- acanthodei**—अकॅन्थोडिआई; मत्स्यवर्ग (class pisces) के उपास्थिमीन (इलास्मोब्रॅंकाई-*Elasmobranchi*) उप वर्ग (subclass) का एक गण (order) जिसमें विलुप्त (extinct) मछलियाँ हैं ।
- acanthopore**—(Gk. *akantha*, thorn; *phesein*, to bear) कंकट-धारी ।
- acanthopore**—(Gk. *akantha*, thorn; *poros*, passage) नलिकाकार शूल ।
- acanthopteri**—अकॅन्थोप्टरी । मत्स्य वर्ग (class pisces) में पाये जाने वाले अस्थिमत्स्य उपवर्ग (sub-class osteichthyes) के अन्तर्गत ऐक्टिनोप्टेरिजी (Actinopterygii) गण (order) के टिलियोस्टिआई (teleostei) उपवर्ग की एक श्रेणी (Grade) ।
- acanthozoid**—(Gk. *akantha*, thorn; *zoon*, animal; *eidos*, form) पुच्छीय मुकुल; सेस्टोडा (cestoda) के प्रोस्कोलेक्स (proscoplex) का पुच्छीय भाग [देखिये cystozoid-कोशिकीय मुकुल]
- acapnia**—(Gk. *akapnos*, without smoke) एके-पनिया; रक्त में कार्बन डाई आक्साईड की कम मात्रा होने की दशा ।
- acarida**—अकॅरिडा । अरेकनोइडा (arachnoida) वर्ग (class) का एक गण (order), जिसमें चीचड़ी, वीर बहूटी आदि सम्मिलित हैं ।
- acaulescent**—(Gk. *a*, without; *kaulos*, stalk) लघु स्तम्भी(तना); छोटे तने वाला ।

- acauline**—(Gk. *a*, without; *kaulos*, stalk) अस्त-म्भी (तना); बिना स्तम्भ या तने वाला ।
- accelerator**—(L. *accelerare*, to hasten) गति वर्धक; त्वरक; त्तरिण ।
- acceptor**—(L. *accipere*, to accept) ग्राही; वह शरीर या पदार्थ जो बाहर से प्रवेश कराये हुए किसी पदार्थ को अपने में ग्रहण कर लेता है ।
- accessorius**—(L. *accedere*, to go to) (१) सहायी पेशी; वह पेशी जो किसी अन्य पेशी के कार्य में सहायता करती है । (२) ग्यारहवीं मस्तिष्कीय तंत्रिका (eleventh cranial nerve) ।
- accessory**—सहायी; सहकारी; सहगामी; गौण; अतिरिक्त; सहायक ।
- accessory bud**—अपर कलिका; अधिक कलिका ।
- accessory chromosomes**—लिंग परम्परा सूत्र (क्रोमोसोम) ।
- accessory genital organ**—सहकारी (गौण) जन-नेन्द्रियाँ ।
- accessory gland**—सहगामी ग्रन्थियाँ; जनन वाहिनियों (genital ducts) से सम्बन्धित ग्रन्थियाँ ।
- accessory pulsatory organs**—सहायी स्पन्दनीय अंग; कीटों में विविध स्थिति कोषाकार (sac like) स्वतन्त्र स्पन्दनीय अंग ।
- acclimation**—(L. *ad* to; *climae*, climate) पारिस्थितिक अनुकूलन ।
- acclimatisation**—(L. *ad*, to; *clima*, climate) पारिस्थितिक अनुकूलन (मानव द्वारा पारिस्थितियों का नियंत्रण करने से) ।
- accomodation**—(L. *ad*, to; *commodus*, fitting) संधान क्षमता; संधान; समंजन । नेत्रों की विविध दूरी की वस्तुओं के देखने के लिये एक व्यवस्था ।
- accrescent**—(L. *accrescere*, to increase) अभिवृद्धिक; (१) ऐसे पौधे जो पुष्पित होने के बाद भी बढ़ते रहते हैं । (२) परागण (pollination) के पश्चात् कॅलिक्स (calyx) का आना ।

accretion—(L. *accrescere*, to increase) अभि-
वृद्धिता; बाहर से नवीन पदार्थों के संयुक्त होने के कारण
वृद्धि (growth) ।

accumbent—(L. *accumbere*, to lie on) प्रति-
स्थित; ऐसा भ्रूण जिसमें बीजपत्र (cotyledons) मूलां-
कुर (radicle) की ओर घूमे होते हैं जैसे क्रूसिफेरी
(cruciferae) में ।

acentric—(Gk. *a*, without; *kentron*, centre)
अकेन्द्री; अगुणसूत्रविन्दुहीन; सेन्द्रोमियर हीन; ऐसे
क्रोमोसोम जिनमें सेन्द्रोमियर नहीं होता है ।

acentrous—(L. *a*, without; *centrum*, centre)
सेन्द्रमहीन (कशेरू); अकेन्द्रक (कशेरू); अमूल कशेरुक ।

acephalous—(Gk. *a*, not; *kephale*, head) एकि-
फेलस; शिरविहीन; अशीर्षी; शिर-हीन; मुंडकहीन ।

acerate—(L. *acer*, sharp) सूचिकाकार; सूच्याकार,
एक ओर नुकीला जैसे एकाक्ष कंटिका (monaxon spi-
cule) या तीक्ष्ण कंटिका (oxeote spicule) आदि ।

acerose—(L. *acer*, sharp) सूच्याकार; पतली और
आगे से नुकीली जैसे चीड़ (pine) की पत्ती ।

acervuline—(L. *acervus*, heap) ढेर; इकट्ठा किया
हुआ ।

acetylcholine—एस्टीकोलाइन; किन्ही तंत्रिका सूत्रों के
छोर पर उत्तेजना के पहुँचने पर स्त्रावित पदार्थ । यदि
तंत्रिका सूत्र अंतग्रन्थन या सिनेप्स (synapse) पर
समाप्त होता है जैसा कि संवेदी (sympathetic) और
परासंवेदी (parasympathetic) गैंगलियाँ (ganglia)
में होता है, एस्टीकोलाइन (ACh) ऐसा वाहक (agent)
होता है जो समीप की तंत्रिका कोशिका को उत्तेजित
करता है । और इस तरह उत्तेजना को संचारित करता
है । इसी तरह जबकि तंत्रिका सूत्र प्रभावक (effector) से
जुड़ा होता है जैसा कि तंत्रिका-पेशी सन्धि में होता है
एस्टीकोलाइन (ACh) शीघ्र ही कोलीनेस्टिरेस (cho-
linesterase) एन्जाइम से एसीटेट और कोलाइन में
छिन्न कर नष्ट कर दिया जाता है । यह कोलाइन (chol-
ine) का एसीटिल (Acetyl) एस्टर (ester) होता है ।

acetabulum— 1. *acetabulum*, vinegar cup) ऐसी
टैबुलम ।

(१) श्रोणि-उलूखल; वस्तिगर्त । वस्ति की हड्डी
अर्थात् पेलविस (pelvis) अस्थि पर स्थिति गढ़े जैसा
वह भाग जिसमें जाँघ की हड्डी फीमर जुड़ती है ।

(२) पटपाद या कीट (insects) वर्ग में “पाद गर्त”
घड़ का वह स्थान जिसमें पैर लगे होते हैं ।

(३) सेफेलोपोडा या क्फेलोपोडा (cephalopoda)
वर्ग में ‘भुजा-रूपक’; भुजाओं (arms) पर पाये जाने
वाले चूषक (suckers) ।

(४) रोमन्यशीलों या रोमन्यीयों (ruminants) में
कमल या अपरा (प्लेसेन्टा-placenta) का एक ग्राहक
गुच्छ (cotyledon) ।

(५) जोंको (leeches) में वृहद् ‘पश्च-रूपक’ (post-
erior sucker) ।

(६) पट्ट-कृमि (प्लैटीहेल्मिन्थीज-platyhelminthes)
में ‘अधरचूषक’ (ventral sucker) ।

(७) इकीनोइड (echinoids) में कटक (spine) के
समीपस्थ छोर (proximal end) पर का ‘गड्ढा’ ।

achaetous—(Gk. *a*, without; *chaite*, hair)
सीटीहीन; शूक (bristle) हीन ।

acheilary—(Gk. *a*, without; *cheilos*, lip) अओ-
ष्ठकी; अवद्धित औष्ठकी (labellum)

achene—(Gk. *a*, not; *chainein*, to gape) एकीन;
एक बीज वाला, सूखा, अस्फुटनशील (indehiscent)
फल ।

achlamydeous—(Gk. *a*, without; *chlamys*,
cloak) बाह्यदलपुंज या कैलक्स (calyx) व दलपुंज
या कोरोला (corolla) हीन ।

achondroplasia—न्यूनोपास्थि रोग; उपास्थि अतिकसन ।
इस रोग में उपास्थि (cartilage) की न्यूनता (कमी)
के कारण शरीर बीना और हाथ पाँव छोटे-छोटे रह जाते
हैं; परन्तु घड़ यथावत् बना रहता है ।

achroglobin—(Gk. *a*, not; *chros*, colour; *globos*,
sphere) एक्रोग्लोबिन; कृच्छ कंचुकित (tuicates) और

कवची (molluscs) का रंगहीन श्वसन वर्णक (pigment) ।

achromasie—(Gk. *a*, not; *chroma*, colour) क्रोमेटिन (chromatin) स्त्राव; क्रोमेटिन का केन्द्रक से बाहर निकालना । [देखिये chromasie न्यूक्लियोलस स्त्राव]

achromatic—(Gk. *a*, without; *chroma*, colour) प्रकाशप्रवाही; प्रकाशोत्पादक; वह न्यूनतम उत्तेजना जो प्रकाश या चमक ला देती है ।

[देखिये—chromatic वर्णक]

achromation—(Gk. *a*, without; *chroma*, colour) ऐक्रोमेटिन; अक्रोमेटिन; रंगाक्षय । न्यूक्लियस (nucleus) में पाया जाने वाला पदार्थ विशेष, जो रंग नहीं पकड़ता ।

achroous—(Gk. *a*, without; *chros*, complexion) रंगहीन; अवर्णी ।

acicle—(L. *acicula*, small needle) लघुकंटक ।

acicular—(L. *acicula*, small, needle) सूच्याकार; शूकी ।

aciculum—(L. *acicula*, small, needle) ऐसिक्युलम; रोमिका; ऐनेलिडा (annelida) खण्ड देहियों में पार्श्वपादों या प्रपादों (पैरापोडिया) के मूल में पाई जाने वाली सख्त शूक या रोमिका या सीटा (seta) ।

acidic—(L. *acidus*, sour) अम्लीय ।

acidophil—(L. *acidus*, sour; Gk. *philein*, to love) तीव्र अम्लरंगी; शीघ्र (गूढ़) अम्ल वर्णी ।

[देखिये—oxyphil]

acinaciform—(L. *acinaces*, short sword; *forma*, shape) असिकार (sword like)

acinarius—(L. *acinus*, berry) चक्राशयी; गोलाकार आशय युक्त; जैसे कुछ शैवाल (algae) ।

aciniform—(L. *acinus*, berry; *forma*, shape) द्राक्षाकार । मकेड़ियों (spiders) में एक प्रकार की कौशय (silk) ग्रन्थि ।

acinus—(L. *acinus*, berry) एसाइनस; गुच्छीय; रसभरी (raspberry) जैसा फल ।

acme—(Gk. *akme*, prime) परम विकास; यौवन; जाति विकास और व्यक्ति विकास के जीवन में सबसे उच्च स्थिति । [देखिये—epacme—परमोन विकास

paracme—अवसाद (अवपात्)

acoelomate—(Gk. *a*, without; *koilos*, hollow)

सीलोम हीन; गव्हर-हीन; देहगुहाहीन, एसीलोमेटा, निष्कोटर (जन्तु विशेष) । वे जन्तु जिनमें सीलोम या देहगुहा या कोटर (coelom) नहीं होती, जैसे स्पन्ज (sponge), हाइड्रा (Hydra) आदि ।

acoelous—(Gk. *a*, without; *koilos*, hollow) अगुहिक या अगर्ती (कशेरू) ।

acondyloous—(Gk. *a*, without; *kondylos*, knuckle) असंधिक; अकांडी ।

acone—(Gk. *a*, without; *konos*, cone) अक्रिस्टलीय शंकु; ऐसा कीट संयुक्त नेत्र जिनमें शंकु कोशिकाओं में क्रिस्टलीय या तरल स्राव नहीं होता है ।

acontia—(Gk. *akontion*, small javelin) ऐकॉन्शिया; दंशक-सूत्र । प्रसून-काय या ऐक्टिनोजोआ (actinozoa) वर्ग के जन्तुओं में पाये जाने वाले, दंशक-कोशिकाओं (stinging-cells) से युक्त-डोरे-जैसे अवयव ।

acotyledon—(Gk. *a*, without; *kotyledon*, a cup shaped hollow) अवीज पत्री; अवीज पर्णी; ऐसा पौधा जिसमें बीज पत्र या पर्ण (cotyledon) नहीं होते हैं ।

acoustic—(Gk. *akouein*, to hear) श्रावणिक; ध्वनिक; ध्वानिक ।

acoustic spot—श्रवण बिन्दु ।

acquired—(Gk. *ad*, to and *querere*, to seek) उपार्जित; उपलब्ध । (वे बातें) जो वंशागत (inherited) न हों, परन्तु व्यक्ति के जीवनकाल में ही उपार्जित (उत्पन्न) की गई हों ।

acquired characters—उपार्जित लक्षण । शरीर के वे परिवर्तन (modifications) जो व्यक्ति (individual) के जीवन-काल (life-time) में रोग, चोट, प्रयोग (use) अनुप्रयोग (disuse), वातावरण (environment) के प्रभाव आदि कारणों से उत्पन्न हो जाँएँ ।

acraspedote—(Gk. *a*, without; *kraspedon*, an edge or border) निरंचल [निर+अंचल] नीलमहीन; अविच्छद ।

acrania—(Gk. *a*, without; *kronion* the head) ऐक्रेनिया ; अकपाली । कॉर्डेटा (chordata) फाइलम का एक उपफाइलम या उपसंघ (sub-phylum) ।

acroblast—(Gk. *akros*, tip; *blastos*, bud) एक्रो-ब्लास्ट; शिरस्पिण्डजन; अग्रकोरक; वीर्याणुक (spermatid) में एक पिण्ड जो शुक्राणुशीर्ष (acrosome) को जन्म देता है ।

acrobryous—(Gk. *akros*, tip; *bryein*, to swell) छोरप्रभव; छोरज । केवल छोर (tip) पर ही बढ़ने वाले (growing) ।

acrocarpic—(Gk. *akros*, tip; *karpos*, fruit) अक्षांतफली । अक्ष (axis) पर फल लगने वाले जैसे शैव (mosses) ।

acrocentric—(Gk. *akros*, tip; *kentron*, centre) एक्रोसेन्द्रिक; शिखरस्थ केन्द्री; शिरस्परम्परा सूत्री; अग्रविन्दुक ।

acrochordal—(Gk. *akros* tip; *chorde*, card) एक्रोकोर्डल; पक्षियों की अयुग्मिक ललाटीय (frontal) उपास्थि ।

aerocoracoid—(Gk. *akros*, tip; *korax*, crow; *eidos* form) एक्रोकौराकोइड; अग्रतुंडाग्र प्रवर्ध; पक्षी के कोराकाइड के पृष्ठ छोर पर स्थिति एक प्रवर्धन (process) ।

acrocyst—(Gk. *akros*, tip; *kystis*, bladder) अग्राशय; जनन कोशिकाओं के परिपक्वता पर बना एक गोलाकार आशय ।

acrodont—(Gk. *akros*, tip; *odous*, tooth) अग्र-दन्ती; शिखरस्थ दन्त या दाँत) ।

acrodrome—**acrodromous**—(Gk. *akros*, tip; *dromein*, to run) शिरासंनिपाती; अभिसारी शिरा युक्त पत्ती; ऐसी पत्तीयाँ जिनमें शिरायें अग्रछोर पर अभिसारी (संनिपात) वाली होती हैं ।

acrogenous—(Gk. *akros*, tip; *genos*, offspring) अग्रवर्धी ।

acromegaly—(Gk. *akros*, tip; *megalon*, great) महाकायता; अग्रतिकायता; अतिकायता; दैत्यपन । पिट्यूटरी (pituitary) ग्रन्थि के एक भाग की अधिक क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न महाकायता (gigantism) ।

acromial—(Gk. *akros*, summit; *omos*, shoulder) एक्रोमियन सम्बन्धी धमनी, लिगामेंट. प्रवर्ध आदि ।

acromion—(Gk. *akros*, summit; *onos*, shoulder) एक्रोमियन या अक्रोमियन; अंसफलक कूट (scapular spine) की अधर वितति (prolongation) ।

acron—(Gk. *akros*, tip) मुखाग्र क्षेत्र । कीट (insects) में मुख के पूर्व का क्षेत्र ।

acropetal—(Gk. *akros*, summit; *L. petere*, to seek) तरुण शीर्षी; अग्रोच्छाय; अग्रतरुणी । ऐसे पत्ती, फूल आदि जो अक्ष से इस प्रकार उद्भिद होते हैं कि सबसे छोटे (youngest) अर्थात् तरुण शिखर (apex) पर होते हैं ।

acrophyte—(Gk. *akron* peak; *phyton*, plant) उच्च उत्सेधी वृक्ष; ऊँचाई पर पाये जाने वाले वृक्ष जैसे चीड़ (alpine) आदि ।

acropodium—(Gk. *akros*, tip; *pous*, foot) पादाग्र । [देखिये—metapodium पादपञ्च]

acrorhagus—(Gk. *akros*, summite; *rhax*, grape) एक्रोरैगस; कुछ एकटीनियेरिया (actiniaria) के तट के समीप स्थिति ग्रन्थि जिनमें विशिष्ट दंशक कोशिकायें (nematocysts) होती हैं ।

acrosarc—(Gk. *akros*, summit; *sarx*, flesh) एक्रोसार्क; सरस बेरी (berry) जो कैलिक्स (calyx) और डिम्बाशय (ovary) के संलय से बनता है ।

acrosopic—(Gk. *akros*, tip; *skopein*, to view) शीर्षसंमुखी; अग्रो-मुख ।

[देखिये basisopic—अधरसंमुखी]

acrosome—(Gk. *akros*, tip; *some*, body) एक्रो-

सोम; अग्रपिंडक; वेधकशीर्ष; शिरस्पिण्ड; शुक्राणु शीर्ष ।
acrospire—(Gk. *akros*, tip; *sperira*, something twisted) प्रांकुर; शिखरधूर्णी; शिखर आकुचक ।
acrosore—(Gk. *akros*, tip; *sporos*, seed) अग्रबीजाणु ।
acroteric—(Gk. *akroterion*, top most point) शिखरस्थ; किसी भी अंग का सबसे ऊँचा बाहरी भाग ।
acrotonus—(Gk. *akros*, tip; *tonos*, brace) शीर्ष संलग्नी; शीर्ष पर जुड़े पराग कोष वाले ।
 [देखिये—*basitonous* अधरसंलग्नी]
acrotrophic—(Gk. *akros*, tip; *trophe*, nourishment) शिखरपोषी; अग्रपोषी; ऐसे अण्डाशयक युक्त जिन में पोषक कोशिकायें (nutritive cells) शिखर पर होती हैं तथा जो डिम्बक (oocytes) से पोषक रज्जु द्वारा जुड़ी होती हैं । [देखिये—*telotrophic* अंतपोषी]
actinal—(Gk. *aktis*, ray) मुखदिशी; मौखिक ।
 (१) फाइलम एकाईनोडरमेटा में “पादधारी तल”, वह तल (surface), जिसमें नालिका पाद (tube feet) पाये जाते हैं ।
 (२) ऐक्टिनियेरिया (actiniaria) वर्ण में “मौखिक-प्रदेश” जिस पर स्पर्शक या स्पर्शतन्त्र (tentacles) लगे होते हैं ।
actine—(Gk. *aktis*, ray) एकटाइन; तारा आकृतिक या तारेनुमा स्पीक्यूल ।
actinenchyma—(Gk. *aktis*, ray; *en*, in; *akein*, to pour) तारोपम ऊतक । ऐसा कोशिकीय ऊतक जो तारेनुमा दिखाई देता है ।
actiniaria—ऐक्टिनियेरिया । फाइलम सोलेनूटा का एक ऑर्डर या गण (order) ।
actinobiology—(Gk. *aktis*, ray; *bios* life; *logos*, discourse) विकिरण प्राणिविज्ञान । सजीव पर विकिरण (radiation) का प्रभाव अध्ययन सम्बन्धी प्राणिविज्ञान ।
actinoblast—(Gk. *aktis*, ray; *blastos*, bud) दृढ़जात; वह मातृ कोशिका जिससे स्पीक्यूल (दृढ़) वर्धित होता है ।

actinocarpous—(Gk. *aktis*, ray; *karpos*, fruit) अर-फली; ऐसे पौधे जिनमें फूल व फल अरीय (radially) लगे होते हैं ।
actinodrome—(Gk. *aktis*, ray; *dromos*, course) हस्ताकार शिरी; ऐसी आकृति जिनमें शिरा (veins) हस्ताकार (palmately) होती हैं ।
actinogonidial—(Gk. *aktis*, ray; *gonos* offspring) अर-जननैद्रिक; अरजननांगी; ऐसे प्राणी जिनमें जननैन्द्रियाँ (genital organs) अरीय क्रम से लगी होती हैं ।
actinoid—(Gk. *aktis*, ray; *eidos*, shaped) तारोपम; किरणी ।
actinomere—(Gk. *aktis*, ray; *meros*, part) अर खण्ड; अरांश ।
actinomorphic—(Gk. *aktis*, ray; *morphe*, shape) अर-सम्मतिक; अर-समांशी ।
actinopharynx—(Gk. *aktis*, ray; *pharynx*, gullet) अर-कण्ठी; जैसे सी ऐनीमोन (sea-anemone) जन्तु का फॉरिक्स (कण्ठ) ।
actinopterygii—ऐक्टिनोप्टेरिजी । मत्स्य वर्ग के अन्तर्गत अस्थिमत्स्य उपवर्ग (subclass osteichthys) का एक ऑर्डर या गण (order) ।
actinosome—(Gk. *aktis*, ray; *some*, body) ऐक्टिनोसोम; तारापिण्ड ।
actinostome—(Gk. *aktis*, ray; *stoma*, mouth) तारोपम मुखी; (१) सीऐनीमोन का मुख; (२) स्टार फिश (star-fish) का पंचकिरणी मौखिक छिद्र (oral aperture) ।
actinotrichia—(Gk. *aktis*, ray; *thrix*, hair) तारोपम रोम ।
actinotrocha—(Gk. *aktis*, ray; *trochos*, wheel) ऐक्टिनोट्रोका; चक्राडिभक; चक्रार्भक । फोरोनिस (phoronis) जन्तु का स्वतन्त्र तैरने वाला डिभक या लारवा (larva) ।
actinozoa—(Gk. *aktis*, ray; *zoon* animal)

एक्टिनोजोआ । प्रसूनकाय । सीलेन्-रेटा (coelenterata)

फाइलम का एक वर्ग (class) ।

actinula—(Gk. *aktis*, ray) एक्टिनूला । हाइड्रो मेडुसार्थों में पाई जाने वाली डिंभक या लारवल (larval) स्थिति ।

activator—(L. *activus*, active) क्रियाशीलक; सक्रियक; प्रोत्साहक । वह पदार्थ या रसायन जो एन्जाइम क्रिया को क्रियाशील या सक्रिय करता है ।

aculeate—(L. *aculeus*, prickle) तीक्ष्णवर्ध; दंशी; तेज (तीक्ष्ण) कांटे युक्त ।

aculeiform—(L. *aculeus*, prickle; *forma*, shape) तीक्ष्ण वर्धोपम; दंशोपम; कांटे के आकार का ।

aculeus—(L. *aculeus*; prickle) (१) कांटा; छाल (bark) से उगने वाला कांटा जैसे गुलाब का; (२) डंक (sting); (३) अणुरोम (microtrichium) ।

acuminate—(L. *acumen*, point) तीक्ष्णाग्र ।

acuminiferous—(L. *acumen*; point; *ferre*, to carry) तीक्ष्ण कन्दुकी ।

acuminulate—(L. *acuminulus*, dim. of *acumen*, point) शुंडाकृति; आगे से नुकीली आकृति ।

acute—(L. *ocutus*, sharpened) तीव्र, निश्चिन्ता ।

acyclic—(Gk. *a*, without; *kyklos*, circle) अचक्रीय; ऐसे पुष्प जिनमें पुष्प पत्र सर्पिल (spiral) लगे होते हैं ।

adamantoblast—(L. *adamas*, diamond; Gk. *blastos*, bud) इनेमल कोशिका; इनेमल कोरक (ameloblast) ।

adambulacral—L. *ad*, to; *ambulare*, to, walk) वीथिनिकटस्थ; पादासन्न (पाद+आसन्न) ।

adam's apple—टेंदुआं या टेंदुआ । (मानव में) गले का बाहरी उभार ।

adaptation—(L. *ad*, to; *aptare*, to fit) उपयुक्तता; अनुकूलन; अनुकूलता । प्राणी की रचना, क्रिया और स्वभाव में परिवर्तन कर देने वाली वह प्रक्रिया (process) जिसके कारण वह अपने वातावरण (environ-

ment) या जीवन-विधि (mode of life) के अनुकूल या उपयुक्त बन जाता है ।

उपयुक्ततायें निम्न हो सकती हैं—

(१) विकासीय (evolutionary)

समष्टि उपयुक्तता—जीवित अंगी का वह लक्षण जो उन्हें वातावरण के प्रति उत्तर जीविता के हेतु अधिक अवसर प्रदान करता है । ऐसे लक्षण संतति में भी पहुँचते हैं । अतः प्राकृतिक वरण समष्टि में उपयुक्तता लाता है ।

विशिष्ट लक्षण उपयुक्तता—जीवित अंगी का कोई ऐसा विशिष्ट लक्षण प्राप्त करना जिससे वह विनाश से बचाव कर सके ।

विशेष क्रिया उपयुक्तता—जैसे उड़ान—अंगी का उड़ान जैसा लक्षण अपनाया जाना, जिससे उत्तर जीविता प्राप्त होती हो ।

(२) कार्यकीय (physiological)—

अंगी में ऐसे परिवर्तन जो किन्हीं वातावरणीय दशाओं के प्रति अधिक से अधिक प्रतिक्रिया करने हेतु उपयुक्त कर दें । ऐसी उपयुक्तता कार्य की उपयुक्तता होती है ।

(३) संवेदीय (sensory)—

किसी निरन्तर उत्तेजना के प्रति संवेदीय अंग का संवेदना के प्रति उदासीन या उपयुक्त हो जाना यद्यपि वही संवेदी अंग तीव्र उत्तेजना प्राप्त होने पर पुनः क्रियाशील होते हैं । जैसे स्पर्शग्राही ।

adaptive modification—उपयोगी परिवर्तन; अनुकूल परिवर्तन ।

adduction—(L. *ad*, to; *ducere*, to lead) मध्याक्ष-वर्तनी; मध्याक्ष की ओर गति ।

adductor—(L. *ad*, to; *ducere*, to lead) अभिवर्तनी; समीपकर्षी; दो भागों को खेंच कर परस्पर निकट लाने वाली (पेशी) ।

adeciduate—(L. *a* away from; *de*, from; *cadere*, to fall) अपतनशील अपरा या नाल या कमल (प्लैसेन्टा-placenta)

adelocodonic—(Gk. *adelos*, concealed; *kodon*, bell) अव्यक्त मुकुल ।

[देखिये—phanerocodonic व्यक्त मुकुल]

adelomorphic—(Gk. *adelos*, concealed; *morphe*, shape) अनिश्चितकार; जैसे, पेटिक ग्रन्थियों की केन्द्रीय कोशिकायें ।

adelphogamy—(Gk. *adelphos*, brother; *gamos*, union) जनक-संतति युग्मन, भ्रातृ-भगिनी संगम; जैसे कुछ चीटीयों में भाई-बहिन का संगम (mating) ।

adelphous—(Gk. *adelphos*, brother, संघी; जैसे पुंकेसर (stamens) के पुं तंतु (filament) के बण्डल ।
[देखिये—monadelphous एक संघी]
[diadelphous—द्विसंघी]

adenritic—(Gk. *a*, not; *dendron*, tree) अद्रु-मिका; अशाखीय ।

adenoglia—(Gk. *a*, not; *dendron*, tree; *glia*, glue) अशाखीय तंत्रिकाश्लैष्म ।

adenine—(Gk. *aden*, gland) ऐडेनीन या एडिनाइन; कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक यौगिक जिसका जन अपघटन (hydrolysis) एडीनेस (adinase) से हाइपोजेन्थीन (hypoxanthine) $C_5 H_5 N_5$ में हो जाता है ।

adenoblast—(Gk. *aden*, gland; *blastos*, bud) एडोनोब्लास्ट; अणुिक ग्रन्थीय कोशिका ।

adenocheiri—(Gk. *aden*, gland; *cheir*; hand) एडीनोकिरी; टरबेलेरिया (*Turbellaria*) के विस्तृत सहायी मैथुनांग (copulatory organs) ।

adenohypophysis—(Gk. *aden*, gland; *hypo*, under; *physis*, growth) एडीनोहाइपोफाइसिस; पिट्यूटरी ग्रन्थि की ग्रन्थिल पाली (lobe) ।

adenoid—(Gk. *aden*, gland; *eidōs*, shape) एडिनोइड ।

adenophore—(Gk. *aden*, gland; *pherein*, to carry) ग्रन्थिधर; पुष्पासव (nectar) ग्रन्थि डन्ठल (stalk) ।

adenophyllous—(Gk. *aden*, gland; *phyllon*, leaf) ग्रन्थिल पर्णी; ग्रन्थियुक्त पत्तियों (पर्ण) वाला ।

adenopodous—(Gk. *aden*, gland; *pous*, foot) ग्रन्थिलचून्ती; ग्रन्थि युक्त वृत्त (petioles) ।

adenose—(Gk. *aden*, gland) ग्रन्थिल; ग्रन्थियुक्त; ग्रन्थिमान ।

adenostemonous—(Gk. *aden*, gland; *stemon*, spun thread) ग्रन्थिल पुंकेसरी; ग्रन्थि युक्त पुंकेसर (stamens) ।

adequate—पर्याप्त; क्षम; तुल्य ।

adermine—ऐडरमीन; विटामिन B_6 , पाइरीडोक्सिन ।

adesmy—(Gk. *adesmos*, unfettered) खंडन, भंजन; किसी अंग में प्रायः सम्पूर्ण टूट या विभाजन ।

adfrontal—(L. *ad*, to; *frons*, forehead) उपललाट; कुछ कीट डिम्बों में ललाटिका (frons) के पास पाई जाने वाली तिरछी पलेट ।

adherent—(L. *ad*, to; *haerere*, to stick) आसंजित ।

adhesion—(L. *ad*, to; *haerere*, to stick) आसंजन; किन्हीं भागों का मिल जाना जो सामान्यतः पृथक होते हैं ।
[देखिये—cohesion संसक्त]

adhesive cells—संलग्नशील कोशिकायें; आसंजी कोशिकायें; चिपक जाने वाली कोशिकायें; आसंजक कोशिकायें ।

adhesive cushions—(L. *ad*, to; *haerere*, to stick) संलग्नशील, उपधान (गर्दियाँ); चिपक जाने वाली गर्दियाँ ।

adhesive papilla—संलग्नशील कूट; आसंजक पैपिला ।

adience—(L. *adire*, to approach) प्रतिक्रिया प्रगम; प्रचुद; किसी प्रतिक्रिया की ओर बढ़ना ।

[देखिये abience प्रतिक्रिया वर्जन]

lipocyte—(L. *adeps*, fat; Gk. *kytos*, hollow) वसाकोशिका; कोटों में वसा बनाने वाली एक कोशिका ।

adipoleucocyte—(L. *adeps*, fat; Gk. *leukos* white; *kytos*, hollow) वसाश्वेताणु ।

adipose—(L. *adeps*, fat) वसामय; मेदोमय ।

adipose bodies—वसा-पिण्डक; मेदोमय पिण्ड ।

adipose tissue

adipose tissue—वसा-ऊतक ।

aditus—(L. *aditus*, entrance) प्रवेशाकृति; किसी भाग में प्रवेश करती हुई संरचना (anatomical structure) ।

adjustor—व्यवस्थापक; समायोजनी ।

adlacrimal—(L. *ad*, to; *lacrima*, tear) एडलेक्रीमल; सर्पक (reptiles) की लेक्रीमल अस्थि ।

adminiculum—(L. *adminiculum*, support) गतिकूट ।

adnasal—(L. *ad*, to; *nasus*, nose) एडनेजल; उपनासास्थि; किन्हीं नस्यों में प्रत्येक नेजल अस्थि के आगे एक छोटी अस्थि ।

adnate—(L. *ad*, to; *gnatus*, born) संलग्न; संहत; संश्लिष्ट; ऐसी दशा जिसमें वृत्त (petiole) या स्तम्भ (stalk) से जुड़ी हुई आकृतियाँ-उपपर्ण (stipules) या पर्ण (leaves) होती हैं ।

[देखिये conjoined संश्लिष्ट]

adnexa—(L. *ad*, to; *nectere*, to bind) अनुबन्धित ।

adnexed—(L. *ad*, to; *nectere*, to bind) स्तम्भ स्पर्शी; स्तम्भ तक पहुँचती हुई आकृति ।

adolescaria—(L. *adolescere*, to grow up) एडोलस्केरिया; मेटासर्केरिया; ट्रिमेटोडा (trematoda) जन्तुओं की एक अर्भक अवस्था ।

adoral—(L. *ad*, to; *os*, mouth) अभिमुखीय ।

adpressed—(L. *ad*, to; *pressus*, pressed) अधिलग्न; तल (surface) से चिपकी हुई संरचना ।

adradius—एडरेडियस; गौण व्यासार्द्ध; गौण त्रिज्या । सीलेन्ट्रेटा जन्तुओं में वह अर्ध-व्यास जो मुख्य व्यासार्द्ध (per-radius) और उप मुख्य व्यासार्द्ध (inter-radius) के बीचों बीच हो ।

adrectal—(L. *ad*, to; *rectum*, rectum) गुदासन्न (गुदा + आसन्न) ।

adrenal—(L. *ad*, to; *renes*, kidneys) ऐड्रिनल ग्रन्थि

(gland); उपवृक्क । वृक्क (kidney) के पास स्थिति हार्मोन (hormone) उत्पन्न करने वाली ग्रन्थि विशेष ।

adrenalin—ऐड्रिनेलिन; उपवृक्क रस । ऐड्रिनल ग्रन्थि का हार्मोन या उद्दीपक रस । यह रस भय या क्रोध की दशा में अधिक मात्रा में निकलता, शर्करा (sugar) को बढ़ाता और हृदय की गति को बलिष्ठ और तीव्र करता है ।

adrenergic—(L. *ad*, to; *renes*, kidney; Gk. *ergon*, work) सहस्त्रावी; ऐड्रीनलीन वर्धी ।

adrostral—(L. *ad*, to; *rostrum*, beak) उपचंचुक ।

adsorption—(L. *ad*, to; *sorbere*, to suck in) अधिशोषण; अधिचूषण ।

aduncate—(L. *aduncus*, hooked) हुकोपम; अंकुशानत; हुक (hook) के समान भुका हुआ ।

adult—(L. *adultus*, to grow) प्रौढ़; वयस्क ।

advehent—(L. *advehere*, to carry to afferent) अन्तर्गामी या अभिवाही; किसी अंग की ओर ले जाने वाले ।

adventitia—(L. *adventitius*, extraordinary) बाह्य छद; रक्त वाहिनियों का बाह्य-बन्धक ऊतक (connective tissue) स्तर ।

adventitious—(L. *adventitius*, extraordinary) अपस्थानिक; ऐसे ऊतक और अंग जो आकस्मिक स्थानों में पाये जाते हैं ।

aecidiospores—(L. *aecidium*, cup; Gk. *sporos*, seed) इसीडियोस्पोर; इसीडियम-बीजाणु ।

aecidium—(L. *aecidium*, cup) बीजाणुधर ।

aedeagus—aedocagus—(Gk. *aidoia*, genitals) नरप्रवेशांग, नर प्रवेशक (कीटों का) ।

aegithognathous—(Gk. *aegithos*, hedge-sparrow; *gnathos*, jaw) चटकहवी; इजियाग्नैथस; पक्षियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का तालु (palate) । इसमें मैक्सिलो-पैलेटाइन प्रथक होती है वोमर आगे से

बीच में घुसी होती है तथा पीछे से व्युत्क्रम (diverge) होती है ।

aeolian—(L. *Aeolus*, God of the winds) वायूद; वायु संचित; वायु जात ।

aerenchyma—(Gk. *aer*, air; *engchyma*, infusion) ऐरेन्काइमा; वायूतकीय ।

aerobiosis—(Gk. *aer*, air; *biosis* manner of life) वातापेक्षजीवन, आक्सीजनजीवी; आक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहने वाले प्राणी ।

aerocyst—(Gk. *aer*, air; *kystis*, bladder) वात-पुटी; वात कोषिका; शैवाल (algae) में पाया जाने वाला वात-कोषिका (air vesicle) ।

aerophyte—(Gk. *aer*, air; *phyton*, plant) वायु-पादप; वातोद्भिद्; ऐसा पादप या पौधा जो अन्य पौधे के वायवी भाग पर उगता है ।

[देखिये epiphyte अधिपादप]

aeroplankton—(Gk. *aer*, air; *planktos*, wandering) वायुप्लवक । ऐसे सजीव (बीजाणु, बैक्टीरिया, परागकण या निर्जीव कण) जो वायु के साथ उड़ते हैं ।

aerostat—(L. *aer*, air; *stare*, to stand) वात-कोश; जैसे कीट शरीर में अथवा पक्षी अस्थियों में ।

aerostatic—(L. *aer*, air; *stare*, to stand) वातिल; अवयानिकी ।

aerotaxis—(Gk. *aer*, air; *taxis*, arrangement) वात विन्यास; वातानुचलन ।

aerotropic—(Gk. *aer*, air; *trope*, turn) वातानु-वर्तनी ।

aerotropism—(Gk. *aer*, air; *trope*, turn) वातानु-वर्तन; गैस मुख्यतः आक्सीजन प्रतिक्रिया ।

aesthacyte—(Gk. *aisthesis*, sensation; *kytos*, hollow) चेतन कोशिका; आद्य जन्तुओं (primitive animals) की चेतन कोशिका (sensory cell) ।

aesthesis—(Gk. *aisthesis*, sensation) संचेतनता ।

aesthetasc—(Gk. *aisthesis*, sensation; *asthein*, to exercise) घ्राणग्राही; घ्राणक ।

aesthetes—(Gk. *aisthetes*, perceiver) ज्ञानेन्द्रियाँ; वेदनांग; चेतनांग । ।

aerial—(L. *aer*, air) ऐरियल; वायवं; वायु; वायु सम्बन्धी; वायुमय ।

aerobe—(Gk. *aer*, air; *bios*, life) वायुजीवी; वे जीव या जन्तु जो वायु की उपस्थिति में जीवित रहते हैं [देखिये anaerobe अवायुजीव]

aerobic—(Gk. *aer*, air; *bios*, life) वायु जीवी ।

aerobiology—(Gk. *aer*, air, *bios*, life; *logos*, discourse) वायुजीवी विज्ञान; वायु जैविकी; वायुप्लवक विज्ञान; वायु (आक्सीजन) में जीवित रहने वाले प्राणियों सम्बन्धी विज्ञान ।

aestival—(L. *aestivuos*, summer) ग्रीष्मज ।

aestivation—(L. *aestivus*, pertaining to summer) ग्रीष्म तन्द्रा; ग्रीष्म निष्क्रयता; पुष्पदल-विन्यास ।

aetiology—**etiology**—(L. *aitia*, cause; *logos*, discourse) निदान; रोगों आदि के कारण का अध्ययन ।

afferent—(L. *afferre*, to bring) अर्न्तगामी; अभि-वाही ।

afferent fibres—अभिवाही तंत्रिका सूत्र, वे तंत्रिका सूत्र जो उत्तेजना को केन्द्र की ओर ले जाते हैं ।

affinity—(L. *affinis*, related to) समोत्रता; सजातीयता; सजातित्व बन्धुता; वैकासिक सम्बन्ध, जो मुख्य अंगों की समानता से प्रकट होता है ।

aflagellar—(Gk. *a*, without; L. *flagellum*, a whip) कशातन्त्रहीन; कशाभिकाहीन ।

afterbirth—(A. S. *aefter*, behind; *beran*, to bring forth) आँवल, जेर ।

aftershaft—(A. S. *aefter*, behind; O. E. *scaeft*, shaft) अनुपिच्छ; रोमउपगुच्छ; पक्ष के उर्ध्व छिद्र (superior umbilicus) के समीप स्थिति लघुरोम, उप-गुच्छ या अनुपिच्छ ।

agamete—(Gk. *a*, without; *gametes*, spouse)

agemetoblast

अयुग्मनी; कोई अमीविक या जनन कोशिका जो बिना संयुग्मन (syngamy) के प्रौढ़ बन जाता है।

agemetoblast—(Gk. *a*, not; *gametes*, spouse; *blastos*, bud) कोशिकांश, अजन्युज।

agamie or agamous—(Gk. *a*, without; *gamos*, marriage) अयुग्मनी; अलैंगिक; अनिषेकज; युवा।

agamobium—(Gk. *a*, without; *gamos*, marriage; *bios*, life) निर्लिगावस्था। उत्पत्ति विपर्यय (alternation of generations) में किसी जन्तु की दशा, जिसमें लिगावयव (sexual organs) नहीं होते।

agamogenesis—(Gk. *a*, without, *gamos*, marriage; *genesis*, generation) = parthenogenesis अनिषेक जनन; अनिषेक (अमैथुनी) उत्पत्ति; अलिगीजनन।

agamogenetic—(Gk. *a*, without; *gamos*, marriage; *genesis*, descent)—अलैंगिक।

agamogony—(Gk. *a*, without; *gamos*, marriage; *gonos*, generation) अयुग्मजनन; खण्ड विभजन; स्फोटजनन।

agamont—(Gk. *a*, without; *gamos*, marriage; *on*, being) स्फोटी।

agamospecies—(Gk. *a*, without; *gamos*, marriage; *L. species*, particular kind) अनिषेकजाति।

agar—(Mal. *agar-agar*, a sea weed) ऐगार, एक शल्म पदार्थ जो लाल शैवाल (red algae) द्वारा स्रावित होता है।

agglomerate—(L. *ad*, to; *glomus*, ball) स्तवक; गुल्मीय जैसे फूलों का गुच्छा (गुल्म)।

agglutination—(L. *ad*, to; *glutinare*, to glue) समूहन; संपिडकता।

agglutin—(L. *ad*, to; *glutinare*, to glue) समूहनिन; समूहीकारक; एग्लुटिन; वह पदार्थ या प्रतिरक्षी (antibody) जो संपिडता लाता है।

agglutinogen—(L. *ad*, to; *glutinare*, to glue; Gk. *genos*, descent)—एग्लुटिनोजन; समूहीकारक

जन। वह पदार्थ या प्रति रक्षज (antigen) जो समूहनिन (agglutinin) उत्पन्न करते हैं।

aggregate—(L. *ad*, to; *gregare*, to collect into a flock) पुंज—; पुंजफल; पुंजग्रन्थि।

(१) कुछ मकड़ीयों (spider) में कौशेय (silk) ग्रन्थि।

(२) रसबेरी (raspberry) फल।

aggregation—(L. *ad*, to; *gregare*, to collect) पुंजता;

(१) विभिन्न अंगियों का पुंजीकरण।

(२) संवेदीय पादपों के स्पर्श शृंग (tentacle) या प्रतान कोशिका (tendrill cell) में प्रोटोप्लाज्म की गति, जिससे स्पर्श शृंग या प्रतान उत्तेजित बिन्दु की ओर झुकता है।

aggressin—(L. *aggressus*, attacked) एग्रेसिन; आक्रामक रसायन; रोगाणु अंगियों द्वारा उत्पन्न विष पदार्थ जिनसे पोषक में रक्षणीय प्रक्रियायें होती हैं।

aggressive characters—हिसार्थक लक्षण; हिंसात्मक लक्षण; हिंसकगोपी लक्षण; आक्रामक लक्षण। हिंसक जन्तु के आकार, रंग आदि में पाये जाने वाले वे लक्षण जिनका अभिप्राय उसको अपने खाद्यजन्तु (prey) से छिपाये रखना हो—उदाहरण अनेक केंकड़ावंशी (crustaceans) जन्तु।

agglomerular—(Gk. *a*, without; *L. glomerare*, to form into a ball) अगुच्छीय; अकेशिकागुच्छीय।

aglossate—(Gk. *a*, without; *glossa*, tongue) अजिह्वकी; बिना जीभ या जिह्वा का जन्तु।

agminated—(L. *agmen*, herd) संधी; गुच्छीय; स्तवकी।

aglossa—(Gk. *a*, without; *glossa*, tongue) अजिह्वक। निष्च्छ (ऐन्यूरा-anura), अम्फीब्रिया (amphibia) जन्तुओं का एक उपगण (suborder)।

agnatha—(Gk. *a*, without; *gnathos*, jaw) निर्हनु; ऐग्नेथा; कशेरुक या ब्रस्टीब्रेटा या कशेरुदण्डक (vertebrata) उप फाइलम (sub-phylum) का एक वर्ग,

जिसमें मुख गोलाकार होता है और जबड़े (jaws) नहीं होते। इस वर्ग में गोल मुख मछलियाँ-साइक्लोस्टोम (cyclostome) होती है।

agnathostomatous—(Gk. *a*, without; *gnathos*, jaw; *stoma*, mouth) निहनु; अहनु जन्तु।

agon—(Gk. *agon*, contest) एगोन; एग्जाइम का क्रिया शील तत्व।

agonist—(Gk. *agonistes*, champion) मुख्य कार्यकी।

agranulocyte—(Gk. *a*, without; L. *granulum*, small grain) लसीकीश्वेताणु; अकणी श्वेताणु।

agrestal—(L. *agrestis*, rural) कृष्य पादप; कृषिगत भूमि पर उगने वाले पौधे।

agriotype—(Gk. *agrios*, wild, *typos*, image) वन-जात।

agrostology—(Gk. *agrostis*, grass; *logos*, discourse) घास विज्ञान; वनस्पति विज्ञान का वह अंश जो घास (grass) सम्बन्धी होता है।

aglypha—अच्छिद्र विपदन्ती; ऐग्लाइफा। साँपों के काल्यु ब्राइड्री कुल (colubridae family) की एक श्रेणी (series) जिसके जन्तुओं के सारे दाँत बिना विष प्रणाली के होते हैं।

air bladder—(L. *air*, air; A.S. *bladre*, bladder) वायु-आशय; वायुकोष। मत्स्यों (fishes) में पाया जाने वाला प्लावी (swim) आशय (कोष-bladder)।

air cells—वायु-कूपिकायें-वायु-गतिकायें। (१) झर्झरास्थि (ऐथमोइड-ethmoid) या मैस्टोइड (mastoid) की फोटरें या गुहिकायें (cavities) (२) फुफ्फुस (lung) की वायु गतिकायें (कूपिकायें)।

air passages—वायुपथ; वायुमार्ग।

air sacs—वायु-आशय, वायुकोष।

air sinus—वायु-कुल्या (साइनस)।

air space—वायु-स्थल; वायु कोटर (अंडों में पाया जाता है)।

aitionastic—(Gk. *aitios*, causing; *nastos*, close-pressed) प्रेरित वक्रता; विसरित (diffuse) उत्तेजना द्वारा प्रेरित (induced) पौधे के किसी भाग की वक्रता (curvature)।

akaryote—(Gk. *a*, without; *karyon*, nut) अन्यु-क्लिक कोशिका (non-nucleated cell); ऐसी कोशिका जिसमें न्युक्लियोप्लाज्म (nucleoplasm) न्युक्लियस (nucleus) नहीं बनाता है, ऐसी दशा केवल आद्यजीवी प्रोटिस्टा (protista) में पाई जाती है।

akinesis—(Gk. *a*, not; *kinesis*, movement) गति हीनता; अगतिक्रम।

akinete—(Gk. *a*, not; *kinein*, to move) सुप्त कोशिका; किन्हीं हरीत शैवाल (green algae) की सुप्त कोशिका जो कुछ समय बाद जनन करती है।

ala—(L. *ala*, wing) पक्षक; पक्ष।

alar—(L. *ala*, wing) पक्षकोपम; पक्षाकार; पक्षोपम; पक्षाभ।

alary—(L. *ala*, wing) पक्षाकार; पक्षीय; पक्षकी; पक्ष—; पक्ष सम्बन्धी।

alate—(L. *alatus*, winged) सपक्ष; पक्षक।

(१) वृत्त (petiole) या स्तम्भ (stem) जो पक्ष सदृश फैलाव लिये होते हैं।

(२) पृथल औष्ठीय (broad-lipped)।

albescent—(L. *albescere*, to grow white) आपांडु; शुक्लीय; धवलीय; श्वेतप्रायः।

albinism—(L. *albus*, white) धवलता; रंगहीनता; रंजकहीनता।

albino—(Sp. *albino*, white, from L. *albus*, white) धवल; रंजकहीन जन्तु। ऐसा जन्तु जिसमें जन्म से ही त्वचा, रोम, चक्षु आदि में रंग की कमी हो।

albumen—(L. *albumen*, white of an egg) ऐल्युमेन; अंडे की सफेदी, अण्डश्वेत; श्वेतक।

albuminous—(L. *albumen*, white of an egg)। अण्डश्वेती, श्वेतकी।

alcyonacea—ऐलिसियोनेसिया; प्रसून काय-एक्टिनोजोआ (actinozoa) वर्ग का एक गण (order) ।

alcyonaria—ऐलिसियोनेरिया; प्रसून काय-एक्टिनोजोआ वर्ग का एक-उपवर्ग (subclass) ।

alecithal—(Gk. *a*, without; lekithos yolk) डिम्बान्नहीन, डिम्बाहारहीन, थोक हीन; अंपीतकी ।

aleurone—(Gk. *aleurion*, flour) ऐल्यूरोन, प्रोटीन कण ।

(१) प्रोटोप्लाज्म में पाये जाने वाले प्रोटीन कण जिनका प्रयोग आरक्षित खाद्य के रूप में होता है ।

(२) एक दालीय (monocotyledons) बीजों का प्रोटीन स्तर, बीजपोष स्तर ।

aleurospore—(Gk. *aleurion*, flour) ऐल्यूरियो-बीजाणु । त्वचा के कवक परजीवी (fungous parasites) का पार्श्व कोनीडियम (conidium) स्पोर ।

alexine—(Gk. *alexin*, to ward off) ऐलेक्सिन; रक्त सीरम का एक पदार्थ ।

algosis—(Gk. *algosis*, sense of pain) दर्द वेदना ।

algin—(L. *alga*, sea-weed) ऐल्जिन; किन्हीं शैवाल (algae) से प्राप्त श्लैष्मिक पदार्थ ।

algaoid—(L. *alga*, sea-weed; Gk. *eidosis*, shape) शैवाल सदृश; शैवालसम ।

algology—(L. *alga*, sea-weed; Gk. *logos*, discourse) शैवाल विज्ञान; समुद्री शैवाल के अध्ययन सम्बन्धी विज्ञान ।

Algonkian—(*algonquian*, tribe of Indians) एलगो-न्कियन; एक भारतीय जाति जो पुरायुग (proterozoic era) में पायी जाती थी ।

alima—(Gk. *halinos*, pertaining to sea) एला-ईमा; कुछ केकड़ावंशियों (क्रस्टेशिया) की एक डिभक (लारवा) अवस्था ।

alimentary—(L. *alere*, to nourish) अन्न-सम्बन्धी; भोजन सम्बन्धी ।

alimentary canal—भोजन नली; आहार नाल; पाचन नली; अन्न प्रणाली ।

alimentary system—आहार तन्त्र; पाचक तन्त्र; पोषक तंत्र ।

alisphenoid—L. *ala*, wing; Gk. *sphar*, wedge; *eidosis*, from) ऐलिस्फेनाइड; पक्षजनुक; कपालीय अस्थि स्फेनाइड (sphenoid) का पक्षीपम (wing like) भाग ।

alitrunk—(L. *ala*, wing; *truncus*, trunk) एली-ट्रंक; संगलित वक्ष; कीटों की ऐसी वक्ष जो उदर (abdomen) के प्रथम खण्ड से संगलित (fused) होती है ।

alkaloid—(Ar. *al*, the; *qali*, ash; Gk. *eidosis*, form) ऐल्केलॉइड; अधारी नाइट्रोजन युक्त शाकीय पदार्थ, सम्भवतः नाइट्रोजन उपापचय की अन्तिम उत्पाद जैसे—स्ट्रिकनीन (strychnine) निकोटीन (nicotine) कुनीन (quinine) मोरफीन (morphine) आदि ।

alkaline—क्षारीय; खारमय ।

alkaline medium—क्षारीय माध्यम; खार-माध्यम ।

allantoin—(Gk. *allas*, sausage) एलेन्टोइन $C_4H_6O_3N_4$; प्यूरिन (purine) उपापचय का अन्तिम पदार्थ जो किन्हीं स्तनी के मूत्र में पाया जाता है ।

allantois—(L. *allas*, sausage) एलेन्टोइज; अपरा-पोषिका; भ्रूण पोषक; भ्रूणीय कला । भ्रूण (embryo) में पाया जाने वाला एक झिल्लीदार आशय (membranous bag) जिसका प्रयोजन स्वास प्रक्रिया (respiration) या पोषण (nutrition) या यह दोनों होते हैं । यह अंग उच्चकोटि के वर्टिब्रेटा-कशेरुकों (vertebrates) में पाया जाता है और आहार नाल के पिछले भाग से उत्पन्न होता है ।

allassotonic—(Gk. *allassein*, to change; *tonos*, strain) आयस; उत्तेजना प्रेरित; जैसे उद्भिद् या प्रवृद्ध वृक्षों की गति ।

[देखिये—auxotonic वृद्धि प्रेरित]

allele = **allelomorph** = **allelomorphic characters** (Gk. *allelon*, one another; *morphe*, form) युग्म विकल्पी या ऐलील; युग्मक लक्षण; मेंडल सिद्धान्त (mendelism) के अनुसार वंश परम्परा (inheri-

- tance) में अध्ययन किये जाने वाले वैकल्पिक (alternative) लक्षणों में से कोई एक ।
- allelopathy**—(Gk. *allelon*, one another; *pathos*, suffering) ऐलीलोपैथी; एक जीवित वृक्ष का दूसरे जीवित वृक्ष पर प्रभाव ।
- allergen**—(Gk. *allos*, other; *ergon*, activity; *genos*, descent) ऐलर्जीकारक; प्रत्यूर्जताकारक; असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने वाले पदार्थ ।
- allergy**—(Gk. *allos*, other; *ergon*, activity) ऐलर्जी; प्रत्यूर्जता; अतिअनुभूति; एक प्रकार की शारीरिक दशा जिसमें शरीर असामान्य व्यवहार करता है ।
- alliaceous**—(L. *allium*, gariic) लहसुन गंधी, लहसुन सदृश खुशबू वाले ।
- allocarpy**—(Gk. *allos*, other, *karpos*, fruit) परनिषेकफलद, ऐसा फल जो परनिषेक के फलस्वरूप बनता है ।
- allochthonous**—(Gk. *allos*, other; *chthon*, the ground) विदेशी, अपर स्थानिक ।
[देखिये विलोम (opposite) autochthonous-देशीय]
- allocortex**—(Gk. *allos*, other; L. *cortex*, bark) परबल्क ।
- alogamy**—(Gk. *allos*, other; *gamos*, marriage) परनिषेक, परनिषेचन (cross fertilisation) ।
[देखिये स्वकयुग्मन—autogamy]
- allogene**—(Gk. *allos*, other; *genos*, descent) ऐलो-जीन; संवृत युग्म विकल्पी (ऐलील) ।
- allogenic**—(Gk. *allos*, other, *genos*, descent) ऐलोजेनिक, परगत; बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न संवृत (recessive) युग्म विकल्पी (ऐलील) ।
[देखिये—विलोम autogenic स्वगत]
- alloiogenesis**—(Gk. *alloios*, different; *genesis*, descent)—alternation of generation—उत्पत्ति-विपर्यय ।
- allometry**—(Gk. *allos*, other; *metron*, measure) वृद्धि मापन; वृद्धि अध्ययन ।
- allopatrie**—(Gk. *allos*, other; *patra*, native land) भिन्न देशीय । [देखिये-sympatric, एक देशीय]
- allopelagic**—(Gk. *allos*, other; *pelagos*, sea) भिन्न अगाधी ।
- alloplasm**—(Gk. *alios*, other; *plasma*, mould) निअगी प्ररस । कोशिका प्ररस का वह भाग जो कोई अग निर्माण नहीं करता है ।
- alloplast**—(Gk. *allos*, other; *plastos*, formed) भिन्न-आकारी । (देखिये-homoplast—सम-आकारी)
- allopolyploid**—(Gk. *allos*, other; *polys*, many; *aploos*, onefold; *eidosis*, form) भिन्नगुण सूत्री, भिन्न परम्परा सूत्री । दो से अधिक भिन्न गुण या परम्परा सूत्रों से युक्त अंगी जो सकरी करण के कारण दो विभिन्न जातियों से आये हों ।
- allosematic**—(Gk. *allos*, other; *sema*, sign) भिन्न भ्रमकारी-चिन्ह गा वर्ण ।
- allosome**—(Gk. *ailos*, other; *soma*, body) देहातिरिक्त परम्परा सूत्र; देहातिरिक्त गुण ध्रुव (क्रोमोसोम) अर्थात् देह गुण सूत्र से भिन्न गुण सूत्र । (क्रोमोसोम)
- allostoses**—(Gk. *allos*, other; *osteen*, bone) कलाअस्थि ।
- allosyndesis**—(Gk. *allos*, other; *syndesis*, a binding together) ऐलोसिन्डेसिस; परसूत्रयुग्मन; विजनक समजात गुण सूत्रों का युग्मन ।
- allotherm**—(Gk. *allos*, other; *therme*, heat) पर उष्णी; ऐसा अंगी जिसके शरीर का तापक्रम वातावरण पर निर्भर रहता है ।
- allotrophic**—(Gk. *allos*, other; *trophe*, nourishment) परपोषी; इतरपोषी; अन्य अंगी से पोषण प्राप्त करने वाला ।
- allozygote**(Gk. *allos*, other; *zygon*; yoke) पर युग्मज; ऐसा समयुग्मज (homozygote) जिसमें संवृत लक्षण (recessive characters) होते हैं ।
- alluvial**—(L. *allure*, to wash to) कछार; जलोढ़ ।

alpha(a)cells

- alpha(a)cells**—ए-काशिकायें; लेंगहैन्स के द्वीपों (islets of Langerhans) की ऐल्फा कोशिकायें ।
- alpine**—उच्च पर्वतीय वनस्पति ।
- alsinaceous**—(Gk. *alsine*, chick weed) एतसीने-सियस; ऐसा बहुपूल पत्रक (polypetalous) बाह्यदल (corolla) जिसकी पंखडियों (petals) के बीच-बीच में स्थान होता है ।
- alternate**—(L. *alternus*, one after another) पर्याय; एकान्तर ।
- alternation of generations**—उत्पत्ति-द्विपर्यय । किसी प्राणी के जीवन में निर्लिगी (asexual) और लिगी (sexual) अवस्थाओं का एक के बाद एक का प्रकट होना ।
- alterne**—(L. *alternus*, one after another) प्रत्यावर्तित वनस्पति; पर्यावरण (environment) में आसाधारण आकस्मिक परिवर्तनों के कारण किसी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की वनस्पतियों का दृष्टिगोचर हो जाना ।
- alternipinnate**—(L. *alternus*, one after another *pinna*, wing) पत्रक-पिच्छक विपर्यय; मध्य शिरा (midrib) के दोनों ओर पत्रक (leaflets) और पिच्छकों (pinnae) का एक के बाद एक लगा होना ।
- altrices**—(L. *altrix*, nourisher) जन्माश्रित । वह चिड़ियों, जिनके बच्चे असहाय अवस्था में उत्पन्न होते हैं और माता पिता के आश्रय से ही भोजन और उष्णता प्राप्त करते हैं—जैसे कवूतर आदि के बच्चे ।
- alula**—(L. *alula*, dim. of *ala*, wing) पक्षिका; कूट पक्ष (पक्षियों में) । किन्हीं कीटों में पक्ष के आधार से पश्च तट पर लगी हुई एक छोटी पृथक आकृति ।
- alveola**—(L. *alveolus*, small cavity) कूपिका; गतिका ।
- alveolar**—(L. *alveolus*, a small pit) कूपिका—; गतिका—; गतिका सम्बन्धी ।
- alveolar theory**—(L. *alveolus*, a small pit) बुद-बुद मत । इस मतानुसार प्रोटोप्लाज्म (protoplasm)

के दोनों भाग झाग (froth) या पायस अर्थात् इमल्शन (emulsion) के रूप में मिले रहते हैं । इनमें से एक भाग (पदार्थ) आधार देने वाला द्रव बनाए रहता है और दूसरा इसके अन्दर बुलबुलों या बुदबुदों (bubbles) के रूप में भरा रहता है ।

alveolar tissue—(L. *alveolus*, a small pit) कूपिका ऊतक; बुदबुद ऊतक ।

alveolate—(L. *alveolatus*, pitted) मधु कंकती; गर्ती ।

alveolus—(L. *alveolus*, a small pit) कूपिका; गतिका; दंत गतिका; फुफ्फुस वात कोशिका; ग्रन्थि गर्त ।

alveus—(L. *alveus*, cavity) स्वेत स्तर; हिप्पोकैम्पस (hippocampus) के तल पर सूत्रों का एक स्वेत स्तर ।

amacrine—(Gk. *a*, not; *makros*, long; *is*, fibre) सूत्राक्षहीन । ऐसी कोशिकायें जिनमें सूत्राक्ष (axon) नहीं होता; जैसे रेटिना की कुछ एक कोशिकायें ।

ambiens muscle—(L. *ambire*, to go round) ऐम्बियेन्स पेशी, सादि पेशी; पक्षीओं के जाँघ की मांस पेशी जिसके कारण पक्षी यष्टि (perch) पकड़ पाता है ।

ambient—(L. *ambire*, to go round) परिवेशक ।

ambiparous—(L. *ambo*, both; *parere*, to beget) उभयधारी; उभय कलिका । ऐसी कलिका (bud) जिसमें फूल और पत्ती दोनों हों ।

ambisexual—(L. *ambo*, both; *sexus*, sex) उभय लिगी ।

ambisporangiate—(L. *ambo*, both; Gk. *sporos*, seed; *angeien*, box) उभयस्पोरक; ऐसे पौधे जिनमें बीजाणुधारी में दोनों प्रकार के दीर्घ और लघु स्पोर होते हैं ।

ambital—(L. *ambire*, to go round) ऐम्बिटल; एस्टेरोइड (asteroid) तथा ओफ्यूरुओइड (ophiuroid) का अस्थि पट्ट ।

ambitus—(L. *ambire*, to go round) ऐम्बिटस; बाहरी तट; परिरेखा।

ameba—देखिये amoeba अमीबा, एक कोशिकीय जन्तु विशेष।

ambosexual—(L. *ambo*, both; *sexus*, sex) सर्व-लिंगी। दोनों अर्थात् नर व मादा उद्दीपकों या हार्मोन्स (hormones) में सक्रिय होने वाले।

amboceptor—(L. *ambo*, both; *capere*, to take) विदलनात्मक; विशिष्ट प्रतिरक्षी।

ambulacral—(L. *ambulare*, to walk) बीथी; नलिकापाद। एकाइनीडर्म (echinoderm) के गतिकारी नलिका पाद।

ambulacral area—बीथी क्षेत्र; नलिकापाद क्षेत्र।

ambulacral groove—बीथी खाँच; नलिकापाद धारी परिखा।

ambulacral ossicle—बीथी अस्थिका; नलिका पादीय अस्थिक; नलिका पादास्थिक।

ambulacral pore—बीथी-छिद्र; नलिकापाद छिद्र।

ambulacral ridge—बीथी-कटक; नलिका पादीय मेड़।

ambulacral spine—बीथी-कटक; नलिका पादीय कटक।

ambulacral system—बीथी तन्त्र; नलिका पाद तन्त्र।

ambulacral zone—बीथी प्रदेश; नलिकापाद प्रदेश।

ambulacralia—(L. *ambulare*, to walk) नलिकापादीपट्ट; वह पट्ट जिसमें से होकर नलिकापाद बाहर निकलते हैं।

ambulacriform—(L. *ambulare*, to walk; *forma*, shape) नलिकापादोपमा।

ameiotic—(Gk. *a*, without; *meion*, smaller) ह्यास विभाजन हीन; निह्यास विभाजनी। ऐसा अनिवेक जनन (parthenogenesis) जिसमें ह्यास विभाजन या अर्ध सूत्रण (meiosis) नहीं होता है।

amelification—(M. E. *amell*, enamel; L. *facere*,

to make) इनेमिल निर्माण। दन्तवल्क का निर्माण।

ameloblast—(M. E. a well enamel; Gk. *blastos*, bud) इनेमिल कोरक; इनेमिल कोशिकज।

amentaceous-amentiferous—(L. *amentum*, thong; *ferre*, to carry) कैटकनी।

ametabolic—(Gk. *a*, without; *metabole*, change) अकायातरणी; रूपान्तर रहित; रूपान्तर हीन।

ametabole—(Gk. *a*, without; *metabole*, change) अकायातरण; अरूपान्तरी।

amicon—(Gk. *a*, without; *mikros*, small) अणु-तत्व; अतिसूक्ष्म तत्व; अमाइक्रोन।

amiconucleate—(Gk. *a*, without; *mikros*, small; L. *nucleus*, kernel) अलघुकेन्द्रकी।

amine—(Gk. *ammoniakon*, resinous gum) ऐमीन; यह पौधों द्वारा अथवा अमीनो अम्ल पर वैकटीरिया प्रभाव से उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, जो अमोनिया (NH₃) का व्युत्पन्न (derivative) हाइड्रोजन के हटने से बनता है।

aminoacids—अमीनोअम्ल; यौगिक जिसमें एमीनो (NH₂) और कार्बोक्सिल (COOH) ग्रुप होते हैं। यह प्रोटीन के जल-विघटन द्वारा बनते हैं।

amitosis=amitotic division—(Gk. *a*, without; *mitos*, thread) अमाइटोसिस; असूत्री विभाजन सरल या असूत्र विभाजन (कोशिका का)।

ammonites—ऐमोनाइट्स। एक प्रकार का लुप्त (extinct) जन्तु।

amnion—(Gk. *amnion*, foetal membrane) एमनियान; उल्ब; जरायु (अणुणावरण)। स्तनपायी या स्तनी (mammals), पक्षी birds और सर्पक (reptiles) वर्गों (classes) के अणुओं पर पाई जाने वाली एक झिल्ली जिसके अन्दर जरायु-रस या उल्ब तरल (amniotic fluid) रहता है और जो अणु को घेरे रहती है।

amniota—जरायुज; उल्बीवर्ग; ऐम्नियोटा ।
 amniotic—उल्बी; उल्व—; उल्व सम्बन्धी ।
 amniotic fluid—उल्व तरल ।
 amoeba—(Gk. *amoibe*, change) अमीबा । फाइलम प्रोटोजोआ का एक जन्तु ।
 amoebadiastase—(Gk. *amoibe*, change; *dia*, through *histonai*, to set) अमीबाडायसटेज; अमीबा स्त्रावित पाचक शोभक (ferment) ।
 amoebiform—(Gk. *amoibe*, change; L. *forma*, shape) धर्मीवायम; अमीबोपम; अमीबा सदृश ।
 amoebism—(Gk. *amoibe*, change) अमीबा समान रूप अथवा वर्तव ।
 amoebocyte—अमीबोसाइट; अमीबा कोशिका; अमीबीय कोशिका ।
 amoeboid cells—अमीबाकार सेल; अनिश्चिताकार कोशिका; अमीबीय कोशिका । ऐसी कोशिकाएँ जो अमीबा का सा रूप या गति रखती हैं ।
 amoeboid movement—अमीबीय गति ।
 amoebula—(Gk. *amoilu*, change) अमीब्यूला; अमीबक; आद्यजीवी का क्षणिक पाद युक्त स्पोर समूह— (देखिये pseudopodiospore)
 amorphous—(Gk. *a*, without; *nurphe*, shape) आकारहीन; असमरूपक; अक्रिस्टलीय; रवेहीन ।
 amphiapomict—(Gk. *amphi*, both; *apo*, away; *miktos*, mixed) उभयसमजीवी; उभय प्रतिरूपी; सम-जीवी संतित के सामूहिक रूप से समस्त व्यक्ति ।
 amphiarthrosis—(Gk. *amphi*, both; *arthron*, joint) बन्ध समवायता; समवाय; (symplysis) वा बन्ध सनवायता (syndesmosis) प्रकार की सन्धि ।
 amphiaster—(Gk. *amphi*, both; *bios*, life) ऐम्फिएस्टर; द्वितारक या ताराद्वय आकृति (सूत्रीविभाजन में) ।
 amphiastral—(Gk. *amphi*, both; *aster*, star)

उभयतारक प्रारूप; यथार्थ तारा द्वय आकृतिक; वह सूत्री विभाजन जिसमें तर्कु-ध्रुवों (spindle poles) पर यथार्थ ताराद्वय आकृति होती है ।
 amphibia—(Gk. *amphi*, both; *bios*, life) ऐम्फिविया; द्विधाजीवी; जलस्थलचर; जलयन्त्रवासी कजेरुक (vertebrata) जन्तुओं का एक वर्ग (class) ।
 amphibious—amphibion—(Gk. *amphi*, both; *bios*, life) उभयचर; जल-स्थलचर ।
 amphiblastic—(Gk. *amphi*, both; *blastos*, bud) असम विभाजी । वे अंडाणु या डिम्ब (ova) जिनमें खण्डीभवन या विभाजन (segmentation) द्वारा एकसी नाप वाली कोशिकाएँ नहीं बनती; कुछ बड़ी और कुछ छोटी होती हैं, असम विभाजी कहलाते हैं ।
 amphiblastula—ऐम्फीब्लास्टुला; उभकोरक । फाइलम पोरीफेरा (phylum porifera) में पाया जाने वाला डिम्बक या लारवा (larva), जिसके अग्रछोर पर कपाधारी कोशिकाएँ (flagellate cells) तथा पश्च छोर पर आद्य कोशिकाएँ (archaeocytes) होती हैं ।
 amphibolic—(Gk. *amphi*, both; *ballein*, to throw) परावर्तक; उभयवर्तक । आगे पीछे दोनों ओर को मुड़ जाने वाली; जैसी कुछ त्रिड़ियों में बाहरी उँगली होती है ।
 ampicarpous—(Gk. *amphi*, both; *karpos*, fruit) उभयफल्य; द्विरूपफली; दो प्रकार के फल उत्पन्न करने वाला ।
 amphicoelous (vertebra)—(Gk. *amphi*, both; *koilos*, hollow) उभयगर्तधारी (कशेरु); ऐम्फी-सीलस ।
 amphicondylous—(Gk. *amphi*, both; *condyles*, knob) उभयार्धुदी । दो कपालार्धुद (occipital condyles) वाला ।
 amphicone—(Gk. *amphi*, both; *konos*, cone) उभय शंकु; लुप्त स्तनी के चर्बक (molar) का एक शिखर ।

amphicytes—(Gk. *amphi*, both; *kytos*, hollow) उभय कोशिकाएँ; अतश्छद् की सम्बर्धन कोशिकाएँ ।

amphidelphic—(Gk. *amphi*, both; *delphos* womb) उभयगर्भाशायक, द्विगर्भाशायक, कुछ निमेटोड जिनमें युग्मक (paired) गर्भाशय (uterus) होता है ।

amphidetic—(Gk. *amphi*, both; *detos*, bound) द्विक बन्धी;

(देखिए opisthodetic—पञ्चबन्धी)

amphidiploid—(Gk. *amphi*, both; *diploos*, double) द्वैध द्विगुणित (double diploid) ।

amphidisc—(Gk. *amphi*, both; *diskos*, round plate) उभय पट्टिका; उभय त्रिम्बरी; स्वच्छजल बहुछिद्रदेहियों (porifera) का एक प्रकार का स्पीक्यूल (दृढा) विशेष ।

amphids—(Gk. *amphi*, both) एम्फिड्स; निमेटोड (nematode) के दो अग्र पार्श्व वेदनांग (anterior lateral sensory organs) ।

amphigastria—(Gk. *amphi*, both; *gaster*, stomach) अधः पणिका; लिवरवर्टस (liverworts) में पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाने वाली अल्प विकसित (rudimentary) पत्तियाँ (पर्ण) ।

amphigenesis—(Gk. *amphi*, both; *genesis*, descent) लैंगिक जनन ।

amphigonic—(Gk. *amphi*, both; *gene*, seed) उभयजन्युज; विभिन्न व्यक्तियों में पृथक आद्यजनन कोशिकाओं (gonia) में नर और मादा जन्यु का उत्पादन (production) ।

amphigony—(Gk. *amphi*, both; *gonos*, offspring) लैंगिक जननता; दो प्राणियों द्वारा उत्पादन ।

amphikaryon—(Gk. *amphi*, both; *karyon*, nut) उभयकेन्द्रक; ऐसा न्यूक्लियस (केन्द्रक) जिसमें दो अयुग्म सूत्री गुणसूत्र (क्रोमोसोम) होते हैं ।

amphimict—(Gk. *amphi*, both; *miktos*, mixed) अपरिह र्यलिंगांगी; ।

amphimixis—(Gk. *amphi*, both; *mixis*, ming-

ling) उभयमिश्रण । निपेक (fertilization) में नर और मादा पूर्व केन्द्रक (pronucleus) के संयोग द्वारा पतृक (paternal) और मातृक (maternal) लक्षणों का मिश्रण ।

amphinucleolus—(Gk. *amphi*, both; L. *nucleolus*, a small kernel) उभयउपकेन्द्रक; ऐसा उपकेन्द्रक (nucleolus) जिसमें क्षाररंगी (basiphil) और अम्लरंगी (oxyphil) दोनों प्रकार के घटक होते हैं ।

amphioxus—ऐम्फिऑक्सस । फाइलम कोर्डेटा (chordata) के शिरोदण्डक-सिपेलोकोर्डेटा (cephalochordata) उपफाइलम की एक जाति ।

amphiodont—(Gk. *amphi*, both; *odous*, tooth) उभयदन्त; बीटल (beetle) में मैन्डिबिल के वर्धन की मध्यावस्था ।

amphiont—(Gk. *amphi*, both; *on* being) उभय युग्मनज; ऐम्फिऑन्ट । दो व्यक्तियों के एक साथ आने से बना युग्मनज (zygote) ।

amphiplatyan—(Gk. *amphi* both; *platys*, flat) अगुहिक; उभय समतली; आगे पंछे-दोनों ओर से सपाट या समतल (flat) सेन्ट्रम (centrum) वाला कशेरु ।

amphineustic—(Gk. *amphi*, both; *phain*, to breathe) द्विधास्वासी; गिल और फुफ्फुस दोनों के द्वारा स्वास लेने वाला ।

amphineura—ऐम्फिनीयूरा । फाइलम मौलस्का का एक वर्ग जिसमें काइटन (chiton) जन्तु होती है ।

amphipoda—(Gk. *amphi*, both; *pous*, foot) ऐम्फिपोडा । वर्ग क्रस्टेशिया (class crustacea) का एक गण (order) ।

amphipedous—(Gk. *amphi*, both; *pous*, foot) ऐम्फिपोडा; द्विधापादी; चलने व तैरने वाले पाँव वाला ।

amphipyrenin—(Gk. *amphi*, both; *pyren*, fruit stone) ऐम्फिपाइरेनिन; वह पदार्थ जिसका केन्द्रकला (nuclear membrane) बना होता है ।

amphirhinal—(Gk. *amphi*, both; *rhis*, nose) द्विविदीर्णनासी; उभयनासीय ।

amphisarca—(Gk. *amphi*, both; *sarx*, flesh) एम्फीसारका, एक प्रकार का फल जो अन्दर से सरस तथा बाहर से सख्त होता है ।

amphispermous—(Gk. *amphi*, both; *sperma*, seed) उभयभित्तिक बीज । (pericarp) से घिरा हुआ बीज ।

amphispore—(Gk. *amphi*, both; *sporos*, seed) उभयबीजाणु: उभयस्पोर; ऐम्फीबीजाणु किन्हीं शैवाल (algae) का उत्पादीय स्पोर जो विश्राम-स्पोर के सदृश कार्य करता है ।

amphistomatic—(Gk. *amphi*, both; *stoma*, mouth) द्विमुख छिद्री; द्विरंध्री, ऐसी पत्तियाँ जिनके दोनों तलों पर मुख छिद्र या रन्ध्र (स्टोमेटा) होते हैं ।

amphistomous—(Gk. *amphi*, both; *stoma*, mouth) उभय चूषकी; ऐसे कृमि (worms) जिसके दोनों छोरों पर चूषक (suckers) होते हैं ।

amphistylic skull—(Gk. *amphi*, both; *stylos*, pillar) द्विस्तम्भीकपाल; उभयनिलम्बित । इस प्रकार के कपालों में निचला जबड़ा (lower jaw) खोपड़ी से हायड (hyoid) और क्वाड्रेट (quadrate) से या हाँयड और पलेटोक्वाड्रेट (palatoquadrate) के द्वारा जुड़ा रहता है ।

amphitene—(Gk. *amphi*, both; *tainia*, band) सूत्र युग्मता । (देखिये zygotene)

amphithecium—(Gk. *amphi*, both; *thekion*, box) परिवेशीस्तर; ऐम्फिथीसियम; माँस (moss) के बीजाणुधारी (sporangia) की परिवेशी कोशिका स्तर ।

amphitrichous—(Gk. *amphi*, both; *thrix*, hair) ध्रुवकपीय; द्विकपीय; प्रत्येक ध्रुव पर कषायुक्त जैसे वैकटीरिया ।

amphitoky—(Gk. *amphi*, both; *tokos*, birth) ।

द्विअनिषेकोत्पन्न नर और मादा दोनों का ही अनिषेकोत्पादन (parthenogenetic reproduction) ।

amphitrocha—(Gk. *amphi*, both; *trochos*, wheel) द्विचक्रक, उभयकशामी; ऐम्फी या खण्ड देही ट्रोका । ऐनेलिडा फाइलम में पाया जाने वाला; स्वतन्त्र तैरने वाला एक प्रकार का लारवा (larva) जिसमें तंत्रों की दो पंक्ति पाई जाती हैं ।

amphitropous—(Gk. *amphi*, both; *trope*, turning) अधोमुखी बीजी; ऐसा अधोमुखी बीज वाला जिसका गढ़ा (hilum) एक पार्श्व के मध्य में होता है ।
amphogenic—(Gk. *amphi*, both; *genesis*, offspring) द्विजनज; ऐसी सन्तति जनने वाले जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं ।

amphophil—(Gk. *ampho*, both of two; *philein*, to love). द्विरंजक; ऐसी सेल (कोशिका) जो दोनों क्षारीय और अम्लीय प्रकार के रंजकों से रंग जाते हैं ।

amplexus—(L. *amplexus*, embrace) मैथुनी आलिगन (मेंढक आदि में) ।

amphoteric—(Gk. *amphotere*, in both ways) द्विलक्षणी; विलोमलक्षणी; अम्लीय तथा क्षारीय दोनों लक्षणों युक्त ।

amplectant—(L. *amplecti*, to embrace) आलिगक; स्तम्भालिगक । किसी आलंब (support) से चिपटे हुए जैसे प्रतान (tendrils) आदि ।

amplexicaul—(L. *amplecti* to embrace; *caulis*, stem) स्तम्भालिगक ।

ampliate—(L. *ampliatius*, made wider) उन्नत वाह्यतटी; ऐसा कीट जिनके पक्ष का बाहरी तट उन्नत या प्रमुख होता है ।

amplification—(L. *amplificatio*, enlargement) स्फीतता; प्रबर्धकता ।

ampulla—(L. *ampulla*, flask) ऐम्पुला; तुंबिका; पलिघाकर कोशिका ।

१—अंतः कर्ण की अर्ध चन्द्राकार नलिकाओं के सिरे पर फूला हुआ भाग ।

२—वीर्य प्रणाली (vas deferens) का मूत्राशय के अंगमूल (fundus) के पास का फूला हुआ भाग ।

३—ऐकाईनोर्डमेटा (echinodermata) जन्तुओं के जननलिका मण्डल (water vascular system) की मुद्रा नलिका (ring canal) पर स्थिति अंतः कुण्ड (internal reservoir) ।

४. उपास्थि मत्स्रों (elasmobranchs) के संवेदीय नालिकाओं के अंतस्थकोशिकाये (terminal vesicle) ।

ampullaceous—(L. *ampulla*, flask) तु विक्रीय; पलिघाकार; जैसे लघुवेदनांग (sensillae) ।

ampullary—ऐम्पुला सम्बन्धी ।

ampullula—'Dim. of L. *ampulla*, flask). ऐम्पुल्युला; लघुऐम्पुला; पलिघाकार (तंत्रिकोपम) लघुकोषिका ।

amyelinic—(Gk. *a*, without; *myelos*, marrow) असूत्रच्छद; पिधानहीन तंत्रिका सूत्र ।

amygdala—(L. *from*, Gk. *amygdale*. round) गुटिका (१) कोई एक तालव्य गुटिका (palatal tonsil); (२) प्रमस्तिष्क (cerebellum) के पार्श्व में स्थिति एक गोलपाली (lobe) ।

amygdalin—(Gk. *amygdale*, almond) एमिग्डेलिन, कड़वे बादाम का एक रसायन
($C_{20}H_{27}O_{11}N$) ।

amylase—(L. *amylum*, starch) एमिलेस; एमाइलेज; एक क्षोभक विशेष । यह क्षोभक माड़ी (starch) को शर्करा (sugar) में बदल देता है ।

amyloid—(L. *amylum*, starch; Gk. *eidōs*, from) ऐमिलॉइड; माड़ी सदृश; स्टार्चोपम ।

amyloid bodies—ऐमिलॉइड काय; स्टार्चोपम पिण्ड; प्रोढ़ की पौरुष ग्रन्थि (prostate gland) की गर्तिकाओं में पाया जाने वाला सम्बन्धित पिण्ड ।

amylomic—(L. *amylum*, starch) स्टार्ची; माड़ी-युक्त ।

amyloplast—(L. *amylum*, starch; Gk. *plastos*,

formed) नीरंगकण; मडलवक; पौधों में रंगहीन स्टार्च बनाने वाले कण ।

amylolytic—(L. *amylum*, starch, Gk. *lysis*, loosing) माड़ी पाचक (क्षोभक) ।

amylopsin—(L. *amylum*, starch; Gk. *pepsis* digest) एमाईलोपसिन; स्टार्च पाचक; माड़ी पाचक; माँड क्षोभक ।

amylose—(L. *amylum*, starch) एमाइलोस; स्टार्च या माड़ी निर्माण करने वाला पदार्थ ।

amylostolith—(L. *amylum*, starch; Gk. *statos*, stationary; *lithos*, stone) निश्चेष्टकण संतुलनाशय; ।

amylum—(L. *amylum*, starch) माड़ी, स्टार्च: $(C_6H_{10}O_5)_x$

anabiosis—(Gk. *ana*, up, *bios*, life) प्रसुप्त जीवन; पुर्नजागरण ।

anabolism—(Gk. *ana*, up; *ballein*, to throw) उपचय; वृद्धि प्रक्रिया; अविवृद्धि; निर्मित प्रक्रिया; सजीव प्राणियों में पाई जाने वाली वे निर्माणकारी (constructive), रासायनिक (chemical) प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा भोजन-पदार्थ प्रोटोप्लाज्म में बदलता है ।

anabolite—(Gk. *ana*, up; *bole*, throw) एनाबोलाइट; उपचय पदार्थ, वृद्धि प्रक्रिया या उपचय (anabolism) में भाग लेने वाला पदार्थ ।

anacrogynous—(Gk. *ana*, not; *akros*, apex; *gyne*, female) अनग्रजायांगी; कुछ लिवरवर्ट्स (liverworts) जिनमें मादा उत्पादक पिण्ड प्ररोह (shoot) पर या समीप नहीं होते हैं ।

anadromous—(Gk. *ana*, up; *dromein*, to run) समुद्रापगामी; स्वच्छजलोपगामी, सरितोपगामी । यह शब्द उन मछलियों के लिये उपयुक्त होता है, जो प्रतिवर्ष समुद्र से असामुद्रिक जल की ओर पर्यटन (migration) करती हैं ।
(देखिये catadromous)

anaerobe—(Gk. *an*, without; *aer*, air; *bios*,

life) अवायु जीव; निवायुजीव । वे जन्तु जो वायु की अनुपस्थिति में जोवित रह सकते हैं ।

[देखिये *aerobe* वायुजीव]

anaerobiosis—(Gk. *an*, without; *aer*, air; *biosis*, life) निवायुजीवता ।

anaesthesia—(Gk. *an*, without; *aer*, aisthesis, feeling). वेदनशून्यता ।

anagenesis—(Gk. *ana*, again; *genesis*, descent) तन्तु (ऊतक) पुनरुत्पादन; उत्तरोत्तर विकास ।

anakinetic—(Gk. *ana*, up; *kinein*, to make) पुनः शक्ति प्रदाता; वह प्रक्रिया जिससे पुनः शक्ति आ जाती है ।

anakinetomeres—(Gk. *ana*, up; *kinein*, to move; *meros*, part) शक्तिरूप ।

an I—(L. *anus*, anus) गुदा; गृदा सम्बन्धी ।

anal cerci—गुदाल्लुम; गुदा-पुच्छावयव; गुदा सरसाई ।

anal filament—गुदामूत्र ।

anal fin—गुदाफिन ।

anal gland—गुदा-ग्रन्थि ।

anal respiration—गुदा-श्वासन ।

anal spot—गुदा बिन्दु ।

anal style—गुदा सूचि; गुदा शूक ।

anal vesicles—गुदा-कोशिका; गुदा आशय ।

analysis—(Gk. *ana*, up; *lyein*, to loose) विश्लेषण ।

analogues=analogous structures—(Gk. *analogia*, proportion) अनुरूप या समकार्य अंग । विविध जन्तुओं के वे अंग जिनके कार्यों में परस्पर समानता हो; जैसे कीट वर्ग (class insecta) और पक्षी वर्ग (class aves) के पंख समकार्य हैं ।

analogy—(Gk. *analogia*, proportion) अनुरूपता; समकार्यता ।

anamnia—(Gk. *a*, not; *amnion*, foetal membrane) एनैम्निया; अतुल्बी; जरायुहीन; निर्जरायु ।

वरटीन्नेटा (vertebrata) के वे जन्तु जिनमें जरायु नहीं होता ।

anamniote—(Gk. *a*, not; *amnion*, foetal membrane) अतुल्बी, जरायुहीन, निर्जरायु ।

anamorpha—(Gk. *ana*, backwards; *morpha*, form) अपूर्णवयवी, वे लारवा जिनमें प्रोद्भ (hatching) के समय सब अवयव विद्यमान नहीं होते ।

(देखिये—*epimorpha*)

anamorphosis—(Gk. *ana*, throughout; *morphosis*, shaping) क्रमिक विकास ।

anangian—(Gk. *a*, without; *anggeion*, vessel) रक्तवाहक हीन कृमि, ऐसे कृमि जिनमें रक्त वाहक तंत्र नहीं होता ।

anaphase—(Gk. *ana*, up; *phasis*, appearance) ऐनाफेज; पश्चावस्था; गति स्थिति । विषम कोशिका विभाजन की वह स्थिति, जिसमें नवजनित गुणपूत्र (क्रोमोसोम) एक दूसरे से अलग चले जाते हैं । अर्थात् विचलन (divergence) करते हैं ।

anaphylaxis—(Gk. *ana*, up; *phylax*, guard) ऐनाफाइलेक्सिस; प्रोटीन अति संवेदनशीलता । विदेशीय प्रोटीन या सीरम के प्रति अति संवेदनशील होने की दशा ।

anaplast—(Gk. *ana*, up; *plastos*, formed) श्वेतलवक (प्लैस्टिड) ।

anapophysis—(Gk. *ana*, up; *apo*, from; *phyein*, to grow) उर्ध्व प्रवर्द्धन; पश्च वर्ध ।

anapsid—(Gk. *ana*, up; *apsis*, arch) अछिद्र खोपड़ी; अछिद्र कुटली; वह खोपड़ी (skull) जिसमें कोई भी छिद्र नहीं होता है ।

(देखिये—*stegocrotaphic* छिद्र कुटली)

anaptychus—(Gk. *ana*, throughout; *ptych*, plate) एकल प्रच्छद; एक पट्टीयप्रच्छद (ढक्कन) ।

anarthrous—(Gk. *a*, without; *arthron*, joint) सन्धिहीन; निर्मन्धिक ।

anastral—(Gk. *an*, not; *aster*, star) अतारक

ताराविन्यासहीन । निताराविन्यासी; ऐसा विपम कोशिका विभाजन (mitosis) जिसमें ताराविन्यास (aster) का निर्माण नहीं होता है ।

anaschistic—(Gk. *ana*, upto; *schistein*, to split) द्विभक्तचतुष्टय; द्विचतुष्टय; विचतुष्कीय; ऐसे चतुष्टय जो ह्यास विभाजन (meiosis) में दो बार अनु-दैर्घ्य प्रकार से बटते हैं ।

anastates—(Gk. *ana*, upto; *statos*, standing) उपपदार्थ; कई पदार्थ जो कोशिका उपपचय (metabolism) में तरल पदार्थों से संयुक्त पदार्थ बनने में बनते हैं ।

anastral—(Gk. *an*, not; *aster*, star) आतारक; ताराहीन सूची विभाजन; ऐसा सूत्री विभाजन जिसमें ताराविन्यास (aster) नहीं होना है ।

anatomy—(Gk. *ana*, up; *tome*, cutting) शरीर; रचना विज्ञान ।

anatrepsis—(Gk. *anatrepein*, to turn over) द्रुति गति; त्वरत ।

anatrope—(Gk. *anatrope*, overturning) नियत (बीज); प्रतीप; ऐसे बीज जिनमें नाभिका (हाइलम-hilum) और अणुछिद्र (micropyle) साथ तथा निभाग (chalaza) दूसरे छोर पर होना है ।

anaxial—(Gk. *a*, without; *axle*, axle) असमांश; अक्षहीन ।

ancestor—पूर्वज; पुरखा ।

anchor—(Gk. *ancora*, abend) लंगर रूपी दृढ़ा (spicule) जो होलोथोरिया (Holothuria) में पाये जाते हैं ।

anchylosis—(Gk. *angkylosis*, stiffness) संसक्ति दो या अधिक हड्डियों या सख्त भागों का परस्पर संयुक्त होकर एक हो जाना ।

ancient—(L. *antianus*, old) प्राचीन; पुरातन ।

anconal—(L. *ancon*, elbow) कुहनी सम्बन्धी ।

anconeus—(L. *ancon*, elbow) ऐकोनियस; कुहनी-

पेशी; कफोणी पेशी । कुहनी पर स्थिति एक छोटी सी प्रसारक (extensor) पेशी (muscle) ।

andrased—(Gk. *aner*, male) ऐन्ड्रेस; नरकारक; किसी एन्जाइम या हॉर्मोन में नर निर्धारण कारक ।

androconia—(Gk. *aner*, male, *konias*, dust) ऐन्ड्रोकोनिया; पुं आकर्षक शल्क, तितलियों के ऐसे पक्ष शल्क जिनमें नर को आकर्षित करने वाली गन्ध रहती है ।

androcyte—(Gk. *aner*, male, *kytos*, hollow) पुं कोशिका; पौधों की वृद्धि में ऐसी कोशिका जो पुंजायांगी (androgonium) से नर लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण पुंघानी (antheridium) में होता है ।

androdioecious—(Gk. *aner*, male; *dis*, two; *oikos*, house) भिन्नोभय पुं पुष्पी; नर और उभयलिंगी पुष्पों का भिन्न पौधों पर पाया जाना ।

androecium—(Gk. *aner*, male; *oikos*, house) पुमंग; पुं गकेसरों (stamens) की पिंडी या समुदाय; पौधों के नर उत्पादक अंग ।

androgametangium—(Gk. *aner*, male; *gametes*, spouse; *anggeion*, vessel) पुं युग्मकघानी; पुं घानी । नर लैंगिक कोशिकाओं का उत्पादन करने वाला संरचना पुं घानी (antheridium) ।

androgen—(Gk. *aner*, male; *genos*, descent) पुं सोदीपक; पुं जन ।

androgenesis—(Gk. *aner*, male; *genesis*, descent) पुं सोत्पादक; केवल पितृय गुण सूत्रों द्वारा ही डिम्ब का वर्धन होना ।

androgenic—(Gk. *aner*, male; *genesis*, descent) पुं सोत्प्रेजक; पुं जनिय; नर लक्षणों को उत्तेजित करने वाला ।

androgenous—(Gk. *aner*, male; *genesis*, descent) पुं जनक ।

androgenidia—(Gk. *aner*, male; *genos*, offspring; *idion*, dim.) ऐन्ड्रोगोनिडिया; पुं तत्व, वोल्वोक्स (volvox) के नर लैंगिक तत्व ।

androgonium

androgonium—(Gk. *aner*, male; *gonos*, offspring) पुंजायांगी; पौधों में शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण की आद्य स्थिति ।

androgynal—(Gk. *aner*, male; *gyne*, female) उभयलिगी; पुंत्रिकेसरी; पुंजायांगी; एक ही पुष्पक्रम (inflorescence) में पुंगकेसरी (staminate) और स्त्रीकेसरी (pistillate) पुष्पों का होना ।

androgynary—(Gk. *aner*, male; *gyne*, female) जायापुंलिंगता; ऐसा पुष्प जिनमें पुंगकेसर (stamens) और स्त्रीकेसर (pistils) पंखडियाँ (petal) बने होते हैं ।

androgynism—(Gk. *aner*, male; *gyne*, female) पुंत्रिकेसरता; उभयलिङ्गता । पुष्प में पुंगकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होने की दशा ।

andromerogony—(Gk. *aner*; male; *meros*, part; *gone*, generation) पितृ गुणसूत्रता; पितृगत क्रोमोसोम ।

andromonoecicus—(Gk. *aner*, male, *monos*, loane; *oikos*, house) अभिन्तोभयपुंलिंगी । ऐसे पौधे जिनमें नर और उभय लिगी दोनों प्रकार के पुष्प एक ही पौधे में होते हैं ।

androphore—(Gk. *aner*, male; *phora*, carrying) पुंधर, पुंगकेसरधर ।

androphyle—(Gk. *aner*, male; *phyllon*, leaf) पुंवीजाणुपर्ण; लघुवीजाणु-पर्ण नर; या लघु स्पोर धारण करने वाली पत्ती (पर्ण) ।

androsporangium—(Gk. *aner*, male; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) पुंवीजाणुघानी । पुंवीजाणु (androspore) युक्त वीजाणुघानी (sporangium) ।

androspore—(Gk. *aner*, male; *sporos*, seed) पुंवीजाणु; लघुवीजाणु; पराग (pollengrain); ऐसा अलैंगिक (asexual) चल वीजाणु (zoospore) जिससे नर बौना पौधा (male dwarf plant) बनता है ।

androsterone—(Gk. *aner*, male, *stear* suet) एन्ड्रोस्टीरोन; एन्ड्रोटीन; $C_{19} H_{30} O_2$ । मूत्र से प्राप्त होने वाला नर उद्दीपक ।

anelectrotonus—(Gk. *ana*, up; *elektron*, amber; *tonos*, tension) विद्युत् आतति; (विद्युत् + आतति) ।

anellus—(L. *anellus*, little ring) मुद्रापट्ट । तनु पक्षकों (lepidoptera) में पाया जाने वाला मुद्राकार या त्रिकोण पट्ट (plate) जो कपाटों (valves) या वन्धक बाँधों से लगा रहता है ।

anemophilous—(Gk. *anemos*, wind; *philein*, to love) वायुपरागित ।

anemophily—(Gk. *anemos*, wind; *philein*, to love) वायुपरागण ।

anemotaxis—(Gk. *anemos*, wind; *taxis*, arrangement) वातानुचलन; वातानुगति ।

anemotropism—(Gk. *anemos*, wind; *trepein*, to turn) वाताभिमुखी धृत्ति । हवा या वात की गति के अनुसार शरीर को व्यवस्था देने वाली प्रक्रिया ।

anencephaly—(Gk. *an*, not; *engkeppalon*, brain) मस्तिष्कहीनता ।

anenterous—(Gk. *an*, not; *enteron*, gut) अन्न-प्रणाली हीन ।

aner—(Gk. *aner*; male) नरकीट; विशेषतः चींटियों या पिपी लिकायों (ants) के ।

aneuploid—(Gk. *a*, without; *eu*, well; *aploos*, onefold) भिन्नएकाकी सूत्री; भिन्न अगुणक सूत्री; अगुणक सूत्री (haploid) संख्या के गुणक (multiple) से न्यून-अथवा अधिक गुण सूत्रों की संख्या वाला ।

aneurine—(Gk. *a*, without; *neuron*, nerve) एन्यूरिन; विटामिन बी १; थायामनीन; ।



aneurotic—(Gk. *a*, without; *neuron*, nerve) अतंत्रिय; अशरीय; वर्णनियंत्रणी; ।

१—उद्दीपकों द्वारा रंग कोशिकाओं का नियंत्रण ।

२—बिना तंत्रिका विन्यास के ।

anfractuose—(L. *anfractus*, bending) लहरदार; लहरी; कुल्पी ।

angienchyma—(Gk. *anggeion*, vessel; *engchein*, to pour) द्रववाहक ऊतक (तन्तु) ।

angioblast—(Gk. *anggeion*, vessel; *blastos*, bud) द्रववाहक कोशिका कोरक (कोष्ठज); वाहिका-कोरक ।

angiocarpous—(Gk. *anggeion*, vessel; *karpos*, fruit) आवृतफलीय ।

angiology—(Gk. *anggeion*, vessel; *logos*, discourse) रक्तवाहक विज्ञान । रक्त (blood) तथा लसीका (lymph) वाहक तन्त्रों सम्बन्धी विज्ञान ।

angiospermous—(Gk. *anggeion*, vessel, *sperma*, seed) आवृतबीजी; पुष्पीपौधे; डिम्बांशय में बन्द (आकृत) बीज वाले ।

angiosporous—(Gk. *anggeion*, vessel, *sporos*, seed) आवृतस्पोरी; संपुटीस्पोर । संपुट (capsule) में बन्द स्पोर वाले ।

angiotomatous—(Gk. *anggeion*, vessel, *stoma*, mouth) संकीर्ण मौखिकी; अविस्तीर्ण मुखी; ऐसे कवची (molluscs) या सर्प (snakes) जिनका मुँह न फैलने वाला होता है ।

angstrom—(A. J. Angstrom—Swedish physicist) एन्डस्ट्रोम इकाई; A; एक मिलीमीटर का सौलाखवाँ (१/१००,०००,०) भाग ।

angular—(L. *angulus*, corner) ऐंगुलर; कोणास्थि; अधिकांश कशेरुकों (vertebrates) के निचले जबड़े की हड्डी ।

angular process—ऐंगुलर प्रवर्द्धन; कोणास्थि प्रवर्द्धन ।

angulo-splenia—ऐंगुलोस्पलीनियल; ऐम्फिविया या द्विधाजीवी (amphibia) में पाई जाने वाली एक हड्डी ।

angustifoliate—(L. *angustus*, narrow; *folium*, leaf) तनुपर्णी; संवाध पर्णी; संकुचित पर्णी ।

angustirostrate—(L. *angustus*, narrow; *rostrum*, beak) संवाध; चंचुवी; संकुचित धूथनकी; पतली या धूथन वाला ।

anholocyclic—(Gk. *an*, not; *holos*, whole *kyklos*, circle) स्थायी अनिषेकज; ऐसा संतति विपर्यय (alternation of generation) जिसमें लैंगिक भाग नहीं होता है ।

animal—(L. *anima*, air; life) जन्तु; पशु; जानवर । इस शब्द के लिये 'प्राणी' या 'जीव' शब्द का प्रयोग अनुचित है; क्योंकि प्राणी या जीव (living being) प्रत्येक जीवधारी को, चाहे वह जन्तु हो या वनस्पति (plant) कह सकते हैं ।

animal kingdom—जन्तु जगत; जन्तु राष्ट्र ।

animal pole—जन्तु ध्रुव ।

animal psychology—जन्तु मनोविज्ञान; आचरण विज्ञान ।

animate—(L. *animatus*, animate) सजीव; चेतन ।

anion—(Gk. *ana*, up; *ienai*, to go) ऋणायन; वह ऋण (—) कण या आयन (ion) जो धनात्मक (+) ध्रुव की ओर जाता है ।

anisocarpous—(Gk. *anisos*, unequal; *karpos*, fruit) न्यून अण्डपी; असमअण्डपी; ऐसा फल जिसमें अण्डप असमान होते हैं ।

anisocercal—(Gk. *a*, not; *isos*, equal; *kerkos*, tail) असमदल (पुच्छ) । ऐसी पूँछ जिसमें पुच्छ-क्षेपणि (tail fin) के दल छोटें बड़े हों; असमदल कहलाती है ।

anisochele—(Gk. *a*, not; *isos*, equal; *chele*, claw) असमदल चूंगुल (chela)

anisodactylous—(Gk. *a*, not; *isos*, equal; *daktylos*, finger) असमांगुलीय; ऐसे पक्षी जिसमें सब अँगुलियाँ (toes) अर्थात् पादांगुलियाँ बराबर की न हों । पक्षी वर्ग के एक पुराने वर्गीकरण (classification) में प्रयुक्त शब्द ।

anisogamete

anisogamete—(Gk. *anisos*, unequal; *gametes*, spouse) असमयुग्मक; असम जन्यु । ऐसा युग्मक या जन्यु (gamete) जो माप (size) व आकृति (form) में भिन्न हो ।

anisogamy—(Gk. *a*, not; *isos*, equal; *gamos*, marriage) असमयुग्मन; असम जन्यु संयोग; असम निषेकाणु संयोग; असमाणु संयोग । ऐसी संयोजिता या संयुग्मन (conjugation) जिसमें सयुक्त होने वाले युग्मक या निषेकाणु (gamete) एक से न हों ।

anisognathous—(Gk. *a*, not; *isos*, equal; *gnathos*, jaw) असम-हनुदंतिय । (वे जन्तु) जिनमें ऊपर और निचले हनु या जबड़ों (jaws) में एक से दांत न हों ।

anisomeros—(Gk. *anisos*, unequal; *meros*, part) असमानखण्डी; असमान दल चक्री, पुष्प दल चक्रों में असमान संख्या के भागों का होना ।

anisophylly—(Gk. *anisos*, unequal; *phyllon*, leaf) असमपर्णी ।

anisopleural—(Gk. *anisos*, unequal; *pleura*, side) असमपार्श्वीय ।

anisopleure—(Gk. *anisos*, unequal; *pleura*, side) असमांशी सृपीपाद ।

(देखिये gastropoda गैस्ट्रोपोडा)

anisopoda—(Gk. *a*, not; *isos*, equal; *pous*, foot) असमपाद ।

anisopogonus—(Gk. *anisos*, unequal; *pogon*, beard) असमजालपादी ।

anisopterus—(Gk. *anisos*, unequal; *pteron*, wing) असमपक्षीय ।

anisospore—(Gk. *anisos*, unequal; *sporos*, seed) असमबीजाणु; द्विरूपीस्पोर; ऐसा स्पोर या बीज जिसमें दो विभिन्न माप के लिंगी कारक हों ।

anisostemonous—(Gk. *anisos*, unequal; *stemon*, spun thread) असम पुंकेसरी; ।

anisotropic—(Gk. *a*, not; *isos*, equal; *trepein*, to turn) विषमदैशिक; असमघूर्णी; निश्चताक्ष; निश्चित ध्रुवी । (वे डिम्ब) जिसमें पहले से ही अक्ष रेखाये (axes) निश्चित हों । (देखिये isotropic—समघूर्णी) ।

ankle—टखना; गुल्फ ।

ankylosis = ankylosis—q.v. संसक्ति; अस्थि-समेकन ।

anlage—(Gk. *anlage*, predisposition) मौल; मूलांग । वृद्धि-शील भ्रूण (developing embryo) में पाया जाने वाला वह कोशिका प्रवृत्ति अंग संचय (accumulation of cells); जिसको किसी रचना (structure) अंग(organ) या भाग (part) का प्राथमिक मूल समझा जा सकता है ।

annectent—(L. *annectere*, to bind together) मध्यवर्ती; संबद्ध । किन्हीं दो जीनस या वंश (genus) या जाति (species) के बीच के सम्बन्धियों को मध्यवर्ती कहते हैं ।

annellida = annulata—(L. *annulus*, ring; Gk. *eidōs*, resemblance) ऐनेलिडा; मुद्राखण्डो, अकशेरुक का एक फाइलम ।

annotinous—(L. *annus*, yea) गतवर्षज; एकवर्षीय ; पिछले एक वर्ष में वृद्धि ।

annual—(L. *annus*, year) वार्षिक ।

annular—(L. *annulus*, ring) मुद्राकार, बलयकार ।

annulate—(L. *annulus*, ring) मुद्राकार; मुद्रा-खण्डी; मुद्राकार खण्डों वाला ।

annulus—(L. *annulus*, ring) मुद्राखण्ड; बलय बलयिका ।

anoestrus—(Gk. *an*, not; *oistros*, gadfly) अस्वैति, अजननकाल; सम्भोग की इच्छा न होना ।

anomaly—(Gk. *a*, not; *homalos*, even) असंगति; नियम-विरोध; नियम-च्युति; नियम-भ्रष्टता; आदर्श-विरोध; आदर्श-भ्रष्टता; आदर्श-च्युत ।

anomophyllous

anomophyllous—(Gk *anomalos*, irregular; *phyllon*, leaf) असंगत पर्णी; अक्रमिक पर्णी; बिना क्रम के पत्तियाँ का लगा होना ।

anomura—ऐनोम्युरा; क्षीणोदर; क्रस्टेशिया (केकड़ा-वंशी) वर्ग का एक उपगण (suborder); जिसमें उदर (abdomen) अत्यन्त क्षीण (reduced) होता है ।

anorganology—(Gk. *a*, not; *organon*, instrument; *logos*, discourse) अप्राणी विज्ञान; निर्जीव अध्ययन ।

anosmatic—(Gk. *a*, without; *osme*, smell) निर्घ्राणी ।

anosmia—(Gk. *a*, without; *osme*, smell) घ्राण संवेदना) हीन ।

anostraca—(Gk. *a*, not, *ostrakon*, shell) ऐनॉस्ट्रेका; क्रस्टेशिया (केकड़ा-वंशी) वर्ग का एक गण (order) जिसमें कवच (carapace) नहीं होता ।

anoxybiotic—(Gk. *a*, not; *oxys*, sharp, *biotos*, means of life) निर्वायु जीवी—

देखिये (anaerobic निर्वायु जीवी)

ansa—(L. *ansa*, handle) सिकत ।

anserine—(L. *aner*, goose) ऐन्सेरिन; पक्षियों की पेशी का एक घटक (constituent)—

(C₆ H₁₆ O₃ N₄) ।

ansiform—(L. *ansa*, handle; *forma*, shape) सिक्तोपम ।

antagonist—(Gk. *antagonistes*, adversary) विरोधी; मुख्य गति देने वाली पेशी के विरोध में कार्य करने वाली पेशी ।

antambulacral—(Gk. *anti*, against; *brachium*, arm; L. *ambulare*, to walk) अपाददेशीय ।

antapex—(Gk. *anti*, opposite; L. *apex*, tip) मेखलापश्च शिखर; डाइनोफ्लैजिलेटा में मेखलापश्च (hypocone) का शिखर ।

antapical—(Ok: *anti*, opposite; L. *apex*, tip) शिखर अभिमुखी क्षेत्र ।

antebrachium—(L. *ante*, before; *brachium*, arm) अग्रबाहु; प्रकोष्ठ; अधोबाहु ।

anteclypeus—(L. *ante*, before; *clypeus*, shield) अग्रक्लाइपियस (देखिये postclypeus पश्चक्लाइपियस)।

antecubital—(L. *ante*, before; *cubitus*, elbow) कोफणी अग्र; अग्रकुहनी; कुहनी से आगे का भाग ।

antedorsal—(L. *ante*, before; *dorsum*, back) पृष्ठाग्र ।

antefrons—(L. *ante*, before, *frons*, forehead) ललाटिका अग्र; किन्हीं कीटों में ललाटिका (frons) का शृंगिका या स्पर्शक (antenna) के अधो भाग के आगे का भाग ।

artelabrum—(L. *ante*, before; *labrum*, lip) अग्रोष्ठ अग्र; ।

antemarginal—(L. *ante*, before; *marge*, edge) तटीबीजाणुधानी पुंज; फर्न पत्र (frond) के तट पर स्थिति बीजाणुधानी पुंज (sori) ।

antenna—(L. *antenna*, a sail yard) शृंगिका; स्पर्शतन्त्र; स्पर्शक; कीट (insect) और क्रस्टेशिया (केकड़ावंशी) जन्तुओं के सिर पर स्थिति, जोड़दार स्पर्श ज्ञानेन्द्रियाँ।

antennary—स्पर्श तन्त्रीय ।

antennule—(Dim. of *anterior*) लघु स्पर्श तन्त्र स्पर्शोपतन्त्र लघु शृंगिका; प्रशृंगिका ।

antepetalous—L. *ante*, before, Gk. *petalon*, leaf) पखुडी अग्र; दलाभिमुखी; ।

anteposed—सम्मुख ।

anteponition—(L. *ante*, before, to place) उप-रिवृत्ति ।

antepronotum—(L. *ante*, before Gk. *pro*, before; *noton*, back) अग्रपृष्ठिका अग्र; पूर्याग्र पृष्ठक ।

anteriad—अग्र दिशी ।

anterior—(L. *antenna*, former) अग्र; अग्रवर्ती; अग्रस्थ; अग्र भागस्थ ।

anterior abdominal vein

- anterior abdominal vein—अग्र उदर शिरा; निम्नोदर शिरा ।
- anterior border—अग्रवर्ती किनारा; अग्रतट ।
- anterior commissure—अग्र संघावनी; अग्र सम्बन्धक ।
- anterior end—अग्र या अग्रिम छोर ।
- anterior fontanelle—अग्ररन्ध्र; ब्रह्मरन्ध्र ।
- anterior nares—अग्रनासाद्वार; नासा पुरोद्वार ।
- antero-dorsal—अग्रपृष्ठस्थ ।
- antero-lateral—अग्रपार्श्वीय ।
- antero-inferior—अग्रोदरस्थ; अग्रोदोवर्ती ।
- antero-superior—अग्रोर्ध्व ।
- antero-ventral—अग्रोदर ।
- anthecology—(Gk. *anthein* to bloom; *logos*, discourse) पुष्पपारिस्थिति की ।
- anthele—(Gk. *anthein*, to bloom) ऐन्थेला; एक प्रकार का ससीमाक्षी पुष्पक्रम (cymose inflorescence) ।
- anther—(Gk. *anthos*, flower) परागकोश, पुंकेसर (stamen) का वह भाग जिसमें पराग कण होते हैं ।
- anther lobe—परागकोशक ।
- antheridial cell—(Gk. *anthos*, flower; *idion*, *d m.*; L. *cella*, compartment) पुंघानी कोशिका ।
- antheridiophore—(Gk. *anthos*, flower; *idion*, *dim.*, *pherein*, to bear) पुंघानीधर; पुंयुग्मकधारी; एक युग्मकधारी जिसमें पुंघानी (antheridia) होते हैं ।
- antheridium—(Gk. *anthos*, flower; *idion*, *dim.*) पुंघानी; क्रिप्टोगैम (cryptogams) का अंग या धानी जिसमें नर लैंगिक कोशिकायें उत्पन्न होती हैं ।
- antherozoids, antherozooids—(Gk. *anthos*, flower, *zoon*, animal; *eidos*, form) पुंघानीनर कोशिकायें; पुमणु ।
- anthesis—(Gk. *anthos*, flower) प्रफुल्लित; कलिका

विवृतिता; पुष्प कलिका (कोरका) के खुलने का समय या काल ।

anthobian—पुष्पभक्षी ।

anthoblast—(Gk. *anthos*, flower, *blastos*, bud) पुष्पज ।

anthocarpous—(Gk. *anthos*, flower; *karpos*, fruit) संग्रहित फल; समस्त पुष्प क्रम में संपरिवर्तन से बना फला; जैसे सोरोसिस (sorosis)—कटहल, अनन्नास, शहतूत; और साइकोनस (syconus) जैसे बरगद, पीपल अंजीर, गूलर आदि ।

anthocaulis—(Gk. *anthos*, flower; L. *caulis*, stem) ऐन्थोकॉलस; अबिम्ब यष्टि; मेड्रीपोर (madrepore) वर्धन की अक्षापाचक मुकुल (trophozooid) का यष्टि (pedicle) ।

anthocodia—(Gk. *anthos*, flower; *kodeia*, head) ऐन्थोकोडिया; अल्सायोनेरिया (Alcyonaria) जन्तुओं में जन्तु कलिका (zooid) का दूरस्थ भाग (distal portion) जिस पर मुंह और टेन्टैकिल (tentacle) होते हैं ।

anthocyanin—(Gk. *anthos*, flower; *kyanos*, dark blue) ऐन्थोसाइएसिन; फूल पत्ती और तनों का नीला या बेजनी रंग ।

anthocyathus—(Gk. *anthos*, flower; *kyathos*, cup) जन्तुमुकुल मुकट; मेड्रीपोर (madrepore) वर्धन में जन्तु मुकुल (trophozooid) का विम्बीय मुकट (discoid crown) स्थिति ।

anthodium—(Gk. *anthos*, flower; *eidos*, form) ऐन्थोडियम; मुण्डक; कम्पोजि कुल (compositae family) का पुष्प क्रम ।

anthogenesis—(Gk. *anthos*, flower; *genesis*, descent) नरमादा उत्पादन; अलैंगिक प्रकार से नर और मादा दोनों का पैदा होना जैसे, कुछ ऐफिड्स (aphids) में ।

anthomedusae—(Gk. *anthos*, flower; *medusa*

वैक्टीरिया और वाइरस के आक्रमण से रक्षा करना होता है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन मिलकर परजीवियों का नाश करते हैं। प्रतिरक्षी रक्षिर में रहते हैं तथा इनका निर्माण लसीकाणु (lymphocytes) प्लाज्मा कोशिकाओं (plasma cells) और सम्भवतः बृहत् भक्षकाणु (macrophages) से जटिल विधि से होता है। एक बार निर्मित हो जाने पर यह रक्षिर में बने रहते हैं जिससे इसी प्रकार के परजीवी से रोधक्षमता बनी रहती है। विषाणुरोपण (vaccination) या निवेशन (inoculation) रोगों के प्रति रोधक्षमता प्रतिरक्षीयों द्वारा ही प्राप्त होती है।

antibrachium = antebrochium—(Gk. *anti*, against; L. *brachium*, arm) अग्रबाहु; प्रकोष्ठ।

anticipation—(L. *ante*, before; *capere*, to take) पूर्ण ज्ञान।

anticlinal—(Gk. *anti*, against; *klinein*, to bend) अपनतिक; ऋजुकूटक वक्षीय कशेरु; सीधी कूट युक्त वक्षीय कशेरु।

anticoagulin—(Gk. *anti*, against; L. *coagulum*, rennet) प्रतिस्कन्दक; अथक्कीय (पदार्थ); रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ जैसे हिरुडिन (*hirudin*)।

anticryptic—(Gk. *anti*, against; *kryptos*, hidden) अगोपक।

antidromic—(Gk. *anti*, against; *dromos*, running) प्रतिगमन; प्रति चलन; विपरीत चलन; मामान्य दिशा के विपरीत चलन जैसे उत्तेजना का अक्षक (axon) से तंत्रिका कोशिका की ओर चलन।

antidromy—(Gk. *anti*, against; *dromos*, running) प्रतिगामी।

antienzyme—(Gk. *anti*, against; *en*, within; *zyme*, leaven) अक्षोभक; प्रतिऐन्जाइम।

antigem—(Gk. *anti*, against; *genos*, birth) ऐन्टीजन; प्रतिरक्षज; प्रतिजन; वह पदार्थ जो शरीर के

तरल में क्रमिक कार्य की रसायनिक (physiologico-chemical) परिवर्तन लाने हैं जिससे शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं।

antihelix—(Gk. *anti*, against; *helix*, convolution) नतोत्तुंग; कान के हेल्क्स (helix) के समक्ष एक मुड़ी हुई उत्तुंग।

antihormones—(Gk. *anti*, against; *hormao*, I excite) एन्टीहार्मोन; अउद्दीपक; उद्दीपक ह्रासक।
(देखिये-chalones उद्दीपकह्रासक)

autipepsia—(Gk. *anti*, against; *pepsis*, digesting) पेपसिन नाशक (ह्रासक)।

antimere—(Gk. *anti*, against; *meros*, part) अरांश; प्रतिखण्ड।

antioneuritic—(Gk. *anti*, against; *neuron*, nerve) प्रतितंत्रिकी; विटामिन बी. 1 इस की कमी से पोलि-न्युराइटिस (polyneuritis) नामक रोग होता है।

antipepsin—(Gk. *anti*, against; *pepsis*, digesting) पेप्सिन प्रतिरोधी; आमाशय का स्राव जिससे पेप्सिन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है।

antipetalous—(Gk. *anti*, opposite; *petalon*, petals) प्रति पंखुडिक; प्रति दलपुंजक; ऐसे पुष्प जिनमें पंखुडियों के सम्मुख पुंकेसर (stamens) होते हैं।

antipodal—(Gk. *anti*, against; *pous*, foot) प्रतिव्यासांत।

(१) भ्रूणाशय (embryosac) में क्लाजा (chazala) छोर पर तीन कोशिकाओं का समूह।

(२) तरकूट (spindle) सूत्रों के अविमुख तार-किरणों (astral rays) का एक शंकु (cone)।

antipygidial—(Gk. *anti*, against; *pygidion*, narrow rump) प्रतिपश्च परिकीय कच; पिस्सुओं (fleas) में सातवें उदर खण्ड के कच (bristles) जो पश्च पटिका (pygidium) तक फैले होते हैं।

antirachitic—(Gk. *anti*, against; *rhachis*, spine) एन्टीरेकिटिक; प्रति शिथिल संधिक; विटामिन

- 'डी' जिसकी कमी से अस्थि शिथिल संघि (rickets) नामक रोग होता है ।
- antiscorbutic**—(Gk. *anti*, against, L.L. *scorbutus*, scurvy) प्रतिस्कर्वी; विटामिन सी; एस्कोरविक अम्ल; इसकी कमी से स्कर्वी (scurvy) नामक रोग होता है ।
- antisepalous**—(Gk. *anti*, opposite; F. *sepale*, from L. *separare*, to separate) प्रतिवाह्यदली; ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर (stamens) बाह्यदल (sepals) के अभिमुखी होते हैं ।
- antiseptic**—(Gk. *anti*, against; *sepsis*, putrefaction) विपाणु नाशक; प्रतिरोधी ।
- antispadix**—(Gk. *anti*, against; *spadix*, palm branch) प्रति-स्पोडिक्स; नोटिलस (Nautilus) जन्तु के आन्तरिक पार्श्व दलों में चार परिणत (modified) स्पर्शकों का समूह ।
- antisquama**—(Gk. *anti*, against; *squama*, wing) प्रतिशल्किका; स्क्वेमा ऐलेरिस
- antistyle**—(Gk. *anti*, against; L. *stilus*, pricker) प्रतिशूकिका; ।
- antitegula**—(Gk. *anti*, against; L. *tegula* tile) प्रतिशल्किका ।
- antithetic**—(Gk. *antithesis*, opposition) पीढ़ी-एकान्तरण; (१) दुगुणित (डिप्लाइड) और अर्धसूत्री (haploid) संततियों का विपर्यय । (२) स्पोरधारी (बीजाणु-उद्भिद) और युग्मकोद्भिद (gametophyte) संततियों का विपर्यय ।
- antithrombin**—(Gk. *anti*, against; *thrombos*, clot) थक्कारोधक ।
- antitoxin**—(Gk. *anti*, against; *toxicon*, poison for arrows) प्रतिजीव विष; विषनाशक ।
- antitrochanter**—प्रतिशिखरक; एन्टीट्रोकेन्टर; पक्षीओं में इलियम (ileum) पर पाया जाने वाला सन्धि तल (articular surface) जिसमें फीमर का ट्रोकेन्टर (trochanter) घूमता है ।
- antitropic**—(Gk. *anti*, against; *trope*, turn) असमान वृत्ति; अभिमुख दिशी ।
- antitropous**—(Gk. *anti*, against; *trope*, turn) विलोमी; विलोमदिकी; ऐसे भ्रूण (embryos) जिनमें मूलांकुर (radicle) नभिका (hilum) से उलटी दिशा में होती है ।
- antilia**—(L. *antlia*, pump) ऐन्टीलिया; उत्तुल । शल्कीपक्षक (लेपिडॉप्टेरा—lepidoptera) का चक्राकार (spiral) चूपक (suctorial) शुंड (proboscies) ।
- antlers**—सीघ, शाखाओं वाले सीघ, जैसे वारहसिंघा में होते हैं ।
- antlia**—(L. *antlia*, pump) चक्राकार तुण्ड; तनुपक्षक (lepidoptera) में वेचदार घूमने वाली प्रोथ या तुण्ड ।
- antorbital**—(L. *ante*, before; *orbs*, circle) नेत्र-गुहाय; नेत्रगुहा के आगे स्थित; अप्राक्षि ।
- antrum**—(L. *antrum*, cavity) गह्वर; गुहा (cavity) या कुल्या (sinus) जैसे मैक्सिलरी (maxillary) कुल्या (sinus), पाइलोरस गुहा (cavity) ।
- anura**—(Gk. *a*, without; *aura*, tail) निष्पुच्छ; ऐम्फीबिया वर्ग का एक उपवर्ग (subclass) या गण (order), जिनमें प्रौढ़ जन्तु (adult animal) बिना दुम वाला होता है, जैसे मेंढक ।
- anus** (anal aperture)—गुदा; पायु; मलद्वार; भोजन नली (alimentary canal) का पिछला द्वार, जिससे विष्ठा (faeces) निकलती है ।
- aorta**—(Gk. *arte*, the great artery) आयोटा; बृहद्धमनी; महाधमनी ।
- aortic arch**—महाधमनी चाप; बृहद्धमनी वलय; बृहद्धमनी सम्बन्धी क्लय ।
- apatetic**—(Gk. *apatetikos*; fallacious) भ्रमकारी; बचक; छद्म (रंग या आकार) ।
- aperiodic**—अनावर्ती ।
- aperture**—छिद्र; रंध ।
- aperispermic**—(Gk. *a*, without; *peri*, around;

apetalous

sperma, seed) पुष्टि ऊतकी हीन; अपुष्टि ऊतकी बीज; ऐसे बीज जिनमें पोषण ऊतक (nutritive tissue) का अभाव होता है ।

apetalous—(Gk. *a*, without; *petalon*, petal) अदली, दल (petal) हीन ।

apex—(L. *apex*, summit) शीर्ष; शिखर; शिखाग्र; चोटी; मूर्ध्ना; ऊपरी भाग; शिखा ।

aphanipterous—(Gk. *aphanes*, unseen; *pteron*, wing) अदृष्टपक्ष ।

apheliotropism—(Gk. *apo*, away; *helios*, sun; *trepein*, to turn) प्रकाश-पराङ्गमुखी वृत्ति; प्रकाश की ओर से हटाने वाला स्वभाव ।

aphodal—(Gk. *apo*, away; *hodos*, path) निर्गमिका मय ।

aphodus—(Gk. *apo*, away; *hodos*, path) निर्गमिका ।

aphotic—(Gk. *a*, without; *phos*, light) प्रकाश हीन; निष्प्रकाशी ।

aphyllous—(Gk. *a*, without; *phyllon*, leaf) अपर्णी; बिना पत्ती वाले; पत्तीहीन ।

aphylly—(Gk. *a* without; *phyllon*, leaf) पत्ती हीनता; अपर्णता ।

apical—(L. *apex*, summit) मूर्धन्य; शिखरस्थ; शिखाग्र ।

apical plate—शिखाग्रपट्ट; मूर्धन्य पट्ट ।

apical system—मूर्धन्य तन्त्र; शिखाग्र तंत्र ।

apiculate—(Dim, of L. *apex*, summit) साग्रक ।

apiculus—(Dim, of L. *apex*, summit) शिखान्तक; पर्णाभि; स्पोरान्तक ।

apilary—(Gk. *a*, not; *pilos*, felt cap) उर्ध्वोष्ठहीन ।

apiloxin—(L. *apls*, bee; Gk. *toxikos*, poison) एपीटोक्सिन; मुख्यविष; प्रधान विष; मधु मक्षिका विष का प्रधान तत्व ।

apituitarism—(L. *a*, away; *pitiuta*, phlegm)

पिट्यूटरी स्राव हीनता; पिट्यूटरी ग्रन्थि के स्राव में कमी हो जाना या विलकुल बन्द हो जाना ।

aplacental—(L. *a*, not; *placental*, flat cake) कमलहीन; निष्कमल ।

aplacophora—(Gk. *a*, not; *plax*, a plate; *pherein*, to bear) निष्पट्ट; फाइलम मौलस्का (कवचधारी) के ऐम्फीन्यूरा (amphinuro) वर्ग (class) का एक गण (order) ।

aplanogametangium—(Gk. *a*, not; *planos*, wandering; *gametes*, spouse; *anggeion*, vessel) अचलयुग्मकज; ऐसी कोशिका जिसमें अचलयुग्मकों का निर्माण होता है ।

aplanogamete—(Gk. *a*, not; *planos*, wandering; *gametes* spouse) अचलयुग्मक ।

aplanospore—(Gk. *a*, not; *planos*, wandering; *sporos*, seed) अचल स्पोर; शैवाल (algae) का गति हीन विश्रामिक स्पोर ।

aplerotic—अल्पसंभृत; अपरिपूरक ।

aplásia—(Gk. *witho t*; *plassein*, to mould) अवरुद्ध वर्धन; अवर्द्धन ।

aploperistomatous—(Gk. *aploos*, single; *peri*, around; *stoma*, mouth) दन्त परिमुखी; एक पंक्ति दन्त परिमुखी; एक पंक्ति दन्त युक्त परिमुख (peristome) जैसे माँस (moss) में ।

aplostemonous—(Gk. *aploos*, single; *stemon*, spun thread) एक पंक्ति पुंकेसरी ।

apneustic—(Gk. *a*, without; *pneustos*, breath) आच्छेदवातच्छिद्री; बन्द या अनुपस्थिति वात छिद्री, जैसे कीटों के जलीय लारवा (larva) ।

apocarpous—(Gk. *apo*, away; *karpos*, fruit) वियुक्तांडपी ।

apocarpny—(Gk. *apo*, away; *karpos*, fruit) विमुक्तांडपता; बहुअंडपता ।

apochlorosis—(Gk. *apo*, away; *chloros*, grass green) अहरीत; क्लारोफिल हीन । कषाधारियों (flagellata) में क्लोरोफिल का न होना ।

apogeny—(Gk. *apo*, away; *genesis*, descent)

अपजनन ।

apogyny—जायंगवन्धयता ।

apolysis—प्रमोचन ।

apocrine—(Gk. *apo*, away; *krinein*, to separate) ऐपोक्राइन; अशस्त्रावी; ऐसी गन्धि जो केवल कोशिका के आंशिक तत्वों का निर्माण करते हैं ।

(देखिये- holocrine होलोक्राइन-पूर्णस्त्रावी)

apocyte—(Gk. *apo*, away; *kytos*, hollow) बहु-नाभिक कोशिक; बहुअष्टिक कोष्ठ ।

apoda—(Gk. *a*, without; *pous*, foot) अपादी ।
ऐसे पक्षी व सपं जाति के जन्तु जिनके पैर या पूँछ में पर न हो तथा मत्स्य जिनके अधर फिन न हों ।

apodal = apodous—(Gk. *a*, without; *pous*, foot) अपादी, अपाद ।

apodema = apodeme—(Gk. *apo*, away; *demos*, body) ऐपोडीमा; आर्थ्रोपोडा-सन्धि पादों में अन्तःस्थ प्रवर्द्धन ।

apogamy—(Gk. *apo*, away; *gamous*, marriage) अपयुग्मन; निलिङ्गक वर्धन; ऐसा वर्धन (development) जिसमें लिंगिक (sexual) अंग भाग नहीं लेते हैं ।

apogeotrophic—(Gk. *apo*, away; *gaia*, earth; *trophe*, turn) अपपृथ्वी अभिवृत्ति; निपृथ्वी अभिवृत्ति; ऋणात्मक पृथ्वी अभिवृत्ति, अगुरुत्वानुवर्ती ।

apogeotropism—(Gk. *apo*, away; *gaia*, earth; *trophe*, turn) ऋणात्मक पृथ्वी अभिवृत्ति ।

apolegamic—(Gk. *apo*, away; *gamos*, marriage) संकलित पाणि ग्रहण; अपपाणि ग्रहण; असंग विवाह ।

apomeiosis—(Gk. *apo*, away; *meion*, smaller) अपह्रासविभाजन; विना अगुणिता (haplois) के बीजाणु जनन (sporogenesis) ।

apomict—(Gk. *apo*, away; *miktos*, mixed) मिश्रित जीव प्रतिरूप; ऐसा जीव प्रतिरूप जो अपयुग्मन

(apogamy) और वनस्पतिक वृद्धि (vegetative propagation) के फल स्वरूप वनता है ।

apomixis—(Gk. *apo*, away; *mixis*, a mixing) मिश्रित उत्पादन; असंगत उत्पादन; असंगजनन, पौधों में अनिषेक जनन (parthenogenesis) सहस्र उत्पादन असंगता जैसे बीज के अतिरिक्त कोशिकाओं से वर्धन ।

apomorph—अपरूप ।

aponeurosis—(Gk. *apo*, from; *neuron*, sinew) समीभूकंजरा; कुछ पेशियों का चपटा कंजरा (tendon) ।

apopetalous—(Gk. *apo*, away; *petalon*, leaf) पंखुडीहीन; पृक्कदली; अवरुद्ध वर्धन के कारण पंखुडियों का अनुपस्थिति रह जाना ।

apophyllous—(Gk. *apo*, away; *phyllon*, leaf) अपपर्णी; एकल परिदल पुंज (perianth) चक्र के भाग जबकि वे स्वच्छन्द पर्ण हों ।

apophysate—विवर्धघर ।

apophysis—(Gk. *apo*, away; *phyein*, to grow) अस्थि-विवर्द्धन; (अस्थि) प्रवर्धन; विवर्ध ।

apoplasmoidal—(Gk. *apo*, away; *plasma*, something moulded) अपप्ररसएकता; अपप्लासमेडियम;

apopyle—(Gk. *apo*, away; *pyle*, gate) अपद्वार; निर्गमद्वार । ऐपोपाइल ।

aporrhysa—(Gk. *aporrhain*, to flow away) उत्क्षेपक नलिकायें (स्पंज बहुछिद्रीयों में) ।

aposematic—(Gk. *apo*, away; *sema*, signal) अपसूचक; त्रासक (रंग) अपसूचक रंजक ।

aposepalous—पृथक बाह्य दलीय ।

aposporogony—(Gk. *apo*, away; *sporos*, seed; *gonos*, birth) अपस्पोरोत्पादन, निस्पोरोत्पादन ।

apospory—(Gk. *apo*, away; *sporos*, seed) अपस्पोरी; अपबीजाणुता; विना स्पोर निर्माण के

- बीजाणु उदाभद (sporophyte) से युग्मकोद्भिद (gametophyte) का बनाना ।
- apostasis**—(Gk. *apo*, away; *stasis*, standing) ऐपोस्टसिस; अपवर्धनना; अनियत वृद्धिता; अक्ष (axis) की अनियत (abnormal) वृद्धि (growth) की दशा ।
- apostrophe**—(Gk. *apo*, away; *strophe*, turn) ऐपोस्ट्रोफे; अपहरीतलवकी; पर्णकोशिकाओं की पार्श्व भित्तियों पर हरीत लवकों (chloroplasts) का विन्यास ।
- apothecium**—(Gk. *apo*, away; *theke*, cup) विमुक्तांडप चसक; अप चपक ।
- apotropous**—(Gk. *apo*; away; *trope*, turn) अपवक्र (फल); अधर स्थिति सीवन हीन सन्धि रेखा (suture) युक्त ।
- apotype**—(Gk. *apo*, away, *typus*, type) अपरूप ।
- apparatus**—उपकरण ।
- appendage**—(L. *ad*, to; *pendere*, to hang) अनुबंध; उपांग; शाखा; अवयव ।
- appendices colli**—(L. *ad*, to; *pendere*, to hang; *collum*, neck) कण्ठ अनुबंध ।
- appendicular**—(L. *ad*, to; *pendere*, to hang) अनुबंध; अनुबंध सम्बन्धी, अवयव सम्बन्धी ।
- appendicular skeleton**—अवयव अस्थि पंजर ।
- appendiculate**—(L. *ad*; to; *pendere*; to hang) अवयवी; अनुबंधी; अवयव वाला ।
- appendix**—एपेन्डिक्स, अनुबन्ध नलिका ।
- applanate**—(L. *ad*, to; *planatus*, flattened) चपटी ।
- apposition**—(L. *ad*, to; *ponere*, to place) एका-न्वय; स्तराधान ।
- appressorium**—(L. *ad*, to; *pressare*, to press) चूपक विम्ब ।

- aproterodont**—(Gk. *a*, without; *proteros*, first; *odous*, tooth) अश्वोर्ध्वदन्ती ।
- aptera**—(Gk. *a*, without; *pteron*, wing) अपिच्छ; अपक्ष ।
- apteria**—(Gk. *a*, without; *pteron*, wing) अपिच्छ क्षेत्र; अपक्ष क्षेत्र; पक्षी की देह के वे क्षेत्र (tracts), जिन पर पंख (पिच्छ या पक्ष) नहीं उगते । ये क्षेत्र पिच्छ क्षेत्रों (feather tracts या pterylae) के बीच में स्थित होते हैं ।
- apterous**—(Gk. *a*, without; *pteron*, wing) पक्षहीन; अपक्ष; पंख रहित; विना पंख वाले ।
- apteryges**—ऐप्टेरिजी; अपक्षीकीवी-समूह । पक्षी वर्ग (class aves) के अन्तर्गत नवपक्षी उपवर्ग (subclass) नियोरनिथीज (neornithes) का एक गण (order) जिसमें कीवी (kiwi) पक्षी सम्मिलित हैं ।
- apterygial**—(Gk. *a*, without; *pterygion*, *dim.* of *pteron*, wing) अपक्षी, पखरहित ।
- apterygota**—(Gk. *a*, without; *pterygion*, *dim.* of *pteron*, wing) ऐप्टेरिगोटा; अपक्ष; कीट वर्ग का एक उप-वर्ग ।
- apterygotos**—(Gk. *a*, without; *pterygotos*, winged) अपक्षोपम ।
- aptychus**—(Gk. *a*, without; *ptyche*, fold) ऐप्टीकस; श्रृंगी या खरिक संरचना । जैसे गिलावरण आदि ।
- apyrene**—(Gk. *a*, not; *pyren*, first stone) नाभिक या न्यूक्लियसहीन वीर्याणु, अभिष्टहीन वीर्याणु ।
- aquarium**—जलजीव शाला; जलशाला ।
- aquatic**—(L. *aqua*, water) जलीय; जल-; जलवासी ।
- aqueduct**—(L. *aqua*, water; *ducere*, to lead) नलिका पथ; कृत्रिम जल-प्रणाल ।
- aqueduct of sylvius**—(*sylvius*, flemist-anatomist) सिलवियस का नलिका पथ; तृतीय और चतुर्थ

मस्तिष्क विवर (ventricle) को जोड़ने वाला नलिका पथ (आइटर iter) ।

aqueous—(L. *aqua*, water) जलीय ।

aqueous humour—ऐक्विअस ह्यूमर; नेत्रोद; चक्षुजल ।

arable—कृष्य; कृषि गत ।

arachin—ऐराकिन ।

arachnactis—(Gk. *arachne*, spider: *aktis*, ray)

अरेकनेकटिस, डिम्बकावस्था ।

arachnid—(Gk. *arachne*, spider) लूता; जालक;

तंतुवाय; तंतुनाभ ।

arbour—कुंज ।

arachnida—(Gk. *arachne*, spider) ऐरेक्रनिडा;

अष्टपाद । वह वर्ग जिसमें मकड़ी विच्छ, खुजली के कीड़े, वीर वहूटी आदि सम्मिलित हैं ।

arachnidium—(Gk. *arachne*, spider) तन्तुवाय

यन्त्र ।

arachnoid membrane—(Gk. *arachne*, spider;

eidos, form) अरैकनौड (तन्त्वाकार) झिल्ली; तन्त्र-च्छद (मस्तिष्क या मध्यच्छद या मध्यावरण) ।

araneida—अरैनिडा; तन्तु वाय; उर्णनाभ; मकड़ी गण ।

अरैनिडा (arachnida) वर्ग का वह गण (order) जिसमें मकड़िया सम्मिलित हैं ।

arbor vitae—(L. *arbor*, tree; *vita*, life) अश्वत्थ;

प्राण-तरु; जीवन वृक्ष । वृक्ष विन्यास ।

arboreal or arboricolous—वृक्षीय; वृक्षवासी; वृक्ष ।

arborescent—(L. *arborescens*, growing iike a

tree) वृक्षवत्; वृक्षसम; वृक्षोपम शाखीय ।

arborisation—(L. *arbor*, tree) वृक्षोपम; शाखिक

(शाखीय) ।

arboroid—(L. *arbor*, tree; Gk. *eidos*, like)

वृक्षोपम ।

arbuscle—(L. *arbuscula*, shrub) कूर्चक; लघु क्षुप

(झाडी); वृक्षोपम लघु क्षुप; लघु वृक्ष ।

arbuscular—(L. *arbuscula*, shrub) कूर्चकोपम ।

arcade—(L. *arcus*, a bow) तोरण ।

arch—तोरण; चाप ।

archaean—(Gk. *archaios* ancient) पूर्वांदय (युग);

आद्यमहा (युग) । (देखिये Precambrian--जीवांदय (युग)

archaeocyte—(Gk. *archaios*, ancient; *kytos*,

hollow) पुरा कोशिका; आद्य कोशिका ।

archaeornithes—(Gk. *archaios*, ancient; *ornis*,

bird) पुरापक्षी; पक्षी वर्ग का एक उपवर्ग जिसमें केवल

एक जाति लुप्त (extinct) पुरातन पक्षी आर्कियोप्टैरिक्स

(archaeopteryx) ही सम्मिलित हैं ।

archaeostomatous—(Gk *archaios*, primitive;

stoma, mouth) पुरामुखी ।

archaeozoic—(Gk. *archaios*, ancient; *zoo*, life)

आर्कियोजोइक; सर्वप्रथम भूगर्भयुग; एक कोशिकी (one

celled) जन्तुओं का युग ।

archebiosis—(Gk. *arche*, beginning; *biosis*,

living) जीवनोदगम; जीवनोदभव; जीवन का

आरम्भ ।

archedictyon—(Gk. *arche*, beginning; *diktyon*,

net) आद्य अन्तर शिरी; कुछ आद्य कीटों के पंखों के

पर का अन्तर शिरा जाल ।

archegoniophore—(Gk. *arche*, beginning;

gonos, offspring; *pherein*, to bear) आद्यजनन

धारी; फर्न स्पोर पुंज (prothalli) का वह भाग

जिसमें आद्यजनन (archegonia) होते हैं ।

archencephalon—(Gk *arche*, beginning; *engke*,

phalos, brain) पुरामस्तिष्क ।

archenteron—(Gk. *arche*, beginning: *enteron*,

gut) आर्कैन्ट्रोन; आद्यांत्र; पुरान्त्र ।

(देखिये Gastrocoel)

archespore—(Gk. *arche*, beginning; *sporos*,

seed) आर्कैस्पोर, आद्य स्पोर ।

archesporium—(Gk. *arche*, beginning; *sporos*,

seed) स्पोर मातृज; स्पोर मातृ कोशिका को जन्म

देने वाली कोशिका ।

archiamphiaster—(Gk. *archi*, first; *amphi*, on both sides; *aster*, star) आद्य उभयतारक; आद्य-द्वितारक।

archi-annelida—आंरकी-एनैलिडा।

archiblast—(Gk. *archi*, first, *blastos*, bud) डिम्बप्रोटोप्लाज्म।

archiblastic—(Gk. *archi*, first; *blastos*, bud) पुरा विभाजी; पूर्ण तथा एक समान कोशिकाओं में विभाजित होने या खण्डित होने वाले डिम्ब।

archiblastula—(Gk. *archi* first, *blastos*, bud) पुराभ्रूण। पूर्ण और सम विभाजी डिम्बों (eggs) के विभाजन (segmentation) द्वारा रचित एक स्तर भ्रूण (blastula)।

archicarp—(Gk. *archi*, first; *kerpos*, fruit) आद्याण्डधानिक; पुरा अण्डधानिक; किन्हीं फन्जाई (fungi) में अण्डधानी (oogonium) धारणा करने वाला घूमा हुआ डन्ठल (stalk) का भाग।

archicerebrum—(Gk. *archi*, first; L. *cerebrum*, brain) पुरामस्तिष्क।

archichlamydeous—(Gk. *archi*, first; *chlamys*, cloak) अपंखुडिक; बिना पंखुडी वाला।

archicoel—(Gk. *archi*, first; *koilos*, hollow) पुरागह्वर; पुरा कोटर।

archigony—(Gk. *archi*, first; *gonos*, offspring) आद्यजीवनोदगम; पुराजीवनोदगम; प्रथम जीवन का आरम्भ।

archinephric duct—(Gk. *archi* first; *nephros*, kidney) आद्यवृक्क नलिका; आदि वृक्क वाहिनी।

archinephros—आदि वृक्क; पुरा वृक्क।

archipallium—(Gk. *arch*, first; L. *pallium*, a mantle) पुरा-घ्राण प्रदेश।

archiplasm—(Gk. *archi*, first; *plasma*, mould) आदितत्व; पुरागतितत्व।

archipterygium—(Gk. *archi*, first; *pterygion*, little wing) आद्यपंखक, पुरा-क्षेपण।

architomy—(Gk. *archi*, first; *tome*, cutting) अगामी पुनरुत्पादन भंजन।

(देखिये विलोम Paratomy—पूर्व पुनरुत्पादन भंजन)

archi-type—(Gk. *archi*, first; *typos*, type) पुरादर्श, प्रारम्भिक पुरादर्श।

arcicentrous—(L. *arcus*, bow; *centrum*, centre) चापक कशेरुक, पुराकायी (कशेरुक); ऐसे कशेरुक (vertebrae) जिसमें सेन्द्रम (centrum) मुख्यतः तोरण तत्वों से निर्मित होता है।

arciferous—(L. *arcus*, bow; *ferre*, carry) आर्की-फेरस; चापधारी; टोड (toad) आदि की तरह स्कन्ध वलय (shoulder girdle) वाले जिनमें प्रीकारोकायड (precoracoid) और कोराकायड (coracoid) चापीय एपीकोराइड (epicoracoid) से पृथक रहते हैं।

arcifera—(L. *arcus*, bow; *ferre*, to carry) आर्कीफेरा; निष्पुच्छ अर्थात् ऐन्यूरा उपवर्ग का एक गण (order)।

arciform—(L. *arcus*, bow; *forma*, shape) चापोपम।

arcocentrous—(L. *arcus*, bow; *centrum*, centre) पुराकशेरुकायी।

arcocentrum—(L. *arcus*, bow; *centrum*, centre) चापक कशेरुकाय (सेन्द्रम)।

arctic zone—शीत कटिबन्ध; आर्कटिक क्षेत्र।

arcualia—(L. *arcus*, bow) चाप।

arcuate—(L. *arcus*, bow) चापोपम।

arculus—(Dim. of L. *arcus*, bow) शिरा चाप, किन्हीं कीटों के पक्षों में शिरा द्वारा चाप का बना होना।

ardellae—(Gk. *ardein*, to sprinkle) आर्डीली; धूलसम (कण)।

area—(L. *area*, ground space) क्षेत्र।

area opaca—अपारदर्शी क्षेत्र; अविशद क्षेत्र; अस्पष्ट क्षेत्र ।

area pellucida—पारदर्शी क्षेत्र; विशद क्षेत्र; स्पष्टक्षेत्र ।

area vasculosa—रक्तमय क्षेत्र; संवहनीय क्षेत्र ।

arenaceous—(L. *arena*, sand) बालुकामय; रेतदार ।

arenicolous—(L. *arena*, sand; *colere*, to inhabit) बालुकावासी ।

areola—(L. *areola*, *dim.* of *area*, space) उपकुल्यक; गतिका; क्षेत्रिका । चूचुक (nipple) को घेरे हुए एक छोटा गोला; आँख की पुतली को घेरे हुए उपतारा (iris) का भाग; लाईकिन (lichens) की सतह पर का चटखा हुआ क्षेत्र ।

areolar—(L. *areola*, space) सछिद्र; सांतराल; ऐरियोलर ।

argentea—(L. *argenteus*, silver) रजतोपम स्तर; परत या तट (silvery layer) ।

argenteum—(L. *argenteus*, silver) रजत स्तर; द्युति (कोशिका); रजत पर्त । मत्स्यों में द्युति कोशिकाओं (iridocytes) का रजतोपम अन्तश्छदी (dermal) स्तर (layer) जिसमें रंजक कोशिकायें (chromatophores) नहीं होती हैं ।

argillaceous—मृदावासी ।

arginase—आरजीनेस; यकृत (liver) का एक क्षोभक ।

argyrophil—(Gk. *argyros*, silver; *philos*, loving) रजतरागी ।

aril. arillus—(F. *arille*, sp. *arillo*, a small hoop) अतिरिक्त बीज चोल; कुछ बीजों पर निषेक के पश्चात् एक अतिरिक्त चोल या त्वक का बन जाना ।

arillode—(F. *arille*. hoop; Gk. *eidos*, like) अनृत बीज चोल, अणु छिद्र के क्षेत्र से एक अनृत (false)बीज चोल का निकल आना ।

arista—(L. *arista*, awn) शूक; शृंग; कचीयस्पर्श शृंग । बहुत से द्विपक्ष (डिप्टिरा diptera) गण

(order) के जन्तुओं के ऐंठना जिन पर कच् (bristles) पाये जाते हैं ।

aristate—(L. *arista*, awn) शूकमय; शूकी; शृंगी; कचीय स्पर्श शृंगी; जैसे कीटों का स्पर्शक (antenna) ।

aristogenesis—(Gk. *aristos*, best; *genesis* descent) एरिस्टोजीन विकास ।

१—जाति विकास का निर्माणक तत्व (creative principle) ।

२—जर्म प्लाज्म (germ plasm) से नवीन जैव यांत्रिक विकास प्रक्रिया का उदय होना ।

aristotles, lantern—अरस्तु की लालटेन (सी अर्चिन का चवण यन्त्र) ।

arkyochrome—(Gk. *arkys*, net; *chrome*, colour) जालीय निस्ल कणी ।

arm—भुजा; बाहु ।

arm pit—बाहुकोरक; बगल का गड्ढा ।

armature—(L. *arma*, weapons) अस्त्र; आर्मेचर ।

arolium—(Gk. *arole*, protection) ऐरोलियम; कीटों (insects) के अग्रगुल्फ (pretarsus) का मध्य दल ।

aromorph—(Gk. *airein*, to raise; *morphe*, form) जीवन शक्ति वर्धक (रचना या लक्षण) ।

aromorphosis—(Gk. *airein*, to raise; *morphosis*, shaping) जीवन शक्ति वर्द्धता ।

arrangement—विन्यास ।

array—(F. *arroi*, retinue) व्यूह; आकार व्यवस्थित; आकार के अनुसार क्रम से लगा हुआ ।

arrect—(L. *arrectus*. set up right) सीधा खड़ा उर्ध्व ।

arrectores pilorum—एरेक्टस पिलोरम; केश कूपों से सम्बन्धित अधारीदार पेशी सूत्रों के पुलन्दे जिनके सिकुड़ने से रोम (hair) खड़े होते हैं ।

arrhenogenic—(Gk. *arrhen*, male; *genos*,

offspring) नर प्रमवनी; नरसू; केवल नर बच्चे को जन्म देने वाली ।

arrhenoid—(Gk. *arrhen*, male; *aidos*, form) नरोपम; नरानुरूप; पुंसानुरूप ।

arrhenoplasm—(Gk. *arrhen*, male; *plasma*, mould) नर सत्व । यह मत कि समस्त प्रोटोप्लाज्म (protoplasm) नर सत्व (male plasm or arrhenoplasm) और नारी सत्व या मादासत्व (thelyplasm) का बना होता है ।

arrehenotoky—(Gk. *arrhen*, male; *tokos*, birth) अनिवेक नरोत्पादन; अनिवेक पुंजनन । अनिवेकज डिम्बों (parthenogenetic eggs) से नर व्यक्तियों की उत्पत्ति ।

arrhostia—(Gk. *arrhostia*, ill health) अर, होशियारी; एक हृण दशा; किन्हीं लुप्त कशेरुकों में अत्यधिक माप का होना ।

artefact—(L. *ars*, art; *factus*, made) कृत्रिम रचना ।

artenkreis—(Gk. *Art*, species; *kreis*, circle) अभिजाति ।

arterial—धमनी सम्बन्धी; धमनी-; धमनीय ।

arteriole—(L. *arteriola*, small artery) धमनिका ।

artery—(L. *arteria*, artery) धमनी ।

arthritic—(Gk. *arthron*, joint) सन्धिक; सन्धि सम्बन्धी ।

arthrobranchiae—(Gk. *arthron* a joint; *branchio*, gills) सन्धित क्लोम; सन्धिस्थ गिल ।

arthrodia—(Gk. *arthron*, joint) सन्धि जोड़ ।

arthrodial—(Gk. *arthron*, joint) सन्धि सम्बन्धी; सन्धि-; जोड़ की ।

arthromere—(Gk. *arthron*, joint; *meros*, part) ससन्धि खण्ड; जोड़दार अंश ।

arthropoda—(Gk. *arthron*, joint; *pous*, foot) अर्थोपोडा; सन्धिपाद (प्राणी); ।

arthropterous—(Gk. *arthron*, joint; *pteron*, wing) संयुक्त क्षेपणी किरण (jointed fin rays) ।

arthrospore—(Gk. *arthron*, joint; *sporos*, seed) सन्धिक बीजाणु; ग्रंथिल बीजाणु ।

१—मालाकार बैक्टीरिया कोशिका ।

२—कवक (hypha) के विखण्डन से बनी कोशिका ।

arthrosterigmata—(Gk. *arthron*, joint; *sterigma*, support) सन्धिकप्रांगुल; ग्रंथीयप्रांगुल ।

arthrostraca—(Gk. *arthron*, joint; *ostrakon*, shell) आर्थ्रो स्ट्रैका; सन्धिकवची; फाइलम अर्थोपोडा का एक विभाग (group) ।

articular—(L. *articus*, joint) सन्धि; सन्धिक; सन्धिस्थ; सन्धिमय ।

articulata—ससन्धि ।

articulated—ससन्धिक ।

articulation—(L. *articulus*, joint) सन्धि; जोड़ ।

artifact—(L. *ars*, art; *facere*, to make) कृत्रिम रचना । (देखिये artefact, कृत्रिम रचना)

artiodactyla—(Gk. *artios*, equal; *daktylos*, finger) आर्टिओडेक्टिला (समखुरीय गण); युग्मांगुलीय। स्तनी (mammals) का वह उपगण (suborder) जिसमें ऊँट, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, मूअर आदि सम्मिलित हैं ।

arytaenoid—(Gk. *arytaina*, a pitcher) एरीटोनायड; घटोपम ।

ascend—आरोहण करना ।

ascending—आरोही ।

ascending colon—आरोही वृहदांत्र ।

ascent of sap—रगारोहण ।

ascidian—(Gk. *askidion*, dim of askos, bag) ऐसिडियन ।

ascidiacea—ऐसिडिआशिया; पृच्छदण्डक या यूरोकोर्डा (urochorda) उपगण (subphylum) का एक गण (order) ।

ascidium—(Gk. *askidion*, little bag) घटपर्णी; जैसे नेप बीज की घटपर्ण (pitcher leaf) ।

ascigerous—(Gk. *askos*, bag; L. *gerere*, to bear) स्पोरस्योत धारी; ऐस्कसधारी । ऐस्की धारी जैसे फन्जाई (fungi) के कुछ कवक (hyphae) ।

ascocarp—(Gk. *askos*, bag; *karpos*, fruit) ऐस्कोकार्प; स्पोर स्योत कवक; बीजाणुधानी कवक; ।

ascocyst—ऐस्कोपुटी; स्पोर स्योत पुटी ।

ascogenous—(Gk *askos*, bag; *genos*, descent) ऐस्कीजन; स्पोर स्योतजन; ऐस्कोसजन कोणिकायें या कवक आदि ।

ascogonium—(Gk. *askos*, bag; *gonos*, offspring) स्पोर स्योतज; ऐस्कोज ।

ascoma—(Gk. *askoma*, leather padding) बिम्बी स्पोर स्योत कवक; ।

ascophore—(Gk. *askos*, bag; *pherein*, to bear) स्पोर स्योतकवकधारी ।

ascorbic acid—ऐस्कोर्विक अम्ल; विशुद्ध विटामिन 'सी' $C_6 H_8 O_6$; हैक्सयूरॉनिक अम्ल; जिसकी कमी से दन्त रोग होते हैं ।

ascospore—(Gk. *askos*, bag; *sporos* seed) स्योत बीजाणु; स्योत स्पोर ।

ascus—(Gk. *askos*, bladder) स्पोर स्योत; ऐस्कस जैसे ऐस्कोमाइसिटीज पौधों में ।

asemic—(Gk. *asemos*, with out sign) अचिन्ही ।

aseptate—पटहीन ।

asexual—(Gk. *o* without; L. *sexus*, sex) अलैंगिक; अलिंगी; निर्लिंगी ।

asiphonate—(L. *a*, not; *sipho*, tube) अनलिकी; अनिनाली; साइफन हीन; ऐसे लारवा जिसकी श्वास नलिकायें सीधीबाहर खुलती हैं ।

asparagine—(Gk. *asparagos*, asparagus) ऐस-

पैराजाइन, एक यौगिक $C_4 H_8 O_3 N_2$ जिमको सवमे पहिले जतावरी (गम्परेगम) पौधों में देखा गया था ।

asperity—(L. *asper*, rough) ननोत्रत; टेढ़ा मेढ़ा; खुरदरा दुःस्पर्शी (जैमे पत्ती) ।

asphyxia—श्वामावरोध ।

asplanchnic—(Gk. *a*, without; *splanchna*, viscera) अंत्र; अन्नप्रणालीहीन ।

asporocystid—(Gk. *a*, not; *sporos*, seed, *kystis*, bladder) लघु डिम्ब स्योति । स्पोरोजोआ (sporozoa) जन्तुओं की वह डिम्ब स्योति (oocyst) जिसमें युग्म कोणिका (zygote) स्पोराणुकों (sporozoites) के बिना स्पोर स्योति की स्थिति में पहुँच जाती है ।

asporous—(Gk. *a*, without; *sporos*, seed) अरंणु; अस्पोरी ।

assimilation—(L. *ad*, to *similis*, like) म्वांगीकरण; समीकरण । पचे हुए खाद्य पदार्थों को जीवन द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म (protoplasm) में परिणित करना । Assimilation के लिये 'समीकरण' शब्द विशेषतया उपयुक्त है; क्योंकि यह assimilation के मालिक अर्थ को पूर्णतया व्यक्त करता है ।

association—(L. *ad*, to; *socius*, fellow) संगति; समाज; संग; सहवास; साहचर्य ।

associes—(L. *ad*, to; *socius*, fellow) संसर्गी; अनुक्रमी संग ।

assortment—अपव्यूहन ।

astacene—(L. *astacus*, crayfish) केरोटिनाइड वर्ण; ऐस्टासिन; $C_{40} H_{48} O_4$; ।

astaxanthin—(L. *astacus*, crayfish; Gk. *xanthos*, yellow) एस्टैजैन्थिन; ।

astely—(Gk. *a*, without; *stela*, pillar) अरंभी; केन्द्रीय बेलन या रंभ (stela) हीन ।

aster—(Gk. *aster*, star) ताराविन्यास; ऐस्टर। विषम कोशिका विभाजन (mitosis) में गुण सूत्रों (chromosomes) का ताराकार या तारासम विन्यास (arrangement)।

astericus—(Gk. *asteriskos*, dim. of *aster*, star) कर्ण लघुकण;।

asternal—(L. *a*, from; *sternum*, breastplate. उन्मुक्त पशु; ऐसी पसली या पशु (rib) जिसका अधर छोर (ventral end) स्टर्नम से जुड़ा रहता है।

asteroidea—(Gk. *aster*, star; *eidōs*, resemblance) ऐस्टेरोइडिया; तारोपम; ऐकाइनोडर्मेटा फाइलम का एक वर्ग (class)।

asterospondylous—(Gk. *aster*, star; *spondylos*, vertebra) ऐस्टीरोस्पोन्डाइलस; तारा केन्द्रक; एक प्रकार का कशेरू।

asthenic—(Gk. *asthenos*, feeble) प्रलम्ब; कृशसूत्र।

astogeny—(Gk. *astos*, citizen; *genos*, descent) कोरकदल; कोरकों या कलिकोत्पादन (budding) द्वारा दल (colony) का निर्माण।

astomatous—(Gk. *a*, without; *stoma*, mouth) निर्मुख; अमुखी।

astragalus—ऐस्ट्रेगेलस; गुल्फास्थि; कशेरूकों की एक गुल्फीय हड्डी (tarsal bone)।

astral rays—तारिका किरण। सेंट्रोसोम (centrosome) के चारों ओर अत्यन्त बारीक किरणों के समान किरणाकार प्रवर्धन बन जाते हैं, जिन्हें तारिका-किरण कहते हैं।

astroblast—(Gk. *aster*, star; *blastos*, bud) तंत्रिका शलैष्मज।

astrocentre = centrosome—(L. *aster*, star; *centrum*, centre) केन्द्रपिण्ड; सेंट्रोसोम; तारक काय।

astrocyte—(Gk. *aster*, star; *kytos*, hollow) तारक कोशिका।

astropodia—(Gk. *aster*, star; *pous*, foot) सूक्ष्म क्षणिक पादी।

astropyle—(Gk. *aster*, star; *pyle*, gate) मुख्यद्वार; मुख्यछिद्र; किन्हीं रेडियोलेरिया (Radiolaria) जन्तुओं के केन्द्रीय सम्पुटिका (capsule) का मुख्य छिद्र (chief aperture)।

astronomy—खगोल विज्ञान।

astroclereid—(Gk. *aster*, star; *skleros*, hard; *eidōs*, form) बहुकिरणी पाषाण कोशिका।

astrosphere—(Gk. *aster*, star; *sphaira*, ball) तारिका पिण्ड; तारा विन्यास पिण्ड।

asymmetrical—(Gk. *a*, without; *syn*, with; *metron*, measure) असममित।

asymmetry—(Gk. *a*, without; *syn*, with; *metron*, measure) असममिति।

asynapsis—(Gk. *a*, not; *synapsis*, union) अयुग्मीकरण; युग्मीकरणहीन; ह्यास विभाजन (meiosis) में गुण सूत्रों का युग्मीकरण (pairing) का न होना।

atavism = severisam—(L. *atavus*, ancestor) ऐटाविज्म; पूर्वजता; पैत्रक; पुनरावृत्ति; पैतृकावृत्ति; पैतृकावर्तन।

atavistic—(L. *atanus*, ancestor) पैतृकावर्तनीय।

ateleosis—(Gk. *ateles*, imperfect) बौनता; वीनापन जिसमें व्यक्ति बहुत ही छोटे शरीर का होता है।

ateleosis—(Gk. *ateles*, imperfect) (१) वीनता; वह वीनापन जिसमें व्यक्ति एक सूक्ष्मकार प्रौढ़ होता है, (२) क्रोमेटिनहीनता।

atelia—(Gk. *ateles*, ineffectual) (१) अपूर्णवर्धन। (२) अकारथ (लक्षण)।

atelomitic—(Gk. *a*, not; *telos*, end; *mitos*, thread) अपगुणसूत्री तुर्क; ऐसे तुर्क, (spindle) जिसमें गुण सूत्र अनत्य (terminal) संलग्न न होकर कहीं और संलग्न होते हैं।

athalamous—(Gk. *a*, without; *thalamous*, inner room) अपुष्पासनी; पुष्पासन हीन ।
athrocytosis—(Gk. *athroos*, collected; *kytos*, hollow) कोशिका या कोष्ठ क्षमता; कोशिका पुंजता ।
atlas—ऐटलस; शीपघर; प्रथम कशेरु ।
atokous—(Gk. *atokos*, childless) बाल्य; बन्ध्या ।
atoll—(Mal. *atoll*) एटोल—एक विशेष प्रकार की मृग शिला संघात (coral reef) ।
atopy—(Gk. *atopia*, unusual nature) असामान्य स्वभाव; असाधारण स्वभाव ।
atretic—(Gk. *a*, not; *tretos*, perforated) एटरेटिक ।
atrial—(L. *atrium*, a central room) परिकोष्ठी; परिकोष्ठ—; बहिष्कोटीय; बहिष्कोटर ।
atriocoelomic—(L. *atrium*, central room; Gk. *koiloma*, a hollow) अलिदसीलोमी; एट्रीयम-सीलोम सम्बन्धी ।
atriopore—बहिष्कोटर-छिद्र; परिकोष्ठ-रंध्र ।
atrioventricular—(L. *atrium*, chamber; *ventriculus*, small cavity) परिकोष्ठ निलयी; परिकोष्ठ और निलय सम्बन्धी ।
atrium—(L. *atrium*, chamber) अलिद; परिकोष्ठ; बहिष्कोटर ।
atrochal—(Gk. *a*, without; *trochos*, wheel) अचक्रक ।
atrophy—क्षीणता; अपुष्टि; आपकर्ष; क्षय ।
atropous—(Gk. *ā*, without; *trope*, turn) यथाथे बौजी; ऋजु; यथार्थ स्थिति बीजाणु ।
attachment—संलग्न ।
atterminal—(L. *ad*, to; *terminus*, end) अन्तिम-बिन्दु; अंत्य अवधिक; अन्तिम बिन्दु की ओर ।
attraction—(L. *attractus*, drawn to) आकर्षण ।
attraction sphere—आकर्षण मण्डल ।

auditory—(L. *audire*, to hear) श्रवण सम्बन्धी; श्रवण श्रोत्र; श्रवण-।
auditory area—श्रवण-क्षेत्र; श्रोत्र-क्षेत्र ।
auditory capsule—श्रवण कोश; श्रवण कुहर; श्रोत्र कुहर ।
auditory centre—श्रवण-केन्द्र ।
auditory foramina—श्रवण-रन्ध्र; श्रोत्र छिद्र; श्रवण छिद्र ।
auditory nerve—श्रोत्र तंत्रिका; श्रवण तंत्रिका ।
auditory organ—श्रवणोन्द्रिय; कर्णोन्द्रिय; श्रोत्रोन्द्रिय ।
auditory ossicles—श्रवण-अस्थिका; श्रोत्र-अस्थिक ।
Auerbach's plexus—(L. *auerbac*, a german anatomist, अयुर्वक जाल; छुद्रांत्र (small intestine) के पेशी स्तर के मध्य में असजीव तंत्रिका सूत्रों का जाल ।
augmentation—(L. *angere*, to increase) संवर्धन, संख्या में वृद्धि ।
augmentor—(L. *angere*, to increase) गति वर्द्धका
aulophyte—(Gk. *aulon*, hollow way; *phyton*, plant) निष्कुह वृक्ष; निष्कुह पादप; ऐसा पौधा जो दूसरे वृक्ष के गड्ढे (निष्कुह) में लगा होता है ।
aulostomatous—(Gk. *aulos*, tube; *stoma* mouth) धूथन; नलिकाकार मुख ।
aural—(L. *auris*, ear) कर्ण सम्बन्धी; कर्णीय; कर्ण-।
auricle—(L. *auricle*, ear) आरीक्ल; ग्राहिका; ग्राहक कोष; अलिन्द (हृदय का); कर्णपल्लव (कान का) ।
auricularia—(L. *auricula*, small ear) ओरीकुलेरिया; अभिन्न मेखला; एक प्रकार का डिम्बक (लारवा) ।
auriculate—(L. *auricula*, small ear) कर्णी; कर्णाकार; कर्ण युक्त ।
auriculo-ventricular—ग्राहक-क्षेपकीय; अलिन्द-निलयी ।
auriform—(L. *auris*, ear; *forma*, shape) कर्णोपम; कर्णसदृश ।

atrophore—(L. *auris*, ear; Gk. *pherein*, to bear) कर्णकधर; उपरिलंबी ।

austral—(L. *australis*, southern) ओस्ट्रल; दक्खिनी जीव भूगोलिक प्रदेश—उत्तरी अमरीका में सीमित ।

autocarp—स्वनिषेकफल ।

autocoid = **autoceoid**—(Gk. *autos*, self; *alos*, remedy; *eidos*, form) अन्तःस्त्राव; उद्दीपक, हार्मोन या कॅलोन (*chalone*) ।

autarticular—(Gk. *autos*, self; L. *articulus*, joint) स्वसंधिक; कोणिक; गोनियल ।
(देखिये gonial.)

autecology—(Gk. *autos*, self; *oikos*, household; *logos*, discourse) एकल या स्वपरिस्थितिक; केवल एक अंगी सम्बन्धी परिस्थिति विज्ञान ।

autoblast—(Gk. *autos*, self; *blastos*, bud) स्वच्छन्द अणु अंगी (कोशिका) ।

autocatalysis—(Gk. *autos*, self; *kata*, down; *lysis*, loosing) स्वह्लास्ता ।

autochthon—(Gk. *autos*, self; *chthon*, the ground) स्वदेशीय; स्वदेश जात; स्वस्थानिक जाति ।

autochthonous—(Gk. *autos*, self; *chthon*, ground) स्वमोद्भव, स्वस्थानिक ।

autocyst—(Gk. *autos*, self; *kystis*, bladder) स्वपुटी ।

autodigestion—स्वलयन ।

autodont—(Gk. *autos*, self; *odous*, tooth) ओटो डेंट; अहनुदन्त; ऐसे दांत जो जबड़े (हनु) की हड्डी पर नहीं लगे हाते हैं ।

autoecious—(Gk. *autos*, self; *oikos*, house) एकाश्रयी ।

autocology—स्वपरिस्थितिकी ।

autogamy—(Gk. *autos*, self; *gamos*, marriage) स्वयमुत्पत्ति; स्वकयुग्मन; स्वयं-निषेक ।

autogenesis = **autogeny**—(Gk. *autos*, self; *genesis*, birth) स्वयमुत्पत्ति; स्वतःजनन ।

autogenetic—(Gk. *autos*, self; *genesis*, birth) स्वयमुत्पत्तिक; स्वजनित ।

autogenic—(Gk. *autos*, self; *genaein*, to produce) स्वगत ।

autogenous—(Gk. *autos*, self; *genos*, descent) स्वगत; उसी अंगी में उत्पन्न जैसे एन्जाइम ।

autogony—स्वयमुत्पत्ति ।

autoinfection—(Gk. *auto*, self; L. *inficere*, to taint) स्वसंक्रामकता; स्वसंक्रमण ।

autointoxication—(Gk. *autos*, self; L. *in*, in; Gk. *toxikon*, poison) स्वविषता; स्वविषाक्तन; शरीर से उत्पन्न विषकारी (toxic) पदार्थों का पुनः शोषण (reabsorption) ।

autoimmune—स्वप्रतिरक्षित ।

autologous—स्वजात ।

autolysis—(Gk. *autos*, self; *lysis*, loosing) स्वविघ्वसंता; स्वलयन; स्वक्षयता । कोशिका या ऊतक का अपने से ही उत्पन्न क्षोभकों (enzymes) द्वारा क्षय (disintegration) ।

automixis—(Gk. *autos*, self; *mixis*, mingling) स्वयं निषेक ।

autonarcosis—(Gk. *autos*, self; *narke*, numbness) स्वतःकार्बोसीभवन; स्वसंवेदनमन्दक; स्वजनित कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता ।

autonomic = **autonomous**—(Gk. *autos*, self; *nomos*, province) स्वतंत्र; स्वयं निर्देशक; स्वयंशासक ।

(देखिये paratonic—अनुप्रेरित)

autonomic nervous system—स्वयं निर्देशक तंत्र; (१) कशेरुको में प्रेरक तंत्रिका (motornerve) का रेखित पेशियों और ग्रन्थियों (glands) में फैला होना । मुख्य विशेषता यह होती है कि एक ही तंत्रिका सूत्र केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (central nervous system) से

कार्यकर (effector) तक फैला हुआ नहीं होता है। पूर्व गुच्छीय तंत्रिका सूत्र (preganglionic) जो केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से आरम्भ होते हैं। कार्यकर (effector) से कुछ पूर्व ही द्वितीय तंत्रिका कोशिका समूह से अन्त-ग्रन्थन द्वारा सूत्रों से जुड़ जाते हैं जो पश्च-गुच्छीय कहे जाते हैं और यही कार्यकर से जुड़ते हैं। गुच्छ (गैंग-लिया) पश्च गुच्छीय सूत्रों की कोशिका कार्यों और अन्त ग्रन्थन से बनते हैं। समस्त तंत्र को दो भागों—संवेदी (sympathetic) और परासवेदी (parasympathetic) में बाँटा जाता है।

autoparasitism—(Gk. *autos*, self; *para*, beside; *sitos*, food) स्वपरजीवित।

autoparthenogenesis—(Gk. *autos*, self; *parthenos*, virgin; *genesis*, descent) अन्योन्य अनिष-कोत्पादन; अनिषेक डिम्ब का रासायनिक (chemical) या भौतिक (physical) उत्तेजनाओं द्वारा वर्धन।

autophagocytosis—(Gk. *autos*, self; *phagein*, to eat) स्वभक्षकाणुता।

autophagous—(Gk. *autos*, self; *phagein*, to eat) स्वतंत्रभोजी; स्वतःभोजी।

autophagy—(Gk. *autos*, self; *phagein* to eat) स्वतः भोजिता।

autophyllogeny—(Gk. *autos*, self; *phyllon*, leaf) स्वपर्णता।

autophya—(Gk. *autos* self; *phyein*, to produce) स्वकीय तुष; जन्तु द्वारा स्रावित तत्वों से ही बना हुआ तुष (shell)।

autophyte—(Gk. *autos*, self; *phyton*, plant) स्वपोषपादप।

autoploid—(Gk. *autos*, self; *haploos*, simple; *eidos*, form) स्वगुणित।

autoplasma—(Gk. *autos*, self; *plasma*, mould) स्वप्लाज्मा; स्वप्ररस; स्रद्रव्य; ऊतक कलचर (संवर्धन) हेतु उसी जन्तु के प्लाज्मा का प्रयोग।

autoplastic—(Gk. *autos*, self; *plastos*, formed) स्वनिविष्ट।

autopodium—(Gk. *autos*, self; *pous*, foot) हाथ या पाँव।

autopolyploid—(Gk. *autos*, self; *polys*, many; *aploos*, one fold; *eidos*, form) स्वबहुगुणित; किसी अंगी में समजात गुण सूत्रों (homologous chromosomes) के दो समूह (set) से अधिक का होना।

autopolyploidy—स्वबहुगुणिता।

autopotamic—(Gk. *autos*, self; *potamos*, river) प्रवाह समृद्धी।

autoskeleton—(Gk. *autos*, self; *skeletos*, dried) स्वकीय पंजर।

autosome—(Gk. *autos*, self; *soma*, body) ग्रीटो-सोम; अलिगसूत्र; देहगुणसूत्र।

(देखिये euchromosome)

autospore—(Gk. *autos*, self; *sporos*, seed) जनकाम बीजाणु; पितृकोशिका सदृश स्पोर।

autostoses—(Gk. *autos*, self; *ocsteen*, bone) उपास्थिजन अस्थि; उपस्थि (cartilage) से बनी अस्थि।

autostylic—(Gk. *autos*, self; *stylos*, pillar) औटोस्टाइलिक; स्वनिलंबित; स्वस्तम्भी।

autosyndesis—(Gk. *autos*, self; *syndesis*, a binding together) समजात गुणसूत्रयुग्मन।

autotilly—(Gk. *autos*, self; *tillesthai*, to pluck) स्वविच्छेदन।

autotomy—(Gk. *autos*, self; *tome*, cutting) स्वविच्छेदन; स्वखण्डन।

autotransplantation—स्रनिविष्टता।

autotrophic—(Gk. *autos*, self; *trephein*, to nourish) स्वपोषी; ऐसे पोषे जो स्वतः कार्बोहाइड्रेट

तथा प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड और अजैविक यौगिकों से बना लेते हैं।

autotropism—(Gk. *autos*, self; *trope*, turn) स्वप्रभावी; ऐसे पौधे जिन पर बाह्य प्रभावों का कोई प्रभाव नहीं होता है।

auxesis—(Gk. *auxesis*, growth) वृद्धि।
(देखिये *merisis*)

autoxenos—(Gk. *autos*, self; *xenos*, host) विभन्नावस्था परजीवी; उसी पोषक (host) पर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में परजीवी (parasitic)।

autozoid—(Gk. *autos*, self; *zoon*, animal *eidōs*, form) स्वतन्त्र मुकुल।

auxesis—(Gk. *auxesis*, growth) कोशिका वृद्धि; कोशिकामाप वृद्धि; वृद्धि।

[देखिये—*merisis*—कोशिका वृद्धि]

auxetic—(Gk. *auxein*, to increase) विभाजन प्रोत्साहक।

auximone—(Gk. *auximos*, promoting growth) वृद्धिकारक।

auxins—(Gk. *auxein*, to increase) ओक्सिन; वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। यह वनस्पति हार्मोन का समूह होता है जो जड़ों और तनों के बढ़ते हुए सिरों (आणि—tip) पर क्रियाशील कोशिका विभाजन और वर्धन के क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अभी तक प्राकृतिक ओक्सिन जो मालूम किये जा सके हैं वे हैं इन्डोल—३—एसिटिक अम्ल (IAA) और इन्डोल—३—एसिटोनाइट्राइल (IAN)। संश्लेषित ओक्सिन—४— डाइ क्लोरोफेनोक्सी एसिटिक अम्ल है जिसका विभिन्न प्रभाव द्विवीज पत्ती और एक बीज पत्तों पर पड़ता है। यह द्विवीज पत्ती को नष्ट करता तथा एक बीज पत्ती पर कोई विषकारक प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रयोग घास के मैदानों से खर-पतवार (weeds) को नष्ट करने में किया जाता है।

auxocyte—(Gk. *auxein*, to increase; *kytos*,

hollow) अणु कोशिका; वर्धनकाल में स्पोर कोशिका (sporocyte), डिम्ब कोशिका (oocyte), या बीर्याणु कोशिका (spermatocyte)।

auxospireme—(Gk. *auxein*, to increase; *speirema*, coil) शुल्वी निर्माण; संयुजता (syndesis) के पश्चात् शुल्वी (spireme) का बनना।

auxospore—(Gk. *auxein*, to increase; *sporos*, seed) संयुजस्पोर; वृद्धि स्पोर; वृद्धि बीजाणु; प्रबल बीजाणु।

auxotonic—(Gk. *auxein*, to increase; *tonos*, strain) वृद्धि उच्चत; वृद्धि से उच्चत।

aves—(L. *avis*, bird) पक्षी; पक्षी-वर्ग, ऐवीज।

avicularium—(L. *avicula*, dim. of *avis*, bird) चूचुकोपम।

avifauna—(L. *avis*, bird; *faunus*, rural deity) पक्षी वर्ग; पक्षी समुदाय; किसी क्षेत्र के पक्षी विशेष।

avitaminosis—(L. *a*, from; *vita*, life; *ammoniacum*, resinous gum) आविटाविमिनता; विटामिन की न्यूनता से उत्पन्न रोग की दशा।

awn—(Gk. *ahne*, chaff) शस्य शूक; तृण शूक।

axial—(L. *axis*, axis) अक्षस्थ; आक्षिक; ध्रुविक; अक्षीय।

axial filament—अक्ष-सूत्र; अक्षीय तन्तु।

axial sinus—अक्ष-कुल्या।

axial skeleton—अक्ष-कंकाल; अक्षीय कंकाल; सिर और धड़ का अस्थि षंजर।

axile—(L. *axilla*, armpit) कोण; कक्ष; शाखा और पत्ती के बीच का कोण।

axile—(L. *axilla*, arm pit) स्तम्भीय या अक्षीय;।

axilemma—(L. *axis*, axle; Gk. *lemma*, husk) अक्षच्छद्।

axilla—(L. *axilla*, arm pit) कक्ष; काँख; वगल।

axillary—कक्षीय; कक्षवर्ती; कक्षस्थ।

axipetal—(L. *axis*, axle; *petere*, to seek) सूत्राक्ष की ओर।

axis—अक्ष-रेखा; धुरी ।

axis vertebra—अक्ष कशेरुक; द्वितीय कशेरुक; अक्षक ।

axis cylinder—सूत्राक्ष; अक्षक ।

axodendric—(Gk. *axon*, axle; *dendron*, tree).
अक्षक-द्रुमकीय ।

axon=**axis cylinder**—अक्षक तंत्रिकाक्ष; ऐक्सॉन ।

axoneme—अक्षक सूत्र; अक्ष-सूत्र ।

axonost—(Gk. *axon*, axle; *osteon*, bone)
क्षेपणी किरणसहाय्यी ।

axoplast—(Gk. *axon*, axle; *plastos*, found)
एक्सोप्लास्ट । ट्राइपेनोसोमा (*trypanosoma*) में
गतिकण (*kinetoplast*) से शरीर के अन्त तक फैला
हुआ सूत्र ।

axopodium—(Gk. *axon*, axle; *pous*, foot) अक्ष-
सूत्री क्षणिक पाद ।

axosomatic—(Gk. *axon*, axle; *soma*, body)
अक्षपिण्डक ।

axostyle—(Gk. *axon*, axle; *stylos*, pillar)
अक्षदण्ड ।

azoic—(Gk. *a*, without; *zoikos*, pert. life)
अप्राणी; प्राण रहित; प्रागैविक ।

azygobranchiate—(Gk. *a*, without; *zygon*,
yoke; *branchia*, gills) अयुग्मगिली ।

azygoid—(Gk. *a*, without; *zygon*, yoke; *eidos*,
form) एकाकी सूत्री । (देखिये *haploid*)


azygomatous—(Gk. *a*, without; *zygoma*, a
bar) कपोलास्थि तोरण रहित ।

azygomelous—(Gk. *a*, without; *zygon*, yoke;
melos, limb) अयुग्म अवयवी ।

azygosperm=**azygospore**—(Gk. *a*, without;
zygon, yoke; *sperma* or *sporos*, seed) अनिषेक
स्पोर ।

azygote—(Gk. *a*, without; *zygon*, yoke)
अयुग्मज ।

azygous=**azygos**—(Gk. *a*, without; *zygone*,
yoke) अयुग्म; अयुगल; अयुग्मी; अकेला अर्थात् वे जोड़े
(pair) वाली ।



B cells—बीटा कोशिकायें लैंगरहैन्स के द्वीपों की ।

B complex—बी कम्प्लैक्स, सहायी खाद्य कारकों का एक समूह जिनमें निम्न कारक होते हैं ।
थायमीन-विटामिन बी₁; रिबोफ्लैविन-विटामिन बी₂;
पैंटोथैनिक-अम्ल बी₃; नायसिन या पी-पी कारक;
पाइरी-डोक्सिन बी₆; सामनोकोबाल अमिन बी₁₂
इनोसिटोल; कोलाइन; पैरा अमीनो वैनजोइक अम्ल;
और फौलिक अम्ल ।

[देखिये—Vitamin=विटामिन]

Babes—Ernst bodies—बैबीज-अरनेस्ट पिण्ड; बैक्टीरिया के वोल्यूटिन कण (Volutin granules) या रंग विभेदता (metachromatic) लाने वाले कण, जिनका शोषण न्यूक्लियस निर्माण में होता है ।

bacca—(L. *bacca*, berry) सरस फल, बेरी (berry) ।

baccate—(L. *bacca*, berry) सरस गुदेदार ।

bacciferous—(L. *bacca*, berry; *ferre*, to bear) सरस फलधर; सरसोत्पादक; बेरी (फल) उत्पन्न करने वाले ।

bacciform—(L. *bacca*, berry; *forma*, shape) सरसोपम; बेरी के आकार वाला ।

bacillary—(L. *baeillum*, small staff) शलाका-शंकु स्तर; रेटीना की शलाका (rods) और शंकु (cones) कोशिकाओं का स्तर ।

bacillus—(L. *bacillum*, small stick) बासिलस; दंडाणु; शलाकाणु; शलाकारक; बैक्टीरिया; कीटाणु ।

back—पीठ; पृष्ठ ।

back of neck=nape—गुद्दी ।

backcross—वर्ण संकर; संकर ।

backbone=vertebral column—रीढ़; रीढ़ की हड्डी; मेरूदण्ड; कशेरूदण्ड ।

bacteria—(Gk. *bakterion*, small rod) जीवाणु; बैक्टीरिया ।

backtencidian—(Gk. *baktesion*, small rod; L. *caedere*, to till) बैक्टीरिया नाशक; जीवाणु नाशक ।

bacteriochlorio—(Gk. *bakterion*, small rod; *chloros*, green) हरीत रंज्य; बैक्टीरियोक्लोरीन; गन्धक बैक्टीरिया का हरा रंग—जो क्लोरोफिल से सम्बन्धित होता है ।

bacteriology—(Gk. *bakterion*, rod; *logos*, discourse) जीवाणु विज्ञान; बैक्टीरिया विज्ञान ।

bacteriolysis—(Ok. *bakterien*, small rod; *lysis*, loosening) बैक्टीरिया ह्लासक; जीवाणु-विलयी; ।

baeteriophage—(Gk. *bakterion*, small rod; *phagein*, to devour) बैक्टीरिया भोजी; वह वाइरस (virus) जो बैक्टीरिया पर परजीवी होता है ।

bacteriophagous—(Gk. *bakterion*, small rod; *phagein*, to devour) बैक्टीरिया भक्षी; जीवाणु भक्षी ।

bacteriostatic—Gk. *bakterion*, small rod; *statikos*, causing to stand) बैक्टीरिया निरोधी, जीवाणु निरोधी ।

bacteriotropin—(Gk. *bakterion*, small rod; *trope*, turn) बैक्टीरिया नाशक; रक्त सीरम का एक घटक (अंश) जो बैक्टीरिया को अधिक भक्षण योग्य बना देता है ।

baeteroid—(Gk. *bakterion*, small rod; *eidos*, form) बैक्टीरिया भ्रंश; बैक्टीरिया परिभ्रष्ट रूप ।

b. culiform—(L. *baculum*, rod; *forma*, shape) दण्डकार बैक्टीरिया सम; स्योत बीजाणु (ascospore) अथवा गुणसूत्र (chromosome) के लिए प्रयोग किया जाता है ।

baculum—(L. *baculum*, rod) शिशनास्थि ।

Baillarger's line—(J. F. G. baillarger, french neurologist) बैलारगार रेखा; प्रमस्तिष्क वल्क

(cerebral cortex) के तल के सामानान्तर श्वेत सूत्रों का बाह्यांतर (outer or inner) स्तर ।

balanced lethals—संतुलित घातक; विषमयुग्मज (heterozygotes) जिनमें विभिन्न घातक परम्परा कण (जीनस) सम जात गुण सूत्रों के इतने समीप होते हैं कि उनका विनिमय (crossing over) नहीं होने पाता है ।

balancers—(L. *bilaux*, having two scales) भार-संघानक ।

balanoid—(Gk. *balanos*, acorn; *eidōs*, like) (१) बाँजफलोपम; बाँजफलसम; बाँजफल आकारक; (२) खण्डावर (barnacles) सम्बन्धी ।

balausta—(Gk. *balaustion* blossom) अनार (फल); दृढ़ फलमिति (pericarp) युक्त अस्फुटनशील (indehiscent) बहुकोशीय तथा बहुबीजी फल ।

ballistospore—प्रक्षिप्त बीजाणु ।

baleen—(L. *balaena*, whale) बलीन; तिमि-शृंगास्थि; ह्वेल (whale) जन्तु के ऊपरी जबड़े की श्रंगीय पट्ट ।

ball and socket joint—कंदुक-खलिका सन्धि; उलूखल सन्धि; गोली और खत्ती वाली सन्धि ।

balsamiferous—(L. *balsamm*, balsam; *ferre*, to bear) वाल्समोत्पादी; (balsam—गुल मेंहदी) ।

band—पट्टी; बण्ड ।

bar—शलाका ।

baraesthesia—(Gk. *baros*, weight; *aisthesis*, sensation) भाव वेदना; दाववेदना ।

barb—(L. *berba*, beard) पिच्छक; बार्ब ।

berbate—(L. *barbatus*, bearded) लोमगुच्छी, कूर्चकी; कूर्चधर ।

barbel—(L. *barbes*, berbel) स्पर्श प्रवर्ध; बार्बेल ।

barbellate—(L. *barba*, beard) रोमगुच्छीय;

दृढ़रोमोपम शूकी ।

bark—छाल, बल्क । काष्ठीय वृक्षों के पुराने तने और जड़ों पर बाहर की ओर पाई जाने वाली सख्त, रक्षात्सक, कार्क सदृश बनी तह ।

barbicle—(L. *berba*, beard) पिच्छका प्रवर्ध; बार्बिसिल ।

barbule—(L. *berba*, beard) पिच्छका ।

barataxis—(Gk. *baros*, weight; *taxis*, arrangement) दावप्रतिक्रिया; भारोत्तेजना प्रतिक्रिया ।

barrier—रोध; रोधिका; बाधा ।

Bartholin's duct—(L. *bartholin*, jr. Danish anatomist) बार्थोलिन नली; अद्यः जिह्वी ग्रन्थि की पृथु (larger) नली (duct) ।

Bartholin's glands—(L. *bartholin*, jr. Danish anatomist) बार्थोलिन ग्रन्थि; योनि (vagina) के दोनों ओर स्थिति दीर्घ मार्ग युक्त ग्रन्थि ।

basal—(L. *basis*, base) आधारिक; अधोभागीय; अधोभागस्थ ।

basal leaf—आधार पर्ण; स्तम्भ के आधार पर लगी पत्ती (पर्ण) ।

basal metabolism—आधारभूत उपापचय; विश्रामीय अंगी का आदर्श उपापचय ।

basale, basalia—मूलास्थि; बेसेल ।

basal disc—मूल बिम्ब; आधार बिम्ब ।

basal ganglia—आधार गैंगलिया; सेरीब्रम (cerebrum) को अन्य केन्द्रों से जोड़ने वाला गैंगलिया ।

basal granule—आधारकण; किन्हीं एक कोशिकीय जन्तुओं के कशातन्त्र (flagellum) के आधार पर पाया जाने वाला कण (granule) या पिन्ड (body) ।

basal placenta—आधार कमल या नाल या अपरा या पलेसेन्टा । डिम्ब ग्रन्थि के समीपस्थ (proximal) छोर से निकलने वाला कमल या अपरा (placenta) ।

basal plates—आधार पट्ट; एकाइनोडर्म जन्तुओं के कुछ पट्ट (plate)—क्रिनोइड्स में डन्ठल के शिखर पर

स्थिति तथा इकीनोइड में शिखस्थ बिम्ब के एक अक्ष का निर्माण करने वाली ।

basal wall—आधार तल पक्ष; आधार भित्ति; फर्न (fern) और माँस (moss) की डिम्बकोशिकाओं (oospores) को विभक्त करने वाली पहली भित्ति या तल पक्ष (plane) ।

basalar—(L. *basis*, base; *ala*, wing) बैसलर; कीटों में पक्षधर (wing base) के नीचे स्थिति पट्टिकाएँ (sclerites) ।

basale—(L. *basis*, base) बैसल (अस्थि विशेष) ।

base—अधोभाग; पेंदी आधार ।

basement membrane—निचनी झिल्ली; किसी ग्रन्थि की सबसे निचनी झिल्ली, जिसमें थैलीनुमा शाखान्वित ग्रन्थि के छोर अथवा असाधारण स्रावक भाग हों ।

baseost—(Gk. *basis*, base; *osteon* bone) बेसि-ओस्ट; टिलिओस्ट (teleost) मत्स्यों की टेरीगियोफोर (pterygiophore) का दूरस्थ टुक ।

basialveolar—(L. *basis* base; *alveolus*, pit) बेसीएल्व्युलर; आधारगर्त; आधार कूपिका ।

basibranchial—आधार-ब्रान्चियल; आधार गिली; बेसी-ब्रान्चियल । गिल तोरण (branchial arch) की अधर अस्थि का भाग ।

basic—Gk *basis*, base) क्षारीय ।

basichromation—(Gk. *basis*, base, *chroma*, colour) न्यूक्लियर रंजक; क्रोमेटिन ।

basiconic—(Gk. *basis*, base; *konos*, cone) शंकुवर्ध; सामान्य सतह पर से शंकु प्रवर्धयुक्त ।

basicranial—कपालाधार; बेसीक्रैनियल; कपाल की अधर अस्थि ।

basidiocarp—(Gk. *basis*, base; *idion*, dim, *kerpos*, fruit) बैसीकार्प; बैसीडियोफल; बैसीडियो-माइसीटीज (Basidiomycetes) का फल ।

basidiopore—(Gk. *basis*, base; *pherein*, to bear) बेमिडियो-धर; बेरीडियम धारी ।

basidiospore—(Gk. *basis*, base; *sporos*, seed) बेसीडियो स्पोर (बीजाणु); गोणा कोनिडियम ।

basidium—(Gk. *basis*, base) बेसीडियम, किन्हीं फन्जाई (fungi) की विशिष्ट कोशिका जिससे स्पोर बनते हैं ।

basidorsal—(L. *basis*, base; *dorsum*, back) आधारपृष्ठिका; बेसीडार्सल ।

basifixed—(L. *basis*, base; *tigare*, to make fast) अधः बद्ध; पुं-तंतु का परागकोश के आधार पर जुड़ा होना ।

basifugal—(L. *basis*, base; *fugere*, to flee) अग्रभिसारी; पर-अधारी; आधार से दूर बढ़ने वाला ।

barifuge—(L. *basis*, base; *fugere*, to flee) अक्षारीय मृदी; अम्लरागी ।

basigamous—(L. *basis*, base; *gamos*, marriage) निभाषाण्डी; प्रत्यावर्तडिम्बी, भ्रूण स्योत (embryosac) में अनिषितडिम्ब (oosphere) का उलटा होना ।

basihyal—(L. *basis*, base; *hyoedes*, Y-shaped) आधार-कण्टिका; बेसीहायल; मूल हायल ।

basilabium—(L. *basis*, base; *lobium*, lip) अधः प्रत्योष्ठ ।

basilar—(L. *basis*, base) बेसीलर; आघारिक; मूलस्थ ।

basilic—(Gk. *basilikos*, royal) बेसीलिक (शिरा); अर्न्तवाहु शिरा ।


basilingual—(L. *basis*, base; *lingua*, tongue) जिह्वाधार; बेसीलिगुअन; अधोजिह्वी ।

basimandila—(L. *basis*, base; *mandibular*, lower jaw) अधः निम्नास्थि ।

basimaxilla—(L. *basis*, base; *maxilla*, upper jaw) अधः उर्ध्व हन्वास्थि ।

basioccipital—(L. *basis*, base; *occiput*, back of head) आधार पश्चकपाल; बेसी ओक्सिपिटल; आधार अनुकपाल ।

- basion**—(Gk. *basis*, base) महाछिद्र अग्रतट मध्यांश; कोरामन मैगनम के अग्रतट के मध्य का भाग ।
- basiophthalmite**—(Gk. *basis*, base; *ophthalmos*, eye) अधः चक्षुःठल; क्रस्टेशियन की चक्षुःठल का समीपस्थ जोड़ ।
- basiofic**—(Gk. *basis*, base; *ous*, ear) अधः कण; वेसी ओटिक ।
- basipetal**—(L. *basis*, base; *petere*, to seek) तलाभिसारी; गिखर से अधर की ओर वर्धित जैसे पर्ण और पुष्पक्रम (inflorescence) ।
- basipharynx**—(Gk. *basis*, base; *pharyngx*, gullet) वेसी फेरिन्क्स; अधो कण्ठक; अधर कण्ठक; कीटों में उपकण्ठ (epipharynx) और अधः कण्ठक जुड़े हुए ।
- basiphil**—(Gk. *basis*, base; *philein*, to love) अधर कोशिका; वेसीफिल कोशिका; मेदा कोशिका (mast cell) ।
- basipodite**—(L. *basis*, base; *pous*, foot) दूर-पादांश; मूलपादांश । क्रस्टेशिया (crustacea) के किन्हीं अवयवों के आधारपादांश (protopodite) का द्वितीय या दूरस्थ टुक ।
- basipodium**—(Gk. *basis*, base; *pous*, foot) कलाई (wrist) या टखना (ankle) ।
- basiproboscis**—(Gk. *basis*, base; *proboskis*, trunk) आधार शृङ्ग; अधर शृङ्ग; कुछ कीटों का झिल्ली कृत शृङ्ग का भाग ।
- basipterygium**—(L. *basis*, base; *pterygion*, little wing) वेसीटेरिजियम; (१) टिलियोस्ट (teleost) मत्स्यों की वस्तिफिन (pelvic fin) की एक बड़ी त्रिकोणाकार अस्थि । (२) अन्य मत्स्यों की एक अस्थि या अस्थि विशेष ।
- basipterygoid**—(L. *basis*, base; *pterygion*, little wing) वेसीटेरीगाइड; आधार-त्र्यंगिका; वेसीटेरिगोयड; कुछ पक्षियों में वेसीस्फिनायड (basisphenoid) अस्थि का एक प्रवर्धन ।



- basioscopic**—अधरसंमुखी [देखिये *acrosopic*—शीर्षसंमुखी]
- basis cranii**—वेसिसक्रैनाई; कपाल का अधस्तल ।
- basisphenoid**—(L. *basis*, base, *sphen*, wedge; *eidos*, resemblance) वेसीस्फीनोयड; आधार-जतूक ।
- basisternum**—(L. *basis*, base; *sternum*, breast-bone) अधर पट्ट; अधःस्टेनम्; वेसीस्टेनम; ययार्थ-स्टेनम; कीट स्टेनम; का मुख्य दृढ़ पट्ट (sclerite) ।
- basistyle**—(Gk. *basis*, base; *stylos*, pillar) अधरसूचि; अधरदण्ड ।
- basitemporal**—(L. *basis*, base; *temporalis*, temporary) वेसीटेम्पोरल ।
- basitonous**—(Gk. *basis*, base; *tonos*, brace) अधर सस्तंभी ।
- basivertebral**—(L. *basis*, base; *vertebra*, vertebra) कशेरू-अनुगामी (शिरायें) ।
- basket**—कंडोल ।
- basket cells**—कंडोल कोशिकायें; ग्रन्थियों की पेशी अधिच्छद (myo-epithelial) कोशिकायें; प्रमस्तिष्कीय वल्क-कोशिकायें ।
- basophil**—(Gk. *basis*, base; *philein*, to love) झाररागी ।
- bast**—(A. *baest*, bast) अन्तः वल्क; कुछ वृक्षों की रेशेयुक्त अन्दर की छाल ।
- bastard merogony**—वजात अशनिषेक; विभिन्न जाति के शुक्राणु द्वारा न्यूक्लियस हीन डिम्ब के अणु का क्रियाशील होना ।
- bastard wing**—उपपिच्छ; ऐलूला या ऐलास्पूरिया; पक्षी डैने की प्रथमांगुलि (first digit) पर तीन पिच्छ पंखों का समूह ।
- bathybial**—(Gk. *bathys*, deep) अगाधसागरीय; गहरे समुद्र में पाये जाने वाले ।
- bathylimnetic**—(Gk. *bathys*, deep; *limnetes*, living in marshes) अगाधसरसी; सजल जलाढ्य भूमिवासी ।

bathymetric—(Gk. *bathys*, deep; *metron*, measure) लम्बमान वितरण ।

bathypelagic—(Gk. *bathys*, deep; *pelagos*, sea) अगाधसामुद्रिकी ।

bathysmal—(Gk. *bathys*, deep) अगाधवासी ।

batonette—(F. *baton*, stick) वेटोनेट; लगुड; गॉलगी संरचना का एक तत्व ।

battery—बैटरी; निषंग ।

batrachia = amphibia—(Gk. *batrachos*, frog) वट्टे किया; एम्फीबिया; जल-थलचर; जल-थलवासी; द्विधाजीवी; एक वर्ग का नाम ।

bdelloid—(Gk. *bdella*, leech; *eidōs*, resemblance) जलूकाकार; रक्तोपम; जलिकोपम; जोंक की शकल वाले ।

bedeguar—(F. *bedeguar*, thistle) मांसपिटिका (gall) ।

beak—चोंच; चंचु ।

beaked—चोंचदार ।

beard—(A. S. *beard*, beard) दाढ़ी ।

beat of heart—हृदय की धड़कन ।

beetle—मृग; बीटिल; एक प्रकार के पटपाद या कीट (insect) ।

behaviour—व्यवहार; आचरण ।

belemnoid—(Gk. *belemnion*, dart; *eidōs*, form) वाणीपम ।

belly—(१) तुन्द; (पेशी का) मध्यांश; (२) उदर (abdomen) ।

benthic—(Gk. *benthos*, depths of sea) तल प्राणी ।

benthos—(Gk. *benthos*, depths of the sea) नितल; नितल जीव समूह; तल प्राणी; समुद्र की तलैटी में पाये जाने वाले जन्तु या वनस्पति समुदाय ।

berry—(A. S. *berie*, berry) बेरी ।

(२) बहुजीवी (many seeded), अस्फुटनशील (in-jehiscent), अधोवर्ती (इन्फीरियर—inferior) फल;

(२) लोव्स्टर या क्रेफिश का अण्डा ।

beroida—विरोइडा; टीनोफोरा वर्ग (class ctenophora) का एक गण (order) ।

beta (β) cells—क्षारअनुरागी कोशिकायें; पिप्यूटरी ग्रन्थि अथवा लेंगरहैन्म के द्वीपों में (β cells) ।

beta (β) granules—नील हरिन जैवाल (algae) में प्रोटीन के कण ।

betaine—(L. *beta*, beet) विटन $C_5H_{11}O_2N$ । चुकन्दर व अन्य वनस्पतियों तथा जन्तुओं में पाया जाने वाला पदार्थ विशेष जो लेसीथिन के अपगठन से बनता है ।

betz cells—(V. A. *Betz*, Russian histologist) वेजकोशिकायें; प्रमस्तिष्क बल्क के प्रेरक क्षेत्र (motor area) की दीर्घ पिरैमिडी कोशिकायें ।

biacuminate—(L. *bis*, twice; *acumen*; point) द्विलम्बाग्र, द्वितीक्षणाग्र, दोनों ओर से नुकीला ।

biarticulate—(L. *bis*, twice; *articulus*; joint) दो जोड़दार; द्विसन्धिगुक्त ।

bicapsular—(L. *bis*, twice; *capsula*, little box) द्विसम्पुटी ।

bicarinate—(L. *bis*, twice; *carina*, keel) द्विकील-धारी ।

bicarpellate—(L. *bis*, twice; Gk. *karpos*, fruit) द्वि अंडपी; दो अंडप (carpel) वाला (फल) ।

bicaudate—(L. *bis*, twice; *cauda*, tail) द्विपुच्छी; दो पूँछ सदृश प्रवर्धनयुक्त ।

bicellular—(L. *bis*, twice; *cellula*, little cell) द्विकोशिकी; दो सेल वाला ।

biceps—(L. *bis*, twice; *caput*, head) बाइसेप्स; द्विशिरस्क ।

biciliate—(L. *bis*, twice; *cilium*, eye lash) द्वपक्षाभिबी; द्वितत्रयुक्त ।

bicipital—(L. *bis*, twice; *caput*, head) द्विशाखी; द्विशिरस्की ।

bicipital groove—द्विशिरस्की खाँच; वाइमेप्स-सम्बन्धी (द्विमूलीय) परिखा ।

bicipital tuberosity—द्विशिरस्की ककुद; द्विमूलीय; ककुद ।

bicollateral—(L. *bis*, twice; *con*, together; *latus*, side) उभयफिलोयमी; द्विपार्श्वी ।

bicolligate—(L. *bis*, twice; *cum*, together; *ligare* to bind) द्विप्रसलंबी; पाँव में दो प्रसलम्ब (stretches) युक्त ।

biconjugate—(L. *bis*, twice; *cum*, together; *jugum*, yoke) द्विसमयुग्मी; दो समान युग्म (pairs) वाले ।

bicostate—(L. *bis*, twice; *costa*, rib) द्विपर्णुक; द्विमेड़ी, दो मेड़ (ridge) या दो पर्णु (rib) वाले ।

bicornuate—(L. *bis*, twice; *cornu*, horn) द्विशृंगी ।

bicrenate—(L. *bis*, twice, *crena*, notch) द्विकुंठ-दंती; द्विखांची; दुहरी खाँचि युक्त (जैसे पत्ती आदि) ।

bicuspid—(L. *bis*, twice; *cuspis*, point) द्वियग्री (दंत); द्विकस्पी जैसे पूर्व चर्वक (premolar) दाँत ।

bicuspid valve—द्विवलनी कपाट ।

bicyclic—(L. *bis*, twice; Gk. *kyklos*, circle) द्विचक्री ।

bidder's canal—विडर नाल ।

bidder's organ—विडर अंग; टोड (toad) में जननांगों के अग्रछोर पर लगी हुई अवशिष्ट या अविकसित डिम्ब ग्रन्थि या ओवरी (ovary) ।

bidental—(L. *bis*, twice; *dens*, tooth) द्विदन्ती ।

bidenticulate—(L. *bis*, twice; *dens*, tooth) द्वि-दंशधारी ।

biennial—(L. *bis*; twice; *annus*, year) द्विवर्षी ।

bifacial—(L. *bis*, twice; *facies*, face) द्विपृष्ठी; पृष्ठाघर (dorsiventral) ।

bifarious—(L. *bis*, twice; *fariam*, in row) द्विपंक्तिक; दो पंक्ति (rows) में लगे हुए ।

bifid—(L. *bis*, twice; *findere*, to split) द्विशाखित; द्विशाखी; द्विभक्त; द्विशिख; दो खण्डों में फटी हुई (लगभग मध्य रेखा तक) ।

biflabellate—(L. *bis*, twice; *flabellum*, fan) द्विवीजनयुक्त; दो पंखों जैसी आकृति वाला ।

biflagellate—(L. *bis*, twice; *flagellum*, whip) द्विकशाभिक; द्विकषातंत्री ।

biflex—(L. *bis*, twice; *flectere*, to bend) द्विचक्री ।

biflorate—(L. *bis*, twice; *flos*, flower) द्विपुष्पी; दो फूल वाले ।

bifoliate—(L. *bis*, twice, *folium*, leaf) द्विपर्णी; ऐसी हस्ताकार (palmate) संयुक्त पर्ण जिसमें दो पत्रक (leaflet) होते हैं ।

biforin—(L. *bis*, twice, *foris*, door) द्विमुखी ।

bifurcate—(L. *bis*, twice; *furca* fork) द्विशाखित; दो फाँकों वाला ।

bigeminal—(L. *bis*, twice; *geminus*, double) द्वियुगली; ऐसी संरचना जो दो युगलों (pairs) में होती हैं ।

bigeminate—(L. *bis*, twice; *geminus*, double) द्वियुगली; द्विधाभिद (twin-forked) ।

bigeneric—(L. *bis*, twice; *genus*, race) द्विवंशी संकर; द्विसंकर; ऐसे संकर (hybrid) जो दो स्पष्ट वंशों में हों ।

bigugate—(L. *bis*, twice; *jugare*, to join) द्वियुगलपत्रकी; दो युगल (pairs) पत्रकों (leaflets) वाले ।

bilabiate—(L. *bis*, twice; *labium*, lip) द्विओष्ठी ।

bilamellar—(L. *bis*, twice; *lamella*, plate) द्वि-
पत्रिकी ।

bilaminar—(L. *bis*, twice; *lamina*, thin plate)
द्विपत्रिका सम्बन्धी; द्विपटलीय; द्विपत्रिकाधारी ।

bilateral—(L. *bis*, twice; *latus*, side) द्विपार्श्विक ।

bilateral symmetry—द्विपार्श्व-सममित; द्विपार्श्विक
तुल्यांशता या समांशता; समपार्श्विकता ।

bile—पित्त; यकृत या जिगर (liver) स्राव ।

bile duct—पित्त-वाहिनी ।

biliary—पित्तिक; पित्त-सम्बन्धी ।

bilicyanin—(L. *bilis*, bile; Gk. *kyanos*, dark
blue) विली साइनिन; पित्त रंज्य; विलीवरडिन
(biliverdin) के अक्सीकरण से उत्पन्न नीला रंज्य
(blue pigment) ।

bilipurpurin—(L. *bilis*, bile; *purpura*, purple)
विलीपरपुरिन; पित्तनील रोहित पदार्थ ।

bilirubin—(L. *bilis*, bile; *ruber*, red) विलीरुबिन;
 $C_{32}H_{36}N_4O_6$; पीत रक्तमा; पित्त और रक्त का
आरक्त लोहित पदार्थ ।

biliverdin—(L. *bilis*, bile; F. *vert.* green)
विलीवरडिन; पित्त हरीत; $(C_{16}H_{18}N_2O_4)n$;
यह रंज्य विलीरुबिन के आक्सीकरण से उत्पन्न
होता है ।

bilobate—(L. *bis*, twice; L. *lobos*, from
Gk. *lobos*, rounded flap) द्विपालिक; द्विल्ली ।

bilobed—(L. *bis*, twice; Gk. *lobos*, lobe) द्विपालिक;
द्विल्ली या दो दल युक्त ।

bilobular—(L. *bis*, twice; *lobulus*, lobe) द्विपालिकीय ।

bilocellate—(L. *bis*, twice; *locellus*, place)
द्विकोष्ठीकी ।

bilocular, biloculine—(L. *bis*, twice; *locus*,
place) द्विकोष्ठी; द्विकोटर ।

bilophodont—(L. *bis*, twice; Gk. *lophos*, ridge;
odous, tooth) द्विकटक; द्विमेड़धारी (दाँत) ।

bimaculate—(L. *bis*, twice; *macula*, spot)
द्विविन्दुक ।

bimanous—(L. *bis*, twice; *manus*, hand)
द्विहस्तक ।

bimastism—(L. *bis* twice; Gk. *mastos*, breast)
द्विस्तनता ।

bimuscular—(L. *bis*, twice; *musculus*, muscle)
द्विपेशीय; दो पेशी वाला ।

binary fission—द्विविभजन; द्विभागीभण्डन ।

binary nomenclature = binominal nomenclature—

द्विपद; द्विशब्दीय नामकरण । जन्तुओं और पौधों की जाति या स्पीशीज (species) के नाम देने की वर्तमान विधि । जब किसी नवीन अंगी का पता चलता है, तो उसका वर्णन सर्वप्रथम अधिकतर लेटिन (latin) भाषा में छापा जाता है और उसका नाम भी लेटिन में ही दिया जाता है । नाम दो पदों (भागों) में होता है । एक स्पीशीज का घेतक तथा दूसरा वंश (genus) का घेतक होता है । वंश का नाम बड़े अक्षर से तथा जाति का नाम बाद में छोटे अक्षर से लिखा जाता है जैसे *Rana tigrina* या *Rana temporaria* आदि । यह वैज्ञानिक नाम इटैलिक (italics) टाइप में लिखे जाते हैं । उस वैज्ञानिक का नाम अधिकतर सक्षिप्त जो जाति का वर्णन करता है द्विपद के अन्त में लिखा जाता है जैसे *Rana tigrina* Dauid.; *canis lupus* linn. [Daud=Dauidin; & Linn=Linnæus] नाम दिये जाने या बदले जाने की देख-भाल एक अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी द्वारा होती है । द्विपद नामकरण विधि आरम्भिक प्राणिविज्ञान वेत्ताओं द्वारा आरम्भ की गई थी । पर सर्वप्रथम अठारहवीं शताब्दी के मध्य में लीनियस (Linnaeus) द्वारा विधिवत प्रयोग में लाई गई । इसी कारण लीनियस द्वारा अपनी पुस्तक *Species Plantarum* (1753) में प्रयोग में लाये गये नाम और *Systema Naturae* (1758) के दसवें संस्करण में प्रयोग में लाये गये नाम वनस्पतियों और जन्तुओं के नामों का आधार बने हुए हैं ।

binate—(L. *bini*, two by two) द्विपत्रक-पर्ण; युगल प्रभवी; युग्मी ।

binocular—(L. *bini*, pair; *oculus*, eye) सस्पर्क-दृष्टि; त्रिविम दृष्टि ।

binomial—(L. *bis*, twice; *nomen*, name) द्विशब्दीय ।

binomialism—(L. *bis*, twice; *nomen*, name) द्विशब्दीय नामकरण पद्धति ।

binovular—(L. *bini*, pair; *ovum*, egg) द्विनिषिक्त डिम्बी, जैसे जुडवाँ आदि ।

binuclear = binucleate—द्विनाभिक; द्विकेन्द्रक; द्विअष्टिक; दो न्युक्लियस युक्त ।

bioblast—(Gk. *bios*, life) वायोब्लास्ट; जीवज; जैवज; एक काल्पनिक इकाई ।

biocatalyst—(Gk. *bios*, life; *katalysis*, dissolving) ऐन्जाइम, क्षोभक; (जैव) उत्प्रेरक ।

biocellate—(L. *bis*, twice; *ocellus*; dim. of *oculus*, eye) द्विनेत्रिका युक्त ।

biochemistry—(Gk. *bois*, life; *chemos*, juice) जीव रसायन विज्ञान; प्राणी सम्बन्धी रसायन विज्ञान ।

biochore—(Gk. *bios*, life; *choris*, separate) जैवसीमा; वनस्पति या जन्तु समूह क्षेत्र की सीमा ।

biochrome—(Gk. *bios*, life; *chroma*, colour) जैववर्णक; वनस्पति और जन्तुओं का कोई भी प्रकृतिक वर्ण (रंग) ।

biocoenosis—(Gk. *bios*, life; *koinos*, common) भोजन क्षेत्र संगति ।

biocycle—(Gk. *bios*, life; *kykos*, place of assembly) जैव चक्र; जीव मण्डल के तीन मुख्य विभाजनों में से एक—सामुद्रिकी या स्वच्छ जलवासी, या भौमिक ।

biodynamics—(Gk. *bios*, life; *dynamis*, power) जीव गतिकी ।

bioelectric—(Gk. *bios*, life; *elektron*, amber)

जैव विद्युत; जैव या जीवितों में विद्युत द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा ।

bioenergetics—(Gk. *bios*, life; *eenergia*, action) जीवोर्जा विज्ञान; जीवितों (अंगियों) द्वारा उर्जा रूपान्तरों का अध्ययन ।

biogen, biogene—(Gk. *bios*, life; *genos*, descent) वायोजीन; एक जैव परमाणु; एक काल्पनिक इकाई ।

biogenesis—(Gk. *bios*, life; *genesis*, birth) जीवात् जीवोत्पत्ति; परतन्त्रोत्पादन; परतन्त्रोत्पत्ति । जीव जीवों से ही उत्पन्न हो सकते हैं—यह मत ।

(देखिये abiogenesis)

biogenetic law = recapitulation theory—प्रजाति-आवर्तन नियम; पुनरावलोकनवाद या मत ।

(देखिये recapitulation theory)

biogenous—(Gk. *bios*, life; *genos*, offspring) जीव-जीवी; जीवित पर जीवित का रहना; परजीवी ।

biogeny—(Gk. *bois*, life; *genesis*, birth) जीव-विकास सिद्धान्त; जीवोत्पत्ति विज्ञान । इस विज्ञान में व्यक्तिवर्धन विज्ञान (*autogeny*) और जाति विकास विज्ञान (*phylogeny*) दो शाखाएँ सम्मिलित हैं ।

biogeochemistry—(Gk. *bios*, life, *ge*, earth; *chymos*, juice) जीव भू रसायन; रसायनिक तत्वों का जीवितों में वितरण अदि का भौगोलिक परिस्थितियों के साथ अध्ययन ।

biogeography—(Gk. *bios*, life; *ge*, earth; *graphein*, to write) जीवभूगोल; जैवभूगोल; जीव प्रसार विज्ञान । इसके अन्तर्गत दो शाखाएँ हैं—(१) जन्तु भूगोल (*zoogeography*) और (२) वृक्ष भूगोल (*phytogeography*) ।

biological—(Gk. *bios*, life; *logos*, discourse) जैव; जैविक; जीव (या प्राणी) वैज्ञानिक; जीव (या प्राणी) शास्त्रीय; प्राणी विज्ञान सम्बन्धी ।

biologist—(Gk. *bios*, life; *logos*, discourse) जीव

biology

या प्राणी विज्ञानवेत्ता: जीव वैज्ञानिक; जीव या प्राणी शास्त्री ।

biology—(Gk. *bios*, life; *logos*, discourse) जीव विज्ञान; जैविकी; प्राणी विज्ञान ।

bioluminescence—(Gk. *bios*, life; L. *luminescere*, to grow light) जैवी संदीप्ता; जैव-प्रकाशोत्पन्नता; कुछ बैक्टीरिया, फंजाई तथा कुछ अन्य जन्तुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना ।

biolysis—(Gk. *bios*, life; *lysis*, loosening) जैव अपघटन; जीवितों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थों का अपघटन ।

biomass—(Gk. *bios*, life; *massein*, to squeeze) जैवभार; जीवभार; जैवमात्रा; अंगीयों का एक इकाई क्षेत्र पर भार ।

biome—(Gk. *bios*, life) जैवजाति; जैवादर्श; जीवोम ।

biometeorology—(Gk. *bios*, life; *meteorologia*, treatise on the heavenly bodies) जैव-मौसम विज्ञान; वनस्पति और पौधों पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन ।

biometrics—(Gk. *bios*, life; *metron*, measure) जैवसांख्यिकी; वायोमेट्रिक्स ।

biometrics = biometry—(Gk. *bios*, life; *metron*, measure) जीवमाप विज्ञान; जन्तु (जीव) मापनशास्त्र; जीव सांख्यिकी ।

bion, biont—(Gk. *bion*, living) वायोन; अनाश्रितांगी । (देखिये morphon-अश्रितांगी)

bionergy—(Gk. *bios*, life; *energeia*, action) जैव शक्ति; प्राण भूत बल; शौर्य; पराक्रम ।

bionomics—(Gk. *bios*, life; *nomos*, law) जीव-पारिस्थिति की; परिस्थितिकी विज्ञान; जन्तुओं के व्यवहार या वातावरण सम्बन्धी अध्ययन ।

(देखिये ecology)

biophore—(Gk. *bios*, life; *pherein*, to carry) जीवधर; एक काल्पनिक इकाई ।

biophotogenesis—(Gk. *bios*, life; *phos*, light; *genesis*, origin) जैव प्रकाशोत्पन्नता; वनस्पतियों और जन्तुओं द्वारा प्रकाश की उत्पत्ति (production) तथा उद्गार (emission) ।

biophyte—(Gk. *bios*, life; *phyton*, plant) जीव पादप ।

bioplasm—(Gk. *bios*, life; *plasma*, mould) जीवद्रव्य; जीव प्ररस; प्रोटोप्लाज्म ।

bioplast—(Gk. *bios*, life; *plastos*, formed) जैव कण; जीवित प्रोटोप्लाज्म का वह छोटी से छोटी मात्रा जो स्वतः उत्पादन करने की क्षमता रखता हो ।

biopsy—(Gk. *bios*, life; *opsis*, sight) जीवजतक परीक्षा; जीवूति परीक्षा; वायाप्सी ।

biorgan—(Gk. *bios*, life; *organon*, instrument) जैव अंग; कार्यकी अंग; ऐमा अंग जो कार्य की इकाई हो ।

bios—(Gk. *bios*, life) जीवन; प्राणी; वृद्धिकारकों का समुदाय ।

bioseries—(Gk. *bios*, life; L. *series*, row) जैवश्रेणी; आनुवंशिक लक्षण के क्रमिक परिवर्तन ।

biosomes—(Gk. *bios*, life; *soma*, body) जैव-कण; जैव पिण्ड; कोशिका द्रव्य (साइटोप्लाज्म) के संरचनात्मक (structural) एवं कार्यकारी (functional) पिण्ड जैसे गोलाकारपिण्ड (chondriosomes); रंज्योप-कणिका (chromidia) सावकण (plastids) आदि ।

biosphere—(Gk. *bios*, life; *sphaira*, globe) जीव मण्डल; जैवभूमण्डल ।

biostatics—(Gk. *bios*, life; *statos*, stationary) जीवसंरचना कार्यकी विज्ञान; वह विज्ञान जिसके अन्तर्गत जीव की संरचना का कार्य के सम्बन्ध के साथ अध्ययन किया जाता है ।

biosystematics—वर्गीकरण विज्ञान ।

biota—(Gk. *bios*, life) जैव समुदाय; प्राणी समुदाय; किमी क्षेत्र के जन्तु और वनस्पति समुदाय ।

biotic—(Gk. *biotikos*, *pert*, life) प्राण-सम्बन्धी, जीवन सम्बन्धी; जीवीय ।

biotin—(Gk. *bios*, life) बायोटिन; विटामिन "एच" (H); $C_{10}H_{16}O_3N_2S$; यकृत से पाया जाने वाला पदार्थ जो ईस्ट (yeast) की वृद्धि करता है ।

biotonus—(Gk. *bios*, life; *tonos*, tension) जीव-सुस्थता; जीव के स्वांगीकरण (assimilation) और अपचय (dissimilation) का अनुपात ।

biotope—(Gk. *bios*, life; *topos*, place) जैव-वास; ऐसा स्थल जहाँ जीव जीवित रह सकता है ।

biotype—(Gk. *bios*, life; L. *typus*, image) जैवादृश; समान समजीवी (genotype) के समस्त व्यक्ति ।

biovulate—(L. *bis*, twice; *ovum*, egg) द्विवीजांडी; द्विवीजाणु; द्विडिम्बी ।

bipaleolate—(L. *bis*, twice; *palea*, chaff) द्विवेष्टनी; द्वितुपक; द्विपेलयुक्त ।

bipalmate—(L. *bis*, twice; *palma*, palm of hand) द्विपाणिवत; दल्लोडप; दल पर दल ।

biparictal—(L. *bis*, twice; *paries*, wall) द्विभित्तिक ।

biparous—(L. *bis*, twice; *parere*, to bear) यमसू; द्विप्रसवनी; एक बार में दो बच्चे देने वाली; द्विभाजी शाखीय ।

bipartite—(L. *bis*, twice; *partite*, to divide) द्विखण्डी ।

bispectinate—(L. *bis*, twice; *pecten*, comb) उभय-कंकती; उभयतल कंकती ।

biped—(L. *bis*, twice; *pes*, foot) द्विपादी; द्विपदी ।

bipenniform—(L. *bis*, twice; *penna*, feather; *forma*, shape) पिच्छोपम ।

bipetalous—L. *bis*, twice; Gk. *petalon*, leaf) द्विदली; द्विपंचुडिक ।

bipinnaria—(L. *bis*, twice; *pinna*, feather)

द्विमेखला; एक प्रकार का डिम्बक—जैम ऐस्टेरोइड डिम्बक ।

bipinnate—(L. *bis*, twice; *pinna*, feather) द्विपिच्छकी; युगलद्विपत्रक ।

bipinnatifid—(L. *bis*, twice; *pinna*, feather; *findere*, to cleave) द्विखण्डपर्णी; द्विविभक्त पर्णी; ऐसी पत्ती वाले जो बटी हों तथा बटी हुई पुनः बटी हों ।

bipinnatipartite—(L. *bis*, twice; *pinna*, feather; *partiri*, to divide) द्वि अंश खण्ड-पर्णी; (खण्डन मध्य-शिरा के समीप तक) ।

bipinnatisect—(L. *bis*, twice; *pinna*, feather; *secare*, to cut) द्वि अंश खण्ड-पर्णी (खण्डन मध्य शिरा तक) ।

biplicate—(L. *bis*, twice; *plicare*, to fold) द्विभांजी ।

bipocillus—(L. *bis*, twice; *pocillus*, little cup) द्विप्यालिका लघु कंटिका ।

bipolar—(L. *bis*, twice; Gk. *polos*, pivot) द्विध्रुवीय; द्विध्रुवी ।

bipolarity—(L. *bis*, twice; Gk. *polos*, pivot) द्विध्रुवता ।

biradial—(L. *bis*, twice; *radius*, ray) द्विअरी; द्विअरसमांशी ।

biramose=**biramous**—(L. *bis*, twice; *ramus*, branch) द्विशाखी ।

birds—पक्षी; चिड़िया (see aves.) ।

birostrate—(L. *bis*, twice; *rostrum*, beak) द्वि चंचुक प्रवर्धनी ।

birth pore—गर्भाजय छिद्र ।

bisepate—(L. *bis*, twice; *septum*, fence) द्विपटयुक्त; द्विव्यवधानी; द्विविभाजी ।

biserial—(L. *bis*, twice; *series*, series) द्विपंक्ति; द्विक्रमिक ।

biserrate

- biserrate**—(L. *bis*, twice; *serra*, saw) द्विकर्कची; द्विदंतुरी ।
- bispinose**—द्विधूलि ।
- bispore**—द्विवीजाणु ।
- bisexual**—(L. *bis*, twice; *sexus*, sex) द्विलिंगी; उभयलिंगी; वे जीव जिनके शरीर में नर (पुंल्लिंग) तथा मादा (स्त्रीलिंग) दोनों प्रकार की जननेन्द्रियाँ (reproductive organs) एक साथ विद्यमान हों ।
- listephanic**—(L. *bis*, twice; Gk. *stephanos*, crown) वार्डस्टीफैनिक; द्विविन्दु स्पर्शी सेवनी ।
- bistipulate**—(L. *bis*, twice; *stipule*, stem) द्वि-अनुपर्णी ।
- bistratose**—(L. *bis*, twice; *stratum*, layer) द्विस्तर कोशिकीय; दो स्तरों में लगी कोशिकायें ।
- bisulcate**—(L. *bis*, twice; *sulcus*, groove) द्विसीता युक्त; द्विपरिखी ।
- bitemporal**—(L. *bis*, twice. *tempore*, temples) द्विशंकास्थि; दो कनपटी (temporal) अस्थि युक्त ।
- biterminate**—(L. *bis*, twice; *terni*, three by three) द्वित्रिविभक्त; दो बार तीन-तीन में विभक्त ।
- bivalent**—(L. *bis*, twice; *valere*, to be strong) युगली; दुहरा; द्वैघ ।
- bivalve**—(L. *bis*, twice; *valvae*, folding doors) द्विकपाटी ।
- biventral**—(L. *bis*, twice; *venter*, belly) द्वि-अघरीय ।
- bivittate**—(L. *bis*, twice; *vita*, band) द्विधारीक, द्वितैलपात्री ।
- bivium**—(L. *bis*, twice; *via*, way) वाइवियम; भ्रुजाइय; द्विभ्रुजी; एकाईनोटमेटा (echinodermeta) में वह दो किरण जिनके मध्य में जनन पट्ट (madreporite) रहता है ।
- bladder**—(A. S. *placdre*, bag) थैली आशय ।
- bladder worm**—ब्लैडरवर्म; स्पोतिमिस्टोड; टेपवर्म जन्तुओं का टिपक विरोध ।

blade—फलक ।**blade (shoulder)**—फलक (अंसफलक) ।**blandin's glands**—(P. F. *Blandin*, French surgeon) ब्लानडिन्स ग्रन्थि; नूहन (Nuhn) ग्रन्थि; अग्रजीभी ग्रन्थियाँ ।**blastaea**—(Gk. *blastos*, bud) प्रकारक; तिलिया युक्त प्लेनेरिया; (planaria); विकास की एक काल्पनिक स्थिति ।**blastelasma**—(Gk. *blastos*, bud; *elasma*, plate) मध्यजनन स्तर; एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बाद की बनने वाली कोई भी जनन स्तर ।**blastemma**—blastemata (pl) (Gk. *blastemma*, bud) ब्लास्टीमा; अकुर; अंग मूलांग; अडे या डिम्ब का निर्माणकारी भाग ।**blastic**—(Gk. *blastos*, bud) ब्लास्टिक; प्रकारकी ।**blastocarpous**—(Gk. *blastos*, bud; *kerpos*, fruit) फलभित्तिक वर्धन; ब्लास्टोकारपस; फलभित्तिका (pericarp) से घिरे होने पर भी वर्धन ।**blastochrome**—(Gk. *blastos*, bud; *ochema*, vessel) अन्तः मेडुसी उत्पादी; मेडुसी के अन्दर उत्पादी व्यक्ति ।**blastochyle**—(Gk. *blastos*, bud; *chylos*, juice) एक स्तरगुहा रस; एक स्तर भ्रूण-ब्लास्टुला के गुहा के अन्दर पाया जाने वाला द्रव (fluid) ।**blastocoel**—(Gk. *blastos*, bud; *koilos*, hollow) ब्लास्टोसील; कोरकगुहा । एक स्तर गुहा; विभाजन कोटर या गुहा (segmentation-cavity) ।**blastocolla**—(Gk. *blastos*, bud; *kolla*, glue) कोरक चप ।**blastocone**—(Gk. *blastos*, bud; *konos*, cone; कोरक शंकु; किन्हीं डिम्बों के विखण्डन में प्रथम परिधि विभाजन (circumferential division) की बाह्य दीर्घ कोशिका ।**blastocyst**—(Gk. *blastos*, bud; *kystis*, bladder) ब्लास्टोसिस्ट; जनन कोषिका ।

blastocyte—(Gk. *blastos*, bud; *kytos*, hollow) कोरक कोशिका।

blastoderm—(Gk. *blastos*, bud; *derma*, skin) ब्लासटोडर्म; कोरक-चर्म; एक स्तर पट; ; उत्पादन विम्ब (germinal disc)।

blastodermic vesicle—एक स्तर पट-कोशिका; ब्लासटो-डर्मिक कोशिका।

blastodisc—(Gk. *blastos*, bud; *diskos*, disk) कोरक विम्ब; वर्धित डिम्ब का जनन क्षेत्र।

blastogenesis—(Gk. *blastos*, bud; *genesis*, birth) कलिकोत्पादन; कलिकाओं (buds) द्वारा उत्पत्ति प्रक्रिया या उत्पादन (reproduction)।

blastogenic—(Gk. *blastos*, bud; *genos*, offspring) कलिकोत्पादीय।

blastokinesis—(Gk. *blastos*, bud; *kinesis*, movement) भ्रूण गति; डिम्ब में भ्रूण की गति जैसे कुछ कीटों और सिफैलोपोडा (cephalopoda) में।

blastomere—(Gk. *blastos*, bud; *meros*, part) ब्लासटोमियर; कोरक-खण्ड; उत्पादन कोशिका; प्राथमिक कोष्ठ; भ्रूणकोशिका (zygote) के प्राथमिक विभाजन से उत्पन्न कोशिका (cell)।

blastoneuropore—(Gk. *blastos*, bud; *neuron*, nerve; *poros*, passage) कोरक पथ; कोरक रंध्र (blastopore) और तंत्रिका रंध्र (neuropore) को जोड़ने वाला अस्थाई पथ।

blastophore—(Gk. *blastos*, bud; *pherein*, to bear) कलिकाधारक।

blastophthoria—(Gk. *blastos*, bud; *phthora*, corruption) कोरक अपकारक; जनन कोशिका को हानिकारक या अपकारक पहुँचाने वाला प्रभाव।

blastopore—(Gk. *blastos*, bud; *poros*, passage) ब्लासटोपोर; कोरक रंध्र।

blastosphere=**blastula**—(Gk. *blastos*, bud; *sphaira*, globe) एक स्तर; ब्लास्टुला।

blastospore—(Gk. *blastos*, bud; *sporos*, seed)

कोरक स्पोर; ऐसा स्पोर जो कलिकोत्पादन से स्वयं बना हो तथा पुनः कलिकोत्पादन करने की क्षमता रखता हो, जैसे यीस्ट (yeast) का स्पोर।

blastostyle—(Gk. *blastos*, bud; *stylos* pillar) मेड्युसाधारी; मेड्युसा (medusa) उत्पन्न करने वाला मुकुल (zooid)।

blastozoite—(Gk. *blastos*, bud; *-oe*, life) कोरकजीव; ऐसा अंगी जो कलिकोत्पादन से उत्पन्न हुआ हो।

blastozoid—(Gk. *blastos*, bud; *-oon*, animal; *eidos*, form) कोरकमुकुल; डिम्बक कलिका। एसीडियन (ascidian) कलिकोत्पादन में बनी एक डिम्बक कलिका (larval bud)।

blastula—(L. *dim.* of; Gk. *blastos*, bud) ब्लैस्टुला; कोरक-कंदुक; एक स्तर भ्रूण; वर्धन क्रम की एक प्रारम्भिक अवस्था।

blastulation—(L. *blastula*, little bud) कोरक कन्दुक निर्माण; एक स्तर भ्रूण निर्माण।

blended inheritance—मिश्रित वंशागति; मिश्रित दायता।

blending—(A. S. *blandan*, to mix) जाति संकर।

blepharoplast—(Gk. *blepharon*, eyelash; *plastos*, formed) ब्लैफरोप्लास्ट; ब्लैफरोब्लास्ट; अधोपिण्ड; फ्लेजिलेटा (कपातंत्रियों) के कपातन्त्र (flagellum) सरीस्रे किसी गतिविषयक सूक्ष्मांग से सम्बन्ध रखने वाला अधोपिण्ड।

blight—(A. S. *blaecan*, to grow pale) शीर्णता; अंगमारी रोग; शीर्णन; चित्तीरोग; एक कीट या फफूँदी जो पौधों में शीर्णन (पीलेपन) का रोग उत्पन्न करते हैं।

blind spot—अन्धबिन्दु; अदृष्टि केन्द्र; अन्धस्थल। रेटिना (retina) का वह प्रदेश जिसमें होकर नेत्र तंत्रिका (optic nerve) प्रवेश करती है।

blister—(A. S. *blawan*, to blow) (१) फफोला;

छाता (२) बिलिस्टर-एक वनस्पति रोग (फफोला विनाइट—blister blight) ।

blood—रधिर; रक्त; लहू; खून । वह तरल पदार्थ (fluid), जो शरीर के रक्त तंत्र या रक्त संवहन तंत्र (blood-vascular system) में बहता हुआ शरीर की प्रत्येक कोशिका (cell) को ऑक्सीजन (oxygen) तथा खाद्य पदार्थ (food) पहुंचाता और कोशिकाओं में उत्पन्न हुए व्यर्थ के पदार्थों (waste materials) को निकाल ले जाता है ।

blood cells—आद्य रक्तज; रक्त कोशिका पूर्वज । सामान्य मध्यजन स्तर से विपन्न कोशिका विभाजन (mitosis) से उद्भिद कोशिकायें ।

blood corpuscles—रधिर कणिका; रक्त कण ।

blood circulation—रक्त परिभ्रमण; रक्त चक्र; रक्त संचार; खून का दौरा ।

blood crystals—हीमोग्लोबिन कण—जब रक्त को क्लोरोफॉर्म (chloroform) या ईथर (ether) के साथ हिलाया जाता है तो यह कण बनते हैं ।

blood dust—हीमोकोनिया; रक्त में उदासीन वसा के सूक्ष्म बिन्दुओं (droplets) का उपस्थिति होना ।

blood gills—रक्त कोष, किन्हीं कीटों में रक्त से भरी चैनियाँ या कोष जो लवणों के अवशोषण का कार्य करते हैं ।

blood groups—रधिर वर्ग; यह वर्ग लाल रधिर कणिकाओं (red corpuscles) में दो समूहजन (agglutinogens) A और B तथा दो समूहनिन (agglutinins) a or प्रति (anti) A और B or प्रति (anti) B का नीरम या प्लाज्मा में उपस्थिति तथा अनुपस्थिति होना होना है । A कोशिकाओं वा समूहन B प्रकार की नीरम कोशिकाओं के साथ होता है तथा B, A के साथ, AB, A और B प्रकार के साथ और O किसी भी A अथवा B प्रकार में समूहन नहीं करता है ।

(द्वैधिये—universal donor. सार्वलौकिक रक्तोपहारी;

universall recipient—सार्वलौकिक रक्तग्राही)

blood groups—रधिर द्वीप; आद्य रक्तगणकारक ।

blood plasma—रधिर-प्लाज्मा; रक्तप्ररस ।

blood platelets—रधिर थक्काकण ।

blood plates—रधिर पट्ट; सूक्ष्म अमीवाकार प्ररस पिण्ड ।

blood pressure—रक्त भार; रधिर भार; रक्त दाब ।

blood serum—रधिर सीरम; रक्त कण (corpuscles) और फाइब्रिन (fibrin) रहित रक्त का तरल भाग ।

blood sugar—रधिर-शर्करा; रधिर में घुली हुई ग्लूकोज । कशेरुकों में यह शर्करा रधिर को यकृत से (जहाँ यह ग्लाइकोजन (glycogen) के रूप में एकत्रित रहती है) पहुंचती है तथा कोशिकाओं द्वारा खाद्य के रूप में स्वीकार की जाती है । स्तनी में मुख्यतः मानव में इसकी स्थिर मात्रा रहती है जो 80—180 मि० ग्राम प्रति 100 मि० लि० रधिर की होती है । इसका नियंत्रण मुख्यतः हार्मोन, इन्सुलिन; ग्लूकागोन (glucagon) (पेंक्रियाज. से), एंड्रिनेलिन और ग्लूकोकोर्टिकॉइडस (glucocorticoids) (एड्रीनल ग्रन्थि से) द्वारा होता है । यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो कोशिकायें भूखी रहती है और हाइपोग्लिसेमिया (hypoglycaemia) की दशा होती है जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं की शीघ्र क्षति होती है । यदि इसकी मात्रा अधिक होती है तो हाइपरग्लिसेमिया (hyperglycaemia) की दशा होती है और इसमें वृक्क द्वारा ग्लूकोज विसर्जित कर दी जाती है ।

blood vascular system—रधिर-संवहन-तंत्र; रक्त वाहक तंत्र ।

blood vessels—रधिर वाहिका; रक्त नलिकाएँ; नस । रक्त नलिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं—(१) धमनियाँ (arteries) जो रक्त को हृदय (heart) से विविध अंगों की ओर ले जाती हैं अपवाद फुफ्फुसी-धमनी (२) शिरायें (veins), जो रक्त को हृदय की ओर लाती हैं, अपवाद फुफ्फुसी शिरा और (३) केशिकायें (capillaries) जो अत्यन्त सूक्ष्म शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाने वाली रक्त नलिकाएँ होती हैं और

धमनियों के अन्त तथा शिराओं के उद्गम-स्थान पर पाई जाती है ।

blubber—(M. E. *blober*, a bubble) ब्हेलबसा; ब्हेल जन्तुओं के त्वचा और पेशी के मध्य पाया जाने वाला बसा स्तर ।

bodily—दैहिक; शारीरिक ।

body—शरीर; देह; काय; पिण्ड; वस्तु; तन; गात; जिस्म ।

body blight—वृक्षब्लाइट; वृक्षों में पाया जाने वाला फन्गस चित्ती रोग ।

body cavity—*coelom*—देहगुहा; गह्वर ।

body cell—काय-कोशिका; शरीर-कोशिका; देहकोशिका ।

body of stomach—अमाशय पिण्ड ।

body wall—देहभित्ति ।

Bojanus, organ of—(L. *H. Bojanus*, Alsatian zoologist) वोजेस का अंग; पत्रक गिली (lamelli-branches) जन्तुओं का विसर्जन अंग ।

bolus—बोलस; पिण्ड; स्तनी (mammals) में के भुँह धूक से मिल कर बना खाद्य जो निगलक में होकर अमाशय में पहुँचता है ।

bone—(A. S. *ban*, bone) अस्थि; हड्डी; वह बन्धक ऊतक (connective tissue) जिसके आधारक (ground substance) में चूने के लवण (lime salts) होते हैं ।

bone corpuscles—अस्थि कोशिका; अस्थि कण ।

bone cortex—अस्थि बल्क ।

bone marrow—अस्थि मज्जा; मज्जा; मिगी ।

bonitation—(L. *bonitas*, goodness) सांत्तिकी वितरण; किसी खास स्थान में किसी जाति की संख्या का निर्णय ।

bony—अस्थि मय; अस्थि—; हड्डीदार; हड्डी वाला ।

book-gill—ग्रन्थाकार गिल; बुकगिल; ग्रन्थोपम गिल; ग्रन्थ-गिल । (देखिये *gill-book*)

book-lung—ग्रन्थोपम फुफ्फुस ।

border—सीमांत; तट; किनारा ।

border (inferior)—अधर तट ।

border (superior)—उर्ध्व तट ।

bordered pit—सीमान्त गर्त; परिवेशित गर्त, वृक्षों में ट्रेकीड्स (*tracheides*) की दीवार पर बने गड्ढे ।

boreal—(L. *boreas*, north wind) बोरियल जीव-क्षेत्र; उत्तरी जैव भूगोलिक क्षेत्र; सकल ध्रुवी (holarctic) का सोनोरन (*sonoran*) के अतिरिक्त भाग ।

boss—गुलिकाधार ।

bosseled—(M. E. *bosse*, knob) शोफी; घुण्डी दार ।

bosset—(M. E. *bosse*, knob) शृंग शोफ; मृगों में शृंग निर्धारण के लिये बनी गाँठ (शोफ) ।

bostryx—(Gk. *bostrychos*, curl) शंखुकी ससीमाक्ष; कुंडलिनी रूप ससीमाक्ष पुष्प क्रम (*helicoid cyme inflorescence*); अक्ष (*axis*) के केवल एक ओर पुष्पों का होना ।

botany—वनस्पति विज्ञान; वनस्पति शास्त्र ।

(देखिये *phytology*)

bothridium—(Gk. *bothros*, trench; *idion*, dim) बौथरीडियम; फिलीडियम; सेसटोइडिया के मीवा तिर से निकला हुआ अतिवर्धित भाग ।

botryoidal—(Gk. *botrys*, bunch of grapes; *eidōs*, form) बोटोराइडन; गुच्छाकार; गुच्छोपम । जोंक (*leech*) की अन्न प्रणाली (*enteric canal*) की शाखाओं को घेरे ऊतक विशेष ।

botryose—(Gk. *botrys*, bunch of grapes) बोटोराइडन; गुच्छाकार; असीमाक्षी (*racemose*) पुष्प क्रम (*inflorescena*) ।

botuliform—(L. *botulus*, sausage; *forma*, form) सूपोपम; सूपाकार; अपरापोपिकीय ।

bouillon—(F. *bouillon*, broth) बूयोंग; सूप; अन-छना संमिश्रण; प्रक्षेप; पानी में मिला गोशत का निर्यास (रस) ।

bouton—(F. *bouton*, bud) वाऊटन; अन्त्य हन्द; ओष्ठक (*labellum*) तनुपक्षकों (*hymenoptera*) में ।

bowman's capsule—बौमन-संपुट; बौमन पात्र; बौमन कुहर ।
 bowman's glands—बौमन ग्रन्थियाँ ।
 bowman's membrane—बौमन कला; कार्निया (cornea) की अग्र स्थिति स्थापक (elastic) कला ।
 braccate—(L. *braccae*, breeches) अनुपंखी, ब्रेकेट; अतिरिक्त पंखी; पक्षियों में टाँग या पाँव पर अतिरिक्त पंखों का होना ।
 brachelytrous—(Gk. *brachys*, short; *elytron*, sheath) लघु वाजूपंखी ।
 brachia—(L. *brachium*, arm) प्रगंड; बाहु; भुजा ।
 brachial—(L. *brachium*, arm) बाहु—; भुजा सम्बन्धी; भुजा—।
 brachial disc—भुजा विम्ब ।
 brachial ossicles—बाहु अस्थिक; भुजा स्थिक ।
 brachial muscle—बाहुपेशी; भुजा पेशी ।
 brachial plexus—बाहु जालक ।
 brachiate—(L. *brachium*, arm) शाखीय; स्फीत-शाखी ।
 brachidia—(Gk. *brachion*, arm; *idion*, dim.) प्रगंड सहायी कैलिसयमी अस्थि जैसे कुछ ब्रेकियोपोडा जन्तुओं में ।
 brachiferous, = brachigerous—(L. *brachium*, arm; *ferre*, *gerere*, to carry) शाखीय ।
 brachiocephalic—(L. *brachium*, arm; Gk. *kephale*, head) भुजा; सिर सम्बन्धी (धमनी) ।
 brachiocubital—(L. *brachium* arm; *cubitum*, forearm) भुजा प्रकोष्ठिय; भुजा और प्रकोष्ठ (forearm) सम्बन्धी ।
 brachiolaria—(L. *brachiolum*, a small arm) किन-भुजी; ब्रेकियोलेरिया; एकाईनोडर्मेटा का डिम्बक विशेष ।
 brachiole—(L. *brachiloum*, small arm)

लघुभुजा—; लघुभुजा सम्बन्धी; युज पक्ष (pinnule) सदृश आकृति विशेष ।
 brachioradialis—(L. *brachium*, arm; *radius*, ray) ब्रेकियोरेडियेलिस-अग्रबाहुपेशी ।
 brachiopoda—भुजापादी ।
 brachium—(L. *brachium*, arm) प्रगंड; भुजा; बाहु ।
 brachycephalic—(Gk. *brachys*, short; *kephale*, head) लघु शिरस्क; वामन शिरस्क । ८० से अधिक कपालीय निर्देशनी (cephalic index) वाला ।
 (देखिये dolichocephalic)
 brachycerous—(Gk. *brachys*, short; *keras*, horn) लघुस्पर्श तंत्री, लघु शृंगी ।
 brachycnemic—(Gk. *brachys*, short; *kneme*, tibia) अपूर्ण अमुखारी । यह शब्द जूएन्थेरिया (zooantheria) के उस व्यवधान-विन्यास (arrangement of mesenteries) के विषय में प्रयुक्त होता है जिसमें छठा प्रमुखार (protoneme) अपूर्ण हो ।
 brachydactyly—(Gk. *brachys*, short; *daktylos*, digit) लघु अगुलिता; वामनांगुलिता; असाधारण छोटी (लघु) अंगुलियों वाला ।
 brachyodont, brachyodont—(Gk. *brachys*, short; *odous*, tooth) लघुदन्त; निम्न किरीटी चर्वक; चर्वक दन्त का एक प्रकार ।
 brachymeiosis—(Gk. *brachys*, short; *meiosis*, half) हीनअर्ध सूत्रण ।
 brachyplast—(Gk. *brachys*, short; *plastos*, formed) लघुज; एक ही पौधे पर सामान्य शाखाओं के साथ पर्णगुच्छ युक्त एक लघु शाखा का भी होना ।
 brachypleural—(Gk. *brachys*, short; *pleuron*, side) लघु पार्श्वी ।
 brachypodous—(Gk. *brachys*, short; *pous*, foot) लघुपाद; लघुपादी ।
 brachypterus—(Gk. *brachys*, short; *pteron*, wing) लघुपक्षीय ।
 brachysm—(Gk. *brachys*, short) लघुपंजक;

वामनता ; वनस्पतियों में पर्व या काण्डों के छोटा होने के कारण वामनपन या ह्रस्वता ।

brachystomatous—(Gk. *brachys*, short; *stoma*, mouth) लघु प्रोथी ।

brachytic—(Gk. *brachytes*, shortness) ह्रस्वकायी, अतुंगी ।

brachyural—(Gk. *brachys*, short; *oura*, tail) लघुदरी; लघु-उदरी; वक्ष (thorax) के नीचे को मुड़ा हुआ, छोटा-सा उदर वाला । यह शब्द कुछ कैंकड़ों (crabs) के लिये प्रयोग किया जाता है ।

brachyuric—(Gk. *brachys*, short; *oura*, tail) लघुपुच्छी ।

bract—(L. *bractea*, thin plate of metal) सहपत्र, पत्ताभ ।

bract scales—सहपत्र-वल्कल, वह छोटे वल्कल (scales) जो शंकु की अक्ष पर होते हैं ।

bracteal—(L. *bractea*, thin metal plate) सहपत्रोपम ।

bracteate—(L. *bractea*, thin metal plate) सहपत्री ।

bracteolate—(L. *bractea*, thin metal plate) अनुसहपत्री; पुष्पों के अधर पर गौण सहपत्र ।

bracteose—(L. *bractea*, thin metal plate) बहुसहपत्रक ।

bradygenesis—(Gk. *bradys*, slow; *genesis*, descent) अवरुद्धोत्पत्ति । जाति विकास (phylogeny) में अवरुद्ध (retarded) वर्धन या उत्पत्ति (development) । (देखिये tachygenesis)

bradytelic—(Gk. *bradys*, slow; *telos*, fulfilment) मन्थर विकासी; अद्रुत-उद्भिद ।

brain—(M. E. *brayne*, brain) मस्तिष्क; तंत्रिका तंत्र का केन्द्र ।

(१) कशेरुकों (vertebrates) में सुषुम्ना (spinal cord) के अग्रछोर (anterior end) पर का तंत्रिका पदार्थों का पुंज (mass) ।

(२) अकशेरुकों (invertibrates) में सुपरा-निगलक गैंगलिया (supra-oesophageal ganglion) या सुपरा-कण्ठीय गैंगलिया (supra-pharyngeal ganglia) ।

branchia or branchiae—(Gk. *brangchia*, gills) गिज; क्लोम ।

branchial arch—गिलतोरण; क्लोम चाप ।

branchiate—(Gk. *brangchia*, gills) गिलधारी ।

branchicolous—(Gk. *branchia*, gills; L. *colere*, to inhabit) गिलवासी; गिलपरजीवी । कुछ परजीवी क्रस्टेशिया (parasitic crustaceans) जो मछलियों के गिलों में परजीवी रहते हैं ।

branchiform—(Gk. *brangchia*, gills; L. *forms*; shape) गिनोपम; गिलाकार ।

branchihyal—(Gk. *branchia*, gills; *hyooides*, Y-shaped) ब्रैन्कीहायल; गिलतोरण (branchial-arch) का एक टुक ।

branchiocardiac—(Gk. *brangchia*, gills; *kardia*, heart) गिल-हार्दिक ।

branchiomere—(Gk. *branchia*, gills; *meros*, part) गिलांश ।

branchiopallial—(Gk. *brangchia*, gills; L. *pallium*, mantle) गिल पिधानीय ।

branchiostegal—(Gk. *brangchia*, gills; *stega*, roof) गिलावरण-सम्बन्धी; गिलावरण—

branchiostege—(Gk. *brangchia*, gills; *stega*, roof) गिलावरण झिल्ली ।

branchiostegite—(Gk. *brangchia*, gills; *stega*, roof) गिलावरण । कुछ क्रस्टेशिया (crustacea) के कडावंशियों में कवच का फँला हुआ पार्श्व भाग जो गिलों को ढके रहता है ।

brachireme—(L. *branchiae*, gills; *remus*, oar) गिलावयव ।

brand—(A. S. *bearnan*, to burn) ब्रांड या ब्रैन्ड; दग्ध चिन्हित; फन्जाई (funji) के कारण पत्तियों का जली हुई सी प्रतीत होना ।

breast—छानी; स्तन ।
 breathing—श्वसन ।
 breed—नस्ल; गोत्र ।
 breeding—प्रजनन; प्रसव; जनन ।
 breeding season—प्रजनन-ऋतु; जनन काल ।
 bregma—(Gk. *bregma*, fore-part of head) ब्रेग्मा; फ्रन्टल-पेराइटल सन्धि स्थल; कपाल का वह स्थान जहाँ फ्रन्टल और पेराइटल अस्थि मिली होती है ।
 brephic—(Gk. *brephikos*, childish) शैशवावस्था; प्रप्रीढावस्था; प्रप्रीढार्भक स्थिति ।
 brevicandate—(1. *brevis*, short; *cauda*, tail) लघुपुच्छी ।
 hrenifoliate—(L. *brevis*, short; *folium* leaf) लघुपर्णी ।
 brevilingual—लघु जिह्वी ।
 breviped—(1. *brevis*, short; *pes*, foot) लघुपादी ।
 brevipennate—(1. *brevis*, short; *penna*; feather) लघुपक्षी ।
 brevirostrate—(1. *brevis*, short; *rostrum*, beak) लघु चंचुक ।
 brevissimus oculi—नेत्रीय ऊनतम पेशी; नेत्रकी वक्र (obliquus) अधोदेशीय (inferior) पेशी ।
 bridge corpuscle—बन्धकण ।
 bristle—शूक; कच ।
 broca's area—(p. p. *broca*, french surgeon) ब्रोका-क्षेत्र; मस्तिष्क का उपघ्राणी (parolfactory) क्षेत्र ।
 broca's gyrus—ब्रोका-धुमेड़; वायाँ अधोदेशीय ललाटीय धुमेड़ ।
 brochidodromous—(Gk. *brochos*, loop; *dromos*, to run) फिन्चगिरी पंख ।
 bronchonema—(Gk. *brochos*, loop; *nema*, thread) काचित सूत्र; बनने वाले गुण सूत्रों (क्रोमोनोम) की स्रष्टा के समान चक्रों वाले शूलव (spireme) ।

brōmatium—(Gk. *broma*, food) अदनक; कवक स्फीति; कवक शोथ; कवक (फंगस) पर चीटियों द्वारा निर्मित शोथ या स्फीति (swelling) जिसका प्रयोग खाद्य की तरह होता है ।
 bronchia—(Gk. *brongchos*, windpipe) ब्रोंक्रिया; उपश्वसनी ।
 bronchial—(Gk. *brongchos*, windpipe) श्वास नलिका—; श्वास नलिका सम्बन्धी ।
 bronchiole—(Gk. *brongchos*, windpipe) श्वासोप-नलिका; श्वसनिका ।
 bronchus (sing), bronchi (pl)—(Gk. *brongchos*, windpipe) ब्रॉन्कस; श्वसनी; कण्ठ नाल (ट्राँक्रिया) और फुफ्फुस (lungs) को जोड़ने वाली नलिका ।
 bronchopulmonary—(Gk. *brongchos*, windpipe; L. *pulmo*, lung) श्वसनी-फुफ्फुसीय; श्वसनी (bronchus) और फुफ्फुस (lungs) सम्बन्धी ।
 bronchotracheal—(Gk. *brongchos*, windpipe; L. *trachea*, tr.chea) श्वसनीनाल; श्वसनी कण्ठनालीय; श्वसनी (bronchus) और कण्ठनाल (trachea) सम्बन्धी ।
 bronchovesicular—(Gk. *brongchos*, windpipe; L. *vesicula*, little sac) श्वसनी-फुफ्फुसकोपकीय; श्वसनी कोपकीय; श्वसनी नलिका तथा फुफ्फुस कोपकाओं सम्बन्धी ।
 brood—अंडकक्ष; ब्रूड ।
 brood bud—ब्रूड कोरक; सोरेडियम (soredium); पत्र प्रकलिका (bulbil) ।
 brood pouch—भ्रूण घानी; भ्रूण कोष्ठ ।
 brow—भ्रू; भ्रौंह; भ्रौं ।
 brow spot—ललाट-स्थल ।
 brown body—ब्राउन पिण्ड ।
 (१) किन्ही पोलीजीवा (polyzoa) जन्तुओं के अप-कर्व अंग जो भूरे रंग का निविड (compacted) पिण्ड होता है ।

(२) एसोडियन (ascidian) जन्तुओं की उत्सर्ग कोशिका (nephrocyte) ।

brown funnels—ब्राउन कीपें; एम्पीओक्सिस के पश्च छोर के पृष्ठ तल पर स्थिति एक युग्म कीपाकृतिक अंग विशेष ।

Brownian movements—(R. Brown, scottish botanist) ब्राउनीगति ।

Bruch's membrane—(C. W. L. Bruch; German anatomist) ब्रुक की झिल्ली; कोराइड (choroid) का अन्तः स्तर ।

Brunner's glands—(J. C. Brunner-Swiss anatomist) ब्रूनेर की ग्रन्थियाँ; छुद्रांत्र की भित्ति में पाई जाने वाली ग्रन्थि विशेष ।

bryology—(Gk. *bryon*, moss; *logos*, discourse) ब्रायोफाइटा-विज्ञान; शैवल (mosses) विज्ञान ।
(देखिये Mesology)

bryophyte—(Gk. *bryon*, moss; *phyton*, plant) ब्रायोफाइट; माँस या लिवरवर्ट वंशीय पौधे; शैवल (पादप या पौधे); ।

bryozoon—(Gk. *bryon*, moss; *zoon*, animal) शैवल जन्तु ।

buccal—(L. *bucca*, cheek) मुख-; मौखिक; कपोल- ।

buccal cavity—मुख-गुहिका; मुख विवर ।

buccinator—(L. *buccinia*, trumpet) कपोल पेशी; वकसीनेटर ।

buccolabial—(L. *bucca*, cheek; *labium*, lip) मुखगुहिका ओपठीय; मुख-गुहिका (buccal cavity) और ओष्ठ (lip) सम्बन्धी ।

buccolingual—(L. *bucca*, cheek; *lingua*, tongue) कपोल जिह्वी; मुख गुहिका-जिह्वी ।

buccopharyngeal—(L. *bucca*, cheek; Gk. *pharynx*, throat) कपोल-कण्ठीय ।

bud—(M. E. *budde*, bud) कली; कलिका ।

budding—(M. E. *budde*, bud) मुकुलन; कलिकोत्पादन ।

buffer—(O. F. *buffe*, blow) वफर; प्रतिरोधक; आघात अंजक; मोधीकारक । (१) ऐसा लवण घोल जो PH के परिवर्तन को कम से कम होने देता है जबकि अम्ल या क्षार उसमें मिलाया जाता है । (२) ऐसे जीनस (genes) जो युग्म विकल्पी (allelomorph) के क्रिया कलापों का नियंत्रण करते हैं अर्थात् बहुपरम्पराकण (polygene) ।

bufotoxins—(L. *bufo*, toad; Gk. *toxikon*, poison) टोड विष; वधूपटोक्सिन, $C_{34}H_{46}O_{10}$; और व्यूफोनिन $C_{34}H_{54}O_2$ ।

bulb—(L. *bulbus*, globular root) शल्क; कन्द; मस्तिष्कान्त । (medulla oblongata) ।

bulbar—(L. *bulbus*, globular root) कन्दकीय; बल्बी; मेडुला ओब्लोंगेटा सम्बन्धी; मस्तिष्कान्त सम्बन्धी ।

bulbiferous—(L. *bullus*, bulb; *ferre*, to carry) बल्वधारी; कन्दधारी ।

bulbil—(L. *bulbus*, bulb) वायवीकन्द; पत्र-प्रकलिका ।

bulbonuclear—(L. *bullus*, bulb; *nucleus*, kernel) मस्तिष्कान्त-केन्द्री । मेडुला ओब्लोंगेटा और केन्द्रीय तंत्रिकाओं के न्यूलियस से सम्बन्धित ।

bulbo-urethral—(L. *bulbus*, bulb; Gk. *ourethra*, urethra) कन्द मूत्रमार्गी; नर में कारूपर ग्रन्थि तथा नादा में वार्योलिन ग्रन्थियाँ जो मूत्रमार्ग के कन्दकी स्थल पर खुलती हैं ।

bulbous—(L. *bulus*, bulb) कन्दीय; कन्दोपम ।

bulbus—(L. *bulbus*, bulb) कन्द ।

bullae—(L. *bullae*, bubble) बुल्ला; कान की अस्थियों की बनी एक मोटी गाँठ ।

bullate—(L. *bullae*, bubble) बुलोपम; फलोल युक्त आकृति ।

bulliform—(L. *bullae*, bubble; *forma*, shape) फलोलैनुमा ।

bundle-sheath—बन्धलेपिधान; संघातच्छद; पर्ण शिरा (leaf vein) को घेरे हुए दीर्घ कोशिकाओं का स्तर ।

hunodont—(Gk. *hounos*, mound; *odous*, tooth) व्यूनोदन्त; शंकुकस्पी; नीची शंकवाकार (conical) शिखर या कस्प (cusp) वाले चर्वक दन्तधारी ।

hunolophodont—(Gk. *hounos*, mound; *lophos*, crest; *odous*, tooth) शंकु कस्प-मेड़ शिरस्क दन्ती ।

bursa—(L. *bursa*, purse) पुटी; पुट ।

bursa copulatrix—जनन-पुट ।

bursa entiana—अंत्र पुट ।

bursa fabricii—फ़ब्रिसी पुट

bursicule—(L. *dim*, of; *bursa*, purse) पुटिका ।

buttress roots—आश्रयी जड़े; वह जमीन से ऊपर निकलने वाली जड़ों की शाखाएँ जो तने से वृत्तखण्डी

होकर मिट्टी में घुसकर आश्रयी जड़ों का कार्य करती हैं ।

butyrynase—(L. *butyrum*, butter) बुटीरीनेज; रक्त सीरम में पाया जाने वाला एक एन्जाइम ।

buttocks—श्रोणी; चूतड़ ।

byssal—(Gk. *byssos*, fine flax) शर्णीय; शण—।

byssogenous—(Gk. *bysoos*, fine flax; *genos*, birth) शणोत्पादक ।

byssoid—(Gk. *bysoos*, fine flax; *eidos*, shape) शणोपम ।

byssus—(Gk. *bysoos*, fine flax) बाइसस; सूत्र गुच्छ; किन्हीं द्विकपाटियों या उनके डिम्बकों में पाये जाने वाले लम्बे मजबूत सूत्रों का गुच्छा (शण गुच्छ), जिससे वे चिपके रहते हैं ।

Cacogenesis—(Gk. *kakos*, bad; *genesis*, descent) संकरकरण या संकरीकरण (hybridization) होने में असमर्थ; संकराक्षमता ।

cacogenic = dysgenic—(Gk. *kakos*, bad; *genos*, birth) कुलहासक; कुलापकर्षक; कुल की अवनति करने वाला ।

cadophore—(Gk. *kados*, urn; *pherein*, bear) मुकुलघर; कलिकाधारी; कुछ आच्छादी (tunicate) जन्तुओं में पाया जाने वाला एक पृष्ठस्थ (dorsal) प्रवर्धन (process) जिस पर कलिकाएँ लगी होती हैं ।

caducibranchiate—(L. *caducus*, falling; Gk. *branchia*, gills) अस्थायी गिलधारी ।

caducous—(L. *caducus*, falling) आशुपाती; आशु पतनक; नियतति; पत्या; पौधों के ऐसे भाग जैसे कैलिकस जो बहुत आकालिक (पतन) गिर जाते हैं ।

[देखिये *deciduous*—पतनशील; पतनिका; *fugacious*—आशुपाती]

caecal—(L. *caecus*, blind) अन्धनाल; सीकम; सीकम सम्बन्धी; सीकम—; अन्धनलिका सम्बन्धी ।

caecum—(L. *caecus*, blind) अन्धनाल; सीकम; अन्धनलिका; अन्धनली; अन्नप्रणाली (alimentary canal) के भाग में प्रस्तुत ऐसी नलिका जो दूसरी ओर बन्द हो ।

caecum cupularé—अन्धनली का बन्द शिखस्थ भाग ।

caenogaea—(Gk. *kainos*, recent; *gaia*, earth) केनोजिया; सीनोजिया; नवभूमि; एक जन्तु भौगोलिक विभाग (zoogeographical division) जिसमें नव-शीत (nearetic), पुरा-शीत (palearctic) और पौरव (oriental) प्रदेश सम्मिलित हैं ।

caenogenesis—(Gk. *kainos*, recent; *genesis* descent) नवोत्पत्ति अ विकास प्रक्रिया; किसी व्यक्ति (individual) के परिवर्धन (development) में पाई जाने वाली वे प्रक्रियाएँ (processes), जिनका सम्बन्ध जाति-विकास (phylogeny) से नहीं है ।

caenogenetic—(Gk. *kainos*, recent; *genesis*, descent) नवोत्पत्ति; उत्तरकालीन; अविकासात्मक ।

caenozoic—(Gk. *kainos*, recent; *zoe*, life) सीनोजोइक; नवयुग; नवजन्तुयुग ।

caespitose—(L. *caespes*, turf) सतृणक; शाद्वली; दमिल ।

caisson—(F. *caisson*, coffer) पिटिकोपम; लम्बी-सिडी (lumbricidae) में अनुदूर्ध्य पेशी सूत्रों का पिटिका सदृश विन्यास ।

cainozea—(Gk. *kainos*, recent; *gaia*, earth) केनोजिया; सीनोजिया; नवभूमि । (देखिये *caenogaea*)

calamistrum—(L. *calamistrum*, curling iron) ककतिना; कुछ मड़ियों (spiders) की पिछली टाँगों पर पाई जाने वाली एक कधी (कंकति) के आकार की रचना ।

calamus—(L. *calamus*, reed) कैलैमस; पक्षनाल; पिछनाल; पंख का खोखला डंठल ।

calcaneus—(L. *calx*, heel) कैलकेनियस; ऐड़ी ।

calcar—(1. *calcar*, spur) कैल्कैर; (१) पक्षियों की टाँगों या पंखों पर नखोपम (spurlike) प्रवर्धन । (२) कीटों (insects) में टिबिया (tibia) का कूट (spine) । (३) चिमगादड़ों (bats) में कैलकेनियस (calcaneus) का प्रवर्धन जो टाँग और दुम के बीच में जालपाद (web) को साधे रहता है । (४) मेंढक (frog) में अग्रगुण्ड (prehallux) ।

calcarate—(L. *calcar*, spur) कैलकरयुवत; प्रचोदनी ।

calcareus—(L. *calcaris*, limy) कैल्सियम मय; कैल्सियमी; चूनेदार ।

calcariform—(L. *calcar*, spur; *forma*, shape) कंटकाकार; कंटकोपम ।

calcarine—(L. *calcar*, spur) कैल्केरिन; (१) प्रचोदनी; (२) कैल्केरिन दरार ।

callicole—(L. *calx*, lime; *colere*, to dwell) कैल्सियमवासी; खरिक्वासी ।

calciferol

calciferol—विटामिन डी₂; C₂₈H₄₄O; कैल्सीफीरोल; एन्टीरिकेटिक विटामिन ।

calciferous—(L. *calcarius*, limy; *ferre*, or *ferere*, to carry) खरिकधारी ।

calcification—(L. *calx*, limy; *facere*, to make) कैल्सीकरण; कैल्सीभवन; खरिकोत्पादन; खरिक संचय ।
ऊतकों (tissues) में चूने (खरिक-lime) या उसके योजकों (compounds) का उत्पादन या संचय ।

calcified—(L. *calx*, limy) कैल्सीभूत; खरिक-संचित; खरिकमय ।

calcifuge—(L. *calx*, lime; *fugere*, to flee) खरिकपलायनी; कैल्सीभोरु; ऐसे पौधे जो केवल ऐसी मिट्टी में पनपते हैं जिसमें कैल्सियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है ।

calcipete—(L. *calx*, lime; *petere*, to go towards) कैल्सीप्रेमी; खरिकरागी ।

calcivorous—(L. *calx*, lime; *vorare*, to devour) कैल्सीभोजी, खरिक भोजी; ऐसे पौधे जो चूना कंकर (lime stone) पर होते हैं ।

calcospherites—(L. *calx*, lime; *sphaera*, globe) खरिक कण युक्त; चूना कणी । (१) कुछ कीटों की संक्षिप्त नमिदाओं में कैल्सियम कार्बोनेट के कणों का होना । (२) डिप्टरा (द्विपक्षकों) के डिभकों की बसा कोशिकाओं में खरिक कणों का होना ।

calf—(of leg) पिटली ।

calicle=calycle—कैलिसिल; पात्रिका ।

callose—(L. *callum*, hard skin) कैलोस; कैल्सी; टेढ़ नुान

callosity—(L. *callositas*, hardness) टेढ़; चर्म-काठिन्य ।

calton—(A. S. *calu*, bald) नव-अण्डोगमन चींटी; बालन; एक नवीन अण्डोगमन उद्योगी चींटी ।

callus—(L. *callum*, hard skin) कैलस; टेढ़; (१) कीटों (insects) में मध्यपृष्ठका जोय (२) कर्कर

(shell) की नाभि (unbilicus) में कठोर पदार्थ का जमाव ।

caloricity—(L. *calere*, to be warm) ऊष्णता क्षमता; ऊष्णता शक्ति; जन्तुओं में कुछ मात्रा ऊष्णता की उत्पन्न तथा भरण करने की क्षमता (शक्ति) ।

calorie—(L. *calere*, to be warm) कैलोरी; ऊष्णता (heat) की माप की इकाई । वह ऊष्णता की मात्रा जो १ ग्राम पानी के वजन के ताप को १° सेण्टीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है सामान्य कैलोरी मानी जाती है । १००० छोटी कैलोरी (small calorie) मिलकर एक बड़ी कैलोरी (large calorie) बनाती है ।

calorigenic—(L. *calor*, heat; *genere*, to beget) ऊष्णोत्पादक ।

calotte—(F. *calotte*, skull cap) शिरस्त्राण; (१) सिर्फलोपोडा (cephalopoda) की वृक्क से चिपकने वाली एक बाह्य कोशिकाओं का समूह । (२) ब्रायो-जोआ (bryozoa) डिभकों में संकुचनशील संवेदीय सिलिया युक्त विम्ब ।

caltrop—(A. S. *coltraeppe*, thistle) कालट्रोप; समचतुर्भरतीय स्पीवयूल; स्पंज का चार किरणीय स्पी-क्यूल जिसकी तीन किरण स्थल पर लगी हों तथा चौथी किरण ऊपर की ओर प्रतिक्षेपित होती हो ।

calvarium—(L. *calvus*, bald) कपाल गुम्बज; खोपड़ी का गुम्बद (dome of the skull) ।

calycanthy—(Gk. *kalyx*, calyx; *authemon*, flower) कैलिकस अधिवर्धन; पुष्प की कैलिकस (बाह्य-दलपुंज) के भागों का पंखुड़ी (petals) में असमाग्य वर्धन ।

calyciflorous—(L. *calyx*, calyx; *flos*, flower) कैल्सीफ्लोरस; ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर (stamens) और पंखुड़ी (petals) कैलिकस (calyx) से संलग्न (adnate) होते हैं ।

calyciform—(L. *calyx*, calyx; *forma*, shape) कैलिकसोपम; चणकल्प; प्यालेनुमा ।

calycine—(L. *calyx*, calyx) कैलिवसी; बाह्यदल सम्बन्धी ।

calycle—(L. *calyculus*, little calyx) पात्रिका ।

calyculus—(L. *calyculus*, little calyx) कौरक ।

calyculus gasteratorias—रसज-कौरक ।

calyculus ophthalmicus—नेत्र कौरक ।

calypter—(Gk. *kalyptos*, hidden) कैलिपटर; अधिवेष्ट; किन्हीं द्विपक्षक (diptera) में परिवर्तित पक्षिका (alula) जो समतोलक (halter) को ढके हुए होता है ।

calyptoblastic—(Gk. *kalyptos*, hidden; *blastos*, bud) गुप्त-मुकुली; उन जन्तु-मुकुलों (zooids या hydroids) से सम्बन्ध रखने वाली, जिसमें उत्पादक-मुकुल (gonophore) एक आवरण-उत्पादक कोष (gonotheca) के अन्दर स्थित होते हैं ।

calyptobranchiate—(Gk. *kalyptos*, hidden; *branchia*, gills) गुप्त-गिलधारी; जिसमें बाहर से न दीखने वाले गिल (gills) हों ।

calyptopsis—(Gk. *kalyptos*, hidden; *opsis*, sight) गुप्त-चक्षुक ।

calyptra—(Gk. *kalyptra*, covering) शिरस्वेष्ट; कैलिपट्रा; माँस (moss) सम्पुट (capsule) के शिखर को घेरे हुए स्त्रीघानी (archegonium) के टोपीनुमा अवशेष ।

calyptrate—(Gk. *kalyptra*, covering) कैलिप्ट्रेट; छदी; गोपकी । (१) ऐसे द्विपक्षक (Diptera) जिनमें समतोलक (halteres) शल्कों (squamae) से छिपे होते हैं । (२) आशुपाती (caducous) कैलिवस जो निम्न भाग अथवा पुष्पासन (thalamus) से पृथक होती हैं ।

calyptrogen—(Gk. *kalyptra*, covering; *genesis*, descent) सूर्धा कोशिकास्तर ।

calyptron—(Gk. *kalyptra*, covering) अधिवेष्टी ।

calyx—(Gk. *kalyx*, calyx) कैलिवस ।

(१) बाह्यदल पुंज (पुष्पों का) ।

(२) वृक्क (kidney) की वस्ति (pelvis) का प्यालेनुमा भाग ।

(३) किन्हीं हाइड्रोरोइड (hydroid) या हाइड्रक का खोल (theca) ।

(४) क्रिरीनोइड (crinoid) की प्यालेनुमा काय body) ।

(५) कीटों (insects) में वृन्ती पिण्डों (pedunculate) का शीर्ष (head) या चपक (cup) ।

cambiform—(L. *cambium*, change; *forma*, shape) कैम्बियम कोशिका सदृश; एधोपम ।

cambiogenetic—(L. *cambium*, change; Gk. *genesis* origin) कैम्बियम उत्पादी; ऐसी कोशिकायें जो कैम्बियम उत्पन्न करती हैं ।

cambium—(L. *cambium*, change) गौणवर्धज; गौण वर्धी ऊतक जिससे तने और जड़ में गौण वृद्धि (secondary growth) होती है ।

cambrian—(L. *cambria*, wales) कैम्ब्रियन. कैम्ब्रिय; पुरायुग (paleozoic) का आदि (earliest) काल (period) ।

cameration—(L. *cameratio*, vaulting) वेष्म विभाजित ।

camerostome—(L. *camera*, chamber; Gk. *stoma*, mouth) कैमरोस्टोम; छत्रमुख; किन्हीं ट्रोगुलिडी (trogludidae) के छत्र (hood) के नीचे का खातीय (hollowed) तल ।

campaniform—(L. *campana*, bell; *forma*, shape) गुम्बदोपम; गुम्बजोपम ।

campanulate—(L. *campana*, bell) क्रिनिपी रूपक; घटाकार; यह शब्द अधिकतर दलपुंज (corolla) के लिये उपयुक्त होता है ।

campodeiform—(Gk. *kampe*, caterpillar; *eidos*, form; L. *forma*, shape) कम्पोडिया-सदृश (डिम्ब-लारवा) ।

campodria—कम्पोडिया; एक प्रकार का कीट (insect) ।

camptodrome—(Gk. *kamptos*, flexible; *dromos*,

course) वक्रकोर शिरा विन्यास, जिसमें गीण शिरायें आगे की ओर झुककर किनारे या कोर तक पहुंचने से पहिले आपस में मिल जाती हैं।

campylosperruous—(Gk. *kampylos*, curved; *sperma*, seed) लीकी बीज; खात युक्त बीज।

campylotropous—(Gk. *kampylos*, curved; *trope*, turning) वक्रलव डिम्ब; ऐसे डिम्ब जिनका भ्रूण कोष वक्र होता है।

canal—(L. *canalis*, canal) कुल्या; नहर; विशाखा। नाल; नली; नलिका।

canalicular—(L. *canaliculus*, small channel) नलिकामय।

canalicular apparatus—नलिकामय यंत्र।

canaliculus—(L. *canaliculus*, small channel) नलिका; नलिका।

canaliform—(L. *canalis*, canal; *forma*, shape) नलिका सदृश।

canal system—नाल-तंत्र; नलिका-तंत्र।

cancellous—(L. *cancellus*, chambered) स्पंजो-पम; पतले श्रेण व पतों से बना हुआ, जिनके जुड़ने से जालवत् रचना बन जाती है।

cancerisocial—(L. *cancer*, crab; *socius*, ally) क्रेव (crab) सहभोजी; श्रेण जन्तु के साथ सहभोजी (commensal)।

canine—(L. *canis*, dog) रदनक (दाँत); धून दन्त; भेदक; रंदाक दन्त; कीला।

canon bone—कॅनन अस्थि।

(१) टारसोमेटा टारसस (पक्षियों में)।

(२) अथयवास्यि। हथेली अथवा पाँव के तलुये की हड्डियों में बड़ी हुई तथा आपस में मिली हुई।

cantharidin—(*cantharidae*, blister beetles, form Gk. *kentharos*) कॅन्थेरीडिन; $C_{10}H_{12}O_4$; फफोला मृग (blister beetle) के जनन पथ में स्थिति सहायी द्रवियों का विष।

canthus—(Gk. *kanthos* cor. of eye) चक्षत्रोण।

cannibalism—स्वजाति भक्षण; स्वजाति भक्षता।

cannibalistic—स्वजाति भक्षी।

capacity—धारण शक्ति।

capillary—(L. *capillus*, hair) केपिलरी; केशिका; बाल समान महीन नलिका; अत्यन्त सूक्ष्म पतली दीवारों वाली नलिकायें, जैसे रधिर केशिकायें या पित केशिकायें।

capillary system—(L. *capillus*, hair) केशिका तंत्र।

capillitium—(L. *capillus*, hair) प्रदव्य जाल; तंतु-जाल। किन्हीं फुंगी (*fungi*) में बीजाणुधानी (स्पोरें-जिया) में प्रोटोप्लाज्म के सूक्ष्म तन्तु स्पोरों (*spores*) को अंतः स्थापित (*embedding*) किये होते हैं।

capitate—(L. *caput*, head) समुन्द्र; उपाण्ड; उपाण्ड-युक्त।

capitatum—(L. *caput*, head) तृतीय कारपल।

capitellum—(L. *caput*, head) उपाण्ड।

capitulum—(L. *caput*, head) केपिटुलम; मुँडिका; मुँडक।

(१) किसी अस्थि जैसे ह्यूमेरस (*humerus*) के सिरे पर स्थिति फूली हुई गाँठ नुमा सूजन।

(२) रोम अथवा टेन्टेकिल (*tentacle*) का फूला हुआ सिरा।

(३) कीट के ऐन्टिना (*antenna*) या शुंड (*proboscis*) का बढ़ा हुआ भाग।

(४) चींचडी (*ticks*) के सिर का भाग।

(५) सी-एनीमोन (*Sea-anemone*) के प्राकार (पॅरापेट—*parapet*) के ऊपर का स्तम्भ (*column*)।

(६) पुष्पक्रम (*inflorescence*) कम्पोजिटी कुल (*compositae* family) के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष चपटा तथा चौड़ा हो जाता है, पुष्पक अपिकेन्ट्री क्रम (*centipetally*) पुराने पुष्पक परिधि की ओर और नये बीच में होते हैं। सम्पूर्ण

पुष्पक्रम एक सहपत्र चक्र (involucre) द्वारा घिरा होता है ।

capreolate—(L. *capreolus*, tendril) प्रतानी ।

capsule—(L. *capsula*, little box) कॅप्सूल; सम्पुटिका; संपुट; कुहर; पात्र ।

capsuliferous—(L. *capsula*, little box; *ferre*, to carry) कुहरधारी ।

captacula—(L. *captare*, to lie in wait for) तंतुकार स्पर्शाग । स्कॅफोपोडा (Caphropoda) जन्तुओं के मुँह के पास स्थिति तंतुकार (filamentous) स्पर्शांग ।

caput—(L. *caput*; head) सिर; शिखरस्थ शोफी; उपांड ।

caput epididymis—शिखरोपांड ।

carapace—(sp. *carapacho*, covering) पृष्ठवर्म; कैरापेस; पृष्ठावरण; कुछ जन्तुओं में पीठ को पूरी या अधूरी तौर पर ढकने वाला कार्डिन या अस्थिमय आवरण ।

carbohydrate—(L. *carbo*, coal; Gk. *hydor*, water) कार्बोहाइड्रेट; कार्बोज, कार्बन, हाइड्रोजन व आक्सीजन का योगिक (compound) ।

carbon—कार्बन ।

carbon dioxid—(L. *carbo*, coal; *di*, two; Gk. *oxys*, sharp) कार्बनडाईऑक्साइड; कार्बन द्विअणु; CO_2 ; कार्बोनिक अम्ल गैस; वायुमण्डल में उपस्थिति भारी रंगहीन गैस जो पौधों द्वारा अपनाई (स्वांगीकरण) जाती है तथा जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती है ।

carboniferous—(L. *carbo*, coal; *ferre*, to carry) कार्बनी; कार्बनीय; कार्बनमय; कार्बनीफेरस ।

carcerule—(L. *carcer*, prison) कार्सेरूल; बहुकोशिकीय फल । यह फल द्वि-अणुपी जापांग से उत्पन्न होता है, तथा बहुबीजी भिदुर (schizocarpic) फल

होता है । जैसे तुलसी या हॉलीहाक (Althea) के फल ।

carcinology—(Gk. *karkinos*, crab; *logos*, discourse) कर्स्टेसिया विज्ञान; कर्कट वर्ग विज्ञान ।

cardia—(L. *cardiacus*, pert, stomach) कार्डिया; जठरागम; निगलक-आमाशय विवृति; निगलक (oesophagous) और आमाशय (stomach) के बीच की विवृति (opening) ।

cardiac—(Gk. *kardia*, heart) हृदयी; जठरागमी; (१) हृदय सम्बन्धी । (२) आमाशय का अग्रभाग ।

cardioblast—(Gk. *kardia*, heart; *blastos*, bud) हृदयज; एक भ्रूण कोशिका जो हृदय की भित्ति बनाती है ।

cardiac cycle—हृदयी चक्र; हृत्चक्र ।

cardiac impulse—हृदुत्तेजना ।

cardinal—(L. *cardo*, hinge) हिन्ज; कर्जा; सन्धि-विष्यक; चूलक ।

cardo—(R. *cardo*, hinge) [कर्पर-] सन्धि; कार्डो; कीटों में मँविसला की आधार पट्टिका ।

carina—(L. *carina*, keel) नौतल; कूट; कील; ऊँची, फलक सदृश मेड़; जैसी पक्षियों की वक्षास्थि-स्टर्नम पर पाई जाती है ।

carinal—(L. *carina*, keel) करीनल; कील सम्बन्धी; फलक मेड़ सम्बन्धी; पौधों में जाइलम (xylem) का मध्य उत्कूल (strand) जो तने से पत्ती तक होता है ।

carinate—(L. *carina*, keel) कूटकी; नौतली; कील-युक्त ।

cariniform—(L. *carina*, keel) नौतल-रूप; कील-सदृश ।

carnassial—(L. *caro*, flesh) दारक दंत; मांस-कर्तक । मांसाहारी जन्तुओं के काटने वाले दाँत—चौथा अग्र चर्वक (premolar) ऊपर का और पहला चर्वक (molar) नीचे का ।

carnivora—कानिवोरा (मांसाहारी गण); मांस भुज वर्ग ।

- carnivorous**—(L. *caro*, flesh; *vorare*, to devour) मांसाहारी; मांसभक्षी; मांस भक्षक ।
- carotenase**—(L. *carota*, carrot) कैरोटिनेज; यकृत का एक एन्जाइम जो कैरोटीन्स (carotenes) से विटामिन "ए" के निर्माण को प्रोत्साहित करता है ।
- carotene**—(L. *carota*, carrot) पर्णपीतक; कैरोटीन; एक प्रकार का रंग ।
- carotenoids**—(L. *carota*, carrot; Gk. *eidōs*, form) पर्णपीतकी; कुछ पौधों तथा कुछ जन्तु अंतकों में कैरोटीन, खैन्थोफिल्लस (xanthophylls) तथा अन्य बसा घुलनशील वर्णों का होना ।
- carotid**—(Gk. *karos*, heavy sleep) ग्रीवा—; शिरस्क— ।
- carotin**=**carotene**—कैरोटीन; पर्णपीतक ।
- carpal**—(L. *carpus*, wrist) मणि वंधिका । कार्पल । कलाई की एक हड्डी ।
- carpel**—(Gk. *karpos*, fruit) गुरु बीजाणुपर्ण; अण्डप बीजाणु-पर्ण (sporophyll) जो गुरु बीजाणुधानी (megasporangia) युक्त होते हैं ।
- carpocerate**—(L. *carpus*, wrist; Gk. *keras*, horn) कार्पोसिराइड; कुछ कैंकडावंशी (crustacea) के स्पर्शक (antenna) का पाँचवाँ जोड़ ।
- carpogenous**—(Gk. *karpos*, fruit; *genos*, birth) फलजन; लालशैवाल (algae) की वे कोशिकायें जो जनन मातृ कोशिका (carpogonium) का निर्माण करती हैं ।
- carpogonium**—(Gk. *karpos*, fruit; *genos*, birth) फल जननक; (१) लाल शैवाल में युग्मक धानी (gametangium); (२) थैलोफाइटा (thallophyta) अर्थात् फंजाई में जायाधानी (procarp) का निम्न भाग जिसमें मादा न्यूक्लियस होता है ।
- carpolith**—(Gk. *karpos*, fruit; *lithos*, stone) फलाषम ।
- carpology**—(Gk. *karpos*, fruit; *lojos*, discussion) फल विज्ञान ।

- carpometacarpus**—(L. *carpus*, wrist; Gk. *meta*, after) मणिवन्ध करभिका ।
- carpophagous**—(Gk. *karpos*, fruit; *phagein*, to eat) फलाहारी; फलभोगी ।
- carpophore**—(Gk. *karpos*, fruit; *pherein*, to bear) अण्डपधारी; फलधर; पुष्पाक्ष (flower axis) का वह भाग जिस पर अण्डप (carpels) लगी होती हैं ।
- carpophyte**—(Gk. *karpos*, fruit; *phyton*, plant) फलपादप; फंजाई (थैलोफाइट) जो बीजाणु-फलिका (sporocarp) बनाते हैं ।
- carpopodite**—(L. *carpus*, wrist; Gk. *pous*, foot) कारपोपोडाइट; (?) कुछ क्रस्टेसिया (कैंकडा-वंशी) के अन्तः पादखण्ड (endopodite) का तृतीय जोड़ (joint) । (२) मकड़ियों (spiders) की जान्वास्थि-पटेला (patella) ।
- carposperm**—(Gk. *karpos*, fruit; *sperma*, seed) फलबीजाणु; कार्पोस्पोर ।
- carposporangium**—(Gk. *karpos*, fruit; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) फलबीजाणुधानी; निषिक्त फलजननक (carpogonium) से वर्धित अन्तस्थ कोशिकायें ।
- carpospore**—(Gk. *karpos*, fruit; *sporos*, seed) फलबीजाणु; फल स्पोर ।
- carposporophyte**—(Gk. *karpos*, fruit; *spors*, seed; *phyton*, plant) कार्पोस्पोरोफाइड; लाल शैवाल (red algae) की युग्मसूत्री (diploid) संतति (generation) ।
- carpus**—(L. *corpus*, wrist) मणिवन्ध ।
- carrier**—वाहक ।
- cartilage**—(L. *cartilago*, cartilage) उपास्थि ।
- caruncle**—(L. *caruncula*, small piece of flesh) चंचुशृंग; कैरंकल; अस्त्रिय शंकु (caruncula lacrimalis); पक्षीयों तथा कुछ कैंटरपिलर के सिर पर मांसल गाँठ; कुछ किल्ली (mites) में टारसी (tarci) पर

चूपक विम्ब; बीज के खोल (testa) की एक अभिवृद्धि ।

caryolite—(Gk. *karyon*, nut; *lytikos*, loosening) कॅरियोलाइट; पेशीहृस्व; कीटों (insects) के वर्धन में ऐसा न्यूत्रिलयस युक्त पेशी टुक जिसका कि भक्षक कोशिका (phagocyte) से ह्रास हो रहा हो ।

caryopsis—(Gk. *karyon*, nut; *opsis*, appearance) कॅरिऑप्सिस; ग्रामिनी कुल (gramineae family) के एक बीजी फल; ये सुपीरियर, एकाण्डपी (monocarpellary) होते हैं तथा इनमें बाह्य फल-भित्ति (pericarp) तथा बीज चोल (testa) दोनों मिले होते हैं, जैसे गेहूँ, धान, मक्का, जौ आदि ।

casein—(L. *caseus*, cheese) कॅसीन (दूध की) ।

casings (covering)—मुख्य प्रोटीन आवेष्टन (covering) ।

cassideous—(L. *casis*, helmet) शिरस्त्राणवत ।

caste—प्रजाति; कीटों के दलों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्ति । जैसे मक्षिका (bee) में रानी (queen) जो जननक्षम (fertile) मादायें होती हैं, उद्योगी (workers) जो बंध्य (sterile) मादायें होती हैं तथा नर (drones) । चींटियों (ants) में कई प्रकार के उद्योगी जो सब के सब बंध्य मादायें होती हैं । दीमकों (termites) में प्रजातियों (castes) की भिन्नता लिंग का आधार लिये नहीं होती है जिस प्रकार मक्षिकाओं (bees) और चींटियों (ants) में । दीमकों (termites) में कीट सैनिक (soldiers) बध्य नर या मादा होते हैं ।

[देखिये polymorphism बहुरूपता]

castrate—(L. *castrare*, to castrate) नपुंसकता; अख्त या बधिया करना; अंडकोशों (शुक्र-ग्रन्थियों) से रहित करना ।

catabolism—अपचय ।

catalyst—उत्प्रेरक ।

catadromous—(Gk. *kata*, down; *dromein*, to run) समुद्रोपगामी; यह शब्द उन नछलियों के लिए प्रयुक्त होता है जो प्रति वर्ष असामुद्रिक जल से समुद्र की ओर पर्यटन (migration) करती हैं ।

(देखिये विलोम anadromous)

catalase—कॅटलेस; क्षोभक (enzyme) विशेष जन्तुओं और वनस्पतियों के ऊतकों में पाया जाने वाला क्षोभक (enzyme) जिसके प्रभाव से हाइड्रोजन पॅरोक्साइड (hydrogen peroxide) का विघटन पानी और आक्सीजन में हो जाता है ।

catalepsis—(Gk. *ketalepsis*, seizure) आघात-मृत्यु; मृतच्छन्नता; जैसे कुछ मकड़ियों (spiders) में मृत-परानर्तनता प्रदर्शित होना ।

catalysis—(Gk. *katalysis* dissolving) उत्प्रेरकता; किसी प्रतिक्रिया का उत्प्रेरक (catalyst) की उपस्थिति घटना या बढ़ना ।

catalyser—उत्प्रेरक ।

cataphoresis—(Gk. *katapherin*, to carry down) धनकण-संचलन; विद्युत्धारा से कणों का पर्यटन या स्थान परिवर्तन (migration) जैसे जीवित कोशिकाओं में ।

cataphyllary—(Gk. *kata*, down; *phyllen*, leaf) कलिकावण्टन; वह न्यूनित या शुल्क पर्ण जो कलिका (bud) को ढकेलती है ।

catena—(L. *catena*, chain) कॅटीना; मृदापुनरावृत्तता ।

catenation—(L. *catenatus*, chained) शृंखलन; गुणसूत्रों की अनवरत संलग्नता; मातृ और पितृ प्राप्त गुण सूत्रों का एक के बाद लगकर गोला सा बनाना ।

catenoid—(L. *catena*, chain; *eidosis*, form) शृंखलापम; शृंखलाकार; जंजीरनुमा ।

catenular—(L. *catena*, chain) शृंखलायुक्त; शृंखला सहित ।

caterpillar—(L. *cattus*, cat; L. *pilosus*, hairy) इल्ली; कटरपिलर; तितली आदि कीटों (insects) का डिम्बक (लारवा), विशेष कर लेपोडोप्टिरा (lepidoptera—तनुपक्षकों) का ।

cathammal—(Gk. *kathamma*, anything tied) कॅथामल; अन्तः फलक पलेद; कुछ मीलेन्टेटा में वह

प्लेट जो अन्तः फलक (endoderm lamella) बनाती है।

catkin—(A. S. *catkin*, little cat) नतकणिका; कोट किन; शूकी पुष्पक्रम जो एकलिंगी पुष्पों से बनता है। यह स्पाइक (spike) पुष्पक्रम का रूपान्तर होता है। इसमें मुख्य अक्ष पतली तथा कमजोर होती है और इसके चारों ओर अवृत्त तथा एक-लिंगी पुष्प लगे होते हैं जैसे गहनूत; विलो (willow); बर्च (birch) आदि।

catgut—(O. E. *cat*, found also in *guttas*, to pour) ताँत।

cauda—(L. *cauda*, tail) पुच्छांग। किसी अंग (organ) का पुच्छाकार पिछला भाग जैसे cauda equina-आश्वीपम पुच्छांग; cauda epididymis-पुच्छोपांड।

caudad—(L. *cauda*, tail) पूँछ, दुम; पिछली ओर की तरफ (ओर)।

caudal—(L. *cauda*, tail) पुच्छीय; पुच्छ—।

caudate—(L. *cauda*, tail) पुच्छिल; पुच्छी; पुच्छ-युक्त; सपुच्छ।

caudatolenticular—(L. *cauda*, tail; *lens*, lentil) पुच्छ-मसूरोपम रेखित पिण्ड (carpus striatum) से सम्बन्धित)।

caudex—(L. *caudex*, dry stump) स्थाणु; दण्ड; स्तम्भ। काष्ठीय वृक्ष का अक्ष या तना।

caudicle—(Dim. of L. *cauda*, tail) कौडिकिल; ऑर्किड (orchids) का स्तम्भ (stalk)।

caudohaemal—(L. *cauda*, tail; Gk. *haima*, blood) पुच्छ-रक्ततीय; प्रकशेरुक (sclerotome) का पश्च निम्न भाग।

caudineural—(L. *cauda*, tail; Gk. *neuron*, nerve) पुच्छ-तंत्रिकीय; प्रकशेरुक (sclerotome) का पश्च उर्ध्व भाग।

caudostyle—(L. *cauda*, tail; Gk. *stylos*,

columb) अन्त्य-दण्ड; कुछ परजीवी अमीबा में पाई जाने वाली अन्तस्थ (terminal) रचना।

caul—(M. E. *calle*, covering) १—भ्रूणावरण जरायु। २—उदरास्तर भाँज (omentum)।

caulescent—(L. *caulis*, stalk) पर्णधारी तना; दृश्य स्तंभी;।

caulicolous—(L. *caulis*, stalk; *colere*, to inhabit) स्तम्भवासी; ऐसे फन्जाइ (fungi) जो पौधों के तनों पर उगते हैं।

cauliferous—(L. *caulis*, stalk; *ferre*, to bear) स्तम्भाधारी।

cauliflory—(L. *caulis*, stalk, *flos*, flower) स्तम्भपुष्पता।

cauliform—(L. *caulis*, stalk; *forma*, shape) स्तम्भाकार।

cauligenous—(Gk. *kaulos*, stem; *genos*, birth) स्तम्भज।

cauline—(L. *caulis*, stalk) स्तंभिक; तने या स्तम्भ के ऊपरी भाग पर पत्ती का लगा होना अर्थात् द्रव वाहक (vascular) पुलन्दों (bundles) का पत्तियों में न होना।

caulis—(L. *caulis*, stalk) तना; स्तम्भ।

caulocarpous—(Gk. *kaulos*, stem; *karpos*, fruit) स्तम्भफली।

caulome—(Gk. *kaulos*, stem) स्तम्भोम; प्रवृत्त।

cavernicolous—कन्दरावासी।

cavernosus—(L. *cavernosus*, chambered) कोठरी; छिद्रिष्ठ।

cavicornu—(L. *cavus*, hollow; *cornu*, horn) कोटरशृंगी; पोले सींग वाला।

cavity—(L. *cavus*, hollow) कोटर; गुहिका; गुहा।

cavum—(L. *cavus*, hollow) गुहा; गुफा; कोठरी गुहा; वेष्म।

cavum tympani—मध्यकर्णिय गुफा।

cecum—(L. *caecus*, blind) सीकम; अग्धनलिका ।

(देखिये caecum)

cell—(L. *cella*, compartment) कोशिका ।

cell cycle—कोशिका चक्र; किसी कोशिका के जीवन

काल में हुए समस्त परिवर्तन जो उस सूत्री विभाजन (mitosis) जिससे कोशिका का उद्गम होता है से लगाकर उस सूत्री विभाजन तक होते हैं जिससे दुहिता कोशिकायें (daughter cells) बनती हैं। डी एन ए (DNA) की पुनरावृत्ति के आधार पर कोशिका चक्र को जी₁ (G₁), एस (S), जी₂ (G₂) और एम (M) स्थितियों में बाँटा जाता है। सूत्री विभाजन की वह स्थिति जिसमें दुगुण मात्रा डी एन ए (DNA) की उपस्थिति रहती है जी₁ स्थिति कही जाती है और फिर एस (S) स्थिति जो कुछ घण्टों की होती है और इस काल में गुण सूत्रों की पुनरावृत्ति होकर डी एन ए (DNA) की मात्रा दुगुनी हो जाती है। इसके पश्चात् जी₂ स्थिति जिसमें चतुर्गुणित डी एन ए की मात्रा उपस्थिति होती है और अन्त में सम सूत्रण विभाजन स्थिति एम (M) होती है जिसमें कोशिका वटती है। कोशिका विभाजन में कम से कम १० घण्टे का समय लगता है।

cell lineage—कोशिका परम्परा। किसी ऊतक या भाग की भ्रूण (embryo) के किसी विशेष उत्पादन कोशिका (blastomere) से उत्पत्ति।

cell organ—कोशिकांग; कोशिका-अंग।

cell products—कोशिका उत्पाद; कोशिका सृष्टि।

ectoplasmic—बाह्य सत्वक।

endoplasmic—अन्तः सत्वक।

cell sap—कोशिकारस।

cell wall—(L. *cella*, compartment; L. *valum*, a rampart) कोशिकाभित्ति।

cellifugal—(L. *cella*, cell; *fugere*, to flee) कोशिकापगामी; कोशिका से परे जाने वाले।

cellipetal—(L. *cella*, cell; *petere*, to seek) कोशिकापगामी; कोशिका की ओर आने वाले।

cellular—(L. *cellula*, small cell) कोशिकीय; कोशिकायुक्त (मय)।

cellulase—(L. *cellula*, small cell) सेलुलस; वैंकटी-रिया और फन्जाई में पाया जाने वाला एन्जाइम जिससे सेलूलोज (cellulose) का जल अपघटन (hydrolysis) होता है।

cellulose—(L. *cellula*, small cell) सेलुलोस; (C₆ H₁₀ O₅)_x ;

१—पादप कोशिक भित्तियाँ बनाने वाला प्रमुख कःबोहाइड्रेट।

२—ट्यूनीकेट्स (tunicates) जन्तुओं के कवच या चोल में भी पाया जाता है।

cement—(L. *caementum*, mortar) सीमेन्ट; संयोजक। हड्डी से मिलता-जुलता एक रसायनिक पदार्थ जो दाँतों में पाया जाता है। कुछ जन्तुओं में एक प्रकार का स्राव, जो जोड़ने का काम देता है।

cenchrus—(Gk. *kengchros*, millet) पीत-भेंत्र; कुछ जीटों के मध्यवर्ष पर स्थित पीले रंग का भाग।

cenozoic era—तीनोंजीविक महाकल्प; नूतन जीव महाकल्प।

censer mechanism—बीज छितराने की विधि; तेज वायु द्वारा फल से बीजों के छितराने की विधि।

centradenia—(Gk. *kenatron*, centre; *aden*, gland) से-टाडेनिया; निनालधारी (siphonophore) दली जन्तुओं का एक प्रकार।

centipede—कातर; शतपदी; शतपाद; कण्ठजूरा; कांतर।

central—(L. *centrum*, centre) के द्रीय।

central canal—(canalis centralis) केन्द्रीयनली।

central nervous system—केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र।

centric—(L. *centrum*, centre) परिकेन्द्री; चक्रीय।

centrifugal—(L. *centrum*, centre; *fugere* to flee) अपकेन्द्री; केन्द्रोपगामी।

centriole—(L. *centrum*, centre) तारक केन्द्र; केन्द्र बिन्दु ।

centripetal—(L. *centrum*, centre; *petere*, to seek) अभिकेन्द्री; केन्द्रोपगामी ।

centrodesmose or centrodesmus—(Gk. *kentron* centre; *desmos*, bend) केन्द्र बिन्दु (centriole) नयोगी सूत्रिका या सूत्रिका तंत्र (system of fibrils) ।

centrodorsal—(L. *centrum*, centre; *dorsum*, back) केन्द्र पृष्ठीय ।

centrogenous—(Gk. *kentron*, centre; *genos*, descent) केन्द्रीयवर्धी; केन्द्रवर्धीय ।

centrolecithal—(Gk. *kentron*, centre; *lekithos*, yolk) केन्द्रपीतकी; केन्द्रस्य डिम्बान्नी; केन्द्रीय-स्थल डिम्बान्नी ।

centromere—(Gk. *kentron*, centre; *meros*, part) सेन्द्रोमियर; गुणसूत्र बिन्दु ।

centron—(Gk. *kentron*, centre) तंत्रिका-कोशिका . पिण्ड ।

centrophormium—(Gk. *kentron*, centre; *phornis*, small basket) कंडीलिका । गोल डलिया के आकार के नालगी पिण्ड ।

centroplasm—(Gk. *kentron*, centre; *plasma*, mould) सेन्द्रोप्लाज्म; केन्द्रसत्व; केन्द्र विन्यास या तारक परिकेन्द्र (centrosphere) बनाने वाला पदार्थ ।

centroplast—(Gk. *kentron*, centre; *plastos*, formed) केन्द्रपिण्ड; कुछ निम्न जन्तुओं में न्यूक्लियस (nucleus) के बाहर स्थिति गोलाकार पिण्ड जो विषम विभाजन (mitosis) में विभाजन केन्द्र बनता है ।

centrosome—(Gk. *kentron*, centre; *soma*, body) सेन्द्रोसोम; तारक काय; केन्द्र पिण्ड । विषम कोशिका विभाजन (mitosis) में व्यवसाय स्फूर्ति का केन्द्र विशेष, जिसमें केन्द्र बिन्दु (centriole) और आकर्षण मण्डल (attraction sphere) सम्मिलित है ।

centrosphere—(Gk. *kentron*, centre; *sphaira*, ball) तारक परिकेन्द्र; केन्द्र विन्यास; विषम कोशिका

विभाजन (mitosis) में तारा विन्यास और केन्द्र पिण्ड centrosome) से निमित्त मध्यस्थ रचना ।

centrotaxis—(Gk. *kentron*, centre; *taxis*, arrangement) केन्द्र-विन्यास ।

centrotheca—(Gk. *kentron*, centre; *theke*, case) मन्वाणु । (देखिए idiozome)

centrum—(L. *centrum*, centre) कशेरुक काय; सेन्द्रम; केन्द्रक; कशेरुक का एक भाग ।

cephal = kephal—(Gk. *kephale*, head) सिफेल; शिरस्थ; सिर; कपाल ।

cephalad—(Gk. *kephale*, head) क्फिलड; शीर्ष-दिकीय; सिर की ओर या अग्र भाग की तरफ ।

cephalanthium—(Gk. *kephale*, head; *anthos*, flower) केपिटुलम या मुण्डक; कम्पोजिटी (compositae) कुल के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम (inflorescence) ।

cephaletron—(Gk. *kephale*, head; *etron*, belly) शिरक्षेत्र; अग्र क्षेत्र; जीफोसुरा (xiphosura) का अग्र क्षेत्र ।

cephalic—(Gk. *kephale*, head) शीर्षीय; सिर सम्बन्धी; सिर का ।

cephalic index—(Gk. *kephale*, head; L. *indicare*, to show) कपालीय निर्देशिनी (सूत्र) । वह संख्या जो खोपड़ी (skull) की अधिकतम चौड़ाई को अधिकतम लम्बाई से भाग देकर प्राप्त संख्या से १०० गुना करने पर प्राप्त होती है ।

cephalisation—(Gk. *kephale*, head) शिरोविकास; शिरोवर्धन ।

cephalon—(Gk. *kephale*, head) सिफोलोन; सिर (आर्योपोड़ा का) ।

cephalochorda—(Gk. *kephale*, head; *chorde*, string) सेफेलोकोर्ड; शिरोदण्डक; शीर्ष दण्डक ।

cephalont—(Gk. *kephale*, head) सिफेलोन्ट; स्पोरज; ऐसा स्पोराणु (sporozoon) जो स्पोर (spore) बनने जा रहा हो ।

cephalopod—(Gk. *kephale*, head; *pous*, foot) सेफेलोपोड; शिरस्पाद। एक प्रकार के सामुद्रिक मौलस्का (mollusca) जिनके शिर पर पेशीमय चूपक युक्त भुजायें होती हैं।

cephalopodium—(Gk. *kephale*, head; *pous*, foot) शिरक्षेत्र; सिफेलोपोडा (cephalopoda) जन्तुओं में शिर और भुजा (बाहु) द्वारा निर्मित शिर क्षेत्र।

cephalostegite—(Gk. *kephale*, head; *steges*, roof) शिरस्पटल; शिरस्कटल; शिरोवक्षीय ढाल (cephalo thoracic shield) का अग्र भाग।

cephalostyle—(Gk. *kephale*, head; *stylos*, pillar) पृष्ठ दण्डाग्र; कोन्ड्रोक्रैनिया (chondrocrania) में पाया जाने वाला पृष्ठदण्ड (notochord) का आवरण (sheath) में ढका अग्र भाग।

cephalothecae—(Gk. *kephale*, head; *theka*, case) शिरस्त्वक (कीट प्यूपा में)।

cephalothorax—(Gk. *kephale*, head; *thorax*, breast) शिरोवक्ष; मकड़ी, कैंकड़े आदि जन्तुओं में शरीर का वह भाग जो शिर और वक्ष के योग से बनता है।

cephalotrocha—(Gk. *kephale*, head; *trachos*, wheel) शीर्ष चक्रक। टर्बिलेरिया (turbellaria) का डिम्बक या अर्भक जिसके मुँह के चारों ओर आठ प्रवर्धन होते हैं।

cephalula—(Gk. *kephale*, head) सिफेलूला; शीर्ष-प्लावी; किन्ही ब्रैकियोपोडा (brachiopoda) की स्वतंत्र प्लावी भ्रूणिक अवस्था।

cerata—(Gk. *keras*, horn) पत्र शृंग; सिरेटा।

ceratium—(Gk. *keration*, little horn) सिरेटियम; आभासीपट (replum) हीन सिलिक्यूआ (siliqua), कूसीफेरी कुल का खास फल।

ceratobranchial—(Gk. *keras*, horn; *branchia*, gills) किरैटोब्रैन्कियल; मध्यगिलक।

ceratohyal—(Gk. *keras*, horn; *hyooides*, Y-shaped) मध्यकंठिका; किरैटोहायल; मध्यहायक।

ग्रीक शब्द में जो किरैटो (cerato) पद आया है, उसका अर्थ है सींग (शृंग) जो निरर्थक है, इस कारण हिन्दी पर्याय शब्द में हमने उसके स्थान में 'मध्य' पद रखना उचित समझा है। क्योंकि मध्यहायक दो ऊपरी (कठ-हायक और ऊर्ध्व-हायक) और दो निचले (अधोहायक और मूलहायक) के बीचो-बीच स्थिति होता है।

ceratotrichia—(Gk. *keras* horn; *thrix*, hair) शृंगीरोम; उपास्थि मत्स्यो (elasmobranchs) का शृंगी और अक्रोशिकीय तारोपम रोम (actinotrichia)।

cercal—(Gk. *kerkos*, tail) पुच्छीय।

cercaria—(Gk. *kerkos*, tail) पुच्छार्भक; ट्रिमैटोडों (trematodes) में पाया जाने वाला डिम्बक या अर्भक (लारवा) विशेष।

cercid—(Gk. *kerkos*, shuttle) सरसिड; परिभ्रमण कोशिका; ढरकी कोशिका।

cercoid—(Gk. *kerkos*, tail; *eidos*, shape) सर-कोइड; पुच्छोपम।

cercus—(Gk. *kerkos*, tail) लूम; सर्कस; पुच्छा-वयव; बहुत से आर्थ्रोपोडा (arthropoda) में उदर (abdomen) के अन्त में पाया जाने वाला जोड़दार अवयव।

cere—(L. *cera*, wax) सियर; पक्षियों में चींच के मूल पर स्थित मांस की फूली हुई गद्दी।

cerebellar—(L. *cerebrum*, brain) अनुमस्तिष्क; सेरेबिलर।

cerebellum—(L. *cerebrum*, brain) अनुमस्तिष्क; सेरीबिलम।

cerebral—(L. *cerebrum*, brain) (१) प्रमस्तिष्कीय; सेरिब्रल; प्रमस्तिष्क-सम्बन्धी। (२) मस्तिष्कीय।

cerebral ganglia—(L. *cerebrum*, brain; Gk. *ganglion*, swelling) प्रमस्तिष्क-गुच्छिका।

cerebrifugal—(L. *cerebrum*, brain; *fugere*, to flee) मस्तिष्कापगामी; मस्तिष्क-मुपुम्ना तंत्रिका सूत्र;

वे तंत्रिका सूत्र (nerve fibres) जो मस्तिष्क से सुपुम्ना (spinal cord) को जाते हैं ।

cerebroganglion—(L. *cerebrum*, brain; Gk. *ganglion*, swelling) मस्तिष्क गैंगलिया (गुच्छिका); निगरोर्ध्व गैंगलिया । अकशेरुकों (invertebrates) के वह गैंगलिया या गण्ड (ganglia) जो निगरण के ऊपर स्थित हों ।

cerebropedal—(L. *cerebrum*, brain; *pes*, foot) प्रमस्तिष्क-पाद—; मस्तिष्क-पादगण्डीय; मौलस्क या कवचधारियों (molluscs) में पाये जाने वाले वह बन्धक (connective) जो मस्तिष्क गैंगलिया (cerebral ganglia) और पाद गैंगलिया या गण्ड (pedal ganglia) को जोड़ते हैं ।

cerebrospinal—(L. *cerebrum*, brain; *spina*, spine) प्रमस्तिष्क-मेह; मस्तिष्क-सौपमिनिक; मस्तिष्क और सुपुम्ना सम्बन्धी ।

cerebrovisceral—(L. *cerebrum*, brain; *viscera*, viscera) प्रमस्तिष्क-आन्तरंग—; मस्तिष्क-देहगण्डीय । मौलस्क (mollusc) में मस्तिष्क-गैंगलिया (cerebral ganglia) और देह-गैंगलिया या 'आन्तरंग-गैंगलिया (visceral ganglia) को जोड़ने वाले बन्धक (connectives) ।

cerebrum—(L. *cerebrum*, brain) प्रमस्तिष्क; सेरिब्रम ।

cereous—(L. *cereus*, waxen) सीरियस; सिक्योपम; मोम सद्ग ।

ceriferous—(L. *cera*, wax; *ferre*, carry) सिक्यो-रुगादक; मोम बनाने वाले ।

cernuous—(L. *cernuus*, with face turned downwards) क्षिपिल; लटका हुआ या झूलता हुआ ।

ceroma—(Gk. *keroma*, ointment) सिरोमा; किरोमा; सियर । देखिये (cere)

cerous—(L. *cera*, wax) सियरोपम; सियर (cere) के समान आकृति ।

certation—(L. *certatio*, centest) वर्धन प्रतिद्वन्द्विता;

विभिन्न जाति के पराग नलिकाओं की बढ़ने की दिशा में प्रतिद्वन्द्विता ।

cerumen—(L. *cera*, wax) कर्ण-सिक्थ; कान में से मोम के समान निकलने वाला मूल ।

ceruminous glands—सिक्थ ग्रन्थि ।

cervical—(L. *cervix*, neck) श्रैव; श्रैवेय; श्रैवेयी; श्रैवा सम्बन्धी; गर्दन सम्बन्धी तंत्रिका, अस्थि, रक्त नलिकायें आदि ।

cervicum—(L. *cervix*, neck) श्रैवा ।

cervix—(L. *cervix*, neck) अंग-श्रैवा; अंग-कण्ठ; किसी अंग-विशेष का संकुचित गर्दननुमा या संकुचित भाग जैसे गर्भाशय अंग कण्ठ (cervix uteri) ।

cestodes—सेस्टोडा; मीवा; पट्ट देहियों (platyhelminthes) का एक वर्ग ।

cetaceans—सिटेशियन (तिमिगणी), जलवासी स्तनपायी विशेष ।

cevitamic acid—विटामिन "C" एस्कोर्विक अम्ल ।

chaeta = seta—(Gk. *chaite*, hair) शूक; रोमिका ।

chaetic—(Gk. *chaite*, hair) रोमिकी; कीटिक; शूकोपम; कीटों का एक प्रकार का स्पर्श लघु संवेदनांग; (sensilla) ।

chaetiferous—(Gk. *chaite*, hair; L. *ferre*, to bear) रोमिकाधारी; रोमिका युक्त ।

chaetognathus—(Gk. *chaite*, hair; Gk. *gnathos*, jaw) रोमिकाहनु; कीटोगिनथा, एक वर्ग का नाम ।

chaetophorous—(Gk. *chaite*, hair; *pherein*, to bear) रोमिका युक्त; रोमिकाधारी ।

chaetopoda—कीटोरोडा; रोमिका पाद ।

chaetosema—(Gk. *chite*, hair; *sema*, sign) कीटोसीमा; रोमिका संवेदी; जोर्डन का अंग (Jordan's organ); किन्हीं लेपीडोप्टेरा (lepidoptera) तनुपक्षक के सिर पर स्थिति दो में से एक संवेदीय अंग जो पिघानीय (sheathed) तंत्रिका (nerve) से मस्तिष्क से जुड़ा रहता है ।

chaetotaxy—(Gk. *chaite*, hair; *taxis*, arrangement) रोमिका-विन्यास ।

chain behaviour—क्रमिक व्यवहार; शृंखलीय कार्य ।

chalaza—(Gk. *chalaza*, tubercle) कौलाजा; श्वेतकरज्जु; डिम्बान्न-बन्ध । पक्षियों में डिम्बान्न (yolk) को अण्डे की झिल्ली से जोड़ने वाला बन्ध ।

chalaziferous—श्वेतकरज्जुमय; डिम्बान्न बन्ध युक्त ।

chalazogamy—(Gk. *chalaza*, hail; *gamos*, marriage) डिम्बान्नवेधी निषेचन; वह निषेचन जिसमें पराग नलिका डिम्बान्न (chalaza) को वेधकर निषेचन करती है ।

chalice—(L. *calix*, goblet) पात्रक कोशिका; ग्रन्थि कोशिका ।

chalones—(Gk. *chalinus*, curb) कौलोन; निषेधक; क्रिया ह्रासक (अन्तः स्त्राव) ।

(देखिये विलोम hormone उद्दीपक)

chaloneic—(Gk. *chalinus*, curb) निषेधक; अवरोधक; क्रिया ह्रासक ।

chamber—कोठरी; कोठा ।

character—लक्षण; गुण; स्वरूप; विशेषतायें ।

chain of ganglia—गण्ड शृंखला ।

chamacphyte—(Gk. *chamai*, on the ground; *phyton*, plant) भूपादप; ऐसे पौधे (पादप) जिनकी शाखायें व कलियाँ जमीन पर पड़ी रहती हैं ।

chasmatoplasm—(Gk. *chasma*, panse; *plasma*, mould) विस्तृत तत्वजन ।

chasmolliomophyte—(Gk. *chasma*, opening; *choma*, mound; *phyton*, plant) चट्टान दरारी पादप ।

chasmogamy—(Gk. *chasma*, opening; *gamos*, marriage) पुष्पनिभिंदता; उत्फल निषेचन; उन्मील परागण; परिपक्व पुष्प का निषेचन हेतु खुलना ।

[विलोम—cleistogamy—बिनाखुले निषेचन; स्वयं निषेचन]

chasmophyte—(Gk. *chasma*, opening; *phyton*, plant) उन्मील पादप ।

cheek—(A. S. *coeca*, cheek) कपोल; गाल ।

cheiropterid—काइरॉप्टेरा (चमगादड़ गण) ।

cheiropterygium—(Gk. *cheir*, hand; *pteryx*, wing) पञ्चांगुलावयव । उच्च कशेरुकों (vertebrates) में पाये जाने वाले पंचांगुलीय (pentadactyl) अवयव (limb) ।

chela—(Gk. *chele*, claw) कीला; चंगुल; केकड़ा-वंशी या क्रस्टेशिया (crustaceans) और अरेकनिडा-अष्टपादों (arachnida) में पाया जाने वाला चंगुल ।

chela te—(Gk. *chele*, claw) कीलेट; चंगुलयुक्त ।

cheliceræ—(Gk. *chele*, claw; *keras*, horn) कीलिसिरी; चंगुलांग ।

heliferous—(Gk. *chele*, claw; L. *ferre*, to bear) चंगुल युक्त ।

cheliform—(Gk. *chele*, claw; L. *forma*, shape) चंगुलोपम ।

cheliped—(Gk. *chele*, claw; L. *pes*, foot) चंगुल युक्तअवयव; करजपद ।

chelophores—(Gk. *chele*, claw; *pherein*, to bear) प्रचुंगली; चंगुलधारी; पिकनोनेनिडा (pycnogonida) का प्रथम युगल अवयव ।

chelonia—कीलोनिया (कच्छरा गण) ।

chelophores—(Gk. *chele*, claw; *pherein*, to bear) चंगुलधारी अवयव ।

chemiluminescence—(Gk. *chymos*, juice; L. *luminescere*, to grow light) रसायन-प्रकाश; रसायन प्रक्रिया में सामान्य ताप पर प्रकाशोत्पादन ।

chemonasty—(Gk. *chemos*, juice; *nastos*, close pressed) रसायन-अनुकुंचन; अव्यक्तरसजन्यास । व्याप्त (diffuse) या अव्यक्त (indirect) रसायनिक उन्नेजनाओं (chemical stimuli) के प्रति प्रतिक्रिया ।

chemoreceptor—(Gk. *chemos*, juice; L. *recipere*, to receive) रसायन-ग्राही; रस वेदनाग्राही;

रासायनिक उत्तेजनाओं (chemical stimuli) को ग्रहण करने वाला अन्तस्थ अंग (terminal organ) ।

chemoreflex—(Gk. *chemos*, juice; L. *reflectere* to bend back) रसज-परावर्तन; रासायनिक उत्तेजनाओं (chemical stimuli) से उत्पन्न परावर्तन (reflex) ।

chemosynthesis—(Gk. *chemos*, juice; *syn*, with; *tithenai*, to place) रासायनिक-निर्माण । जीवों में रासायनिक यौगिकों (compounds) का बनना ।

chemotaxis=chemiotaxis—(Gk. *chemos*, juice *taxis*, arrangement) रसायन-अनुचलन; रसजन्यास; कोशिकाओं (cells) या स्वतन्त्रगामी जीवों की रासायनिक उत्तेजनाओं (chemical stimuli) से उत्पन्न प्रतिक्रिया ।

chemotropism—(Gk. *chymos*, juice; *trope*, turn) रसायन-वृत्ति; रासायनिक उत्तेजना के प्रति पीछे या उसके किसी अंग का मुड़ना ।

chernozem—(Russ. *chernyi*, black; *zemlya*, soil) काली मिट्टी ।

chersophyte—(Gk. *chersa*, waste places; *phyton*, plant) बंजर-पादप; परिषादप । निर्यक भूमि पर उगने वाला पौधा (पादप) ।

chest—(L. *cista*, box) वक्षस्थल; छाती ।

chevron—(L. *caper*, goat) त्रि-अरी (अस्थि); शेरवन; अनेक कशेरुकों (vertebrates) में नीचे के मेरूदण्ड या मुष्मना (spinal column) के पुच्छ भाग में नीचे के नल (surface) पर लगी हुई 'V' अक्षर के आकार की हड्डियाँ ।

chiasma—(Gk. *chiasma* cross) काईयेज्मा; व्यत्यासिका; क्रुश ।

chiasmotypy—(Gk. *chiasma*, cross; *typos*, character) (१) क्रुशोपम (२) व्यत्यासिकता; युग्मो-करण (synapsis) में गुणसूत्र पदार्थ का एक प्रकार का पुनः सम्मिश्रण ।

chiastoneural—(Gk. *chiastos*, diagonally arranged; *neuron* nerve) तंत्रिका क्रुश; ऐसे गैस्ट्रोपोंड

(gastropods) जिनमें दैहिक तंत्रिका रज्जु क्रुश का सा आकार बना लेती हैं ।

chilæria—(Gk. *cheiolos*, lip) काईलेरिया; लीमूलस (limulus) में छटे अवयव जोड़े (appendage) के बीच में स्थित प्रवर्धनों का जोड़ा ।

chimaera—(L. *chimaera*, monster) विचित्रोतकी; काइमिरा; द्विदेहांशी; द्विकायांशी; वह रौद्र (monster) जो दो भिन्न व्यक्तियों से प्राप्त मूलोश के संलय (fusion) से या दो भिन्न अनुवंश-व्यवस्थाओं (genotypes) के ऊतकों (tissues) से निर्मित हो ।

chiropterophilous—(Gk. *cheir*, hand; *pteryx*, wing) जतुकापरागणी; चिमगादड़ (जतुका) द्वारा परागण ।

chin—(Gk. *genys*, chin) चिवुक; ठोडी; टुड्डी ।

chitin—(Gk. *chiton*, tunic) काइटिन ।

chitinase—(Gk. *chiton*, tunic) काइटिनेज; काइटिन छिन्नक; एक क्षोभक (enzyme) विशेष ।

chitinous—(Gk. *chiton*, tunic) काइटिनमय ।

chlamydate—(Gk. *chlamys*, cloak) पिघानी ।

chlamydospore—(Gk. *chlamys*, cloak; *sporos*, seed) भ्रिवितकस्पोर; पिघानीस्पोर; एक मोटी भ्रित्ति वाला स्पोर; जैसा फन्जाई और प्रोटोजोआ में पाया जाता है ।

chloragen—(Gk. *chloros*, grass green; *genos*, descent) पीतकोशिका; क्लोरेजन (सेल) ।

chloragogen cells—पीत कोशिका या कोष्ठ ।

chloragocyte—(Gk. *chloros*, sandy yellow; *kytos*, hollow) पीत कोशिका ।

chloragosomes—(Gk. *chloros*, sandy yellow; *soma*, body) पीत गोलिकायें ।

chloranthy—(Gk. *chloros*, grass green; *anthos*, flower) कोल्लेन्थी; पर्ण परिवर्द्धनता; पुष्प पर्ण (floral leaves) का पुनः हरीत पर्ण (green leaves) में बदलना ।

chlorenchyma—(Gk. *chloros*, grass green;

- engchyma*, infusion) पर्ण हरीत स्तम्भ ऊतक; ऐसा तने का ऊतक जिसमें पर्ण हरित (chlorophyll) हो ।
- chlorocruorin**—(Gk. *chloros*, grass green; *engchyma*, infusion) क्लोरोक्यूओरिन; किन्हीं कृमियों में रक्त रस (blood plasma) में पाया जाने वाला हरा स्वांस सम्बन्धी पदार्थ ।
- chlorophane**—(Gk. *chloros*, grass green; *phainen*, to appear) क्लोरोफेन, पर्णहरित वर्णक ।
- chlorophore**—(Gk. *chloros*, grass green; *phore*, carrying) पर्ण हरित वर्णी; क्लोरोफिल कण युक्त ।
- chlorophyll**—(Gk. *chloros*, grass green; *phyllon*, leaf) पर्णहरित; क्लोरोफिल; क्लोरोफिल a; $C_{55}H_{72}O_5N_4$ Mg; क्लोरोफिल b; $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$; पीधों में व कुछ जन्तुओं में हरा रंग देने वाला रसायन । यह हरा रंग समस्त शैवाल (algae) उच्च पीधों और कुछ निम्न जन्तुओं में मृतजीवी (saprophytes) और परजीवी के अतिरिक्त पाया जाता है । यह पर्ण हरित लवक (chloroplasts) में सिवाय नीले शैवाल (साइनोफाइट—cyanophyta) में स्थिति होता है । नीले हरे शैवाल में कोशिका प्राचीर पर साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए प्रकाश संश्लेषी कलाओं में होता है । प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) में प्रकाश की किरण को ग्रहण करने वाला यही पदार्थ होता है और प्रकाश उर्जा को रसायनिक उर्जा में बदलने की प्रथम स्थिति इसी पदार्थ पर होती है ।
- chloroplast, chloroplastid**—(Gk. *chloros*, grass green; *plastos*, moulded) पर्ण हरित कण पर्णहरित लवक ।
- chlorosis**—(Gk. *chloros*, pallid) पर्णहरितहीनता; मानव में हरित रूग्णता ।
- chlorostatolith**—(Gk. *chloros*, grass green; *statos*, stationary; *lithos*, stone) पर्णहरित कण ।
- chlorotic**—(Gk. *chloros*, pallid) पर्ण हरित हीनता; क्लोरोटिक ।

- choana**—(Gk. *choane*, funnel) पश्चनासारंध; अन्तनासाच्छिद्र ।
- choanocyte**—(Gk. *choane*, funnel; *kytos*, hollow) कीप कोशिका ।
- choanoflagellata**—(Gk. *choane*, funnel; L. *flagellum*, whip) कोऐनो-फलैजेलेटा; कीप-कपी या कीप-कपा तंत्री (मेस्टीगोफोरा mastigophora) वर्ग का एक गण (order) ।
- choanoid**—(Gk. *choane*, funnel) कीपोपम; कीप-नुमा; कीपसम; रिटरेक्टर बल्बाई चक्षुपेशी, यह पेशी सृप, पक्षी और उच्च प्राइमेट्स में अनुपस्थिति होती है ।
- choanosome**—(Gk. *choane*, funnel) कीपस्तर; स्पंज (sponge) में कशा तंत्री कोशिकाओं से युक्त, आन्तरिक स्तर ।
- cholecystokinin**—(Gk. *chole*, bile; *kystis*, bladder; *kinen*, to move) कोलेसिस्टोकाइनिन; इचूडेनम का एक हार्मोन जिससे पित्राशय (gall-bladder) सिकुड़ता है ।
- choledoch**—(Gk. *chole*, bile; *dochos*, containing) सामान्य पित्त नली ।
- choleic**—(Gk. *chole*, bile) कॉलिक अम्ल; यह अम्ल बिल के पित्त में पाया जाता है ।
- cholesterol**—(Gk. *chole*, bile; *stereos*, solid) कॉलेस्ट्रॉल; $C_{27}H_{46}O$; एक श्वेत नस-अम्ल (fatty alcohol) जो प्रोटोप्लाज्म, तंत्रिका ऊतक पित्त, डिम्बान्न और अन्य जन्तु पदार्थों में पाया जाता है ।
- choline**—(Gk. *chole*, bile) कॉलाइन; $C_5H_{15}O_2N$; एक स्फुटिक क्षार जो पीवे और जन्तु में पाया जाता है, यह लेसीथिन (lecithen) के विघटन से बनता है ।
- cholincrgic**—(Gk. *chole*, bile; *ergon*, work) कॉलीनर्जिक; तंत्रिकाउर्जा स्रोत; कोलीबधमत्तोजक; परानवेदी तंत्रिका सूत्रों जो अपने अंतस्थ छोर ने

- एसीटाइल कोलाइन (acetyl choline) सुवत करते हैं ।
- cholochrome**—(Gk. *chole*, bile; *croma*, colour) पित्तरंजक ।
- cholohaematin**—(Gk. *chole*, bile; *haima*, blood) कोलोहीमेटिन ।
- chomophyte**—(Gk. *choma*, mound; *phyton*, plant) कोमोफाइट; शिलापादप ।
- chondral**—(Gk. *chondros*, cartilage) उपास्थिक; उपास्थि सम्बन्धी ।
- chondrification**—(Gk. *chondros*, cartilage; *L. facere*, to make) उपास्थि संचय; उपास्थि-उत्पादन ।
- chondrigen**—(Gk. *chondros*, cartilage; *genos*, descent) उपास्थिज; उपास्थि आधारक कोलेजन ।
- chondrin**—(Gk. *chondros*, cartilage) कर्णांग ।
- chondriocent**—(Gk. *chondros*, grain; *kentos*, pole) दण्ड रूपक कण पिण्ड; दण्डी कण पिण्ड ।
- chondriodieresis**—(Gk. *chondros*, grain, *dieressein*, to swing about) कर्णांग रूपभेद; कोशिका विभाजन में कर्णांग (mitochondria) में परिवर्तन (रूपभेद) ।
- chondriokinesis**—(Gk. *chondros*, grain; *kinesis*, movement) कर्णांग-विभाजन; कोशिका के विषम और ह्रास-विभाजन (mitosis and meiosis) में कर्णांगों (chondriosomes) का विभाजन ।
- chondrioma**—(Gk. *chondros*, grain) कर्णांग ।
- chondriomere**—(Gk. *chondros*, grain; *meros*, part) कर्णांगटुक या खण्ड ।
- chondriomite**—(Gk. *chondros*, grain; *mitos*, thread) कर्णांग; संकुचित कर्णांग ।
- chondrioplast**—(Gk. *chondros*, grain; *plastos*, formed) कर्णांग; गोलगी जनाका ।
- chondriosomes**—(Gk. *chondros*, grain; *soma*, body) chondriomites, chondriocents, chond-

- riospheres*, *chondrioplasts*, *mitochondria*. कण पिण्ड ।
- chondriosphere**—(Gk. *chondros*, grain; *sphaira*, globe) गोलाकार कर्णांग ।
- chondroblast**—(Gk. *chondros*, cartilage, *blastos*, bud) उपास्थि जन ।
- chondroclast**—(Gk. *chondros*, cartilage; *klastos*, broken down) उपास्थिनाशक; बड़ी बहुनाभिक (multinucleate) कोशिका जो उपास्थि (cartilage) के आधार पदार्थ (matrix) का नाश करती है ।
- chondrocranium**—(Gk. *chondros*, cartilage; *kranion*, skull) उपास्थि-कपाल ।
- chondrocyte**—(Gk. *chondros*, cartilage; *kytos*, hollow) उपास्थि-कोशिका ।
- chondrogenesis**—(Gk. *chondros*, cartilage; *genesis*, descent) उपास्थि-जनन ।
- chondroid**—(Gk. *chondros*, cartilage; *eidos*, shape) उपास्थिसम; उपास्थि सदृश ।
- chondromucoid**—(Gk. *chondros*, cartilage; *L. mucus*, mucus; Gk. *eidos*, form) उपास्थि शल्लष्म ।
- chondrophore**—(Gk. *chondros*, cartilage; *pherein* to bear) उपास्थिधारी ।
- chondroskeleton**—(Gk. *chondros*, cartilage; *skeleton*, dried body) उपास्थि-पंजर ।
- chondrosteagus**—(Gk. *chondros*, cartilage; *osteon*, bone) उपास्थि पंजरी ।
- chondrosternal**—(Gk. *chondros*, cartilage; *sternon*, breast) पर्णु, उपास्थि और वक्षस्थि (स्टर्नम) से सम्बन्धित ।
- chone**—(Gk. *choane*, funnel) कीपाकार पथ (कीप funnel) । बहुछिद्रियों (स्पंजस—sponges) के चल्क (cortex) में स्थिति पथ, जिसका बाह्य छिद्र एक या अधिक हों तथा अन्तः छिद्र केवल एक हो, जिससे कीपाकार (funnel like) आकृति बनती हो ।

chorda—(Gk. *chorde*, string) रज्जुदण्ड; पृष्ठ दण्ड कोई रज्जु समान रचना ।

chordacentra—(Gk. *chorde*, string; L. *centrum* centre) दण्ड केन्द्रक ।

chordae tendinae—कंडरा रज्जु; स्नायु-रज्जु; कार्डी टेन्डिनी; कपाट रज्जु ।

chordate—(Gk. *chorde*, string) काँडेटा; पृष्ठ दण्डी; रज्जुकी ।

chordotonal—(Gk. *chorde*, string; *tonos*, tone) ध्वनिग्राही; वेदनश्लाका । कीटों (insects) में पाये जाने वाले श्लाकाकार या कचाकार वेदनांग ।

chore—(Gk. *chore*, place) कोर; इकाई क्षेत्र; वह क्षेत्र जिसमें भूगोलिक या पर्यावरणी दशाओं की इकाई प्रदर्शित होती हो ।

choreiathetose—(Gk. *choreia*, dance; *athetos*, lawless) वेताल गति जैसे भ्रौणिक (foetal) गति ।

choriocapillaris—(Gk. *chorion*, skin; L. *capillaris*, capillary) रक्तकपटल केशिकीय भाग; रक्तकपटल का अन्तस्थ वाहक स्तर ।

chorioid = choroid—कोरोइड; रक्तकपटल (चक्षुका) ।

chorion—(Gk. *chorion*, skin) जरायु; चमिका; गर्भ की बाहरी झिल्ली ।

chorionic—(Gk. *chorion*, skin) जरायु—; चमिकीय; जैसे जननांग प्रभावक हार्मोन (gonadotrophic hormone) ।

chorioretinal—(Gk. *chorion*, skin; L. *retina*, retina) रक्तकपटल और रेटिना सम्बन्धी ।

choripetalous—(Gk. *choris*, separate; *petalon*, leaf) पृथकदली; पृथग्दली ।

choriphyllous—(Gk. *choris*, separate; *phyllon*, leaf) पृथक परिदलपुंजी; पृथक पर्णों ।

chorisepalous—(Gk. *choris*, separate; F. *sepale*, sepal) पृथकबाह्यदलपुंजी; पृथकबाह्यदली ।

chorisis—(Gk. *choris*, separate) विभजन; विद्विगुणीकरण ।

choroid—(Gk. *chorion*, skin; *eidos*, form) रक्तकपटल ।

choroid plexus—रक्तक जालक ।

anterior choroid plexus—अग्ररक्तक जालक ।

posterior choroid plexus—पश्च रक्तक जालक ।

choroidal—रक्तकपटलीय ।

chorology—(Gk. *choros*, place; *logos*, discourse) जीव भूगोल; भूगोलिक विस्तार; जीव वितरण विज्ञान; अंग (organ) या अंगीओ (organisms) के विस्तार सम्बन्धी विज्ञान ।

choronomic—(Gk. *choros*, place; *nomos*, law) बाह्य निर्देशक ।
(देखिये विलोम—autonomic—स्वयं निर्देशक)

chorotypes—(Gk. *choros*, place; *typos*, pattern) स्थानीय (जन्तु आदि) स्थानीय किस्में ।

chresard—(Gk. *chresis*, use; *ardo*, I water) जल उपलब्धता; जललभ्यता; पौधों की वृद्धि के लिए उपलब्ध जल की मात्रा ।

chromaffin—(Gk. *chroma*, colour; L. *affinis*, related) वर्णा वद्धी; वर्णरागी; क्रोमेफिन; रंजकरागी ।

chromaphil—(Gk. *chroma*, colour; *philein*, to love) रंजकरागी ।

chromaphobe—(Gk. *chroma*, colour; *phobos*, fear) अरंज्य (कोशिका या ऊतक); रंगाक्षम ।

chromasie—(Gk. *chroma* colour) रंज्य वृद्धि; क्रोमेटिन की वृद्धि और उपाधि का निर्माण ।

chromatic—(Gk. *chroma* colour) वर्णिक ।

chromaticity—(Gk. *chroma* colour) वर्णकता ।

chromatid—(Gk. *chroma*, colour) क्रोमोटिड; अर्धगुण सूत्र; चतुष्कांश । ह्रास विभाजन (meiosis) में पाये जाने वाले चतुष्क (tetrad) का एक भाग ।

chromatin—क्रोमेटिन; अर्ध रंज्य ।

chromatogen organ—कपिशांग । एकाईनीडमेंटा-शूल धारियों (echinoderms) में पाया जाने वाला एक भूरा सदल अंग (lobed organ) ।

chromatoid grains—क्रोमेटिन सदृश कण; प्रोटोप्लाज्म के वे कण जो क्रोमेटिन समान ही रंग ले लेते हैं ।

chromatolysis—(Gk. *chroma*, colour; *lysis*, loosening) निस्लक्षण लोप (जैसे कि घकी हुई तंत्रिका कोशिकाओं में होता) है ।

chromatophore—(Gk. *chroma*, colour; *pherein*, to bear) वर्णकी लवक; रंग कोशिका । कोशिका समूह या जिनकी आकृति या रंग में संबद्ध तंत्रिका तंत्र (sympathetic nervous system) के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है ।

chromatophoretropic—(Gk. *chroma*, colour; *pherein*, to bear; *trope*, turn) क्रोमेटोफोरोट्रोपिक (हार्मोन) ।

(१) केकड़ावंशी (crustacean) के चक्षु स्तम्भ (stalk) का हार्मोन (उद्दीपक) ।

(२) पिट्यूटरी के मध्यांश (pars intermedia) द्वारा स्रावित इन्टरमीडिन (intermedin) हार्मोन जिससे वर्णकीलवक (chromatophores) कोशिका फैलती हैं ।

chromatophyll—(Gk. *chroma*, colour; *phyllon*, leaf) क्रोमेटोफिल; पर्णवर्ण; कवाधारियों (flagellates) का पांशों सदृश रंजक पदार्थ ।

chromatoplasm—(Gk. *chroma*, colour; *plasma*, mould) रगसत्व; क्रोमेटोप्लाज्म ।

chromatospherite—(Gk. *chroma*, colour; *sphaira*, globe) उपाच्छि; न्यूक्लिओलस; केन्द्रक ।
(देखिये nucleolus)

chromidia—(Gk. *chroma*, colour; *idion* dim) क्रोमिडिया; रंज्योपकणिका; क्रोमेटिन (अच्छिरंज्य) के न्यूक्लिओलस में बाहर स्थित कण जो फिर न्यूक्लिओलस बन सकते हैं ।

chromidiogamy—(Gk. *chroma*, colour; *gamos*,

union) रंज्योपकणिका संयोग; दो संयोगार्थियों (conjugants) की रंज्योप कणिकाओं (chromidia) का संयोग ।

chromidiosomes—(Gk. *chroma*, colour; *soma*, body) रंज्योप कणिकांश ।

chromiole—(Gk. *chroma*, colour) क्रोमियोल; रंज्यकण कणिका ।

chromoblast—(Gk. *chroma*, colour; *blastos*, bud) रंगकोष्ठज; वर्ण कोशिकज ।

chromocentre—(Gk. *chroma*, colour; *kentron*, centre) परिसूत्र बिन्दु; क्रोमोसेन्टर ।

chromocyte—(Gk. *chroma*, colour; *kytos*, hollow) रंग कोष्ठ; रंज-कोशिका ।

chromogenic—(Gk. *chroma*, colour; *genos*, birth) क्रोमोजनी; वर्णकोत्पादकी ।

chromomere—(Gk. *chroma*, colour; *meros*, part) क्रोमोमीयर; रंज्यकण ।

chromonema—(Gk. *chroma*, colour; *nema*, thread) क्रोमोनीमा । कुण्डल सूत्र; कोशिका (cell) के विपम विभाजन (mitosis) की पुरास्थिति (prophase) में पाया जाने वाला एक लिपटा हुआ बलदार सूत्र ।

chromophanes—(Gk. *chroma*, colour; *phainein*, to show) क्रोमोफेन्स; विभिन्न वर्णी तैल्य गोलिकायें पक्षियों, सृषी, मत्स्यों और मारसूपियल जन्तुओं के रेटिना में पाये जाने वाले विभिन्न वर्णी तैल्य गोलिकायें (oil globules) ।

chromophilous—(Gk. *chroma*, colour; *philos*, loving) अभिरंजकरागी; रंगग्राही; शीघ्र रंग जाने वाला ।

chromophobe—(Gk. *chroma*, colour; *phobos*, to bear) अरंज्य; अल्परंज्य ।

chromophore—(Gk. *chroma*, colour; *pherein*, to bear) रंगधारी; क्रोमोफोर; वर्ण मूलक ।

chromoplast—(Gk. *chroma*, colour; *plastos*, moulded) वर्णलवक ।

chromoproteins—(Gk. *chroma*, colour; *pro-*
tos, first) वर्णकप्रोटीन; क्रोमोप्रोटीन ।

chromosome—(Gk. *chroma*, colour; *soma*,
body) क्रोमोसोम; गुणसूत्र; परम्परासूत्र । न्यूक्लियस या
अण्डि के वे सूत्राकार अंग जिनकी संख्या प्रत्येक जाति
(स्पीशीज) की कोशिकाओं में निश्चित रहती है और
जिनके द्वारा पिता से पुत्र (पितृ से संतान) में पारम्परिक
(hereditary) लक्षण पहुँचते हैं ।

chromosomin—(Gk. *chroma*, colour; *soma*,
body) गुण सूत्र प्रोटीन; क्रोमोसोमिन; क्रोमोसोम का
एक प्रोटीन तत्व ।

chromospire—(Gk. *chroma*, colour; *spirene*,
coil) रंजशुल्ब; अष्टिकण उत्सेध ।

chronaxie, chronaxy—(Gk. *chronos*, time;
axia, value) कालमान; क्रोनेक्सी ।

(१) विद्युत् उत्तेजना और पेशी प्रति उत्तर के बीच
का अव्यक्त काल ।

(२) न्यूनतम उत्तापी काल ।

chrysalis—(Gk. *chrysalis*, gold; *golden*, thing
क्राइसेलिस; पिटिका; प्यूपावस्था; कीटों (insects) में
जीवन की तृतीय अवस्था ।

chrysocarpous—(Gk. *chryos*, gold; *kerpos*,
fruit) क्राइसोकार्पस; स्वर्ण फली ।

chrysophyll—(Gk. *chryos*, gold; *phyllon*, leaf)
क्राइसोफिल; पीतारजक पदार्थ ।

chylaceous—(Gk. *chylos*, juice) पायस स्वभावी;
काइल समान ।

chyle—(Gk. *chylos*, juice) काइल; पयोलस; पायस ।
पाचननाल में पायस नलिकाओं (lacteals) में पाया जाने
वाला लिम्फ (लसीका) जिसमें स्नेहकण प्रचुर मात्रा में
होते हैं ।

chylification—(Gk. *chylos*, juice; L. *facere*, to
make) पायसोत्पादन ।

chyliferous—(Gk. *chylos*, juice; L. *ferre*, to
carry) पायस-वाहिनी ।

chylific—(Gk. *chylos*, juice; L. *facere*, to
make) काइल उत्पादी ।

chylocaulous—(Gk. *chylos*, juice; L. *caulis*,
stem) सरस-स्तम्भी; मांसल स्तम्भी; गुदगुदे तने
वाला ।

chylocyst—(Gk. *chylos*, juice; *kystis*, bladder)
काइलपात्र ।

chylomicrons—(Gk. *chylos*, juice; *mikros*,
small) सूक्ष्म वसाकण ।

chylophyllous—(Gk. *chylos*, juice, *phyllon*,
leaf) पल्लपर्णी; गुदगुदे पत्ते वाले जैसे कुछ एक
रेगिस्तानी पौधे ।

chylopoiesis—(Gk. *chylos*, juice; *poilin* to
produce) काइम उत्पादी ।

chyme—(Gk. *chymos*, juice) काइम; अर्धपक्वान्न;
अर्धपक्व भोजन; अमाशय में परिवर्तित होने के
पश्चात् ।

chymification—(Gk. *chymos*, juice; L. *facere*,
to make) काइमीकरण; भोजन को काइम में परि-
वर्तित करने की प्रक्रिया ।

chytridium—(Gk. *chytridion*, little pot) स्पोर
पात्र; किन्ही फन्गई का स्पोर पात्र (vessel) ।

cicatricial tissue—घाव पूरक ऊतक ।

cicatrice, cicatricula-cicatrix—(L. *cicatrix*,
scar) घाव का चिन्ह; क्षतचिन्ह; क्षतांक; पक्षियों और
सृषी के अण्डों का कोरक चिन्ह (blastoderm) ।

cicoual—(Gk. *kikinuos*, curled lock) कीबीनाल;
एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें पार्श्व शान्वाएँ
वारी-वारी से अक्ष के दोनों ओर निकलती हैं ।

cilia—(L. *cilium*, eye lid) सिलिया; पद्मामिका;
तंत्र ।

ciliary—(L. *cilium*, eyelid) पद्मामिकी; तंत्रमय ।

ciliated—(L. *cilium*, eyelid) पद्मामिकामय; तंत्र-
धारी ।

ciliated epithelium—(L. *cilium*, eyelid; gk. *epi*,

upon; *thele*, nipple) पक्ष्माभिकामय उपंकला; तन्त्रधारी अधिच्छद; तन्त्र-अधिच्छद ।

ciliograde—(L. *cilium*, eyelid; *gradus*, step) तंत्रगामी ।

ciliospore—(L. *cilium*, eyelid; Gk. *sporos*, seed) तंत्र स्पोर; तंत्रधारी प्रोटोजोआ का अंकुर-स्पोर (swarm spore) ।

cilium = cilia—तन्त्र; सिलिया ।

cinchonine—(After countess; *de*, *chinchon*) सिंकोनाइन; रुवियेसी कुल के पौधों में पाया जाने वाला ऐलकेलॉइड (alkaloid) ।

cincinnus—(L. *cincinnus*, curl) सिन्त्सिनस; कुण्डलित एकलशाखी ससीमाक्ष (scorpioid cyme) पुष्पक्रम । उदाहरण—जलठनियाँ (Ranunculus); हीलियोट्रोपियम (Heliotropium) ।

cinclides—(Gk. *kingklis*, latticeal gate) सिनक्लाइडीज; दंशक सूत्र गवाक्ष; किन्ही एन्थोजोआ (Anthozoa) की देह भित्ति के अनेक छिद्र जिनमें से दंशकसूत्र (acontia) बाहर निकलते हैं ।

cingulate—(L. *cingulum*, girdle) काँचीधारी; परिवन्ध युक्त; परिवन्धधारी ।

cingulum—(L. *cingulum*, girdle) परिवन्ध; बाँची । (देखिये—clitellum) ।

circinate—(Gk. *kirkinos*, circle) कुण्डलित; कई बार मुड़ी घड़ी के स्प्रिंग की भाँति रचना ।

circular—बतुँल; मृत्ताकार ।

circulation—(L. *circulatio*, act of circulating) परिसंचरण; चक्रभ्रमण, परि-संचारण; परिभ्रमण; शरीर के अन्दर रक्त या अन्य किसी तरल का निश्चित नलिकाओं में नियमित रूप से चक्र में घूमना ।

circulating system—परिसंचरण तंत्र; परिभ्रमण तंत्र; बाहक संस्थान ।

circumduction—(L. *circum*, around; *ductus*, led) परिशंकुपृत; अस्थि गोलघुमाव ।

circumferential—(L. *circum*, around; *ferre*, to bear) परिवृत; परिधिक ।

circumfila—(L. *circum*, around; *filum*, thread) परिसूत्र ।

circumflex—(L. *circum*, around; *flectere*, to bend) परिनत— ।

circumfluence—(L. *circum*, around; *fluens*, flowing) परिस्तर; परिस्तर काशन; प्रोटोजोआ में खाद्य का अन्तर्ग्रहण—जिसमें प्रोटोजोआ खाद्य की ओर बहता है और स्पर्श होने पर घेर लेता है ।

circumgenital—(L. *circum*, around; *gignere*, to beget) परिजनन छिद्रक ।

circumnutation—(L. *circum*, around; *netare*, to nod) चक्राकार गति ।

circumoesophageal—(L. *circum*, around; Gk. *oisphagos*, gullet) परिग्रसनी; निगल परिगामी ।

circumpolar—(L. *circum*, around; *polus*, end of axle) परिध्रुवी; ध्रुवीय क्षेत्र के वनस्पति तथा जन्तु समूह ।

circumscissile—(L. *circum*, around; *scindere*, to cut) परिस्फुटन ।

circumscrip—(L. *circumscribere*, to draw line around) परिछिद्रावरोधक (पेशी) ।

circumvallate—परिभित्तिक ।

circumvallation—(L. *circum*, around; *vallare*, to wall) परिभित्तिकाशन । प्रोटोजोआ के फँसे हुए मिथ्यापाद (pseudopodia) द्वारा खाद्य का अन्तर्ग्रहण (ingestion) ।

circumstances—परिस्थितियाँ ।

cirrate—(L. *cirratu*s, having ringlets) अनुरोम मय; अनुरोम युक्त; अनुरोमी ।

cirrose—(L. *circus*, lock) प्रतानी; सिरसी; अनुरोमी ।

cirrus, cirri—(L. *cirrus*, lock) सिरस; अनुरोम । (?) प्रतान (tendrils) ।

(२) वरनाक्लिस (barnacles) के अवयव ।

(३) सन्धिक तन्तु (jointed filaments), क्रीनोइड जन्तुओं के ।

(४) स्पर्श प्रवर्ध (मत्स्यों के) ।

(५) श्वसन तथा स्पर्शक अवयव (कृमियों के) ।

(६) सम्भोग अंग (मौलस्क और पट्टकृमि के)

(७) कीटों के अङ्गों पर रोम सदृश आकृतियाँ ।

cisterna chyli—काइली कुण्डिका ।

citrin—(L. L. *citrum*, lemon) सिटरीन; विटामिन 'P'; नीबू के रस का एक कारक जो कोशिकाओं की शोषणता को नियंत्रित करता है ।

citrulline—(L. *citrullus*, water melon) सिट्रुलीन; तरबूज से प्राप्त होने वाला अमीनो अम्ल; $C_6H_{13}O_3N_3$; आरनीथाइन (ornithine) से यूरिया बनने के मध्य का एक रसायन ।

cladanthous—(Gk. *klados*, sprout; *anthos*, flower) अंकुर मंजरी; स्फुटपुष्पी; लघु पार्श्व शाखाओं के शिखर पर लगी स्त्रीघानी (archegonia) जिससे फूल सदृश आकृति दृष्टिगोचर होती है ।

cladautoicous—(Gk. *klados*, sprout; *antos*, self; *oikos*, house) विशिष्ट स्तम्भी पुंघानी (anth-eridia) ।

cladode—(Gk. *klados*, sprout) पर्णाभि पर्व; क्लैडोड; पर्णाक्ष से उद्भूत शाखा ।

cladodont—(Gk. *klados*, sprout; *odontos*, tooth) अंखुआदन्त; ऐसे दाँत जिनके केन्द्रीय कर्ष प्रमुख तथा पार्श्वीय कर्ष छोटे होते हैं ।

cladogenesis—(Gk. *klados* sprout, *genesis*, descent) अंखुआजनन; विकासी आकृतियों का इस प्रकार विभाजन की नये प्रारूप बन जायें ।

cladome—(Gk. *klados*, sprout) क्लैडोम; त्रिशाखीय (triaene) में स्थिति आभासी किरणें ।

cladophyll—(Gk. *klados*, sprout; *phyllon*, leaf) पर्णाभिस्तंभ; वर्णाभिपर्व ।

cladoptosis—(Gk. *klados*, sprout; *ptosis*, fall-

ing) वर्षीय अवसाद; वर्षीय भ्रंश या पतन (शाखाओं आदि का) ।

cladose—(Gk. *klados*, sprout) शाखीय; शाखा-न्वित ।

cladotyle—(Gk. *klados*, sprout; *tylos*, knob) क्लैडोटोटाइल; शलकूट (rhabdus) की एक शाखा तारोपम तथा दूसरी कांडीया (tylote) ।

clandestine—(L. *clandestinus*, from claw, secretly) अस्पष्ट विकास; ऐसा विकास जो प्रांढ़ (adult) में अस्पष्ट रहता है ।

clasmatocyte—(Gk. *klasma*, fragment; *kytos*, hollow) पुरारक्त कोशिका ।

claspers—(M. E. *clespen*, to hold) (१) आलिंगक; आलिंगन अंग; (२) प्रतान (tendrils) ।

clasping—(Gk. *clasper*, to hold) आलिंगन ।

class—(L. *classis*, division) वर्ग; क्लान; जन्तु या वनस्पति के वर्गीकरण में फाइलम या संघ (phylum) वर्ग (class) में, तथा वर्ग (class) गण (order) में विभाजित रहता है ।

classification—वर्गीकरण ।

clathrate—(Gk. *klethra*, lattice) क्लैथरेट; जालरी सदृश; जालीसम ।

claustrum—(L. *claustrum*, bar) कलॉस्ट्रम; आपांडुस्तर ।

(१) प्रमस्तिष्क गोलार्ध (cerebral hemisphere) में बाह्य सम्पुट (external capsule) के पार्श्व, भूरे (अपांडु) पदार्थ वा पतला स्तर ।

(२) सिपरीनिडी (cyprinidae) और कारासीनिडी (characinidae) का एक वेबरियन ओसाईकिल (waberian ossicle) ।

clava—(L. *clava*, club) मुद्गर; धूनान्त; कुछ कीटों के स्पर्शतन्त्र का घुण्डीनुमा अंतिम जोड़ ।

clavate—(L. *clava*, club) मुद्गरोपम ।

clavicle—(L. *clavis*, key) क्लेविकल; जन्तुक; हंसनी की हड्डी ।

- clavicular—(L. *clavis*, key) क्लेविकल सम्बन्धी ।
 clavicularium—(L. *clavicula*; small key) क्ले-
 विकुं लेरियम; स्पोप्लास्टेन; भ्रगवक्षपट्ट ।
 clavola—(L. *clava*, club) धूनान्त । कीटों के स्पर्शतंत्र
 का कयीय भाग (portion) या अंतिम जोड़ ।
 clavus—(L. *clavus*, nail) क्लैवस; गदाखण्ड; पक्ष
 वर्म खण्ड; हेमिप्टेरा (Hemiptera) में पृष्ठिका पक्ष
 (scutellum) के समीप का पक्ष वर्म (elytron) का
 भाग ।
 claw—(A. S. *clawn*, claw) नखर; पंजा ।
 cleavage—(A. S. *cleofan*, to cut) विदलन; दरार;
 विदर; विभाजन; भाजन; डिम्ब विभाजन ।
 cleavage nucleus—न्यूक्लियस विदलन; भ्रजनाण्टि; नर
 और मादा पुराण्टियों (pronuclei) के संयोग से उत्पन्न
 भ्रूण कोशिका (zygote or fertilised egg) की
 न्यूक्लियस ।
 cleidoic—(Gk. *kleis*, bar; *oon*, egg) आवृत डिम्ब;
 झिल्लीदार डिम्ब; तुपीय डिम्ब; कला (membrane) या
 तुप (shell) युक्त डिम्ब (egg) ।
 cleistocarp—(Gk. *kleistos*, closed; *kerpos*,
 fruit) क्लाइस्टोकार्प; अन्तः स्पोरी, ऐसा स्पोर स्योत
 कवच (ascocarp) जो बन्द रहता है और स्पोर अन्दर
 ही बनते हैं ।
 cleistocarpous—(Gk. *kleistos*, closed; *kerpos*,
 fruit) अल्लदी सम्पुट ।
 cleistogamic—(Gk. *kleistos*, closed; *gamos*,
 marriage) अप्रधान स्वयं नियेक पुष्पी; स्वयंनियेक ।
 cleistogamy—(Gk. *kleistos*, closed; *gamos*,
 marriage) स्वयं नियेक; अस्पष्टजनन ।
 cleistogene—(Gk. *kleistos*, closed; *genos*,
 descent) स्वयं नियेक पादप; अस्पष्ट पुष्पी पादप
 (पौधा) ।
 cleithrum—(Gk. *kleithron*, key) जन्तुकामिका ।
 climacteric—(Gk. *klimakter*, step of staircase)

- ऋतु-अवसान; जीवित जन्तुओं के जीवन का एक परि-
 वर्तन काल ।
 climatypic—(Gk. *klima*, climate; *typos*, image)
 जलवायु प्ररूप; परिस्थित जीव प्ररूप ।
 climax—(Gk. *klimax*, ladder) चरमावस्था; परा-
 काण्ठा; पराकोटि; उत्तरोत्तर उत्कर्ष ।
 clinandrium—(Gk. *kline*, bed; *aner*, man)
 क्लाइनानड्रियम; परागकोश मध्य गुहा ।
 cline—(Gk. *klinein*, to slant) प्रवण; प्रवणता;
 लक्षण तत्व ।
 clinidium—(Gk. *klinidion*, small couch) स्पोरज
 तंतु ।
 clinoid—(Gk. *kline*, couch; *eidos*, form) पर्याणी;
 तुर्क पर्याण या सिल्ला टरसीका (sella turcica) के
 प्रवर्ध ।
 clinosporangium—(Gk. *kline*, bed; *spora*, seed;
anggeion, vessel) मंचस्पोरी ।
 clitellum—(L. *clitellae*, pack saddle) क्लाइटेलम;
 पर्याणिका; परिवन्ध; काँची; ऐनेलिडा (मुद्रा खण्डियों)
 में अधिच्छद (epithelium) में काठीनुमा फूला हुआ
 भाग विशेष । (देखिये cingulum).
 clitoris—(Gk. *kleiein*, to enclose) क्लाइटोरिस;
 भगनासा; भगशिशन ।
 cloaca—(L. *cloaca*, sewer) अवस्कर; गुदाद्वार;
 मलवेष्म; स्तनी के अतिरिक्त कशेरुकों (vertebrates)
 में पाया जाने वाला सामान्य वेष्म (common chamber)
 जिसमें अंत्र, जनन तथा मूत्र नलिकायें खुलती हैं ।
 clone—(Gk. *klon*, twig) क्लोन; अनियेकज; अलिंगी
 (asexual) रीति से उत्पन्न-व्यक्ति (individual) ।
 किसी एक पूर्वज (ancestor) से अलिंगी रीति के उत्पन्न
 व्यक्ति समूह ।
 clot—यक्का; चक्का; जमना (रक्त का); आवंच; धनरक्त ।
 clypeal—(L. *clypeus*, shield) क्लाइपियस;
 शिरस्पट्टिका ।

clypeate

clypeate—(L. *clypeus*, shield) क्लिपियसी, क्लिपियस युक्त ।

clypeola, clypeole—(L. *clypeus*, shield) बीजाणु-धानी; इक्वीसेटम (*Equisetum*) फर्न की बीजाणुधानी (sporophyll) ।

clypeo-labral—मुख पट्टिका-अग्रोष्ठीय; क्लिपियस और अग्रोष्ठ (labrum) के बीच की सन्धि रेखा (suture) ।

clypeus—(L. *clypeus*, shield) क्लिपियस; मुखपाली; मुख पट्टिका; कीटों के सिर पर पाई जाने वाली एक पट्टिका (sclerite) ।

cnemial—(Gk. *kaemis*, legging) प्रजंघिका; टिविया सम्बन्धी; टिविया मेड़ ।

cnemidium—(Gk. *knemis*, legging; *idion*, dim) अपक्ष-पद । पक्षियों की टांग का पंख रहित निचला भाग ।

cnemis—(Gk. *knemis*, legging) टिविया पिंडली; प्रजंघा ।

cnida—(Gk. *knide*, nettle) दंशक कोपिका ।

cnidoblast—(Gk. *knide*, nettle; L. *blastos*, bud) दंशकोशिका; सीलेन्ट्रेटा सीलोमांत्रीयों (colenterates) में दंशक कोशिका (nematocyst) ।

cnidocil—(Gk. *knide*, nettle; L. *cilium*, eyelid) दंश-प्रवर्ध; दंशक कोशिका सूत्र ।

cnidophore—(Gk. *knide*, nettle; *pnerein*, to bear) दंशक-कोशिकाधारी; एक प्रकार का मुकुल जिस पर दंशक कोशिकायें (nematocysts) होती हैं ।

cnidopod—(Gk. *knide*, nettle; *pous*, foot) दंशक कोशिका आधार (पाद); दंशक कोशिका का निचला प्रवर्धित भाग जो मध्य श्लेष (mesoglea) में घुसा रहता है ।

cnidosac—(Gk. *knide*, nettle; L. *saccus*, bag) दंशकशोय; साइफोनोफोरा (siphonophora) में पाया जाता है ।

coaction—(L. *cum*, with; *action*, action) पारस्परिक कार्य; समुदाय (community) में जीवों (org-

anism) का परस्पर सम्बन्ध मूचक (reciprocal) कार्य ।

coadaptation—(L. *cum*, with; *ad*, to; *aptare*, to fit) पारस्परिक उपयुक्ता; पारस्परिक अनुकूलता ।

coagulation—(L. *cum*, with; *agere*, to drive) स्कंदन, श्यानता; जमना; घनीभूत होना ।

coagulin—(L. *cogere*, to drive together) श्यानक; घनीकारक ।

coagulum—(L. *cogere*, to drive together) स्कंद; श्यान; जमा हुआ पदार्थ ।

coarctate—(L. *coarctare*, to press together) संकुचित मध्य; संकुचन (constriction) से पृथक वक्ष (thorax) और उदर (abdomen) वाला ।

coarctate larva or pupa—(L. *coarctare*, to press together) संकुचित मध्य लारवा या प्यूपा ।

cocci (pi.)—(Gk. *kokkos*, seed) गोलाणु (बहुवचन) (see sing. coccus.)

cocogone—(Gk. *kokkos*, seed; *gonos*, birth) कोकोगॉन; जनन कोशिका (शैवाल) किन्हीं शैवाल (algae) की एक उत्पादक कोशिका ।

cocoid—(Gk. *kokkos*, seed; *eidos*, form) गोलाणु सम; गोलाणु-सम्बन्धी ।

cocolith—(Gk. *kokkos*, seed; *lithos*, stone) खरिक स्पीक्यूल; किन्हीं कपाधारियों (flagellates) के खरिक स्पीक्यूल (calcareous spicule) ।

coccospheres—(Gk. *kokkos*, seed; *sphaira*, globe) दृढ़शोष; किन्हीं शैवाल (algae) और रेडियोलेरियन्स (Radiolarians) के दृढ़ अवशोष ।

coccus—(Gk. *kokkos*, seed) कॉक्स; गोलाणु (एक वचन) ।

coccygeal—(Gk. *kokkyx*, cuckoo) अनुत्रिक; पुच्छस्थि; पुच्छस्थि सम्बन्धी ।

coccyx—(Gk. *kokkyx*, cuckoo) अनुत्रिक; पुच्छस्थि; कशेरुकर का वह भाग जो सैक्रम के पश्चात् स्थित रहता है ।

cochlea—(Gk. *kochlias*, snail) कर्णावर्त; कौक-
लिया; कम्बु ।

cochlear—(Gk. *kochlias*, snail) कम्बुक; कम्बु—;
कम्बुसम्बन्धी ।

cochleariform—(Gk. *kochlias*, snail; L. *forma*,
shape) पंचनुमा; चम्मचनुमा ।

conchleate—(Gk. *kochlias*, snail) पंचदार कम्बु
नदृश; पंच सदृश; पंचनुमा ।

cockroach—निल चट्टा; तैलचोर; आर्थोपोडा फाइलम
का एक जन्तु विशेष ।

cocoon—(F. *cocoon*, shell) कोकून; कोया; पिटका ।
जन्तुओं द्वारा अपने डिम्बों अथवा अपने लिये जैसे प्रोटो-
पेटेरा लगफिश में निर्मित रेशम या अन्य प्रकार का
आवरण (खोल) ।

coelarium—दैहिक अधिच्छद ।

coel—(Gk. *koilia*, belly) सील; गह्वर ।

coelenteron—(Gk. *koilia*, belly) आंतर गुहिका;
सीलोमात्र; गह्वरांत्र; सीलेन्ट्रेटा (coelenterata) जन्तुओं
की देह गुहा (body cavity) ।

coelenterata—(Gk. *koilia*, belly) सीलेन्ट्रेटा;
सीलो मांघी; (coelenterates) अकशेरु दण्डियों (in-
vertebrates) के एक फाइलम (संघ) का नाम । इस
संघ (फाइलम) के जन्तुओं में केवल दो प्रमुख जनन स्तर
(primary germinal layers) होते हैं और सीलोम
(coelom) तथा अ रकेन्ट्रोन-पुरान्त्र (archentron)
अलग-अलग नहीं होते ।

coeliac—(Gk. *koilla*, belly) उदर-गुहा; औदरिक;
उदर-सम्बन्धी ।

coeloblast—(Gk. *koilos*, hollow; *blastos*, bud)
मीनोब्लास्ट; गह्वरज भ्रौणिक (embryonic) अन्तःस्तर
(hypoblast) का एक भाग ।

coeloconic—(Gk. *koilos*, hollow; *kanos*, cone)
कीनक (संवेदिका); मूच्याकार प्रवर्धयुक्त संवेदिकायें
(sensillae) ।

coelogastrula—(Gk. *koilos* hollow; *gaster*,
stomach) कोटर द्विस्तर; आद्यद्विस्तर (गैस्ट्रूला) ।

coelom—(Gk. *koilos*, hollow) सीलोम; देहगुहा;
गह्वर; कोटर । त्रिकोरकी (triploblastic) जन्तुओं
के शरीर की मुख्य देह गुहा जिसमें अन्न बालम्बित
रहती है । यह मध्यजन स्तर में स्थिति होती है और
इसमें अधिच्छद (epithelium) जिसे मध्याधिच्छद
(mesothelium) कहते हैं का अस्तर लगा होता है ।
वह तरल युक्त होती है । इसकी भित्ति या इसके किसी
विशिष्ट भाग में जनन कोशिकायें (germ cells) परि-
पक्व होती हैं और इसमें (सीलोम) में मुक्त कर दी
जाती है और सामान्यतः प्रगुहा वाहिनीयों (coelomo-
ducts) या कशेरुकों में डिम्ब वाहिनी (oviducts)
द्वारा वाहर ले जाई जाती है । अनेक जन्तुओं में विस-
जित पदार्थ इसमें एकत्रित होते हैं जहाँ से प्रगुहावाहिनी
या वृक्कक (nephridia) द्वारा विसर्जित कर दिये
जाते हैं । सीलोम (देह गुहा) इकाईनोडमेटा (echino-
dermata), कशेरुक (vertebrata), एनेलिडा में
हीरुडीनिया के अतिरिक्त पोलीकीट और ओलीगोकीट
में विस्तृत होती है । हीरुडीनिया (Hirudinea) में
यह पर्यतरंग गुहिका (perivisceral cavity) होती
है । आर्थोपोडा और मॉलस्का में यह केवल जनन ग्रन्थि
(gonads) और विसर्जन (excretory) अंगों की
गुहिका (cavity) होती है । इसमें पर्यतरंग गुहिका न
होकर रक्त गुहा (haemocoel) होती है ।

coelomate—सीलोमेट; सीलोम वाले; गह्वरधारी; कोटर
युक्त ।

coelomesoblast—(Gk. *koilos*, hollow; *mesos*,
middle; *blastos*, bud) कोटर मध्यांकुर ।

coelomic—देहगुहा; देहगुहा सम्बन्धी; देह कोटर
सम्बन्धी ।

coelomic epithelium—देहगुहा उपकला; गह्वरा-
धिच्छद ।

coelomic fluid—देहगुहा रस; देह कोटर रस ।

coelomoblast—(Gk. *koilos*, hollow; *mesos*,

coelomocytes

middle; *blastos*, bud) कोटर मध्यांकुर; डिम्ब विभाजन (segmentation) में मध्यस्तर का वह भाग जो वर्धित होने पर देहगुहा (सीलोम) की भित्ति को बनाता है।

coelomocytes—(Ok. *koilos*, hollow; *kytos*, hollow vessel) कोटररसकण।

coelomoduct—(Ok. *koilos*, hollow; L. *ducere*, to lead) देहगुहावाहिनी। प्रगुहावाहिनी।

Coelomopores—(Ok. *koiloma*, hollow; *poros*, passage) परिहृत्य वाहिनी छिद्र; ऐसी वाहिनी (ducts) जो परिहृत्य गुहा (Pericardial cavity) से सीधी बाहर खुलती हैं, ऐसा विशेषतः नाटीलस (Nautilus) जन्तु में होता है।

coelomostome—(Gk. *koilos*, hollow; *stoma*, mouth) देहगुहा द्वार; गह्वर नली द्वार।

coelosperm—(Ok. *koilos*, hollow; *sperma*, seed) नौकाभ बीज; अन्तः पुटाकार बीज; अन्तः पुटी अंडपी।

coelozoic—(Ok. *koilos*, hollow; *zoon*, animal) कोटरवासी; देहगुहा वासी।

coenanthium—(Ok. *koinos*, common; *anthos*, flower) सीनेनधीयम (पुष्प क्रम); ऐसा पुष्पक्रम (inflorescence) जिसमें समान पात्र (flat receptacle) होता है तथा किनारे कटे हुए नहीं होते हैं।

coenenchyma, coenenchyme—(Ok. *koinos*, common; *enchyma*, infusion) योजकोतक; सीनेन काइमा; सामान्य क्वाघ; सर्वकृतक; यौगिक कोरल (coral) में पाया जाने वाला सर्वकृतक (common tissue) जो मुकुलों (polyps) को जोड़ता है।

(देखिये—coenosarc सर्वकृतक या सामान्य तन्तु)

coenobium—(Gk. *koinos*, common; *bios*, life) सिनोवियम; संमंडल; अभेदी जन्तु दल। एक कोशिकीय (unicellular) जन्तुओं का ऐसा दल (colony) जिसमें पौष्टिक (vegetative) और उत्पादन शील (reproductive) व्यक्ति भेद नहीं होता।

coenoblast—(Gk. *koinos*, common; *blastos*, bud) सामान्य स्तरज; सीनोब्लास्ट; वह जनन स्तर (germinal layer) जिससे मध्य और अन्तः स्तर दोनों बनते हैं।

coenocentre—(Gk. *koinos*, common; *kentron*, सहकेन्द्र; संकेन्द्र; कुछ फन्जाई (fungi) में डिम्ब के साथ अत्यधिक गहरा रंग लेने वाला पिण्ड (body)।

coenocyle—(Gk. *koinos*, common; *kytos*, hollow) संकोशिका; सीनोसाइट; पादप काय जिसमें प्रकण (प्रोटोप्लास्ट) कोशिका भित्ति से पृथक नहीं होते हैं।

coenocidium—(Gk. *koinos*, common; *gamos*, union) सर्व-आधारक; सर्वाधारक।

coenogamete—(Gk. *koinos*, common; *gamos*, union) सीनोगेमिट; बहुनाभिक जन्तु; बहुअण्डिक जन्तु; युग्मकसंमंडल।

coenosarc—(Gk. *koinos*, common; *sarx*, flesh) सीनोसार्क; सामान्यकृतक; योजकनाल; संयुक्त जन्तु दल (compound colony) में वह सामान्य (common) कृतक या तन्त्र जो मुकुलों को आपस में जोड़े रहता है।

coenosteum—(Gk. *koinos*, common; *osteon*, bone) सामान्यपंजर। मूंगे या कोरल (corals) आदि में पाया जाने वाला सामान्य जन्तुदलीय (colonial) पंजर।

coenozygote—(Gk. *koinos*, common; *zygon*, yoke) सीनोजाइगोट; सामान्य भ्रूण कोशिका; भ्रूण कोशिका; वह भ्रूण कोशिका जो सामान्य जन्तुओं (coenogametes) से बना हो।

coenurus—(Gk. *koinos*, common; *oura*, tail) सामान्य स्योतिकार्भक; सामान्य स्योतिटिभिक। दीर्घ कोशिका युक्त स्योतिकार्भक (metacystode) जिनकी भित्ति (wall) से कई एक दुहितानिस्ट (daughter cyst) पृथक सिर लिये बनते हैं।

co-enzyme—(L. *cum*, with; Gk. *en*, in; *zyme*,

coherent

lc.ven) कोणुजाइम; सहस्रोभक; ऐसा रमायन जो दोभक के प्रभाव को तीव्र करे ।

coherent—(L. *cohaerere*, to stick together) सम्बद्ध; संसक्त ।

cohesion—(L. *cohaerere*, to stick together) संश्लेष; संयोग; संलग्नता; पुष्प चक्र (floral whorl) में पृथक भागों का आपस में मिल जाने की दशा ।

[देखिये—adhesion—आसंग; आसक्ति]

cohort—(L. *cohors*, enclosure) सम्बन्ध-कुल समूह ।

coil—(L. *colligere*, together) कुण्डली; लपेट; नपेटना ।

coiled—(L. *colligere*, together) कुण्डलित; लिपटा हुआ; कुण्डलाकार ।

coition—(L. to *coire*, to go together) मंथुन ।

colchicine—(L. *colchicum*, meadow saffron. from *colchis*, ancient Mingrelia) कोलकोसिन, एक एल्केलाइड, $C_{25}H_{25}O_6N$; यह सूत्री विभाजन (mitosis) तथा ऊतक उपापचय (tissue metabolism) को प्रभावित करता है ।

colcogen—(Gk. *koleos*, sheath; *genos*, generation) पूर्वअन्तः स्तरज; विभज्योतकी (meristematic) स्तर जो अन्तःस्तर (endodermis) को जन्म देती है ।

cold blooded—अनियततापी; अमिततापी; भिन्नतापी ।

coleogen—(Gk. *koleos*, sheath; *genos*, generation) कॉलियोजन; कञ्चुकस्वरज ।

coleopterous—(Gk. *kolios*, sheath; *pteron*, wing) कञ्चुक पक्ष ।

coleoptile—(Gk. *koleos*, sheath; *ptilon*, feather) कोनियोपटिल; प्रथमपर्ण छद् या कवच; एक बीज पत्री पौधों के बीजाकुरण में निकलने वाली पहली पत्ती का कवच या छद् ।

coleorhiza—(Gk. *koleos*, sheath; *rhiza*, root) मूलानुरचीन; मूलानुर (radicle) को घेरने वाला स्तर ।

colic—(Gk. *kolon*, colon) बृहदांत्र—; बृहदंत्रीय; बृहदंत्रिक ।

collagen—(Gk. *kolla*, glue; *genos*, descent) कॉलाजन ।

collar—(Gk. *koler*, collar) कॉलर; परिवन्ध; पट्टा ।

collateral—(L. *cum*, with; *lateron*, sides) संप्त-श्विक; सहगामी ।

collenchyma, collenchyme—(Gk. *kolla*, glue; *engechyma*, infusion) स्थूलकोण-ऊतक; कोशिका क्वाथ; स्पंज का मध्यस्तर (middle layer) ।

collenocyte—(Gk. *kolla*, glue; *kytos*, hollow) श्लेपी कोशिका; निष्कण कोष्ठ; छिद्रदेहियों—स्पंज में पाई जाने वाली स्पष्ट कोशिका (clear cell) विशेष, जिसमें धागे जैसे वारीक अधिरपाद (pseudopodia) होते हैं ।

collet—(F. *collet*, collar) त्वकावरण हीन स्थल; बीजपत्राधार (hypocotyl) का वह मूल (root) क्षेत्र (zone) जहाँ तनुत्वकावरण (cuticle) नहीं होता है ।

colleterium—(Gk. *kolla*, glue) श्लेष्म ग्रन्थि; श्लेष्मिका । कीटों (insects) के स्त्री जनन तन्त्र (female reproductive system) में पाई जाने वाली श्लेष्म (mucous) उत्पादक ग्रन्थि विशेष ।

colleters—(Gk. *kolletos*, glued) श्लेष्मजरोम; सप्रथिरोम ऐसे रोम जो चिपचिपा श्लेष स्थापन करते हैं जो कलिकाओं (buds) को ढकता है ।

colletocystophore—(Gk. *kolletos*, glued; *kystis*, bladder) समतलक-करत दण्ड; आसं त्रुटीधर; कोलेटोसिस्टोफोर । हूलीक्लिस्टस का समतलक-कण दण्ड (statorhab) ।

colliculus—(L. *colliculus*, little hill) पिण्डक; वप्र ।

(१) नेत्र चतुष्पिण्ड (corpora quadrigemina) का या छद् प्राधान्य (prominence) ।

(२) एरीटॉनोइड (arytaenoid) उपास्थि के अग्र पार्श्व तल (antero-lateral surface) के गिम्बर के समीप का उत्थान (elevation) ।

(३) दृष्टि तंत्रिका (optic nerve) का रेटिना के प्रवेश स्थल का उत्तुंग (elevation) ।

(४) शिशन शीर्ष (urethral crest) का उत्तुंग ।
colloblast—(Gk. *kolla*, glue; *blastos*, bud) कॉलोब्लास्ट; नियसिज; टीनोफोर (ctenophore) जन्तुओं में पाया जाने वाला स्पर्श-तन्त्र (tentacle) और पात्रांग (pinna) पर स्थित कोशिका विशेष जिस पर चिपकने वाले तरल की बूँदें लगी रहती हैं ।

colloid—(Gk. *kolla*, glue; *eidōs*, form) कोलॉइड; कलिल ।

collophore—(Gk. *kolla*, glue; *pherein*, to bear) नियसिज नली; कोलमवोना की अधर नली ।

collum—(L. *collum*, neck) कोलम; ग्रीवा; गर्दन; कोई परिवन्ध (collar) समान रचना ।

colon—(Gk. *kolon*, colon) कोलन; बृहदन्त्र;
(१) बृहदन्त्र (large intestine) का मुख्य भाग ।
(२) कीटों (insects) के अन्त्र का द्वितीय भाग ।

colon ascending—आरोही कोलन ।

colon descending—अवरोही कोलन ।

colony—(L. *colonia*, farm) कॉलोनी; निवह; जन्तु-दल ।

colour—(L. *color*, akin to) रंग; वर्ण ।

colostrum—(L. *colostrum*, colostrum) कॉल-स्ट्रम; प्रसव के अन्त का दूध; नवस्त-य; नवदुग्ध; पीयूष ।

colulus—(dim. of L. *colus*, distaff) पेवनी ।

columella—(L. *columella*, small column) स्तम्भिका; कालूमेला; स्तम्भास्थि ।

(१) बीजाणुधानी (sporangium) के वृत्त का बढ़ा हुआ भाग ।

(२) कुछ प्रवाल (corals) की अस्थि का केन्द्रीय स्तम्भ ।

(३) गैस्ट्रोरोपोडा कवचीयों का केन्द्रीय स्तम्भ ।

(४) एपीटेरिगाइड (epipterygoid) ।

(५) पक्षी, सृषी, तथा एम्फीविम (जल पल चर) के

अन्तः कर्ण (internal ear) कर्ण पट (tympanum) से जोड़ने वाली मुग्दरनुमा अस्थि (columella) विशेष ।

(६) काकिलिया (cochlea) का अक्ष (axis) ।

(७) नासा विभाजक भित्ति (nasal septum) का अधः भाग ।

column, columna—(L. *columna*, pillar) स्तम्भ स्थाणु; स्तम्भ ।

columnar—(L. *culumen*, column) स्तम्भी; स्तम्भाकार ।

coma—रोम गुच्छ ।

comes—(L. *comes*, companion) संसर्गी । रक्त वाहिनी जो तंत्रिका के साथ-साथ रहती है ।

comitalia—(L. *comitari*, to accompany) कॉमी-टेलिया; स्पंज में द्वि या त्रि अरी स्फीब्यूल ।

comma—(Gk. *komma*, short clause) (१) पुच्छ; पूँछ । (२) सोम्य कोशिका (३) हैजे के वैक्टोरिया । (४) रोम गुच्छ ।

commensal—(L. *cum*, with; *mensa*, table) सह-भोजी; वह प्राणी जो किसी अन्य प्रकार के जीव के साथ रह कर भोजन में हिस्सा बटावे । इस प्रकार के सामान्य जीवन से प्रायः दोनों जीवों का पारस्परिक लाभ होता है ।

commensalism—(L. *cum*, with; *mensa*, table) सह भोजिता; सहभोजता ।

comminator—(L. *cum*, with; *minari*, to threaten) कमीनेटर; अरस्तु-लेंटर्न के समीची जबड़ों को जोड़ने वाली पेशियाँ ।

commissure—(L. *cum*, together; *mittere*, to sent) संघायी; परियोजी; सम्बन्धक; संयोजक ।

(१) भार्पोपोडा और एनेलिडा जन्तुओं में दुहरी तंत्रिका रज्जु (double nerve-cord) के प्रत्येक गैंगलिया युग्म के गैंगलिया को जोड़ने वाली तंत्रिका सूत्रों की अनुप्रस्थ रज्जु (transverse cord) ।

(२) अर्पोपोडा और एनेलिडा—सरकम-इन्सु-फेजियल कमिश्योर (circum-oesophageal commissure)

इसोफेगम के ऊपर और नीचे स्थिति गैंगलिया को जोड़ने वाला तंत्रिका रज्जु (nerve cord)।

(३) कर्दोरुकों (vertebrates) में तंत्रिका सूत्रों के बंडल जो मस्तिष्क और सुपुम्ना के दायें और बायें ओर के भागों को जोड़ते हैं।

(४) मीलस्का (mollusca) में गैंगलिया को जोड़ने वाले तंत्रिका रज्जु।

common—(L. *communis*, prob. from *com*, together, and *munis*, serving, obliging) साधारण; सामान्य; सह; सर्व।

community—(L. *communitas*, common) समुदाय; निकर।

comose—(L. *comosus*, hairy) रोमगुच्छक।

companion cell—सह कोशिका; एक संकुचित कोशिका जो एक अन्य कोशिका से निर्मित होती है तथा जिसके साथ चालनी नालिका खण्ड (sieve tube segment) का भी निर्माण होता है।

compass—(L. *cum*, together; *passus*, pace) द्विभक्ति आकृति; अरस्तु लैंटर्न (Aristotle's lantern) का एक भाग।

compass plants—दिक् सूचक पादप; ऐसे पौधे (पादप) जिनकी पत्तियों के किनारे सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा को रते हैं।

compensation point—प्रतिफल बिन्दु।

(१) सामान्यतः हरे पौधे अंधकार में श्वसन क्रिया करते हैं जिसमें वे ऑक्सीजन लेते तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) की क्रिया होती है जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इन दोनों क्रियाओं के मध्य एक ऐसा बिन्दु आ जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण और श्वसन समान होते हैं और इस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोई भी बाहर नहीं निकलते हैं, इस बिन्दु को प्रतिफल बिन्दु (compensation point) कहा जाता है।

(२) कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण (carbon-dioxide concentration) सम्बन्धी प्रतिफल बिन्दु का भी वर्णन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण प्रतिफल बिन्दु वह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रणता सम्बन्धित वातावरण में होती है जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में लेने की दर और श्वसन में निकालने की दर समान होती है।

competence—(L. *competere*, to sint) योग्यता; स.मर्थ्य; शक्ति।

complement—(L. *complere*, to fill up) पूरक; कम्प्लीमेन्ट; (१) अलेक्सिन (alexin)। (२) रक्त सीरम का वह पदार्थ जो ऊष्मा से नष्ट कर देने पर विदलनात्मक प्रतिरक्षी (amboceptor) के साथ विलयता (lysis) लाता है। (३) एक समूह जो न्यूक्लियस से उद्धित एक, दो या अधिक गीनोम (न्यूनतम सूत्री) या गुणसूत्र सेट का बना होता है।

complemental air—व वायु का आयतन जो सामान्य श्वसन के अतिरिक्त ल लिया जाता है।

complemental male—पूरक नर; किन्हीं जन्तुओं जैसे बरनाक्लिस (barnacles) में विणुद्ध नर का सामान्य उभयलिंगी के समीर पाया जाना।

complementary—(L. *complere* to fill up) पूरक; (१) कोरोनोइड अस्थि; (२) काक ऊतक (cork tissue) की विगलित (loosely arranged) कोशिकायें जिनसे वायु पथ का निर्माण होता है। (३) जी स (genes) जो विगलित कोशिकाओं सदृश ही प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

complexity—गूढ़ता।

complexus—(L. *cum*, together; *plectere*, to knit) समुदाय।

complicant—(L. *cum*, together; *plicare*, to fold) तह किया हुआ।

complicate—(L. *cum*, together; *plicare*, to fold) संबलित; पण अथवा पक्ष जो अनुदर्थ्य प्रकार से एक दूसरे पर संबलित (folded) रहते हैं।

composite—(L. *cum*, together, *ponere*, to place) घना विरचित; गुच्छीय; संग्रहित । (१) कम्पोजिट पुष्पक्रम जैसे मुण्डक या केपिटुलम । (२) संग्रहित फल जैसे सोरोसिस (Sorosis) कटहल, अनानास, शहतूत; साइकोनस (syconus) अंजीर, गूलर, बरगद ।

connound—(L. *cum*, together; *ponere*, to place) यांगक; संयुक्त जैसे फूल, पत्ती, चक्षु आदि ।

compound eye—(L. *componere-com-*, *ponere*, to place) संयुक्त नेत्र; यौगिक नेत्र ।

compressor—(L. *cum*, together; *premere*, to press) संपीडी; संकोची (पेशी) ।

conarium—(Gk. *konarion*, little cone) शंकुक; कोनेरियम; (१) पिनियल ग्रन्थि (२) सेरेब्राई अधि-प्रवर्ध (epiphysis cerebri) (३) वेलीला (velella) का पारदर्शक लारवा (larva) ।

concatenate—(L. *cum*, together; *catenatus*, (curved) शृंखलिक (स्पोर आदि) ।

concentration—(L. *con*, *centrum*, Gk. *kentron*, point) एकत्रीकरण ।

concentrating (nerve fibres)—(L. *con*, *centrum* Gk. *kentron*, point) एकत्री कारक (तंत्रिका सूत्र) ।

concentric—(L. *cum*, together; *centrum*, centre) एक केन्द्रीय ।

conceptacle—(L. *concupere*, to conceive) युग्मकधानी पात्र; किन्ही शैवाल (algae) के धेलस (पर्ण-स्तम्भी स्थल) का गड्ढा जिसमें युग्मकधानी (gamet-angia) होती हैं ।

conception—(L. *concupere-ceptum*, to conceive) गर्भाघन ।

conceptive—(L. *concupere*, to conceive) निषेकी; निषेक युक्त ।

concha—(Gk. *koncha*, shell) शंखिका; शंख; कर्ण कुहर; (१) बाह्य कर्ण कुहर जो बाह्य ध्वनि पथ (meatus) में खुलती है । (२) नासा कुहर की पार्श्व

भित्ति का उर्ध्व मध्यीय और अधः प्रवर्ध । (३) घूर्णास्थि; टरवाइनल पिण्ड (turbinal body) । (४) स्फीनो-इडल (sphenoidal) अस्थि की एक या दो वक्र (curved) प्लेट (plate) ।

conchiform—(Gk. *kongche*, shell; L. *forma*, shape) शंखोम ।

concha—(Gk. *koncha*, shell) शंख; कर्ण कुहर ।

conchae (turbinals)—घूर्णास्थि ।

conchiolin—(Gk. *knogche*, shell) कॉन्कियोलिन । वह पदार्थ जो मौलस्का या कवचधारियों (molluscs) में कर्पर (shell) बनाता है ।

conchology—(Gk. *kongche*, shell; *logos*, discourse) कवची विज्ञान; मौलस्का विज्ञान; जन्तु विज्ञान (zoology) की वह शाखा जो मौलस्का (mollusca) का प्रतिपादन करती है ।

conchula—(Gk. *kengche*, shell) शंखोष्ठ; कोन-कुला ।

concolorate—(L. *concolor*, of the same colour) द्विओर समरंगी; समवर्णी; दोनों ओर से समान रंग वाला ।

concrecence—(L. *concrescere*, to grow together) सहवर्धन; भागों का साथ-साथ बढ़ना ।

conditioned—स्थपरावर्तनक; प्रतिवधित; ऐसी उत्तेजना जो स्थपरावर्तन क्रिया को उत्साहित करती है ।

conducting—(L. *conducere*, to lead together) प्रवाहक; सवाहक ।

conduction—(L. *conducere*, to lead together) संचारण; स्थानान्तरण; धुलनशील पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरण (transference); तंत्रिका तंत्र का कार्य उत्तेजना का प्रेषण (संचारण) ।

conductivity—चालकता; सवाहकता ।

conduplicate—(L. *conduplicate*, to fold together) अधोदुगुणी; बीजपत्र (cotyledous) का संवलित होकर मूलांकुर को छूना ।

condylar—(Gk. *kondylos*, knuckle) अर्बुदी ।

condyle—(Gk. *kondylos*, knuckle) अस्थिकन्द; अर्बुद; अस्थि-अर्बुद; गुम्मत ।

condyloid—(Gk. *kondylos*, knuckle) अर्बुदोपम ।

cone—(Gk. *konos*, cone) शंकु ।

(१) कोनीफरी कुल का मादा पुष्प-कोन (cone) ।

(२) स्ट्रोबिला (strobila)—साइफोजोआ (scyphozoa) के वर्धन की एक स्थिति विशेष ।

(३) अण्डे पर निषेक से पूर्व पाया जाने वाला शंकु रूपी उच्छिन्न स्थल ।

(४) रेटिना की फलास्क सदृश कोशिका ।

cone of origia—उद्गम शंकु; आरोपण शंकु; तंत्रिकाक्ष उन्नतभाग (axon hill) ।

confluence—(L. *cum*, with; *fluere*, to flow) मेल ।

congeneric—(L. *con*, with; and *genus*, *generis*, kind) सम जातीय; एक जाति के ।

congenital—(L. *cum*, with *gignere*; to beget) जन्म नान; जन्मज; जन्म से विद्यमान ।

congestin—(L. *congestus*, heaped up) कन्जेस्टिन; स्पर्शक विष; सीएनी मोन के स्पर्शकों का विष ।

conglobate—(L. *com*, together; *globus*, ball) संपिंडित; संगोलित; गोलोपम ग्रन्थि; कॉन्ग्लोबेट; कीटों (insects) में पाई जाने वाली श्रुक्रवाहिनी नली (ductus ejaculatorius) के अघोभाग पर स्थित ग्रन्थि विशेष ।

conglomerate gland—(L. *cum*, together; *glomerare*, to wind) संगुटिका ग्रन्थि; गुच्छ ग्रन्थि ।

congression—(L. *congressio*, meeting) समाघात; गुण सूत्र विष्वत् गमन; विभाजन की उत्तर स्थिति (metaphase) में गुण सूत्रों (chromosomes) की तर्कूट (spindle) के विष्वत् तल (equatorial plane) की ओर गति ।

conidial—(Gk. *kenis*, dust; *idion*, dim) कोनिडियम सन्बन्धी ।

conidiiferous—(Gk. *kenis*, dust; *idion*, dim; L. *ferre*, to bear) कोनिडियाघारी ।

conidiocarp—(Gk. *konis*, dust; *idion*, dim; *karpos*, fruit) कोनीडिया फल युक्त; कोनिडिया फलिका ।

conidlophore—(Gk. *konis*, dust; *idion*, dim; *pherein*, to bear) कोनिडियाघारी; कवक तंतु (hyphae) की एक शाखा जिस पर कोनिडिया अवस्थिति होते हैं ।

conidium—(Gk. *konis*, dust; *idion*, dim) कोनिडियम; फनास स्पोर ।

conidiferous—(L. *conous*, cone; *ferre*, to bear) शंकुघारी; कोनिडिया घारी ।

conjugant—(L. *cum*, together; *jugare*, to yoke) संयुग्मक; संयुग्मी ।

conjugate—(L. *cenjugare*, to join together) संयुग्मी; संयुग्मन होना ।

conjugated—(L. *cenjugare*, to join together) संयुग्मित ।

conjugation—(L. *cum*, together; *jugare*, to yoke) संयुग्मन; संयुजता ।

conjunctiva—(L. *cum*, together; *jungere*, to join) नेत्रश्लेष्मला; कन्जंक्टिवा। आँख की श्लेष्म कला जो पलकों का अस्तर बनाती है तथा स्वलीरा (sclera) के अगले भाग पर कार्निया (cornea) आधिच्छद बनाती है ।

conjunctive—(L. *cum*, together; *jungere*, to join) युति; निर्यासक कोशिकायें (parenchyma cells) ।

connate—(L. *cum*, together; *gnatus*, born) सहजात ।

connective—(L. *cum*, together; *nectare*, to bind) योजी; संयोगी; बन्धक; दो गैंगलिया को जोड़ने वाला तंत्रिका सूत्र ।

connective tissue—योजी ऊतक; संयोजक तन्तु; बन्धक तन्तु ।

connexivum—(L. *conneetere*, to fasten to-

gether) संबद्धोदरी; उड़िस या उद्वंश (bugs) जैसे खटमल के उदर का चटा पार्श्व तट ।

connivent—(L. *connivere*, to clese the eyes) अभिसारी ।

conoid—(Gk. *konos*, cone; *eidōs*, from) शंकुभ; शंकुसम ।

conoid ligament—कोनोइड लिगामेंट; शंकुभ गुम्फक; कोरेको-कलैविकुलर (coraco clavicular) पेशीबंध (ligament) का एक गुम्फक (fasciculi) ।

conoid tubercle—कोनोइड ट्यूबर्किल; शंकुभ अपाण्ड; क्लैविकिल (clavicle) अस्थि के पश्च तट पर एक एक छोटी गाँठ जिस पर शंभुक गुम्फक (कोनोइड लिगामेंट) जुड़ा होता है ।

conotheca—(Gk. *konos*, cone; *thehe*, case) शंकावरण; शंकुच्छद ।

consensual—(L. *consentive*, to feel together) अनैच्छिक ऐच्छिक कार्य; ऐसे अनैच्छिक कार्य जिनके साथ ऐच्छिक कार्य का भी साथ-साथ पुट हो ।

consociation—(L. *consociatis*, partnership) अनुपंगी; पादप संगति की एक इकाई जिसमें एकल प्रबल जाति का प्रभुत्व होता है ।

consortes—(L. *consortes* partners) सहअंगी; सहसंगी; सहवासी । ऐसे साथ-साथ रहने वाले अंगी (organisms) जो सहजीवी (symbionts), सहभोजी (commensals) या पोषक (host) और परजीवी (parasites) से भिन्न हों ।

consortium—(L. *consortio*, community. संयुजता; संयुक्तता; लाइकेन (lichens) का संयुक्त थैलस (thallus) ।

constitution—(L. *constituere*, to make) वनावट ।

constricted—(L. *constrictur*, drawn together) संकुचित; सिकुड़ा हुआ ।

constriction—(L. *constrictus*, drawn together) संकीर्णन; संकुचन ।

constrictor—(L. *constrictus*, drawn together) संकीर्णक; संकोचक (पेशी); संकोचनी (पेशी); सिकोड़ने वाली पेशी; शरीर की वह पेशी जो किसी भाग को सिकोड़ती है ।

contabescence—(L. *contabescere*, to waste away) पुंगकिसर पात ।

contact receptor—स्पर्श वेदना ग्राही, स्पर्श संग्राहक; बाह्य चर्म या चर्म में स्थिति स्पर्श वेदना ग्राही ।

contagious (disease)—(L. *contagio*, to touch) संसर्गज; स्पर्शज; स्पर्शजन्य; छूत का रोग ।

context—(L. *cum*, together; *texere*, to weave) वयनोतक; विस्तर; किन्हीं फंजाई (fungi) में हाइमीनियम (hymenium) और यथार्थ कवकजाल (mycelium) के बीच के वृद्धि प्राप्त स्तर (layers) ।

continuous—(L. *continuare-continuus*, joined) सतत; अखण्ड; अभिच्छिन्न; अविरत ।

contorted—(L. *contortus*, tunisted together) व्यावर्तित । पुष्पदल-विन्यास (aestivation) जिसमें दल का एक भाग ढक जाता है जैसे—भिण्डी; गुडहल, कपास, कनेर इत्यादि ।

contortuplicete—(L. *cum*, with; *torquere*, to twist; *plicare*, to fold) व्यावर्तित कलिका ।

contour—(F. *contourner*, to twist) कट्टर; परिणाह; रूपरेखा ।

contour feather—देह-पिच्छ; परिणाह पक्ष ।

contraction—(L. *con*, together; *trahere*, to draw) संकुचन; आकृचन ।

contractile—(L. *cum*, together; *trahere*, to draw) संकुचनशील ।

contractile cell—संकुचन शील कोशिका ।

contractile vacuole—संकुचनशील रिक्तिका; संकुचन शील कुण्डिका (स्थली) ।

contractility—(L. *cum*, together; *trahere*, to draw) संकुचनता ।

contractia—कोट्टे पिटन; रंजक संकुचक; तंत्रिका द्रव

- जो कैंकड़ावृंशी (crustacea) में रंजक कोशिकाओं में निकुटन उत्तेजित करता है।
- contracture**—(L. *contractus*, drawn together) प्रवृत्त पेशी संकुचन; उत्तेजना के हट जाने के बाद भी पेशी का संकुचन होता रहे।
- contra-deciduate**—(L. *contra*, opposite to; *decidere*, to fall off) प्रति प्रत्या; अपरापोषिका (allantois) का पृष्ठ भाग।
- conus**—(Gk. *konos*, cone) कोनस; शंकु; कोई भी शंकु जैसी आकृति।
- conus arteriosus**—धमनी शंकु।
- conus medullaris**—सुपुम्ना शंकु।
- convergence**—(L. *convergere*, to incline together) अभिसरण; समाभिरूपता; समानीकरण। भिन्न समुदायों के जन्तुओं में से एक से लक्षणों का उत्पन्न हो जाना।
- contranantant**—(L. *contra*, against; *natare*, to swim) धाराविरुद्ध प्लवकी; प्रतीपतरण।
[देखिये—denantant—धारा बाहिक]
- conuli**—(dim. of L. *conus*, cone) शंकुकि; शंकु-उदग्रता।
- conversion**—रूपान्तरण; सात्करण; भोजन तत्वों का शरीर के निर्माण हेतु सात्करण करना।
- convolute**—(L. *cum*, together; *volvare*, to wind) संवलित; लपेटदार; लिपटा हुआ।
- convolution**—(L. *cum*, together; *voivere*, to wind) संवलन; लपेट।
- coordination**—(L. *cum*, together; *ordo*, order) समन्वय; समव्यवस्था।
- cooperative partnership**—सहयोगी साथीपन।
- coprodaeum**—(Gk. *kopros*, dung; *odos*, way) पूर्व-अवस्कर; मल पायु; पायु (cloaca) का वह भाग जिसमें मलनाश या रेक्टम (rectum) खुलता है।
- coprolite**—(Gk. *kopros*, dung; *lithos*, stone) कोप्रोनाइट; बाँबरमल।

- coprophagous**—(Gk. *kopros*, dung; *phagein*, to eat) विष्टाभोजी; पुरीष भक्षक; मलभक्षी; मलाहारी; विष्टाहारी।
- coprophil**—(Gk. *kopros*, dung; *philos* loving) मलानुरागी; विष्टानुरागी।
- coprozoic**—(Gk. *kopros*, dung; *zoon*, animal) विष्टावासी; मलवासी।
- copula**—(L. *copula*, bond) सेतुक; (१) जिव्हा वर्धन में द्वितीय और तृतीय बलयों के अधर छोरों के संयुक्त होने से बनी एक मेड़; (२) किन्ही सृपी में अधोहायल (basihyal) या मध्य जिव्हास्थि (os interglossum)।
- copularium**—(L. *copula*, bond) परिस्थोति; कोपुलेरियम; गिगेराइन्स (gregarines) में दो सह युग्मक जनकों (gametocytes) के ऊपर बनी स्थोति (cyst)।
- copulation**—(L. *copula*, bond) संयुन; एक कोशिकीय-प्रोटोजोआ में दो व्यक्तियों का संलय (fusion)।
- copulatory organ**—(L. *copula*, bond) संयुनांग।
- coracoid**—(Gk. *korax*, crow; *eidos*, form) असंतुण्ड; कौरिकाइड; अंसक; अंसास्थि।
- coracoid process**—(Gk. *korax*, crow; *eidos*, form; L. *processus*, advance) कौरिकाइड प्रवर्द्धन।
- coral**—(L. *corallium*, coral) कोरल; प्रवाल; मूंगा।
- coralliferous**—(Gk. *korallium*, coral; L. *ferre*; to bear) कोरल निर्माणी; कोरलोत्पादी; कोरल बनाने वाला।
- coralline**—(Gk. *korallion*, coral) कोरलसम।
- corallite**—(Gk. *korallium*, coral) प्रवालनाल; कोरालाइड।
- coralloid**—(Gk. *korallium*, coral; *eidos*, form) कोरल सम; कोरल सदृश; कोरल सदृश शाखों वाला।
- corallum**—(Gk. *korallium*, coral) प्रवाल पंजर; संयुक्त कोरल का पंजर।
- corbicula**—(L. *corbis*, basket) काँचीक्यूला; कंटोनक। (१) मधुमक्खी का पराग एकत्रित करने का यंत्र

(२) कीट (insect) की टिबिया के किनारे पर की वालों का झालड़ (fringe) ।

corbula—(L. *corlus*, basket) कण्डोलिका; कार्बूला; प्रपिटक; पर्याय (alternate) शाखीय तना जिसकी शाखायें ऊपर उठकर फली सदृश (pod like) आकृति बनाती हैं ।

cord—(Gk. *chorde*, cord) रज्जु ।

cordate—(L. *cor*, heart) हृदयाकार; हृद्याकार; हृत्याकार ।

cordiform tendon—डायफ्राम (diaphragm) का केन्द्रीय चपटा बंध (tendon) ।

cordylus—(Gk. *kardyle*, swelling) छत्रोपम; कोरडाइलस; स्पर्शक मध्या (intertentacular) बाह्य छत्रक (exumbralar) आकृति जिसका मध्यभाग (core) धानी युक्त कोशिकाओं (vacuolated cells) और चपटी बाह्य चर्म वाला होता है ।

coremata—(Gk. *korema*, broom) मैथुन संमार्जकी; कोरीमेटा; सहायी मैथुनांग; मॉथ या शलभ (moth) में पाया जाने वाला युगल रोमीय कोष जो सातवें और आठवें उदर खण्डों के बीच में स्थिति होते हैं ।

coremium—(Gk. *korema*, broom) संमार्जनिक कोनिडिया धानीयों (conidiophores) का समुच्चय ।

coriaceous—(L. *corium*, leather) चर्मच; चर्मिल पर्ण जैसे आम, चाँदनी की पत्ती जो दृढ़ तथा चर्मवत होती हैं ।

corium—(L. *corium*, leather) चर्म ।
(देखिये cutis या derm)

cork—(Sp. *alcorque*, cork) कार्क; काग; काष्ठीय पौधों में बल्क के बाह्य स्तर से प्राप्त ऊतक ।

corn, cormus—(Gk. *kormos*, trunk) घनकन्द या कॉर्म; एक प्रकार का भूमिगत तना (stem) जैसे वण्डा, घुइयाँ, जिमीकन्द । यह गोल या अण्डाकार फूला हुआ भूमिगत तना होता है । जिसके सिरे पर शीर्षस्थ कलिका होती है । इसकी सतह पर अनेक भूरे रंग के शल्क पत्र

होते हैं प्रत्येक शल्क पत्र नोड (node) से निकलकर अगले इन्टरनोड (internode) तक फैला होता है ।

cormel—(Gk. *kormos*, trunk) गौणघनकंद; गौण कॉर्म ।

cormidivm—(Gk. *kormos*, trunk *idion*, *dim*) व्यष्टिगुच्छ; कॉर्मोडियम ।

cormoid—(Gk. *kormos*, trunk; *eidos*, form) घनकंदोपम; कार्मोइड; ।

cormophylogeny—(Gk. *kormos*, trunk; *phyle*, tribe; *genos*, off spring) वंशोत्पादन; वंशवर्धन ।

cormophyte—(Gk. *kormos*, trunk; *phyton*, plant) कॉर्मोफाइटा; तने और जड़ वाले पौधे ।

[देखिये थैलोफाइटा-एल्गी और फंजाई तिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियाँ नहीं होती—इनकी आन्तरिक संरचना में जाइलम और फ्लोरम का अभाव होता है ।]

cormous—(Gk. *kormos*, trunk) कॉर्मधारी; कॉर्मोत्पादी ।

cornea—(L. *cornu*, horn) कानिया; (१) चक्षुगोलक (eyeball) के अग्र भाग का पारदर्शक आवरण; (२) यौगिक नेत्र (compound eye) का बाह्य (outer) पारदर्शक भाग ।

corneagen cells—कानिया-कोशिका; कानिया उत्पादक कोशिकायें ।

corneal—(L. *cornu*, horn) कानिया—; कानिया सम्बन्धी ।

corneoscute—(L. *corneus*, horny; *scutum*, shield) कानिया पट्ट; अधिच्छद (epidermal) शल्क (scale) ।

corneus—(L. *cornu*, horn) शृंगीय; शृंगमय; सीघ जैसे या सीघ पदार्थ से बनी हुई ।

cornicle—(L. *dim.* of *cornu*, horn) कोरनीविल; सिक्थ स्त्रावी ।

corniculate—(L. *cornu*, horn) शृंगधारी ।

corniculum—(L. *cornu*, horn) शृंगिका ।

- cornification—(L. *cornu*, horn; *facere*, to make) शृंगीकरण ।
- cornua—(L. *cornu*, horn) सींघ; सींघ जैसे प्रवर्धन (process) ।
- cornucopia—(L. *cornu*, horn; *copia*, plenty) प्रचुर शृंगी; कॉरनूकोपिया; चतुर्थ वेन्द्रीकिल के पट्टा-कृति का अनुदैर्घ्य भाग ।
- cornute—(L. *cornu*, horn) शृंगी; सींघ जैसे प्रवर्धन वाना ।
- corolla—(L. *corolla*, small crown) दल-पुंज; पुष्प की पंखुडियां; कोरोला ।
- corollaceous—(L. *corolla*, crown) दल पुंजाभ; दलाभ ।
- corolliferous—(L. *corolla*, small crown; *ferre*, to bear) दल-पुंजी; कोरोलाधारी ।
- corona—(L. *corona*, crown) किरौट; कोरोना ।
- corona radiata—(L. *corona*, crown; *radius*, ray) कोशिका पंक्ति; डिम्बकिरीट; स्तनपायियों या स्तनी के डिम्ब को घेरने वाली कोशिकाओं की एक पंक्ति ।
- coronal—(L. *corona*, crown) कोरोनल ।
- (१) फ्रन्टल और पेराइडल अस्थियों के बीच की सेवनी ।
- (२) घास की उत्तर जड़े (later roots) ।
- coronary—(L. *corona*, crown) कोरोनरी; सृपी (reptiles) की एक हड्डी ।
- coronary artery—(L. *corona*, crown) कोरोनरी धमनी; हृद्-धमनी ।
- coronated—(L. *corona*, crown) किरौटी; कोरोना युक्त ।
- coronet—(L. *corona*, crown) कोरोनेट; मृगविषाण के मिर का चुर-चुरा भाग ।
- coranoid—(Gk. *korax*, crow; *eidōs*, form) चपुन; रोगेनोइड ।

- corpora—(L. *corpus*, body) कार्पोरा; वसा-पिण्ड; पिण्ड ।
- corpora adiposa—कार्पोरा एडीपोसा; वसा-पिण्ड; मेद-पिण्ड ।
- corpora albicantia—श्वेतपिण्ड ।
- corpora allata—कोरपोरा एलेटा, कीटों की अन्तःस्रावी ग्रन्थि ।
- corpora bigemina—कार्पोरा बाइजेमिना; पिण्ड युगल; नेत्र द्विपिण्ड; अक्षि द्वय पिण्ड ।
- corpora cavernosa—कन्दरी पिण्ड; शिश्न (penis) या भगनासा (clitoris) का उत्थानशील (erectile) ऊतक विशेष ।
- corpora quadrigemina—कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना; पिण्ड चतुष्टि; नेत्र चतुष्पिण्ड; अक्षि चतुष्क पिण्ड ।
- corpus—(L. *corpus*, body) कॉर्पस; पिण्ड ।
- corpus callosum—कॉर्पस कैलोसम; महासंयोजक पिण्ड; कैलोसम पिण्ड ।
- corpus luteum—कॉर्पस ल्यूटियम; पीतपिण्ड; ल्यूटियम पिण्ड ।
- corpus spongiosum—कॉर्पस स्पंजिओसम; स्पंजाभ पिण्ड; स्पंजी पिण्ड ।
- corpus striatum—कॉर्पस स्ट्रिएटम; रेखित पिण्ड
- corpuscle—(L. *corpusculus*, small body) कणिका; रक्त कण; कण ।
- corpse—(L. *corpus*, body) शव; मृतदेह; लाश ।
- correlation—(L. *cor-*, with and relate-relatus, to bring back) सहसम्बन्ध; परस्पर सम्बन्ध; अन्योन्य सम्बन्ध ।
- correlator—(L. *correlatio*, relation ship) परस्पर संबद्धकारक, इतरेतर सम्बन्धी; प्रसरणशील पदार्थ जो प्रांकुर चील (coleoptile) के अग्रभाग (tip) और बीजपत्राधर (hypocotyl) की प्रतिक्रियाओं का परस्पर सम्बन्ध कराता है ।
- corresponding—(L. *cor*, with; *respondere*, re-, back; *spondere*, to promise) अनुरूप ।

corrugator—(L. *cum*, together; *rugare*, to wrinkle) झुरीदार; सिकुडनदार ।

cortex—(L. *cortex*, bark) कॉर्टेक्स; बल्कुट; बल्क; किसी अंग का बाह्य या ऊपरी भाग ।

cortical—(L. *cortex*, bark) बल्कुट-; बल्कीय-; बल्क- ।

corticate—(L. *cortex*, park) बल्कावृत ।

corticiferous—(L. *cortex*, bark; *ferre*, to carry) बल्कधारी; बल्कल; छाल सहस्र बल्क युक्त ।

corticosterone—कोर्टिकोस्टेरोन; $C_{21}H_{30}O_4$; एड्रीनल हार्मोन का सक्रिय तत्व ।

corticostriate—(L. *cortex*, bark; *stria*, channel) बल्कसूत्र; कार्पस स्ट्रायेटम (*corpus striatum*) और प्रमस्तिष्क बल्क (*cerebral cortex*) को जोड़ने वाले सूत्र ।

corticotropic—(L. *cortex*, bark; Gk. *trope*, turn) कार्टिकोट्रोपिक; पिट्यूटरी (*pituitary*) हार्मोन, जो एड्रीनल बल्क (*adrenal cortex*) को उत्तेजित करता है ।

cortin—(L. *cortex*, bark) कॉर्टिन; एड्रीनल बल्क (*adrenal cortex*) का हार्मोन जो पोटेथियम उपापचय को प्रभावित करता है ।

cortina—(L. *cortina*, curtain) वीलम; परदा सहस्र आकृति ।

cortinate—(L. *cortive*, curtain) वीलमी; वीलम युक्त ।

corti's organ—(A. *corti*, italian histologist) कोर्टी का अंग ।

coruscation—(L. *coruscatio*, flash) टिमटिमाना; झिलमिलाना ।

corymb—(Gk. *korymbos*, cluster of flowers) समशिख; कोरिम्ब (पुष्पक्रम—*inflorescence*) । इसमें मुख्य अक्ष छोटी, पुष्पवृन्त विभिन्न लम्बाई के, सिरों की ओर के वृन्त छोटे तथा नीचे के लम्बे, जिससे सब ही

पुष्प एक ही सतह पर स्थित दिखाई देते हैं उदाहरण—कैण्डीपट; केशिया ।

corymbore—(Gk. *korymbos*, cluster of flowers) समशिखी; कोरिम्बीय ।

cosmine—(Gk. *kosmios*, regular) कोस्मीन; डेन्टीन सदृश पदार्थ विशेष ।

cosmoid—(Gk. *kosmios*, regular; *eidos*, form) कोसमीन युक्त ।

cosmopolitan—(Gk. *kosmos*, world; *polites*, citizen) विश्वजनीन; विश्व-व्यापी ।

costa—(L. *costa*, rib) पशु का; कॉस्टा; नस ।

costaeform—(L. *costa*, rib; *forma*, shape) पशु-; सम; पसली सदृश ।

costal—(L. *costa*, rib) पशु की; पसली की; पशु-; पशु सम्बन्धी; पत्तियों की मध्य नस; कीट पक्ष की अग्रनस (*costa*) ।

costalia—(L. *costa*, rib) सहप्लेट; कोस्टेलिया । क्लैडोइडिया (*cladoidea*) के चोल (*thece*) की साधने वाली प्लेट ।

costate—(L. *costa*, rib) मेड़ युक्त; पशु रेखित ।

costerminous—(L. *cum*, with; *terminus*, end) सहावसानी; समविस्तृत ।

cotyledon—(Gk. *kotyle*, cup) कॉटिलीडन; ग्राहक-गुच्छ; स्तनी में आंवल या कमल (*placenta*) ग्राहक-कुरों (*villi*) का एक क्षेत्र (*patch*) (२) बीज पत्र पण ।

cotyledonary—(Gk. *kotyle*, cup) (१) ग्राहक गुच्छीय । (२) बीज पत्रीय; बीज पणीय ।

cotyloid—(Gk. *kotyle*, cup; *eidos*, form) चूपकाकार ।

cotylophorous—(Gk. *kotyle*, cup; *pherein*, to bear) ग्राहक गुच्छीय आंवल युक्त ।

cotype—(L. *cum*, with; *typus*, image) सहप्ररूप; समरूपी; आदर्श संगी—।

courtship—अनुरंजन; आराधन ।

covariation—(L. *cum*, with; *varius*, diverse) का विनयन; सहसम्बन्धिता ।

coyer scales—लघु शल्क; फोनीफर शंकु (cone) के दक्ष पर लघु शल्क ।

covert—(F. *couvrir*, to cover) देह-पिच्छ; कवटपक्ष; तस्य पक्ष ।

cowled—(L. *cercullus*, hood) हुडयुक्त; शिर-सावरणी ।

cowper's gland—(W. Cowper-English surgeon) काउपर-ग्रन्थि ।

coxa—(L. *coxa*, hip) कक्षांग; कोंवसा; कीटों (insects) की टांग का समीपस्थ (proximal) जोड़ ।

coxal—(L. *coxa*, hip) श्रोणि-; कोंवसा सम्बन्धी ।

coxite—(L. *coxa*, hip) कोवसाइट; पार्श्वप्लेट । कीट स्टेनम के तारतम्य में लगी पार्श्व प्लेटों के युग्म (pair) की एक प्लेट ।

coxopodite—(L. *coxa*, hip; Gk. *pous*, foot) चरणी पादांश; प्रमूल पादांश ।

coxosternum—(L. *coxa*, hip; *sternum*, breast bone) कोवसाइट स्टेनमी (प्लेट); विनकूलम; कोक्सो-स्टेनम बन्ध; रेखा बन्धनी ।

crampon—(O. H. G. *chramph*, crooked) क्रैमोन; वायवीमूल ।

cranial—(Gk. *kranion*, skull) कपालीय; कपालिक; कपाल सम्बन्धी; कपाल—।

cranialata—केनिपटा; कवानी; कपालयुक्त जन्तुओं का एक वर्ग ।

cranium—(Gk. *kranion*, skull; *idion*, dim) केनीक्रियम; ट्राइनोवाइट में स्वयनी (glabella) और ग्लियर क्रोनिना (genae) मिलने हुए ।

cranialhaemal—(Gk. *kranion*, skull; *kaima*, blood) कपालरक्तक; प्रकरोरक का अग्र अर्ध भाग ।

cranineural—(Gk. *kranion*, skull; *neuron*, nerve) कपालगुण्ठीय; प्रकरोरक का अग्रोर्ध्व भाग ।

craniology—(Gk. *kranion*, skull; *logos*, discourse) कपाल विज्ञान ।

craniometry—(Gk. *kranion*, skull; *metron*, measure) कपाल माप विज्ञान ।

cranium—(Gk. *kranion*, skull) कपाल; क्रैनियम; मस्तिष्क कोटर ।

craspedodromous—(Gk. *kraspedon*, edge; *dromein*, to run) मध्य-तटी तंत्रिकीय (रेखीय); मध्य रेखा (mid rib) से तट की ओर जाने वाली नसों (तंत्रिका) वाले ।

craspedote—(Gk. *kraspedon*, edge) अंचल युक्त; क्रैस्पीडोट; नीलम युक्त ।

craspedum—अन्त्रयुज तन्तु; सं एनीमोन (sea-anemone) जन्तुओं को अन्त्रयुज (mesentric) का एक तन्तु (filament) ।

craticular—(L. *craticula*, gridiron) क्रैट सदृश; क्रैटीय; डायटोम (diatom) की जीवन इतिहास की एक स्थिति विशेष; जिसमें नये कपाट पुराने कपाटों के नष्ट होने से पूर्व ही बन जाते हैं ।

creatine—(Gk. *kreas*, flesh) क्रियेटिन; नाइट्रोजन युक्त पदार्थ विशेष जो कशेरुकों (vertebrates) के मस्तिष्क (brain), खून (blood) और पेशियों (muscles) में पाया जाता है ।

creatinine—(Gk. *kreas*, flesh) क्रियेटिनाइन; $C_4H_7ON_3$; पेशी या अन्य ऊतकों की ह्रास या अपचय प्रक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ जो मूत्र के साथ विसर्जित कर दिया जाता है ।

cremaster—(Gk. *kremamastos*, hung) क्रिमेस्टर । (१) वीर्याणु रज्जु के साथ-साथ चलने वाली पतली मांस पेशी (२) अधोभूमिक (subterranean) कीटों के प्यूपा का दृढ़ अन्तस्थ (terminal) और उदरस्थ (abdominal) फूट (spine) (३) प्यूपा की लटकाने वाली गुदीय हुक (anal hook) ।

cremocarp—(Gk. *kremannumai*, to hang; *kerpos*, fruit) क्रैमोकार्प; यह फल द्वि अणुकी, द्विकोष्ठी

तथा अधोवर्ती (इन्फीरियर) अण्डाशय से उत्पन्न होता है। इसके प्रत्येक कोष्ठ में एक बीज होता है, परिपक्व फल फटने वाला होता है। यह भिदुर (Schizocarpic) फल की एक किस्म होती है।

crenate—(L. *crena*, notch) भंगुरतटी।

crenation—(L. *crenatus*, notched) भंगुरतट; दंतुर।

crenulated—(Dim. of L. *crena*, notch) लघुदंतुरी; लघुदंतुरतटी।

crepis—(Gk. *ksepis*, foundation) क्रेपिस; मूलिका; प्रतिष्ठान स्पीक्यूल।

crepitation—(L. *crepare*, to crack) स्फोट; कीटों में किसी तरल का स्फोटिक (explosive) ध्वनि के साथ निकालना।

crepuscular—(L. *crepusculum*, dusk) प्रदोपचर; पी फटने के या संध्या आरम्भ होने के समय घूमने वाले।

crescens—(L. *creescere*, to grow) चापाकार; अर्ध-चन्द्र; अर्धचन्द्राकार।

crecentiform—(L. *creescere*, to grow; *forma*, shape) अर्ध-चन्द्रोपम।

crecents of Gianuzzi—ग्यानुजी के अर्ध-चन्द्राकार; राल ग्रन्थियों के अर्ध-चन्द्राकार पिण्ड।

crest—(L. *crista*, crest) शिखा; शीर्ष; शृंग; शिखर।

cretaceous—(L. *creta*, chalk) क्रिटेशिया।

cribellum—(L. *cribrum*, sieve) चालनी।

cribriform—(L. *cribrum*, sieve; *forma*, shape) चालनी रूप; झर्रा प्लेट। झर्रास्थि (ethmoid) का छिद्रयुक्त प्लेट।

cribriform organ—आवेष्टांग; क्रोविरीफॉम अंग; कूटी-चालनी पट्ट; किन्हीं स्टाराफिश (starfishes) में व्यावृत कला जिन पर अन्तर-अर-कोण (interradial angles) पर कूट (papillae) होते हैं।

cribriform plate—चालनीरूप पट्ट; चालनी सदृश।

cricoid—(Gk. *krikos*, ring; *eidōs*, form) मुद्रिका; क्रिकायड; स्वरयन्त्र (larynx) की एक अस्थि।

crinome—(Gk. *krinein*, to put apart) जालीय।

criocone—(Gk. *krios*, rame; *konos*, cone) मेप शृंगोपम (कुछ एमोनिटीज (ammonites) के कर्पर (shell)।

crissal—(L. *crissare*, to move hamrabs) परिवरस्कर क्षेत्र और पंख।

criss-cross—क्रिस कॉस आनुवंशिकता; विशुद्धलिगी पितृपम संकर; ऐसी आनुवंशिकता जिसमें सन्तान (offspring) संप्रतिलिगी पितृ समान होती हैं।

crissum—(L. *crissare*, to move haunches) परिवरस्कर क्षेत्र या पंख।

crinoid—(Gk. *krinoeides*, krinon, lily) क्रिनोइड; कुमुदोपम; ऐकईनोडर्मेटा—कण्टक देहियों का एक वर्ग (class)।

crista—(L. *crista*, crest) क्रिस्टा; श्रुति; मेड़; टीला।

crochet—(F. *crochet*, small hook) क्राकट।

crop—(M. E. *crope*, top of plant) कौप; अन्नपुट; पोटा; अन्नाशय; उपजठर।

cross—(L. *crux*, *crus*) कौस; संकर; संकरण; संकरज; विविध नस्ल या गोत्र (breeds) के व्यक्तियों के मैथुन (mating) से उत्पन्न प्राणी (organism)।

cross over—अर्ध गुण सूत्र निर्माण; क्रोमेटिड निर्माण; विनिमयज; विनिमय के फलस्वरूप बना क्रोमेटिड (chromatid)।

crossier, crozier—(M. E. *croce*, crook) क्रोजियर; विप्रव्यूही।

(१) फर्न (fern) की कुण्डलित नव पल्लव (पर्ण)।

(२) चयटा चक्राकार छोल (shell) जैसा स्पाइरुला (spirula) का।

cross fertiliation—पर-निपेचन; परनिपेक।

cross section—अनुप्रस्थ काट; अनुप्रस्थ परिच्छेद।

crossing over—विनिमय; जीव विनिमय; परिपाक प्रक्रिया (maturation) में किन्हीं दो गुण सूत्रों (chro-

mosomes) के अनुसार चन्डों की आपस में बदला बदली (निश्चय) ।

crotaphite—(Gk. *krotaphos*, temple) गण्टखात; संलग्न ।

crotchet—(F. *crochet*, small hook) अंकुशिका ।

crown—(L. *corona*, crown; Gk. *koronos*, curved) निघर; मुकुट; दाँत का बाहरी भाग ।

cruciate—(L. *crux*, cross) क्रुशोपम; Y या + के आकार वाला ।

cruciform—(L. *crux*, cross; *forma*, shape) क्रॉस मय; क्रुशोपम ।

crueur—(L. *crueur*, blood) (जमे हुए रून के) धक्के या चपे ।

cruurin—(L. *cruur*, blood) रक्त रंजक; हीमोग्लो-विन ।

crura—(L. *crura*, legs) क्रूरा; (१) स्तम्भ (२) अग्रजंघा (shank) ।

(१) टाँग गद्दा या स्तम्भी आकृति ।

(२) मध्यप्राचीर (डायफ्राम) के वस्तिक पेशी सूत्र ।

(३) निम्न के कन्दरीपिण्ड (corpora cavernosa) का मगोपस्थ प्रवर्धन ।

(४) उन्कम और स्टेपोज की साम्रायें ।

(५) अधःत्वचीय (Subcutaneous) वंक्षण मुद्रिका (inguinal ring) के स्तम्भ ।

(६) चापित्त (फॉलिनस) के पञ्च स्तम्भ ।

(७) मध्य प्रमस्तिष्क स्तम्भ (crura cerebri) ।

crura cerebri—क्रूरा सेरेब्री; मध्य प्रमस्तिष्क; प्रमस्तिष्क स्तम्भ । मध्य मस्तिष्क (mid brain) के अधो पार्श्वीय (ventrolateral) भाग बनाने वाले दो वेतनाकार (cylindrical) पिण्ड ।

crural—(L. *crus*, leg) अग्रजंघेय ।

crureus—(L. *crus*, leg) जंघा पेशी; जाँघ की वास्टम गटर सीनियम (vastus inter medius) पेशी ।

crus or crura—(L. *crus*, leg) (१) अग्रजंघा; अधो-प्राद; (२) शोर्ट टॉपनुमा आकृति ।

crusta—(L. *crusta*, shell) क्रस्टा; सेरीबल वृत्त का अधर भाग; दाँत का सीमेन्ट स्तर ।

crustacea—(L. *crusta*, shell) क्रस्टेशिया; केकड़ा-वंशी ।

crustaceous—(L. *crusta*, shell) क्रस्टेशियस; क्रस्टेशिया लक्षणी; केकड़ा वंशी अर्थात् क्रस्टेशिया (crustacea) वर्ग के जन्तुओं से सदृश लक्षणों वाला ।

crustose—(L. *crusta*, shell) पर्पटी जमाव; अधिष्ठाण पर पर्पटी जमाव ।

cryophil—(Gk. *kryos*, chill *philein*, to love) शीतरागी; कम तापक्रम पर समृद्ध ।

cryoplankton—(Gk. *kryos*, frost; *planktos*, wandering) हिमप्लावी; हिमरागी ।

cryoscopic—(Gk. *kryos*, frost; *skopein*, to view) हिमांकमापी; अभिसरणीय दाब मापन ।

crypt—(Gk. *kryptos*, hidden) प्रगुहिका; गुहिका । (१) एक सरल ग्रन्थिमय नलिका (tube) या कोटर (cavity) (२) गर्भाशय (uterus) की श्लेष्मिक क्षिल्ली का गर्त ।

cryptic—(Gk. *kryptos*, hidden) गोपक; गुप्त; गोपक रंग ।

cryptocarp—(Gk. *kryptos*, hidden; *kerpos*, furit) क्रिप्टोकार्प; गूढफलिका; फलोपम; लाल शैवाल (red algae) की बीजाणु-उद्भिद (स्पेरोफाइट) स्थित ।

cryptogam—(Gk. *kryptos*, hidden; *genos*, origin) स्पोरपादप; अव्यक्त पादप; उत्पादक अंगहीन पौधे; ऐसे पौधे (पादप) जिनके उत्पादक अंग अव्यक्त होते हैं । (देखिये phanerogam व्यक्त पादप)

cryptogene—(Gk. *kryptos*, hidden; *genos*, origin) अज्ञातोत्पत्तिज ।

cryptohaplomitosis—(Gk. *kryptos*, hidden; *haploos*, simple; *mitosis*, thread) अणुत्वो कोशिका विभाजन; कुछ कषाधारियों (flagellates) में एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें अष्टि-रंज्य

(क्रोमेटिन) दो पुजों में विभक्त होकर विपरीत ध्रुवों की ओर बिना शूलव (spirene) स्थिति के बने पहुँचता है।

cryptic—(Gk. *kryptos*, hidden) गोपक रंग।

cryptomere—(Gk. *kryptos*, hidden; *meros*, part) अस्पष्टांश।

cryptoneurons—(Gk. *kryptos*, hidden; *neuron*, nerve) अस्पष्ट तन्त्रिका; तन्त्रिका तन्त्रहीन।

cryptophyte—(Gk. *kryptos*, hidden; *phytos*, plant) गुप्तायुसी पादप; क्रिप्टोफाइट; गूढ़पादप; ऐसे पादप (पौधे) जो प्रकंद (rhizome) घनकंद (corms) या शल्क कंद (bulbs) से उत्पादन करते हैं।

cryptoptile—(Gk. *kryptos*, hidden; *ptilon*, feather) गूढ़ पंख; आद्य पिच्छ; कूट वर्धित पक्ष तन्तु।

cryptorchid—(Gk. *kryptos*, hidden; *orchis*; *testis*) उदर शुक्र; उदरस्थ (abdominal) शुक्र ग्रन्थियों (testes) वाला।

cryptorhetic—(Gk. *kryptos*, hidden; *rhein*, to flow) अन्तःस्त्रावी।

cryptosolenial—(Gk. *kryptos*, hidden; *solen*; *channel*) गूढ़ आसंजी; गूढ़ प्रसक्ति स्थल; मूल पीजियन नलिकाओं का पश्चान्न (hind gut) पर चिपकने का स्थल।

cryptostomata—(Gk. *kryptos*, hidden; *stoma*, mouth) अलैंगिक युग्मकधानी।

cryptozoic—(Gk. *kryptos*, hidden; *zoon*, animal) तमजीवी; तिमिर वासी।

cryptozoites—गुप्त अणु।

crystallin—(Gk. *krystallos*, ice) क्रिस्टलीन; पदार्थ विशेष जो नेत्र ताल या लेन्स (lens) का मुखांश होता है।

crystalline—(Gk. *krystallos*, ice) क्रिस्टलीय; रवेदार; स्फाटिक।

crystalline style—स्फाटिक दण्ड; कुछ मालस्का या कवची की अन्न प्रणाली (alimentary canal) में विद्यमान एक रचना विशेष।

crystalloid—क्रिस्टलाभ; प्रसरणशील; वे पदार्थ जो

घोल रूप में जन्तु की झिल्ली में से प्रसरण (diffuse) कर सकते हैं।

cteinophyte—(Gk. *kteinein*, to kill; *phyton*, plant) परजीवी पौधा; पोषक नाशी (फन्सस); ऐसा फन्स (fungus) जो पोषक (host) को समाप्त कर देता है।

ctene—(Gk. *kteis*, comb) कंकत-क्षेपणी। कंकती कार्यों-टीनों फोरा का अंग विशेष।

ctenidium—(Gk. *kteis*, comb) कंकत क्लोम; गिल।

ctenocyst—(Gk. *kteis*, comb; *kystis*, bladder) टीनोसिस्ट; कंकत कोषिका। टीनोफोरा या कंकती कार्यों (ctenophores) की एक ज्ञानेन्द्रिय।

ctenoid—(Gk. *kteis*, comb; *eidōs*, form) कंकताम; कंकताकार; कंधीनुमा।

ctenophora—(Gk. *ktēsis*, comb; *pherein*, to bear) टेनोफोरा; कंकतीकाय; टीनोफोर; सीलेन्टेरा (coelenterata) का एक वर्ग (class)।

ctenophoral—(Gk. *kteis*, comb; *pherein*, to bear) प्लव पट्टक।

ctetology—(Gk. *ktetos*, acquired; *logos*, discourse) उपाजित लक्षण विज्ञान।

ctetosome—(Gk. *ktetas*, acquired; *soma*, body) उपाजित पिण्ड।

cubical—(L. *cubeus*; *cube*) घन-; घनीय; घनाकृति।

cubital—(L. *cubitalis*, of elbow) क्यूबिटल; अंत; प्रकोष्ठिका; गौण-कुइल पक्ष (अलना से सम्बन्धित)।

cubitus—(L. *cubita*, elbow) (१) अलना, अप्रवाह (२) कीट पक्ष (insect wing) की प्रमुख शिरा (primary vein)।

cuboid—(Gk. *kuboeides*, cube-like) घनास्थि, क्यूबाइड; टखने (tarsal) की बाह्य स्थिति एक हड्डी।

cuboidal—(Gk. *kuboeides*, cube like) घनाकार; घनास्थि सम्बन्धी; घनास्थिक।

cucullate—(L. *cucullus*, cap) कणाकार।

(१) ढाकाकार (hood shaped) बाह्यदल (sepals) और पंखुड़ी (petals) वाले ।

(२) ढाकाकार पुरावक्षीय (prothorax) ।

cucullus—(L. *cucullus*, cap) कुकुलस (१) कोई टोप या टोपीनुमा आवृत्ति (२) लैपीडोप्टेरा (Lepidoptera) में नखित्र (harpes) का ऊपरी भाग ।

culler—(F. *cuilher*, spoon) स्पूनक; नरकीट (male insect) आलिगक (clasper) का चम्मचनुमा (spoon like) अन्तस्थ (terminal) भाग ।

cuirass—(F. *cuirasse*, leathern jacket) कृपांसक कला; कंबूकोपम अस्थि पट्ट; बाह्य रक्षावरण; चौली-नुगा अस्थि पट्ट या शल्कों का लगा होना ।

culm—(L. *culmus*, stalk) सन्धि स्तम्भ; कल्म; घास का तना । ऐसे तनों पर पर्व सन्धियाँ या गाँठें (nodes) स्पष्ट होते हैं । उदाहरण, ईंध, बाँस, नरकुल ।

culmen—(L. *culminare*, a summit) कल्मन; चंबु मंड ।

cultellus—(L. *cultellus*, little knife) क्लटिलस (कलानाग) । विन्हीं रक्त-चूसक (blood sucking) मक्खियों का एक तेज चाकू सदृश मुखावयव ।

culture—(L. *colere*, to till) सवर्ध; संवर्धन; संस्कृति पानन; कल्चर करना; अमिदृदि करना । किसी के सूक्ष्मजीवों (micro-organisms) या ऊतकों (tissues) का विनोपनया बनाये हुए माध्यम (medium) में पोषण करना ।

cumulose—(L. *cumulus*, heap) ढर ।

cumulus—(L. *cumulus*, heap) कपासी; संचयी; कोशिका पुंज; कोशिका समुच्चय ।

cuneate—(L. *cuneus*, wedge) ढाकाकार; पच्चट-भुजा; पच्चन मट्ट ।

cuneiform—(L. *cuneus*, wedge; *forma*, shape) ढाकाकार; ढाकाकृमन ।

cuneus—(L. *cuneus*, wedge) कूनियन; पक्षाच्छादक टुक ।

cup—(A. S. *cuppa*, cup) कप; प्याना ।

cupula—(L. *cupula*, little tube) क्यूपूला; प्यालिका; कम्बु शिखर ।

cupule—(L. *cupula*, little cup) प्यालिका ।

(१) ओक (oak) के मादा पुष्प का सहपत्र चक्र ।

(२) मरकेन्शिया (Marchantia) की जेमा-धानी ।

(३) विभिन्न जन्तुओं का लघु चूपक ।

curviserial—(L. *curvus*, curve; *series*, row) वक्र रेखा व्यावर्तित; वक्र क्रमिक; पंण विन्यास (phyllotaxis) जिसमें अपसारिता (divergence) इस प्रकार की होती है कि उदग्रपंक्तियाँ (orthostichis) स्वयं अल्पचक्राकार व्यावर्तित होती हैं ।

cushion—(L. *coxa*, hip) उपधान; गद्दी ।

cuspid—(L. *cuspidis*, point) कस्प; दंताग्र; शिखर ।

cuspidate—(L. *cuspidare*, to make pointed) उभयाग्री; कस्पी; तीक्ष्णांत ।

cutaneous—(L. *cutis*, skin) त्वचीय; त्वचा सम्बन्धी; चाल का ।

cuticle—(L. *cutis*, skin) क्यूटिकल; उपत्वचा; उपचर्म; त्वगावरण ।

cuticular—(L. *cutis*, skin) क्यूटिकली; उपचर्मो; उपत्वची; त्वगावरणीय ।

cuticularisation—(L. *dim*, of *cutis* skin) उपत्वचाभवन; क्यूटिकलन; बाह्यचर्म कोशिकाओं के बाह्य-स्तरों में क्यूटिन पदार्थ का जमाव ।

cutin—(L. *cutis*, skin) क्वटिन; क्यूटिन; सैल्यूलोज समान एक पदार्थ विशेष ।

cutinisation—(L. *cutis*, skin) क्यूटिनता; क्यूटिन न्यास; कोशिका भित्ति में क्यूटिन का जमाव जिससे उपत्वचा का निर्माण होता है ।

cutis—(L. *cutis*, skin) चर्म ।

cutocellulose—(L. *cutis*, skin; *cellula*, small cell) क्यूटिन सैल्यूलोज; सैल्यूलोज (cellulose) सहित क्यूटिन जंश कि पीधों के बाह्यत्वक (epidermis) में पाया जाता है ।

cutose—(L. *cutis*, skin) क्यूटिन ।

cuvierian organs—(Cuvier, French comparative anatomist) क्यूवैरियन अंग । होलोथूरियन (holothurian) के अवस्कर से बाहर निकलती हुई ग्रन्थिल नलिकायें ।

cyanic—(Gk. *kyanos*, dark blue) नीला या लगभग नीला ।

cyanin—(Gk. *kyanos*, corn flower) साएनिन; नील रंज्य पदार्थ; कार्नफलावर नील; कार्नफलावर एन्थोसाएनिन (anthocyanin) ।

cyanogenesis—(Gk. *kyanos*, blue; *genesis*, origin) सायनिक निर्माण; साइनिक अम्लज; हाइड्रोसायनिक अम्ल, प्रुसिक (prussic) अम्ल का निर्माण जैसा कुछ पौधों में होता है ।

cyanophycin—(Gk. *kyanos*, blue; *phykos*, seaweed) सायनोफाइसिन; बीटा कण (B granules); नीले हरे शैवाल (algae) की परिवेशी (peipheral) कोशिकाओं में प्रोटीन कणों का जमाव ।

cyanophyll—(Gk. *kyanos*, blue; *phyllon*, leaf) सायनोफिल; नील-हरित रंजन पदार्थ—पौधों का ।

cyanophil—(Gk. *kyanos*, blue; *philein*, to love) नील प्रेमी; नील रागी ।

cyathium—(Gk. *kyathos*, cup) साइएथियम—यूफोरविया (*Euphorbia*) कुल के पौधों का विशिष्ट पुष्पक्रम (inflorescence)—इसमें बाहरकी ओर प्यालेनुमा सहपत्र चक्र (involucre) होता है, अन्दर की ओर एक उत्तल पात्र (convex receptacle) पर पुष्पक लगे होते हैं । बीच का स्त्री पुष्प सबसे बड़ा होता है और यह नर पुष्पों से घिरा होता है ।

cyathozoid—(Gk. *kyathos*, cup; *zoon* animal; *eidos*, shape) प्रमुख मुकुल (ट्यूनीकेट्स-Tunicates) आदि का ।

cyathos—(Gk. *kyathos*, cu) क्यान्थस; छोटेप्यालेनुमा (अंग) ।

cycle—(Gk. *kyklos*, circle) चक्र; आवर्तन ।

(१) निश्चित क्रमिक बाहिनियों में तरल का परि-संचरण (circulation) ।

(२) जीवन चक्र (life cycle) ।

(३) आवृत्तक क्रमिक उत्पात जैसे डिम्ब ग्रन्थीय चक्र ।

cyclie—(Gk. *kyklos*, cirde) चक्रिक; चक्रीय; पुष्पों के विभिन्न भाग चक्रों (whorls) में लगे हुए ।

cyclocoelic—(Gk. *kyklos*, circle; *koilia*, intestine) चक्रवलि अंत्रीय; एक या दो स्पष्ट चक्रों वाली यंत्र युक्त ।

cyclogenous—(Gk. *kyklos*, circle; *genos*, offspring) बहिजात; एक समान केन्द्र चक्रों में बढ़ने वाला तना ।

cyclogeny—(Gk. *kyklos*, circle; *genos*, generation) चक्रवातजननता । जीवन चक्र (life cycle) में विभिन्न आकृतियों का एक के बाद एक का बनना ।

cyclojd—(Gk. *kyklos*, circle; *eidos* shape) चक्रज; चक्राम; साइक्लाइड; वृत्तजात शुल्क आदि) ।

cyclomorphosis—(Gk. *kyklos*, circle; *morphosis*, form) चक्रपात आकृतिक परिवर्तन ।

cyclopean=cyclopic—(Gk. *kyklos*, circle; *ops*, eye) चक्र-चक्षु ।

cyclosis—(Gk. *kyklosis*, whirling round, जीवद्रव्य भ्रमण; साइक्लोसिस; चक्र; जैसे कि कोसिका के अन्दर जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का होता है ।

cyclospermous—(Gk. *kyklos*, circle; *sperma*, seed) चक्र बीजाणु; चक्राकार भ्रूण ।

cyclospindylie (centra)—(Gk. *kyklos*, circle; *spondylos*, vertebra) साइक्लोस्पॉन्डिलिक; संकेन्द्र स्तरी (केन्द्रक); चरिक मध्मी (केन्द्रक); वह कशरु केन्द्रक (vertebra centra) जिसमें चरिक (calcereous) पदार्थ मध्य क्षेत्र (zone) में सीमित रहता है ।

cyclospindylous (vertebra)—(Gk. *kyklos*, circle; *spondylos*, vertebra) संकेन्द्रस्तरी; एककेन्द्रस्तरी

- कठोर; ऐसे कठोर जिनमें उपास्थि (cartilage) के आनु
क्रमिक स्तर (layers) एककेन्द्री (concentric) होते हैं।
- cyclostomata—(Gk. *kyklos*, circle; *stoma*,
mouth) मादकलोस्टोमाटा; गोलमुखी; निर्हुंनु।
- cylindrical—(Gk. *kylindros*, cylinder) बेलना-
कार।
- cymbiform—(L. *cyma*, boat; *forma*, shape)
नौकाकार।
- cymbium—(Gk. *kymlion*, small cup) शिमवियम;
नौकाकार; किन्ही मकड़ी (spider) का प्यालेनुमा
पेडीपैल्पस (pedipalpus) का टारसस (tarsus)।
- cymotrichus—(Gk. *kyma*, wave; *thrix*, hair)
तरंगरोमी।
- cyme—(L. *cyma*, young sprout) साइम; सीमाक्षी
(पुष्पक्रम)।
- cymose—(L. *cyma*, young sprout) समीमाक्षी
(पुष्प क्रम); इस पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष तथा इसकी
शाखाओं के सिरे पर पुष्प कलिकाएँ होती हैं जिनकी
बनह में अक्ष की वृद्धि रुक जाती है।
- yocobalamine—सायनोकोबालमिन; $C_{68}H_{80}O_{16}$
 N_4PCo विटामिन "बी १२"
- cynarrhodium, cynarrhodon—(Gk. *kyon*, dog;
rhodon, rose) साइनेरोडियम; अवतल पुष्पासन पर
दर्शन का पुंज (Etaerio of achenes)—जैसे
मुन्ना।
- cynopodous—(Gk. *kyon*, dog; *pous*, foot)
अमेकृचरनयी।
- cyphella—(Gk. *kyphella*, hollow of ear) सिफेला;
गणुयातिका।
- cyphonautes—(Gk. *kyphos*, boat; *nautes*, soilor)
सीफोनोटीस, कुछ पोलीजोवा (polyzon) का टिभक
विशेष।
- cytela—(Gk. *kytela*, hollow vessel) निप्तेला;
यह एक पुष्पाशयिनी अणुकाय (एन्डोरिपर) तथा एक

- बीजी अण्डाशय से उत्पन्न होते हैं। इनमें फल भित्ति
तथा बीज चोल एक दूसरे से अलग होते हैं—यह
एकीन किस्म का फल होता है तथा कम्पोजिन्टी कुल के
पोषों जैसे गेंदा, सूर्यमुखी आदि में मिलता है।
- cyst—(Gk. *kystis*, bladder) पुटी; सिस्ट; कोपिका;
स्योति।
- cysteine—(Gk. *kystis*, bladder) सिसटेन; एक
प्रकार का अमीनो अम्ल जो मूत्राशय में पाया जाता है।
- cystenychma—(Gk. *kystis* bladder; *engch-*
yma, infusion) सिस्टेन काइमा; कोपीय निर्यासक;
स्पंज का निर्यासक (parenchyma) जिसमें दीर्घ
कोपकीय कोशिका आकृति होती है।
- cystancytes—(Gk. *kystis*, bladder; *en*, in;
kytos, hollow) कोपकीय श्लेपी कोशिकायें (स्पंज
में)।
- cystic—(Gk. *kystis*, bladder) पित्ताशय—; स्यो-
तीय; स्योति—।
- cysticercoid—(Gk. *kystis*, bladder; *kerkos*, tail;
eidos, form) सिस्टीसरकायड; स्योतिकाभंक (टिभक)
सदृश।
- cysticercus—(Gk. *kystis*, bladder; *kerkos*, tail)
पुटी-पुच्छक; सिस्टीसरकस, कुछ टेपवर्म या मीवा कृमियों
(tape worms) का टिभक विशेष।
- cysticolous—(Gk. *kystis*, bladder; L. *colire*,
to inhabit) स्योतिवासी; सिस्ट में रहने वाला।
- cystid—(Gk. *kystis*, bladder; *idion*, dim)
सिसटिड; सिस्टोइड (cystoid) जीवाणु।
- cystidiform—(Gk. *kystis*, bladder; *idion*, dim.
L. *forma*, form) मुद्गराकार (कोशिकायें)।
- cystidium—(Gk. *kystis*, bladder; *idion*, dim)
सिस्टीडियम; स्फीत रोमोपम कोशिका।
- cystine—(Gk. *kystis*, bladder) सिस्टाइन; C_6H_{12}
 $O_4N_2S_2$ । पौते, अंडशुक्नान (egg albumin) और
किस्टीन में पाया जाता है।

cystoarian—(Gk. *kystis*, bladder; *oarion*, small egg) कोषिका जननांग; वह जननांग (gonads) जो देह कोटरिय (coelomic) कोषों (sacs) से घिरे रहते हैं, जैसे कुछ एक अस्थि मत्स्यों (teleosts) में।

(देखिये विपरीत gymnovarian अकोषक जननांग)

aystocarp—(Gk. *kystis*, bladder; *karpos*, fruit) सिस्टोकार्प; क्रिप्टोकार्प; गूढ़ फलिका।

cystocyte—(Gk. *kystis*, bladder; *kytos*, hollow) स्योति कोशिका।

cystoflagellata—सिस्टोफ्लैजेटा; गर्तकषातंत्री। कषा-तंत्री (mastigophora) वर्ग का एक गण (order)।

cystogenous—(Gk. *kystis*, bladder; *genos*, offspring) स्योतिज।

cystolith—(Gk. *kystis*, bladder; *lithos*, stone) सिस्टोलिथ; आशय कणिका; स्योति-कणिका।

cyston—(Gk. *kystis*, bladder) विसर्जनी ग्राहीमुकुल जैसे साइफोनो फोरा (siphonophora) में।

cystospore—(Gk. *kystis*, bladder; *sporos*, seed) कोषित स्पोर; संघ कोशिका स्योति; बीजाणु स्योति।

cystozoid—(Gk. *kystis*, bladder; *zoon*, animal; *eidōs*, form) स्योति का डिभक; देहांश; मेटासे-स्टोड (metacestode) का शारीरिक भाग।

cytase—(Gk. *kytos*, hollow) साइटस; सैल्यूलोज (cellulose) पाचक क्षोभक (enzyme)।

cytaster—(Gk. *kytos*, hollow; *aster*, star) कोषमय तारक।

cytes—(Gk. *kytos*, hollow) अणु, कोशिका।

cytoblast—(Gk. *kytos*, hollow; *blastos*, bud) साइटोब्लास्ट; कोशिका नाभिक; कोष्ठाण्डि; एक काल्प-निक इकाई (hypothetical unit)।

cytoblastemma—(Gk. *kytos*, hollow; *blastema*, growth) कोशिका निर्माणक; कोष्ठ निर्माणक।

cytocentrum—(Gk. *kytos*, hollow; *kentron*,

centre) साइटोसेन्ट्रम; कोशिका केन्द्र; केन्द्र पिण्ड; कोशिका सेन्ट्रम।

cytochrome—(Gk. *kytos*, hollow; *chroma*, colour) कोशिका प्रोटीन; साइटोक्रोम; हिस्टोहेमाटिन; मायाहेमाटिन; पीधों और जन्तु कोशिकाओं में पाया जाने वाला क्रोमोप्रोटीन जो ऑक्सीकरण (oxidation) और न्यूनीकरण (reduction) प्रक्रियाओं के लिये नितान्त आवश्यक होता है।

cytochylema—(Gk. *kytos*, hollow; *chylos*, juice) कोशिका लसीका।

cytoclesis—(Gk. *kytos*, hollow; *klesis*, summons) कोशिका प्रभाव; कोशिकोत्तेजना; कोशिका-उत्तेजना।

cytocooccus—(Gk. *kytos*, hollow; *kohhos*, grain) साइटोकॉक्स; निषिक्ताण्डि; निषिक्त (fertilised) डिम्ब (egg) का न्यूक्लियस।

cytocyst—(Gk. *kytos*, hollow; *kystis*, bladder) कोशिका-कोष; साइटोसिस्ट। आक्रांत (invaded) कोशिका के अवशिष्टों से बना हुआ वह खोल जिसमें एक कोशकीय परजीवी (protozoon parasite) बढ़ता है।

cytode—(Gk. *kytos*, hollow; *eidōs*, form) साइटोड; न्यूक्लियस हीन जीव द्रव्य पुंज (non-nucleated protoplasmic mass)।

cytoderm—(Gk. *kytos*, hollow; *derma*, skin) साइटोडर्म; कोशिका भित्ति।

cytodiaeresis—(Gk. *kytos*, hollow; *diairesis*, division) विषम विभाजन।

cytogamy—(Gk. *kytos*, hollow; *gamos*, union) कोशिका संयुजता।

cytogenesis—(Gk. *kytos*, hollow; *genesis*, descent) कोशिका-निर्माण; कोशिका जनन।

cytogenetics—(Gk. *kytos*, hollow; *genesis*, descent) कोशिकानुवंशिक; परम्परा कोशिका विज्ञान।

cytogenesis

- cytogenous—(Gk. *kytos*, hollow; *genos*, offspring) कोशिकोत्पादक ।
- cytoglobin—(Gk. *kytos*, hollow; L. *globus*, globe) साइटोग्लोबिन ।
- cytohyaloplasma—(Gk. *kytos*, hollow; *kyalos*, glass; *plasma*, mould) (कोशिका) काचद्रव ।
- cytokinesis—(Gk. *kytos*, hollow; *kinesis*, movement) कोशिका-द्रव्य विभाजन; कोशिका-विच्छेद । नियम विभाजन (karyokinesis) में होने वाले साधारण कोशिका सत्व (साइटोप्लाज्म) परिवर्तन; पितृ कोशिका (parent cell) के विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं (daughter cell) का पृथक होना ।
- cytology—(Gk. *kytos*, hollow; *secondarily*, cup vessel; *logos* logos, discourse) कोशिका-विज्ञान; यह विज्ञान की शाखा जो कोशिकाओं की बनावट, कार्य तथा जीवन इतिहास से सम्बन्ध रखता है ।
- cytolymph—(Gk. *kytos*, hollow; L. *lymph*, water) कोशिक; लसीका ।
- cytolysin—Gk. *kytos*, hollow; *lysis*, loosing) कोशिका ह्लासक; यह पदार्थ विशेष जो कोशिका ह्लास (cytolysis) करता है ।
- cytolysis—(Gk. *kytos*, hollow; *lysis*, loosing) कोशिका-ह्लास; कोष्ठ क्षय ।
- cytome—(Gk. *kytos*, hollow) पिण्डाणु; साइटोम । (देखिये cytosome तथा microsomes)
- cytomeres—(Gk. *kytos*, hollow; *meros*, part) साइटोमियर; कोशिकार्ध; वजन्मुज शुक्राणु (sperms) के कोशिकार्ध अंग ।
- cytomicrosome—(Gk. *kytos*, hollow; *mikros*, small; *soma*, body) कोशिका अणु पिण्ड; साइटो-माइक्रोसोम ।
- cytomitome—(*kytos*, hollow; *mitos*, thread) कोशिका सूत्र जाल; कोशिका प्ररस (सत्व) का सूत्र जाल ।
- cytomorphosis—(Gk. *kytos*, hollow; *morphosis*,

- shaping) कोशिका परिवर्तन; कोशिका जीवन वृत्त ।
- cyton—(Gk. *kytos*, hollow) साइटोन; तंत्रिका कोशिका पिण्ड ।
- cytophan—(Gk. *kytos*, hollow; *phaneros*, visible) साइटोफान ।
- cytopharynx—(Gk. *kytos*, hollow; *pharyngs*, gullet) कोशिका-प्रसनी; कोशिका-कण्ठ ।
- cytophil—(Gk. *kytos*, hollow; *philein*, to love) कोशिकानुरागी ।
- cytophore—(Gk. *kytos*, hollow; *phora*, burden) कलिकाधारक । (देखिये blastophore)
- cytoplasm—(Gk. *kytos*, hollow *plasma*, mould) साइटोप्लाज्म; कोशिकाद्रव्य; कोष्ठ-द्रव; कोष्ठ सत्व ।
- cytoplasmic inclusions—कोशिका द्रवीय; अर्न्तद्रव्य ।
- cytoproct, cytopyge—(Gk. *kytos* hollow; *proktos*, anus; *pyge*, rump) साइटोपाइगे; कोशिका मलद्वार ।
- cytoreticulum—(Gk. *kytos*, hollow; L. *reticulum*, little net) कोशिका जाल, कणमय जीवन तत्व (spongioplasm) ।
- cytosine—(Gk. *kytos*, hollow) सोइटोसीन; $C_4H_6N_2O$; न्यूक्लिक अम्ल की विदलन (cleavage) उत्पाद (product) ।
- cytosome—(Gk. *kytos*, hollow; *soma*, body) कोशिका-पिण्ड ।
- cytostome—(Gk. *kytos*, hollow; *stoma*, mouth) कोशिका मुख ।
- cytotaxis—(Gk. *kytos*, hollow; *taxis*, arrangement) कोशिका न्यास । उत्तेजना (stimulus) पाने पर कोशिका का पुनर्न्यास (rearrangement) ।
- cytothesis—(Gk. *kytos*, hollow; *thesis*, something set down) (किसी कोशिका की) पुनर्रूप-प्रवृत्ति ।

cytotoxin—(Gk. *kytos*, hollow; *toxiken*, poison) कोशिका-विष ।

cytotrophoblast—(Gk. *kytos*, hollow; *trophe*, nourishment; *blastos*, bud) अन्तः पोषकोरक; लैंगरहैन्स (langerhans) का स्तर; पोषण कोशिका (trophoblast) का अन्तःस्तर ।

cytotropism—(Gk. *kytos*, hollow; *trope*, turning) कोशिका कर्षण वृत्ति ।

cytozoic—(Gk. *kytos*, hollow; *zoon*, animal) कोशिकावासी (जन्तु) ।

cytula—(Gk. *kytos*, hollow) पितृ कोशिका; निषिक्त डिम्ब या पैतृक-कोशिका ।

dacryocyst

D

Dacryocyst—(Gk. *dakryon*, tear; *kystis*, bladder) अश्रुकोषिका; लश्रुचंली ।

dacryon—(Gk. *dakryon*, tear) डेक्त्रियोन; मेक्सिला (maxilla) मनाट (frontal) प्रवर्ध (process), ललाटान्त्रि (frontal bone) और लैक्राइमल (lacrimal) अग्निके अग्रतटों का सन्धि बिन्दु (point of junction) ।

dactyl—(Gk. *daktylos*, finger) अंगुली; अंगुलि; डैक्टायल ।

dactylar—(Gk. *daktylos*, finger) अंगुलीय ।

dactyloid—(Gk. *daktylos*, finger, *idos*, form) अंगुलि मद्रूप; अंगुलोपम ।

dactylopodite—(Gk. *daktylos*, finger; *pous*, foot) अंगुलि पादाङ्ग; डैक्टिलोपोडाइट ।

dactylopor—(Gk. *daktylos*, finger; *poros*, channel) अंगुलिनाल छिद्र; कंकाल छिद्र; मिलीपोर; दना (मृगा वंशज) के अस्थि पंजर या कंकाल का द्वार ।

dactylopterus—(Gk. *daktylos*, finger; *pteron*, wing) डैक्टिलोप्टेरस; डैक्टायलोप्टेरस; अंगुलि-फिन; ऐसे मत्स्य जिनकी अग्र किरणें या अग्र (anterior rays) भक्तद्र होते हैं ।

dactyloscopy—अंगुलीछाप विज्ञान (science of finger prints) ।

dactylozooid—(Gk. *daktylos*, finger; *zoon*, animal, *eldos*, resemblance) ग्राही मुकुन; डैक्टिलोसोइडाइट; अंगुली मद्रूप मुकुन ।

dactylus—(Gk. *daktylos*, finger) अंगुलि । कीटों या पतंगों (insects) के युक्त (टारसस-tarsus) का एक भाग ।

dark skinned—रसाम वर्ण ।

dart—(O. F. *dart*, dagger) बर्छा; धारक । मौनस्का अंगुली के एक मृदुलि-आकृति ।

dart sac—धारक; कोप गैस्ट्रोपोडा (gastropoda) में

में योनिमार्ग से चिपटा हुआ एक छोटा कोप जिसमें प्रासक (dart) होता है ।

dartoid—(Gk. *dartos*, flayed) डारटोइड; निस्त्वचयी ।

dartos—(Gk. *dartos*, flayed) अण्ड कोप (scrotum) की त्वचा से लगी हुआ एक आरेखी पेशी का पतला स्तर, जिसे टयूनिका डारटोस (tunica dartos) कहते हैं ।

darwinian tubercle—डारविन गाँठ; बाह्य कान के बाह्य तट पर की एक गाँठ या उत्कर्ष भाग ।

darwinism—(C. Darwin) ड विन मत: डार्विनवाद ।

इस मत या सिद्धान्त के अनुसार यह समझा जाता है कि प्राकृतिक संकलन या वरण (natural selection) द्वारा उन व्यक्तियों का जीवन बच पाता है, जिनमें सूक्ष्म जीव-नोपयोगी भिन्नतायें या विविधतायें (variations) हों । इस प्रकार के निरन्तर छटाव तथा वंश परम्परा या अनुवंशिकता (heredity) के कारण जीवों में जाति (स्पीशीज) का विकास हुआ है, यही कारण है कि जीव अपनी जीवन विधि (mode of life) और वातावरण (environment) के उपयुक्त (adapted) होते हैं ।

dasypaedes—(Gk. *dasys*, hairy; *pais*, child) रं.मुकुणकी; वे पक्षी जिनके वच्चे अण्डों में से रोम पक्ष (down feathers) से ढके हुए निकलते हैं ।

dasyphyllous—(Gk. *dasys*, hairy; *phyllon*, leaf) रोमिल पर्ण ।

davermofication—(Ger. *dauer*, duration; L. *modificatio*, modification) अस्थाई परिवर्तन; पर्यावरण द्वारा प्रेरित परिवर्तन जो कई संततियों तक चलता है पर स्थाई नहीं होता है, अन्त में अंगी पुनः अपने प्ररूप को प्राप्त कर लेता है ।

daughter—(Gk. *thygater*, to milk or A. S. *dohtor*, daughter) दुहिता; सन्तान; सन्तति; पुत्री; प्रथम सन्तति या श्रेणी (generation) की सन्तान ।

daughter cell—दुहिता कोशिका ।

dealation—(L. *de*, away; *alatus*, winged) पक्ष वहिष्करण; पक्ष उत्सारण; पक्ष (wings) का गिरा देना जैसे निषेक के पश्चात् मादा चींटी गिरा देती है।

deamination—(L. *de*, down; Gk. *ammoniacum*, resinous gum) अमोनिया हरण; विऐमीनीकरण; अमोनिया लवणों का यूरिया (urea) में परिवर्तन; बांशिक रूप से यकृत में ऐसा होता है।

death—(M. E. *deth*, death) मृत्यु; मौत। जीवन की समस्त शक्तियों (लक्षणों) का नितान्त लोप हो जाना।

death-point—मृत्यु ताप बिन्दु; वह ताप जिससे कम या ज्यादा पर अंगी जीवित नहीं रह सकता है।

decalcify—(L. *de*, away; *calx*, lime) अकैल्सीकरण; खरिक विहीन करना।

decamerous—(Gk. *deka*, ten; *meros*, part) दस खण्डी; दश खण्डी।

decadence—अवसाद; क्षय।

decapod—(Gk. *deka*, ten; *pous*, foot) (१) दशपादी। वे केकड़ावंशी (crustacea) जिनके वक्ष पर टाँगों के ५ युग्म (जोड़) होते हैं। (२) दश भुजी। दश भुजाओं वाले सिफेलोपोडा (शिरस्पादी)।

decapodiform—(Gk. *deka*, ten; *pous*, foot; L. *forma*, shape) दशपादी सदृश; दशपादोपम।

decemfid—(L. *decem*, ten; *findere*, to cleave) दशखण्डी; दशखण्डों में बँटा हुआ।

decemfoliate—(L. *decem*, ten; *folium*, leaf) दस पर्णी; दस पत्ती वाला।

decemjugate—(L. *decem*, ten; *jugare*, to join) दस युगल पर्णकी।

decempartite—(L. *decem*, ten; *partiri*, to divide) दशदली।

decidua—(L. *de*, away; *cadere*, to fall) पत्या; आवल। गर्भाशय (uterus) की पतनशील (पत्या) श्लैष्मिक झिल्ली (mucous membrane) जो प्रसव के पश्चात् निकल जाती है। मानवों तथा अन्य मानवैतर

प्राणियों के शरीर में गर्भाशय की झिल्ली जो प्रसव के पश्चात् निकलती है।

decidual—(L. *decidere*, to fall off) पत्या सम्बन्धी; पत्या-; पत्या की।

deciduate—(L. *decidere*, to fall off) पत्यायुक्त।

deciduous—(L. *decidere*, to fall off) पतनशील।

deciduous or milk teeth—दुग्धदन्त; दूध के दाँत; अस्थायी दाँत; पतनशील दाँत; पातुक दन्त।

declinate—(L. *de*, away; *clinare*, to bend) अधोनतन; परेनतन।

decomposed—(L. *de*, away; *cum*, with; *pau*, sare, to ret) सड़ा हुआ; विगठित।

decompound—(L. *de*, away; *cum*, with; *ponere*, to place) डिक्म्पाउण्ड (पर्ती); इनमें पर्णक (leaflet) तीन बार से अधिक विभाजित होते हैं और पर्ती का स्वरूप कटा फटा हो जाता है। उदाहरण—गाजर, घनिया आदि की पर्ती।

decorticate—(L. *decorticare*, to ped) छीलना; छिलका हटाना; त्वक् निष्कारण; निर्वलकयति; छाल (bark) या त्वक् (cortex) को हटाना।

decumbent—(L. *decumbere*, to lie down) शयान; संविष्ट; उपविष्ट; एक पतना जो धरती पर फैला हुआ तथा उसकी सिर उठा हुआ होता है।

decurrent—(L. *de*, away; *currere*, to run) प्रवही पर्ण; अधो पर्णी; तने के ऊपर पर्ती का वधर पंख की तरह फैला हुआ।

decussate—(L. *decussare*, to cross) क्रॉसित; क्रूसी।

decussation—(L. *decussare*, to cross) पर्ण क्रॉस; तंत्रिका तन्तु क्रॉस।

dedifferentiation—(L. *de*, away from; *differe*, nita, difference) निर्विभेदन; विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा बने लक्षणों का खोना और सामान्य कोशिका के रूप में आना।

dedoublement—(F. *dedoublement*, dividing into two) द्विविभजन; विभजन; विद्विगणीकरण ।

defaecation—(L. *defaecation*, voiding of excrement) मलोत्सर्ग; मल त्यागना ।

defensive—(L. *defendere*, to defend) रक्षक; रक्षात्मक; रक्षणीय; सुरक्षा; प्रतिरक्षा । (n) रक्षणीयता; रक्षा की स्थिति ।

deferent—(L. *deferre*, to carry away) बहिगामी; बाहर की ओर बहा कर ले जाने वाली नलिका आदि ।

deferred—(L. *deferre*, to bring down) आस्थगित ।

deficiency diseases—हीनान्न रोग; न्यूनता रोग; जन्तुओं या वनस्पतियों में किन्हीं आवश्यक तत्वों की हीनता या न्यूनता (deficiency) होने के कारण रोग ।

definite—(L. *definitre*, to limit) नियत; निश्चित; निर्णित ।

definite host or definitive—अन्त्य परपोषी; मुख्य पोषक; प्रौढ़ परजीवी का पोषक (host) ।

(देखिये primary host मुख्यपोषक)

definitive—(L. *definire*, to limit)

(१) सम्पूर्ण बद्धित (fully developed);

(२) अन्त्य परपोषी (definitive host); प्रौढ़ परजीवी पोषक ।

defoliate—(L. *definire*, to limit) निष्पर्ण; निष्पत्तन; पर्णमोक्ष ।

deformity—रचना विकार; विकृत रचना; अस्वभाविक रचना; विकृत आकृति ।

degeneration—(L. *degener*, base) ह्रास; अपकर्ष; अधोगति; अधोविकास (retrogressive evolution) ।

deglutition—(L. *deglutire*, to swallow) निगलना; गले से नीचे उतारना ।

dehiscence—(L. *dehiscere*, to gape) चटखाना ।

deinopore—(Gk. *deinos*, urn; *poros*, channel) कोशिकासेतु ।

deirids—(Gk. *deiras*, chain of hills) ग्रंथीयकूट [सूत्र कृमियों या गोल कृमियों = nematodes में] ।

deiters' cells—(O. F. C. *Deiters*, German anatomist) डाइटर्स कोशिकायें ।

delamination—(L. *de*, down; *lamina*, layer) स्तरीकरण कोशिका विभाजन (division of cells) के द्वारा नवीन स्तरों का निर्माण ।

deletion—(L. *delere*, to efface) गुणसूत्र परोक्षता; विलोपन; विलोप; गुणसूत्र न्यूनता; गुण सूत्र के केन्द्रीय भाग की न्यूनता; गुण सूत्र खण्ड और अवकुटित (involved) जीन्स (genes) की परोक्षता (absence) ।

deliquescent—(L. *deliquescere*, to become fluid) प्रस्वेदन; लीनक्षता; द्रवीभूत; पार्श्व कोरकों का अधिक तेजी से बढ़ना जिससे तना कई अक्रमिक शाखाओं में बँटा हुआ दिखाई देता है ।

delitescence—(L. *delitescere*, to lie hidden) रोगाणुवर्धन (काल); विषाणु वर्धन (काल) ।

delivery—प्रसव; बच्चा जनना ।

delomorphous—(Gk. *delos*, visible; *morphe*, shape) गोचरावृत्ति ।

delthyrium—(Gk. *delos*, visible; *thyron*, little door) विवर । भ्रूजपादियों (त्रिकियोपोडा में चूल सन्धि (hinge) और चोंच (beak) के बीच का विवर जिसमें से स्तम्भ (peduncle) निकलता है ।

deltidium—(Gk. *delta*; *idion*, dim) विवर पट्ट । विवर (delthyrium) को ढकने वाला पट्ट (plate) ।

deltoid—(Gk. *delta*; *eidos*, form) डेल्टाइड; डेल्टाइड (त्रिभुजाकार) या त्रिकोणाकार सदृश रचना वाले (पेशी-नाड़ी आदि) ।

demanian—(J. G. *de man*; french zoologist) डिमेनियन—नलिका मण्डल ।

deme—(Gk. *demos*, people) एक कोशिकीय समुदाय; वर्गीय समुदाय ।

demersal—(L. *demergere*, to plunge into) तल-

वासी; तलमज्जी। समुद्र या झील की तली पर रहने वाले।

demersed—(L. *demergere*, to plunge into) जलमग्न।

demifacet—(L. *dimidius*, half; *facies*, face) अर्धयोजक तल।

demilune cells—अर्धेन्दु कोशिकायें; अर्ध चन्द्राकार (crescentric) कोशिकायें (cells)।

demisheath—(L. *dimidius*, half; A. S. *sceath*, sheath) पिधानार्ध; अर्धपिधान।

demoid—(Gk. *demos*, common people) प्राचुर्य; विपुल; अधिक; सामान्य रूप से अधिक संख्या में पाये जाने वाले।

denatant—(L. *de*, down from; *natare*, to swim) धारावाहिक।

dendriform—(Gk. *dendron*, tree; L. *forma*, shape) वृक्षाकार; शाखामय; द्रुमाकार।

dendrite—(Gk. *dendron*, tree) द्रुमिका; द्रुमाकृति; द्रुमक (dendron) की एक उपशाखा।

dendrochronology—(Gk. *dendron*, - tree; *chronos*, time; *logos*, discourse) वृक्षायुमापन शास्त्र।

dendrogoea—(Gk. *dendron*, tree; *gaia*, earth) डेन्ड्रोजिया (जन्तु भौगोलिक क्षेत्र) दक्षिण अमेरिका के अतिरिक्त इस क्षेत्र में समस्त नियोट्रॉपिकल क्षेत्र (Neotropical region) गिना जाता है।

dendrology—(Gk. *dendron*, tree; *logos*, discourse) वृक्ष विज्ञान।

dendron—(Gk. *dendron*, tree) द्रुमक; वृक्षिका; तन्त्रिका कोशिका का जीवद्रव्यीय (प्रोटोप्लाज्मिक) प्रवर्द्धन।

deiontrification—(L. *de*, away; Gk. *nitron*, soda; L. *facere*, to make) नाइट्रोजन (नेत्रजन) ह्रास।

dens—(L. *dens*, tooth) दंस; दन्त या दन्ताकार प्रवर्द्धन।

dens serotinus—तृतीय चर्वक (molar) यानी अन्कल डाढ़ (wisdom tooth)।

dense—घना; गहन।

dental—(L. *dens*, tooth) दन्तीय, दन्त सम्बन्धी; दन्त—।

dental formula—दन्त सूत्र; स्तनी (mammals) में दाँतों की संख्या (number) और उनके प्रकार (kinds) संक्षिप्त रीति से दर्शाने की एक विधि।

dentary—(L. *dens*, tooth) डेन्टरी; अधरहनुअस्थि-अर्थात् निचले जबड़े (lower jaw) की एक हड्डी।

dentate—(L. *dens*, tooth) दाँतदार; दन्दानेदार।

dentate ciliate—दन्त रोमिल पर्ण; ऐसे पर्ण जिनके तट दन्तुरित तथा रोमिल दोनों होते हैं।

dentate crenate—गोलदन्त तटी।

denticles—(L. *dens*, tooth) दंतिकायें।

(१) किन्ही पोलीकीट (polychaeta) के दाँत सदृश परा-मैक्सिला (par. gnaths)।

(२) पोलीजोआ (polyzoa) में गीण योनिमार्ग में स्थिति दंतिकायें (teeth)।

(३) किन्हीं अस्थि मत्स्यों (Elasmobranchii) के दाँत सदृश शल्क (scales)।

denticulation—(L. *dens*, tooth or dentition) दन्त विन्यास।

dentinal—(L. *dens*, tooth) डेन्टीन सम्बन्धी; डेन्टीनल।

dentine—(L. *dens*, tooth) डेन्टीन; दन्तीन; दाँतों को बनाने वाला एक कठोर पदार्थ विशेष।

dentition—(L. *dens*, tooth) दन्त विन्यास; दाँतों की संख्या; क्रम और भेद (प्रकार)।

deossification—अस्थि ह्रास; अस्थिकरण।

deperulation—(L. *de*, away; *dum* of *pera*, wallet) विशल्कन; कलिका शल्क पतन।

depigmentation—(L. *de*, away; *pingere*, to paint) रंग ह्रास; विवर्णकता; किसी कोशिका में प्रकृतिक

या प्रयोगिक प्रक्रियायों द्वारा रंग पदार्थ का ह्रास हो जाता ।

deplanate—(L. *deplanare*, to level) चपटा या समतल ।

depressant—(L. *deprimere*, to lower) निम्नोत्पादक; निम्नकारक ।

depressed—(L. *deprimere*, to lower) पिचका हुआ; दबा हुआ; अवनमित ।

depression—(L. *deprimere*, to lower) खात; दबा हुआ स्थान या स्थल; अवनमन ।

depressor—(L. *deprimere*, to lower; *movere*, to move) अधः कर्षक तन्त्रिका ।

depressor—(L. *deprimere*, to lower) अधः कर्षक; अवनमनी ।

deric—(Gk. *deros*, skin) बहिष्चर्म ।

derm, derma or dermis—(Gk. *derma*, skin) चर्म; अंतश्छद । खाल (skin) के उपत्वक या बहिष्छद (epidermis) के नीचे पाया जाने वाला स्तर ।

dermal—(Gk. *derma*, skin) चर्मी; त्वचीय; अन्तश्छदी; चर्म सम्बन्धी ।

dermalia—(Gk. *derma*, skin) अन्तश्छदी लघु दूढ़ा । अन्तश्छद में पाया जाने वाला लघु दूढ़ा (microsceres) ।

dermatricular—(Gk. *derma*, skin; L. *artculus*, joint) गोनियेल; जबड़े की हड्डी; आर्टीक्युलर के अतिरिक्त निम्न हृन्वास्थि ।

dermatocranium—त्वक कपाल ।

dermatogen—(Gk. *derma*, skin; *genos*, birth) तरुण अधिचर्म; पीधों में तरुण या भ्रौणिक अधिचर्म ।

dermatoglyphics—(Gk. *derma*, skin; *glyphein*, to carve) त्वचा चिन्ह ।

dermatomes—(Gk. *derma*, skin; *tome*, cutting) त्वक खण्ड; मध्यजन खण्ड; चर्मजन ।

dermatophyte—(Gk. *derma*, skin; *phyton*, plant) चर्म फगस; चर्म परजीवी ।

dermatoplasm—(Gk. *derma*, skin; *plasma*, mould) कोशिकाभित्ति प्ररस ।

dermatoplast—(Gk. *derma*, skin; *plastos*, moulded) भित्तिज प्रकण ।

dermatopsy—(Gk. *derma*, skin; *opsis*, sight) त्वक् दृष्टि; त्वचाहकसंवेदिता; प्रकाश सवेदी त्वचा ।

dermatosome—(Gk. *derma*, skin; *soma*, body) डरमेटोसोम; कोशिका कलाजनक; कोशिका कला का निर्माण करने वाली एक जैवी इकाई ।

dermatozoon—(Gk. *derma*, skin; *zoon*, animal) त्वक-परजीवी; खाल पर या खाल में रहने वाला परजीवी जन्तु ।

dermentoglossum—(Gk. *derma*, skin; *entos*, with in; *glosa*, tongue) डरमेन्टोग्लोसम (अस्थि); कुछ मत्स्यों में अन्तः जिह्वीका को ढके हुए एक अस्थि विशेष जो डेन्टीनल आधारों के संलय से बनती है ।

dermethmoid—(Gk. *aerma*, skin; *ethmos*, sieve; *eidos*, form) डरमेथमॉइड; उर्ध्वएथमाइड; सुपरा झंझरास्थि (ethmoid) ।

dermic—(Gk. *derma*, skin) त्वकजन्य; त्वचा सम्बन्धी; अन्तश्छदी ।

dermis—(Gk. *derma*, skin) चर्म; अन्तश्छद ।

dermoblast—(Gk. *derma*, skin; *blastos*, bud) चर्मज । मध्यस्तर (mesoblast) का वह स्तर जिसमें चर्म या अन्तश्छद बनता है ।

dermo-ossification—(Gk. *derma*, skin; L. *os*, bone; *fieri*, to became) त्वकस्थीकरण । त्वचा के अन्तर्गत अस्थीकरण (ossification) ।

dermopharyngeal—(Gk. *derma*, skin; *pharyngx*, gullet) त्वक-कण्ठीय (पट्ट) । कुछ मत्स्यों (fishes) में कण्ठदन्तों (pharyngeal teeth) को साधे हुए उर्ध्व या अधर कलास्थि (membrane bone) पट्ट (plate) ।

dermophyte—(Gk. *derma*, skin; *phyton*, plant) चर्मफंगस; चर्म परजीवी ।

dermosclerites—(Gk. *derma*, skin; *ksleros*, hand) त्वक पट्टिकायें; त्वकदृढ़ा; एलसायोनिडी (alcyonidae) के ऊतकों में पाये जाने वाले स्फीक्यूल के पुंज ।

dermokeleton—(Gk. *derma*, skin; *skeletos*, dried) त्वक-पंजर; बाह्य कंकाल ।

derotreme—(Gk. *deros*, skin; *trema*, aperture) त्वकछद् ।

derthroeca—(Gk. *dertron*, beak; *theke*, cup) चंचुवेष्टन; पक्षियों में पाया जाने वाला मैक्सिला (*maxilla*) का शृंगोपम (horny) आवेष्टन (casing) ।

dertrum—(Gk. *destron*, beak) अन्य चंचुवेष्टन; पक्षियों के मैक्सिला के आवेष्टन का कोई अन्य रूप ।

descemet's membrane—(J. *descemet*, French anatomist) डेसेमेट कला; प्र.यास्थिका कला; कॉनिया का पृथक् स्थिति स्थापक पत्रक (lamella) या मध्य पटलिका ।

descending—(L. *de*, down; *scandere*, to climb) अधोगामी; अवरोही; पश्चादगामी; रक्त नलिका या तंत्रिका सूत्र आदि ।

desegmentation—(L. *de*, from; *segmentum*, piece cut off) अखण्डी भवन; खण्ड संलय । मौलिक रूप से (originally) पृथक् रहे हुए खण्डों (segments) का आपस में मिलकर एक हो जाना, अर्थात् (संलय fusion) हो जाना ।

desexualise—(L. *sexus*, sex) लिंग ह्रास; निर्लिङ्गीकरण ।

deserticolous—(L. *desertus*, waste; *colere*, to inhabit) मरुवासी ।

desmergate—(Gk. *desma*, bond; *ergates*, worker) बन्धपिपीलिका; मध्य पिपीलिका; उद्योगी (worker) और सैनिक (soldier) पिपीलिका के मध्य की स्थिति ।

desmocyte—(Gk. *desmos*, bond; *kytos*, hollow) बन्ध कोशिका; बन्धक ऊतक (connective tissue) कोशिका (cell) ।

desmogen—(Gk. *desmos*, bond; *genos*, descents) विभज्योतिकी या उपचीममान ऊतक; प्रभव ऊतक ।

desmognathous—(Gk. *desma*, bond; *gnathos*, jaw) बन्धतालु । वे पक्षी जिनमें मैक्सिलो-पैलेटाइन (maxillopalatines) अस्थियाँ कपाल की अन्य विशेषताओं के कारण मध्य रेखा (middle line) में संलयित (fused) होती हैं ।

desmology—(Gk. *desmos*, bond; *logos*, discourse) पेशी बन्ध (लिगामेंट) रचना विज्ञान ।

desmones—(Gk. *desmos*, bond) रसायनिक बन्ध; रसायनिक सेतु ।

desmosome—(Gk. *desmos*, bond; *soma*, body) बन्धकण ।

desquamation—(L. *de*, away; *squama*, scale) निपतन; छोटी-छोटी टिकलियों में उपत्वक या चर्हिच्छद (epidermis) का गिरना ।

destination—(L. *destinare-de*, inten, and root of *stare*, to stand) लक्ष्य; इष्ट ।

determinant—(L. *determinare*, to limit) निर्धारक; एक कल्पित (hypothetical) इकाई (unit) जो किसी कोशिका (cell) या कोशिका समूह का परिवर्धन निर्धारित करे ।

determinate—(L. *determinare*, to limit) सीमित; परिमित; निर्धारित ।

determination—(L. *determinare*, to limit) निर्धारण ।

deforsion—(L. *de*, away; *torpuere*, to twist) प्रतिव्यायतन; विपरीत घुमाव या ऐंठन ।

detoxication—(L. *de*, away; Gk. *toxikon*, poison) विष ह्रासता; प्रतिविषता ।

detrusor

detrusor—(L. *detruder*, to thrust from) मूत्रकोषिका भित्ति; कार्यकी तीनों जनन स्तर ।

deuterocerebrum—(Gk. *deuteros*, second; L. *cerebrum*, brain) ड्यूटेरो सेरेब्रम; द्वितीयक मस्तिष्क; कैकड़ावंशीयों (क्रशटेशिया) के मस्तिष्क का वह भाग जिससे स्पर्शक तंत्रिकायें उद्भूत होती हैं ।

deuterocoele—(Gk. *deuteros*, second *koilos*, hollow) सीलोम; देह कोटर ।

deuterocone—(Gk. *deutros*, second; *konos*, cusp) उपपुराङ्कु ।

deuterogenesis—(Gk. *deutros*, second; *genesis*, origin) मध्यजनन । भौतिक-वर्धन (embryonic development) में पुराङ्ग के बाद की अवस्थायें ।

(देखिये protogenesis आरम्भिक जनन या पूर्वजनन)

deuterostoma—(Gk. *deuteros*, second; *stoma*, mouth) उपमुख । गौणतया (secondarily) उत्पन्न द्विस्तर (gastrula) के मुख से भिन्न मुख ।

deuterotoky—(Gk. *deuteros*, second; *tokos*, birth) नर-नारी जनन; नर-नारी उत्पादन । अनिषेकज (parthenogenetic) डिम्बों से नर और मादा दोनों प्रकार के व्यक्तियों का उत्पादन (reproduction) ।

deuterozoic—(Gk. *deuteros*, second; *zoon*, animal) मध्य कालीन जन्तु विशेष ।

deuterozoid—(Gk. *deuteros*, second; *zoon*, animal; *eidos*, form) उपमुकुल; गौण मुकुल । आद्य मुकुल (primary zooid) के कलिकोत्पादन (budding) से उत्पन्न मुकुल ।

deuthyalosome—(Gk. *deuteros*, second; *hyalos*, glass; *soma*, body) अवशिष्टाण्ड । प्रथम ध्रुवपिण्ड (polar body) के पृथक होने के पश्चात् डिम्ब (ovum) में अवशिष्ट न्यूक्लियस (अण्डि) ।

deutoblasts—(Gk. *deuteros*, second; *blastos*, bud) गौण कोशिकायें; ह्यूटोब्लास्ट । उपकोशिकायें ।

dentobroch—(Gk. *deuteros*, second; *brochus*, mesh) उपकेन्द्रक; उपन्यूक्लियस ।

dentocerebrum—(Gk. *deuteros*, second; L. *cerebrum*, brain) उपमस्तिष्क; शृंगिक ग्रंथि; मस्तिष्कांत; कीट मस्तिष्क का वह भाग जो शृंगिक ग्रंथियों के संलय से बनता है ।

dentomalae—(Gk. *deuteros*, second; *malon*, cheek) उपकपोल; रोमिकाहनुओं (chaetognatha) में मुखावयवों (mouth appendages) के द्वितीय युग्म, (pair) से संलय (fusion) द्वारा बना हुआ चौड़ा पट्ट (plate) ।

deutomerite—(Gk. *deuteros*, second; *meros*, part) पश्चखण्ड; उपखण्ड; कुछ गिरगैराइन्स (gregarines) का पश्च खण्ड ।

deutonephros—(Gk. *deuteros*, second; *nephros*, kidney) मध्य वृक्क ।

deutoplasm—(Gk. *deuteros*, second; *plasma*, mould) डिम्बान्न । डिम्ब या अण्डाणु (ovum) या अन्य कोशिका का खाद्य पदार्थ ।

dentoscolex—(Gk. *deuteros*, second; *skolex*, worm) उपमीवासिर; कुछ मीवाकृमियों या चपटा कृमियों (flat-worms) के स्योतिकार्भक-ब्लैडरवर्म (bladder-worm) में कलिकोत्पादन (budding) द्वारा निर्मित गौण (उप) मीवा सिर ।

deutosomes—(Gk. *deuteros*, second; *soma*, body) उपपिण्ड; केन्द्रक (न्यूक्लियोलस nucleolus) के वे कण (granules) जो कोशिका द्रव्य (cytoplasm) में अलग होकर डिम्बान्न या योक (yolk) की रचना करने वाले समझे जाते हैं ।

deutovum—(Gk. *deuteros*, second; L. *ovum*, egg) उपअण्डाणु; उपडिम्ब; कुछ किलनियों (mites) के कार्यांतरण या रूपान्तर (metamorphosis) में पाई जाने वाली एक स्थिति ।

development—(F. *developper*, to unfold) विकास; व्यक्तिकरण; परिवर्तन; वर्धन । जीवन के आरम्भ से लेकर प्रौढावस्था (adult stage) तक का वृद्धि क्रम (परिवर्धन) ।

deviation—(L. *de*, away from; *via*, way) विचलन; व्यतिक्रम ।

devoid of villi—अंकुरहीन; निरंकुर; उद्वर्धहीन ।

devonian—(*devon*, where strata were first studied) डिवोनियन; डिवोनी कल्प; पुराजीवी महाकल्प (paleozoic era) के अन्तर्गत कार्बनमय (carboniferous) से पूर्व वाला काल या युग (epoch) । इसका आरम्भ लगभग ४०-५० लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है । इस काल में स्थान बढ़ जन्तुओं के होने का अनुमान रहा है और जो भी प्रमाण मिले हैं उनसे यह निश्चित हो सका है कि कुछ सन्धिपाद प्राणी जैसे मकड़ी (spiders), किल्ली (mites), सहस्रपादी (millipedes), और विच्छु (scorpion), तर स्थानों पर दृष्टिगोचर हो गये थे ।

dextrotropic—(Gk. *dexios*, right; *trope*, turn) दक्षिणवर्तनी; दाँये से दाँये ओर जाने वाले घुमाव वाला ।

dextral—(L. *dexter*, right hand) दक्षिणावर्त; दक्षिणवर्तनी ।

dextrin—(L. *dexter*, right hand) डेक्स्ट्रिन; डेक्सट्रिन; माड़ी (starch) से उत्पन्न एक घुलनशील (soluble) पदार्थ (substance) विशेष ।

dextrorse—(L. *dexter*, right; *vertere*, to turn) दक्षिणावर्तक; दाँये से दाँये घूम कर पेचदार बढ़ने वाला ।

dextrose—(L. *dexter*, right; *vetere*, to turn) डेक्स्ट्रोस; डेक्सट्रोज; ग्लूकोज (glucose) या ग्लूकोज शर्करा ।

diabetogenic—(Gk. *diakainein*, to crossover; *gignesthai*, to beget) हायविटीज कारक; मधुमेहजन; मधुमेहजन हार्मोन; (१) पिट्यूटरी हार्मोन जो इन्सुलीन (insulin) को प्रभावहीन कर देता है; (२) केकड़ावंशी (crustacean) में चक्षुवृन्त (eye stalk) के कुत्त्या ग्रन्थि (sinus gland) का हार्मोन ।

diachaenium—(Gk. *dis*, twice; *a*, not; *chainein*, to gape) केमोकोप का प्रत्येक भाग (कोष्ठ) ।

diacoel—(Gk. *dia*, through, *kailos*, hollow) डायोसील; तृतीय द्विवर या तृतीय निलय (मस्तिष्क का) ।

diacranteric—(Gk. *dia*, asunder; *krauterces*, wisdom teeth) अन्तराली दन्ती । ऐसे सर्प आदि जिनके अगले और पिछले दाँतों के बीच में दन्त व्यवधान या अन्तराल (diastema) होता है ।

diactinal—(Gk. *dia*, twice; *aktis*, ray) द्विकिरणी; द्विअरीय ।

diadelphous—(Gk. *dis*, twice; *adelphous*, brother) द्विसंधी; इसमें नौ पुंकेसरों का एक पुंज बनता है और दसवां पुंकेसर स्वतन्त्र रहता है । यह द्विसंधी अवस्था कही जाती है । उदाहरण-मटर ।

diadematoïd—(Gk. *dicadema*, crown; *eidos*, shape) किरीटोपम; इकीनोइडिया (Echinoidea) में आद्य (primary) अपमुख (aboral) और मध्य आद्य (middle primary) प्लेटों के बीच में तीन आद्य (primary) प्लेटों का लगा होना ।

diadromous—(Gk. *diadromos*, wandering) उभयत्रगामो; पंखाकार शिराविन्यासी; पक्षोपम तंत्रिकीय; पक्षोपम शिरी ।

diaene—(Gk. *dis*, twice; an anology of triaene, from Gk. *triaina*, trident) डाइएन; एक प्रकार का त्रिशाखीय स्पीक्यूल जिसमें एक शाखा न्यूनित अथवा अनुपस्थिति होती है ।

diageotropism—(Gk. *dia*, through; *ge*, earth; *trope*, turn) लंबकोण गुरुत्ववृत्ति; पौधों के भागों की वृत्ति कि वे गुरुत्व वृत्ति से लंबकोण या समकोण (right-angle) पर स्थान ले लेते हैं ।

diagnosis—(Gk. *diagnosis*, discrimination) निदान; पहिचान । (१) किसी अंगो; जीव व प्राणी के सब विशिष्ट लक्षण (distinctive characters) वतलाते हुए संक्षिप्त वर्णन । (२) किसी प्रक्रियात्मक या रूग्ण

दशा (physiological or pathological condition) का उसके विशिष्ट लक्षणों (distinctive characters) द्वारा निदान ।

diagnostic—(Gk. *dia*, through; *gignoskein*, to know) निदानक; निदान सूचक; रोग लक्षण सम्बन्धी ।

diaheliotropism—(Gk. *dia*, through; *kelios*, sun; *trope*, turn) समकोणक प्रकाशवृत्ति ।

diagram—(Gk. *dia*, round; *graphein*, to write) रेखाचित्र; मानचित्र; आरेख ।

diagrammatic (diagram)—आरेखी (रेखा चित्र); अध्यवस्थित (रेखा चित्र) ।

diakinesis—(Gk. *dia*, through; *kinesis*, movement) उत्तरांत स्थिति; सूत्र उत्तरांतावस्था । ह्रास या अर्धसूत्री विभाजन (meiosis) की पिछली पूर्णावस्था (later phophase) जो द्विसूत्र स्थिति (diplotene) और पुरोत्तर स्थिति या पूर्वमध्यावस्था (prometaphase) के बीच में होती है । मध्यावस्था या मेटाफेज (metaphase) और अन्तयास्थिति (telophase) के बीच की अवस्था में गुण सूत्र या परस्परा सूत्रों (chromosomes) की गति (movement)

dialyneury—(Gk. *dialyein*, to reconcile; *neuron*, nerve) कृत संधि तंत्रिकता । किन्हीं गैस्ट्रोपोडा (gastropoda) जन्तुओं में पार्श्व गुच्छिका (pleural ganglia) का पिधान प्रावर तंत्रिका (pallial nerve) के साथ शाखमिलन कर विपरीत वैहिक तंत्रिका (opposite visceral nerve) से मिले होने की दशा ।

dialypetalous—(Gk. *dia*, asunder; *lyein*, to loose; *petalon*, petal) पृथक दलीय ।

dialyphyllous—(Gk. *dia*, asunder; *lyein*, to loose; *phyllon*, leaf) प्रयक पर्णी ।

dialysepalous—(Gk. *dia*, asunder; *lyein*, to loose; F. *sepale*, sepal) पृथक बाह्यदली ।

dialysis—(Gk. *dia*, asunder; *lysis*, loosing) प्रसरण-कलिक पृथकीकरण । घुले हुए प्रसरणशील (rystalloids) और कलिल (colloids) पदार्थों का आंशिक

प्रसरणशील (semipermeable) कला (membrane) द्वारा पृथकीकरण (separation) ।

dialystely—(Gk. *dia*, asunder; *lyein*, to loose *stete*, post) पृथक रम्भी ।

diancistra—(Gk. *dis*, twice; *angkiatron*, hook; हुकोपम स्पीक्यूल; अंकुशाकार स्पीक्यूल ।

diandrous—(Gk. *dis*, twice; *aner*, man) द्वि स्वच्छंद पुंकेसरी; द्विनिर्मुक्त पुंकेसरी ।

diapause—(Gk. *diapausein*, to make, to cease, वर्धन सुप्तता ।

diapedesis—(Gk. *diapedesis*, leaping through) निर्गम । रक्त के श्वेताणुओं (white blood corpuscles) का कोशिका (capillaries) की भित्तियों (walls) से निकल कर आसपास के ऊतकों में चला जाना ।

diaphototropism—(Gk. *dia*, through; *phos*, light; *trope*, turn) समकोणक प्रकाशवृत्ति ।

(देखिये—*diaheliotropism*)

diaphragm, diaphragma—(Gk. *diaphragma*, midriff) डायफ्राम; मध्यप्राचीर; मध्यपट ।

(१) हाईड्रोपटेरीडी (Hydropteridae) में वह भित्ति जो लघु कोशिका, और प्रोथैलस (prothallus) को शेष दीर्घस्पोर (macrospore) से पृथक करता है ।

(२) इक्वीसिटम (Equisetum) में कांड (node) पर जवनी या भित्ति (septum) ।

(३) कृमि (worms) में अर्न्तमुख (introvert) पर लगी पेशी ऊतकों की एक प्रच्छद (sheet) ।

(४) टेरेबिल्लीफोरमिया (Terebelliformia) में सबल वर्धित एकल भित्ति ।

(५) पोलिजोआ (polyzoa) में छिद्रित ऊतक जो टेन्टिकल गुहा (tentacle cavity) को पुनः विभाजित करता है ।

(६) किन्हीं कीटों में सूत्रीय-पेशी उदरीय भित्ति

जो परितंत्रिकीय कुल्या (perineural sinus) को घेरे हुए होती है।

(७) अरेकिनडा (Arachnida) में शिरोवक्ष (cephalothorax) और उदर को पृथक करने वाली अनुप्रस्थ भित्ति।

(८) एन्यूरा (Anura) में इलिया (ilia) के अग्र-छोर से निगलक (oesophagus) और फुफ्फुस के अधर तक फैली हुई विशिष्ट पंखेनुमा पेशी।

(९) स्तनी (mammals) में वक्ष और उदरीय गुहाओं के मध्य की पेशी मध्य प्राचीर या मध्य पट।

diaphysis—(Gk. *dia*, through; *phyein*, to bring forth) अस्थिदण्ड।

diapophysis—(Gk. *dia*, through; *apo*; from; *phyein*, to produce) उर्ध्वानुप्रस्थ प्रवर्धन। सुषुम्ना तोरण या तंत्रकीय चाप (neural arch) का पार्श्वीय (lateral) या अनुप्रस्थ (transverse) प्रवर्धन (process)।

diapsid—(Gk. *dia*, through; *apsis*, arch) द्वितोरणी (कपाल); डाइऐप्सिड (करोटि)। यह शब्द उन जन्तुओं की खोपड़ियों (करोटि) के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है जिनमें उर्ध्व (superior) और अधर (inferior) दोनों गण्डखात (temporal fossae) स्पष्ट पाये जाते हैं।

diarth—(Gk. *dis*, twice; *archo*, origion) द्वि-आदिदारुक; ऐसी जड़ जिसमें दो जाइलम और दो फ्लो-एम के बन्धन होते हैं। द्विध्रुवी तर्कु, ऐसा तर्कु, जिसमें दो ध्रुव होते हैं।

diarthrosis—(Gk. *dia*, through; *arthron*; joint) अक्षल सन्धि; ऐसा जोड़ (सन्धि) जिसमें गति सूव हो सके।

diaschistic—(Gk. *dia*, through; *schistos*, split) विचतुष्क; ह्रास विभाजन (meiosis) में पाया जाने वाला ऐसा चतुष्क (tetrad) जो एक बार अनुप्रस्थ तथा दूसरी बार लम्ब रूप में विभाजित होता हो।

diaspore—(Gk. *diaspora*, disperssion; *spora*, seed) डायस्पोर; प्रकीर्णक; विकिरण स्पोर।

diastatic—(Gk. *dia*, through; *histanai*; to set) डायस्टैस; एक एन्जाइम (क्षोभकरक) जो मुख्यतया माढ़ी (starch) को शर्करा (sugar) में परिणित करता है।

diastatic—(Gk. *dia*, through; *histanai*, to set) डायस्टैस सम्बन्धी।

diastem-diastema—(Gk. *diastema*, space) दन्तावकाश, दन्त व्यवधान या अन्तराल। विना दाँतों वाला स्थल, जो प्रायः दो दाँतों के बीच में पाया जाता है।

diaster—(Gk. *dia*, twice; *aster*, star) द्वितारक स्थिति। विषम कोशिका विभाजन (mitosis) की वह स्थिति (stage) जिसमें नवजनित गुण सूत्र या क्रोमोसोम तर्कुटध्रुव (spindle poles) के नवीन न्यूक्लियस बनाने के हेतु एकत्रित हुए हैं।

diastole—(Gk. *diastole*, difference) (१) हृत्प्रसार; (हृदय का प्रसार) (२) संकुचनशील स्थली या कुण्डिका या रिक्तिका (contractile vacuole) का ताल वद्ध (rhythmical) प्रसार।

diastomatic—(Gk. *dia*, through; *stoma*, mouth) मुँह या छिद्र के पास।

diathesis—(Gk. *dia*, through; *titkenai*, to place) व्यवस्थानुरूप प्रकृति; किसी प्रतिक्रिया, रोग या वर्धन के प्रति व्यवस्थानुरूप प्रवृत्ति (constitutional predisposition)।

diatom—(Gk. *dia*, through; *temnein*, to cut) डायटम; एक कोशिकीय ऐलगा (alga) विरोप, जिसकी भित्ति विशेष सिलिका (silica) युक्त होती है।

diatropism—(Gk. *dia*, through; *trope*, turn) त्रियन्वृत्ति; समीप अनुवृत्ति। जीवों या अंगों की यह वृत्ति जिसके कारण वे उत्तेजना (stimulus) की दिशा पर लम्बकोण (right angle) बनाते हुए स्थित होते हैं।

diaxon—(Gk. *dis*, twice; *axon*, axis) द्विधुरी; द्वयाक्षी।

diaxone—(Gk. *dis*, twice; *axon*, axis) द्विसूत्राक्षी; दो सूत्राक्ष (axis cylinder) वाली तंत्रिका कोशिका (nerve cell) ।

diblastula—(Gk. *dis*, twice; *blastos*, bud) द्विस्तर भ्रूण । सीलोमांत्रीयों (coelenterates) का भ्रूण विशेष, जिसमें केन्द्रीय कोटर (central cavity) को घेरे हुए दो स्तर (layers) होते हैं ।

dibranchiate—(Gk. *dis*, twice; *branchia*, gills) द्विगिलधारी; दो गिलों (gills) वाला ।

dicaryosis—द्विकेन्द्रकता ।

dicellate—(Gk. *dikella*, two-pronged hoe) दो काँटेदार; दो कौलों वाला; द्विफली आकृति युक्त ।

dicentral—(Gk. *dia*, through; *kentron*, centre) द्विकेन्द्री ।

dicentric—(Gk. *dis*, twice; *kentron*, centre) द्विकेन्द्रपिण्डी; द्विकेन्द्री ।

dichasium—(Gk. *di*, twice; *chasma*, to divide in two) युग्मशाखन; युग्मशाखी ससीमाक्ष (पुष्पक्रम); इस प्रकार के पुष्पक्रम में अप्रस्थ पुष्प से दो पार्श्व शाखाएँ निकलती हैं जो पुनः इसी प्रकार विभाजित हो जाती है ।

dichlamydeous—(Gk. *dis*, twice; *chlamys*, cloak) द्विपरिदलपुंजी बाह्यदल तथा दलपुंजी; कैंलेक्स और क्रोरोला दोनों युक्त ।

dichogamy—(Gk. *dicha*, in two; *gamos*, union) परिपक्वान्तर; लैंगिक तत्वों (sexual elements) का भिन्न-भिन्न समय पर परिक्व (mature) होना जिसके कारण पर निषेचन (cross fertilisation) ही सम्भव होना है ।

dichoptic—(Gk. *di*, in two; *opsis*, sight) पृथक नेत्रीय । वे जन्तु जिनमें आँखें बिल्कुल अलग-अलग हों ।

dichotomy—(Gk. *dicha*, in two; *temnein*, to cut) द्विभाजी; समविभक्त शाखन ।

dictyosome—(Gk. *diktyon*, net; *some*, body)

डिक्टियोसोम; जाल पिण्ड; जालिकाय; गौलगी (golgi) यन्त्र का अंग विशेष ।

dichoric—(Gk. *dis*, twice; *chros*, colour) द्विवर्णी; द्विवर्णिक ।

dichroism—(Gk. *dis*, twice; *chros*, colour) द्विवर्णता ।

dichromatic—(Gk. *di*, two; *chroma*, colour) द्विवर्णी; द्विरंजनी ।

dichromophil—(Gk. *de*, two; *chroma*, colour; *phileia*, to love) द्विक्रोमी; द्विवर्ण रागी; दोनों अम्लीय एवम् क्षारीय वर्ण से रगा जाने वाला ।

dichthadiigyne—(Gk. *dicktheadios*, double; *gyne*, female) नारीयोपम पिपीलिका; नारी उद्योगी चींटी जिसमें विपुल आयतनी (voluminous) डिम्ब ग्रन्थि होती है तथा चक्षु व पंख नहीं होते हैं ।

diclinous—(Gk. *di*, asunder; *kline* bed) एक लिंगी; पृथक लिंगी ।

(१) पृथक पुष्पों पर पुंकेसर और स्त्रीकेसर (pistil) होने की वशा ।

(२) एक ही पौधे पर पृथक पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्पों का होना ।

dicocous—(Gk. *di*, two; *kyklos*, seed) द्विएकबीज संपुटी (कैपसूल) ।

dicostalla—(Gk. *di*, two; *L. corta*, rib) द्विपशुकी; द्विबाहुतंत्रिकाक्रमी क्रिनाइड (crinoid) में द्वितीय बाहु तंत्रिका क्रम ।

dicotyledon—(Gk. *di*, two; *kotyledon*, cup-shaped hollow) द्विबीजपत्री ।

didactyl—(Gk. *di*, two; *daktylos*, finger) द्वयांगुलिक । दो अँगुली या उँगली (fingers या toes) वाला ।

didelphic—(Gk. *di*, double; *delphys*, womb) डाइडेल्फिक; द्विगर्भाशयिक । जैसे शिशुधानिक (marsupials) कंगेरू सदाश जन्तु ।

didymous—(Gk. *didymos*, turn) डाइडोमस; युग्म-वर्धी; युगलवर्धी ।

dietyodromous—(Gk. *diktyon*, net; *dromein*, to run) जालज शिराविन्यासी; सजाल शिरा विन्यासी ।

dietyogen—(Gk. *diktyon*, net; *genos*, descent) जालज पर्णी (पौधा) ।

dietyokinesis—(Gk. *diktyon*, net; *kinesis*, movement) जालपिण्ड पृथकीकरण; जालपिण्ड वियोजन; गौलगी यन्त्र का सूत्री विभाजन (mitosis) में स्फुटन और जाल पिण्डों का दुहिता कोशिका में वियोजन (segregation) ।

dietyonalia—(Gk. *diktyon*, net) प्रमुख निर्यासक र्प नयूल; डिक्टियोनेलिया ।

dietyospore—(Gk. *diktyon*, net; *sporos*, seed) डिक्टियोवीजाणु; जाल-स्पोर ।

dietyostele—(Gk. *diktyon*, net; *stete*, post) जाल-रम्भी ।

dietyotic—(Gk. *diktyon*, net) जालिकीय; डिक्टियोटिक; कोशिका वृद्धि में वह स्थिति जिसमें क्रोमोसोम केन्द्रीय जालिका में अस्पष्ट हो जाते हैं ।

dicycle—(Gk. *di*, two; *kyklos*, circle) द्विचक्रीय; द्विवर्षीय (शाक—herbs)

didynamous—(Gk. *di*, two; *dynamis*, power) द्विदीर्घी; चार पुंवेसरी, दो दीर्घ तथा दो लघु ।

diet—(Gk. *diaita*, mode of living) खाद्य; भोजन; पथ्य ।

diencephalon—(Gk. *dis*, between; *engkephalos*, brain) डायनस्किफेलोन; अग्र मस्तिष्क पश्चः अन्तमस्तिष्क ।

dietetics—(Gk. *diaitia*, mode of living) खाद्य-विज्ञान; पथ्य विज्ञान; भोजन विज्ञान ।

differentiation—(L. *differere*, to differ) भिन्नीकरण; विभेदन । कार्यं विभाग (division of labour) के कारण किसी प्राणी के अंगों की रचना (structure)

और कार्यं (function) में भिन्न-भिन्न परिवर्तन (modification) हो जाना ।

differentiation of structure—(L. *differere*, to differ) रचना भिन्नीकरण ।

diffluence—(L. *dis*, away; *fluere*, to flow) घानी विघटन; घानीता (vacuolisation) से विघटन ।

diffuse—(L. *diffundere*, to pour) विसरित होना; व्याप्त; विस्तीर्ण ।

diffused placenta—(L. *diffundere*, to pour) विसरित आँवल; वितति अपरा ।

diffusible—(L. *diffundere*, to pour) शोषणशील; विसरणशील ।

diffusion—(Gk. *diffundere*, to pour) प्रसार; प्रसरण; विसरण ।

digametic—(Gk. *dis*, twice; *gametes*, spouse) निषेकाणुद्वैधी; द्विधाजन्युक; युग्मकद्वैधी । दो प्रकार के नर और नारी (मादा) निषेकाणु या युग्मक (gametes) वाला ।

digastric—(Gk. *di*, two; *gaster*, belly) द्विस्वूली; द्विअधरी ।

(१) ऐसी पेशी जो दोनों छोर पर मांसल तथा मध्य में स्नयोपम (tendinous) हो ।

(२) आननी (facial) तंत्रिका की एक शाखा ।

(३) सुपरा हाएड पेशी ।

digeneration—(Gk. *dis*, twice; *genesis*, descent) उत्पत्ति विपर्यय । किसी जन्तु के जीवन में लिंगी (sexual) और निलिंगी (asexual) दोनों प्रकार की सन्तति श्रेणियों (generations) का उपस्थिति रहना ।

digenetic—(Gk. *dis*, twice; *genesis*, descent) द्विपोषित; द्विपरपोषी; द्विपोषी ।

digenoporous—(Gk. *dis*, twice; *genos*, birth; *poros*, pore) द्विजनन छिद्री ।

digestion—(L. *digestion*, digestion) पाचन; पचना । वह प्रक्रिया (process) जिससे भोजन के अपसरणशील अर्थात् शोषणहीन (non-diffusible) तत्व प्रसरणशील अर्थात् शोषणशील (diffusible) बनते हैं ।

digestive

- digestive**—(L. *digestion*, digestion) पाचक; पाचन सम्बन्धी; पचाने वाला ।
- digestive gland**—पाचक ग्रन्थि ।
- digestive juice**—पाचक रस ।
- digestive organ**—पाचक अंग ।
- digestive process**—पाचक प्रक्रिया (प्रक्रम) ।
- digestive secretion**—पाचक श्राव ।
- digestive system**—पाचक तंत्र; पाचक मण्डल; पाचक संस्थान ।
- digestive tract**—पाचन मार्ग; अन्न मार्ग; पाचन पथ; आहार पथ; पाचन क्षेत्र ।
- digestive tube**—पाक-नली; पाचन नलिका; अन्न नली अन्न प्रणाली ।
- digested**—(L. *digestio*, digestion) पक्व; पचा हुआ ।
- digit**—(L. *digitus*, finger) उंगली; अंगुली; अंगुल ।
- digital**—(L. *digitus*, finger) अंगुलि—; आंगुलिक; अंगुली-सम्बन्धी ।
- digitaliform**—(L. *digitus*, finger; *forma*, shape) अंगुलोपम; अंगुलाकार ।
- digitate**—(L. *digitus*, finger) अंगुल्याकार; अंगुलि शाखी ।
- digitiform**—(L. *digitus*, finger; *forma*, shape) अंगुलाकार; अंगुलोपम ।
- digitigrade**—(L. *digitus*, finger; *gradus*, step) अंगुलिचारी; अंगुलगामी; केवल उंगलियों पर चलने वाला ।
- digitinervate**—(L. *digitus*, finger; *nervus*, sinew) अंगुलिशिरा; अंगुल्याकार शिरा विन्यास ।
- digitipartite**—(L. *digitus*, finger; *partire*, to divide) हस्तोपम; हस्तोपम विच्छिद ।
- digitipinnate**—(L. *digitus*, finger; *pinna*, leaf) अंगुलि-पिच्छाकार ।
- digitule**—(L. *digitus*, finger) आंगुलिका; सूक्ष्म (छोटा) अंगुली के आकार का प्रवर्धन (process) ।
- digoneutic**—(Gk. *dis*, twice; *goneuein*, to pro-

duce) द्विवार प्रसवनी । वर्ष के अन्तर्गत दो बार बच्चे जनने वाली ।

digonic—(Gk. *dis*, twice; *gone*, seed) पृथक-युग्मक द्विधी; द्विजनदी; एक ही व्यक्ति में पृथक धानियों में नर और मादा युग्मकों का उत्पन्न होना ।

[देखिये amphigonic—परिअंडधानीय; उभय युग्मकी]

digonoporous—(Gk. *dis*, twice; *gone*, seed; *poros*, aox) द्विजनन छिद्री; नर और मादा अलग-अलग जनन छिद्र वाला ।

digynous—(Gk. *dis*, two; *gyne*, woman) द्वि-अण्डपी ।

dihybrid—(Gk. *dis*, twice; L. *hibrida*, mixed offspring) द्विसंकर । ऐसा संकरीकरण (cross) जिसमें प्रयुक्त माता-पिता दो अलग-अलग विशेषतायें रखते हों ।

dihybridism—(Gk. *dis*, twice; L. *hibrida*, mixed offspring) द्विसंकरीकरण ।

dilated—(L. *dilatate*, to flatten) प्रसारित, विस्तारित; व्यापत; फूला हुआ या फैला हुआ ।

dilatator—(L. *dilatate*, to expand) आयतन-प्रसारक; विस्तारक ।

dilatator—(L. *dilatate*, to expand) विस्फारिणी; विस्तारक; किसी अंग को फैलाने वाली (मांस पेशी) ।

dilophous—(Gk. *di*, two; *lophos*, crest) द्विभ्र शिखी (स्पीक्यूल); चतुष्किरणी स्पीक्यूल; जिसकी दो (भ्र) किरणें द्विशिख होती हैं ।

diluvial—(L. *diluvium*, deluge) संप्लवी; आधुनिक काल सम्बन्धी ।

dimegaly—(Gk. *dis*, twice; *megalos*, great) द्विमापता । दो नाप (या कद) का होना जैसे बीर्याणुओं (spermatozoa) या डिम्बों (ova) में ।

dimerous—(Gk. *dis*, twice; *meros*, part) द्विभागी; द्विखण्डी ।

dimidiata—(L. *dimidius*, half) अर्धवर्द्धी ।

dimorphic—(Gk. *dis*, twice; *morphe*, shape) द्विरूपी ।

dimorphism—(Gk. *dis*, twice; *morphe*, shape) द्विरूपता ।

dimyric—(Gk. *dis*, twice; *mys*, muscle) द्वि अभिवर्तनक (पेशी); द्वि समीपकर्षी (पेशी) युक्त ।

dinergate—(Gk. *dinein*, to roam; *ergates*, worker) परिउद्योगी चींटी (पिंपलिका) ।

dineurotic—(Gk. *dis*, twice; *neuron*, nerve) द्वितंत्रिका युक्त; तंत्रिकाद्वय समन्वित । दो प्रकार के तंत्रिका सूत्रों से युक्त जैसे रंगकोशिका (chromatophore) एकत्री कारक (concentrating) और विकीर्णक (dispersing) तंत्रिका सूत्रों (nerve fibre) द्वारा होते हैं ।

dinomic—(Gk. *dis*, twice; *nomos*, division) द्विक्षेत्री । वह अंगी जो दो जीव भूगोलिक क्षेत्रों में सीमित होता है ।

dinoflagellata—(Gk. *dis*, twice; L. *flagellum*, whip) डिनोफ्लैजेलेटा; मेखला कपी । मेसटीगोफोरा (mastigophora) या कपा वर्ग का एक गण (order) ।

diocious—(Gk. *dis*, twice; *oikos*, house) पृथक-लिंगी; एकलिंगी; भिन्नलिंगी; एकलिंगाश्रयी ।

dioecism—(Gk. *dis*, twice; *oikos*, house) लिंग-भेद ।

dioestrus—(Gk. *dia*, between; *oistros*, gadfly) मद मध्यकाल । बहुमदी (polyoestrous) जन्तुओं में मद कालों (heat periods) के बीच का शान्त काल (quiescent period) ।

dioptrate—(Gk. *dis*, twice; *ops*, eye) पृथक नेत्रिकीय; पृथक चक्षुकीय । सूक्ष्म रेखा द्वारा पृथक चक्षु (eye) या नेत्रिका (ocelli) युक्त ।

dioptric—(Gk. *dioptron*, spying glass) प्रकाश-वर्तनीय । चक्षु की वह आकृतियाँ जो प्रकाश का वर्तन करती हैं जैसे ताल (lens) कर्नीनिका (cornea) जलीय (aqueous) तथा काचीय (vitreous) द्रव (humor) ।

diorchic—(Gk. *dis*, twice; *orchis*, testis) द्विवीर्याणु-प्रन्थित; द्विवीर्याणु-प्रन्थियों से युक्त; द्विवृषणी ।

dipetalous—(Gk. *dis*, twice; *petalon*, petal) द्विपंखुडिक; द्विदली ।

diphasic—(Gk. *dis*, twice; *phaincin*, to appear) विस्तृत जीवन वृद्धि ।

diphycercal—(Gk. *diphyes*, two fold; *kercos*, tail) द्विमक्त (पुच्छ); द्विमक्त पुच्छीय; समपालिपुच्छी । ऐसी पूँछ या दुम जिसमें कशेरुदण्ड (vertebral column) अन्त तक पहुँचता है और इस प्रकार क्लेपणी (fin) को दो बराबर भागों में बाँट देता है ।

diphygenetic—(Gk. *diphyes*, two fold; *genetes*, begotten) द्विभिन्न भ्रूणक; ऐसे जन्तु जो दो भिन्न प्रकार के भ्रूण (embryos) देते हैं ।

diphygenic—(Gk. *diphyes*, two fold; *genos*, birth) द्विवर्धीय । दो प्रकार के वर्धन (development) बाला ।

diphyletic—(Gk. *dis*, twice; *phylon*, race) द्विवंशोद्भव । दो वंश परम्पराओं (lines of descent) से उत्पन्न ।

diphyodont—(Gk. *diphyes*, to fold; *odous*, tooth) द्विश्रेणिदन्ती (दन्त समुदाय); द्विवारदन्ती । दाँतों की दो श्रेणियाँ एक के बाद दूसरी उत्पन्न होती हैं । पहली श्रेणी को दुग्ध दन्त (milk teeth) और दूसरी को स्थायी (permanent) दन्त श्रेणी कहते हैं ।

dip planetary, dipanetic—(Gk. *dis*, twice; *planctikos*, wandering) द्वि प्ररूपक चल बीजाणु (zoospores) ।

dipplanetism—(Gk. *dis*, twice; *planetikos*, wandering) द्विचालिता; द्विचलकालावधिमता; एक जीवन इतिहास में दो जंगम (चल) कालावधि के होने की दशा जैसे कुछ फन्जाई के चलस्पोर (zoospore) ।

diparthous—(Gk. *diploos*, double; *arthron*, joint) अस्थिद्विधता; एक पक्षि की टखने या कलाई

- की हड्डीयों का दूसरी पंक्ति की दो अस्थियों से जुड़ा होना ।
- dipleurula**—(Gk. *dis*, twice; *pleuron*, side) द्वि-पार्श्वी; कंटक देहियों या ऐकाइनोडर्म (echinoderms) में पाया जाने वाला द्विपार्श्वीय समांशी (bilaterally symmetrical) अर्भक (larva) ।
- diplobiont**—(Gk. *diploos*, double; *bion*, living) द्विप्राणी जीव; ऐसा जीवाणु (organism) जिसमें दो प्रकार के व्यक्ति या प्राणी, अलैंगिक या लैंगिक दोनों ही पाये जाते हैं ।
- diploblastic**—(Gk. *diploos*, double; *blastos* bud) द्विस्तरधारी; दो स्पष्ट जनन स्तर (germ layers) वाला ।
- diplocardiac**—(Gk. *diploos*, double; *kardia*, heart) समपार्श्वीहृदय ।
- diplocaulescent**—(Gk. *diploos*, double; *kaulos*, stem) द्वैध तना; गणितनायुवत ।
- diploe**—(Gk. *diploos*, double) डिप्लू; मध्यपत्रकी किन्हीं खोपड़ी की हड्डीयों के बाह्य तथा अन्तः पत्रकों (lamellae) के मध्य में पाया जाने वाला नलिका युवत (cancellous) ऊतक या टिशू (tissue) ।
- diplogenesis**—(Gk. *diploos*, double; *genesis* descent) द्वैधपरिवर्तन; द्वैधज; जर्मप्लाज्म में उपयोग और अनुपयोग के साथ होने वाले परिवर्तन ।
- diploic**—(Gk. *diploos*, double) डिप्लोइक; द्वैध-अधिष्ठिक; अस्थियों के सछिद्रक ऊतक की खाल में अधिष्ठित ।
- diploidal**—(Gk. *diploos*, double; *hodos*, path) द्विद्वारी ।
- diplogangliate**—(Gk. *diploos*, double; *ganglion*, little tumour) युग्मगण्डी; युग्म गुच्छकी । जिसमें गैंगलियाँ या गण्ड (ganglia) दो दो युग्म या जोड़ों में हों ।
- diploid**—(Gk. *diploos*, double) द्विगुणित; युग्म-सूत्री; आदर्श सूत्री; डिप्लॉइड । यह शब्द किसी जाति

(species) के देह कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्रोमोसोम या गुण सूत्रों की आदर्श (typical) संख्या के विषय में प्रयुक्त होता है । (देखिये haploid)

diploonema—(Gk. *diploos*, double; *nema*, thread) द्विसूत्रता । अर्ध सूत्रण (या ह्रास) विभाजन (meiosis) में द्विसूत्र (diplotene) स्थिति के दुहरेसूत्र (double thread) ।

diplo nephridie—(Gk. *diploos*, double; *nephros*, kidney) द्विघोत्सजिनी । वे उत्सजिनी या वृषकक (nephridia) जो अंशतः (partly) बाह्य चर्म या बाह्य स्तर (ectoderm) और अंशतः मध्य जनस्तर (mesoderm) से बनती हैं ।

diplo neural—(Gk. *diploos*, double; *neuron*, nerve) द्वितंत्रिका युवत ।

diplo nt—(Gk. *diploos*, double; *phasis*, aspect) आदर्श सूत्रक अंगी ।

diploperistomous—(Gk. *diploos*, double; *peri*, around; *stoma*, mouth) द्वैधपरिमुखी; द्वैध-परिच्छिद्री ।

diplo phase—(Gk. *diploos*, double; *phasis*, aspect) द्विगुणितप्रावस्था; द्विगणित स्थिति ।

(१) अंगी के जीवन इतिहास की वह प्रावस्था जिसमें गुणसूत्र संख्या द्विगुणित होती है ।

(२) बीजाणु-उद्भिद (स्पोरोफाइट) स्थिति ।

(३) ह्रास विभाजन (meiosis) की द्वि सूत्र स्थिति (diplotene) ।

diplophyll—(Gk. *diploos*, double; *phyllon*, leaf) डिप्लोफिल; द्विखंभ; मृदुतक मध्यी पर्ण; ऐसी पत्ती जिसकी निचली व ऊपरी सतह पर खंभ (palisade) ऊतक तथा मध्य में स्पजी मृदुतक (spongy parenchyma) होता है ।

diploplacula—(Gk. *diploos*, double; *plakoeis*, flat cake) डिप्लोप्लेकूला, द्विस्तरि ब्लास्टूला; द्विको-रबी स्तरि समाट ब्लास्टूला ।

diplopore—(Gk. *diploos*, double; *poros*, pore) द्विधृच्छिद्र; द्विघोस्वासांग, सिस्टोइडिया (cystoidea) का श्वासांग ।

diplosis—(Gk. *diploos*, double) गुणसूत्र दुगुणता (द्विगुणता); संयुग्मन (syngamy) में गुणसूत्रों की संख्या का दुगुणता होना ।

diplosome—(Gk. *diploos*, double; *soma*, body) द्विकेन्द्रपिण्ड । न्यूक्लियर झिल्ली (nuclear membrane) के बाहर वर्तमान दुहरा केन्द्र पिण्ड या तारक काय (centrosome) ।

diplosphene—(Gk. *diploos*, double; *sphen*, wedge) द्विसूचकी; किन्हीं जीवाश्म सूचीयों के कशेरुक के सुपुम्ना तारक (neural arch) पर पच्छट सदृश प्रवर्ध (process) ।

diplospndylic—(Gk. *diploos*, double; *spondylos*, vertebra) द्वि कशेरुककायी ।

diplostemonous—(Gk. *diploos*, double; *stemon*, warp) द्विसंख्यक पुंकेसरी, पंखुडीकी संख्या से दूनी संख्या के पुंकेसरी का होना ।

diplostichous—(Gk. *diploos*, double; *stichos*, row) द्विपंक्तिक ।

diplostegia—(Gk. *diploos*, double, *tegos*, roof) द्विच्छती; दुच्छती (फल); द्विभित्तिफल; अधोवर्ती फल जिसकी फलभित्ति सूधी स्फुटक होती है ।

diplotene—(Gk. *diploos*, double; *tainia*, band) द्विसूत्री-स्थिति । अर्ध सूत्रण या ह्रास विभाजन की वह स्थिति जिसमें द्विसंगी (bivalent) क्रोमोसोम (chromosome) लम्बाकार (longitudinally) विभक्त होते हैं ।

diploxylic—(Gk. *diploos*, double; *xylon*, wood) अन्तः वाह्य काष्ठी ।

diplozoic—(Gk. *diploos*, double; *zoon*, animal) समपार्श्वी; द्विपार्श्वीय तुल्यांग या समांगी (bilaterally symmetrical) जन्तु ।

dipnoan—(Gk. *dis*, twice; *pnein*, to breathe) द्विधाश्वासी । फुफूस (lungs) और गिलों (gills) द्वारा साँस लेने वाला ।

diprotodont—(Gk. *dis*, twice; *protos*, first) उत्तुंग द्विदंती । (ऐसे जन्तु) जिनमें दो आगे के कर्तक दाँत (incisor) बड़े तथा उत्तुंग (prominent) और शेष कर्तक (incisor) तथा भेदक (canine) दाँत छोटे या अनुपस्थित होते हैं ।

dipteroecidium—(Gk. *dis*, twice; *pteron*, wing; *kekis*, gall nut) डिप्टीरी सिसीडियम; फंगस, किल्ली (mites) और कुछ कीटों द्वारा पौधों पर स्त्राविक जमाव जिसको मायु या पिटिका (gall) कहते हैं ।

dipterous—(Gk. *dis*, twice; *pteron*, wing) द्विपक्ष; द्विपंखी (कीड़े) ।

direct—(L. *dirigere*, *directum*-di, apart; *regere*, to rule) व्यवृत; सरल; सीधा ।

direction—प्रेरणा, दिशा; दिक् ।

disc—(Gk. *diskos*, disc) विम्ब, डिस्क ।

disc florets—विम्ब लघुपुष्पक; कम्पोजिटी पुष्पा का एक छोटा पृथक फूल जो विम्ब (disc) पर लगा होता है ।

discal—(Gk. *discos*, disc) विम्बाकार ।

discharge—(O. Fr. *des*, apart; L. *carricare*, to load) प्रस्त्राव; उत्सर्ग, विसर्जन ।

disciflorous—(Gk. *diskos*, disc; L. *flas*, flower) विम्ब पुष्पी; विम्ब पात्रक पुष्पी; ऐसे फूलों वाला जिसमें पात्र (receptacle) बड़ा तथा विम्बाकार होता है ।

disclimax—(Gk. *dis*, double; *klimax*, ladder) विसोम-चरम; सवर्धन कुपि ।

discoblastic—(Gk. *discos*, disc; *blastos*, bud) विम्ब विभाजी; वे अंत विभाजी डिम्ब (meroblastic

eggs) जिनमें विभाजन क्षेत्र (area of segmentation) विम्बाकार (disc shaped) होता है।

discoblastula—(Gk. *discos*, disc; *blastos*, bud) विम्ब व्नास्टुला; विम्बकोरक; विम्ब एक स्तर। एक स्तर या व्नास्टुला (blastula) भ्रूण जो विम्ब विभाजी (discoblastic) डिम्ब से बनता है।

discocarp—(Gk. *diskos*, disc; *karpos*, fruit) अपचपक (apothecium); कैलैक्स के नीचे पुष्पासन; का विस्तार।

discoctasters—(Gk. *diskos*, disc; *okto*, eight *aster*, star) अष्ट विम्ब तारिका; अष्टभुजाविम्बी (स्पीक्यूल)।

discodactylous—(Gk. *discos*, disc; *daktylos*, finger) चूषकांगुली। अंगुलियों के सिरे पर चूषक (sucker) रखने वाला।

discohexactine—(Gk. *diskos*, disc; *hex*, six; *aktis*, ray) षट् समभुजी (स्पीक्यूल)। षड्रिक (षट्-अरिक)।

discohexaster—(Gk. *diskos*, disc; *hex*, six; *aster*, star) षड्बिम्बतारिका।

discoid—(Gk. *diskos*, disc; *eidōs*, form) विम्बोपम; चपटा और गोल।

discoidal—(Gk. *diskos*, disc; *eidōs*, form) विम्बोपम आवल (placenta); चक्रिकाभअपरा।

discontinuity—(O. F. *discontinuer*; from L. *dis-asunder*; *continuarē*, to continue) असांतत्य; विच्छिन्नता।

discontinuous variation (mutation)—विच्छिन्न भिन्नता; असंतत परिवर्तन; असंतता विविधता।

disconula—(Gk. *diskos*, disc) अष्ट किरणी। किन्ही सीलोमांत्रोओ (coelenterate) के अर्भक वर्धन में आठ किरणी स्थिति।

discoplacenta—(Gk. *discos*, disc; L. *placenta*, placenta) विम्ब कमल; विम्बाकार नाल; कमल या

अपरा (placenta) जिसमें ग्रह्यांकुर गोल टिकिया सदृश (cake like) विम्ब पर फँले होते हैं।

discorhabd—(Gk. *diskos*, disc; *rhabdos*, rod) कूट चक्री स्पीक्यूल।

discus proligerus—सतति विम्ब; संतति उत्पन्न करने वाला कोशिका पुजों (mass of cells) से बना विम्ब।

disense—(O. F. *desaise-des*, L. *dis*, aise or ease) व्याधि, बीमारी; रोग।

disease germs—रोगाणु।

disintegration—विध्वंस; विघटन।

disjunct—(L. *disjunctus*, seperated) आकुंचन, विभक्त। आकुंचनों (constrictions) द्वारा देहिक प्रदेशों (body regions) में बँटा हुआ।

disjunction—(L. *disjunctus*, seperated) विचलन; अन्नस्थिति (anaphase) में युग्मित (paired) क्रोमोसोम का पृथक्करण।

disjunctive symbiosis—वियोजनीय सहजीवन; सहजीवन (symbiosis) की एक दशा जो परस्पर लाभदायी होती है। यद्यपि संगीयों में कोई सीधा संसर्ग (योजन) नहीं होता है।

disk see disc—

disoperation—(L. *dis*, asunder; *opus*, work) अपकरण।

(१) अंगीयों का परोक्ष रीति से एक दूसरे के प्रति हानिकारक प्रभाव।

(२) ऐसे सहकार्य जो व्यक्ति या समूह के लिये अलाभकारी सिद्ध होते हैं।

dispermous—(Gk. *dis*, twice; *spema*, seed) द्विवीजी।

dispermy—(Gk. *dis*, twice; *sperma*, seed) द्विशुक्रता; द्विशुक्राणुता। दो वीर्याणुओं या शुक्राणुओं (spermatozoa) का डिम्ब (ovum) में प्रवेश।

dispersal—(L. *dispergere*, to disperse) प्रकीर्णन; परिक्षेपण; विकिरण; फैलाना; बिखरना; प्रसार। जीवों का पृथ्वी तल पर प्रसार या विकिरण।

dispersed—(L. *dispergere*, to disperse) विकीर्ण; प्रकीर्ण; परिक्षेपित ।

dispersing (nerve fibres)—विकीर्णक (तंत्रिका सूत्र) ।

dispireme—(Gk. *dis*, twice; *speirama*, skein) द्विशुल्वा; विपम कोशिका विभाजन (*karyokinesis*) की वह स्थिति (*stage*) जिसमें प्रत्येक नव-जनित केन्द्रक (*daughter nucleus*) से एक सूत्र लच्छी या शुल्वा (*spireme*) बन जाती है ।

displacement—(O. F. *desplacier*, to displace) स्थान भ्रंश; स्थान च्युति; अपगमन ।

disporocystid—(Gk. *dis*, twice; *sporos*, seed; *kystis*, bladder) द्वीजाणु स्योति; स्पोरोजोआ (*sporozoa*) की ऐसी डिम्ब स्योति जिसमें दो स्पोरोस्योति (*sporocyst*) होती हैं ।

disporous—(Gk. *dis*, twice; *sporos*, seed) द्विस्पोरी ।

dissected—(L. *dissecare*, to cut open) विच्छिन्न; विच्छेदित ।

dissection—(L. *dissecare*, to cut open) विच्छेद; विच्छेदन ।

dissepliment—(L. *dissaepire*, to separate) प्रपट; संविभाग पट; संयुक्त डिम्बाशयों में पाये जाने वाले पट (*partition*) ।

dissilient—(L. *dissilire*, to burst asunder) सम्पुट स्फुटन; विभिन्न पौधों के सम्पुटों (कैपस्यूलों) का शब्द भंग स्फोटन ।

dissimilation—(L. *dissimilis*, unlike) अपचय; ह्रास प्रतिक्रिया । (देखिये *katabolism*.)

dissogeny—(Gk. *dissos*, double; *genos*, descent) द्विपरिपक्वता । एक ही व्यक्ति में दो परिपक्व कालों, एक अर्भक (*larva*) तथा दूसरी प्रौढ़ (*adult*) में होने को दशा ।

distad—(L. *distare*, to stand apart) दूरभिमुख ।

distal end—(L. *distare*, to stand apart) दूरस्थ छोर ।

distalia—(L. *distare*, to stand apart) डिस्टेलिया; कार्पल (कलाई) या टासल (टखना) की हड्डियों की तृतीय पंक्ति ।

distance receptor—दूरग्राही (वेदना) ।

distichalia—(Gk. *distichos*, with two rows) गौणभुजी ।

distipharynx—(Gk. *distans*, standing apart; Gk. *pharynx*, gullet) अतिरिक्त निगलक । किन्हीं कीटों (*insects*) में उर्व (epi) तथा अधो निगलकों के संयोजक से बनी एक छोटी अरिक्त नलिका ।

distiproboscis—(L. *distans*, standing apart; Gk. *proboscis*, trunk) तुण्डदूरांश; तुण्डका दूरस्थ भाग ।

distestyle—(L. *distans*, standing apart; Gk. *stylos*, pillar) सूचिदूरांश ।

distractile—(L. *distractus*, pulled asunder) विपुल पृथकी ।

distribution—(L. *distributus*, divided) प्रसार; विकीरण; वितरण ।

disymmetrical—(Gk. *dis*, twice; *syn*, with; *metron*, measure) द्विअरी (*biradial*); द्वुअर समांशी (*सममिति*) ।

dithecal—(Gk. *dis*, twice; *theke*, box) द्विकोष्ठी; द्विपिटिकी; द्विकोपी (परागकोश) ।

disuse—अनुपयोग ।

ditokous—(Gk. *dis*, twice; *tokos*, birth) यमसू । एक बार में दो अण्डे या बच्चे देने वाली ।

ditrematous—(Gk. *dis*, twice; *trema*, opening) द्विछिद्री । पृथक पृथक जनन छिद्रों (*genital openings*) वाला । पृथक गुदा (*anus*) और जनन छिद्रों (*genital openings*) वाला ।

ditrochous—(Gk. *dis*, twice; *trochos*, runner) द्विट्रोक्षस; विभवत ट्रोकेन्टरी; विभवत जंघास्थि उर्ध्व छोर प्रवर्धनक ।

diuresis—(Gk. *dis*, throughout; *ouron*, urine) बहुमूत्रस्त्राव; बहुमूत्रता ।

diuretic

diuretic—(Gk. *dia*, through; *ouron*, urine) बहुमूत्रसायी; मूत्र प्रवाहक। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनसे शरीर को अधिक मूत्र बाहर निकालने में सहायता मिलती है।

diurnal—(L. *dies*, day) आह्निक; दिवाचर; दिन में निकलने या घूमने वाला।

divaricate—(L. *divaricatus*, stretched apart) द्विभक्त (पेशियाँ)।

divaricators—(L. *divaricatus*, stretched apart) द्विभक्तक।

divergency—(L. *diverogere*, to bend away) अपसारिता।

divergent—(L. *diverogere*, to bend away) अपसारी; एक दूसरे से पृथक जैसे पत्तियाँ आदि।

diverticulum—(L. *de*, away; *vertere*, to turn) अन्धनलिका; अन्ध नली। कोई नली व थैली जो, अपने दूर वाले (distal) सिरे पर बन्द हो और किसी अन्य नली (canal) या कोटर या गुहा (cavity) से निकली हो।

division—(L. *dividere*, to divide) भाग; हिस्सा; विभाजन; प्रभाग।

division cell—(L. *dividere*, to divide) कोशिका विभाजन।

division of labour—श्रम विभाग; श्रम विभाजन; व्यापार वितरण।

division of function—कार्य विभाजन या विभाग; व्यवसाय विभाग।

dizoaic—(Gk. *dis*, twice; *zoon*, animal) द्विरेणु जीवक; ऐसा स्पोर (spore) जिसमें दो रेणुजीव (sporozoite) होता है।

dizygotic—(Gk. *dis*, twice; *zygotes*, yoked) द्विनिमित्त डिम्बी; जैसे जुड़वाँ (twins) आदि। डी एन ए (DNA)—डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लीडिक अम्ल (deoxyribonucleic acid) अनेक न्यूक्लिओटाइड (nucleotide) का बना यौगिक जिसमें न्यूक्लिओ-

टाइड एक बतार में लगाकर लम्बी लड़ (रज्जुक) बनाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लिओटाइड में डी आक्सीरिबोस (deoxyribose) शर्करा और चार विभिन्न क्षारकों (bases)—दो पाइरीमिडीन (pyrimidine)—थाइमीन (thymine) और साइटोसीन (cytosine) और दो प्यूरिन (purine)—एडीनाइन (adenine) और ग्वानीन (guanine)—में से एक क्षारक (base) होता है। सामान्यतः न्यूक्लिओटाइड की दो लड़ समानान्तर क्षारक युग्मों (base pairing) से जुड़ी तथा कुंडलिनी (helix) की तरह घूमी होती है। अब यह निश्चित हो गया है कि समस्त जीवों में डी एन ए द्वारा ही वंशागति (inheritance) होती है। यह गुण सूत्रों (chromosomes) में होता है।

dodecagynous—(Gk. *dodeka*, twelve; *gyne*, woman) बारहस्त्रीकेसरी; द्वादश स्त्रीकेसरी।

dodecamerous—(Gk. *dodeka*, twelve; *meros*, part) द्वादश खण्डी; द्वादश भागी।

dodecandrous—(Gk. *dodeka*, twelve; *aner*, man) द्वादश पु केसरी।

dolabriform—(L. *dolabra*, mattock; *forma*, shape) कुल्हाडीनुमा; कुल्हाडी की शकल का।

dolichocephalic—(Gk. *dolichos*, long; *kephale*, head) लम्ब शिरस्क। ७५ से कम कपालीय निर्देशनी (cephalic index) वाला।

(देखिये Brachycephalic लघु शिरस्क)

dolichohieric—(Gk. *dolichos*, long; *hieros*, sacred) लम्बत्रिकी। १०० से कम या नीची त्रिक निर्देशनी (sacral index) वाला।

(देखिये platyhieric—सपाट त्रिकी)

dolichostylous—(Gk. *dolichos*, long; *stylos*, pillar) लम्ब खम्भी (पराग कोष)।

dolioform—(L. *dolium*, wine; cask; *forma*, shape) पीपाकार।

domestic—(L. *domesticus*, a house) पालतू।

dominant—(L. *dominans*, ruling) प्रभावी; प्रभुत्व-शील; प्रबल; प्रधान; श्रेष्ठ । जब कोई भी जीन (gene) दोनों स्थितियों अर्थात् विषम युग्मजी (heterozygous) और क्षमयुग्मजी (homozygous) में विशिष्ट एलील (विकल्पी) के साथ समान लक्षण उत्पन्न करता है, तब उस जीन को उस एलील (विकल्पी) के प्रभावी (dominant) कहा जाता है और वह एलील (विकल्पी) जो विषय युग्मजी में अप्रभावी होता है उस प्रभावी के प्रति अप्रभावी (recessive) कहा जाता है । दो जीन (gene) में प्रभावी-अप्रभावी का सम्बन्ध आम होता है ।

dominant character—प्रबल या प्रकृष्ट लक्षण ।

dormancy—(F. *dormi*, from L. *dormire*, to sleep) शिथिलता; सुप्तावस्था; शान्तदशा ।

dormant—(L. *dormire*, to sleep) शिथिल; सुप्त; प्रसुप्त; निद्रित । जीवित, पर विश्रामावस्थायें, तुलना में निष्क्रिय, उपायचक्र युक्त । सुप्तता संपूर्ण उच्च जन्तु या पौधों में अथवा जनन पिण्डों जैसे विश्रामी स्पोर या बैक्टीरिया स्पोर में होती है । उच्च पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे निम्नताप (low temperature) या आआदंता से आती है । इसके दूर होते ही प्रसुप्तता भी समाप्त हो जाती है । प्रसुप्तता बहुत से पौधों और बीजा में एक नियमता है और आवश्यकता भी । इससे पौधे व बीज प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियन्त्रण आसानी से पा लेते हैं ।

dorsad—(L. *dorsum*, back; *ad*, to) पृष्ठीय; पृष्ठ की ओर ।

dorsal—(L. *dorsum*, back) पृष्ठीय ।

dorsal aorta—(L. *dorsum*, back; Gk. *aorte*, the great artery) पृष्ठ महाधमनी; डॉरसल आयोटा ।

dorsalis—(L. *dorsum*, back) पृष्ठ-धमनी; पृष्ठीय; पृष्ठांगी; वह धमनी जो किसी अंग के पृष्ठ (dorsal) भाग को रक्त पहुँचाती है ।

dorsiferous—(L. *dorsum*, back; *ferre*, to carry) पृष्ठवाही; पृष्ठ शिशु वाहक; (१) पीठ पर शिशु को

लेकर चलने वाले । (२) पर्ण या पत्ती के पृष्ठ पर बीजाणु पुन्जों का होना ।

dorsifixed—(L. *dorsum*, back; *fixere*, to fix) पृष्ठ लगन (परागकोश का निवेशन) इस दशा में पुंस्तम्ब परागकोश के पृष्ठ पर किसी स्थान से दृढ़तापूर्वक जुड़ रहता है । उदाहरण—अगस्त (august) सुमुकलता (passion flower) ।

dorsigrade—(L. *dorsum*, back; *gradys*, step) पृष्ठांगुलिगामी । अंगुली की ऊपरी सतह जमीन पर रख कर चलने वाला (जन्तु) ।

dorsispinal—(L. *dorsum*, back; *spina*, spine) पृष्ठ सुपुम्नीय; पृष्ठ सुपुम्ना—; पृष्ठ सुपुम्ना सम्बन्धी ।

dorsiventral—(L. *dorsum*, back; *venter*, belly) पृष्ठाधर; पृष्ठाधरी; पृष्ठ-अधर तली । पृष्ठ और अधर तल पृथक रखने वाले ।

dorsocentral—(L. *dorsum*, back; *centrum*, center) पृष्ठमध्य— ।

dorsocentral surface—पृष्ठमध्य तल ।

dorsolumbar—(L. *dorsum*, back; *lumbus*, lion) पृष्ठ कटि ।

dorsoumbonal—(L. *dorsum*, back; *umbo*, shield luss) पृष्ठ-आम्बो—; आम्बो (umbo) के नजदीक पृष्ठ पर ।

dorsoventral—(L. *dorsum*, back; *venter*, belly) पृष्ठ अधर । पृष्ठतल (dorsal surface) से अधर तल (ventral surface) तक पहुँचने वाली (रचनायें) ।

dorsulom—(L. *dorsum*, back) मध्य पृष्ठिका; कीटों में पृष्ठिका पश्च (scutellum) और परिवन्ध (collar) के मध्य की ऊपरी सतह ।

dorsum—(L. *dorsum*, back) पृष्ठ ।

(१) एन्थोजोआ (Anthozoa) का कर्पण तल (sulcular surface) ।

(२) कीटों तथा केकड़ावंशी (crustacean) का पृष्ठ पट्ट (tergum या notum) ।

(३) कीट पक्ष (insect wing) का अन्तः तट (inner margin) ।

(४) उच्च जन्तुओं (higher animals) की पीठ (back) ।

dorsum of hand—करम ।

dorsum of penis—शिश्न पृष्ठ ।

dorylaner—(Gk. *dory*, spear; *aner*, male) कुंतलर; ड्राइवर पिपीलिका समूह का एक अति बृहत्-नर ।

doublure—(F. *doublure*, lining) पृष्ठवर्म-आस्तर तट; पृष्ठवर्म अतः तट । ट्राइलोवाइडस (trilobites) के पृष्ठ वर्म (carapace) का पलटा हुआ किनारा ।

doyere's cone—(L. *doyere*, french physiologist) डोयेरस अतः पट्ट या उच्छ्राय; वह उच्छ्राय (eminence) या अन्तः पट्ट (end plate) जहाँ तंत्रिका सूत्र शाखान्वित होकर मांस सूत्रों की पारदर्शक झिल्ली (sarcolemma) में प्रवेश करते हैं ।

drepanium—(Gk. *drepanon*, sickle) ड्रिपेनियम; एक प्रकार का घोंघाकार (helicoid) ससीमाक्षी (cymose) पुष्पक्रम (inflorescence) जिसमें गौण अक्ष (secondary axis) प्रथम शाखा के समानान्तर होती है ।

drift—(A. S. *drifan*, to derive) वायुवेगेन पुंजी भू; प्रवहण; अपवाह ।

down feathers—रोम पक्ष; कोमल पिच्छ ।

dromaeognathous—(Gk. *dromein*, to run; *gnathos*, jaw) विभक्त तालु । ऐसा तालु जिसमें पैलेटाइन (palatines) और टैरीगाइड (pterygoid) वोमर (vomer) से पृथक रहते हैं ।

dromotropic—(Gk. *dromos*, course; *trope*, turn) चक्राकार नली; dromotropism—आरोहणानुवर्तन ।

drone—(A. S. *dran*) निष्कर्मी; अनुद्योगी; नर मक्खी शहद की; पुंमधुप ।

drupaceous—(Gk. *druppa*, berry) अष्ठिलोपम; रू प धारी ।

drupe—(Gk. *druppa*, berry) अष्ठिल (सरसफल); यह एक बीजी, बाहरी छिलका चर्मवत, मध्यमिति सरस और अन्तः मिति कठोर पाषाणवत् युक्त सरस फल होते हैं । उदाहरण—आम, वेर, खुबानी, अलूबा, बादाम, सुपारी आदि ।

drupel—(Gk. *druppa*, berry) ड्रूपेल; पुंजफल (aggregate fruit) में एक फल उदाहरण—रसमरी ।

dry—(A. S. *dryge*, dry fruit) शुष्क—फल; शुष्क फलों में बाह्य फल मिति सूखी और कड़ी होती है और इनका वर्गीकरण स्फुटन (dehiscence) के आधार पर किया जाता है । (१) न फटने वाले—एकीनिर्मल (२) सम्पुटी (capsular) स्वयं फटने वाले (३) फल मिति के सड़ने पर बीजों को मुक्त करने वाले—मिदुर फल (schizocarpic fruits)

drymophytes—(Gk. *drymos*, coppice; *phyton*, plant) शुष्क पौधे; छोटे वृक्ष; झाड़ियाँ (shrubs) तथा चूटी (herbs) आदि ।

duct—(L. *ducere*, to lead) नली वाहिनी ।

ductless glands—(L. *ducere*, to lead; *glans*, acorn) नलाहान ग्रन्थियाँ; निःश्रोत ग्रन्थियाँ; वाहिनीहीन ग्रन्थियाँ ।

ductule—(L. *ducere*, to lead) छोटी नलिका; नालिका; लघु वाहिनी ।

ductus—(L. *ducere*, to lead) नली; प्रणाली; वाहिनी ।

ductus arteriosus—डक्टस आर्टीरियोसस; धमनी वाहिनी ।

ductus ejaculatorius—डक्टस इजेकुलेटोरियस; स्वलन वाहिनी; शुक्रवाहिनी । अकशेरू दण्डियों (invertebrates) में एक पतली मांसपेशीयुक्त नलिका जो वीर्य नलिका (vasa deferens) के सिरे पर हांती है ।

dufour's gland—(L. *dufour*, french entamologist) ड्यूफोर ग्रन्थि (ड्यूफोर *dufour*) एक फ्रांसीसी कीट विशेषज्ञ ।

dulosis—(Gk. *doulosis*, subjugation) निग्रह; प्रेष्यता; दासता ।

duodenal—(L. *duodeni*, twelve each) पक्वाशयिक; ग्रहणी ।

duodenum—(L. *duodeni*, twelve each) ग्रहणी; पक्वाशय; ड्यूडेनम; पाचनान्न । क्षुद्रांत्र (small intestine) का वह भाग जो आमाशय से संलग्न होता है ।

duplex—(L. *duplex*, two fold) द्वैध; दुहरा; द्विगुणित ।

duplication—(L. *duplex*, double) द्विगुणन; अनुलिपिकरण ।

duplicature—(L. *duplex*, double) दुगनता ।

duplicitent—(L. *duplex*, double; *dens*, tooth) द्वियुग्मकर्तक दन्ती; उर्ध्व हनु में दो युग्म कर्तक दन्तों का होना ।

duplicity—(L. *dupliciter*, doubly) द्विगुणता; द्विगुणन ।

duplicodentate—(L. *duplex*, double; *dens*, tooth) द्विदन्तुरिक ।

duramater—(L. *dura*, hard; *mater*, mother) दृढ़तानिका; दृढ़च्छद । मस्तिष्क कोष और कशेरूदण्ड के अन्दर का दृढ़ अस्तर बनाने वाली झिल्ली ।

duraspinalis—सुपुम्ना नलिका का दृढ़ कला का अस्तर ।

dural—(L. *dura*, hard) दृढ़ तानिका—; दृढ़ तानिका सम्बन्धी; दृष्टि तन्त्रिका का आच्छद ।

duramen—(L. *durere*, to harden) ड्यूरामेन; तने का केन्द्रीय दृढ़ भाग ।

duvet—(F. *duvet*, down) मृदुलोमी कंचुक; मृदुलोमी निचोल ।

dwarf—(O. E. *dweorg*) वामन, वीना ।

dwarfism—वीनापन; वामनता ।

dyad—(Gk. *dyas*, two) युगली क्रोमोसोम; चतुष्दली (tetrad) का अर्ध ।

dynamic—(Gk. *dynamis*, power) गतिक; शक्तिशाली; सक्रिय; संचरणशील ।

dynamoplastic—(Gk. *dynamis*, power; *plastos*, formed) जीवित कण; शक्ति उत्पाद ।
(देखिये विलोम *paraplastic*—अजीवित कण)

dysgenic—(Gk. *dys*, hard; *genos*, birth) कुलहासक; कुलापकर्षक ।

dysmerism—(Gk. *dys*, mis; *meros*, part) भिन्न समूह ।

dysmerogenesis—(Gk. *dys*, mis; *meros*, part; *genesis*, descent) भिन्न खण्डता ।

dysproca—(Gk. *dyspnoos*, breath less) डिस्पनोइया; श्वास लेने में कठिनाई ।

dysteleology—(Gk. *dys*, hard; *telos*, end; *logos*, discourse) निरुद्देश्यवाद । हेकल (Haeckel) का यह मत कि प्रकृति उद्देश्य रहित है ।

dzierzon theory—(*dzicron*-an agriculturist) डिजीरजन मत—यह मत कि शहद की मक्खी के नर सदैव अनिषिक्त डिम्ब से ही उत्पन्न होते हैं ।

E

Ear—(A. S. *eare*) कान; कर्ण; श्रोत्र; कर्णेन्द्रिय ।
 (१) श्रवणोन्द्रिय (सामान्य) ।
 (२) अकशेरुकों में विभिन्न संरचनायें जो श्रवण कार्य करती हैं ।
 (३) रोम या पंख या रोमिल गुच्छ, जो बाह्य कर्ण (external ear) सदृश कार्य करते हैं ।
 (४) कर्णोपम आकृति (ear shaped structure) ।
 (५) स्पाइक (spike) रेसीम (असीमाक्षी) पुष्पक्रम सदृश परन्तु इसमें पुष्प अवन्त होते हैं ।
 उदाहरण—लटजीरा (*chaff flower*) जंगली चौलाई (*Amaranthus spinosus*) ।
 (६) बाल, वाली ।
earred—(A. S. *eare*) (१) कानदार; कर्णयुक्त; कर्णी ।
 (२) बाल युक्त ।
ear cavity—(A. S. *eare*, L. *cavous*, hollow) कर्ण कोटर; कर्ण गुहा ।
ear drum—कर्ण पटह ।
ear external—बाह्य कर्ण ।
ear internal—आन्तर कर्ण; अंतः कर्ण [देखिये *membranous labyrinth* कलागहन] ।
ear middle—मध्यकर्ण ।
earthworm—केंचुआ; मृत्कीट ।
ebracteate, **ebracteolate**—(L. *ex*, out of; *bractea*, thin plate) असहपत्रक ।
ecalcarate—(L. *ex*, out of; *calcar*, spur) प्रचोदन हीन; नखहीन या अनखी ।
ecardinal—(L. *ex*, out of; *cardo*, hinge) कब्जा हीन ।
ecarinate—(L. *ex*, from; *carina*, keel) कील हीन ।
ecaudate—(L. *ex*, from; *cauda*, tail) पुच्छहीन; अपुच्छ; निपुच्छ ।
ecblastesis—(Gk. *ek*, out of; *blastos*, bud) मुख्याक्ष सतत वृद्धि; पुष्पक्रम (inflorescence) की मुख्य अक्ष की सतत वृद्धि (proliferation) ।

eccentric—(Gk. *ek*, out of; *kentron*, centre) उत्केन्द्र; केन्द्र भ्रष्ट; केन्द्र च्युत ।
eccritic—(Gk. *ekkrinein*, to expel; to select) उत्सर्जनकारी; उत्सर्जन सम्बन्धी ।
ecdemic—(Gk. *ek*, out of; *demos*, people) परदेशज ।
ecderon—(Gk. *ek*, out of; *deros*, skin) वहिश्चर्म ।
ecderonic—(Gk. *ek*, out of; *deros*, skin) वहिश्चर्मीय ।
ecdysial—(Gk. *ekdyein*, to strip) निर्मोक्ष; प्रवतनी; विवल्कयति ।
ecdysis—(Gk. *ek*, out; *dyein*, to enter) प्रपतन; निर्मोक्ष-उत्सर्जन; पंख गिराना; काँचुली (केंचुली) बदलना; खोल बदलना; त्वचा मोचन ।
echard—(Gk. *echein*, to keep; *ard*, I water) अनुपलब्ध भूजल; वह भूमिगत जल जो पौधों की वृद्धि के लिए उपलब्ध नहीं होता है ।
echinate—Gk. *echinos*, spine) शूली; कण्टकी; शूलयुक्त ।
echinenone—(Gk. *echinos*, sea urchin) इकीनिनोन; प्रोविटामिन 'ए'; सी अर्चिन के जननांगों का कैरोटिनाईड रंज्य (वर्ण) ।
echinococcus—(Gk. *echinos*, spine; *kokkos*, seed) एकाई तोकाँक्स; बहुशिरस्क; सेस्टोडा (cestodes) की आशयी (vesicular) एक स्थिति जिसमें बहुत-सी सिस्ट (cysts) अनेक सिर वाली बनती हैं ।
echinochrome—(Gk. *echinos*, sea-urchin; *chroma*, colour) शल्यी श्वासक; शल्यी श्वास रंज्य; एकाईनोडर्म (कण्टक देहियों *echinoderm*) में पाया जाने वाला लाल भूरा श्वास पदार्थ ।
echinoderm—(Gk. *echinos*, spine; *derma*, skin) एकाईनोडर्म; कण्टकदेही ।

echinoid—(Gk. *echinos*, spine) एकीनोइड; शल्यी; शल्याकार; शल्या सम्बन्धी; सी अर्चिन (sea-urchin) सदृश ।

echinopaedium—(Gk. *echinos*, spine; *pais* child) एकाइनोपीडियम; डाईप्लूरूला; द्विपाश्र्वी; सन्धूलशाव ।

echinopluteus—(Gk. *echinos*, spine; L. *pluteus*, shed) शल्यी-प्लूटियस; इकीनोइडिया—शल्यी वर्ग (class) का अर्भक (लारवा) ।

echinulate—(Gk. *echinos*, spine) लघु-कटंकी ।

echolocation—(L. *echo*, echo; *locare*, to place) प्रतिध्वनि निवेशन; प्रतिध्वनि (echo) द्वारा किसी वस्तु को निविश (locate) करना । जैसे चिमगादड (bats) करते हैं ।

eclipse—(Gk. *ekleipen*, to leave incomplete) (१) ग्रहण; (२) नवपिच्छता; पक्ष पतन के पश्चात नवीन पिच्छों से ढका जाना ।

eclosion—(L. *e*, out; *clausus*, shut) डिम्बोद्भवता या ईमैगो (प्रौढ़ कीट) उद्भवता ।

ecobiotic—(Gk. *oikos*, household; *biosis*, manner of life) प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगीयों (organisms) के व्यवहार का वातावरण सम्बन्ध या परिस्थिति सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है ।

ecodeme—(Gk. *oikos*, household; *demos*, people) इकोडीम; विशिष्ट परिस्थितिकी निवासीय वर्गीय समुदाय ।

ecology—(Gk. *oikos*, house; *logos*, discourse) परिस्थितिकी; जीव-पारिस्थितिकी विज्ञान; पारिस्थितिकी विज्ञान । प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगीयों (organisms) के व्यवहार का वातावरण या पर्यावरण सम्बन्ध या परिस्थिति से सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है ।

economy—उपापचय व्यवस्था ।

ecophene—इकोफीन; अनुकूलक ।

ecophenotype—पारिदृश्य प्ररूप ।

ecorticate—वल्कहीन ।

ecospecies—पारिस्थितिक जाति; पारिजाति ।

ecostate—शिराहीन ।

ecosystem—परिस्थितिक तंत्र ।

ecotone—(Gk. *oikos*, house hold; *tonos*, brace) इकोटोन; संक्रांति क्षेत्र संक्रांति जाति; संक्रमिका; दो समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र (transitional area) या सीमा रेखा (boundary line) ।

ecotope—(Gk. *oikos*, house hold; *topos*, place) विशिष्ट स्थल; सविशेष निवास स्थान ।

ecotype—(Gk. *oikos*, house hold; L. *typus*, image) निवास प्ररूप ।

ecphoria—(Gk. *ekphorion*, produce) चेतना लाभ; लुप्त; स्मरण शक्ति पुनः जागण ।

ecsoma—(Gk. *ek*, from out of; *soma*, body) पश्च संकुलनशील भाग; कुछ टिमेटोडा के शरीर का पश्च संकुचनशील भाग ।

ectad—(Gk. *ektos*, without) बाह्योन्मुख ।

ectadenia—(Gk. *ektos*, without; *aden*, gland) बहिर्ग्रन्थी । कीट में बाह्यस्तर जनित (ectodremic) सहायी (accessory) जनन ग्रन्थियाँ ।

(देखिये mesadenia—मध्य-जनन स्तर ग्रन्थी)

ectal—(Gk. *ektos*, without) बाह्यवर्ती ।

ectamnion—(Gk. *ektos*, without; *amnion*, foetal membrane) बाह्य जराणु । पुराजराणु (proamnion) में बाह्य स्तर बाह्य या त्वर्य (ectoderm) का वह स्थूलीकरण (thickening) जिसमें शिरस्क भाँज (head fold) का आरम्भ होता है ।

ectendotrophic—(Gk. *ektos*, without; *endon*, with in, *trophe*, nourishment) बहिर्स्त; पोषित; आंशिक बाह्य एवं आंशिक अन्तः पोषित—जैसे कुछ माइकोराइजिक फंगन (mycorrhizic fungus) ।

ectentaline, ectental line—(Gk. *ektos*, without;

ectepicondylar

- endon*, within) बाह्यान्तररेखा । वह रेखा जहाँ बाह्य चर्म और अन्तः चर्म (endoderm) द्विस्तर भ्रूण (gastrula) के प्राथमिक मुख (blastopore) पर परस्पर मिलते हैं ।
- ectepicondylar—(Gk. *ektos*, without; *epi*, upon; *kondylos*, knob) अबुद वैहिरांश छिद्र ।
- ectethmoid—(Gk. *ektos*, without; *ethmos*, sieve; *eidos*, form) एकथे मॉएड; पाषाण मंडरास्थि, एक हड्डी का नाम ।
- ecthoraeum—(Gk. *ekthroskein*, to leap out) दंशक सूत्र । दंशक कोशिका (nematocyst) का सूत्र ।
- ectoblast—(Gk. *ektos*, without; *blastos*, bud) एकटोब्लास्ट; बाह्यस्तर ।
- ectobronchus—(Gk. *ektos*, without; *brongchos*, wind pipe) बाह्य श्वास नलिका ।
- ectocarpous—(Gk. *ektos*, without; *karpos*, fruit) बाह्य जननांगी; वहिश्चर्म जनित (ectodermic) जनन ग्रन्थि वाला ।
- ectochondrostosis—(Gk. *ektos*, without; *chondros*, cartilage; *steon*, bone) वहिखरिक संचय । खरिक लवणों (lime salts) का संचय (deposition) उपास्थि वेष्टन (perichondrium) में आरम्भ होकर धीरे-धीरे उपास्थि में घुसते चले जाना ।
- ectochone—(Gk. *ektos*, without; *choane*, funnel) कीप कोटर; कुछ छिद्र देहियों (स्पंज—sponges) में कीज्नुमा विरा हुआ स्थान जिसमें मुख छिद्र-ओस्टिया (ostia) खुलते हैं ।
- ectocoel—(Gk. *ektos*, outside; *kailos*, hollow) बाह्य कोटर ।
- ectoeoelic—(Gk. *ektos*, outside; *kailos*, hollow) बाह्य कोटरी ।
- ectocondyle—(Gk. *ektos*, outside; *kondylos*, knob) बाह्याबुद; किसी अस्थि का बाह्य अबुद या अस्थिकन्द (condyle) ।

- ectoeranian—(Gk. *ektos*, outside; *kranion*; skull) बाह्यकरोटिक ।
- ectocuneiform—(Gk. *ektos*, outside; L. *cuneus*, wedge; *forma*, shape) वहिःशंकु । गुल्फ (tarsus) की दूरस्थ पंक्ति (distal row) की एक हड्डी ।
- ectocyst—(Gk. *ektos*, outside; *kystos*, bladder) बाह्य पुटिका; वहिवेष्टन ।
- ectoderm—(Gk. *ektos*, outside; *derma*, skin) बाह्य त्वचा; बाह्य चर्म, बाह्य स्तर; एकटोडर्म ।
- ectodermal—बाह्य चर्म—; बाह्यस्तरी; बाह्यस्तर सम्बन्धी ।
- ectodermic—बाह्यस्तर जनित ।
- ectogenesis—(Gk. *ektos*, outside; *genesis*, descent) बाह्य वर्धन ; मादा के शरीर के बाहर भ्रूण वर्धन ।
- ectogenous—(Gk. *ektos*, outside; *genos*, birth) १—स्वतन्त्र जीवी । २—बाह्यज ।
- ectoglia—(Gk. *ektos*, outside; *glia*, glue) बाह्य श्लेश्म; वहिःस्तर; केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (central nervous system) का बाहरी तट (outer layer) ।
- ectolecithal—(Gk. *ektos*, outside; *lekithos*, yolk of egg) बाह्यडिम्बानी; निर्माणशील (formative) प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए डिम्बान्न (yolk) वाला ।
- ectoloph—(Gk. *ektos*, outside; *lophos*, crest) बाह्यकूट; बाह्यमेड़; मेड़ शिरस्क (lophodont) चर्वक (molar) में पाराशंकु (paracone) से अनुशंकु (metacone) तक पहुँचती हुई मेड़ (ridge) ।
- ectomere—(Gk. *ektos*, outside; *meros*, part) बाह्यस्तर कोशिका ।
- ectomy—(Gk. *ek*, out; *temnein*, to cut) कर्तन ।
- ectoneural—(Gk. *ektos*, out side; *neuron*, -neve) बाह्यतंत्रिका ।
- ectoparasite—(Gk. *ektos*, out side; *para*, beside; *sitos*, food) वहिपरजीवी; बाह्यपरजीवी ।
- ectopatagium—(Gk. *ektos*, out side; L. *patagium*)

ectophyte

- gium*, border) वहिरंचल; चिमगादडों (*bats*) में द्वैनेनुमा (*wing like*) झिल्ली (*membrane*) का वह भाग जो करभास्थि (*metacarpals*) और पर्चों (*phalanges*) से लगा होता है ।
- ectophyte**—(Gk. *ektos*, outside; *phyton*, plant) बाह्य पादप परजीवी ।
- ectopic**—(Gk. *ek*, out of; *topos*, place) स्थान-च्युत । असामान्य स्थितिवाला । किसी अंग विशेष का अपनी वास्तविक स्थिति पर न होना ।
- ectopic pairing**—स्थानच्युत युग्मन; क्रोमोसोम के विभिन्न समूहों का विभिन्न क्षेत्रों में युग्मन (*pairing*) ।
- ectoplasm**—(Gk. *ektos*, out side; *plasma*, mould) वहिःप्रदव्य; एक्टोप्लाज्म; बाह्यसत्व । कोशिका (*cell*) के प्रोटोप्लाज्म की बाहरी तह ।
- ectoplast**—(Gk. *ektos*, without; *plastos*, fomed) एक्टोप्लास्ट; वहिर्द्रव्यक कोशिका भित्ति के अन्दर की ओर लगा हुआ प्लाज्मा कला ।
- ectoplastic**—बाह्य सत्वक ।
- ectopterygoid**—(Gk. *ektos*, outside; *pteryx*, wing; *eidos*, form) बाह्य श्यंगिका; एक्टोटेरीगाइड-कपाल की एक कला जाति अस्थि ।
- ectosarc**—(Gk. *ektos*, outside; *sarx*, flesh) वहिः प्रदव्य ।
- ectosome**—(Gk. *ektos*, outside; *soma*, body) वहिष्पिण्ड; बाह्य काय; एक्टोसोम ।
- ectosphere**—(Gk. *ektos*, outside; *sphaira*, globe) वहिमण्डल; आकर्षण मण्डल (*attraction sphere*) का बाहरी क्षेत्र (*zone*) ।
- ectospore**—(Gk. *ektos*, outside; *sporos*, seed) बाह्यस्पोर; प्रांगुल स्पोर; बेसीडियोमाइसिड्रीज (*basidio mycetes*) में प्रांगुल (*steregma*) के छोर पर लगा स्पोर (*spore*) ।
- ectostosis**—(Gk. *ektos*, outside; *osteon*, bone) वहिस्त्यकरण; हड्डी का बनना, जिसमें अस्थिकरण (*ossification*) उपास्थि चेट्टन (*perichondrium*)

- के नीचे आरम्भ होता है और उपास्थि (*cartilage*) को या तो परिणत कर देता या उसे धेर लेता है ।
- ectotheca**—(Gk. *ektos*, outside; *theke*, cup) वहिस्पुट; कुछ हाइड्रायड जन्तुओं में उत्पादन पुट (*gonotheca*) का बाह्यावरण (*outer coating*) ।
- ectotrachea**—(Gk. *ektos*, outside; L. *trachea*, windpipe) श्वांसिका बाह्याच्छद ।
- ectotrophic**—(Gk. *ektos*, outside; *tropnein*, to nourish) बाह्यपोषी; वहिपोषणी ।
- ectoturbinal**—(Gk. *ektos*, outside; L. *turbo*, whorl) घूर्णास्थि बाह्य; एक्टोटर्वाइनल; एथ्मोटर्वाइनल (*ethmoturbinal*) का एक भाग ।
- ectozoon**—(Gk. *ektos*, outside; *zoon*, animal) वहिपरजीवी । वह परजीवी (*parasite*) प्राणी जो किसी जन्तु के ऊपर या बाहर की ओर चिपके रहते हैं ।
- ecumene**—(Gk. *oikoumene*, habitable world) जीव मंडल; कोई जीवीय क्षेत्र ।
- edaphic**—(Gk. *edaphos*, soil) (१) मृत्तिका सम्बन्धी (२) मृत्तिका प्रभावित ।
- edaphon**—(Gk. *edaphos*, soil) मृत्तिका जीवी ।
- edaphology**—(Gk. *edaphos*, ground; *logos*, discourse) मृत्तिका विज्ञान ।
- edentate**—(L. *ex*, without; *dens*, tooth) निर्दन्त; अदन्ती । बिना दाँत या दाँत के समान प्रवर्धन वाला ।
- edestin**—(Gk. *edestos*, eatabic) एडेस्टिन; पादप ग्लोब्युलिन जल में अनघुलनशील प्रोटीन विशेष सूरज-मुखी (*sunflowers*) तथा कुछ अन्य बीजों में पाई जाने वाली प्रोटीन विशेष ।
- edriophthalmic**—(Gk. *edra*, seat; *phthalmos*, eye) अस्तम्न नेत्री; बिना उच्छल पर तगी हुई आँख वाला ।
- effector**—(L. *efficere*, to carry out) सम्पादी; निष्पादी (१) वह अंग जो किसी उत्तंजना (*stimulus*) के प्रत्युत्तर (*response*) में कोई कार्य सम्पादन करे । (२) पेशी का गतिकारी (*motor*) अन्तस्थ अंग (*end*

organ), जैसे पेशी (muscle), विद्युत् अंग (electric organ), प्रकाशांग (luminous organ), ग्रन्थियाँ (glands) आदि ।

efferent—(L. *ex*, out; *ferre*, to carry) अपवाही; वहिगामी ।

efferent fibre—अपवाही सूत्र; वहिगामी सूत्र ।

efferent organ—अपवाही अंग; वहिगामी अंग ।

efflorescence—(L. *efflorescere*, to blossom)

स्फुटित; प्रफुल्ल, विकसित स्फुटित कुसुम ।

effuse—(L. *effusus*, poured out) निःसरण ।

efoliate—पर्णहीन ।

efoliation—विपर्णता; विपर्णण ।

efoveolate—खात हीन

egest—(L. *ex*, out; *gerere*, to carry) उत्सर्जन; विसर्जन; बाहर निकालना ।

egesta—(L. *egestus*, discharged) विसर्जित; प्रस्त्रावी ।

egestion—(L. *ex*, out; *gerere*, to carry) खाद्या-विशेष उत्सर्जन ।

egg—(L. *ovum*, egg) अंडा; अंड; डिम्ब; परिपक्व मादा जनन कोशिका ।

egg-albumin—(अंड) शुक्लांश; अंडे की सफेदी ।

egg capsule—डिम्ब-पेटी; अंड-पेटी ।

egg case—डिम्ब मंजूषा; अंड-पेटिका ।

egg cell—डिम्ब कोशिका ।

egg laying—अंड स्थापन; डिम्ब स्थापन ।

egg membrane—डिम्बकला; अंड की झिल्ली ।

egg nucleus—डिम्ब केन्द्रक; डिम्ब न्यूक्लियस; मादा ।

egg tooth—डिम्ब दन्त; ऊपरी जबड़े या चोंच पर स्थित छोटी-सी रचना जिससे भ्रूण (embryo) अंडे के खोल (shell) को भेदता है ।

egg yolk—अंड पीतक ।

eiloid—(Gk. *eilein*, to soll up; *eidōs*, form) तुमुलोपम ।

ejaculate—(L. *ejaculatus*, thrown out) उत्क्षेप; प्रक्षप ।

ejaculatory—(L. *ex*, out; *jacere*, to throw) उत्क्षेपक; प्रक्षेपक ।

ejaculatory duct—स्खलनीय वाहिनी ।

ejection—निकासन; निःसरण, निकालना ।

elaborate—(L. *ex*, out; *laborare*, to work) बहुश्रमेण निर्माण ।

(१) सरल पदार्थों से संयुक्त जैविक पदार्थों का निर्माण ।

(२) अपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था में लाना, जिससे स्वांगीकरण हो सके ।

elaeoblast—(Gk. *elaion*, oil; *blastos*, bud) खाद्य समूह (निकर); कुछ ट्यूनी केट्स के शरीर के पृथ्व भाग में पाया जाने वाला खाद्य पदार्थों का समूह (निकर) ।

elacocyte—(Gk. *elaion*, oil, *kytos*, hollow) तैल-कोशिका; मेदीय कोशिका; ऐसी कोशिका जिसमें मेद (fat) की बिन्दु हो ।

elaeodochon—(Gk. *elaiodochos*, oil containing) तैल-ग्रन्थि (पक्षियों में) ।

elaioplast—(Gk. *elaion*, oil; *plastos*, moulded) तैलज; तैल-कण; वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाने वाला कण जो तैल गोलिकाओं (oil globules) को जन्म देता है ।

eliosphere—(Gk. *elaion*, oil; *sphaira*, globe) तैल गोलिका; वनस्पति कोशिका की तैल गोलिका (oil globule) ।

elasmobranch—(Gk. *elasmos*, a beaten metal plate; *branchia*, gills) उपास्थिमीन; उपास्थि मत्स्य ।

elastic—(Gk. *elasticos*, to drive) प्रत्यास्थ; लचीली; स्थिति स्थापक ।

elastic fibrocartilage—प्रत्यास्थ सूत्र उपास्थि; लचीली सूत्रमय उपास्थि । ऐसी उपास्थि जो उपास्थि कोशिकाओं और पीले प्रत्यास्थ या लचीले सूत्रों (yellow elastic fibres) से व्याप्त आधार पदार्थ (matrix) से बनी होती है ।

elastica externa—वाह्य इलैस्टिका, वाह्य स्थिति स्थापिका; पृष्ठ रज्जु पिधान (notochordal sheath) का बाहरी स्तर।

elastic interna—आन्तर इलैस्टिका; अन्तः स्थिति स्थापिका; पृष्ठ रज्जु कोशिकाओं का अधिच्छद सदृश स्तर।

elastin—(Gk. *elaunein*, to draw) इलास्टिन; स्वलीरोप्रोटीन जिससे प्रत्यास्थ सूत्र बने होते हैं।

elater—(Gk. *elater*, driver) विस्तारक; ऐसी कोशिकाएँ जो बीजाणु या स्पोर (spore) को फैलाने में सहायता देती हैं।

elaterophore—(Gk. *elater*, driver; *pherein*, to bear) विस्तारकधारी; ऐसे ऊतक जो विस्तारक (elaters) युक्त होते हैं।

elbow—(Gk. *elater*, driver) कोहनी; कफोणी।

electosome—(Gk. *eklektikos*, chosen; *soma*, body) प्रपिण्ड; वह कणांग (chondriosome) जो प्रोटोप्लाज्म के रसायनिक तत्वों के बनाने का केन्द्र (centre) समझा जाता है।

electric organ—विद्युत-अंग।

electroplax—(Gk. *elektron*, amber; *plax*, plate) विद्युत-पट्ट। विद्युत-अंग (electric organ) के घटक पट्टों (constituent plates) में से एक।

electroaxis—(Gk. *elektron*, amber; *taxis*, arrangement) विद्युत-न्यास; विद्युत क्षेत्र (electric field) के अन्तर्गत गति (movement) का दिक्विन्यास (orientation)।

electrotonic—(Gk. *elektron*, amber; *tonos*, tension) विद्युदुत्तानिक; विद्युत-उत्तानिक। विद्युत उत्तान (electric tension) की अवस्था से सम्बन्ध रखने वाला।

electrotonus—(Gk. *elektron*, amber; *tonos*, tension) विद्युदुत्तान। विद्युत की निरन्तर धारा के कारण तंत्रिका की परिवर्तित दशा।

eleidin—(Gk. *elaia*, otine) इलीडिन; कणाभ; बाह्य चर्म (epidermis) के कणाभ-स्तर (stratum

granulosum) में पाया जाने वाला कणमय पदार्थ।

element—(L. *elementum*, pl. *elementa*, first principles) तत्व; मूलतत्व; टुक; टुकड़ा।

eleutheroantherous—पृथक पुंकेसरी।

eleutherodactyl—(Gk. *eleutheros*, free; *dactylos*, finger) पृथक पश्चपादांगुलिक।

eleutheropetalous—(Gk. *eleutheros*, free; *petalon*, petal) मुक्तदली; पृथकदली।

eleutherophyllous—(Gk. *eleutheros*, free; *phyllon*, leaf) पृथक-पर्णी; पृथक परिदलपुंजी (perianth); परिदल पुंज (perianth) के चक्रों (whorls) के घटकों का पृथक—२ होना।

eleutherosepalous—(Gk. *eleutheros*, free; F. *sepale*, sepal) पृथक बाह्यदली।

eleutherozoa—(Gk. *eleutheros*, free; *zoon*, animal) एलुथीरोजोआ।

eteuthrozoon—(Gk. *eleuthicus*, free; *zoon*, animal) अवद्धप्राणी।

elevated—(L. *elevare*, to lift up) उन्नत, उचित; उत्थापित।

elevation—(L. *elevare*, to lift up) उत्थान; उत्थापन उन्नयन।

elevator—(L. *elevare*, to lift up) उत्थापक; ऐति-वेटर; उपरिकर्षक; उध्वकर्षक।

eligulate—(L. *ex*, out; *ligula*, little tongue) इलि-गुलेट; जिह्विकाहीन; अजिह्विकी। (२) अजीर्षिकी या अग्नि मूली लिग्गुलहीन।

elimination—(L. *eliminare*, a threshold) विलोपन; निरसन; विसर्जन।

elliptical—(Gk. *ellipsis*, a falling short) दीर्घ-वृत्ताकार; दीर्घवृत्तीय, अण्डाकार।

elongated—(L. *elongare*, long) वित्त; आयत; लम्बावृत्ति।

elavial—(L. *ex*, out; *lavere*, to wash) उद्धान, सतह; ऊपर की सतह आँधी द्वारा दृष्टी की हुई।

elytriform

elytriform—(Gk. *elytron*, sheath; L. *forma*, shape) पिधानोपम; पिधानाकार ।

elytroid—(Gk. *elytron*, sheath; *eidōs*, resemblance) पिधानोपम; पिधानाकार ।

elytrum—(Gk. *elytron*, sheath) पक्षवर्म; पक्ष-पिधान; शल्क-पिधान । (१) कुछ कीटों में दृढ़ और आवरणोपम अग्र पक्ष (anterior wing) । (२) कुछ कृमियों (worms) के पृष्ठतल (dorsal surface) पर पाये जाने वाले शल्क (scales) या फलिकाकार (shield like) चट्टों में से एक ।

emarginate—(L. *ex*, out; *marginare*, to delimit) भंग शिखरी । अपने शिखर (apex) या सिरे (end) पर त्रिकोणाकार (triangular) भंग (notch) रखने वाला ।

emasculate—(L. *masculus*, male) नपुंसकीकरण; वधिया करना; नपुंसक करना ।

embole, or emboly—(Gk. *embole*, throwing in) अन्तर्चलन; किसी रचना (structure) का क्रम वर्धन (development) में अन्दर को घुस जाना ।

embolic—(Gk. *embole*, a throwing in) अन्तरा-रोही; अन्तर्चलनी ।

embolium—(Gk. *embole*, a throwing in) अन्तर्चलक; पशुकांशक । किन्हीं कीराणुओं के पंख का बाहरी भाग ।

embolomeros—(Gk. *embole*, a throwing in; *meros*, part) अन्तर्खण्ड ।

emboly—(Gk. *embole*, a throwing in) अन्तर्चलन; अन्तरारोहण; किसी रचना (structure) का क्रम वर्धन (development) में अन्दर को घुस जाना ।

embryo—(Gk. *embryon*, embryo) भ्रूण; स्वावलम्बी (self supporting) होने से पूर्व क्रम वर्धन (development) की प्राथमिक स्थिति (stage) । वनस्पति विज्ञान में तरुण पीधा जो लैंगिक या अनिषेकजनन द्वारा डिम्ब से उत्पन्न होता है । बीज युक्त पीधों में भ्रूण बीज में होता है । जन्तुविज्ञान में निषिक्त डिम्ब

या अनिषेक जननित प्रक्रिया द्वारा सक्रिय डिम्ब जिससे वर्धन प्रक्रिया द्वारा भ्रूण विकसित होता है । भ्रूण डिम्ब कलाओं (egg membranes) अथवा मादा के शरीर के अन्दर होती है इन कलाओं से स्फुटन (hatching) या प्रसव तक भ्रूण काल (embryonic period) माना जाता है ।

embryo cell—भ्रूण कोशिका ।

embryosac—(१) गुरु बीजाणु (megaspore); (२) आवृत बीजी (angiosperm) में मादा युग्मकोद्भिद (gametophyte) ।

embryogeny—(Gk. *embryon*, embryo; *gonos*, birth) भ्रूणोद्भव; भ्रूण निर्माण । वह प्रक्रियाएँ (processes) जिनसे भ्रूण बनता है ।

embryology—(Gk. *embryon*, embryo; *logos*, discourse) भ्रूण विज्ञान; भ्रूणिकी; वर्धन विज्ञान; प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो भ्रूण की रचना (structure) तथा वर्धन (development) का वर्णन करती है ।

embryonic—(Gk. *embryon*, embryo) भ्रूणीय; भ्रूणिक ।

embryonic membrane—भ्रूण कलाएँ जैसे जरायु (amnion); ऐलेन्टोइज (allantois), चर्मिका (chorion) आदि ।

embryophore—(Gk. *embryon*, embryo; *pherein*, to bear) भ्रूण पिधान; भ्रूणावरण; अनेक मोवा जन्तुओं (tape worms) में वह तन्त्रयुक्त (ciliated) पिधान (mantle) जो भ्रूण (embryo) के ऊपर उत्पादन कोशिकाओं या ब्लास्टोमियर (blastomere) से बनता है और भ्रूण को घेरे रहता है ।

embryotegia—(Gk. *embryon*, embryo; *tegos*, roof) भ्रूणावरण; चोल हड्डी ।

embryotrophy—(Gk. *embryon*, embryo; *trephein*, to nourish) भ्रूण पोषण ।

emergence—(L. *ex*, out; *mergere*, to dip) निर्गमन; उद्भव; उद्गमन; निकलना ।

emersed—(L. *ex*, out; *mergere*, to dip) जलो-
त्यानक; पानी की सतह से ऊँची उठी हुई पत्ती आदि ।

eminence—(L. *emindens*, eminent) गस्त्रिमेढ; अस्थितल पर मेढ या प्रवर्ध ।

emissary—(L. *emittere*, to send out) निःसृत;
उन शिराओं (veins) के लिये उपयुक्त होता है जो कापा-
लिक भित्ति (cranial wall) के छिद्रों से निकल कर
अन्दर की कुल्याओं (sinuses) और बाहर की शिराओं
में सम्बन्ध स्थापित करती हैं ।

emmenine—(Gk *emmenos*, monthly) एमेनिन;
जननांग प्रभावक हार्मोन ।

empodium—(Gk. *en*, in; *pous*, foot) चुंगल
मध्यस्थ । बहुत से कीटों में चंगुलों (claws) के बीच
स्थित एक छोटी भिन्नाकार (variable) रचना ।

emulsion—(L. *emulgere*, to milk out) पायस; इम-
लशन; एक तैल युक्त सफेद तरल पदार्थ, जिसमें ६० प्रति-
शत खरिक (calcium) और मैग्नेशियम (magne-
sium) के लवण (salts) होते हैं ।

enamel—(O. F. *esmailier*, to coat with enamel)
इनेमल; दन्त वल्क ।

enantio-blastic—(Gk. *enantios*, opposite;
blastos, bud) अँवल अभिमुखी; अण्डप अभि-
मुखी ।

enantiomorphic—(Gk. *enantios*, opposite;
morphe, form) प्रतिविम्ब रूपी; विपरीताकृति; अभि-
मुखाकृति ।

enarthrosis—(Gk. *en*, in; *arthron*, joint) उलूखल
सन्धि ।

enation—(L. *cnatus*, grown from) उद्बर्धन;
उद्बर्ध ।

१—बीजाणु उद्भिद् (स्पोरोफाइट) की सतह से
निकला हुआ अनुत्पादक सहायी भाग ।

२—किसी भी चिकनी सतह से निकलने वाला
भाग ।

encephalisation—(Gk. *engkephalos*, brain)
मस्तिष्क निर्माण ।

encephalocoel—(Gk. *engkephalos*. brain;
koilos, hollow) मस्तिष्क कोटर ।

encephalomere—(Gk. *ekgkephalos*, brain;
meros, part) मस्तिष्क खण्ड ।

encephalon—(Gk. *engkephalos*, brain) मस्तिष्क ।

encephalospinal—(Gk. *engkepralos*, brain; L.
spina, spine) मस्तिष्क-सुपुम्ना सम्बन्धी ।

enchylema—(Gk. *en*, in; *chylos*, juice) अतितरल;
कोशिका या सेल का अधिक तरल भाग ।

encretion—(Gk. *en*, within; *krinein*, L. *cer-
nere*, to put apart) उद्दीपक; द्विधा वर्धक अंतः-
स्त्राव । (देखिये hormone)

encyst—(Gk. *en*, in *kystis*, bladder) पुटीभव;
कोशिकावृत होना ।

encystation or encystment—(Gk. *en*, in; *kystis*,
bladder) पुटीभवन; कोशिकीकरण ।

endarch—(Gk. *endon*, within; *arche*, begin-
ning) केन्द्रीय प्रोटोजाइल्मी; एण्डार्क; मध्यादिदारक;
केन्द्रीय प्रोटोजाइल्म (central protoxylem) युक्त ।

endaspidean—(Gk. *endon*, within; *aspis*,
shield) अंतवर्धीशल्क; अंतविस्तृतशल्क । टारसम
(tarsus) के अन्तः तल तक विस्तृत शल्क (scutes) ।

end bulbs—अन्त्यपिण्ड । सूक्ष्म बेलनाकार (cylindrical)-
या बण्डाकार (oval) रचनाएँ जो सूत्राक्ष (axis cylin-
der) के अन्तिम छोर पर होती हैं ।

end cell—अन्तिम कोशिका; ऐसी कोशिका जो और
आगे विभक्त न हो सके ।

endemic—(Gk. *en*, in; *demis*, people) देश-
स्वामीय ।

enderon—(Gk. *en*, in; *deros*, skin) अन्तः-स्तर ।
(देखिये—endodermal)

enderonic—(Gk. *en*, in; *deros*, skin) अन्तः-
स्तरीय ।

endites—(Gk. *endon*, within) अंतः पालि शाखिका; सन्धिपादों (arthropods) में कुछ अवयवों (appendages) के मध्य तल (middle surface) पर स्थिति शाखायें ।

endobasal—(Gk. *endon*, within; *basis*, base) अन्तःपिण्ड ।

endoblast—(Gk. *endon*, within; *blastos*, bud) अन्तः स्तर ।

endocardiac—(Gk. *endon*, within; *kardia*, heart) हृदान्तरिक; हृदय के अन्दर स्थित ।

endocardium—(Gk. *endon*, within; *kardia*, heart) हृदन्तश्छद्म; हृदय के आन्तरिक तल (inner surface) का अस्तर (lining) बनने वाली झिल्ली ।

endocarp—(Gk. *endon*, within; *karpos*, fruit) अन्तः फलभित्ति; ड्रूपीय (drupaceous) फलों में अधिकतर सख्त परिफल भित्ति (pericarp) का सबसे अन्दरूनी स्तर ।

endocarpoid—(Gk. *endon*, within; *karpos*, fruit; *eidōs*, form) विम्बोपम स्पोर स्योती; विम्बोपम बीजाणुधानी कवची ।

endochite—(Gk. *endon*, within; *chiton*, coat) यूगोनियम अन्तः स्तर; डिम्ब मातृ कोशिका अन्तः स्तर; आद्य डिम्ब कोशिका (oogonium) का सबसे अन्दरूनी स्तर ।

[देखिये **exochite**—डिम्ब मातृ कोशिका बाह्य स्तर

mesochite—डिम्ब मातृ कोशिका मध्य स्तर ।

endochondral—(Gk. *endon*, within; *chondros*, cartilage) अन्तः उपास्थिक; अन्दर की ओर से अस्थि करण । [देखिये **perichondral**—बाह्य उपास्थिक; बाहर की ओर से अस्थिकरण]

endochondrostosis—(Gk. *endon*, within; *chondros*, cartilage; *osteon*, bone) मध्योत्सारी अस्थि करण; उपास्थि में भीतर से बाहर की ओर अस्थि सचय ।

endochone—(Gk. *endon*, within; *crane*, funnel)

अन्तः कीप; स्पंज (sponge) में वल्क (cortex) के नीचे स्थित विस्तृत गुहिका (crypt) जिससे अन्तर्गामी नलिकायें (incurrents canals) निकलती हैं ।

endochorion—(Gk. *endon*, within; *chorion*, chroion) अन्तर्चमिका; अंतः जरायु ।

endochrome plate—अन्तः रंज्य पट्ट ।

endochromidia—(Gk. *endon*, within; *chroma*, colour; *idion*, dim) अन्तः क्रोमीडिया; अन्तः अतिरिक्त न्यूक्लियक कण; मेट्रोक्रोमेटिन (metachromatin) के कलल धोल से निर्मित मेटाक्रोमेटिक कणिकायें (corpuscles) ।

endochylos—(Gk. *endos*, within; *chylous*, juicc) अंतः जल कोशिकीय; अंतः ऊतक (internal tissue) के अन्दर जल कोशिका (water cells) युक्त ।

endocoelar—(Gk. *endon*, within; *koilos*, hollow) अन्तर्भित्ति सम्बन्धी । गह्वर या सीलम (coelom) की आन्तरिक inner wall) अर्थात् अंतर्भित्ति (splanchnopleure) से सम्बन्ध रखने वाला ।

endocoelic—(Gk. *endon*, within; *koilos*, hollow) गुहा अन्तस्थ ।

१—सीएनीमोन (sea-anemones) में विम्ब पर पाया जाने वाला वह अरीय क्षेत्र (radial area) जो एक ही युग्म की दो पेशी व्यवधानों (mesenteries) के मध्य में हो ।

२—स्पर्शकों (टेन्टीकिल्स) का अंतः चक्र ।

endocone—(Gk. *endon*, within; *konos*, cone) अन्तः शंकु ।

endocortex—अन्तः वल्कुट ।

endocranium—(Gk. *endon*, within; *kranion*, skull) कपालान्तःस्थ । इन्डोक्रैनियम । कुछ कीटों में कपाल के (cranium) आन्तरिक तल (inner surface) पर स्थित एक प्रवर्धन (process) ।

endocrine—(Gk. *endon*, within; *krinein*, to

seperate) अन्तः स्त्रावी; निः श्रोत (ग्रन्थि); नलीहीन (ग्रन्थि) ।

endocrinology—अन्तः स्राव-विज्ञान; अन्तःस्राविकी ।

endocuticula—(Gk. *endon*, within; L. *dim*, of *cutis*, skin) अन्तः त्वक्; अन्तः क्यूटिकल; अन्तः उपत्वचा; कीटों की क्यूटिकल की प्रत्यास्थ अन्तः स्तर; मकड़ीयों (spiders) में त्वक् (integument) का अन्तः स्तर ।

endocycle—(Gk. *endon*, within; *kyklos*, circle) अन्तश्चक्रिय; अंतः ऊतक स्तर; अन्तः फलोएम (internal phloem) के अन्तः स्तर (endodermis) से पृथक करने वाला एक ऊतक स्तर ।

endocyclic—(Gk. *endon*, within; *kyklos*, circle) अन्तः ऊतक स्तरी ।

endocyst—(Gk. *endon*, within, *kystis*, bladder) अन्तपुटिका; अन्तकोपिका ।

endoderm—अन्तश्चर्म; अन्तस्त्वचा; अन्तः स्तर ।

endoderm lamella—अन्तः स्तरिक पटल; कुछ सीलैन्ट्रेट्स (coelenterates) के पास-पास की अरनलिकाओं (radial canals) के बीच तथा वृताकार नली (circular canal) और सीलैन्ट्रोन (coelentron) के बीच में स्थित अन्तः स्तर की बारीक तह ।

endodermis—(Gk. *endon*, within; *derma*, skin) अन्तः स्तर ।

endoenzyme—(Gk. *endon*, within; *en*, in; *zyme*, leaven) अन्तः एन्जाइम; कोई कोशिकान्तर्गत एन्जाइम ।

endogamy—(Gk. *endon*, within; *gamos*, marriage) वंश परिणय; अन्तर्जन्मुता; सजातीय विवाह ।

endogastric—(Gk. *endon*, within; *gaster*, belly) अन्तर्जठर ।

endogenous—(Gk. *endon*, within; *genos*, birth) अन्तर्जात; प्राणी के भीतर उत्पन्न होने वाली ।

endogeny—अन्तर्जनन; किसी गहरी स्तर में उत्पत्ति ।

endognath—(Gk. *endon*, within; *gnathos*, jaw) अन्तर्हनु; मौखिकी अवयव शाखा ।

endognathion—(Gk. *endon*, with n; *gnathos*, jaw) एन्डोग्नेथियन; मानव उर्ध्व हनु (premaxilla) का मध्यी टुक (mesial segment) ।

endogonidium—(Gk. *endon*, within; *dim*, of *gone*, seed) एन्डोगोनीडियम; अन्तः उत्पादक कोशिकायें ।

१—युग्मकोद्भिद (gametophyte) पर उत्पन्न अलैंगिक अचल उत्पादक कोशिकायें ।

२—निबह (colony) कोशिकायें जैसे वोल्वोक्स (volvox) में ।

endolabium—(Gk. *endon*, within; L. *labium*) अन्तः प्रत्योष्ठ ।

endolaryngeal—(Gk. *endon*, within; *larynx*, laryax) अंतः स्वयंत्रिय ।

endolithic—(Gk. *endon*, within; *lithos*, stone) अन्तर्गमी; अंतः पाषाण; अंतः शैल; शिलान्तर्वासी ।

endolymph—(Gk. *endon*, within; L. *lympha*, water) अन्तर्लसीका; अन्तः कर्ण का तरल पदार्थ ।

endolymphangial—(Gk. *endon*, within; L. *lympha*, water; Gk. *anggeion*, vessel) अन्तर्लसीका वाहिनी; अन्तर्लसीका वाहिनी ।

endolymphatic—(Gk. *endon*, within; L. *lympha*, water) अन्तर्लसीका—; अन्तः लसीकी ।

endolysin—(Gk. *endon*, within; *lysis*, loosing) एन्डोलाइसिन; श्वेताणुजों (leucocytes) का कोशिकान्तर (intracellular) द्रव्य (substance) जो परिनेष्टित (engulfed) बैक्टीरिया का नाश कर देता है ।

endomere—(Gk. *endon*, within; *meros*, part) अंतः चर्मज; अन्तः जनन स्तर (hypoblast) कोशिका जो अंतः चर्म (endoderm) बनाती है ।

endometrium—(Gk. *endon*, within; *metra* womb) गर्भागम-अन्तःस्तर गर्भ गदा; गर्भागम का

endomitosis

- अस्तर बनाने वाली श्लेष्मिक कला (mucous membrane) ।
- endomitosis**—(Gk. *endon*, within; *mitos*, thread) अंतः सममूत्र विभाजन; न्यूक्लियस के विभाजन के बिना ही गुण मूत्रों का गुणन (multiplication) ।
- endomixis**—(Gk. *endon*, within; *mixis*, mixing) अन्तः मिश्रण; न्यूक्लियस पदार्थ का अन्दर ही अन्दर मिश्रण ।
- endomysium**—(Gk. *endon*, within; *mys*, muscle) पेशीसूत्र बन्धक; महीन मांस के रेशों को बाँधने वाला ऊतक ।
- endoneurium**—(Gk. *endon*, within; *neuron*, nerve) तंत्रिका सूत्र बन्धक ।
- endoparasite**—(Gk. *endon*, within; *para*, beside; *sitos*, food) अन्तः परजीवी; आंतरिक परजीवी ।
- endoperidium**—(Gk. *endon*, within; *peridion*, little pouch) अंतः कवक फलभित्ति ।
- endophragma**—(Gk. *endon*, within; *phragma*, fence) अन्तः प्राचीर ।
- endophragmal**—(Gk. *endon*, within; *phragma*, fence) अन्तः प्राचीर सम्बन्धी ।
- endophyte**—(Gk. *endon*, within; *phyton*, plant) अन्तः पादप; वृक्षान्तर जीव; वृक्षान्तर वृक्ष ।
- endophytic**—(Gk. *endon*, within; *phyta*, tree) अन्तः पादपी; वृक्षान्तर जीवी; वृक्षों के अन्दर रहने वाला ।
- endoplasm**—(Gk. *endon*, within; *plasma*, mould) अन्तः प्रद्रव्य; अन्तः सत्व; अंतर्द्रव्य ।
- endoplastic**—(Gk. *endon*, within; *plasma*, mould) अन्तः सत्वक ।
- endoplastule**—(Gk. *endon*, within; *plastos*, moulded) प्रजीवी अणु-न्यूक्लियस; किन्ही प्रजीवी (protista) का लघु या अणु-न्यूक्लियस (micronucleus) ।

- endopleura**—(Gk. *endon*, within; *pleura*, side) अंतः वीजावरण; आंतरिक वीजावरण ।
- endopleurite**—(Gk. *endon*, within; *pleura*, side) अन्तः पार्श्वकांश ।
- १—आंतरवर्ध (apodeme) का पश्च पार्श्व पट्टिका सम्बन्धी (epimeral) भाग (अश) ।
- २—पार्श्व पटल पट्टिकाओं (pleurites) के मध्य की भांज (अर्न्तवलय) ।
- endopodite**—(Gk. *endon*, within; *pous*, foot) अन्तः पादांश; अंतःपादांश । क्रस्टेशिया (केकड़ा वंशियों) में पाई जाने वाली द्विशाखी (biramous) अवयव की आन्तरिक शाखा ।
- endopolyploidy**—(Gk. *endon*, within; *polys*, many; *aploos*, one fold; *eidos*, form) अर्न्तबहु-गुणितता ।
- endoral**—(Gk. *endon*, within; L. *os*, mouth) मुखान्तरिक; कुछ प्रोटोजोआ (protozoa) में पाई जाने वाले डबोढी (vestibule) में स्थित रचनायें (structures) ।
- endorachis**—(Gk. *endon*, within; *rhachis*, stem) एन्डोरेक्स; अन्तः यष्टि ।
- endosarc**—(Gk. *endon*, within; *sarx*, flesh) अन्तः प्रद्रव्य; अन्तः सत्व ।
- endosiphuncle**—(Gk. *endon*, within; L. *siphunculus*, little tube) अन्तः अणुनलिका ।
- endoskeleton**—(Gk. *endos*, within; *skeletos*, hard) अंतः कंकाल; अन्तः पंजर; भीतर का अस्थि पंजर ।
- endosmosis**—(Gk. *endos*, within; *osmos*, impulse) अन्तः परासरण; अन्तः प्रसरण; किसी प्रसरणशील (permeable) या अर्धप्रसरणशील (semipermeable) झिल्ली में होकर किसी घोल का अन्दर चले जाना ।
- endosome**—(Gk. *endon*, within; *soma*, body) अर्न्तपिण्ड; अन्तः काय ।

endosperm—(Gk. *endon*, within; *sperma*, seed)

अन्तः पोषी; भ्रूण पोष ।

१—किन्हीं बीजों का पोषक ऊतक ।

२—भ्रूण को घेरे हुए मादा प्रोथेलस में बचा हुआ पोषक पदार्थ ।

endospore, endosporium—(Gk. *endon*, within; *sporos*, seed) स्पोर स्योती अंतश्चोल; अन्तर्वीजाणु चोल; बीजाणु अंतश्चोल ।

१—कुछ प्रोटोजोआ में स्पोर स्योति (sporocyst) का अन्तश्चोल (inner coat) ।

२—एक अलैंगिक स्पोर ।

३—स्पोर कोषकी स्पोर (sporangial spore) ।

४—स्पोर भित्ति का अन्तश्चोल (अस्तर की तह) ।

endosteal—(Gk. *endon*, within; *osteon*, bone) अन्तः अस्थिच्छद्; अंतः अस्थिछदी ।

endosternite—(Gk. *endon*, within; L. *sternum*, sternum) अन्तर्वक्षस्थ ।

endosteum—(Gk. *endon*, within; *osteon*, bone) आन्तरिक अस्थि वण्टन; अंतः अस्थिच्छद् ।

endostosis—(Gk. *endon*, within; *osteon*, bone) उपास्थि अस्थिकरण ।

endostracum—(Gk. *endon*, within; *ostrakin*, shell) कर्पूरान्तर की अन्दर की तह; कर्पूर ।

endostyle—(Gk. *endon*, within; *stylos*, pillar) अधोग्रसनी शूक; एन्डोस्टाइल; थाइरोइड ग्रन्थिका अग्रसर ।

यह आकृति यूरोकार्डेटा (urochordata), अक्रैनिया (acrana) और लेम्प्रे (lamprey) के एम्मोसीट डिम्बक (ammocoete larva) में होती है । इसका सम्बन्ध पक्ष्माभ संभरण (ciliary feeding) से होता है । इससे श्लेष्म (mucus) के सूत्र निकलते हैं जिनसे चाचाग्र चिपक कर इसकी पक्ष्माभ गति से ग्रसिका (gullet) में पहुँचते हैं । एम्मोसीट डिम्बक में अधोग्रसनी शूक (endostyle) से प्रोइ लेम्प्रे की थाइराइड (thyroid) वाहिनी विकसित होती है, इस कारण कर्पूरकों के थाइ-

राइड को भी इसके समजात (homo'ogous) माना जाता है ।

endotergite—(Gk. *endos*, within; L. *tersum*, back) पटल भाँज । कीटों में पृष्ठ पटल (tergite) का अंतर्वलय (infolding) जिन्से पेशियाँ (muscles) लगी रहती हैं ।

endotheca—(Gk. *endon*, within; *theca*, box) अन्तपेटिका ।

endothecial—(Gk. *endon*, within; *theca*, box) अंतस्थीस्थिम सम्बन्धी ।

endothecium—(Gk. *endon*, within; *theca* box) अंतः स्थीस्थिम ।

१—परागकोश (anther) की अंतस्तर ।

२—आकृतबीजी (angiosperms) का अंतः स्फुटन स्तर ।

३—लिवरवर्ट्स (liverworts) और मांस (mosses) की निषिक्त डिम्ब कोशिका (oospore) की मूलोपरीय अण्टक (apibasal octant) का केन्द्रीय क्षेत्र ।

endotheliocyte—(Gk. *endon*, within; *thela*, nipple; *kylos*, hollow) पुरारक्त कोशिका ।

endothelium—(Gk. *endon*, within; *thela*, lining) अन्तश्छद्; अन्तः स्तर । वह अधिच्छद् (epithelium) जो बौदक कोटरों (serous cavities); हृदय (heart), रक्त और लसीका वाहिनियों का अन्तर (lining) बनाता है ।

endothorax—(Gk. *endon*, within; *thorax*, chest) अन्तर्वक्ष ।

endotoxin—(Gk. *endon*, within; *toxikon*, poison) अन्तर्विष ।

endotrachea—(Gk. *endon*, within, L. *trachia*, windpipe) श्वासिकान्तर स्तर; कीटों में पाई जाने वाली श्वासिकाओं (ट्रेकियल नलिकाओं) की सबसे अन्दर की काइटिनमय (chitinous) तह ।

endotrophic—(Gk. *endon*, within; *trophic*, nourishment) परांतः पोषित; अन्तः पोषणी; अन्तः पोषी ।

endozoochore

endozoochore—(Gk. *enpon*, within; *zoon'* animal; *chora*, place) जन्तु प्रकीर्णन; कोई बीज, स्पोर या अंगी का जन्तु के अन्दर ले जाया जाकर प्रकीर्णन (dispersal) ।

end plates—अन्तः पट्ट ।

end sac—अन्तर्कोष; कुछ क्रस्टेशिया (केकड़ा वंशियों) के विसर्जन ग्रन्थियों में पाई जाने वाली सीलोम का थाली-नुमा अवशिष्ट (vestigial) अंश ।

endysis—(Gk. *endysis*, putting on) पुनर्वेष्टन; नए आवरण या वेस्टन का बनना ।

(देखिये—*ecdysis*) ।

energesis—(Gk. *energein*, to be active) शक्ति-निसरण; वह प्रक्रिया (process) जिससे शक्ति (energy) निकले ।

energid—(Gk. *energos*, working; *idiom*, dim) इनर्जिड; एनरजिड; कोई जीवित सेल (कोशिका) भित्ति युक्त या हीन एक केन्द्रक जीवन सत्व इकाई ।

enervose—(L. *ex*, without; *nervus*, sinew) अशिरी; शिराहीन ।

engram—(Gk. *en*, in; *graphein*, to write) एन-ग्राम; लक्षणछाप ।

engraved—(Gk. *en*, in; A. S. *grafan*, to dig) खुदा हुआ ।

enlarged—बड़ा हुआ; वाँधत ।

ensiform—(L. *ensis*, sword; *forma*, shape) खड्गाकार, खड्ग (असि) के आकार का ।

entelechy—(Gk. *en*, in; *telos*, end; *echein*, to hold) जीव सत्ता; जीवों या प्राणियों के अन्तर्गत रहने वाली वह सत्ता (principle) जो उन्हें समुचित (right direction) चलाती रहती है ।

entepicondylar (foramen)—(Gk. *entos*, within; *epi*, upon; *kondylos*, knob) अर्बुद अन्तरांश (छिद्र) ।

enteral—(Gk. *enteron*, gut) अंत्रान्तरिक । अंत्रों के भीतर स्थित ।

enteric—(Gk. *enetrion*, gut) अंत्र; आन्त्रिक; आन्त्रीय; अंत्र—; अंत्र सम्बन्धी ।

enteroblast—(Gk. *enteron*, gut; *blastos*, bund) अन्तर्जनत स्तरज; मध्यजनन स्तर (mesoblast) के निर्माण के पश्चात् अंतर्जनन स्तरज (hypoblast) ।

enterocoele—(Gk. *enteron*, gut; *koilos*, hollow) अंत्र गुहा । ऐसा सीलोम (coelom) जो पुरान्त्र (archenteric cavity) से एक या अधिक कोपों (pouches) के रूप में बनकर पृथक होता है ।

enteroderm—(Gk. *enteron*, gut; *derma*, skin) अन्तर्जनन स्तरज; एन्टीरोब्लास्ट ।

enterogastrone—(Gk. *enteron*, gut; *gaster*, stomach) एन्टीरोगैस्ट्रोन; इन्डूडेनम का हार्मोन जो आमाशय के स्राव तथा गति आदि को प्रोत्साहित करता है ।

enterokinase—(Gk. *enteron*, gut; *kinein*, to move) एन्टीरोकाइनेज; अंत्र रस का क्षोभक विशेष जो ट्रिपसीनोजन (trypsinogen) को ट्रिपसिन (trypsin) में बदल देता है ।

enteron—(Gk. *enteron*, gut) अंत्र; अंत्र; अत्र-प्रणाली; अंत्रनली; आहार नलिका ।

enteronephric—(Gk. *enteron*, gut; *nephros*, kidney) अत्रोत्सर्गिका ।

(देखिये *exonephric*—वहोत्सर्गिका)

enteroproct—(Gk. *enteron*, gut; *proktos*, anus) अंत्र-पश्च गुदीय ।

enterostome—(Gk. *enteron*, gut; *stoma*, mouth) अत्राभिमुख ।

enterosympathetic—(Gk. *enteron*, gut, *syn*, with; *pathos*, feeling) अंत्र सवेदक; तंत्रिका तंत्र (nervous system) का वह भाग जो अंत्रों (intestine) में संलग्न रहता है ।

enterozoa—(Gk. *enteron*, gut; *zoon*, animal) अत्रधर ।

enterozoon—(Gk. *enteron*, gut; *zoon*, animal) अंत्रपरिर्ज वी ।
 entire—(M. E. *aentr*, untouched) पूर्ण; समग्र; सम्पूर्ण; अविच्छिन्न; विना कटा हुआ ।
 entobranchiate—(Gk. *entos*, within; *branchia*, gills) अंतगिली; आन्तरिक गिल (gill) वाला ।
 entobronchus—(Gk. *entos*, within; *brongchos*, windpipe) अंतः श्वासिनी; पक्षियों में श्वास नलिका (bronchus) की पृष्ठ (dorsal) गौण (secondary) शाखा ।
 entochondrostosis—(Gk. *entos*, within; *chondros*, cartilage; *ostion*, bone) अंतखंडिक संचय; भीतर से आरम्भ होकर बाहर की ओर जाने वाला अस्थिकरण (ossification) ।
 entocodon—(Gk. *entos*, within, *koden*, ball) एन्टोकोडोन; अंतगोलक; गुहिका निर्माणक; कोटर निर्माणक ।
 entocoel—(Gk. *entos*, within; *koilos* hollow) अंतगुहा; व्यवधानान्तरगुहा; एन्थोजोमा (प्रसूनकार्यों) में पाई जाने वाली किन्हीं दो व्यवधानों के बीच का स्थल (space) ।
 entocondyle—(Gk. *entos*, within; *kondylos*, knob) अर्न्तबुद्द; हड्डी के मध्य तल (mesial surface) पर लगा हुआ अर्बुद्द या अस्थिकन्द (condyle) ।
 entoconid—(Gk. *entos*, within; *konos*, cone) अन्तकंस्पी; निम्न चवक का पश्चादान्तरिक (postero-internal) कस्प (cusp) ।
 entocuneiform—(Gk. *entos*, within; *kuneos*, wedge; L. *forma*, shape) अन्तः शंकु; सबसे आन्तरिक दूरस्थ (distal) गुल्फास्थि (tarsal bone) ।
 entocyemate—(Gk. *entos*, within; *kyema*, embryo) भ्रूणावरणी भ्रूण; जरायु (एम्नियोन-*amnion*) रक्षक और एलनटोइज (allantois) पोषण भ्रूणावरण युक्त भ्रूण ।
 entoderm see endoderm—अन्तश्चर्म ।

entogamy—कीट-परागण ।
 entogastric—(Gk. *entos*, within; *gaster*, belly) आमाशयान्तरिक; आमाशय के भीतर का ।
 entoglossal—(Gk. *entos*, within; *glossa*, tongue) अंतः जिह्विका; रसनान्तरिक जिह्वा या जीभ के अन्दर स्थित ।
 entoglossum—(Gk. *entos*, within; *glossa*, tongue) अंतः जिह्वक ।
 १—जिह्विन्तजिह्वक (glassohyal) ।
 कुछ मत्स्यों में जिह्वा तक आधार कठिका (*basis-hyal*) का बड़ा हुआ भाग ।
 entomogamy—(Gk. *entomon*, insect; *genos*, birth) कीट जनन ।
 entomogenous—(Gk. *entomon*, insect; *genos*, birth) कीट वर्धो जैसे कुछ फन्जाई ।
 entemology—(Gk. *entomon*, insect; *logos*, discourse) कीट विज्ञान; पटपाद विज्ञान; पटपद विज्ञान ।
 entomophilous—(Gk. *entomon*, insect; *philcin*, to love) कीटपरागण ।
 entoneural—(Gk. *entos*, within; *neuron*, nerve) अंतस्तंत्रिक; इकाईनोटर्मस (echinoderms) में अपमुख (aboral) परिधि तंत्रिकाओं और जनन तंत्रिकाओं का तंत्र (system) ।
 entopic—(Gk. *en*, in; *topos*, place) यथास्थानी; अपने समुचित या आदर्श (normal) स्थान में स्थित ।
 [देखिये ectopic-स्थान-युक्त]
 entoplastron—(Gk. *entos*, within; F. *plastron*, breast plate) अंतवक्ष पट्ट; कूर्मों (chelonians) के वक्ष पट्ट में पाया जाने वाला अग्र मध्यवर्ती (anterior median) पट्ट या पट्ट (plate) ।
 entopterygoid—(Gk. *entos* within; *pteryx*, wing; *eidos*, form) अन्तः श्यंगिका; एन्टोटेरोगोइड (कृपान की अन्ति); कुछ मत्स्यों में पैलेटोइड के परिशि लगी कला जात अन्ति ।
 (देखिये ectopterygoid वायु श्यंगिका)

entosphere—(Gk. *entos*, within; *sphaira*, globe) अन्तर्मण्डल । आकर्षक मण्डल (attraction sphere) का आन्तरिक भाग ।

entosternite—see **endosternite**—अन्तः वक्षास्थि ।

entosternum—(Gk. *entos*, within; L. *sternum*, breast bone) अन्तः अधरक. अंतः स्टेर्नम; एन्टोस्टर्नम; आर्थोपोडा के स्टेर्नम का एक अंतः प्रवर्ध ।

entothorax—(Gk. *entos*, within; *thorax*, chest) अन्तर्वक्ष; वक्ष पटल (sternite); अध; स्फीतिका (कीट एपोकाइसिस) ।

entoturbinals—(Gk. *entos*, within; L. *turbo*, whorl) एन्टोटर्बाइनल; एथमोटर्बाइनल का एक भाग ।

entotympanic—(Gk. *entos*, within; *tympanon*, drum) अन्तः आतकी; अन्तः कर्णपट्टास्थि ।

entovarial—(Gk. *entos*, within; L. *ovum*, egg) अन्तः डिम्बाशयी ।

entozoa—(Gk. *entos*, within; *zoon*, animal) अन्तर्जीवी; आन्तरिक (internal) परजीवी (parasite) जन्तु ।

entozoic—(Gk. *entos*, within; *zoon*, animal) अन्तर्जीवी; अन्तर्जीवी सम्बन्धी; किसी अन्य जन्तु या पीधे के शरीर के अन्दर रहने वाला ।

entrochite—(Gk. *en*, in; *trochos*, wheel) एन्ट्रोकाइट; स्तम्भी (stalked) क्रिनाइड (crinoid) के जीवाश्म तने की एक सन्धि ।

enucleate—(L. *e*, out of; *nucleus*, kernel) (१) न्यूक्लियस हीन (२) न्यूक्लियस हीन करना ।

envelope—(F. *envelope*, covering) आवरण; एनवेलप; परिवेष्टन; वाह्यावरण ।

environment—(F. *environ*, about) वातावरण; परिस्थिति; किसी जीव पर प्रभाव डालने वाली चारों ओर की परिस्थितियाँ ।

enzootic—(GK. *en*, in; *zoon*, animal) जन्तुपीडक; जन्तुओं पर आक्रमण करने वाला रोग आदि ।

enzyme—(Gk. *en*, in; *zyme*, leaven) एन्जाइम; क्षोभक । वह पदार्थ या रसायन जो अन्य पदार्थों या रसायनों को उत्तंजित करता है । ऐसे रासायनिक पदार्थ जो केवल जीवित प्राणियों द्वारा ही बनते हैं (ऐसा अवतक था पर अभी हाल में कृत्रिम एन्जाइम-रीवोन्यूक्लियक अम्ल का निर्माण हो गया है) । इनकी उपस्थिति के कारण विशिष्ट रासायनिक पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिणित हो जाते हैं और क्षोभक में स्वयं कुछ भी क्षति या भेद नहीं होता । एन्जाइम जिस विशिष्ट पदार्थ की अपक्रांतिकता (reactivity) को तीव्र करते हैं उसे क्रियाधार या कार्यद्रव (सबस्ट्रेट) कहा जाता है । जीवित में उपापचय प्रक्रियायें पूर्ण रूप से एन्जाइम पर निर्भर होती हैं । एन्जाइम मिलकर क्रियाधार को सक्रिय करता है और जैसे ही क्रियाधार आगे रासायनिक परिवर्तन करने लगता है, एन्जाइम इससे पृथक हो जाता है । इस प्रक्रिया के कारण एन्जाइम खर्च नहीं होता है और यह एन्जाइम पुनः और क्रियाधार के साथ रासायनिक क्रिया कराने हेतु प्राप्त हो जाता है । यह क्रिया बहुत कम समय में होती है, इस कारण एन्जाइम की बहुत कम मात्रा क्रियाधार की बहुत बड़ी मात्रा को सक्रिय करने की क्षमता लिये होती है । यह मापा गया है कि कैटालेस (catalase) का एक परमाणु (molecule) हाइड्रोजन परऑक्साइड के ४०,००० परमाणु का विघटन प्रति-सेकण्ड हिमीकरण (freezing) बिन्दु पर कर सकता है ।

अधिकांश एन्जाइम केवल एक प्रकार के क्रियाधार रसायन को सक्रिय कर सकते हैं अतः उपापचय की विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु बड़ी संख्या में संगतिकारक एन्जाइम होते हैं । प्रत्येक एन्जाइम को इष्टतम (optimum) निष्पादन (performance) हेतु कुछ निश्चित प्रतिबन्धों की आवश्यकता होती है ।

एन्जाइम अस्थायी रसायन होते हैं और सरलता से कई रसायनों से उच्चतम क्रियाहीन या नष्ट हो जाते

हैं। यह जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं और उनके अन्दर या बाहर कार्य करते हैं। कोशिकाओं की उपापचय प्रक्रियाओं में, तथा पाचन आदि में तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि एक प्रक्रिया का उत्पाद, दूसरे के लिए क्रियाधार बनता है।

कोशिका के अन्दर किसी एन्जाइम की प्रभावी मात्रा दो प्रकार से नियंत्रित होती है।

(१) जीव की सक्रियता के नियंत्रण होने से—नवीन एन्जाइम के परमाणु संश्लेषित या अवच्छेद होते हैं।

(२) किसी उत्पाद (product) के भा जाने से—यह उत्पाद या तो स्वयं एन्जाइम के परमाणु हों अथवा किसी अन्य के जो शृंखला में होते हैं।

एन्जाइम का नाम अंग्रेजी में क्रियाधार के स्वभाव को दर्शाने वाले शब्द के साथ अंत में -ase प्रत्यय लगा देने से बनता है। जैसे एमाईलेस (amylase), डिहाइड्रोजिनेस (dehydrogenase) आदि या फिर उनकी विशेषता दर्शाते हुए जैसे—

प्रोटीन अघटक (प्रोटीनलस्यी) एन्जाइम (proteolytic enzyme), समएन्जाइम (isoenzyme), सहेतुक एन्जाइम (adaptive enzyme)।

eocene—(Gk. eos, dawn; kainos, recent) इओसीन; आदि नूतन; नवोदय। एक युग (epoch) का नाम।

eogaea—(Gk. eos, dawn; gaia, land) पुराभूमि। पृथ्वी का एक जन्तु भौगोलिक विभाग (zoogeographical division) जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा एशिया सम्मिलित है।

cosinophil—(Gk. eos, dawn; philein, to love) इओसिनोफिल; ईओसिन प्रेमी; ऐसी कोशिकाएँ जो ईओसिन रंग से लाल हो जाते हैं।

cozoic (period)—(Gk. eos, dawn; zoe, life) जीवोदय काल।

[देखिये archaean और precambrian]

epacme—(Gk. epi, upon; akme, point) परमोत (परम ः ऊँ) विकास; किसी जन्तु समूह के विकास में

वह स्थिति (stage) जो विकास की पराकाष्ठा (highest point) से जरा पहिले रहती है

epalpite—(L. ex, without; palpus, palp) अमशंकी; मशंकहीन; बिना मशंक (palp) वाला।

epanthous—(Gk. epi, upon; anthos, flower) पुष्पवासी।

epapillate—(L. ex, without; papilla, nipple) अकूटकी; कूट हीन; बिना कूट (papilla) का।

epapophysis—(Gk. epi, upon; apophysis, offshoot) मध्य प्रवर्द्धन; कशेरु (vertebra) में मुपुग्ना तोरण (neural arch) पर बीचों-बीच लगा हुआ प्रवर्द्धन (process)।

eparterial—(Gk. epi, upon; L. arteria, artery) धमनोपरि।

epaulettes—(F. epaule, shoulder) अंसिका (१) अनेक-मेढूसाकायों (scyphozoa) में मुख भुजाओं (oral arms) की बाहरी तट से निकले हुए शाखा युक्त (branched) या ग्रन्थिल (knobbed) प्रवर्धन (processes)। (२) घाल्योप्लूटियस (echinopluteus) में तन्धों (cilia) से बनी अर्ध-चन्द्राकार (crescentric) मेढ़ (ridge)।

epaxial—(Gk. epi, upon; L. axis, axle) अक्षापरित्य। अक्ष रेखा (axis) से ऊपर स्थिति।

epedaphic—(Gk. epi, upon; edaphos, soil) आवोहवानुसार; आवोहवा पर निर्भर।

epencephalon—(Gk. epi, upon; encephalos, brain) उध्वंषपश्चात मस्तिष्क; संरेविलम।

ependyma—(Gk. ependyma, outer garment) वहिअस्तर; मस्तिष्क और मुपुग्ना कोटरों (cavities) का कोशिकाओं से निर्मित अस्तर।

ependymal—(Gk. ependyma, outer garment) वहिअस्तर सम्बन्धी।

epharmsis—(Gk. epi, towards; harmos, fitting) अनुकूलन प्रक्रिया।

ephebic—(Gk. epi, upon; habem; puberty) प्रौढ़।

ephemeral

- ephemeral**—(Gk. *ephemeros*, daily) अल्पकालिक; अल्पायु; अल्प जीवित ।
- ephippial**—(Gk. *ephippion*, saddle cloth) पर्याणिका सम्बन्धी; शीलंकालीन अण्डे जैसे रोटीफर्स (rotifers) और डेफनिड्स (daphnids) के ।
- ephippium**—(Gk. *epi*, upon; *hippos*, horse) पर्याणिका; काठी या पर्याण (saddle) जैसा ।
- ephyra**—(Gk. *ephyra*, nymph's name) एफिरा; कुछ मेड्यूसाकाओं (scyphozoa) की एक स्वतन्त्र प्लावी (free-swimming) स्थिति को पुटिका (scyphistoma) के शृंखलीकरण (strobilation) से बनती है ।
- epiaxial**—(Gk. *epi*, upon; L. *axis*, axis) अक्षोर्ध्व ।
- epibasal**—(Gk. *epi*, upon; L. *basis*, base) मूलोपरीय; मूल (base) के ऊपर स्थित ।
- epibenthos**—(Gk. *epi*, upon; *benthos*, depths) एपीबेन्थोस; शतोपरिफंदमी; वे जन्तु और वनस्पति समुदाय (fauna and flora) जो ज्वार-भाटा के निम्न समतल (low water mark) और १०० फंदम (fathom) की गहराई के बीच पाये जाते हैं ।
- epibiotic**—(Gk. *epi*, upon; *bios*, life) जीवोपरिवासी; अतिजीवी; अधिजीववासी ।
- epiblast**—(Gk. *epi*, upon; *blastos*, bud) अधिकोरक; बाह्य स्तर; द्विस्तर भ्रूण (gastrula) का बाहरी स्तर (layer) ।
- epiblema**—(Gk. *epiblemma*, cover) मूलबाह्य स्तर; मूल बहिःस्थ स्तर; मूलोपरि; मूल (जड़) ऊतक का सबसे बाहरी स्तर ।
- epibole**, **epiboly**—(Gk. *epi*, upon; *bole*, throw) इपीबोल; इपीबोली; बहिःचलन; भ्रूणिक स्थितियों (embryonic stages) में इस प्रकार बढ़ना कि वह किसी अन्य भाग के ऊपर चढ़ता चला जाये ।
- epibolic**—(Gk. *epibole*, putting on) परिवलन ।
- epibrauchial**—(Gk. *epi*, upon; *branchia*, gills) अधिगिल; उर्ध्वगिलक ।

- epicalyx**—(Gk. *epi*, upon; *kalyx*, cup) बाह्यदलोपरि; एपिकैलिस; अतिरिक्त बाह्यदल रचना ।
- १—अनुपर्ण (stipules) युग्मों में जुड़े हुए जिससे अतिरिक्त कॅलिस (extra calyx) रचना बन जाती है ।
- २—कैलिस के ठीक नीचे सहपत्रों (bracts) और लघु सहपत्रों (bracteoles) के एकत्रित होने से बनी रचना ।
- epicanthus**—(Gk. *epi*, upon; *kanthos*, corner) उपाक्षच्छद । ऊपरी पलक (upper eyelid) का आँख के भीतर कोण (inner angle) पर बढ़ा हुआ होना ।
- epicardium**—(Gk. *epi*, upon; *kardia*, heart) हृदयबहिःछद ।
- epicarp**—(Gk. *epi*, upon; *karpos*, fruit) एपीकार्प; परिफलभित्ति; बाह्यफलभित्ति बहिस्तर; बाह्यफल भित्ति का बाहरी स्तर ।
- [देखिये—*exocarp*—बाह्यफलभित्ति]
- epicentral**—(Gk. *epi*, upon; *kentron*, centre) केन्द्रकोपरीय; केन्द्रकोपरी; अधिकेन्द्र । कशेरु (vertebra) के केन्द्र (centra) से लगा या उठा हुआ ।
- epicerebral**—(Gk. *epi* upon; L. *ceredrum*, brain) मस्तिष्कोपरीय ।
- epichilium**—(Gk. *epi*, upon; *cheilos*, lip) परिपंखुडीदल; ऑरकिड (orchid) के निम्न पंखुडी (lower petal) की अन्तस्थ पत्ती (दल) ।
- epicole**—(Gk. *epi*, upon; *coel*, cavity) उपरिवासी ।
- epichordal**—(Gk. *epi*, upon; *chorde*, cord) पृष्ठदण्डोपरीय । पृष्ठदण्ड या नोटोकोर्ड (notochord) के ऊपर स्थित ।
- epicoel**—(Gk. *epi*, upon; *coel*, cavity) उर्ध्वपश्चादगुहा; अनुमस्तिष्क गुहा; उर्ध्वपश्चात मस्तिष्क गुहा; (१) उर्ध्वपश्चात मस्तिष्क (epencephalon) या सैरेबिलम (cerebellum) की गुहा (२) अन्तर्वलन गद्दर; वह

गह्वर (सीलोम-coelom) जो अन्तर्वलन (invagination) से बने ।

epicondylar—(Gk. *epi*, upon; *kondylos*, knob) अर्बुद शोफीय; अर्बुद शोफ (epicondyle) सम्बन्धी ।

epicondyle—(Gk. *epi*, upon; *kondylos*, knob) अर्बुद शोफ; अधिअस्थि कंद । प्रगण्डास्थि (humerus) और जंघास्थि (femur) के दूरस्थ अन्त (distal end) पर स्थित एक शोफ (protruberance) ।

epicone—(Gk. *epi*, upon; *konos*, cone) अधिशंकु; मेखलाग्र । मेखला कशीयों या डाइनोफिलैजिल्टेस (dinoflagellates) में मेख (girdle) से आगे का भाग ।

epicoracoid—(Gk. *epi*, upon; *korax*, crow) उपांसक; अधिअंस तुण्ड । एम्फीबिया या द्विधाजीवी (amphibians), सृषीशीलों (reptiles) और पुरास्तनीयों (monotremes) में पाई जाने वाली अंसक (coracoid) के वक्ष (sternum) की ओर वाले छोर पर स्थित एक हड्डी या उपास्थि ।

epicormic—(Gk. *epi*, upon; *kormos*, trunk) सुप्तकलिकाजात; सुप्तकोरक प्रभव; सुप्त कोरक से उत्पन्न होने वाला ।

epicotyl—(Gk. *epi*, upon; *kotyle*, vase) एपीकोटाइल; वीजपत्तोपरिक; प्रांकुर (plumule) अक्ष ।

epicoxa—(Gk. *epi*, upon; L. *coxa*, hip) अधिवक्ष्मांग; अधिकोन्सा ।

epicoxite—(Gk. *epi*, upon; L. *coxa*, hip) कक्षांगप्रवर्ध ।

epicranial—(Gk. *epi*, upon; *kranion*, skull) उपकपालीय; अधिकपाली ।

epicranium—(Gk. *epi*, upon; *kranion*, skull) उपकपाल; अधिकपाल । १—कीटों (insects) में बाँधों के बीच और पीछे वाला भाग । २—कपाल के ऊपर स्थित बनावटें ।

epicranium—(Gk. *epi*, upon; *kranion*, skull) स्वीकैनियम (निरोवक—scalp—पेशी) ।

epicrine—(Gk. *epi*, upon; *krinein*, to separate) एपीक्राइन; कोशिकाहीन स्राव परित्यक्तता; ऐसी ग्रन्थियाँ जो स्राव को बिना कोशिका विघटन के निकालती हैं ।

epicritic—(Gk. *epi*, upon; *krinein* to judge) त्वग्नेदीय । यह शब्द त्वचा (skin) में स्पर्श आदि सम्बन्धी तंत्रिकामण्डल (nervous system) या उत्तेजनाओं (stimuli) के लिये प्रयुक्त होता है ।

epicuticula—(Gk. *epi*, upon; L. *dim*, of cutis, skin) अधित्वक्; अधिव्यूटिकल ।

epicyst—(Gk. *epi*, upon; *krinein*, to judge) वहिकोपिका; बाह्यस्योति कोपिकावृत (encysted); एक कोष्ठकों या प्रोटोजोआ (protozoa) में बाहरी प्रतिरोधी (resistant) सिस्ट या कोपिका (cyst) ।

epicyte—(Gk. *epi*, upon; *kytos*, hollow) वहिःप्रद्रव्य बाह्य स्तर; वहिःप्रद्रव्य (एक्टोप्लाज्म) का बाहरी स्तर ।

epidemes—(Gk. *epi*, upon; *demes*, body) रक्षसन्धिक । कुछ कीटों (insects) में पाई जाने वाली छोटी-छोटी रचनाएँ (structures) जो पंखों (wings) के जोड़ (articulation) से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं ।

epidermis—(Gk. *epi*, upon; *derma*, skin) उपत्वक्; अधिचर्म; वहिश्चर्म; वहिश्च्छद; बाह्यत्वचा । त्वचा (skin) की ऊपर की तह ।

epididymis—(Gk. *epi*, upon; *didymis*, testicle) उपांड; एपिडिडिमिस ।

epidural—(Gk. *epi*, upon; L. *dura*, hard) दृच्छदीय ।

epigamic—(Gk. *epi*, upon; *gamos*, marriage) विपरीतलिङ्गाकर्षी का मद्द; प्रियानुरागी । विपरीतलिङ्गी (opposite sex) को आकर्षित करने वाला जैसे आराधन (courtship) में चमकीले रंग आदि का प्रदर्शन ।

epigaster—(Gk. *epi*, upon; *gaster*, belly) प्रसोप पान्त्र । श्लोचिक (embryonic) अंत्र (intestine) का वह भाग जो बाय में शोपपान्त्र (colon) बन जाता है ।

epigastric

epigastric—(Gk. *epi*, upon; *gaster*, belly) उर्ध्व-जठर ।

epigastrium—(Gk. *epi*, upon; *gaster*, stomach) उर्ध्व जठर क्षेत्र; जठरोपरि; कीटों में मध्यवक्ष (mesothorax) और पश्चवक्ष (metathorax) के दक्षीय (sternal) भाग (portions) ।

epigeal—(Gk. *epi*, upon; *gaia*, land) भूम्युपरिक; भूतलवासी; पृथ्वी के ऊपर रहने वाला ।

epigenesis—(Gk. *epi*, upon; *genesis*, descent) पश्चजनन; नवजननवाद; वर्धन (development) के विषय में यह मत है कि भ्रूण (embryo) पूर्णतया नई निमित्त रचना (creation) होती है न कि यह मत कि भ्रूण में पूर्व रचित (preformed) बनावटें होती हैं जो केवल खुलती चली जाती हैं ।

epigenotype—(Gk. *epi*, upon; *genos*, descent; *typos*, image) परिसमजीवी; अनुवंश व्यवस्था (सम-जीवी—genotype) और व्यक्तादर्श (phenotype) प्रक्रियाओं को शृंखला का निरन्तरन (concatenation) ।

epigenous—(Gk. *epi*, upon; *genos*, descent) तलोपरि; तल पर उगने वाला या वृद्धि पाने वाला ।

epiglottis—(Gk. *epi*, upon; *glotta*, tongue) एपी-ग्लॉटिस; घांटीडकन; उपकण्ठ; कण्ठाच्छादन; कण्ठोपरिपत्रक ।

epignathous—(Gk. *epi*, upon; *gnathos*, jaw) लम्बोर्ध्वहनु; ऐसे जन्तु जिनका ऊपर का जबड़ा नीचे के जबड़े में ज्यादा लम्बा हो ।

epigonial—(Gk. *epi*, upon; *gonos*, offspring) जननोत्प्रेरकपरि; जनन उत्संगोपरि; जनन उत्संग का निष्कन पश्च भाग ।

epigonium—(Gk. *epi*, upon; *gone*, seed) वर्हिगोनियम; लिवरवर्त्स (liverworts) का तरुण स्पोर कोष (sporangial sac) ।

epigyual—(Gk. *epi*, upon; *gyne*, woman) बाह्यमादा जननांगी ।

epigyous—(Gk. *epi*, upon; *gyne*, woman)

जापांगोपरिक; डिम्बाशय संहत; विभिन्न चक्र डिम्बाशय (ovary) पर ही संहत या रोपित ।

epigynum—(Gk. *epi*, upon; *gyne*, woman) बाह्यमादाजननांग; एरेकनिडा (aracnida) आदि में ।

epigyony—(Gk. *epi*, upon; *gyne*, woman) जापांगोपरिकता; डिम्बाशय संहता ।

epihyal—(Gk. *epi*, upon; *hyoides*, Y-shaped) एपिहायल; उर्ध्व हायक ।

epilabrum—(Gk. *epi*, upon; *L. labrum*, lip) प्रोष्ठपाश्वक; आयुतपादों (मिरियापोड़ा—myriapoda) में पाया जाने वाला अग्रोष्ठ (labrum) के पार्श्वीय भाग (side) पर एक प्रवर्धन (process) ।

epilemmal—(Gk. *epi*, upon; *lemma*, skin) मासाच्छदी; मासाच्छद (sarcolemma) के तल पर पाई जाने वाली संवेदनीय तंत्रिका अन्त्य (nerve endings) आदि ।

epilithic—(Gk. *epi*, upon; *lithos*, stone) पापापोपरि—

epilobus—(Gk. *epi*, upon; *lropes*, lobe) उर्ध्व-दली ।

epimandibular—(Gk. *epi*, upon; *L. mandibulum*, jaw) एपीमेन्डीबूलर; नीचे के जबड़े की एक हड्डी ।

epimeral—(Gk. *epi*, upon; *meros*, part) पश्च पार्श्व पट्टिका सम्बन्धी ।

epimere—(Gk. *epi*, upon; *meros*, part) उर्ध्ववंत ।

epimerite—(Gk. *epi*, upon; *meros*, part) अर्ध्यंशक; एपीमेराइट; अधिखण्ड; किन्हीं गिरिगेरीनिना (gregarinina) में प्रोटोमेराइट (protomerite) का पाती (deciduous) भाग ।

epimeron—(Gk. *epi*, upon; *meros*, part) एपी-मिरान; पश्च.पार्श्व पट्टिका; सन्धिपादों (arthropoda) में पार्श्वपटल (pleuron) ।

epimorpha—(Gk. *epi*, upon; *morphe*, form) पूर्णावयवी; वे लारवा या अन्नक (larvae) जिनमें प्रोद्भव

(hatching) समय से ही पूर्व सब अवयव (appendages) विद्यमान रहते हैं।

epimorphosis—(Gk. *epi*, upon; *morphosis*, shaping) क्रमोत्पत्ति; पुनरुत्पत्ति (regeneration) वा वह प्रकार जिसमें नए भाग (new part) के बनने से पहले नया तत्व (material) सतत वृद्धि (proliferation) द्वारा बढ़ता है।

epimysium—(Gk. *epi*, upon; *mys*, muscle) पेशी पिधान; सम्पूर्ण पेशी को ढके रहने वाला सान्तराल ऊतक (aereolar tissue) का बना हुआ पिधान (sheath)।

epinasty—(Gk. *epi*, upon; *nastos*, close-pressed) अधोकुंचन; एपीनेसटी। पृष्ठ-अधर (dorso-ventral) अंग के ऊपरी तल की अधिक वृद्धि जिसके कारण नीचे की ओर झुकन या टेढ़ापन आ जाता है।

epinephric—(Gk. *epi*, upon; *nephros*, kidney) उपवृक्क रस—एड्रीनेलिन (adrenalin) आदि।

epinephrine—(Gk. *epi*, upon; *nephros*, kidney) एपीनेफरिन या एपीनेफरिन या एड्रीनेलिन या एड्रीनिन उपवृक्क रस।

epinephros—(Gk. *epi*, upon; *nephros*, kidney) उपवृक्क।

epineural—(Gk. *epi*, upon; *neuron*, nerve) अधितंत्रिक; (१) सुपुम्ना तोरण (neural arch) से से उद्भूत होने वाली (तंत्रिका आदि)। (२) कीटों में भ्रूण और योक (डिम्बान्न) के मध्य कुल्या (साइनस), जिससे देह गुहा का निर्माण आरम्भ होता है। (३) इकाईनोडमेटा में अरीय तंत्रिका (radial nerve) के बाहर की नाल (canal)।

epineurium—(Gk. *epi*, upon; *neuron*, nerve) रज्जु वेष्टन; तंत्रिकावरण; तंत्रिका रज्जुका वाह्य-वरण।

epinotum—(Gk. *epi*, upon; *notom*, back) एपी नोटम; पूर्वशिविका; उपपृष्ठिका।

epiopticum—(Gk. *epi*, upon; *opsis*, sight) एपी-

ओपटीकॉन; कीटों में दृष्टि पालियों (optic lobes) के के मध्य का मण्डल (zone)।

epiotic—(Gk. *epi*, upon; *ous*, the ear) अधिकर्णिक; एपीओटिक; उपरिर्कर्णिक; उपरिर्कर्णिक-अस्थि विशेष।

epiparasite—(Gk. *epi*, upon; *para*, beside; *sitos*, food) बाह्य परजीवी; बहिष्परजीवी।

epipatalous—(Gk. *epi*, upon; *petalon*, petal) दललग्न (पुंकेसर)।

epipharyngeal—(Gk. *epi*, upon; *pharynx*, throat) कण्ठ पृष्ठीय, कण्ठ (pharynx) के ऊपरी या पृष्ठ तल से सम्बन्ध रखने वाला।

epipharynx—(Gk. *epi*, upon; *pharynx*, throat) अधिग्रसनी; उपकण्ठक; कीटों (insects) के मुख विवर (mouth cavity) में पाई जाने वाली रचना विशेष।

epiphragm—(Gk. *epi*, upon; *phragma*, covering) उप-पट।

epiphyle—(Gk. *epi*, upon; *phyllon*, leaf) अधिपर्ण; पर्णपादप; ऐसा पौधा (पादप) जो पत्तियों पर उगते हैं जैसे कुछ लाइकिन्स (lichens)।

epiphyllous—(Gk. *epi*, upon; *phyllon*, leaf) परिदल लग्न; अधिपर्णी।

epiphysial—(Gk. *epi*, upon; *phyein*, to grow) अग्र-तरुणास्थिकी।

epiphysis—(Gk. *epi*, upon; *phyein*, to grow) अधिप्रवर्ध; एपीफाइसिस।

(१) वधित अस्थि का प्रथक से अस्थि गठित (ossified) छोर (end) जो तन्त्र में भाग लेता है। स्तनी की अवयव अस्थियों (limb bones) और कशेरु (vertebra) पर अधिप्रवर्ध (epiphysis) होता है। अधिप्रवर्ध का भाग-दोष अस्थि (अस्थि कांट—diaphysis) से उपास्थि पट्ट (cartilage plate) द्वारा युक्त रहता है। समस्त अस्थि की वृद्धि अस्थिकांट (diaphysis) की ओर से नवीन अस्थि द्वारा उपास्थि पट्ट पर अति-प्रवर्ध करने से और अधिप्रवर्ध की ओर से उपास्थि

epiphyte

निर्माण करने से होती है। जब वर्धन पूर्ण हो जाता है। दोनों अधिप्रवर्ध और अस्थि कांड आपस में संलयित हो जाते हैं।

(२) अधि प्रवर्ध (epiphysis) पिनियल काय (pincal body) के लिये पर्यायनाम (synonym) है।

epiphyte—(Gk. *epi*, upon; *phyton*, plant) एपिफाइट, अधिपादप। ऐसे पौधे जो अन्य किसी पौधे की सतह पर रहते हैं।

epiphytic—(Gk. *epi*, upon; *phyton*, plant) अधिपादपीय।

epiphytotic—(Gk. *epi*, upon; *phyton*, plant) पादप महामारी।

epiplankton—(Gk. *epi*, upon; *planktos*, wandering) अधिप्लवक।

epiplasm—(Gk. *epi*, upon; *plasma*, mould) शिष्ट सत्व; अधिद्रव्य; गर्भ-मातृ कोशिका (brood mother cell) का साइटोप्लाज्म (cytoplasm) जो सर्गति निर्माण के बाद बचा रहे।

epiplast—(Gk. *epi*, upon; *plastos*, moulded) अधिलवक; ऐपीप्लास्ट।

epiplastron—(Gk. *epi*, upon; F. *plastron*, breast plate) एपिपलास्ट्रोन; अग्रवक्ष पट्ट।

epipleura—(Gk. *epi*, upon; *pleuron*, rib) अधिपाश्वक; उपपुशंक।

epiploic—(Gk. *epiploon*, coil of entrails) उदरास्तर भाँज सम्बन्धी। (देखिये omentum)

epiploon—(Gk. *epiploon*, coil of entrails) (?) वृहत् उदरास्तर। (२) मेदोमय ऊतक (कीट आदि का)

epipodial—(Gk. *epi*, upon; *pous*, foot) अधिपादी; पादापारिक सम्बन्धी।

epipodium—(Gk. *epi*, upon; *pous*, foot) पादापरिक; (१) ग्रैस्ट्रोपोडा में पाद (foot) के छोर पर पाई जाने वाली भाँज (fold); मेड़ (ridge) या दल (lobe), पर्णफलक या लैमिना।

epipodite—(Gk. *epi*, upon; *pous*, foot) उपपादांश।

epiprecoracoid—(Gk. *epi*, upon; L. *prae*, before) उप अग्रांसक; कुछ कूर्मों (chelonina) के अंश वलय (pectoral girdle) में अग्रांसक (precoracid) के निचले सिरे (छोर) पर लगी हुई एक छोटी उपास्थि (cartilage)।

epiproct—(Gk. *epi*, upon; *proktos*, anus) गुदोर्ध्व पट्ट।

epipteric—(Gk. *epi*, upon; *petron*, wing) एपिटेरिक; एक हड्डी का नाम; पक्षीपम; पाक्षिक; पक्षीपरिस्थि।

epipterygoid—(Gk. *epi*, upon; *pteryx*, wing) एपिप्टेरीगाइड (कपाल की लघु अस्थि); अधिप्टेरीगिक (अस्थि)।

epipubic—(Gk. *epi*, upon, L. *pubes*, adult) अधिजघनास्थि; उपनितम्बास्थिनी।

epipubis—(Gk. *epi*, upon; L. *pubes*, adult) उपनितम्बास्थि।

epirhizous—(Gk. *epi*, upon; *rhiza*, root) मूलोपरिक; मूल (जड़) पर लगा हुआ।

epirrhysa—(Gk. *epirrhein*, to flow into) आवाही या निक्षेपिक नाली (स्पंज में)।

episematic—(Gk. *epi*, upon; *sema*, sign) अधिबोधक; अधिज्ञापक; पहिचानने में सहायता देने वाला, जैसे रंग चिन्ह (markings) आदि।

episeme—(Gk. *epi*, upon; *sema*, sign) अधिचिन्ह।

episepalous—(Gk. *epi*, upon; F. *sepole*, sepal) अधिवाह्यदली; बाह्यदलसंलग्नी।

episome—(Gk. *epi*, upon; *soma*, body) अधिकाय; एपीसोम; वे असंतत (discrete) आनुवंशिक (genetic) तत्व (elements) जो वैकटीरिया कोशिकाओं में स्वायत्त दशा (autonomous condition) या समाकलित दशा (integrated condition) में

स्थापित हो जाते हैं। यह अधिकाय (episome) आनु-
वशिक पुनर्संयोजन (recombination) में भाग लेते हैं
तथा उनके साथ ही स्थानान्तरित होते हैं। कुछ अधि-
काय (episome) विषाणु (वाइरस) होते हैं और कुछ
नहीं। पहिले यह संज्ञा केवल संयत विभोजी (temp-
erate bacteriophages) को दी जाती थी पर कुछ
विषाणु लक्षणों रहित अधिकाय ज्ञात हो जाने से, यह
अन्य जैसे कोलन बैसी लाई (colon bacilli) में एक
(F) उर्वरक (fertility) या लिंग कारक (sexfactor)
को भी दी जाती है।

episkeletal—(Gk. *epi*, upon; *skeletos*, hard)
अंतः पंजर बहिस्त्व; अंतः पंजर (endoskeleton) से
बाहर स्थित।

episperm—(Gk. *epi*, upon; *sperma*, seed) उपरि-
चोल; बीज का बाहरी चोल (coat)।

episporangium—(Gk. *epi*, upon; *sporos*, seed)
अधि बीजाणुधानी; सोरस छद् (इन्डूक्षियम)।

epispore—(Gk. *epi*, upon; *sporos*, seed) एपि-
स्पोर; बीजाणु बाह्य चोल; स्पोर भित्ति का बाह्य
स्तर।

epistatic—(Gk. *epistates*, master) प्रबल (जीन)।

episternalia—(Gk. *epi*, upon; *sternon*, breast
bone) उपवक्षक। अक्षकों (clavicles) और बक्षक
(sternum) के बीच में बहुधा उत्पन्न होने वाले, उपास्थि
रूप में पहले निर्मित (preformed cartilage) और
अन्त में वक्षक (sternum) से संलयित (fused) दो
टुक (elements)।

episternite—(Gk. *epi*, upon; *sternon*, breast
bone) स्थापक पारिषका; एपोस्टर्नाइट। किसी चण्ड
(somite) के पार्श्व भागों से निर्मित चण्ड स्थापक
(ovipositor) का एक अंश (portion)।

episternum—(Gk. *epi*, upon; *sternon*, breast
bone) अधिउरोस्थि। (१) मध्यवक्षक (interclavicle)
(२) उपवक्षक; वक्षक (sternum) का लगता उपास्थि-
मय टुक (३) पार्श्वप्र पट्टिका; सन्धि पादों (arthro-

pods) में पार्श्व पटल (pleuron) की लगती पट्टिका
(sclerite)।

epistome—(Gk. *epi*, upon; *stoma*, mouth) मुखी
पारिका; अधिमुखाग्र; मुख के आगे या ऊपर स्थित अंग
(organ) या प्रदेश (region)।

epistrophe—(Gk. *epitrophe*, turning) अधिव्या-
वर्तक; अधिहरित लवक; हरितलवकों (chloroplasts)
का प्रकाश के प्रभाव से बाह्य और अन्तःकोशिका भित्ति
के सहारे स्थिति ले लेना।

epitropheus—(Gk. *epitropheus* turning)=
second cervical or axis vertebra-द्वितीय कशेरु।

epithalamus—(Gk. *epi* upon; *thalamos*, cha-
mber) अधिचेतक; एपिथैलेमस—अर्धमस्तिष्क (सेले-
मन सिफैलोन) का वह भाग जिसमें पिनियल काय और
पश्च परियोजी (posterior commissure) होते हैं।

epithalline—(Gk. *epi*, upon; *thallos*, branch)
एपिथैलाइन; थैलस (thallus) पर उगने वाले।
(थैलस—थैलोफाइटा का तने और पत्ती का मिला
हुआ भाग)

epitheca—(Gk. *epi*, upon; *theca*; cup) बहि-
पेटिका। (१) मूंगा जन्तुओं (corals) में पेटिका (theca)
के निचले भाग को ढकने वाली बाहरी तह। (२) मेखला
कपातत्रियों (डाइनोफ्लैजिलेट्स) में मेखलाग्र (epicone)
को ढके रहने वाली पेटिका।

epithecium—(Gk. *epi*, upon; *theca*, cup) अधि-
थैलियम; स्पोर कोष तल; लाइकिन्स (lichens) और
फन्जाई में स्पोर कोष (spore case) तल।

epithelial—(Gk. *epi*, upon; *thela*, nipple) एपि-
थैलियस; अधिच्छदी; अधिच्छद्र सम्बन्धी।

epitheliomorph—(Gk. *epi*, upon; *thela*, nipple;
morphe; form) पृष्ठरन्ध्रिकाच्छद्र; अन्त स्थिति स्था-
पिका (elastic interna) जिसमें पृष्ठरन्ध्रिकाच्छद्र स्थाप
होता है।

epithelium—(Gk. *epi*, upon; *thela*, nipple)
एपिथैलियम; उपकला; अधिच्छद्र; कोई कोशिका ऊतक

- (सेलूलर टिश्यू) जो स्वतंत्र तल (free surface) को घेरे हुए किसी नली या गुहों को बनाती हो।
- epithem**—(Gk. *epi*, upon; *tithenai*, to put) चूचुकिण; पक्षियों की चोंच पर स्थित कशोपम (wart-like) रचना (२) शिरांतिका।
- epitokous**—(Gk. *epi*, upon; *tokos*, birth) एपीटोक्स; अधिभिन्नज; किन्हीं पोलीकीट्स (polychaetes) की असामान्य नेरीज—हेटरोनेरीड (heteronereid) स्थिति।
- epitrematic**—(Gk. *epi*, upon; *trema*, pore) अधिरंध्रदण्ड; क्लोमकंडीदण्ड; लेम्प्रे (lamprey) के क्लोम कंडी (branchial basket) का उर्ध्व पाषवं दण्ड।
- epitrichial**—(Gk. *epi*, upon; *thrix*, hair) रोमो-पारिका।
- epitrichium**—(Gk. *epi*, upon; *thrix*, hair) कचो-पारिका; अधिरोम सार। बहुत से स्तनी (mammals) में भ्रौणिक वहिश्चर्म (epidermis) का एक बाहरी आवरण जो प्रायः जन्मने से पूर्व गिर जाता है।
- epitrochlea**—(Gk. *epi*, upon; *trochos*, wheel) ध्रुवोपरिका। प्रगण्डास्थि या ह्यूमेरस के दूरस्थ सिरे (distal end) पर स्थित अन्दर की ओर वाला अस्थि कंद या अबुंद (condyle)।
- epitympanic**—(Gk. *epi*, upon; L. *tympanum*, kettle drum) आनकोपरिक; कर्णात्मक (tympanum) के ऊपर स्थित।
- epivalve**—(Gk. *epi*, upon; L. *valva*, fold) मेख-लाग्न; किन्हीं डाइनोफ्लैजिलेटा के ऊपरी खोल का शिखर भाग।
- epixylous**—(Gk. *epi*, upon; *xylon*, wood) काष्ठोपरिक; काष्ठोद्भिद।
- epizooic**—(Gk. *epi*, upon; *zoon*, animal) अधि-जंतुक; जंतु परिजीवी; किसी अन्य जंतु के शरीर पर लगा हुआ।

- epizoochore**—(Gk. *epi*, upon; *zoon*, animal; *chora*, place) अधिजन्तु प्रकीर्ण।
- epizoon**—(Gk. *epi*, upon; *zoon*, animal) जंतु-परिजीवी; बाह्य परिजीवी; दूसरे जंतु के ऊपर रहने वाला।
- epizootic**—(Gk. *epi*, upon; *zoon*, animal) सर्व-जन्तुनिष्ठ; एपीजूटिक; अधिकांश जन्तुओं में पाई जाने वाली।
- epizygal**—(Gk. *epi*, upon; *zygon*, yoke) अधि-योक; अधिअस्थिक।
- epoch**—(—Gk. *epi*, upon; *echein*, to hold) युग।
- eponychium**—(Gk. *epi*, upon; *onyx*, nail) नखोपरिक; नख चन्द्रिका (lunula of nail) के ऊपर चढ़ा हुआ पतला त्वागावरण (cuticle) का पत (fold)।
- epoophoren**—(Gk. *epi*, upon; *oon*, egg; *pherein*, to bear) अण्डोपरिधर।
- (१) रोजन मुलर (rosen muller) का अंग।
- (२) एपीडाइडिमिस (epididymis) के सम रूप (homologous) अर्धविकसित (rudimentary) अंग जो डिम्बाशय (ovary) और गर्भाशय नलिका (uterine tube) के मध्य भ्रूण की बुल्फियन काय (wolffian body) का अवशेष होता है।
- equal**—(L. *aequates*, equal) समान; बराबर; सम; तुल्य।
- equatorial furrow**—मध्यवर्ती; विष्वत्रेखीय लीक; विभाजित होते हुए डिम्ब (segmenting ovum) की विष्वत् रेखा (equator) पर बनने वाली लीक (furrow)।
- equatorial plate**—मध्यवर्ती पट्ट; विष्वत् पटल; विषम विभाजन (mitosis) में तरकुट (spinple) की विष्वत् रेखा (equator) पर स्थिति परम्परा सूत्रों (क्रोमोसोमों) का समुदाय।

equibifradiate—(L. *aequus*, equal; *bis*, twice; *radius*, ray) द्विसमकिरणी; दो बराबर किरणों वाला ।
equicellular—(L. *aequus*, equal; *cellula*, cell) समकोशिकीय; समकोष्ठीय; समान कोशिकाओं का बना हुआ ।
equilateral—(L. *aequus*, equal; *latus*, side) सम-बाहु; समपायर्वीय ।
equilenin—(L. *equus*, horse) इक्वुलेनिन; $C_{18}H_{18}O_2$; सगर्भा अशवा (mare) के मूत्र में उपस्थिति मद-प्रोत्साहक (oestrogenic) हार्मोन ।
equiline—(L. *equus*, horse) इक्वुलाइन, $C_{18}H_{20}O_2$; इक्वुलेनिन हार्मोन से अधिक सक्रिय हार्मोन ।
equilibrium—(L. *aequus*, equal; *libra*, balance) साम्यावस्था; साम्य; संतुलन ।
equine—(L. *equinus*—*equus*, a horse) आश्विक; अश्व सम्बन्धी; अश्व—।
equipotent—(L. *aequus*, equal; *potens*, powerful) समबल; समबली; सम शक्तिक ।
equitant—(L. *equitare*, to side) प्रत्यारुद्धी; जैसे पर्ण कोरक (leaf-bud) में पर्ण-एक दूसरे पर चढ़ी हुई ।
equivalent—(L. *aequus*, equal; *valens*, to be worth) तुल्य; तुल्यमान; समान ।
equivalve—(L. *aequus*, equal; *valva*, valve) सम कपाट; समवात्य; समकपाटी ।
era—(L. *acra*, a number) महाकल्प; संवत् ।
erect—(L. *erigere*, to raise up) उर्ध्वशीर्षी; उत्थित; धरा ।
erectile—(L. *erigere*, to raise up) उत्थानशील; हृष्य; उत्थेय ।
erectile tissue—हृष्य ऊतक; ऐसा ऊतक या टिश्यू जो रक्त वाहिनियों (blood vessels) के भर जाने या फूल जाने से सख्त हो जायें ।
erection—(L. *erigere*, to raise up) उत्थान ऊतकों

(tissues) में रक्त भर जाने के कारण फूलकर सख्त हो जाना ।

erector—(L. *erigere*, to raise up) उत्थापक; वह पेशी जो किसी अंग या भाग को उठाये ।

ereidsesm—(Gk. *ereidein*, to support; *desma*, bond) ऐरीडेस्म; अधिच्छद अन्तःकोशिकीय (intracellular) सूत्र ।

eremobc—(Gk. *eremos*, solitude; *bios*, life) एकाकी; एकान्तकी ।

eremochaetus—(Gk. *eremos*, lonely; *chaeta*, bristle) अक्रम कचीय; किसी क्रम से न लगे हुए कण मण्डल या तंत्र (system of bristles) वाला ।

eremophyte—(Gk. *eremos*, solitude; *phyton*, plant) एकाकीपौधा; एकान्तरी पौधा; रेगिस्तानी पौधा; मरुस्थलोद्भिद् ।

erepsin—(L. *eripere*, to set free) इरेप्सिन; अंत्र-रस (intestinal juice) का एक शोमक (enzyme) विशेष ।

ergaloid—(Gk. *ergon*, work; *eidos*, form) अरगेलोइड; कर्मीप्रोइ; मैद्युनयोग्य प्रोइडी; यद्यपि पंच-हीन फिर भी मैद्युन योग्य प्रोइड युक्त ।

ergastric—(Gk. *ergazesthai*, to work) अर्गैव कोशिकी, अजीवित कण । (देखिये—metaplastm)

ergastoplasm—(Gk. *ergazesthai*, to work; *plasma*, mould) अरगैस्ट्रोप्लाज्म; अजीवित सत्व ।

ergastoplasmic—(Gk. *ergazesthai*, to work; *plasma*, mould) अजीवित सत्वज; ग्रन्थिमूत्रिकाओं की कोशिकाएँ जो साविक कणों की उत्पत्ति को प्रोत्साहित करती हैं ।

ergatandromorph—(Gk. *ergates*, worker; *aner*, male; *morphe*, form) उद्योगीनर; ऐगी र्वाटी (ant) या अन्य सामाजिक कीट (social insect) जिसमें (worker) और नर (male) दोनों की विशेषताएँ मिली हैं ।

ergatandrous—(Gk. *ergates*, worker; *aner*, male) नर समान उद्योगी ।

ergataner—(Gk. *ergates*, worker; *aner*, male) उद्योगी नर ।

ergate—(Gk. *ergates*, worker) उद्योगी चींटी या पिपीलिका (ant) ।

ergatogyne—(Gk. *ergates*, worker; *gyne*, female) उद्योगी नारी; उद्योगी (worker) से सादृश्य रखने वाली मादा चींटी या पिपीलिका (ant) ।

ergatogynous—(Gk. *ergates*, worker; *gyne*, woman) उद्योगी नारीय; उद्योगी (worker) से सादृश्य रखने वाली मादा चींटी या पिपीलिका (ant) युक्त ।

ergatoid—(Gk. *ergates*, worker; *eidos*, form) अर्गट सदृश; उद्योगी सदृश ।

ergines—(Gk. *ergon*, work) क्रिया प्रेरक; क्रियाशीलज । ऐसे जैविक रसायन जैसे एन्जाइम्स, हार्मोन्स तथा विटामिन्स जिनकी अल्प मात्रा भी क्रियाशीलता ला देती है ।

ergonomy—(Gk. *ergon*, work; *nomos*, law) कार्य विभिन्नता; कार्य के विभिन्नता आकार विशिष्टता से जुड़ी होती है ।

ergosterol—अरगोस्टेरीयोल; $C_{28}H_{44}O$; यह प्रकाश के प्रभाव से 'डी₂' का निर्माण करता है ।

ergot—(O. F. *argot*, spur) अर्गाट ।

१—अश्व संघ में दृश्य पर पाया जाने वाला एक छोटा नग्न घन्वा ।

२—घास की चिम्वीशद फी दसा ओ फंगस (fungus) के द्वारा हो जाती है ।

३—राई कण्ड (rye smut) ।

४—एक अल्केलाइड (alkaloid) जो गर्भाशय पेशियों को उत्तेजित कर क्रियाशील करता है ।

erichthoidina—(Gk. *erechthein*, to break; *eidos*, form) इरिकथोइडीना, स्टोमेटोपोडा (stomatopoda) की लारवा स्थिति जिसकी तुलना जुइया (zooea) से की जाती है ।

erichthus—(Gk. *erechthein*, to break) इरिकथस; स्टोमेटोपोडा (stomatopoda) की लारवा स्थिति जिसकी तुलना छम्प या कूट जुइया (pseudozooea) से की जाती है ।

ericomus—(Gk. *erion*, wool; *kome*, hair) लोमश; और्ण-रोमी; बहुलोमश ।

eriophyllus—(Gk. *erion*, wool; *phyllon*, leaf) उर्णपर्णी ।

erose—(L. *erodere*, to wear away) दंतुरित (तटी) ।

erosion—(L. *erodere*, to wear away) अपरदन; क्षीण होना; क्षति ।

erostrate—(L. *ex*, without; *rostrum*, beak) अचंचुक ।

ersaeome—(Gk. *erse*, young) अरसियोम; साईफोनोफोरा (siphonohora) की मुक्त एक आमाशयिक (monogastric) संतति (generation) ।

eruciform—(L. *eruca*, caterpillar; *forma*, shape) इल्लीनुमा; इल्लीसदृश; इल्ली (caterpillar) जैसे आकार वाला ।

erumpent—(L. *erumpere*, to break out) उद्भूत ।

erythrin—(Gk. *erythros*, red) इरीथिन; लालवर्ण; $C_{20}H_{22}O_{10}$; किन्हीं शैवाल (algae) और लाइकिन्स (lichens) में पाया जाने वाला लाल वर्ण ।

erythrisms—(Gk. *erythros*, red) अतिरक्तता; अत्यधिक लाल रंग का उपस्थिति होना ।

erythroblast—(Gk. *erythros*, red; *blastos*, bud) रक्त कणज; वे न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएँ जो मध्य स्तर से उत्पन्न होकर रक्त रंजक-हीमोग्लोबिन को धारण करके रक्त के लाल कण (red blood corpuscles) बन जाते हैं ।

erythrocruorin—(Gk. *erythros*, red; L. *cruor*, blood) इरीथ्रोक्रुसेरिन; अरुण लोहस्वासी; किन्हीं

erythrocyte

अकशेरुक (invertebrates) में पाया जाने वाला लाल लोह युक्त श्वास पदार्थ ।

erythrocyte—(Gk. *erythros*, red; *kytos*, hollow) लाल रुधिर कणिका; रक्ताणु; लाल रक्त कण; लोहित कोशिका ।

erythrocytolysis—(Gk. *erythros*, red; *kytos*, hollow; *lysis*, lossing) रक्त-कण ह्रास; रक्त कण का टूटना ।

erythron—(Gk. *erythros*, red; *on*, being) एरिथ्रोन; रक्तक; लोहित संग्राहकता; अस्थि मज्जा (bone marrow) और परिवहन रक्त में इकट्ठा लाल कोशिकाओं (red cells) का होना ।

erythrophilous—(Gk. *erythros*, red; *philein*, to love) रक्तकण प्रेमी; अरुणारागी; रक्तरंजकरागी; लाल रंगों की ओर विशेष संयोग शीलता (affinity) रखने वाली कोशिका या कोशिका समूह की कोई रचना ।

erythrophore—(Gk. *erythros*, red; *pherein*, to bear) अरुण कोशिका; अरुणामय । वैजनी (reddish purple) रंग वाली कोशिका ।

erythrophyll—(Gk. *erythros*, red; *phyllon*, leaf) एरिथ्रोफिल; पत्तियों का लाल वर्णक पदार्थ ।

erythropoiesis (Gk. *erythros*, red; *poiesis*, making) रक्त कणज; रक्त कण बनाने वाला ।

erythropsin—(Gk. *erythros*, red; *opsis*, sight) एरिथ्रोप्सिन; रोडोप्सिन; कीट चक्षुओं में पाया जाने वाला लाल वर्ण पदार्थ ।

erythrozyme—(Gk. *erythros*, red; *zyme*, leaven) एरिथ्रोजाइम; यह एंजाइम स्वेरीक्रिक अम्ल (ruberythric acid) को विघटन तथा ग्लूकोसाइड्स पर प्रभाव डालता है ।

escape—(M. E. *escapen*) बंधन भूट; अपसर्पण; पलायन; ऐसा पोषा जो आरम्भ में संवर्धक (cultivated) परन्तु अब वनजात (wild) पाया जाता है ।

escutcheon—(O. F. *escuchon*, shield) एस्कुचन ।

१—बहुत से चतुष्पादों के नितंब पर रंगीन अथवा विशिष्ट रोमीय क्षेत्र ।

२—किन्हीं कीटों का मध्य पृष्ठिका पत्र (mesoscutellum) ।

३—किन्हीं द्विकपाटी (bivalves) का पेशीबंध (ligamental) क्षेत्र ।

eseptate—(L. *ex*, without; *septum*, enclosure) अव्यवधानी; विभाजक भित्ति हीन ।

esophagus—ईसोफेगस; निगर ।

esoteric—(Gk. *esoterikos*, arising within) जीवान्तजन्म; जीव या अंगी (organism) के भीतर उत्पन्न होने वाला ।

espathate—(L. *ex*, without; *spatha*, broad blade) अफलकी; फलकहीन; फलक विहीन ।

estipulate—(L. *ex*, without; *stipula*, stem) अअनुपत्री; अनुपत्रविहीन; अनुपत्र हीन ।

estuarine—(L. *aestuarium*, estuary) पुटभेदी; ज्वारनदंमुखी; वेलासंगम या पुटभेद (estuary) में पाये जाने वाले अंगी ।

etaerio—(Gk. *etairia*, association) पुंज (फलों का); पुंजफल; यह ऐसे फूलों से बनते हैं जिनमें—जायांग पृषक परन्तु वह अण्डपी (polycarpellary) होता है, प्रत्येक स्वतन्त्र अण्डाशय से एक लघु फल (fruitlet) बनता है और सभी लघु फल मिनकर पुंज फल बनाते हैं ।

१—फालिकिन का पुंज (etaerio of follicles); उदाहरण—चमपा ।

२—द्रुप का पुंज (etaerio of drupe) उदाहरण—द्विसालू (tulius lanatus) ।

३—एकीन का पुंज (etaerio of achenes) उदाहरण—नास्वेनिया; स्ट्राबरी ।

४—बेरी का पुंज (etaerio of berries) उदाहरण—नरीया ।

esquamate—(L. *ex*, without; *squama*, scale)

शल्क हीन; बिना शल्क (scale) वाला ।

etheogenesis—(Gk. *etheos*, youth; *genesis*, descent) अनिषेक नरोत्पादन; वह अनिषेकोत्पादन (parthenogenesis) जिससे नर उत्पन्न हों, अर्थात् नर जन्मु या गैमीट (malegamete) का निषेक (fertilisation) के बिना वर्धन (development) ।

ethiopian—(Gk. *aithiops*, burned face) ईथियोपी; ईथियोपिया जन्तु भूगोलिक क्षेत्र से सम्बन्धित ।

ethmohyostylic—(Gk. *ethmos*, sieve; *stylos*, pillar) झर्झर जिह्वक स्तम्भी; झर्झर प्रदेश (ethmoid region) जिह्वक शलाका (hyoid bar) से संलग्न अधोहन्वस्थि (mandible) के उद्बन्ध (suspension) वाला ।

ethmoid—(Gk. *ethmos*, sieve; *eidos*, shape) एथमाइड; झर्झरिका; झर्झरास्थि; एक अस्थि विशेष ।

ethmoidal—(Gk. *ethmos*, sieve; *eidos*, shape) झर्झरिक; झर्झरास्थि सम्बन्धी ।

ethmoidal notch—झर्झर-भंग ।

ethmolysian—(Gk. *ethmos*, sieve; *lyein*, to loosen) शिथिली भूशीर्षतंत्री; ईथमोलाइसियन; वह शीर्षतंत्र (apical system) जिसमें जनन पट्ट (madrporite) पीछे की ओर इतना बढ़ा हुआ होता है कि इससे दो पश्च पाद्वं जनमैद्रियाँ पृथक हो जाती है ।

ethmopalatine—(Gk. *ethmos*, sieve; L. *palatus*, palate) झर्झर-तालव्य; झर्झर-तालव्य प्रदेश (ethmoidal palatine region) में या झर्झर (ethmoid) से लेकर तालव्य (palatine) तक पाया जाने वाला ।

ethmophract—(Gk. *ethmos*, sieve; *phrassein*, to fence in) ईथमोफ्राक्ट; प्राकार छिद्री शीर्षतंत्र (apical system); साधारण, घना, शीर्षतंत्र (apical system) जिसके दक्षिण अग्र किनारे पर ही छिद्र होते हैं ।

ethmoturbial—(Gk. *ethmos*, sieve; L. *turbo*, whorl) झर्झर घूर्णास्थि । नासाकोटर (nasal cavity)

में पाई जाने वाली उपास्थि (cartilage) या हड्डी (bone) जो घ्राणीय क्षेत्र (olfactory area) को बढ़ाने के लिए पतं रूप में लिपटी (folded) रहती है ।

ethmovomerine—(Gk. *ethmos*, sieve; L. *vomer*, plough share) झर्झर-फलास्थि; इथमोवोमेराइन अस्थि सम्बन्धी ।

ethnology—(Gk. *ethnos*, nation; *logos*, discourse) मानव जाति विज्ञान; नसल विज्ञान; वह विज्ञान की शाखा जो मनुष्यों की भिन्न-भिन्न नस्लों (races) का वर्णन करती है ।

ethology—(Gk. *ethos*, custom; *meros*, part) जीव-परिस्थितिकी; व्यवहार विज्ञान; प्राणी के व्यवहारों का वातावरण (environment) के दृष्टिकोण से अध्ययन ।

ethomeros—(Gk. *ethos*, custom; *meros*, part) आदर्श खण्डी ।

etiolation—(F. *etioler*, to blanch) शुल्कीयता; पांडुरता; पौधों में अन्धकार अथवा रोग के कारण शुल्कीय (पांडुरता) दशा का होना ।

etiolin—(F. *etioler*, to blanch) इटियोलिन (पीत रंजक); अंधकार में उगले वाले पौधों में पाया जाने वाला पीत रंज्य पदार्थ ।

etiology—हेतु विज्ञान ।

euapogamy—(Gk. *eu*, well; *apo*, away; *gamos*, marriage) द्विगुणित अपयुग्मन ।

euaster—(Gk. *eu*, good; *aster*, star) सुतारक; ऐसा तारक (aster) जिसकी किरण (rays) या भुजा एक ही केन्द्र पर मिली हों ।

eucentric—(Gk. *eu*, well; *kentron*, centre) सुविकसित केन्द्री ।

eucephalous—(Gk. *eu*, good; *kephale*, head) सुविकसित शीर्षी । भली भाँति वर्धित (well developed) सिर वाला । कुछ कीट अण्डकों (insectlarvae) के लिये प्रयुक्त होता है ।

euchromatic—(Gk. *eu*, well; *chroma*, colour)

सुविकसित क्रोमेटिन ।

euchromatin—(Gk. *eu*, well; *chroma*, colour)

आदर्श क्रोमेटिन; ऐसा क्रोमेटिन जो सम्पूर्ण गुणमूर्त्रों का निर्माण करता है ।

euchromosome—(Gk. *eu*, well; *chroma*, colour;

soma, body) आदर्श क्रोमोसोम; आदर्श परम्परा सूत्र; देह परम्परा सूत्र ।

[देखिये-autosome और heterosome]

ecoen—(Gk. *eu*, well; *koinos*, common) यथार्थ

वातावरणी; भिन्न वातावरण में रहने के अयोग्य ।

eucone—(Gk. *eu*, good; *konos*, cone) स्फुटिक

शंकु युक्त; संयुक्त चक्षु के प्रत्येक इकाई में सुविकसित स्फुटिक शंकुओं का पाया जाना ।

euchordate—(Gk. *eu*, well; *chorde*, string)

यथार्थ दण्डक; सुदण्डक; यूकोडेंट ।

eudiplenral—(Gk. *eu*, good; *dis*, double; *pleu-*

ron, side) समपार्श्विक; मध्य पटल (median plane) के द्वारा समांश पार्श्वों में बंटा हुआ ।

eudoxome—(Gk. *eudoxos*, glorious) विश्रुत;

यूडोक्सोम; साइफोनोफोरा (siphonophora) की तरणपुट (nectocalyx) हीन स्वतंत्र प्लावी एक आमाशयिक स्थिति (monogastric stage) ।

eugamic—(Gk. *eu*, well; *gamos*, union) प्रौढिक;

प्रौढ़ या परिक्व काल (mature period) से सम्बन्ध रखने वाला ।

eugenic—(Gk. *eu*, well; *genos*, birth) सुजननिक;

नसलोत्कर्षक; नस्ल की उन्नति करने वाला ।

eugenics—(Gk. *eu*, well; *genos*, birth) सुज-

ननिकी; सजनन-विज्ञान; मानवोत्कर्ष विज्ञान; नसलोत्कर्ष विज्ञान ।

euglenoid—(Gk. *eu*, well; *glenc*, pupil of eye)

युग्लीनोपम; युग्लीना (euglena) समान ।

euhaline—(Gk. *eu*, well; *halinos*, saline) लवणी

जलवासी ।

eumelanin—(Gk. *eu*, well; *melas*, black)

सुश्यामकणी; मेलैनिन (melanin) कण युक्त ।

eumerism—(Gk. *eu*, well; *meros*, part) समंश

करण; सुसंग्रहण; सामान्य भागों का एकत्रीकरण ।

eumerogenesis—(Gk. *eu*, well; *meros*, part;

genesis, descent) समविभाजन; ऐसा विभाजन (segmentation) जिसके द्वारा उत्पन्न इकाइयाँ (units) कम से कम कुछ समय तक एक-ही हों ।

eumitotic—(Gk. *eu*, well; *mitos*, thread) सुवि-

भवत; द्विचतुष्टय; द्विभक्तचतुष्टय; नुसूत्री विभाजनी ।

euphotometric—(Gk. *eu*, well; *phos*, light;

metron, measure) सुप्रकाशत्वधी; ऐसी पत्तियाँ सुव्यवस्थिक कि समस्त पत्तियाँ भली प्रकार प्रकाश ग्रहण कर सकें ।

euplastic—(Gk. *eu*, well, *plastos*, moulded)

सुव्यवस्थित; सुघटनी ।

enploid—(Gk. *eu*, well; *haploos*, one fold;

eidos, form) सुगुणित ।

eupotamic—(Gk. *eu*, well; *potamos*, river)

समसमुद्री; बहते हुए तथा रुके हुए दोनों ही प्रकार के जलों में समृद्ध होने वाले ।

eupyrene—(Gk. *eu*, well; *pyren*, fruit stone)

आदर्श सूत्रक; सामान्य वीर्याणु ।

[देखिये apyrene; oligopyrene]

eurybaric—(Gk. *eurys*, broad; *heros*, weight)

विविधोच्चता वाली; ऊँचाई (altitude) के विपुल भेदों में वात करके की योग्यता रखने वाला ।

eurybathic—(Gk. *eurys*, wide; *bathys*, deep)

विविधोच्चता वाली सम्बन्धी ।

eurychoric—(Gk. *eurys*, wide; *choros*, placed)

विविधग्राह्य (विविध + आनाद्य) वाली, अनेक गहराइयों (depths) में रहने की योग्यता रखने वाला ।

euryhaline—(Gk. *eurys*, broad; *halinos*, maine)

विविध लवणानुकरणी; वे नामुद्रिक जंतु जो घारीयन की विविध मात्राओं में रह सकें ।

euryhygric

euryhygric—(Gk. *eurys*, wide; *hygros*, wet) विविधाद्रं वासी; वे सामुद्रिक जन्तु जो वायु मण्डल की विविध आद्रता (humidity) में रह सकें।

euryphagous—(Gk. *eurys*, wide; *phagein*, eat) विविधाहारी, अनेक प्रकार का भोजन करने वाला।

eurypylous—(Gk. *eurys*, wide; *pyle*, gate) कुचितद्वारी; स्पजों में नलिका मण्डल (canal system) का एक प्रकार।

eurysome—(Gk. *eurys*, broad; *soma*, body) स्थूलपिण्डी; वौन-स्थूल काय।

eurythermic—(Gk. *eurys*, wide; *therme*, heat) विस्तीर्णतापी; असीमतापी।

[देखिये उलटा *stenothermic*, मिततापी]

eurytopic—(Gk. *eurys*, wide; *topos*, place) विस्तीर्ण वासी; असीम वासी।

eusporangiate—(Gk. *eu*, well; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) सुवीजाणु ऊतकी; सुवीजाणु धानीय।

eustachian—(tube or recesses) (B. eustachio, italian physician) कर्ण गुहा; यूस्टेशियन; कर्ण-कण्ठ (नलिका)। आनक गुहा (tympanic cavity) और कण्ठ को जोड़ने वाली (नलिका)।

eustele—(Gk. *eu*, well; *stela*, pillar) सुरंभ।

eusternum—(Gk. *eu*, well; *sternon*, breast plate) मूल वक्ष पटल; यूस्टर्नम।

eustomatous—(Gk. *eu*, well; *stoma*, mouth) स्पष्टमुखी।

euteleogenesis—(Gk. *eu*, well; *tele*, afar *genesis*, descent) उन्नत प्रजनन; कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उन्नत नस्ल के जन्तुओं का प्रजनन।

euthenics—(Gk. *euthenein*, to throw) मानव समृद्धि विज्ञान।

eutheria—(Gk. *eu*, well; *therion*, small animal) मर्षार्थस्तनी; स्तनी (mammals) का एक (order)।

euthycomus—(Gk. *euthys*, straight; *kome*, hair) ऋजुरोमी; समरेख रोमी।

euthyneurons—(Gk. *euthys*, straight; *neuron*, nerve) अव्यावर्ती माण्डलिका तंत्रिका तंत्र (nervous system) के देहांग-शिक्य (visceral loop) को सरल अर्थात् अव्यावर्तित (untwisted) रखने वाला।

eutrophic—(Gk. *eu*, well; *trophe* nourishment) समुचित पोषणी।

evacuation—(L. *e*, from; *vacuare*, to empty) मलोत्सर्ग; मलमूत्रादि त्याग; निवृत्तन; रिक्तीकरण।

evagination—(L. *e*, out; *vagina*, sheath) बहि-वलन।

evanescent—(L. *evanescere*, to vanish) आशुलोपी; क्षणिक; अल्पजीवी; क्षण स्थायी; क्षण जीवी।

evection—(L. *e*, out; *vehere*, to convey) स्थान भ्रंश; स्वस्थानात् चलन।

eviscerate—(L. *ex*, out; *viscera*, entrails) देहांग बहिवलन। जैसे कुछ होल्युथूरियन्स (holothuriens) पकड़े जाने पर अपने देहांगों को बाहर निकाल देते हैं।

evocator—(L. *evocator*, caller forth) रसायनिक उत्तेजक (प्राणी द्वारा प्रदत्त)।

evolute—(L. *evolvere*, to unroll) विकसित होना।

evolutitety—(L. *evolvere*, to unroll) विकासीय शक्ति युक्त।

evolution—(L. *evolvere*, to unroll) विकास; अंगी या समष्टि (population) लक्षणों में संचयी (cumulative) परिवर्तन जो आनुवंशिक सम्बन्धी क्रमिक संततियों में आते हैं।

evolution, the doctrine of—विकासवाद।

exalate—(L. *ex*, without; *ala*, wing) पक्षहीन।

exalbuminous—(L. *ex*, without; *albumen*, white of egg) अएब्युमिनी; एलब्युमिन हीन।

exannulate—(L. *ex*, without; *annulus*, ring) वलयहीन; वलय मुद्रिका हीन बीजाणुधानी जैसे कुछ फर्न पीधों में।

exarate — (L. *exaratus*, ploughed up) स्वतंत्र पंच व टांग युक्त प्यूपा (कोषावृत्ति) ।

exarch—(L. *ex*, without; Gk. *arche*, beginning) बाह्य-आर्क; बाह्य आदि दाहक; प्रोटोजाइल्य पेरी साइकिल (pericycle) चक्र से लगा हुआ ।

exasperate—(L. *exasperare*, to roughen) दृढ़-विन्दुक ।

excentric—(L. *ex*, without; *centrum*, centre) अपकेन्द्री; केन्द्रस्थित, उत्केन्द्रक ।

exchange of gases गैस विनिमय; जैसे वाक्सीजन और नाबेन डाई-ऑक्साइड का विनिमय (अदला-बदली) श्वास क्रम में ।

exciple—(L. *excipula*, receptacle) अपचपक बाह्यावरण । अपचपक (एपोथीसियम—apothecium) बाह्यावरण ।

excitability— L. *ex*, without; *citare*, to rouse) उत्तेजनशीलता; किसी सजीव (living) कोशिका (cell) या ऊतक (tissue) की वातावरण परिवर्तन (environmental change) या उत्तेजना (stimulus) के कारण प्रत्युत्तर (response) देने की शक्ति ।

excitation—(L. *ex*, without; *citare*, to rouse) उत्तेजना; उद्दीपन ।

excitonutrient—(L. *excitare*, to rouse; *nutriens*, feeding) पोषकोत्साही; पोषक क्रियाओं को बढ़ाया देने वाला ।

exconjugant—(L. *ex*, out; *conjugare*, to yoke) पूर्व संयुग्मी ।

excreta—(L. *excretum*, separated) मल; विष्ठा; उत्सर्ग; मल-मूत्र ।

excrete—(L. *ex* out; *cernere*, to sift) उत्सर्जन या विभजन करना; शरीर से मल निकालना ।

excretion—(L. *ex*, out; *cernere*, to sift) मनोत्सर्ग; उत्सर्ग; मलत्याग; विभजन; उत्सर्जन । उपापचय के उत्पादों को अनपुनःशील किस्म में एकत्रित करना या उनको निष्कासित करना. विभजन या

उत्सर्जन कहा जाता है । जन्तुओं में यह मुख्यतः प्रोटोन उपापचय के उत्पाद होते हैं । कर्शरूकों में उत्सर्जन अंग वृक्क (kidney); कीटों (insects) में मालपीजियन नलिकाएँ (malpighian tubes) लीर बृष्टिकांश अक-शेरूकों में वृक्कक (nephridia) विसर्जन या उत्सर्जन के मुख्य अंग होते हैं ।

excretory system—(L. *ex*, out; *cernere*, to sift) विसर्जन तंत्र; विसर्जन संस्थान; मल-मूत्र बाह्य संस्थान; मलोत्सर्ग संस्थान; उत्सर्जन तंत्र ।

excurrent—(Gk. *ex*, out; *currere*, to run) बहिर्गामी; बहिष्वाही ।

excurved—(L. *ex*, out; *curvere*, to curve) बाह्य वक्र ।

excystation—(L. *ex*, out; Gk. *kystis*, bladder) (कोशिका) निर्गमन ।

exendospermous—(L. *ex*, without; Gk. *endon*, within; *sperma*, seed) तण्डुलिनी ।

exflagellation—(L. *ex*, out; *of*, *flagellum*, whip) कपाभीभवन; विकपाभीभवन; हीमोस्पोरीडिया (haemosporidia) में नर जन्तुज कोशिकाओं (microgametocyte) से नरजन्तु (microgamete) के बनने की प्रक्रिया ।

exfoliation—(L. *ex*, out; *folium*, leaf) अप-शल्कन, अपपत्रण; पत्तियों या शल्कों का गिरना ।

exhalant (aperture)—(L. *ex*, out; *halare*, to breathe) अपवाही; उच्छ्वसित उत्सर्गक (श्वर) ।

exhalation—(L. *ex*, out; *halare*, to breathe) उच्छ्वास; वायु को बाहर निकालना ।

exindusiate—(L. *ex*, out; *iudusium*, cover) शीरस अनावरण; शीरसछद्महीन; श्वर कोष का अनावरण ।

exine—(L. *exter*, outside) पराश्वर कोष बाह्यभेग ।

exinguinal—(L. *ex*, out; *inguen*, groin) उष्म-बहिष्म; उष्म नदि (groin) के बाहर स्थित ।

exites—(Gk. *exo*, without) बहिर्गामी; किन्हीं

सन्धिपादों (arthropod) के अवयवों के बाह्य पार्श्व तटों से निकलने वाली उपशाखायें वा शाखायें ।

exocardiac—(Gk. *ex*, without; *kardia*, heart) हृदयहिंस्य; हृदय के बाहर स्थित ।

exocarp—(Gk. *exo*, without; *karpos*, fruit) बाह्यफलमिति; पेरीकार्प (pericarp) का बाह्य-स्तर ।

exoccipital—(L. *ex*, without; *occiput*, back of head) एकस ओक्सीपिटल; कपाल की एक हड्डी ।

exochorion—(Gk. *ex*, without; *chorion*, chorion) वहिश्चमिका ।

exocoel—(Gk. *exo*, without; *koilos*, hollow) वहिंसीलोम ।

exocoelar—(Gk. *exo*, without; *koilos*, hollow) वहिंसीलोमी; सीलोम की प्राचीर ।

exocoelic—(Gk. *exo*, without; *koilos*, hollow) बाह्यगुहिका; बाह्यगुहा—।

exocoelom—(Gk. *exo*, without; *koilos*, hollow) बाह्यदेह गुहा; बाह्य प्रगुहा ।

exocone—(Gk. *exo*, without; *konos*, cone) वहिःशंकु (नेत्र); कीट का संयुक्त नेत्र जिसमें शंकु (cone) उपत्वचा से उद्भूत हुए हों ।

exocrine (glands)—(Gk. *exo*, without; *kriuein*, to separate) वहिःस्त्रावी; श्रोतयुक्त (ग्रन्थियाँ) ।

exocuticula—(Gk. *exo*, without; L. *dtm.* of *cutius*, skin) बाह्यत्वगावरणी ।

१—कीट त्वगावरण (cuticle) का मध्य स्तर जो अन्तः त्वगावरण (endocuticula) और अधित्वक् (epicuticula) के बीच में होता है ।

२—मकड़ी (spider) में त्वगावरण का बाह्य स्तर ।

exoderm—(Gk. *exo*, without; *derma*, skin) बाह्य चर्म; बाह्य स्तर; चर्म स्तर (स्पंज में) ।

exodermis—(Gk. *exo*, without; L. *dermis*, skin) बाह्यस्तरज ।

exogamete—(Gk. *exo*, without; *gametes*, mate) परनिषेकाणु; वह उत्पादन कोशिका जो अन्य जन्तु से उत्पन्न उत्पादन कोशिका से संलयित (fused) होता है ।

exogamy—(Gk. *exo*, without; *gamos*, marriage) वहिपरिणय ।

exogastric—(Gk. *exo*, without; *gaster*, stomach) बाह्यामाशिक; पृष्ठघूर्णी (कर्पर) ।

exogastrula—(Gk. *exo*, without; *gaster*, stomach) बाह्यामाशिक; पृष्ठघूर्णी (कर्पर) ।

exogenous—(Gk. *exo*, without; *genos*, race) वहिर्जात ।

exognathion—(Gk. *exo*, without; *gnathos*, jaw) बाह्यहन्व; उर्ध्वहनु का मैक्सिला भाग ।

exonephrie—(Gk. *exo*, without; *nephros*, kidney) बाह्योत्सगिका ।

exoperidium—(Gk. *exo*, without; *peridion*, a small wallet) भस्त्रा; स्पोरकोप बाह्यस्तर ।

exophylaxis—(Gk. *exo*, without; *phylax*, guard) बाह्य सुरक्षा; त्वचा स्त्रावी द्वारा रोगाणुओं से सुरक्षा ।

exoplasm—(Gk. *exo*, without; *plasma*, mould) बाह्य सत्व । [देखिये-ectoplasm]

exopodite (Gk. *exo*, without; *pous*, foot) वहिः पादांश; वहिपादांश ।

exoskeleton—(Gk. *exo*, without; *skeletos*, hard) वहिःकंकाल; शरीर को बाहर से ढके हुए कंकाल या त्वचा में स्थित कंकाल को बाह्यकंकाल (exoskeleton) कहा जाता है । आर्थापोडा में वहिःकंकाल अधिचर्म (epidermis) की सतह (superficial) पर होता है जैसे कीटों में क्यूटिकिल (cuticle) । मौलम्बा का वहिःकंकाल कवच (shell) भी खरिक् ससेचित क्यूटिकिल होता है । अनेक कशेरुकों (vertebrates) जैसे शल्की मत्स्य (scaly fish); कच्छप

(tortoises), आर्मैडिलो (armarillo) में बहिःकाल मुख्यतः अधिचर्म के नीचे अस्थि पट्टों (bony plates) का होता है। कच्छप या आर्मैडिलो में यह पट्ट अधिचर्म से बनी होती है तथा शृंगीय किरेटिन (keratin) से ढकी होती है।

exosmosis—(Gk. *exo*, without; *osmos*, impulse) बहिः परासरण; बाह्य प्रसरण।

exospore, exosporium—(Gk. *exo*, without; *sporos*, seed) बहिर्वीजाणु; बीजाणु बहिश्चोल; बीजाणु भित्ति का बाह्य चोल।

exostome—(Gk. *exo*, without; *stoma*, mouth) बहिर्मुख; बोज की बाह्यभित्ति का छिद्र।

exostosis—(Gk. *exo*, without; *osteon*, bone) बाह्य गण्डता; बाह्यशोफ

१—काण्ठतल पर गाँठों या शोफ का बनना।

२—किसी अस्थि भ्रंश पर शोफ सदृश आकृति का बनना।

exotheca—(Gk. *exo*, without; *theke*, box) बहिष्पेटिका।

exothecate—(Gk. *exo*, without; *theke*, box) बहिष्पेटिका युक्त।

exothecium—(Gk. *exo*, without; *theke*, case) बाह्यस्त्रोत्रियम; अनावृतबीजियों (gymnosperm) के बीजाणुघारी (sporangium) की बाह्य स्फुटनशील कोशिका स्तर।

[देखिये : endothecium—अंतः स्त्रोत्रियम]

exotic—(Gk. *exotikos*, foreign) विदेशी; विदेशज; विदेशगत।

exospore—(Gk. *exotikos*, foreign; *sporos*, seed) रेणु जीवक। [देखिये—sporozoite]

exotoxin—(Gk. *exo*, without; *toxiken*, poison) बहिर्विष (घुलनशील विष)।

extropism—(Gk. *exo*, without; *trope*, turn) बहिर्प्रभित्ति।

explantin—एस्प्लान्टिन; रंजक प्रसारक; कस्टेसियन में

रंजक द्रव्य (neurohumor) जो रंजक कोशिकाओं क्रोमेटोफोर) के विस्तार को प्रभावित करता है।

[देखिये—contsactin—रंजक संकुचक] experiment—(L. *experiri*, to try thoroughly) प्रयोग।

expiration—(L. *ex*, out; *spirere*, to breathe) निःश्वसन; साँस छोड़ना; उच्छ्वासन (प्रक्रिया)।

explantation—(L. *ex*, out of; *plantare*, to plant) वृक्षोच्छेद (वृक्ष + उच्छेद); वृक्षहरण; अपसवर्धन।

explicate—अवलित।

exploration—अन्वेषण, खोज।

explosive—विस्फोटी; विस्फोटक।

exsculptate—(L. *ex*, out; *sculpere*, to carve) परिकल्पकी।

exscutellate—(L. *ex*, without; *scutellum*, shield) पृष्ठिका परचहीन; अस्कुटिलेट; ऐसा कीट जिसमें पृष्ठिका-परच (scutellate) नहीं होता।

exserted—(L. *exserere*, to stretch out) प्रलंबी; निःसृत; बाहर निकला हुआ।

exsertile—(L. *exserere*, to stretch out) निःसर्पण शील; बाहर को निकल आने वाला।

exstipulate—(L. *ex*, without; *stipula*, stem) अन-अनुपर्णी; अनुपर्ण हीन।

extrophy—(Gk. *exo*, outwards; *strophe*, turning) निःसृतता।

exsufflation—(L. *ex*, out; *suffare*, to blow) यत्नोच्छ्वास; फुफ्फुसों (lungs) में हवा पूर्वक साँस निकालना।

extend—(L. *ex*, out; *tendere*, to stretch) प्रसार; वित्तन।

extensor—(L. *ex*, out; *tendere*, to stretch) प्रसारणी; प्रसारक; कोई पेशी जो किसी अंग या भाग को फैलाये।

exterior

- exterior—(L. *externus*, on out side) बाह्य; बहि-भाग; बाहरी ।
- exteroceptor—(L. *exter*, outside; *capere*, to take) बाह्यवेदनाग्राही; सम्पर्कग्राही; दूरस्थग्राही ।
- external—(L. *externus*, out side) बाह्य; बहि-स्थित ।
- external auditory meatus—बाह्य कर्ण कुहर; श्रावणिक बाह्य पथ; बाह्य कर्ण नली ।
- external auditory aperture—बाह्य कर्ण रुंध ।
- external border—बाह्य तट ।
- external feature—बाह्य आकृति; बाह्य रचना; बाहरी रचनायें ।
- external genitals—बाह्य जननेन्द्रियाँ ।
- external geniculate body—बाह्य जानुपम पिण्ड ।
- external jugular vein—बाह्य शिरस्क शिरा; बाह्य जुगुलर शिरा ।
- external limiting membrane—बाह्यावधि झिल्ली ।
- external nares—बाह्य नासा छिद्र ।
- external surface—बाह्य तल ।
- extinction—(L. *ex*, out; *strigere*, quench) लोप ।
- extinct—लुप्त ।
- extine—(L. *exter*, outside) (१) परागकोश बाह्यावरण । (२) बीजाणु बहिश्चोल ।
- extra-axillary—(L. *extra*, beyond; *axilla*, armpit) अति-अक्षी; अतिरिक्त अक्षी; पर्ण अक्ष के ऊपर से निकलने वाली शाखा आदि ।
- extrabranhial—(L. *extra*, beyond; Gk. *branchia*, gills) अतिगिली; बाह्य क्लोमी; क्लोम बहिस्थ ।
- extracapsular—(L. *extra*, outside; *capsula*, cup) कुहर बहिस्थ; किसी कुहर (*capsule*) के बाहर बनने वाला या स्थित ।
- extracellular—(L. *extra*, outside; *cellula*,

- little cell) बहिःकोशकीय । कोशिका (cell) के बाहर स्थित या होने वाला ।
- extra cellular digestion—बहिःकोशकीय पाचन ।
- extracolumella—(L. *extra*, beyond; *columella*, small column) कोलुमुला बहिस्थ; हायोस्टेपीज; श्रवण अस्थि रचना का दूरस्थ टुक ।
- extraembryonic—(L. *extra*, outside; Gk. *embryon*, foetus) भ्रूण बहिस्थ । भ्रूण (*embryo*) के बाहर ।
- extraenteric—(L. *extra*, outside; Gk. *enteron*, gut) अन्न बहिस्थ । पाचन क्षत्र (*alimentary tract*) के बाहर स्थित ।
- extrafloral—(L. *extra*, outside; *flos*, flower) पुष्पबाह्य (मकरन्द कोष आदि) ।
- extrafolliaccous—(L. *extra*, outside; *folium*, leaf) पर्णबाह्य ।
- extragenic—जीव बाह्य ।
- extrafoveal—(L. *extra*, beyond; *fovea*, depression) बाह्यखातिकी ।
- extraintestinal—अंत्र बाह्य ।
- extralateral—बहिःपार्श्वीय ।
- extra membranous—कला बाह्य ।
- extranuclear—(L. *extra*, outside; *nucleus*, kernel) अण्डि बहिस्थ; न्यूक्लियस के बाहर ।
- extraocular—(L. *extra*, outside; *oculus*, eye) नेत्र बहिस्थ ।
- extraspicular—(L. *extra*, outside; *spicula*, small spike) बाह्य स्पीक्युली; ऐसे कंटक (स्पीक्यूल) युक्त जिसका एक छोर स्पंजिन (*spongin*) में घुसा होता है और एक स्वतंत्र ।
- extrastapedial—(L. *extra*, beyond; *stapes*, stirrup) स्टेपिडिल बहिस्थ ।
- extrastelar—(L. *extery*, outside; Gk. *stela*, column) रभ्यबाह्य ऊतक ।

extravaginal

extravaginal—(L. *extra*, outside; *vagina*, sheath) विधान बाह्य ।

extravasate—(L. *extra*, outside; *vas*, vessel) वाह्यवाहिनी; वाहिनीवाह्य ।

extraventricular—(L. *extra*, beyond; *ventriculus*, belly) वैन्द्रीकिल बाह्य ।

extremity—(L. *extremities*, limit) (?) अवयव; अनुबन्ध; हाथ पाँव । (२) अन्त (किसी अवयव जैसी रचना का) ।

extrinsic—(L. *extrinsecus*, on outside) बाह्य; बाहरी ।

extrorse—(L. *extrorsus*, outwardly) केन्द्र पराङ्मुखी; वहिमुखी; अक्षरेखा (axis) से अलग हटा हुआ ।

exudation—(L. *exudere*, to sweat) रिसन; रिसाव; प्रस्वेदन; निःस्रावण; निःस्राव; स्वेदस्राव; स्पंदन निर्यास ।

exumbral—(L. *ex*, out; *umbra*, shade) छत्र बहितली ।

exumbrella—(L. *ex*, out; *umbra*, shade) छत्र वहिस्तल ।

exuviae—(L. *exuere*, to put off) प्रपतनी; जन्तुओं की केंचुली (slough) कपूर (shells) आदि जो नरीर द्वारा प्रपतन (cast off) किये जाँएँ । [देखिये ecdysis]

exuvial—(L. *exuere*, to strip off) निर्मोकी ।

eye—(M. E. *ighe*) आँग; चक्षु; नेत्र ।

eye ball—चक्षु गोलक; अक्ष गोलक ।

eye brow—भौं; भ्रू ।

eyelash—पलक; बरीनी ।

eye lid—पलक; नेत्रच्छद ।

eye muscles—चक्षुपेशीयाँ ।

१—बाह्य चक्षुपेशीयाँ (extrinsic eye muscles) जो चक्षुगोलक (eye ball) के बाहर होती हैं तथा चक्षु गोलक को हिलाती हैं ।

२—आन्तर चक्षुपेशीयाँ (intrinsic eye muscles) जो चक्षुगोलक के भीतर होती हैं जैसे परितारिका या आइरिस (iris), और निनियापिण्ड (ciliary body) ।

eye sight—दृष्टि; नजर ।

eye spots—दृष्टि बिन्दु; नेत्रिका; दृक बिन्दु ।

eye stalk—नेत्रवृत्त ।

eye stone—नेत्राश्म ।

eye vesicle—नेत्र-आशय ।

F

First filial generation—प्रथम संतति-श्रेणी (पीढ़ी)। वंश परांपरा (heredity) पर प्रयोग करने के लिये जिन जन्तुओं से आरम्भ करते हैं, उन्हें पैत्रिक श्रेणी (P₁) कहते हैं उनकी संतान की प्रथम पीढ़ी को प्रथम संसति श्रेणी (S₁), द्वितीय पीढ़ी (अर्थात् प्रथम संतति श्रेणी की संतान) को द्वितीय संतति श्रेणी (S₂) और तृतीय पीढ़ी (अर्थात् द्वितीय संतति श्रेणी की संतान को) तृतीय संतति श्रेणी (S₃) कहते हैं।

fabella—(L. *fabella*, small bean) माषिका शिम्बिका। एक सूत्रोपास्थि (fibro cartilage) का नाम।

fabriform—(L. *faba*, bean; *forma*, shape) माषोपम। सेम के समान आकार वाला।

fabrician—(J. C. fabricius, danish entomologist) फब्रियोसियस का वर्गीकरण (classification); सन्धि पादों (arthropoda) का एक वर्गीकरण (classification) जो मुखांगों (mouth parts) की रचना पर आश्रित है।

face—(L. *facies*, face) चेहरा; आनन; फलक; पार्श्व; पहल।

facet—(L. *facies*, face) सन्धि-तल; योजक-तल फलक।

facial—(L. *facies*, face) आननी; चेहरे की।

faciation—(L. *facies*, face) विषमवास; उपसह-संघ।

facies—(L. *facies*, face) चेहरा; आनन।

facilitation—(L. *facilitas*, easiness) सुगमीकरण किसी पूर्व उत्तेजना के पश्चात्, उत्तेजना के प्रतिकार (resistance) में न्यूनता।

faciolingual—(L. *facies*, face; *lingua*, tongue) आनन-जिह्वा।

factor—(L. *facere*, to make) (१) कारक; अर्थात् जो किसी कार्य (effect or result) का सम्पादन करे।

२—मेंडेलीयकारक (mendelian factor) या जीन (gene) ३—निर्धारण (determinant)।

acceleration factor—त्वरण गुणक; त्वरण कारक; कोई कारक जो रुधिर आतंचन (थक्का बनने) को त्वरित करता है।

accessory food factors—अतिरिक्त (सहायक) खाद्य कारक।

external factor—वाह्य कारक; अंगों के वातावरण सम्बन्धी कोई भी कारक जैसे ऊष्मा, गुरुत्व (gravity) आदि

extrinsic factor—वाह्य कारक—देखिये विटामिन "बी₁₂"।

growth factor—वृद्धि कारक; खाद्य के वह रसायनिक रचक (constituents) निन्की कमी के कारण अंगी की सामान्य वृद्धि व वधन अवरुद्ध हो जाते हैं।

internal factor—आंतरिक कारक।

intrinsic factor—नैज कारक; आन्तर कारक; आभा-शय द्वारा उत्पन्न वह पदार्थ जो खाद्य के वाह्य कारक (विटामिन बी₁₂) से मिलकर प्रति अरक्तता तत्त्वों (antianemic principle) को प्रदान करता है। नैज कारक की कमी से प्रणाली रक्ताल्पता (pernicious anemic) की दशा होती है।

jarrell factor—जारल कारक; प्रभावी आनुवंशिक रुधिर कारक; इस कारक की कमी के कारण प्रतिरक्षी (antibody) की उपस्थिति से कभी-२ कैंसर की वृद्धि होती है।

lethal factor—घातक कारक; यह (gene) जो युग्मक (zygote) या जन्तु के लिये घातक होता है।

factorial—(L. *facere*, to make) आनुवंशिक कारक; जीन्स; परम्परा कण।

facultative—(L. *facultus*, faculty) विकल्प जीवी; विकल्पी। विभिन्न परिस्थितियों (different conditions) में रहने की योग्यता रखने वाला। ऐसे परजीवी (parasites) जो साधारणतया स्वावलम्बी (self dep-

endent) हों, परन्तु जो पूर्ण परजीवी (total parasite) या आंशिक परजीवी (semiparasite) जीवन विधि (mode of life) में उपयुक्तता (adaptation) स्थापित कर सकें ।

faeces—(L. faeces, dregs) विष्ठा; पुरीष; मल ।

falcate—(L. falx, sickle) दान्त्राकार; हँसिया या दराती (sickle) के आकार का ।

falces—(L. falces, sickles) चंचुलांग । अष्टपाद (अरेक्लिड—arachnids) का चंचुलांग (chelicerae) ।

falciform—(L. falx, sickle; forma, shape) दात्राकार ।

falciform ligament—दात्राकार बन्ध (लिगेमेंट) ।

falcula—(L. falcula, little hook) दात्रिका; नखरांकुश । दाती या हँसिये (scythe) की तरह का मुड़ा हुआ (curved) पंजा (claw) ।

falculata—(L. falcula, little hook) नखरांकुशी ।

fallopian—(L. fallopio, italian anatomist) फौलोपियन नलिका ।

false or sternal ribs—वक्षक-पशुकायें (पसलियाँ) । ऐसी पसलियाँ (ribs) जिनके निचले उपास्थिमय (cartilaginous) सिरे वक्षस्थि (sternum) से जुड़ कर वक्षक पशुका से जुड़े रहते हैं ।

falx—(L. falx, sickle) दात्राकार भंग (दृढ़च्छद-duramater का) ।

family—(L. familia, household) १—कुल; वर्गीकरण (classification) में एक विशेष विभाग । २—कुटुम्ब; परिवार ।

fan—(A. fann, fan) पुरच्छ; पंज (पक्षियों में); पंजा ।

fang—(A. S. fang, grip) फँग, बिष दन्त, नाँव आदि का जहरीला दाँत ।

faradisation (M. faraday, english physicist) कोरेंट विधि; उन्नेयता की यह विधि जिसमें आंशिक या पूर्ण टिटेनेस (tetanus) का रोग हो जाता है :

farina—(L. farina, flour) चूर्णक । कुछ द्रावी

(insects) के शरीर में पाया जाने वाला वारीक मक्क (powder) या चूर्ण ।

farinaceous—(L. farina, flour) मंडित; मंडित; चूर्णकी; महीन चिकनी मिट्टी सदृश धूल (चूर्ण) से मंडित (टकी हुई) ।

fascia—(L. fascia, band) पेशी बंधक; विधानक; आवरण पेशी को चारों ओर से घेरने वाला बन्धक ऊतक (connective tissue) ।

fascial—(L. fascia, band or bundle) विधानकी ।

fasciated—(L. fascia, bundle) धारीदार; संघटित ।

fasciation—(L. fascia, bundle) संघटित ।

fascicle—(L. fasciculus, small bundle) गुम्कक; पलिका; गुच्छ ।

fascicular—(L. fasciculus, small bundle) पूर्वी; पूर्वीय—जैसे कैम्बियम (एधा) ऊतक ।

fasciculus—(L. fasciculus, little bundle) गुम्कक; तंत्रिका सूत्रों (nerve fibres) का पुंज (group); पोडली (bundle) या क्षेत्र (tract) ।

fasciola—(L. fasciola, small bandage) पतली धागे (रग की); फांसआला ।

fasciole—(L. fasciola, small bandage) फांसिवाल; तंत्री पट्ट; कुछ शस्त्री जन्तुओं (echinods) में आसपास के भागों पर पानी धकेलने के निचे ।

fastigate—(L. fastigare, to slope up) शून्य शायत; मनानान्तर तथा माधी जाया युक्त ।

fat—(A. S. fett, fat) चर्बी; मेद; वसा; रसह; वषा ।

fat bodies—वसा पिण्ड ।

fatigue—(L. fatigare, to weary) थकान, थकान; किसी अंग की क्रियाकलाप पर बिना लम्बा उदात्तता के उत्पन्न प्रभाव ।

fauces—(L. fauces, throat) प्ररच्छ ।

fauna—(L. faunus, god of wood) जन्तु समूह; किसी देश (country), क्षेत्र (area) या जंगल (forest) में निवास के समस्त जन्तु ।

faunal region—जन्तु प्रदेश; कोई ऐसा क्षेत्र (area)

जिसमें किसी विशेष जाति समूहों के जन्तु पाये जाएँ।

favella—(L. *funus*, honey comb) करन्ड; लाल शैवाल (red algae) का करन्ड (conceptacle)।

faveolate—(L. *faveolus*, honey comb) करन्डोपम।

faveolus—(L. *faveolus*, small honey comb) गर्तिका।

favoid—(L. *favus*, honey comb) करन्डोपम; मधुकोशाभ।

favose—(L. *favus*, honey comb) करन्डीय।

feather—(L. *penna*, feather) पंख; पर; पर्ण; पक्ष; पिच्छ।

fecund—(L. *fecundus*, fertile) बहुप्रज; आशुप्रज।

fecundity—(L. *fecundus*, fertile) बहुप्रजता; आशुप्रजता; किसी जाति (species) की जल्दी-जल्दी या बहुत उत्पादन करने (multiply) की सामर्थ्य।

feeler—(L. *palpare*, to quiver) स्पर्श-तन्त्र।

female—(L. *femina*, woman) मादा; नारी।

female pronucleus—नारी पुराण्टि; नारीपुरा न्यूक्लियस।

femoral—(L. *femur* thigh जाँघिय; जाँघ-सम्बन्धी)।

femur—(L. *femur*, thigh) फीमर; जंघास्थि; जाँघ की हड्डी।

fenchone—(Gk. *fenchel*, fennel) फेन्चोन; C₁₀H₁₆O; एक कीटोन (ketone)।

fenestra—(L. *fenestra*, window) गवाक्ष; (१) किसी हड्डी से या दो हड्डियों (bones) के बीच स्थित झिल्ली (membrane) या दन्धक ऊतक (connective tissue) से ढका हुआ स्थल (space)। (२) तिलचट्टा या कोकरोच (cockroach) के सिर पर स्थित एक गड्ढा। (३) कीटों (insects) के पंखों (wings) में पारदर्शक (transparent) बिन्दु (spot)।

fenestrate—(L. *fenestra*, window) गवाक्षीय; गवाक्षित; झरोखेदार।

fenestrule—(Dim of L. *fenestra*, window) लघु-गवाक्ष; लघु गवाक्ष; लघु त्रिवृत्ति (opening); पौली जोमा निवह (polyzoan colony) की शाखाओं के बीच छोटे-२ गवाक्ष (openings)।

feral—(L. *fera*, wild animal) जंगली; वन्य।

ferment—(L. *fermentum*, ferment) खमीर; क्षोभक (रस)।

fermentation—(L. *fementum*, ferment) क्षोभन; भिक्षोभ; खमीर उठाना; किण्वन। कार्बनिक पदार्थों का जीवाणुओं (organisms) विशेष कर वैकटीरिया और यीस्ट (yeast) द्वारा अपघटन—जैसे मद्य (wine) निर्माण में यीस्ट द्वारा शर्करा (sugar) का अपघटन इथाइल अल्कोहॉल (ethyl alcohol) और कार्बन डाइ-आक्साइड बना कर किया जाता है या सिरका (vinegar) के निर्माण हेतु इथाइल अल्कोहॉल का अपघटन एसिटिक अम्ल (acetic acid) बनाकर किया जाता है।

ferruginous—(L. *ferrugtnus*, rusty) जंकोपम; लोहमय।

fertile—(L. *fertilis*, fertile) उत्पादनक्षम्य; उर्वर; जननक्षम्य। सन्तति उत्पन्न करने की योग्यता या सामर्थ्य रखने वाला। (२) उपजाऊ; (३) फलदा।

fertilisation—(L. *fertilis*, fertile) निषेक; निषेचन; नर (male) और नार (female) पुराण्टियों या प्राक्के द्रन्फ (pronuclei) का संयोग (union)। निषेचन दो प्रकार का होता है। (१) स्वनिषेचन (selffertilisation) जिसमें एक ही व्यक्ति से जीन आते हैं। (२) पर निषेचन (cross fertilisation) जिसमें दो विभिन्न व्यक्ति अर्थात् पितृ से जीन आकर मिलते हैं। निषेचन में दोअभिमुखतियाँ (aspects) होती हैं एक तो दो अणु-णित (haploid) न्यूक्लियाई (nuclei) का संयोग और दूसरे एक नवीन व्यक्ति के वर्धन का समारंभन (initiation)।

निषेचन मादा के शरीर के अन्दर या बाहर होता है। जब बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन (external fertili'sation) कहते हैं जैसे जल स्थल चर या

- ferruginous**—(*L. ferruginus*, rusty) जंकोपम; लोहमय ।
- fertile**—(*L. fertilis*, fertile) उत्पादनक्षम्य; उर्वर; जननक्षम्य । (१) सन्तति उत्पन्न करने की योग्यता या सामर्थ्य रखने वाला । (२) उपजाऊ । (३) फलद ।
- fertilisation**—(*L. fertilis*, fertile) निषेक; निषेचन; नर (male) और नारी (female) पुराण्टियों या प्राक्केन्द्रक (pronuclei) का संयोग (union) ।
- fertilised**—(*L. fertilis*, fertile) निषिक्त; निषेचित ।
- fertility vitamin**—टोकोफरोल; विटामिन 'ई' ।
- fertilizin**—(*L. fertilis*, fertile) फरटीलाइजिन; घुलनशील कलल पदार्थ जो कुछ अण्डे (eggs) उत्पन्न करते हैं और जिससे शुक्राणुओं का एकत्रीकरण तथा द्विम्व विभाजन आरम्भ होता है ।
- fetlock**—(*Icel. fet*, step; *lokka*, tuft of hair) पेस्टर्न रोमगुच्छ; अश्व में पेस्टर्न सन्धि के पीछे पाया जाने वाला रोम गुच्छ ।
- fibre**—(*L. fibra*, band) सूत्र; रेशा; तन्तु ।
- fibril, fibrillae**—(*L. fibrilla*, small fibre) सूत्रिका; तंतुक ।
- fibrillate**—(*L. fibrilla*, small fibre) सूत्रिका युक्त ।
- fibrin**—(*L. fibra*, band) फाइब्रिन; रक्त का थक्का बनने के पश्चात् पाया जाने वाला अनघुलनशील प्रोटीन जिसका पाचन, आमाशयिक रस में सरलता एवं शीघ्रता से हो जाता है ।
- fibrinogen**—(*L. fibra*, band; Gk. *genos*, descent) फाइब्रिनोजन; रक्त की घुलनशील प्रोटीन जो थ्रोम्बिन की क्रियाशीलता से फाइब्रिन बनाकर रक्त का थक्का बनाती है ।
- fibroblast**—(*L. fibra*, band; Gk. *blaschos*, band, फाइब्रोब्लास्ट; बन्धक ऊतक कोशिकाएँ जैसे फाइब्रोसाइट (fibrocyte) डेस्मोसाइट (desmocyte) आदि ।
- fibro-cartilage**—(*L. fibra*, band; *cartilago*, gristle) सूत्रोपास्थि ।
- fibrous**—(*L. fibra*, band) सूत्री; सूत्रयुक्त; रेशेदार ।
- fibula**—(*L. fibula*, buckle) फिबुला; पिण्डली (shin) की छोटी और बाहरी हड्डी; बहिर्जंघिका ।
- fibulare**—(*L. fibula*, buckle) फिबुलर; अन्तःगुल्फिका; गुल्फ (tarsus) की समीपस्थ पंक्ति (proximal row) का बाहरी टुक या तत्व (element) ।
- field**—(*A. S. feld*, the open country) क्षेत्र; खेत; स्थान ।
- filament**—(*L. filum*; thread) सूत्र; तन्तु ।
- filial cell**—संतान कोशिका ।
- filial generation**—संतति श्रेणी (पीढ़ी); संतानीय पीढ़ी ।
- filial regression**—संतति परावर्तन; सतानीय प्रतिक्रमण; प्रमुख पितरों (outstanding parents) से उत्पन्न सन्तति (offspring) की अपने लक्षणों में जाति प्रकार (species) की सामान्य अवस्था (average) की ओर लौट जाने वाली प्रवृत्ति (tendency) ।
- filiation**—वंशाग्र तत्व ।
- filicaoline**—(*L. filum*, thread; *candis*, stalk) सूत्रोपम स्तंभी ।
- filiciform, filicoid**—(*L. filix*, fern; *forma*, shape; Gk. *eidos*, form, फर्नवत; फर्नोपम; फर्नसदृश; पर्णांगोपम; पर्णांग (फर्न) सदृश ।
- filicoid**—पर्णांगभ; फर्नाभ ।
- filiform**—(*L. filum*, thread; *forma*, shape) सूत्राकार; सूत्रोपम; तंतु रूप ।
- filiform papillae**—सूत्रोपम कूट ।
- filigerous**—(*L. filum*, thread; *gerere*, to carry) सूत्रोपम कषी ।
- filippi's glands**—फिलीपी ग्रन्थियाँ; बाहिनी युक्त युगल कौशेय ग्रन्थि (silk gland) जो चिक्कण (viscid) स्राव को कौशेय नलिकाओं में पहुँचाती हैं ।
- fillet**—(*L. filum*, thread) श्वेत पदार्थ पट्ट (मस्तिष्क में) ।
- filoplume**—(*L. filum*, thread; *pluma*, feather) रोमपर्ण । बाल सरीखा पतला पर (feather) जिसका अक्ष (axis) लम्बा और अगले सिरे पर कुछ थोड़े तंत्रों (barbs) से युक्त होता है ।
- filopodia**—(*L. filum*, thread; Gk. *pous*, foot) सूत्रास्थायी पाद; सूत्रपादाभ । कुछ एक कोशिकाओं (प्रोटोजोवा-*protozoans*) में पाए जाने वाले सूत्रोपम अस्थायी पाद (pseudopodia) ।

filose—(L. *filum*, thread) सूत्राकार; तागे जैसा वारीक ।

filter—passers निस्पंदन बंगी; ऐसे बंगी जो चालनी में से निकल जाते हैं जैसे वाइरस (virus) ।

filterable virus—निस्पंदी वाइरस (विषाणु) ।

filum terminale—नुयुम्नांत ।

fimbria—(L. *fimbria*, fringe) झल्लरी; कोई झालर नुमा (fringe-like) रचना (structure) ।

fimbriated—(L. *fimbria*, fringe) झालरदार; झल्लरी युक्त ।

fin—(A. S. *finn*. *fin*) फिन; क्षेपणी ।

finger—(A. S. *finger*) उँगली; अँगुली ।

finials—(L. *finis*, end) अन्त्यास्थिक । कुमुदोपम-जन्तुओं (crinoids) में दूरस्थ शाखाओं (distal rami) के अस्थिक (ossicles) जो फिर विभक्त नहीं होते ।

fin rays—क्षेपणी किरण; फिन की किरणें ।

fish—(L. *piscis*, fish) मस्य; मीन; मछली ।

fissilingual—(L. *fissus*, cleft; *lingua*, tongue) द्विभक्त जिह्वी ।

fission—(L. *fissus*, cleft) भंजन । किसी एक कोशकीय (unicellular) जन्तु का दो या अधिक भागों में विभक्त होना ।

fissiparous—(L. *fissus*, cleft; *parere*, to beget) भंजनीत्पादी । भंजन (fission) द्वारा उत्पादन (reproduction) करने वाला ।

fissiped—(L. *fissus*, cleft, *pes*, foot) दीर्घपद । अर्धात् अंगुलियों (digits) में विभक्त चरण या पद (foot) वाला ।

fissirostral—(L. *fissus* cleft; *rostrum*, beak) दीर्घ चबु ।

fissure—(L. *fissus*, cleft) दरार; दरप ।

fistula—(L. *fistula*, pipe) प्रणालीपम; नालखोब; नाल खण; नालीदार (पाइप तट्ट) जट्टम ।

fix, *fixing*—(L. *fixus*, fixed) हट्ट करना; संस्थापन करना । मजीब ऊतकों (tissues) को किसी रासायनिक विधि (chemical method) से मार कर दयावत् रूप में स्थापित करना ।

flabellate—(L. *flabellare*, to fan) व्यजनोपम;

flabelliform—(L. *flabellum*, fan; *forma*, shape) व्यजनोपम; व्यजनाकार ।

flabellinerved—(L. *flabellum*, fan, *nervus*: sinew) किरणवातनन: विकिरण पर्ण: अनेक विकिरण पिरायुक्त पर्ण ।

flabellum—(L. *flabellum*, fan) व्यजनिका ।

flagellata—(L. *flagellum*, whip) अक्षकणाधारी । कणाधारी (mastigophora) वर्ग (class) का एक गण (order) ।

flagellate—(L. *flagellum*, whip) कषी; कक्षाधारी ।

flagelliform—(L. *flagellum*, whip; *forma*, shape) कक्षोपम ।

flagellula—(L. *flagellula*, dim. of *flagellum*, whip) कक्षारेणु; कक्षाधारी (flagellate) रेणुजन्तु (zoospore) ।

flagellum—(L. *flagellum*, whip) कक्षा तन्त्र ।

flame cells—लोलान्तकोष्ठ । कृमियों (worms) के विसर्जन संस्थापन (excretory system) की शाखाओं (branches) के अन्तिम (terminal) कोशिका या सेल (cells) जिनका कोटर (cavity) नली (duct) के अन्तः स्थल (lumen) से मिला रहता है और इनके अन्दर एक तन्त्र (cilium) या तंत्र गुच्छ (bunch of cilia) रहता है । इन तन्त्रों की गति (movement) दिग्ने की बत्ती की तरह चंचल (लोलित) प्रतीत होती है ।

flavescent—(L. *flavescere*, to turn yellow) पीला होते जाना ।

flavia—(L. *flavus*, yellow) पित्तवर्धन । कोशिकों का पीला रंग ।

flavoxanthin—(L. *flavens*, yellow; Gk. *xanthos*, yellow; पित्तवर्धन; पीला रंजक पदार्थ, पन्धियों आदि में); $C_{12}H_{22}O_2$ ।

flatworms—पट्ट कृमि; पट्ट देही (जन्तु); पित्तवर्धन ।

flea—(A. S. *fleas*) पिम्पु; चिन्नी ।

flex—(L. *flexere*, to bend) मोचना; अवनत करना ।

flexor—(L. *flexus*, bent) अवनत करने वाला; अवनत करने वाला ।

flexor plate—अवनत पट्ट; अवनत पेट्ट, बोटी में अवनत पट्ट

flexuous—(L. *flexus*, bent) अक्रामय वक्री; अक्रामिक घुमाव वाला ।

flexure—(L. *flexus*, bent) गति; वक्रता; घुमाव ।

float—(A. S. *flota*, ship) प्लवन ।

floating ribs—उन्मुक्त या स्वतन्त्र पशुका ।

floccose—(L. *floccus*, a lock of wool) गुम्फिकीय; लोमश; ऊन सदृश गुच्छों से ढका हुआ ।

floccular—(L. *floccus*, lock of wool) गुम्फिका-; गुम्फिकीय; गुम्फिका-सम्बन्धी ।

flocculence—(L. *floccus*, lock of wool) पत्रक; फलक; संस्तर ।

flocculent—(L. *floccus*, lock of wool) ऊर्णी; लोमश; ऊर्ण गुच्छकीय ।

flocculus—(L. *floccus*, lock of wool) गुम्फिका । (१) सेरिबेलम (*cerebellum*) के प्रत्येक पार्श्वीय दल (lateral lobe) पर स्थित एक छोटा सा दल; (२) कुछ तनुपक्षों (*hymenoptera*) में पाया जाने वाला एक पिछला (*posterior*) बालदार (*hairy*) गुच्छा (*tuft*) ।

floccus—(L. *floccus*, lock of wool) पुच्छ गुम्फ; पूँछ के अन्तिम भाग (सिरे) पर स्थित बालों का गुच्छा । (२) रोम पक्ष (पक्षियों के बच्चों में) ।

flora—(L. *flor*, flower) वनस्पति समुदाय । किसी देश (*country*), क्षेत्र (*area*) या काल (*period*) की वनस्पतियाँ (पौधे) ।

floral—(L. *flor*, flower) (१) पुष्पीय; पुष्प । (२) वनस्पति समुदाय सम्बन्धी ।

florescence—(L. *florescence*, to begin to flower) पुष्पणकाल ।

floret—(L. *flor*, flower) पुष्पक; कम्पोजिटी पुष्प का एक फूल ।

floricome—(L. *flor*, flower, *coma*, hair) प्रसूनो-पत्र (स्पीक्यूल); पुष्पिका (स्पीक्यूल); एक प्रकार का शाखीय षट् तारा (*hexaster*) स्पीक्यूल ।

florigen—(L. *flor*, flower; *gignere*, to produce) प्लोरिजेन; पुष्प-हार्मोन; ऐसा हार्मोन (पादप पदार्थ) जो कलियों को पुष्प बनने हेतु प्रोत्साहित करता है ।

florigenic—(L. *flor*, flower; *gignere*, to produce) प्लोरिजेनिक; पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ विशेष जो पौधे को पुष्प धरण करने हेतु उत्तेजित करता है ।

floscelle—(L. *flosculus*, little flower) प्रसून मुख । मुख के चारों ओर स्थित फूल नुमा बनावट शल्लियों (*echinoids*) में ।

floss—(O. F. *flosche*, down) मृदुलोमी या कौशिय पदार्थ; कौशिय दूक (कोकून में) ।

flower—(L. *flos*, flower) पुष्प; प्रसून; फूल, पुष्प एक परिवर्तित प्ररोह; पर्ण प्ररोह (*shoot*) जो उत्पादन कार्यों के हेतु अनुकूलित होता है ।

fluctuating—दोलायमान; अनवस्थित ।

fluvial—(L. *fluvialis*, pert; river) नादेय; नदी-सम्बन्धी; सरितावांसी । नदी में या नदी के आसपास रहने वाला ।

fluvialmarine—(L. *fluvius*, stream; *mare*, sea) सागर सरिदासी ।

fluvialterrestrial—(L. *fluvius*, stream; *terra*, land) सरिदभूमिक; नदियों और उनके निकट की भूमि (*land*) में पाया जाने वाला ।

flux—(L. *fluere*, to flow) अस्थायी दशा; वह जाति (*species*) जो अभी तक स्थायी (*stable*) रूप में नहीं आई हैं ।

foetal—(L. *foetus*, offspring) भ्रौणिक ।

foetid glands—दुर्गन्ध ग्रन्थियाँ । छोटी धैलीनुमा (*sac-like*) ग्रन्थियाँ (*glands*) जो दुर्गन्ध युक्त द्रव (*ill smelling fluid*) बनाती हैं [कुछ षटपादों (*insects*) में] ।

foetus—(L. *foetus*, offspring) भ्रूण । अण्डे (*egg*) या माता के (*womb*) गर्भ में स्थित शिशु ।

fold—(A. S. *fealdon*, to fold) भाँज; सिलवट; शिकन; फलेट; तह ।

foliaceous—(L. *folium*, leaf) पर्णोपम, पर्णाकार; पत्राकार; पर्णिल ।

foliar process—(E. *folli* or *folius*, italian anatomist) फोलियन प्रवर्धन; जैसे—मेलियस (*malleus*) अस्थिक का अग्र प्रवर्धन (*process*) ।

foliar—(L. *folium*, leaf) पर्णी ।

foliate papillae—पत्राकार कूट; पर्णिल पौपिला ।

foliobranchiate—(L. *folium* leaf; Gk. *branchia*, gills) पर्णगिली; पत्र गिली; पत्ते जैसे गिल (*gills*) वाला ।

foliolae—(L. *folium*, leaf) पत्राङ्गः अंतःपत्र (शीलम-
telum) के पत्ती सदृश अवयव या अनुबन्ध (appen-
dages) ।

foliolate—(L. *folium*, leaf, पत्रकांग (leaflet
like): पत्रकांगी (having leaflets) ।

foliose—(L. *folium*, leaf) बहुपत्रोः बहुत सी पत्तियों
वाला ।

folium—(L. *folium*, leaf) फोलियमः सेरेबिलम
(cerebellum) में एक चपटी रचना, जिसके पार्श्वीय
भाग (lateral part) बढ़ कर ऊर्ध्व चन्द्रार्ध पानियों
(superior semilunar lobules) बनाते हैं ।

follicle—(L. *folliculus*, small sac) कोषकः कूटः
गर्तः पुटकः डिम्ब (ovum) या रोम (hair) रूप ।

follicular—(L. *folliculus*, small sac) कोषकीयः
कोषक (follicle) सम्बन्धी ।

folliculose—(L. *folliculus*, small sac) कोषकीयः
कूप गर्तकीय ।

fontanelle—(F. *fontanelle*, little fountain) रन्ध्रः
कलांतरालः कपाल (cranium) की अस्थियों में कला
(membrane) युक्त या कला से ढके हुए रन्ध्र (gaps) ।

fonticulus—(L. *fonticulus*, dim. of *tons*,
fountain) (१) रन्ध्रः (२) स्टनन के अग्रछोर का
गर्तः (३) जुगुलर भंग (notch) ।

food vacuole—साय कुण्डिकाः साय-रिक्तकाः एक
कोशिक (प्रोटोजोआ) में पाई जाने वाली कुण्डिका या
रिक्तिका (vacuole) जिसमें श्व और साय पदार्थ होते
हैं ।

foot—(A. S. *for*, foot)

(१) पोषण-संरचनाः संवहनी शिष्टोपैतो (vascular
cryptogams) में भ्रूणिक संरचना (embryonic
structure) जिसके द्वारा प्रोथैलस (prothallus) ने
पोषण पदार्थ लिए जाते हैं ।

(२) उद्भिद आधारभूतः मांस (mass) के बीजाणु
उद्भिद (sporophyte) का अधरिक्त भाग या
आधारभूत (basal portion) ।

(३) शरणाः पादः पविः शक्तिशाली अंग (अनुभूति में),
दृक्-शक्तिशाली में शक्तिशाली पाद (tube roots): कवची
में शक्तिशाली पाद (muscular foot), अंग कवचियों में
शरणा या पादः शीटी में शरणा (L. *radix*) ।

foramen—(L. *foramen*, opening) छिद्रः अन्वि
छिद्रः बीजाणु (ovule) चोनों का छेद ।

foramen of monro—मनरो (एक र्थमानिच का नाम)
का छिद्र ।

foramen magnum—महाछिद्रः बृहदछिद्रः फोरामन
मैगनम ।

foraminate (L. *foramen*, opening) रन्ध्र युक्त ।

foraminiferous—(L. *foramen*, opening: *ferre*,
to carry) रन्ध्रधारीः छिद्रधारी ।

forceps—(L. *forceps*, tongs) चिमटीः शरणिनाः
नक-चूरीः मुचुटी ।

forcipate—(L. *forceps*, tongs) शरणिना काः
चिमटी सदृश ।

forcipulate—(dim. of L. *forceps*, tongs) शरणिना
कार ।

forearm—प्रकोष्ठः कुहनों के नीचे वाला भाग ।

fore brain—अग्र मस्तिष्क ।

fore finger—तर्जनी ।

fore gut—अग्रान्द ।

fore head—तलाट ।

fore limb—अग्रपादः अग्रान्ता अवयवः अग्रिम अवयव ।

fore spore—अग्रस्पोरः वैनटीरिया में अन्तर्बीजाणु
(endospore) की पूर्व स्थिति ।

forfex—(L. *forfex*, sheers) फोरफेक्सः कीटों में
एक युग्म गुदांगों का जो अनुप्रस्थ गुलने व बन्द होते हैं ।

forficate—(L. *forfex*, sheers) भंगः गहरा कटा
हुआ ।

form—(L. *forma*, shape) रूपः आकृतिः आकारः
शक्ल ।

forma—(L. *forma*, shape) र्थान्तरकारी, र्थान्तराति
र्थान्तरण में सबसे छोटी र्थान्तर (जन्म) ।

formation—(L. *forma*, shape) निर्माणः रचना-
कला ।

formative (L. *forma*, shape) निर्माणः निर्माण
कारी ।

formicarium—(L. *formica*, ant, शिकीरिया अंग
(कृमि, जो शरणा के लिये निर्मित शिवाः पदार्थ में) :

formicated—(L. *form*, *arm*, vaulted) भ्रूणभूत
भ्रूणः भ्रूणभूत ।

fornix

- fornix**—(L. *fornix*, vault) फॉनिक्स; चापिका ।
fossa, fosse—(L. *fossa*, ditch) खात; परिखात ।
fossette—(F. *fossette*, small from L. *fossa*, ditch) खातिका ।
fossil—(L. *fossilus* dug up) फॉसिल; जीवाश्म ।
fossiliferous—(L. *fossilus*, dug up; *ferre*, to carry) जीवाश्ममय ।
fossilification—(L. *fossilus*, dug up) जीवाश्मीकरण ।
fossorial—(L. *fossor*, digger) खननी ।
fossula—(Dim. of L. *fossa*, ditch) लघुखात; लघुगर्त ।
fossulate—(Dim of L. *fossa*, ditch) लघुखात युक्त; खातिकी ।
fossulet—(Dim of L. *fossa*, ditch) अपकर्षण; संकीर्ण पात ।
fovea—(L. *fovea*, depression) खात; खातिका; कोई छोटा गड्ढा; खात (*fossa*) या अन्दर को दबा हुआ स्थल (depression) ।
fovea centralis (depression)—केन्द्र खातिका ।
foveate—(L. *fovea*, depression) खातिका युक्त ।
foveola—(L. *foveola*, small pit) अस्थि खातिका; किसी हड्डी में उथला (shallow) गढ़ा ।
foveolate—(L. *foveola*, small pit) खातिका युक्त; अस्थि खातिकार्ये ।
fragmentation—(L. *frangere*, to break) खण्डता ।
free—(A. S. *freo*, acting at pleasure) अलग; युक्त ।
free central placentation—मुक्तस्तम्भीय बीजाण्डन्यास; इसमें बीजाण्ड (ovule) केन्द्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं ।
free living—(A. S. *fero*, acting at pleasure) मुक्त जीवी ।
free-martin—फ्रीमार्टिन (जुड़वाँ); बन्धय मादा का नर के साथ जुड़वाँ होना ।
freely movable—उन्मुक्तगामी (—चर) ।
free swimming—मुक्त प्लावी ।
frenate—(L. *frenum*, bridle) प्रग्रही; फ्रेनुलम युक्त ।
frenulum—(L. *frenulum*, dim. of *frenum*, bridle) फ्रेनुलम ।

- frenum**—(L. *grenum*, bridle) फ्रीनम ।
freshwater—असामुद्रिक जल; स्वच्छ जल; सरिता जल ।
frog—मण्डक; मेंढक ।
frond—(L. *frons*, leafy branch) फ्रॉड; (१) फर्न या ताड़ (*palm*) की पत्ती विशेष; (२) कुछ समुद्री शैवाल (सी-वीड्स sea-weeds) का थैलस (*thallus*) ।
frondescence—(L. *frondescere*, to put forth. leaves) पर्ण वर्धन; पत्तियों का परिवर्धन (विकास) ।
frons—(L. *frons*, forehead) ललाटिका ।
frontal—(L. *frons*, forehead) ललाट; ललाट-सम्बन्धी; मस्तिष्कीय ।
frontal bone—ललाटास्थि ।
frontal lobe—ललाट-दल ।
frontal pole—ललाट-ध्रुव ।
frontal section—पटलम्व कर्तन (काट) ।
frontal sinus—ललाट-कुल्या ।
frontocarebellar fibres—ललाट-प्रमस्तिष्कीय सूत्र ।
frontoclypeus—(L. *frons*, forehead; *clypeus*, shield) ललाटिका-क्लिपियस । ललाटिका (*frons*) और क्लिपियस (*clypeus*) संलयित (fused) (कीटों-insects में) ।
fronto-ethmoidal—फ्रन्टल-इथमोइडल (सेवनी); ललाट-झर्झरास्थि सम्बन्धी ।
fronto-nasal—(L. *frons*, forehead; *nasus*, nose) ललाट-नासीय; ललाट और नासा क्षेत्र से सम्बन्धित (नलिकार्ये और प्रवर्ध) ।
fronto spheroidal—(L. *frons*, forehead; Gk. *sphen*, wedge, *eidōs*, form) ललाट स्फीनोइडल; जाइगोमेटिक अस्थि का एक प्रवर्धन जो फ्रन्टल (*frontal*) से जुड़ता है ।
fructiferous—फलधारी ।
fructification—(L. *fructus*, fruit; *facere*, to make) फलन ।
fructose—(L. *fructus*, fruit) फल-शर्करा ।
frugivorous—(L. *frux*, fruit; *vorare*, to devour) फलाहारी ।
fruit—(F. *fruit*, from L. *fructuos*, fruit) फल; पीठे की निषिक्त एवं विकसित डिम्बाशय (*ovary*) ।

frustule—(L. *frustulum*, small fragment) फ्रस्ट्यूल; डायएटम (diatom) का टिकैवची कर्पर तथा प्रोटोप्लाज्म ।

frutescent—(L. *frutex*, shrub) झाडीनुमा; धुपोपम ।

frutex—(L. *frutex*, shrub) झाडी; धुप ।

fruticose—(L. *frutex*, shrub) धुपिल ।

fruticulose—(L. *frutex*, shrub) लघु झाडी सदृश; लघु धुपोपम; धुपादि; धुपिका सम ।

fucivorous—(L. *fucus*, rock lichen; *vorere*, to devour) समुद्रकुवृण हारी ।

fucoid—(L. *fucus*, rock lichen; Gk. *eidos*, form) समुद्री शैवालोपम ।

fucosam—(L. *fucus*, rock lichen) प्यूकोसन; कार्बन समीकरण का उत्पाद (भूरे समुद्री शैवाल में) ।

fucoxanthin—(L. *fucus*, rock lichen; Gk. *xanthos*, yellow) प्यूकोजैन्थिन; समुद्री शैवाल का पीला रंज्य पदार्थ ।

fugacions—(L. *fugax*, swift) आशुपाती, शीघ्र गिर जाने वाले ।

fulcral—(L. *fulcrum*, support) आलम्बी; फल्कम; सहायी । हाइमेनोप्टेरा (Hymenoptera) में शूकिकायों (stylets) की गति को सहारा देने वाली त्रिकोणक ज्लेटें ।

fulcrate—(L. *fulcrum*, support) फल्कम युक्त; आलम्बी ।

fulcrum—(L. *fulcrum*, support) फल्कम; आलम्ब ।

function—(L. *functus*, performed) कार्य; व्यापार; व्यवसाय; प्रकार्य; अभिलक्षक ।

functional—(L. *functus*, performed) (१) कार्य या व्यापार सम्बन्धी; कार्यकारी । (२) नायक ।

functionless vestiges—कार्यहीन अवशिष्ट ।

fundatrix—(L. *fundere*, to produce) स्वम्भी मादा । नये जन्तु-मण्डल (colony) को अण्ड स्थापन (oviposition) द्वारा स्थापित करने वाली मादा ।

fundiform—(L. *funda*, sling; *forma*, shape) गोफनाकार ।

fundus—(L. *fundus*, bottom) फंडम, अङ्गमूल, जैसे आमाशय (stomach) मूत्राशय (urinary bladder) आदि में ।

fundus uteri—गर्भाशय-मूल ।

fungicidal—कवकनाशी ।

fungicolous—(L. *fungus*, mush room; *colere*, to inhabit) फन्गसवासी; कवकवासी ।

fungiform—(L. *fungus*, mush room; *forma*, shape) कवकवत्; कवकोपम; कवक सदृश ।

fungine—(L. *fungus*, mush room) फून्जाइन; कवक की कोशिका भित्ति बनाने वाला काइटिन पदार्थ ।

fungistatic—(L. *fungus*, mush room; Gk. *statikos*, causing to stand) कवकावरोधक ।

fungivorous—(L. *fungus*, mush room, *vorare*, to devour) कवक भोजी ।

fungous—(L. *fungus*, mush room) कवकोपम ।

funicle—(L. *funiculus*, small cord) रज्जुतार; बीजाण्ड वृत्त ।

funicular—(L. *funiculus*, small cord) रज्जुतार; रज्जुका; रज्जुका सम्बन्धी; बीजाण्ड वृत्ती ।

funiculus—(L. *funiculus*, small cord) रज्जुतार; सुषुम्ना के श्वेत पदार्थ का कोर एक विषयी, शीघ्र या प्रस्थीय स्तम्भ ।

funnel—(L. *fundibulum*, funnel) फणेल; कीपाकार ।

furca—(L. *furca*, fork) फर्का; फीट—(insects) में पाई जाने वाली रचना विशेष; द्विगिर ।

furcal—(L. *furca*, fork) फर्का युक्त; जारतीय तंत्रिका ।

furcate—(L. *furca*, fork) अफनाशित ।

furciferous—(L. *furca*, fork; *ferre*, to carry) दोर्णाङ्गी; चिरे हुए अङ्गव (forked appendage) वाला (कीट—insect) ।

furcula—(L. *furcula*, dim. of *furca*, fork) टरकुला; विनाम ।

fur—(O. Fr. *forte*, sheath) मयूर; मोती ।

fuscin—(L. *fuscus*, tawny) पद्मिन, टेडीला अफिन्डर का भूरा वर्ण ।

fuscan—(F. *fuscan*, from L. *fuscus*, spangle) बुकं मन आहति ।

fused—(L. *fundere*, to melt) मलिन; मर्जित ।

fusi

fusi—(*L. fuscus, spindle*) वायक; मकड़ियों (*spiders*) में पाये जाने वाले संकुचन शील (*retractile*) प्रवर्धन (*process*) जो तारों (*threads*) बनाते हैं।
fusiform—(*L. fuscus, spindle; forma, shape*) तर्कुटाकार; तर्करूप।

fusion—संलय; विलयन।

fusion nucleus—संलयाण्टि; संयुक्त न्यूक्लियस।

fusulae—(*Dim. of L. fuscus, spindle*) गड़ारी; सूक्ष्म तर्कु; वायन ग्रन्थि (*spinneret*) की गड़ारी (तागा लपेटने वाली)।

G

Galactose—(*Gk. gala, milk*) गैलेक्टोज: दुग्ध क्षोभक; दूध में पाया जाने वाला ट्रिपसिन (*trypsin*) समान क्षोभक रस (*enzyme*)।

galactin—(*Gk. gala, milk*) गैलेक्टिन: दुग्धोद्दीपक।

galactoblast—(*Gk. gala, milk; blastos, bud*) दुग्धज; वसायुक्त ग्लोब्यूल (गोलिका)।

galactophorous—(*Gk. gala, milk; pherein, to carry*) दुग्धधारी: दुग्धवाहिनी।

galactose—(*Gk. gala, milk*) दुग्ध शर्करा: गैलेक्टोस।

galactosis—(*Gk. gala, milk*) दुग्ध स्राव; दुग्ध स्रवण।

galactotropic—(*Gk. gala, milk; tripe, turn*) दुग्धस्रावक (हार्मोन) जैसे प्रोलेक्टिन।

galbulus—(*L. galbulus, cypress nut*) गाल्ब्युलस; मांसल शंकु। मांसल शल्क युक्त परिवर्तित शंकु जैसे साइप्रस (*cypress*) पौधों में।

galea—(*L. galea, helmet*) उष्णीष; गैलिया; शिरस्त्राणाकार दल (पंखुड़ी)।

galeate—(*L. galea, helmet*) उष्णीषाकार: उष्णीषोपम; उष्णीय-युक्त: औष्णीषिक।

gall—(*A. S. gealla, gall*) पित्त; यकृत-स्राव; पिट्टिका; मायु; स्राविक जमाव।

gall-bladder—पित्ताशय।

galloxanthin—(*L. gallus, cock; Gk. xanthos, yellow*) कुक्कुट पीनक; गैलोजेन्थिन: कुक्कुट के रेटीना जकु से सम्बन्धित कैरोटिनोइड रंज्य (वर्ण)।

galvanotaxis, galvanotropism—(*L. galvani, italian physiologist*) विद्युत्ज वृत्ति।

gametal—(*Gk. gametes, spouse*) जन्मु-; जन्मु सम्बन्धी: जन्मु का।

gametangium—(*Gk. gametes, spouse; anggeion, vessel*) युग्मकधानी; गैमिटैन्जियम; लैंगिक कोशिका उत्पन्न करने वाली रचना।

gametes—(*Gk. gametes, spouse*) जन्मु; जननाणु; निपेकाणु; गैमीट्स (युग्मक)। वह उत्पादन कोशिका जिसका न्यूक्लियस दूसरे गैमीट (युग्मक) के न्यूक्लियस के साथ संयोग कर जाइगोट (युग्मनज) बनाता है और जो वर्धित होकर नवीन व्यक्ति का रूप लेता है। ये मादा युग्मक (डिम्ब) और नर युग्मक (शुक्राणु) होते हैं। यह संलयित होकर युग्मनज (जाइगोट) बनाते हैं। कुछ जन्तु और पौधे ऐसा युग्मक (जो मादा होता है) बनाते हैं जो बिना निपेक के (जैसे अनिपेक जनन-*parthenogenesis*) में नवीन व्यक्ति वर्धित हो जाते हैं। ऐसे युग्मक दुगुणित (*diploid*) होते हैं।

gametic—(*Gk. gametes, spouse*) जान्यव; जान्य विक; युग्मकी।

gametids—(*Gk. gametes, spouse*) प्रजन्युज; प्रमुख जन्मुज नौ जन्मु (*gametes*) बन जाता है।

gametoblast—(*Gk. gametes, spouse; blastos, bud*) जन्मुज।

gametocyst—(*Gk. gametes, spouse; kystis, bladder*) जन्मु कोषिका।

gametocyte—(*Gk. gametes, spouse; kytos, hollow*) जनन कोषिका; जन्मु मातृ कोषिका; युग्मक जनक।

gametogenic—(*Gk. gametes, spouse; genos, descent*) स्वविभिन्नतायें; युग्मक के गुण सूत्रों के स्वपरिवर्तनों से आने वाली विभिन्नतायें।

gametogenesis—(*Gk. gametes, spouse; genos, descent*) जन्मुजनन; युग्मक जनन।

gametogonium—(Gk. *gametes*, spouse; *gonos*, offspring) जन्मुज: जन्मुमातृ कोशिका; युग्मक जननी ।

gametokinetic—(Gk. *gametes*, spouse; *kinein*, to move) युग्मक उत्तेजक ।

gametophore—(Gk. *gametes*, spouse; *pherein*, to bear) युग्मकधारी; युग्मकधर ।

gametophyll—(Gk. *gametes*, spouse; *phyllon*, leaf) जननांगी पर्ण; परिवर्तित पर्ण (पत्ती) जो लैंगिक अंगों को धारण करें; लघु बीजाणु पर्ण (microsporophyll) or बृह बीजाणु पर्ण (macrosporophyll) ।

game'ophyte—(Gk. *gametes*, spouse; *phyton*, plant) युग्मकोद्भिद् : (१) पौधों की लैंगिक संतति; (२) पराग-कण और अणु-कोष (embryo-sac); (३) एकाकी सूत्र-स्थिति (haplophase) ।

gamic—(Gk. *gamos*, marriage) निषिक्त ।

gamobium—(Gk. *gamos*, marriage; *bios*, life) लिङ्गोत्पत्तिक; उत्पत्ति विपर्यय (alternation of generations) में लिंगी संततियाँ (sexual generations) ।

gamocyst—(Gk. *gamos*, marriage; *kystis*, bladder) जन्मुसिस्ट; जन्मु कोषिका; डिम्ब कोषिका ।

gamodeme—(Gk. *gamos*, marriage; *demos*, people) गैमोडेम; गैमोडीम; एक डीम द्वारा पृथक संकरज (intra-breeding) समूह (community) निर्माण ।

gamodesmic—(Gk. *gamos* marriage; *desma*, bond) संलयित संवहन-बंडली (पूली) ।

gamogastrous—(Gk. *gamos*, marriage; *gaster*, belly) मुक्ताण्डाशयी, ऐसा स्त्री केसर जो डिम्बाशयी की संयुजता से बना हो परन्तु वर्तिका (style) और वर्तिकाग्र (stigmata) स्वतन्त्र हों ।

gamogenesis—(Gk. *gamos*, marriage; *genesis*, descent) लिङ्गी उत्पादन (sexual reproduction) ।

gamogenetic—(Gk. *gamos*, marriage; *genesis*, descent) लैंगिक; लिङ्गी ।

gamogony—(Gk. *gamos*, marriage; *gonos*, descent) गैमोरोजादन या रेजुक्तादन एवं कोशिका (गैमोरोजा) से ।

gamont—(Gk. *gamos*, marriage; *on*, being) गैमॉन्ट; गैमोरोन्ट ।

gamopetalous—(Gk. *gamos*, marriage; *petalon*, petal) संयुक्तदली ।

[देखिये—sympetalous संयुक्तदली]

gamophase—(Gk. *gamos*, marriage; *phasis*, aspect) संयुक्त स्थिति; जीवन चक्र की लक्ष-सूत्री स्थिति; एकाकी सूत्र स्थिति (haplophase) ।

[देखिये—zygophase युग्म सूत्र स्थिति]

gamophyllous—(Gk. *gamos*, marriage; *phyllon*, leaf) संयुक्त परिदली (perianth) ।

[देखिये—monophyllous एकदली]

gamosepalous—(Gk. *gamos*, marriage; *F. sepal*, sepal) संयुक्त बाह्यदली; एक बाह्यदली ।

gamostele—(Gk. *gamos*, marriage; *stela*, pillar) संयुक्त रंभ; कई रंभों (steles) से बना एक रंभ (stela) ।

gamostelic—(Gk. *gamos*, marriage; *stela*, pillar) संयुक्त रंभी ।

gamostely—(Gk. *gamos*, marriage; *stela*, pillar) संयुक्त रंभक; चहरंभी तनों का ऐसा विन्यास जिनमें पृथक रंभ आपस में मिले हो तथा परिचक्र (pericycle) और जन्तः चर्म (endodermis) से घिरे हों ।

gamotropism—(Gk. *gamos*, union; *trope*, turn) जन्मुकर्षणी वृत्ति; जन्मु (gametes) के परस्पर आकर्षण होने की प्रवृत्ति (tendency) ।

gangliar—(Gk. *ganglion*, little tumour) गाण्डिक; गैंगलियर; गण्डीय; गण्ड—गण्ड (ganglion) वा गुच्छिका सम्बन्धी ।

gangliate—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलियेट; गण्डिक; गण्ड-युक्त; गुच्छिका युक्त ।

gangliiform—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलियोरोमीय; गण्डिकार; गण्डोपमा गुच्छिकाकार ।

gangliolast—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलियोरोस्ट; गण्डिक; गण्ड वा गुच्छिकाकार कोशिका ।

gangliocyte—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलियोसाइट; गण्डिक गुच्छिका कोशिका के बीच स्थित तंत्र (central nervous system) के गण्डिक सिस्टम-कोशिका ।

ganglioid

- ganglioid**—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलियोइड; गण्डाकार; गण्डोपम; गुच्छिकासम ।
- ganglion** — (Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलिल अॉन; गुच्छिका, गैंगलियन; तंत्रिका—उपकेन्द्र; तंत्रिका कोशिकाओं (nerve cells) का पुंज (mass) जिससे तंत्रिका सूत्र (nerve fibres) निकलते हैं ।
- ganglionated**—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलियोनेटड; गण्डमय; गण्ड या गुच्छिका युक्त ।
- ganglioneural**—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलियो-न्यूरल; तंत्रिका-गैंगलिया सम्बन्धी; ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसमें गैंगलिया (ganglia) की श्रेणी (series) तंत्रिका सूत्रों (nerve strands) से जुड़ी रहती है ।
- ganglioneuron**—(Gk. *ganglion*, little tumour) गैंगलिया-तंत्रिका कोशिका ।
- ganglionic**—(Gk. *ganglion*, little tumour) गुच्छिका-; गाण्डिक; गण्डीय; गण्ड सम्बन्धी ।
- ganglioplexus**—(Gk. *ganglion* little tumour) गैंगलिया जाल; प्रसारित गैंगलिया (diffuse ganglion) ।
- ganoblast**—(Gk. *ganos*, sheen, *blastos*, bud) इनेमलकोरक (ameloblast) ।
- ganoid**—(Gk. *ganos*, sheen; *eidos*, form) गैनाइड; एक प्रकार की मछलियों के शल्क (scales) ।
- ganoine**—(Gk. *ganos*, sheen) गनीइन ।
- gape**—(A. S. *geapan*, to open wide) जम्भ; जंभ; मुँह या मुख का फैलाव; पक्षी, मछली, आदि में खुले हुए जबड़ों के बीच की दूरी ।
- gas gland**—वाति ग्रन्थि; मछलियों के वायु कोष का ग्रन्थिमय (glandular) भाग ।
- gasserian ganglion**—(J. L. *gasser*, german anatomist) गसेरियन गैंगलिया; गसेरियन गण्ड ।
- gasteromycetous**—(Gk. *gaster*, stomach; *mykes*, mushroom) गैस्टीरोमाइसिटस; ऐसे स्पोर युक्त जो स्पोरधानी के बाह्यचोल (peridium) के अन्दर केन्द्रीय भाग (gleba) से बना हो ।
- gastraea**—(Gk. *gaster*, stomach) द्विस्तर जन्तु । एक काल्पनिक (hypothetical) द्विस्तर (gastrula) भ्रूण सदृश जन्तु । हेकल (haeckal) वैज्ञानिक के मतानुसार बहुकोशिकीय जन्तुओं का पूर्वज ।

- gastraeum** —(Gk. *gaster*, stomach) (शरीर का) अधरतल ।
- gastral**—(Gk. *gaster*, stomach) जठरीय; आमाशयिक; आमाशय सम्बन्धी ।
- gastralia**—(Gk. *gaster*, stomach) (१) उदर पशुका । (२) आमाशय हृदा; षट् किरणियों (hexactinellida) की आमाशयिक झिल्ली (gastral membrane) में पाये जाने वाले सूक्ष्महृदा (microscleres) ।
- gastric**—(Gk. *gaster*, stomach) जठरीय; आमाशयी; आमाशयिक; आमाशय-; आमाशय सम्बन्धी ।
- gastric gland**—आमाशय ग्रन्थि; जठर ग्रन्थि ।
- gastrine**—(Gk. *gaster*, stomach) गैस्ट्रीन; आमाशयोद्दीपक । वह उद्दीपक रस (hormone) जो आमाशयिक श्लैष्मिक झिल्ली (gastric mucous membrane) पर थूक से उत्पन्न पदार्थों के प्रभाव से बनता है ।
- gastrocentrous**—(Gk. *gaster*, stomach; *kentron*, centre) उदर केन्द्रीय (केशेरु) ।
- gastrocnemius**—(Gk. *gaster*, stomach; *kneme*, tibia) गैस्ट्रॉनियमिस; पिण्डली की एक बड़ी मांसपेशी ।
- gastrocoel**—(Gk. *gaster*, stomach; *koilos*, hollow) पुरान्त्र । [देखिये—archentron]
- gastrocolic**—(Gk. *gaster*, stomach; *kolon*, gut) आमाशय शोषणान्त्रिक; आमाशय (stomach) और शोषणान्त्र (colon) सम्बन्धी ।
- gastrocutaneous**—(Gk. *gaster*, stomach; *L. cutis*, skin) आमाशय-त्वकी; अर्धपृष्ठ दण्डियों (hemichorda) में अन्त्र (intestine) से सतह तक पाये जाने वाले छिद्र ।
- gastrocystis**—(Gk. *gaster*, stomach; *kystis*, bladder) जनन कोषिका ।
- gastrodermis**—(Gk. *gaster*, stomach; *derma*, skin) गैस्ट्रोडर्मिस; जठरचर्म; आंत्र चर्म ।
- gastroduodenal**—(Gk. *gaster*, stomach *L. duodeni*, twelve each) आमाशय-पक्वाशयी; आमाशय (stomach) और पक्वाशय (duodenum) सम्बन्धी ।

gastrointestinal—(Gk. *gaster*, stomach; L. *intus*, within) जठरांत्र; आमाशयान्त्रिक; आमाशय (stomach) और अंत्र (intestine) सम्बन्धी ।

gastrolial—(Gk. *gaster*, stomach; L. *lien*, spleen) आमाशयप्लैहिक; आमाशय (stomach) और प्लीहा (spleen) सम्बन्धी ।

gastrolith—(Gk. *gaster*, stomach; *lithos*, stone) चर्वाणयोपलः चर्वाणयोर्ध्वं खरिककणः क्रस्टेशिया (केकड़ा वंशियों) में चर्वाणय (gizzard) के दोनों ओर खोल बदलने (ecdysis) से पहले पाया जाने वाला खरिक पदार्थ (calcareous matter) का पुंज (mass) ।

gastroparietal—(Gk. *gaster*; stomach; L. *paries*, wall) आमाशय देह भित्तिक । आमाशय (stomach) और देह भित्ति (body wall) सम्बन्धी ।

gastrophrenic—(Gk. *gaster*, stomach; *phren*, midriff) आमाशय-प्राचीरिक । आमाशय (stomach) और मध्य प्राचीर (diaphragm) सम्बन्धी ।

gastropod—(Gk. *gaster*, stomach; *pous*, foot) गैस्ट्रोपोड; सृषीपाद । एक प्रकार के मौलस्क या कवचधारी (molluscs) ।

gastropores—(Gk. *gaster*, stomach; *poros*, channel) गुरु छिद्रः मुकुल कोरल (hydroid corals) के बड़े छिद्र जिनसे पोषक तत्व लिए जाते हैं ।

gastropulmonary—(Gk. *gaster*, stomach; L. *pulmo*, lung) आमाशयफुफुसीय; आमाशय (stomach) और फुफुस (lung) सम्बन्धी ।

gastrosplenic—(Gk. *gaster*, stomach; *splen*, spleen) आमाशय प्लैहिक । आमाशय (stomach) और प्लीहा (spleen) सम्बन्धी ।

gastrostige—(Gk. *gaster*, stomach; *stige*, roof) गैस्ट्रोस्टीगेः अधर घातक (सोपों आदि में) ।

gastrovascular—(Gk. *gaster*, stomach; *vasculum*, small vessel) परिव्याहकान्त्रः पाचन भ्रमणार्थीः (ऐसी नलिकाएँ) जो पाचन (digestive) तथा परिभ्रमण (circulatory) दोनों व्यापार (functions) करती हैं जैसी कि कुछ मौल्वोमान्तीयो (coelenterata) में पाई जाती है ।

gastrozooid—(Gk. *gaster*, stomach; *zoon*, animal; *eidos*, form) पाचन मुकुलः गैस्ट्रोसोइड आरूढ ।

gastrula—(Gk. *gaster*, stomach) गैस्ट्रूला; द्विस्तर-द्विस्तर भ्रूण ।

gastrulation—(Gk. *gaster*, stomach) द्विस्तर-निर्माणः गैस्ट्रूला-भ्रमणः एक स्तर (blastula) अण्डा से द्विस्तर (gastrula) का बनना । भ्रूण काल में विदलन काल (cleavage period) के अन्त होने पर कोशिकाओं का निश्चित स्थान में आना जिनमें भावी आंतरिक अंगों का निर्माण होता है । सम्भावित आंतरिक अंगों का द्विस्तरगीकरण दो कोशिका स्तरों—अन्तः चर्म (endoderm) और मध्य चर्म (mesoderm) में अधिक होता है । बाह्य चर्म जो भावी बाह्य स्तर होता है और जो भ्रूणिक से तयिकता तक तो अण्डा देता है पुनर्ध्वंशित होकर आंतरिक स्थान में जाता है ।

geitonogamy—(Gk. *geiton*, neighbour; *gamos*, marriage) सपादवी स्तर-परागणः समान वृषी परागणः उसी पीढ़े के दूसरे फूल से निष्पन्न होता ।

gelatine—(L. *gelare*, to congeal) जिलेटिनः शिलपि । पशुओं के ऊनक (द्विज) से प्राप्य निरसितः सरससम पदार्थ ।

gelatinous—(L. *gelare*, to congeal) जिलेटिनीः श्लेपीः शिलपिवत् (सम)ः जिलेटिन जैसा ।

geminate—(L. *gemini*, twins) युग्मीः युग्म (pairs) में उगने वाला ।

[देखिये—binate युग्मी—दो पत्तियों में बनी पत्ती]

gemini—(L. *gemini*, twins) निपुनः डेमिनारः द्वितिः द्वैधसूत्री ।

geminiflorous—(L. *gemini*, twins; *flor*, flower, युग्मसूत्रीः ऐसा बीजा जिसमें फूल युग्मी में लगे होते हैं ।

gemma—(L. *gemma*, bud) देहा, उद्भास-संज्ञिका । बीजे (plant) या जन्तु (animal) के शरीर पर कसे वाली कमी (bud) या उद्भास (out growth) जो नये बीजे या जन्तु के रूप में परिणत हो सकती है ।

gemmaeous—(L. *gemma*, bud, उद्भास-संज्ञिका सम्बन्धी ।

gemmate—(L. *gemma*, bud) उद्भास-संज्ञिका सम्बन्धी ।

gemmation—(L. *gemma*, bud) उद्भास-संज्ञिका सम्बन्धी । (जिसमें द्वारा बीजे या जन्तु के लिये उद्भास बन जायें)

gemmiferous

gemmiferous—(L. *gemma*, bud; *ferre*, to bear)

कलिकाधारी ।

gemmiform—(L. *gemma*, bud; *forma*, shape)

कलिकोपम; कलिकाकार ।

gemmiparous—(L. *gemma*, bud; *parere*, to

produce) कलिकोत्पादी; कलिकोत्पादनशील ।

gemma—(L. *gemma*, little bud) दाय

कण निर्माण; जेम्बूल निर्माण ।

gemmae—(L. *gemma*, little bud) जेम्बूल;

दायकण । [देखिये—pangensis]

gena—(L. *gena*, cheek) जीना; कपोल; कपोलिका ।

कीटों (insects) के सिर का अग्र पार्श्वीय (antero-lateral) भाग ।

genal—(L. *gena*, cheek) कपोलिका सम्बन्धी;

कपोलक; ट्राइलोबाइट्स (trilobites) का आनन से बनी तथा कपोल कोण ।

genes—(Gk. *genos*, birth) जीन; परम्परा कण;

क्रोमोसोम के अन्तर्गत विद्यमान वंश परम्परा (heredity) निर्धारित करने वाली इकाइयाँ । जीन की परिभाषा—

जीन (gene) की कार्यकी इकाई समपार या सिन्ड्रोम (cistron) होती है । यह वह डी एन ए की लम्बाई

होती है जो आर एन ए बनाती है, और यह आर एन ए विशिष्ट पोलिपेप्टाइड शृंखला (polypeptide chain)

का निर्माण करती है, जिससे कोशिका या जीव की आर्थिक व्यवस्था सम्पन्न होती है । अतः जीन गुण सूत्र (क्रोमोसोम) की एक छोटी लम्बाई होती है जो

विशिष्ट लक्षणों के समुदाय को मुख्यतया प्रभावित करती है । यह गुण सूत्र की लम्बाई तथा लक्षणों का

समुदाय एक इकाई बनाते हैं क्योंकि डी एन ए की लम्बाई के अन्दर जो भी उत्परिवर्तन (mutation)

होता है वह समस्त लक्षण समुदाय को प्रभावित करता है । डी एन ए के अन्दर इस प्रकार की कार्यकी इकाई

इस कारण होती है कि प्रत्येक जीन एक बड़े संरचन जीन से सम्बन्धित होता है जिससे प्रोटीन संश्लेषण में

ठीक एक प्रकार के अमीनो अम्ल (amino acid) द्वारा एक विशिष्ट पोलिपेप्टाइड शृंखला ही बनती है ।

जीन का डी एन ए कई भिन्न जीन का बना होता है । वर्धन में प्रत्येक जीन बराबर पुनरावृत्ति करता है और

जब जीन में उत्परिवर्तन आ जाता है तब इसकी बदली

हुई आकृति पुनः पूर्व की तरह पुनरावृत्ति करती है और यदि यह एक संरचन जीन होता है तो इससे एक प्रोटीन बनता है जिसमें अमीनो अम्ल (amino acid) का अनुक्रम बदला हुआ होता है । इस प्रकार उत्परिवर्तित जीन और आदि रूपक जीन एक दूसरे के विकल्पी (एलील) होते हैं ।

जीन एक आनुवंशिक कारक (hereditary factor)—

कुल सम्बन्धी जीवों में पाई जाने वाली समानता अधिकतर समान वंशागत पदार्थ होने के कारण होती है । यह वंशागत पदार्थ जटिल विविध रूपक अपनी शुद्ध प्रतियाँ देने वाला होता है और यह पितृ से पुत्र में पहुँचता है । यह पदार्थ अत्यन्त स्थिर लक्षणों वाला होता है और जीव के हर पहलू पर अपना प्रभाव रखता है । प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन इस पदार्थ से आरम्भ करता है जो एक या दो पितृ से प्राप्त होता है । बहुकोशिकीय में पश्चात्तवर्ती वर्धन तथा अन्य में उत्पादन द्वारा यह पदार्थ वारम्बार अनुलिपि होता है, इसे पुनरावृत्ति (replication) प्रक्रिया कहा जाता है, यही कारण है कि कुल सम्बन्धित व्यक्तियों में समानता होती है ।

इस श्रमण्टरी की सबसे बड़ी खोज यह मानी जाती है कि वंशागति पदार्थ (material of inheritance) न्यूक्लियिक अम्ल (nucleic acid) है । अधिकांश में यह डिऑक्सीगोन्ड्रिनिक अम्ल (डी एन ए) होता है । कुछ वाइरस आदि में रिबोन्यूक्लियिक अम्ल (आर एन ए) होता है । पौधों और जन्तुओं में डी एन ए, न्यूक्लियस (केन्द्रक) के सूक्ष्म क्रोमोसोमो (गुण सूत्रों) में होता है, यद्यपि यह कुछ साइटोप्लाज्मिक संरचनाओं में भी पाया जाता है जिनमें प्रोटीन होता है । वैक्टीरिया में क्रोमोसोम सीधा सरल एक लम्बे डी एन ए सूत्र का होता है ।

genecology—(Gk. *genos*, descent; *oikos*, household; *logos*, discourse) आनुवंशिक परिस्थिति की ।

Gene's organ—जेनी का अंग । जेनी एक इटालियन वैज्ञानिक का नाम । किलीखियों (ticks) में पाई जाने वाली ग्रन्थि विशेष जिससे चिपचिपा पदार्थ स्राव होता है और जो अण्डों को पृष्ठतल पर रखने के काम आता है ।

genotype

genotype—(L. *genus*, race; *typos*, image) सम-जीनी; जीनी संरचना; अनुवंश व्यवस्था। किसी व्यक्ति (individual) की आनुवंशिक या परम्परा सम्बन्धी (genetic) बनावट (constitution) [तुलना के लिये देखिये—phenotype]।

genotypic—(Gk. *genos*, race; *typos*, image) समजीनी सम्बन्धी।

genu—(L. *geni*, knee) जानुका; जानुपद; किसी अंग में पाया जाने वाला घुटने (जानु) नुमाङ्गकाव।

genus, genera—(L. *genus*, race) जीनस; वंश।

genys—(Gk. *genys*, jaw) अधोहनु; नीचे का जबड़ा।

geobionts—(Gk. *ge*, earth; *bion*, living) भूमि-वासी; मृत्तिकावासी।

geobios—(Gk. *ge*, earth; *dios*, life) मृत्तिका-जीवी; भौमिक। [देखिये—edaphore]

geoblast—(Gk. *ge*, earth; *blastos*, bud) आंत-भौंयांकुर; अंकुरित प्रांकुर, जिनके बीज-पत्र (cotyledons) घरती के अन्दर ही रहते हैं।

geobotany—भू-वनस्पति विज्ञान।

geocarpic—(Gk. *ge*, earth, *karpos*, fruit) भूमध्य स्थान फलन; ऐसे फल वाले जिनके फल भूमि के अन्दर ही परिपक्व होते हैं।

geology—(Gk. *ge*, earth; *logos*, discourse) भू-विज्ञान; भौमिकी; भूस्तर शास्त्र; भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी की बनावट (structure) चरित्र, क्रियायें (activities) और इतिहास (history) से सम्बन्ध रखने वाला विज्ञान।

geomalism—(Gk. *ge*, earth; *omalos*, level) गुरुत्व प्रति उत्तरता।

geonemy—(Gk. *ge*, earth; *nemein*, to inhabit) भूभौगोलिक वितरण (जन्तुओं का)।

geophilous—(Gk. *ge*, earth; *philein*, to love) भू-वासी; स्थल-वासी; जमीन पर या जमीन में रहने वाला।

geophyte—(Gk. *ge*, earth; *phyton*, plant) (१) भूपदप, (२) भूगर्भादिभिद्, ऐसा पौधा जिसके कुछ भाग जैसे ट्यूबर्स, बल्ब, राइजोम आदि पृथ्वी के अन्दर ही होते हैं।

geosere—(Gk. *ge*, earth; L. *sescre*, to put in a row) भू क्रमक; शुष्क पदप।

geotaxis—(Gk. *ge*, 'earth; *taxis*, arrangement) गुरुत्वीय अनुचलन; गुरुत्व न्यास।

geotonous—(Gk. *ge*, earth; *tonos*, tension) गुरुत्व स्थिति।

geotropism—(Gk. *ge*, earth; *trope*, turn) गुरुत्व-वृत्ति।

gephyrocercal—(Gk. *gephyra*, bridge; *kerkos*, tall) क्षीणान्तपुच्छ; क्षीणान्तपुच्छीय। ऐसा गौण (secondary) द्विभक्त पुच्छीय फिन (diphycercal fin) जो समदल (homocercal) पुच्छीय या असमदल पुच्छीय (heterocercal) फिन (fin) के आखरी सिरे के क्षीण हो जाने से बनता है।

geratology—(Gk. *geras*, old age; *logos*, discourse) वयोवृद्ध विज्ञान; वयोवृद्धता (old age) और अवसाद (decadence) के कारकों (factors) का अध्ययन।

germ—(Gk. *germen*, bud) जर्म; जीवाणु।

germ cell—जनन कोशिका; उत्पादन कोशिका।

germ centre—जनन केन्द्र। लसीका ग्रन्थियों के ऊतक (lymph gland tissue) में पाया जाने वाला लसीका-कणों (lymph corpuscles) का विभाजन क्षेत्र (area of division)।

germ disc—जनन-द्विम्ब।

germ layer—जनन-स्तर।

germ nucleus—जननाष्टि; अनन न्यूक्लियस; जनन केन्द्रक।

germ plasm—जनन सत्व। एक विशेष प्रकार का जीवन सत्व (प्रोटोप्लाज्म) जो बीजमन (Weismann) वैज्ञानिक के मतानुसार उत्पादन कोशिकाओं (germ cells) द्वारा एक संतति से दूसरी संतति में अपरिवर्तित पहुँचता रहता है और जो प्रत्येक व्यक्ति में शरीर कोशिकाओं (soma) को जन्म देता है पर स्वयं किसी भी प्रकार व्यक्ति के वातावरण से प्रभावित नहीं होता है इसको जीवन सत्व निरन्तर मत (theory of continuity of the germ plasm) कहा जाता है।

germ pore—जनन छिद्र।

germ stock—प्ररोहक [आच्छादियों (tunicates) में]।

germ theory—परतन्त्रोत्पत्ति; परन्त्रोत्पादन।

[देखिये—biogenesis]

- germ track—जनन कोशिका की निरन्तरता ।
- germ tube—जनन नलिका; अंकुरित स्पोर से निकलने वाली छोटी-छोटी सूत्रीय नलिकाएँ ।
- germ vitellarium—जनत डिम्बात्री अंग, जर्म विटेल्लेरियम; प्लेटीहेलमिन्थस का अंग जो डिम्ब और डिम्बात्र (vitelline) पदार्थ दोनों उत्पन्न करता है ।
- germ yolk gland—जनन डिम्बात्र ग्रन्थि ।
- germarium—(L. *germen*, bud) डिम्बाशय ।
[देखिये—ovary]
- germiduct—(L. *germen*, bud; ducere, to lead) जनन नलिका; डिम्ब नलिका । ट्रिमेटोड्स (trematodes) की डिम्ब नलिका (oviduct) ।
- germigen—(L. *germen*, bud; *generare*, to beget) डिम्बज; डिम्बाशय ।
- germinal—(L. *germen*, bud) जनन-; जनन का; जनन सम्बन्धी ।
- germinal cells—जनन कोशिका ।
- germinal disc—जनन विम्ब ।
- germinal epithelium—जननाधिच्छद; जनन-अधिच्छद ।
- germinal layers—जननस्तर । वर्धनशील डिम्ब (ovum) से बनने वाले तीन मौलिक स्तर (primary layers) बाह्य, मध्य और अन्तः स्तर ।
- germinal spot—जनन बिन्दु ।
- germinal vesicle—जननाण्डि: जनन न्यूक्लियस । ध्रुव पिण्डों (polarbodies) के बनने से पहले डिम्ब (ovum) में पाया जाने वाला केन्द्रक या न्यूक्लियस (nucleus) ।
- germination—(L. *germen*, bud) अंकुरण, अंकुरित होना ।
- germination hormone—अंकुरण हार्मोन; ग्रैमिनी (Gramineae) कुल में पाया जाने वाला उद्गीपक जिससे अंकुर धौन (coleoptile) की वृद्धि प्रोत्साहित होती है तथा मूल की वृद्धि अवरुद्ध होती है ।
- germiparity—(L. *germen*, bud; *parere*, to beget) जर्म-उत्पत्त; जर्म निर्माण (जनन कोशिकाओं) द्वारा उत्पादन ।
- germogen—(L. *germen*, bud; Gk. *genesis*, offspring) आरंभिक कोशिका ।

- gerontal—(Gk. *geron*, old man) वृद्ध; जराजन्म ।
- gerontic—(Gk. *geron*, old man) वृद्धावस्था-; वृद्धावस्था सम्बन्धी ।
- gerontology—(Gk. *geron*, old man; *logos*, discourse) वृद्ध विज्ञान; वयोवृद्ध विज्ञान ।
- gestalt—(Ger *Gestalt*, form) व्यवस्थित प्रति उत्तर ।
- gestation—(L. *gerere*, to carry) गर्भ-काल । गर्भाधान (conception) और प्रसव (delivery) के बीच का समय या भ्रूण (embryo) का गर्भ (womb) के भीतर वर्धन (development) होने का समय ।
- giant—(Gk. *gigantos* giant) (१) वृहत्काय; स्तूत; (२) दानव ।
- giantism—(Gk. *gigantos*, giant) वृहत्कार्यता ।
- giant cells—वृहत्-कोष्ठ; वृहत् कोशिका ।
- giant fibres—वृहत्-सूत्र ।
- Gibberellins—जिवरेलिनस; बनस्पति हार्मोनों का एक वर्ग । यह हार्मोन कुछ पौधों के तनों की वृद्धि करता है । यह पौधों के बढ़ते हुए भागों पर पाया जाता है । सर्वप्रथम इसको जिवरेला प्यूजीव्यूरोई (Gibberella fujikuroi) में प्राप्त किया गया था ।
- gibbous—(L. *gibbus*, hump) प्रोत्त; अर्धचंद्र; उत्तुकी; वातपूरण; जैसे धूम्रकरी कुल के पत्रों के पार्श्व बाह्यदन (sepals) ।
- gigantocyte—(Gk. *gigas*, giant; *kytos*, hollow) वृहत् कोष्ठ; वृहत् कोशिका ।
- gill—(M.E. *gille* gill) गिल; गिलकड़ा; जन गल्लोम ।
- gill arch—गिल दंडक; गिल तार ।
- gill basket—गिल कालेज । लैम्परेयो (lampreys) में ।
- gill book—गिल-ग्रन्थि । [देखिये—book gill]
- gill cleft—गिल दरार; गिल छिद्र ।
- gill cover—गिलकवरण ।
- gill pouch—गिल थैली; गिल थोर ।
- gill rakers—गिल गण्डक; गिल कर्पली ।
- gill rod—गिल दंडक ।
- gill slits—गिल दरार ।
- gingival—(L. *gingival*, gums) मसूदा-; मसूदा सम्बन्धी ।

ginglymus

- ginglymus**—(Gk. *gingglymos*, hinge joint) एक-दिशा सन्धि। एक ओर को ही गति होने देने वाली संधि (articulation)।
- giraldes organ**—(J. A. C. C. *Giraldes*, Portuguese surgeon) जिरालडोज अंग; पैराडाइडमिस; पराउपांड।
- girdle**—(A. S. *gyrdan*, to gird) बलय; मेखला।
- girdle, pelvic**—श्रोणि बलय।
- girdle, shoulder**—अंस बलय।
- gizzard**—(M. E. *gizer*, gizzard) चर्वाशय; गिजर्ड।
- glabella**—(L. *glaber*, bald) ग्लैबिला; स्थायनी।
- glabrate**—(L. *glaber*, smooth) चिकना; चिक्कण तली।
- glabrous**—(L. *glaber*, smooth) चिक्कण तल युक्त।
- glacial**—(L. *glacies*, ice) हिमनदीय; हिमाच्छादित। उस काल के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें समय-समय पर हिमाच्छादन (glaciation) होता है।
- gladiate**—(L. *gladius*, sword) खड्गोपम; खड्गाकार; असिसमान; तलवार की शकल का।
- gladiolus**—(L. *gladiolus*, small sword) मीसो-स्टर्नम; कार्पस स्टर्नाई; स्टर्नेब्री (sternbrae) के जुड़ने से एक मीसोस्टर्नम अस्थि बनी हुई।
- gladius**—(L. *gladius*, sword) काइटिन कवच ग्लैडियस; कोन्ड्रोफोरा (chondrophora) का काइटिन का बना कवच।
- glairine**—(F. *glair*, white of egg) भास्वत, जूगलोइआ (zoogloea) द्वारा बनी सतह पर चमकीली तह।
- gland**—(L. *glans*, acorn) ग्रन्थि।
- gland cell**—ग्रन्थि कोशिका।
- gland, ductless**—निःस्रोत ग्रन्थि; नलीहीन ग्रन्थि।
- gland, green**—हरित ग्रन्थि। कैंकड़ा वशियों (crustaceans) की मलोत्सर्ग ग्रन्थि (excretory gland)।
- gland, hermaphrodite**—उभयलिङ्गी ग्रन्थि।
- gland, hibernating**—शीततान्द्रिक ग्रन्थि।
- gland, lieberkühn's**—लीवरकुन-ग्रन्थि।
- gland, oil**—तैल ग्रन्थि।
- gland, spinning**—वायन-ग्रन्थि। वह ग्रन्थि जिससे कि मकड़ी (spider) अपना जाल बुनने का पदार्थ बनाती है।

- gland uropygial**—पुच्छ कुब्जीय ग्रन्थि; तैल-ग्रन्थि। पक्षियों के पुच्छ कुब्ज (uropygium) पर स्थित ग्रन्थि विशेष, जिससे परों (feather) को चिकना करने वाला तैल समान पदार्थ निकलता है।
- glandula**—(L. *glandula*, small acorn) ग्रन्थि।
- glandula vesiculosa**—शुक्राशय।
- glandular**—(L. *glandula*, small acorn) ग्रन्थि-ग्रन्थि मय; ग्रन्थियुक्त; ग्रन्थि सम्बन्धी।
- glandular epithelium**—ग्रन्थि-अधिच्छद्। ग्रन्थिमय अधिच्छद्; ग्रन्थिमय उपकला।
- glandular tissue**—ग्रन्थि तंतु, ग्रन्थिमय ऊतक।
- glans**—(L. *glans*, acorn) मुण्ड।
- glans clitoridis**—भगनासा मुण्ड; भगशियन मुण्ड।
- glans penis**—शियन मुण्ड।
- glasserian fissure**—(J. H. *glaser*, swiss anatomist) ग्लैसेरियन दरार।
- glaucous**—(L. *glaucus*, sea-green) नीलाभ हरित।
- glaucous**—(L. *glaucus*, sea-green) नीलाभ हरा।
- gleba**—(L. *gleba*, clod) स्पोरयंत्र; ग्लेबा; (१) कुछ पौधों में स्पोर निर्माणक यंत्र; (२) कुछ फन्जाई में स्पोरधानी का केन्द्रीय भाग।
- glebula**—(L. *glebula*, small clod) ग्लेबुला; लघुउत; लघुउत्कर्ष; लाइकिन के थैलस पर एक छोटा उत्कर्ष (उत)।
- glenoid**—(Gk. *glene*, socket) गर्तोपम; गर्तकार-गिलानाइड गर्त।
- glia**—(Gk. *glia*, glue) तंत्रिका श्लैष्म कोशिका।
- gliosomes**—(Gk. *glia*, glue; *soma*, body) श्लैष्मकण, तंत्रिका श्लैष्म (न्यूरोगलिया neuroglia) के प्रोटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया से सम्बन्धित कण।
- glisson's capsule**—(F. *glisson*, English Physician) ग्लिसन कुहर। यकृत (liver) के अन्दर पाया जाने वाला एक सूत्रमय कुहर (fibrous capsule), जिसके अन्दर हिपेटिक धमनी (hepatic artery) पोर्टल शिरा (portal vein), लसीका बाहिनियाँ (lymphatic vessels) और पित्त नली (bile duct) रहती हैं।
- globate**—(L. *globus*, globe) ग्लोबेट; गोलाकार।

globigerina ooze—ग्लोबिजेराइता कीच (मृदुमृत्तिका) फोरामिनीफेरा (Foraminifera) के कवचों से पूर्ण समुद्रतल कीच ।

globin—(L. *globus*, globe) ग्लोबिन; हीमोग्लोबिन का प्रमुख प्रोटीन ।

globoid—(L. *globus*, globe; Gk. *eidos*, form) ग्लोबोइड; गोलाकार पिण्ड ।

globose—(L. *globus*, globe) गोलाकार; गोल ।

globule—(L. *globulus*, small globe) गोलिका ।

globus pallicles—पांडु गोलिका पिण्ड ।

globulin—(L. *globus*, globe) ग्लोब्युलिन; जल में अनघुलनशील एक प्रोटीन विशेष ।

glochidiate—(Gk. *glochis*, arrow point) अंकुश-लोमी ।

glochidium—(Gk. *glochis*, arrow point; *idion*, dim) ग्लोकीडियम; एक प्रकार का लारवा (larva); अंकुशलोम ।

gloea—(Gk. *gloia*, glue) ग्लोइआ; किन्हीं प्रोटोजोआ का चिपचिपा स्राव ।

glomerular—(L. *glomus*, ball) ग्लोमेरुलर; गुल्म; गुल्माकार; गुल्म सम्बन्धी ।

glomerulate—(L. *glomus*, ball) गुच्छ विन्यासी ।

glomerule—(L. *glomus*, ball) श्यानगुच्छ; घना-गुच्छ; ग्लोमेरुल (१) गुँथा हुआ गुच्छा; (२) आवृत्त पुष्पों से बना घना ससीमाक्ष (cyme) पुष्पक्रम ।

glomerulus—(L. *glomus*, ball) ग्लोमेरुलस; गुल्म; गुच्छक; केशिकाओं (capillaries) का जाल (net work); केशिका गुच्छ ।

glomus—(L. *glomus*, ball) ग्लोमस; प्रगुल्म; केशिका गुच्छ श्रृंखला ।

glossa—(Gk. *glossa*, tongue) जिह्वा; कीटों में प्रयोष्ठ (labium) के मध्य भाग में स्थित जिह्वाकार प्रयोजन (projection) ।

glossal—(Gk. *glossa*, tongue) जिह्वा-; जिह्वा सम्बन्धी; जिह्वाशय ।

glossarium—(Gk. *glossa*, tongue) तनुजिह्वारा; कुछ द्विपत्रा (Insecta) की पतली नोक वाली जिह्वा (glossa) ।

glossate—(Gk. *glossa*, tongue) जिह्वा धारी या जिह्वा मरुत्त रचना रखने वाला ।

glosso-epiglottic—(Gk. *glossa*, tongue *epi*, upon; *glotta*, tongue) जिह्वा-कण्ठ पिधानीय; जिह्वा और कण्ठ-पिधान (epiglottis) सम्बन्धी ।

glossohyal—(Gk. *glossa*, tongue; *hyoides*, y-shaped) जिह्वान्ताजिह्वक । मछलियों का मध्य स्थित मूल जिह्वक (median basihyal) ।

glossopalatine—(Gk. *glossa*, tongue; L. *palatus*, palate) जिह्वातालव्य; जिह्वा (tongue) और कोमल तालु (soft palate) को जोड़ने वाला ।

glossophagine—(Gk. *glossa*, tongue; *phagcin*, to eat) जिह्वाहारी । जिह्वा द्वारा खाना प्रशन करने वाला ।

glossopharyngeal—(Gk. *glossa*, tongue; *pharynx*, gullet) जिह्वा-गमनी तंत्रिका; जिह्वा-कण्ठी नवम् कपालीय तंत्रिका (cranial nerve) ।

glossopodium—(Gk. *glossa*, tongue; *pous*, foot) पिधानी पदाधर; आच्छदकपाधर आइसोटीन (Isoetes) का पिधानी पर्ण-आधार (sheathing leaf base) ।

glossotheca—(Gk. *glossa*, tongue; *thieke*, box) तुण्डच्छदक; प्रोबोच्छदक; कीट चिट्टिका या प्युसा (insect pupa) के त्वक (integument) का वह भाग जो प्रोब या तुण्ड (proboscis) को ढके रहता है ।

glottis—(Gk. *glotta*, tongue) कण्ठ द्वार; वायु द्वार; घांटी ।

glucose—(Gk. *glykys*, sweet) ग्लूकोस; पायस पञ्जाटम जो माल्टोज (maltose) में ग्लूकोस (फेन सुगर) बनाता है ।

glucokinin—(Gk. *glykys*, sweet; *kinin*, to more) ग्लूकोनाइनिन; रक्त शर्करा अणुनाशक ।

glucose—(Gk. *glykys*, sweet) ग्लूकोस; दुग्ध शर्करा; ग्लूकोस ।

gluma—(L. *gloma*, husk) ग्लुम (आपराक-bract); मालासिका (spiklet) के आधार पर है मध्यम (bract) या दूर ।

glumaceous—(L. *gloma*, husk) ग्लुमी. ग्लुममय ।

glumiferous—(L. *gloma*, husk, *ferre*, to bear) ग्लुमधारी ।

glumiflorous

glumiflorous—(L. *gluma*, husk; *flos*, flower) ग्लूमपुष्पी ।

glutaecal—(Gk. *gloutos*, buttock) श्रोणि-, श्रोणिका श्रोणि सम्बन्धी ।

glutaecus—(Gk. *gloutos*, buttock) श्रोणि-पेशी ग्लूटियस (पेशी); नितम्ब पेशी ।

glutathione—(L. *glutan*, glue; Gk. *theion*, sulphur) ग्लूटाथियोन; विभिन्न ऊतकों में पाया जाने वाला गन्धक युक्त धि-पेप्टाइड (tripeptide); $C_{10}H_{17}O_6N_3S$ ।

gluten—(L. *gluten*, glue ग्लूटेन; कुछ अनाजों में पाया जाने वाला पदार्थ (संश्लेषण द्रव्य) ।

glutenin—(L. *gluten*, glue) ग्लूटेनिन; ग्लूटेनज; ग्लूटेन बनाने वाला पदार्थ ।

glutinous—(L. *gluten*, glue) संयुजी ।

glycerin or glycerol—(Gk. *glykys*, sweet) ग्लिसरीन; रसायनिक सूत्र $C_3H_8(OH)_3$ । प्राकृतिक वसा तथा तेलों का मिष्ठ अंश ।

glycogen—(Gk. *glykys*, sweet) ग्लाइकोजन; जन्तु स्टार्च; $(C_6H_{10}O_5)_n$ रसायनिक सूत्र वाला ।

glycogenase—(Gk. *glykys*, sweet; *genes*, producing) ग्लाइकोजनज; ग्लाइकोजन उत्पन्न करने वाला क्षोभक (enzyme) ।

glycolysis—(Gk. *glykys*, sweet; *lyein*, to loosen) ग्लाइकोजन ह्यासी ।

glycophyte—(Gk. *glykys*, sweet; *phyton*, plant) मिष्टरागी; अल्प लवण अनुरागी; ऐसा पौधा जो ०.५ प्रतिशत से अधिक सोडियम क्लोराइड के घोल की उपस्थिति में पनपता नहीं है ।

glycoproteins—(Gk. *glykys*, sweet; *potos*, first) म्यूकोप्रोटीन; ग्लाइकोप्रोटीन; प्रोटीन का यौगिक जिसमें कार्बोहाइड्रेट म्यूसिन और म्यूकोइड होते हैं ।

glycosecretory—(Gk. *glykys*, sweet; L. *secsetus*, set apart) ग्लाइकोजन स्राविक ।

glycotropic—(Gk. *glykys*, sweet; *trope*, turn) इन्सुलिन निषेधक; ग्लाइकोट्रोपिक; प्रीपिट्यूटरी (prepituitary) द्वारा स्रावक कारक जिससे इन्सुलिन (insulin) का परिधि प्रभाव निषिध हो जाता है ।

gnathic—(Gk. *gnathos* jaw) हनु सम्बन्धी; हनु- ।

gnathism—(Gk. *gnathos*, jaw) हनु निर्माण ।

gnathites—(Gk. *gnathos*, jaw) मुखावयव (कीटों insects) के ।

gnathobase—(Gk. *gnathos*, jaw; *basis*, base) हनु प्रवर्धन; केकड़ा वंशियों (crustacea) में मुख के पास वाले अवयवों (appendages) के आधार पादांश (protopodites) पर स्थित अन्दर की ओर मुड़ा हुआ एक चर्वक प्रवर्धन (masticatory process) ।

gnathopod—(Gk. *gnathos*, jaw; *pous*, foot) मुख पाद; केकड़ावंशियों (crustacea) के मुख प्रदेश (oral-region) में पाया जाने वाला अवयव (limb) जो भोजन करने में सहायता दे ।

gnathopodite—(Gk. *gnathos*, jaw; *pous*, foot) हनुपाद । (सन्धिपादों—आर्थ्रोपोडों—arthropods का) । [देखिये—maxilliped]

gnathos—(Gk. *gnathos*, jaw) ग्नेयोस; हनुपट्टिका; शल्की पक्षकों (लेपीडोपट्टस्—lepidoptera) में नवें टरगम (tergum) के अघर पर स्थित मध्यस्थ पट्टिका (median sclerite) ।

gnathostegite—(Gk. *gnathos*, jaw; *stegē*, roof) मुखमुकट; कुछ केकड़ा वंशियों (crustaceans) के मुखावयवों (mouth parts) को ढकने वाली पट्टिका (plate) ।

gnathostomatous—(Gk. *gnathos*, jaw *stoma*, mouth) हनुमुखी; जिसका मुख जबड़ेदार (jawed) हो ।

gnathotheca—(Gk. *gnathos*, jaw; *theke*, case) हनुच्छद् । पक्षियों (birds) के निचले जबड़े (lower jaw) पर का सख्त खोल या ढढ़ावरण ।

gnesiogamy—(Gk. *gnesios*, lawful; *gamos*, marriage) विधिवत् पणिय ।

goblet cells—पाथक कोशिका; श्लेष्मज कोशिका । स्तम्भाकार अधिच्छद् (columnar epithelium) के श्लेष्म (mucus) स्राव करने वाले (secreting) कोशिका ।

golgi apparatus or bodies—(C. *golgi*, Italian, histologist) गौलगी यंत्र या पिण्ड । जन्तु और वनस्पति कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना । इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह युग्मक कलाओं का एक समूह दिखाई देता है जो कई चपटे कोषों जिन्हें कुंडिकायें

(cisternae) कहते हैं, बना होता है। कशेरुकों में इस प्रकार की संरचना 'एक' होती है जबकि पौधों में 'कई'। इनका कार्य अज्ञात है पर अनुमान यह है कि यह 'स्त्राव' उत्पन्न करते हैं।

golgi, organs of—गोलजी अङ्ग।

golgi mazzoni corpuscles—(C. golgi, and V mazzoni, Italian histologists) गोलजी-मैज़ोनी कण।

gomphosis—(Gk. goniphos, bolt) अंगल संयोग। किसी गर्त (socket) में शंकु जैसे (conical) प्रवर्धन (process) के घुसने से बनने वाली सन्धि (articulation), उदाहरणार्थ स्तनियों (mammals) के दांत।

gonad—(Gk. gone, birth) गोनड; जननांग! जनन ग्रन्थि; लिङ्गग्रन्थि अर्थात् डिम्बाणय (ovary), वीर्यग्रन्थि (testes) या डिम्ब-शुक्र ग्रन्थि (ovotestis)।

gonadectomy—(Gk. gone, birth; ek, out; tome, cutting) जननांग कर्तन। लिङ्ग-ग्रन्थि (gonads) को काट कर हटा देना। नर (male) में वधिया करना (castration) अर्थात् शुक्र ग्रन्थि (testes) को निकाल देना तथा मादा (female) में डिम्ब-ग्रन्थि (ovary) को निकाल देना (spaying)।

gonadin—(Gk. gone, birth) लिगाभितत्व; गोनै-टिन। जनन-ग्रन्थियों (sexglands) का सक्रिय तत्व (active principle) जो लिङ्ग-विशेषताओं का निग्रह करता है।

gonadotrophin—(Gk. gone, birth; trophic, to nourish) गोनोट्रोफिन (हार्मोन)।

यह अग्रपिट्यूटरी के दो हार्मोन होते हैं :

(१) प्रोलान-ए—कोषक (follicle) प्रोत्साहक हार्मोन।

युग्मक उत्तेजक हार्मोन; थाइलाकेन्ट्रिन (thylakentrin)।

(२) प्रोलान-बी—अन्तराल कोषिकीय उत्तेजक हार्मोन—जिसे ल्यूटेनाइजिंग (Luteinsing) हार्मोन भी कहते हैं; मेटाकेन्ट्रिन (metakentrin)।

gonadotropic—(Gk. gone, birth; trope, turn) जननांग प्रभावक। जनन ग्रन्थि (gonad) पर प्रभाव डालने वाला।

gonadotropin—(Gk. gone, birth, trope; turn) गोनोट्रोफिन; कोई एक गोनोट्रोफिन हार्मोन; जननांग प्रभावी हार्मोन।

gonaduct—(Gk. gone, duct; L. ducere, to lead) जनन नलिका।

gonal—(Gk. gone, birth) जननांग (गोनड) उत्पादक।

gonangium—(Gk. gone, birth; anggeion, vessel) जनन पुट। [दिग्दिग्—gonotheca]

gonapophyses—(Gk. gone, birth; apo, from; phyein, to grow) मैपुनांग; कीटों (insects) में पाये जाने वाले काईटिनमय (chitinous) उद्बर्धन (out-growths) जो मैपुन में प्रयुक्त होते हैं।

gone—(Gk. gone, generation) गोन; (१) अर्ध कोषिका (auxocyte) की चार दुहित्वा कोषिकाओं में से एक। (२) गोनोत्पादी।

gongylidia—(Gk. gongylos, round; dim., dim.) कवकतंतुगुंठ (फन्जाई में)।

gonia—(Gk. gone, seed) आद्य जनन कोषिका; अर्थात् आद्य पुरुष कोषिका (spermatogonia) और आद्य डिम्ब कोषिका (oogonia)।

gonial—(Gk. gonia, corner) कोणिक; गोनियन! कुछ कशेरुकों (vertebrates) में गोन के जबड़े (jaw) की एक हड्डी।

gonic—(Gk. gone, generation) वीर्य सम्बन्धी।

gonidangium—(Gk. dim. of gone, seed; anggeion, vessel) गोनडिया धारी।

gonidia, gonidium—(Gk. dim. of gone, seed) गोनडिया; अनेकिक गतिहीन उत्पादीय कोषिधारी।

gonidial—(Gk. dim. of gone, seed) गोनडिया सम्बन्धी।

gonidiferous—(Gk. dim. of gone, seed. L. ferre, to carry) गोनडिया धारी।

gonidimium—(L. L. dim. of gone, seed) गोनडिया।

gonidiogenous—(Gk. dim. of gone, seed; gene-producing) गोनडिया धारी।

gonidiod—(Gk. dim. of gone, seed; dido, form) गोनडियोपद; गोनडियाधारी।

gonidiophore—(Gk. dim. of gone, seed; pheros, to bear) गोनडिया धारी।

gonidiophyll—(Gk. dim. of gone, seed; phyllon, leaf) युग्मकोत्पन्न पत्त।

gonimoblasts

gonimoblasts—(Gk. *gonimos*, productive; *blastos*, bud) निषिक्त वर्धी तन्तुक; कुछ शैवाल में निषिक्त कार्पोगोनियम (carpogonium) के वर्धी तन्तुक।

gonion—(Gk. *gonia*, angle) (हनु का) कोण बिन्दु (angle point)।

gonoblast—(Gk. *gonos*, offspring; *blastos*, bud) जनन कोशिका।

gonoblastid-gonoblastidium—(Gk. *gonos*, offspring; *blastos*, bud; *idion* dim.) मेड्युसाधारी।
[देखिये—blastostyle]

gonocalyx—(Gk. *gonos*, offspring; *kalyx*, cup) जनन घंटिका। किसी मेड्युसाकार उत्पादक मुकुल (medusiform gonophore) की घंटिका (bell)।

gonocheme—(Gk. *gonos*, offspring; *ochema*, support) लिंग कोशिका धारी; हाइड्रोजोआ (Hydrozoa) जन्तुओं में लिंग कोशिकाओं युक्त मेड्युसाकार (medusoid)।

gonochorism—(Gk. *gonos*, offspring; *chorisein*, to divide) लिङ्गभेद। भिन्न लिङ्गों के बनने (sex differentiation) का इतिहास या वर्धन (development)।
[देखिये—dioecism]

gonochoristic—(Gk. *gonos*, birth; *chorisein*, to divide) भिन्न लिङ्गी; पृथक् लिङ्गी। पृथक्-पृथक् नर व मादा व्यक्तियों को पैदा करने वाला।

gonocoel—(Gk. *gone*, seed; *koilos*, hollow) जननाङ्ग कोटर; जननाङ्ग गह्वर; गोनोसील।

gonocytes—(Gk. *gone*, seed; *kytos*, hollow) (१) लिङ्ग कोशिका, छिद्र देहियों (sponges) में।
(२) मातृ निषेकाणु; डिम्ब (ova) तथा वीर्याणु (spermatozoa) के मातृ कोशिका (mother cells)।

gonodendron—(Gk. *gonos*, offspring; *dendron*, tree) शाखीय कोरक स्तम्भ। फाइसेलिया (Physalia) जन्तु का शाखीय कोरक स्तम्भ (blastostyle)।

gonoduct—(Gk. *gone*, seed; L. *ductus*, duct) जनन नलिका; युग्मक वाहिनी।

gonomery—(Gk. *gonos*, birth; *meros*, part) सूत्र-पार्थक्यवाद। यह मत कि समस्त यावत् जीवन (through out life) पैतृक और मातृक परम्परा सूत्र

(paternal and maternal chromosomes) अलग-अलग समुदायों में रहते हैं।

gononucleus—(Gk. *gonos*; begetting; L. *nucleus*, kenel) उत्पादक अणु; जननाणु; जनन केन्द्रक।

gonophore—(Gk. *gone*, seed; *pherein*, to bear) जनन पोलिप-; उत्पादक मुकुल—हाईड्राकारजन्तु दल (hydroid colony) का।

gonoplasm—(Gk. *gone*, seed; *plasm*, mould) उत्पादन सत्व।

gonopodium—(Gk. *gone*, seed; *pous*, foot) मैथुनांग (१) नर कीट का मैथुनांग। (२) कुछ मत्स्यों के नर में पाया जाने वाला परिवर्तित गुदीय फिन (anal fin) जिसका कार्य मैथुन का होता है।

gonopore—(Gk. *gone*, seed; *poros*, channel) जनन-छिद्र।

gonosome—(Gk. *gone*, seed; *soma*, body) जनन-काय; सहउत्पादीय मुकुल (हाइड्रोजोआ निवह में)।

gonosphaerium—(Gk. *gone*, seed *sphaira*, globe) अनिषिक्त डिम्ब। [देखिये—oosphere]

gonostyle—(Gk. *gonos*, birth; *stylos*, pillar) (१) जनन स्तम्भ (२) मेड्युसाधारी।

gonotheca—(Gk. *gonos*, birth; *theke*, cup) जनन पुट; गोनोथीका; जनन प्रावरक।

gonotome—(Gk. *gonos*, birth; *temnein*, to cut) जनन खण्ड। वह भ्रौणिक खण्ड (embryonic segment) जिसमें जननांग (gonad) की आद्य स्थिति (perimordium) होती है।

gonozooid—(Gk. *gonos*, birth; *zoon*, animal; *eidos*, form) उत्पादक मुकुल।

gonys—(Gk. *genys*, lower jaw) चंचुनिम्न। पक्षियों (birds) की चोंच (bill) का नीचे का भाग या कील (keel)।

graafian follicle—(R. *de*, *graaf*, dutch anatomist) ग्रैफीयन कोषक।

graber's organ—ग्रेबर-अङ्ग।

gracilis—(L. *gracilis*, slender) गैसीलिस; जाँघ की एक पेशी।

grade—(L. *gradus*, step) श्रेणी।

graded groups—क्रमानुगत समुदायों।

graduated—(L. *gradus*, step) झुंडाकृति; (१) बाहिस्ता-आहिस्ता लम्बा और छोटा होते जाना; (२) क्रम-चिह्नान्वित; अंशांकित ।

grain—(L. *granum*, grain) कण; दाना; अनाज; अन्न ।

granimifolious—(L. *gramen*, grass; *folium*, leaf) वृणपर्णी; घास सदृश पत्नीयुक्त ।

graminivorous—(L. *gramen*, grass; *vorare*, to eat) वृणा हारी; घासहारी; घास भोजी ।

Grandry's corpuscle—(Grandry, Belgian anatomist) स्पर्शांग; पक्षियों के चंचु और जिह्वा के अंग पर स्थिति स्पर्श संवेदनांग ।

granellac—(L. *dim.* of *granum*, grain) अण्डाकार कण ।

granellarium—(L. *dim.* of *granum*, grain) अण्डाकार कणी ।

granose—(L. *granum*, grain) मालाकार; मालोपम । मनकों (beads) की माला जैसा ।

granular—(L. *granum*, grain) (१) कणी; कणमय; कणिकामय । (२) दनदानेदार; रवेदार; दानेदार ।

granulation—(L. *granum*, grain) दनदाना ।

granule—(L. *granulum*, small grain) कण; दनदाना; कणिका; कनी ।

granule cells—कणमय कोशिकायें ।

granule glands—कण-ग्रन्थियाँ ।

granulocytes—(L. *granulum*, small grain; Gk. *kytos*, cell) कणीश्वेताणु ।

graphiohexaster—(Gk. *graphein*, to write; *hex*, six; *aster*, star) षीकीह्रितताष्टर; आरेखीषट तारक (म्भीरपूल) ।

gravid—(L. *gravidus*, loaded) गर्भिणी; गर्भवती ।

graviperception—(L. *gravis*, heavy; *percipere*, to feel) गुरुत्व-बोध ।

gravity—(L. *gravis*, heavy) गुरुत्व; आकर्षण शक्ति ।

green gland—हरित ग्रन्थियाँ । शिमी केकड़ा कणियों (crustaceans) की शरीर तंतु (antennae) पर स्थित विशर्जन ग्रन्थि ।

gregaloid—(L. *grex*, flock; Gk. *eidos*, form) अनिश्चिताकार दल [एक कोशिका-प्रोटोजोआ-*protozoa* का] ।

gregarious—(L. *grex*, flock) घुमी; घुमानियामी; गूथ या झुंड (herd) में रहने की रति (tendency) वाला ।

grey matter—धूमर पदार्थ; धूमर द्रव्य ।

grey nerve fibres—धूमर नारी सूत्र ।

groin—(L. *icel*, *grein*, branch) उर, उपमा ! उदर (abdomen) और जाँघ (thigh) के बीच का दया हुआ भाग ।

groove—('dug', *groef* channel) पगिना; लीक; गीन; खाँचा ।

growing point—वृद्धि स्थल; वृद्धि बिन्दु ।

growth—(A. S. *growan*, coan, with green) वृद्धि ।

growth hormones—वृद्धि-उद्दीपक; वृद्धि कारक हार्मोन ।

grumose—(L. *grumus*, hillock) गठीला; चबूटेदार । दनदानेदार दलों में जमा हुआ ।

grumulus—(Dim. of L. *grumus*, hillock) पुच्छ कोशिका समुच्चय (कीट श्रूण में) ।

gryochrome—(Gk. *gry*, mossel; *chroma*, colour) निस्तकण अग्रमिक छिन्ने हुए ।

guanidine—(Peruvian, *huano*, dung) ग्वानिटीन; CH_5N_3 ; ग्वानिन के आसनीकरण में उत्पन्न पदार्थ, जिसका उपापचर पैराथायराइड (parathyroid) में निर्दिष्ट होता है ।

guanine—(Peruvian, *huano*, dung) ग्वानिन, $C_5H_7O_3N_5$; एक प्यूरिन क्षारक (purine base) जो कुछ पौधों, जन्तु मन्तुओं और मनुषी में पाया जाता है ।

guanophore—(L. *peruvian*, *huano*, dung; Gk. *pherein*, to bear) पीत कोशिका ।

guanylic—ग्वानोसिनिक—ऐसा न्यूक्लियिक अम्ल जो ग्वानोसिन पदार्थ बनाता है ।

guard cell—रक्ष-कोशिका; स्टोमेटा (stomata) का गठन को भेरे हुए कोशिकाके, दाहक ऊपरी के सारकी उपरिभास (aerial epidermis) के गठन को भेरे हुए कोशिकाके ।

gubernaculum—(L. *gubernare*, to govern) लांगल ।

guest insect—परनीड़ी । दूसरे के नीड़ (nest) में रहने या बच्चे देने वाला कीट (insect) ।

gula—(L. *gula*, gullet) कण्ठिका । कण्ठ (throat) का ऊपरी (upper) भाग । कीट (insect) के सिर (head) की पट्टिका (sclerite) ।

gumentum—(L. *gulla*, gullet; *mentum*, chin) कण्ठिकाविन्दुक । कीटों (insects) में पाया जाने वाला कण्ठिका (gula) और प्रत्योष्ठ मूल (submentum) के संलय (fusion) से निर्मित पट्ट (plate) ।

gular—(L. *gula*, gullet) कण्ठ; कण्ठी; कण्ठीय; कण्ठ सम्बन्धी ।

gullet—(O. F. *goulet*, from; L. *gula*, gullet) निगरण; निगलक; ग्रास नली; ग्रसिका ।

gum—(L. *gummi*, gum) गोंद ।

gummiferous—(L. *gummi*; gums; *ferre*, to carry) गोंद निर्यासक; गोंद स्त्रावक; गोंद उत्पन्न कर्ता ।

gummosis—(L. *gummi*, gum) गोंदाति; गमोसिस; पादप ऊतक की वह दशा जब कोशिका भित्ति चिपचिपे पदार्थ (गोंद) युक्त हो जाती है ।

gums—(A. S. *goma*, jaw) मसूड़ा ।

gustatory—(L. *gustare*, to taste) रसज्ञ; स्वादुक; रस संवेदी ।

gustatory cells—(L. *gustare*, to taste) स्वादुक कोशिका; रससंवेदी कोशिका ।

gustatory calyculus—रसज्ञ कौरक ।

gustatory pores—रसज्ञ छिद्र; स्वादु-छिद्र; रस संवेदी रन्ध्र ।

gut—(A. S. *gut*, channel) (१) आंत (२) अन्न प्रणाली; पाचन नली; आहार नली; भोजन नली ।

gut fore—अग्रान्त्र; अन्न प्रणाली का अगला भाग ।

gut mid—मध्यान्त्र; अन्न प्रणाली का मध्य भाग ।

gut hind—पश्चान्त्र, अन्न प्रणाली का पश्च भाग ।

gutta—(L. *gutta*, drop) रंज्य बिन्दु; वर्ण चिह्न; कीट पक्ष पर छोटा-सा रंगीन बिन्दु (वर्ण चिह्न) ।

guttate—(L. *gutta*, drop) बिन्दुक ।

guttation—(L. *gutta*, drop) जल बिन्दुता; अमृत स्तुत ।

guttiform—(L. *gutta*, drop; *forma*, shape) चिन्दुसम; बिन्दु सदृश ।

guttulate—(L. *guttula*, small drop) लघुबिन्दु चिह्नित ।

gymnanthous—(Gk. *gymnos*, uncovenared; *anthos*, flower) नग्नपुष्पी; पुष्पावरण हीन; अपरिदली; अनावृत पुष्पी ।

gymnetrous—(Gk. *gymnos*, naked; *etron*, abdomen) गुदा क्षेपणी हीन; गुदा क्षेपणी (anal fin) रहित ।

gymnoarian—नग्न जननांग ।

gymnoblasic—(Gk. *gymnos*, naked; *blastos*, bud) नग्न मुकुली । हाइड्रा पुट (hydrotheca) और जनन पुट (gonotheca) से रहित (कुछ सीलोमान्त्री coelenterates) में ।

gymnocarpous—(Gk. *gymnos*, uncovered; *karpos*, fruit) नग्न पुष्पक; अनावृत फल ।

gymnocidium—(Gk. *gymnos*, uncovered; *oikos*, house, *idion*, dim.) आधार स्फीति; नगनाधार; किन्हीं मांस कैप्सूल के अधोभाग की स्फीति ।

gymnocyte—(Gk. *gymnos*, uncovered; *kytos*, hollow) अभित्तिक कोशिका । कोष्ठ या कोशिका भित्ति (cell wall) से रहित कोष्ठ (कोशिका) ।

gymnocytoide—(Gk. *gymnos*, naked; *kytos*, hollow; *eidos*, form) अनावृत प्रोटोप्लाज्म; कोशिका भित्ति या न्यूक्लियस हीन प्रोटोप्लाज्मिक ओघ (mass) ।

gymnogenous—(Gk. *gymnos*, naked; *genos*, offspring) नग्न जात; पक्षहीन उत्पन्न होने वाला (पक्षी) ।

gymnogynous—(Gk. *gymnos*, naked; *gymnos*, female) अनाकृत जायांगी; अनावृत डिम्बाशयी ।

gymnoplast—(Gk. *gymnos*, naked, *plastos*, formed) नग्न प्रोटोप्लाज्म; अनावृत प्रोटोप्लाज्म ।

gymnopterous—(Gk. *gymnos*, naked; *pteron*, wing) नग्न पक्षक; अशक्त पक्षक ।

- gymnorhinal**—(Gk. *gymnos*, naked; *rhis* nose) नग्ननासा । पक्षहीन नासा प्रदेश (nostril region not covered by feathers) वाले (पक्षी) ।
- gymnosomatous**—(Gk. *gymnos*, naked; *soma*, bud) नग्न काय । कर्पूर (shell) या पिघान (mantle) रहित शरीर वाले (मोलस्का या कवचधारी molluscs) में ।
- gymnospermous**—(Gk. *gymnos*, naked; *sperma*, seed) अनाकृत बीजा ।
- gymnosporous**—(Gk. *gymnos*, naked; *sporos*, seed) अनाकृत स्पोर; नग्न स्पोर ।
- gymnostomatous**—(Gk. *gymnos*, naked; *stoma*, mouth) नग्न मुखी ।
- gynaecaner**—(Gk. *gyne*, women; *aner*, man) नारीनर (चींटी) ।
- gynaecoid**—(Gk. *gyne*, woman; *eidos*, form) अण्डज उद्योगी (चींटी); नारीयोपम ।
- gynaecology**—स्त्री रोग विज्ञान ।
- gynaecophore**—(Gk. *gyne*, woman; *pherein*, to carry) नारीधारक; कुछ कृमि जो अपने शरीर में पाएवों को घुमाकर छाँच बना लेते हैं तथा नारी (मादा) को उसमें रखकर घूमते हैं ।
- gynandrisim**—(Gk. *gyne*, woman; *aner*, man) उभयलिङ्गता ।
- gynandromorph**—(Gk. *gyne*, woman; *aner*, man; *morphe*, form) नरनारी; स्त्रीपुरुष । नर (male) और नारी (female) लक्षणों (characters) के संचित रूप (mosaic form) में मिलने से बना हुआ व्यक्ति (individual) । [देखिये—intersex]
- gynandromorphism**—(Gk. *gyne*, woman; *aner*, man; *morphe*, form) नरनारिता; स्त्रीपुरुषता । [देखिये—gynandromorph]
- gynandrophore**—(Gk. *gyne*, woman; *aner*, man; *pherein*, to carry) पुंजायागधर; स्त्रीर धरने धारक अक्षीय प्रलंबन ।
- Gynandrosporous**—(Gk. *gyne*, woman; *aner*, man; *spores*, seed) स्त्रीपुंबीजाणुक ।
- gynandrous**—(Gk. *gyne*, woman; *aner*, man) संयुज केसरी; पुंस्त्री केसरी; पुंनर और स्त्री नर रहे हुए जैसे कुछ आरकिस (orchids) में ।

- gynantherous**—(Gk. *gyne*, woman; *anthos*, flower) स्त्रीय पुंकेसरी; पुंकेसर स्त्रीकेसर में परिवर्तित ।
- gynase**—(Gk. *gyne*, woman) नारी कारक ।
- gynatrium**—(Gk. *gyne*, woman; L. *atrium*, entrance hall) गर्भानय; किन्हीं कीटों का मादा जनन बाण्ड ।
- gyne**—(Gk. *gyne*, woman) नारी या मादा बीटी ।
- gynecomastic**—दुग्ध ग्रन्थि का नर में नक्षिय होने की दशा ।
- gynecium**—(Gk. *gyne*, woman, *oikos*, house) जायाग; फूल के मादा अंग जैसे स्त्रीकेसर (pistil), और अंडप (carpel) ।
- gynobase**—(Gk. *gyne*, woman; L. *basis*, base) जायागनाभिक; जायाग मूल; वह दशा जिसमें बतिका (style) डिम्बाणव (ovary) से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है ।
- gynodioecious**—(Gk. *gyne*, woman, *dis*, twice; *oikos*, house) उभयलिंग पुष्पी; निम्नस्थोभय-स्त्री लिंगी ।
- gynoccium**—(Gk. *gyne*, woman; *oikos*, house) जायाग ।
- gynogenesis**—(Gk. *gyne*, woman; *genesis*, descent) जायाजनन; ऐसे डिम्बों (ovum) में जनन (जनने शुक्राणु बिना केन्द्रक (nucleus) के प्रवेग करता है, जैसा कुछ नीलकृमि (nematodes) में ।
- gynogonidia**—(Gk. *gyne*, woman, *gonidion*, small seed) स्त्रीय-गोनिडिया ।
- gynomerogony**—(Gk. *gyne*, female; *meros*, part; *gone*, generation) जायाग धर्मन ।
- gynomonoecious**—(Gk. *gyne*, woman; *monos*, alone; *oikos*, house) स्त्री एकलिंगी (पुष्पी); ऐसे कीटों जिनके फूलों में केवल स्त्री केसरी (pistillate) और उभयलिंगी (hermaphrodite) पुष्प होते हैं ।
- gynophore**—(Gk. *gyne*, woman, *pherein*, to carry) जायागधर; डिम्बाणव की धारण करने वाला मादा-जनन रोडनर पुष्प ।
- gynospore**—(Gk. *gyne*, female, *spores*, seed) स्त्री बीजाणु; मादा स्पोर; अणु बीज; मादाबीजाणु ।
- gynostegium**—(Gk. *gyne*, woman; *stere*, roof) पुंयलिंगधर छत; अजायागधर; स्त्रीय नरनाभक अजायाग ।

gynostemium—(Gk. *gyne*, woman; *stemon*, warp) पुंजायांग स्तंभ ।
gypsophil—(Gk. *gypos*, chalk, *gypsus*; *philein*, to love) खरिक रागी; जिप्सम मृदवासी ।
gyral—(L. *gyrus*, circle) भंवर; घुमेड़-सम्बन्धी; गोलाकार या चक्राकार गति ।
gyration—(L. *gyrare*, to revolve) परिभ्रम; अपरिवृत्ति ।

gyrencephalic—(Gk. *gyros*, circle; *engkephalos*, brain) प्रमस्तिष्की घुमेड़ युक्त ।
gyrose—(L. *gyrare*, to revolve) संवलित; लहरी; ऊंची-नीची रेखा युक्त ।
gyrus—(L. *gyrus*, circle) घुमेड़ । प्रमस्तिष्क (*cerebrum*) में पाई जाने वाली, किसी भी दो सीताओं (*sulci*) के बीच से स्थित घुमावदार मेड़ (*convolution*) ।

H

H disc—एच विम्ब; हैन्सन्स विम्ब (*Hensen's disc*); पेशीतन्तुक के विपमदेशीय पट्ट में पाया जाने वाला लघु या हल्का क्षेत्र ।
habenula—(L. *habena*, strap) हेंवेनुला; कोई फीते-नुमा या पट्टनुमा संरचना ।
habit—(L. *habitus*, state) स्वभाव; आदत ।
habitable—(L. *habitare*, to inhabit) निवास योग्य; वास योग्य ।
habitat—(L. *habitare*, to inhabit) वास, स्थान; आवास; (किसी प्राणी का) निवास स्थल (*locality*) या वाह्य वातावरण (*environment*) ।
habitual—(L. *habitus*, state) स्वभाविक ।
habituation—(L. *habituare*, to bring into a habit) अभ्यस्तीकरण; अभ्यस्तता [किसी कोशिका (*cell*) या अंगी (*organism*) का] । किसी उत्तेजना के प्रति ऐसा अभ्यस्त होते जाना कि इसकी फिर पुनरावृत्तियों (*repetition*) का प्रभाव क्रमशः कम होता जाए ।
habitus—(L. *habitus*, appearance) स्वरूप; रूप गुण; किसी पौधे या जन्तु के स्वरूप लक्षण ।
hackle—कंठपिच्छ ।
hydrocentric—(Gk. *hadros*, thick; *kentron*, centre) जलवाहोतक केन्द्री; जाइलम (*xylem*) को घेरे हुए फ्लोएम (*phloem*) युक्त ।
hydrome—(Gk. *hadros*, thick) हाईड्रोम; जाइलम का वाहक ऊतक ।
haem—(Gk. *haima*, blood) हीम; रुधिर में पाया जाने वाला पदार्थ विशेष ।

haemachrome—(Gk. *haima*, blood; *chromos*, colour) हीमेक्रोम; रुधिर रंग ।
haemacyte—(Gk. *haima*, blood; *kytos*, hollow) रक्त-कण; रुधिर-कण ।
haemad—(Gk. *haima*, blood) हीमेड; हृत्पाश्चर्वर्ती ।
haemamoeba—(Gk. *haima*, blood; *amoibe*, changes) हीमामीबा; रक्तामीबा ।
haemal—(Gk. *haima*, blood) राक्तिक; रक्तिय; रक्त या रुधिर सम्बन्धी; हीमल ।
haemapoietic—(Gk. *haima*, blood; *poiein*, to form) रुधिरोत्पादक; रक्तोत्पादक; खून बनाने वाला ।
haemapophysis—(Gk. *haima*, blood, *apo*, from; *phyein*, to grow) पाश्चोदर प्रवर्धन । कशेरूदण्ड (*vertebral column*) के पाश्चोदरीय तलों (*latero-ventral surfaces*) से निकला हुआ कांटे समान (*spine like*) या पट्टाकार (*plate like*) प्रवर्धन (*process*) ।
haematal—(Gk. *haima*, blood) रक्तिक; रक्तिय; रक्त या रुधिर सम्बन्धी ।
haematid—(Gk. *haima*, blood) लाल रक्त-कण ।
haematin—(Gk. *haima*, blood) हीमेटिन; $C_{34}H_{33}O_5N_4Fe$ रक्त रंजक (*haemoglobin*) के क्षय (*decomposition*) से उत्पन्न होने वाला रंग या वर्ण विशेष ।
haematobic—(Gk. *haima*, blood; *bios*, life) रुधिर-वासी; खून में रहने वाला ।
haematobium—(Gk. *haima*, blood; *bios*, life) रुधिर-वासी; खून में रहने वाला जीव या अङ्गी (*organism*) ।

haematoblast—(Gk. *haima*, blood; *blastos*, bud) रुधिर कणज; वह कोशिका जो लाल रक्त कण (red blood corpuscle) बन जाती है।

haematochrome—(Gk. *haima*, blood; *chroma*, colour) हीमेटोक्रोम; कुछ शैवाल (algae) का लाल वर्ण।

haematocryal—(Gk. *haima*, blood; *kryos*, cold) अमित तापी; भिन्न तापी।

[देखिये—cold-blooded या poikilothermal]

haemocyanin—(Gk. *haima*, blood, *kyanos*, dark blue) हीमेटोसाइनिन; मौलस्का (mollusca); केकड़ा वंशी (crustacea) तथा मकड़ी वंशी (arachnids) के रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन (haemoglobin) सदृश रक्त रंग जिसमें लोहे (iron) के स्थान पर तांबा (copper) होता है।

haematocytozoon—(Gk. *haima*, blood; *kytos*, hollow; *zoon*, animal) रक्त कणीपरजीवी; रक्त कणों (blood corpuscles) के अन्दर रहने वाला पर-जीवी (parasite)।

haematodocha—(Gk. *haima*, blood; *docha*, receptacle) हीमेटोडोका; सूत्र-प्रत्यासव कोष।

haematogen—(Gk. *haima*, blood; *genos*, birth) हीमेटोजन। केन्द्रक या न्यूक्लियस (nucleus) में पाया जाने वाला प्रोटीन (protein) विशेष।

haematogenesis—(Gk. *haima*, blood; *genesis*, descent) रक्त निर्माण; रक्तोत्पादन।

haematogenous—(Gk. *haima*, blood; *genos*, birth) रक्तज; रक्त निर्मित; रक्त (blood) में या रक्त में उत्पन्न।

haematoid—(Gk. *haima*, blood; *eidōs*, form) रक्तोपम; रक्ताकार।

haematoidin—(Gk. *haima*, blood; *eidōs*, form) विलरुधिन सदृश; हीमोग्लोबिन का लोहयुक्त व्युत्पन्न (derivative) यौगिक।

haematology—(Gk. *haima*, blood; *logos*, discourse) रुधिर विज्ञान; रक्त विज्ञान।

haematolysis—(Gk. *haima*, blood; *lysis*, loosening) रक्त टास; रक्त टूटकरना। [देखिये—haemolysis]

haematophagous—(Gk. *haima*, blood; *phagein*, to eat) रक्ताहारी; रुधिर भोजी।

haematophyte—(Gk. *haima*, blood; *phyton*, plant) हीमेटोफाइट; रक्तादप; रक्त वा वनस्पतिक बणू अंगी (micro-organism)।

haematoporphyrin—हीमेटोपोरफाइरिन; $C_{17}H_{13}O_4N_4$; हीमेटिन के विघटन से प्राप्त लोहहीन यौगिक।

haematosis—(Gk. *haimatocin*, to change to blood) रक्त निर्माण; रक्तोत्पादन।

haematothermal—(Gk. *haima*, blood; *thermos*, warm) परिमित तापी।

[देखिये—warm-blooded या homiothermal]

haematozoon—(Gk. *haima*, blood; *zoon*, animal) रक्तजीवी; रक्तपरजीवी।

haemerythrin—(Gk. *haima*, blood; *erythros*, red) हीमेरीथ्रिन; कुछ एनेलिडा और साक्ष्यनक्षुनिट्स के शरीर तरल की कणिकाओं में पाया जाने वाला लाल श्वसन वर्ण।

haemic—(Gk. *haima*, blood) रक्त-; रक्ति; रक्त-सम्बन्धी; रुधिर सम्बन्धी।

haemin—(Gk. *haima*, blood) हेमिन; $C_{10}H_{16}O_4N_4FeCl$; रक्त घबके में बना क्लोराइड।

haemochromes—(Gk. *haima*, blood; *chroma*, colour) रक्त वर्ण जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोक्रोमिन, इरीप्रोथ्रिन, हीमोइरिथ्रिन।

haemochromogen—(Gk. *haima*, blood; *chroma*, colour; *gonos*, birth) हीमोक्रोमोजन; हीमोक्रोमिन के न्यूनीकरण और धार के प्रभाव में उत्पन्न प्रोमोप्रोटीन।

haemoclastic—(Gk. *haima*, blood; *klastos*, broken) रक्त नासक; रक्त को निम्न भंग (नासक)।

haemocoel—(Gk. *haima*, blood; *koelōs*, hollow) रुधिर गुहा; रक्त बोधर; रक्त मध्य; रक्त नील; रक्त मण्डल (blood system) का भाग जो शरीर के भाग जो सीवोम या काइल (coelom) का स्थान ले लेता है।

haemocyanin—(Gk. *haima*, blood, *kyanos*, dark blue) रक्त रान; हीमेटोसाइनिन। मौलस्का (mollusca) परजीवी (molluscs), केकड़ा वंशी (crustacea) और मकड़ी वंशी (arachnids), में पाया जाने वाला रक्त

haemocyte

रंजक (haemoglobin) सहस्र पदार्थ जिसमें लोहे (iron) के स्थान में ताँबा (copper) होता है।

haemocyte—(Gk. *haima*, blood; *kytos*, hollow) रक्त कोष्ठ; रक्त कोशिका; रुधिराणु।

haemocyto blast—(Gk. *haima*, blood; *kytos*, hollow; *blastos*, bud) मूल रक्त कोशिकज; वह मूल मातृ कोशिका (primitive germ cell) जिससे सब रक्त कोशिका (blood cells) बनते हैं।

haemocytolysis—(Gk. *haima*, blood; *kytos*, hollow; *lyein*, to dissolve) लाल रक्ताणु ह्रासक।

haemocytotrypsis—(Gk. *haima*, blood; *kytos*, hollow; *tribein*, to rub) हीमोसाइटोट्रिप्सिस; दबाव से रक्त कणिकाओं का दूटना।

haemoerythrin—(Gk. *haima*, blood; *erythros*, red) रक्त श्लोण, हीमोइरीथ्रिन। कुछ कशेरुकीयों (invertebrates) में पाया जाने वाला श्वासक (respiratory) पदार्थ।

haemofuscin—(Gk. *haima*, blood; *L. fuscus*, tawny) हीमोफस्सिन; पीत रक्त वर्ण; जिसका जमाव रोग की दशा में होता है।

haemoglobin—(Gk. *haima*, blood; *globos*, sphere) श्वास रंजक; हीमोग्लोबिन। लौह (iron) युक्त रुधिर को लाल बनाने वाला पदार्थ। कशेरुकों की लाल रुधिर कोशिकाओं में तथा कुछ अन्य जन्तुओं में जैसे केंचुआ (earth worm) के रक्त में तथा गोल कृमि (round worms) की पेशियों में पाया जाने वाला श्वास-रंजक (respiratory pigment) पदार्थ। यह सेम वंशीय (leguminous) पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण (nitrogen fixing) करने वाली मूल सन्धियों (root nodules) में भी पाया जाता है। यह पदार्थ आवसीजन मिश्रित चमकीला लाल तथा आवसीजनहीन नीला होता है। प्रत्येक जन्तु प्रजाति में भिन्न हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ तक कि स्तनी की भादा के गर्भ में स्थिति शिशु और प्रौढ़ में भी यह भिन्न होता है।

haemoid—(Gk. *haima*, blood; *eidos* form) रक्तोपम; रक्त-सदृश; रक्त की तरह का।

haemolistioblast—(Gk. *haima*, blood; *histion*, tissue; *blastos*, bud) हीमोलिस्त्युज; शिरा रक्त में पाई जाने वाली मुक्त वृहद् भक्षक कोशिका।

haemolymph—(Gk. *haima*, blood; *lymphe*, fluid) रुधिर-लसीका, रक्त-लसीका; रक्त-लिम्फ; कशेरुकीयों (invertebrates) के सीलोम या गह्वर (coelom) में पाया जाने वाला तरल (fluid) जो उच्च श्रेणी के जन्तुओं (higher animals) के खून (blood) और लिम्फ या लसीका (lymph) के तुल्य (equivalent) माना जाता है।

haemolysin—(Gk. *haima*, blood; *lyein*, to dissolve) रक्त कण नाशक।

haemolysis—(Gk. *haima*, blood; *lysis*, loosing) रक्त द्राव; रक्त द्रवीकरण।

haemophilia—(Gk. *haima*, blood; *philos*, loving) श्यानाक्षमता। वहे हुए खून (shed blood) को शीघ्र यक्का बनाने (coagulation) की क्षमता न रखने वाला।

haemoplasmodium—(Gk. *haima*, blood; *plasma*, mould) रक्त-प्रजीवी। खून (blood) में रहने वाला एक कोशिक (unicellular) परजीवी (parasite)।

haemoplastic—(Gk. *haima*, blood; *plastos*, formed) रक्त निर्माणक। [देखिये—विलोम haemoclastic—रक्त नाशक]

haemopoiesis—(Gk. *haima*, blood; *poiein*, to make) रुधिर निर्माण; रक्तोत्पादन।

haemopoietic—(Gk. *haima*, blood; *poietikos*, productive, रक्त निर्माणक; रुधिर निर्माणक।

haemopsonia—(Gk. *haima*, blood; *opsonin*, to cater) हीमोपसोनिन; लाल रक्ताणु हेतु वैकटीरिया नाशक।

haemorrhage—(Gk. *haima*, blood; *rhegnynai*, to burst) रक्त प्रवाह; खून का निकलना।

haemorrhoidal—(Gk. *haima*, blood; *rheein*, to flow) मलाशयी रक्त नलिकायें।

haemosiderin—(Gk. *haima*, blood; *sideros*, iron) हीमोसिडेरिन; लौह युक्त रक्त पीत वर्ण।

haemostatic—(Gk. *haima*, blood; *statikos*, causing to stand) रक्त स्थिरक; हीमोस्टेटिक; सन्धिपादों में ट्रोकेन्टर और फीमर सन्धि पर की कला।

haemotoxin—(Gk. *haima*, blood; *toxiken*, poison) रक्त नाशक।

haemotropic—(Gk. *haima*, blood; *trope*, turn) रुधिर-प्रभावक; खून पर प्रभाव डालने वाला।

haemozoin—(Gk. *haima*, blood; *zoon*, animal) रजकावशेष; हीमोजोइन; मलेरिया परजीवियों (malarial parasites) द्वारा रक्त रंजक (haemoglobin) के पाचन (digestion) के पश्चात् बचे हुए भाग, जो काले कणों (black granules) के रूप के होते हैं।

hair—(A. S. *haer*) बाल; केश; रोम; कच।

hair cell—केश कोशिका।

hair follicle—केश कोषक; केश कूप।

haliplankton—(Gk. *halo*, sea; *planktos*, wandering) समुद्र-प्लवक। समुद्र या सागर में बहने वाला जन्तु पंज। [देखिये—plankton]

Haller's organ—(G. *Haller*, German zoologist) हैलर-अंग; चीचडी (ticks) के गुल्फ (tarsus) पर स्थिति रसायन-ग्राही (chemoreceptor)।

hallux—(L. *hallus*, great toe) पाँव का अंगूठा; प्रथम पादांगुली; पादांगुष्ठ।

halobios—(Gk. *halo*, sea; *bios*, life) समुद्र-प्राणी माय; समुद्री जीव समूह; समुद्र में रहने वाले सम्पूर्ण जीव।

halolimnic—(Gk. *hals*, sea; *limne*, marsh) हेलोलिमनिक; सामुद्रिक जन्तु जो स्वच्छ जल में रहने योग्य हो जाते हैं।

halophilic, halophilous—(Gk. *hals*, salt; *philic*, to love) लवण-रागी; लवण-प्रेमी; लवण-समृद्धी; लवण (salt) की उपस्थिति (presence) में समृद्ध होने वाला (thriving)।

halophyte—(Gk. *hals*, salt, *phyton*, plant) लवण समृद्धी पादप; लवण-पादप; लवणमृद्धीभिर्।

haloplankton—(Gk. *hals*, salt; *planktos*, wandering) समुद्रप्लवक। [देखिये—haliplankton]

halosere—(Gk. *hals*, salt; L. *serere*, to put in a row) लवण श्रमक।

halters—(Gk. *halter*, weight) समतोलक; भार-संपानक; द्विपक्षी (diptera) के पिछले अर्द्ध विकसित (rudimentary) पंख जो दो छोटी-छोटी मुररररररर रचनाओं के रूप में होते हैं।

hamate—(L. *hamatus*, hooked) ह्रुकोपम।

hamatum—(L. *hamatus*, hooked) ह्रुकोपमिद; हैमेटम; बनावट की एक ह्रुकी का नाम।

hamirostrate—(L. *hamus*, hook; *rostrum*, beak) बक्र चंचुक; मुड़ी हुई चोंच (beak) वाला।

hamula—(L. *hamulus*, little hook) हेमुला।

hamulus—(L. *hamulus*, little hook) हेमुला; हकी; हूक सहज प्रबंधनी।

hand—(A. S. *hand*, to seize) हस्त; हाथ।

hapaxanthous—(Gk. *hapax*, once; *anthous*, flower) सकल्पुष्पी; एकदुष्पणविक; केवल एक दुष्पण-व्यधि (flowering period) में प्रदुन्वित होने वाले।

haplobiont—(Gk. *haploos*, simple; *biont*, living) एकविध जीवी; एक प्राणी जीव; एक ही प्रकार के व्यक्तियों से बना जीव।

[देखिये—द्विलोम diplobiont—द्वि-प्राणी जीव]

haplocaulescent—(Gk. *haploos*, simple; L. *caulis*, stem) साधारण अक्षीय; मुख्य अक्ष पर हीन धारण करने वाला।

haplochlamydeous—(Gk. *haploos*, simple, *chlamys*, clock) (?) एकचक्रिय पंखी। (?) बीजाणु पत्र (sporophyll) पर अर्ध-विकसित धर्मियों युक्त।

haplo-diploid—(Gk. *haploos*, simple; *diploos*, double) अर्ध-द्विलोम युग्मित; निर विकसित—द्विमें नर अगुणित (haploid) और मादा द्विगुणित (diploid) होती है।

haplodont—(Gk. *haploos*, simple; *odont*, to ab) सरल निगरी; सरल निगर (simple crown) या चबकें (molars) वाला।

haploid—(Gk. *haploos*, simple; *eidos*, form) एककी-भ्रुवी; लघुम-भ्रुवी; अर्ध भ्रुवी; अर्धभ्रुवी (1) ऐसी स्थिति (condition) या कोशिका (cell) जिसमें परमरा सूत्री (chromosome) की मात्रा आधी (1/2) स्थित होती कि परिवर्धन प्रक्रम-कोशिकाएँ (spermatogonial cells) में पाई जाती हैं। इस प्रकार निर (meiosis) के पश्चात् प्रक्रम-कोशिकाएँ (spermatogonia) में पाई जाने वाली परमरा सूत्री (chromosomes) की न्यूनित (reduced) संख्या वाला।

haplomitosis—(Gk. *haploos*, simple; *mitosis*, thread) सामान्य भ्रुवन; एक भ्रुवन; एक भ्रुवी विभाजन।

haplont

- haplont**—(Gk. *haploos*, simple; *in*, being) अयुग्म सूत्री जीव ।
- haploperistomous**—(Gk. *haploos*, simple; *peri*, around; *stoma*, mouth) सामान्य परिमुखी; एक पंक्ति दन्त युक्त परिमुख ।
- haplopetalous**—(Gk. *haploos*, simple; *petalon*, petal) एकदलवर्ती ।
- haplophase**—(Gk. *haploos*, simple; *phasis*, aspect) एकाकी सूत्र-स्थिति; प्राणी या अङ्गी (organism) के जीवन इतिहास (life history) में अयुग्म सूत्री (haploid) स्थिति (stage) ।
- haploysis**—(Gk. *haploos*, simple) अर्धता, न्यूनता एवं वृथक्करणता ।
- haplostemonous**—(Gk. *haploos*, simple; *stemon*, warp) एकवृत्त पुंकेसरी ।
- haptera**—(Gk. *haptein*, to fasten) स्थापनांग ।
- haptic**—(Gk. *haptein*, to touch) स्पर्श-; उत्तेजनायें और प्रतिक्रियायें ।
- haptogen**—(Gk. *haptein*, to fasten; *genes*, producing) हैपटोजन; स्थापनज ।
- haptomonad**—(Gk. *haptein*, to fasten; *monas*, unit) वद्ध कपीय; वद्धएकक; कुछ परजीवी कपातन्त्रियों का एक निश्चल प्रकार ।
- haptophores**—(Gk. *haptein*, to fasten, *pherein*, to carry) संभू विषकारकी; समस्त विष जैसे लाइसिन (lysin) ओपसोनिन (opsonin), प्रेतीपिटिन या एरलुटिनन आदि सबकी मिली हुई विशेषतायें लिये हुए विष ।
- haptotropic**—(Gk. *haptein*, to fasten; *trope*, turn) स्पर्शानुवर्ती; स्पर्शाभिवृत्ति ।
- haptotropism**—(Gk. *haptein*, to fasten; *trope*, turn) स्पर्शाभिमुखी वृत्ति । स्पर्शात्तेजना (contact stimuli) का प्रत्युत्तर देने वाली प्रवृत्ति ।
- hard**—(A. S. *heard*, hard) कठोर; दृढ़; कठिन ।
- hard palate**—(A. S. *heard*, hard; L. *palatum*, palate) कठोर तालु ।
- harderian gland**—(J. J. *harde*, swiss anatomist) हार्डेरियन ग्रन्थि ।

- harlequin lobe**—अण्डाशय पाली (दल); हेमिप्टेरा (Hemiptera) में पाया जाने वाला अण्डाशय पाली (दल) जिसकी कोशिकायें अन्य दलों की कोशिकाओं से भिन्न होती हैं ।
- harmonic suture**—प्रसंवादी सेवनी; संमति सेवनी; संसंयोग सेवनी; जैसे पैलेटाइन अस्थियों के मध्य होती है ।
- hare**—(A. S. *hara*, hare) खरहा ।
- harelip**—खरहा-होठ; ऊपरी होठ का v की शकल की दरार से फटा होना ।
- harmony**—(L. *harmonia*, a fitting) सामंजस्य ।
- harmosis**—(Gk. *harnosis*, fitting) सामंजस्यता; किसी उत्तेजना के प्रति सामंजस्यता (विन्यास एवं अनुकूलता) ।
- harmozone**—(Gk. *harmoto*, I regulate) हार्मोजोन; वह उद्दीपक (hormone) जो वृद्धि (growth) तथा पोषण (nutrition) पर प्रभाव डालता है ।
- harpagones**—(Gk. *harpage*, hook) लवित्रिका; कुछ नर कीटों (insects) के आलिङ्गक (claspers) या वाल्व (valves); मच्छरों (mosquitoes) में लवित्रों (harpes) और आलिङ्गकों (claspers) के बीच की पट्टिकाओं (sclerites) का युग्म (pair); शल्की पक्षों (lepidoptera) का लवित्र (harpes) ।
- harpes**—(Gk. *harpe*, sickle) लवित्र । (१) मच्छरों (mosquitoes) में आलिङ्गकों (claspers) के बीच में स्थित काइटिन मय (chitinous) प्रवर्धन (processes) । (२) शल्की पक्षों (Lepidoptera) के आलिङ्गक (claspers) या वाल्व (valves) ।
- Hassall's concentric corpuscles**—(A. H. *Hassall*, English physician) हसल कोशिका नीड; हसल की एक समान केन्द्री कणिकायें; थाइमस (thymus) के मध्यंश में पाई जाने वाली अधिच्छद् कोशिकाओं के नीड (nests) ।
- hastate**—(L. *hosta*, spear) हैस्टेट; त्रिकोणक ।
- hatching**—(M. E. *hacchen*, from an assumed) प्रोद्भव, अण्डोदगमन ।
- hatschek's pit**—(B. *hatschek*, Italian zoologist) हैचक का गर्त ।

haulm—(A. S. *healm*) विसर्पी; पत्ताल (स्वम्भ) ।
 haustellate—(L. *huriere*, to suck) चूपक तुण्टी;
 चूसने (sucking) के उपयुक्त तुण्ट (proboscis)
 वाला ।
 haustellum—(L. *huriere*, to suck) चूपक तुण्ड ।
 haustorial—(L. *huriere*, to drink) चूपक
 प्रवर्धनी; पुण्ट प्रवर्धनी ।
 haustorium—(L. *huriere*, to drink) चूपकाग;
 किन्हीं परजीवी पौधों में तना, जड़ या कवक तन्तु का
 प्रवर्धन (अभिवृद्धि) जो पोषक से खाद्य चूसता है ।
 haversian canal—(C. *havers*, English anatomist)
 हेवर्सियन नलिका । हड्डी के अन्दर स्थित छोटी-छोटी
 नलिकाएँ जिनमें रक्त कोशिकाएँ (blood capillaries),
 तंत्रिका या नाड़ी (nerve) और लसीका कोटर
 (lymph spaces) आदि होते हैं ।
 head—(A. S. *beafod*, head) सिर; शिर ।
 head case—सिर का खोका; कीटों (insects) के सिर
 पर बाह्य दृढ़ावरण ।
 head fold—अग्र भाँज; शिरस्क भाँज; शीर्ष भाँज ।
 head kidney—अग्र-वृक्क ।
 health—(A. S. *haelth*, whole) स्वास्थ्य; तन्दुरुस्ती;
 आरोग्य ।
 hearing—(A. S. *hyran*, hear) सुनना; श्रवण ।
 heart—(A. S. *heorte*,) (१) हृदय; दिल । (२) किसी
 फल या वृक्ष का केन्द्रक भाग ।
 heat—(A. S. *hactum*) (१) गर्मी; ताप । (२) मद ।
 heat spot—ताप बिन्दु; ताप क्षेत्र ।
 hectocotylus—(Gk. *hekaton*, hundred, *kotyle*,
 vessel) शुक्रार्पण (भुजा) । नर सिररपादों (cephalo-
 pod) में एक भुजा जो वीर्याणु या शुक्राणु (sperms)
 को स्थानान्तरित (अर्पण) करने में प्रयुक्त होती है ।
 hedge hog—झाऊ; कण्टकी सूअर ।
 hedonic—(Gk. *hedone*, pleasure) मद मन्गीय ।
 heel—(A. S. *hela*) एड़ी; पार्ष्णि ।
 hekistotherm—(Gk. *hekistos*, least; *therme*
 leaf) न्यूनतम जलवायु । ऐसे पौधे जो कम से कम
 (न्यूनतम) गर्मी में विकसित होते हैं जैसे पन्नासम
 (alpine) पौधे ।
 helicine—(Gk. *helix*, spiral) वृद्धिका; भविकः
 उल्लस ।

helicoid—(Gk. *helix*, spiral; *eidos*, like) (१)
 पैरदार (२) कुंडलिनो रूप (३) घुमावदार पुष्पक्रम
 (inflorescence) जिनमें पार्श्व शाखाएँ एक ही ओर
 निकलती हैं (४) संघिताक्षी शाखाक्रम (sympodial
 branching) ।
 hellicorubin—(L. *helix*, spiral; *ruber*, red)
 हेलीकोरुबिन; अम का लाल रंग (कुट्ट रंगट्टो-
 पोडा का) ।
 hilicotrema—(Gk. *helix*, spiral; *tremis*, hole)
 भ्रमरक छिद्र; कन्धु (cochlea) में निम्नर के पान एवं
 छोटा छेद ।
 heliophyte—(Gk. *helios*, sun; *phyton*, plant)
 प्रकाशपादप; आतपपादप. आनर्पोद्भिद् ।
 heliosis—(Gk. *helios*, sun) प्रकाश-निरसन;
 आतप क्षति; सूर्य की धूप में पत्तियों में जल-जमा पर
 चर्पहीनता का आ जाना ।
 heliotaxis—(Gk. *helios*, sun; *taxis*, arrange-
 ment) प्रकाशाभिमुखी गति वृत्ति; प्रकाशोन्मत्तता का
 गति द्वारा या अन्य किसी प्रकार में प्रत्युत्तर (res-
 ponse) देने की प्रवृत्ति ।
 heliotropism—(Gk. *helios*, sun; *trepein*, to
 turn) सूर्याभिमुखता; प्रकाशाभिमुखी नतवृत्ति. प्रकाश
 उत्तेजना का झुककर प्रत्युत्तर देने की प्रवृत्ति ।
 helix—(Gk. *halix* spiral) हेलियम (१) गण्ड लाल
 का बाह्य तट (rim) (२) कन्धुकी (invertebrate-
 में कोई भी पैरदार (spiral) पुंजी वृत्त बनावट ।
 helmet—(O. F. *helmet* head covering) हेमट,
 शिरस्क ।
 helminthology—(Gk. *helmins*, worms; *logos*,
 discourse) कृमि विज्ञान ।
 helophyte—(Gk. *helos*, marsh; *phyton*, plant)
 कण्टीद्भिद्; पन्नासी पौधा, जलपाय पादप ।
 helotism—(Gk. *Lada*, jacobian town) दास्य मत्
 जीवन । यह मत् जीवन (symbiotic) जिसमें एक जीव
 दूसरे को दास (यह में दास होता है) दास बना है और
 अपने निमित्त कार्य करने के लिये दास बना है। जैसे
 कोटिबो (ants) की दास पौधों (aphids) में हो पाता है ।
 hemelytron, hemelytrum—(Gk. *hemi*, half,
elytron, wing) (१) सिरस्य पादप, इन जीवों (in-
 sects) का हट, अर्ध पाद । (२) सिरस्य पादप ।
 [हेमि-एलियट्रॉन]

hemera

hemera—(Gk. *hemera*, day) हेमैरा; जीवात्मी स्तर काल ।

hemeranthous—दिवापुष्पी ।

hemerophyte—(Gk., *hemeros*, tame; *phyton*, plant) कृतकोद्भिक्; कृष्यपादप ।

hemibasidium—(Gk. *hemi*, half; *basis*, base) अर्ध आधारी; अस्टीज़ाजीनेलीज (ustilagineles) का पुराकवक जाल (promycelium) ।

hemibathyal—[Gk. *hemi*, half; *bathys*, depths) अर्धागध वासी । सागर तटीय (littoral) और अगध सागरीय (bathyal) क्षेत्रों (zones) के मध्य में पाया जानें वाला प्लवक (plankton) ।

hemibranch—(Gk. *hemi*, half; *branchia*, gills) अर्धगिल । ऐसा गिल (gill) जिसके केवल एक ओर ही गिल सूत्र (gill filaments) लगे हों ।

hemicellulase—(Gk. *hemi*, half; L. *cellula*, small cell) हेमीसेल्यूलोज (एन्जाइम); कुछ भ्रूणपोष (endosperm) फन्जाई और कुछ अकशेरुक में पाया जाने वाला एन्जाइम जिसके प्रभाव से हेमीसल्यूलोज (hemicellulose) का जल विघटन होता है ।

hemicellulose—(Gk. *hemi*, half; L. *cellula*, small cell) हेमीसेल्यूलोज (कोशिका भित्ति घटक) ।

hemicephalous—(Gk. *hemi*, half; *kephale*, head) क्षीण शिरस्क; (क्षीण = reduced) ।

hemichordata—(Gk. *hemi*, half; *chorde*, string) अंशदण्डक; अस्पष्ट दण्डक । पृष्ठ दण्डकों (chordates) का एक उपसंघ (sub-phylum) ।

hemilytron—(Gk. *helos*, half; *elytron*, wing) पिघान पक्षाय । [देखिये—hemelytron]

hemiepiphyte—(Gk. *hemi*, half; *epi*, upon; *phyton*, plant) अर्धाधिपादप; ऐसा पौधा (पादप) जिसके बीज दूसरे पौधे पर अंकुरित (germinate) होते हैं, पर बाद में अपनी जड़ें पृथ्वी तक पहुँचा देते हैं ।

hemignathous—(Gk. *hemi*, half; *gnathos*, jaw) असमहनु; (ऐसे पक्षी) जिनमें एक जबड़ा दूसरे से छोटा हो ।

hemikaryon—(Gk. *hemi*, half; *karyon*, kernel) अर्धाण्डि; पूर्व केन्द्रक; पूर्वाण्डि (pronucleus) ।

hemimetabola—(Gk. *hemi*, half; *metabole*, change) अंशरूपान्तरि; अपूर्ण रूपान्तरण; ऐसे कीटों (insect) जिनके जीवन इतिहास (life history) में पूर्ण रूपान्तर (complete metamorphosis) नहीं होता ।

hemimetabolic—(Gk. *hemi*, half; *metabole*, change) अंश रूपान्तरिय; अपूर्ण रूपान्तरिक ।

hemiparasitic—(Gk. *hemi*, half; *para*, beside; *sitos*, food) अपूर्ण परजीवी; आंशिक परजीवी; अर्ध परजीवी ।

hemipenis—(Gk. *hemi*, half; L. *penis*, penis) अर्धशिशन । छिपकली (lizards) तथा सर्पों (snakes) के दो मैथुनांगों (copulatory organs) में से एक ।

hemipneustic—(Gk. *hemi*, half; *pnein*, to breathe) अपूर्ण वातछिद्री । ऐसा जन्तु जिसमें वातछिद्रों (spiracles) के एक या एक से अधिक युग्म (pairs) बन्द हों ।

hemisaprophyte—(Gk. *hemi*, half; *sapros*, dung; *phyton*, plant) अर्धगलितोपजीवी; अंशगलितोपजीवी; अपूर्ण गलितोपजीवी; ऐसा पौधा जो अंशतः (partly) सड़े-गले पदार्थों से आहार ग्रहण करता है ।

hemisome—(Gk. *hemi*, half; *soma*, body) समांशार्ध । किसी जन्तु में मध्यस्थ खड़े तल (median vertical plane) के एक ओर का तुल्यांशी अर्धभाग (symmetrical half) ।

hemisphere—(Gk. *hemi*, half; *sphaira*, globe) गोलार्ध; hemisphere, cerebral; प्रमस्तिष्क गोलार्ध ।

hemisystole—(Gk. *hemi*, half; *syn*, with; *stell-*ein, to set) अर्धाकुंचन; हृदय की एक क्षेपिका (ventricle) का आकुंचन (contraction) ।

hemitropous—(Gk. *hemi*, half; *trope*, turn) अर्धानुवर्ती; अर्धवक्त्री (बीजाण्ड) ।

hemixis—(Gk. *hemi*, half; *mixis*, mingling) दीर्घ केन्द्रक मिश्रण या खण्डन; दीर्घाण्डि पुनर्न्यास; दीर्घ केन्द्रक (macronucleus) या बिना लघु केन्द्रक (micronucleus) के टूटना व पुनः गठित होना ।

hemizygous—(Gk. *hemi*, half; *zygen*, yoke) अर्ध शिकाकी सूत्र; जीन ।

henle's loop—हेनले शिक्य; वृक्क (kidney) के सूत्र उपनलिका (uriniferous tubule) का घुमाव ।

Henson's line—(V. Hensen, German histologist) हैन्सन-रेखा; वह रेखा जो पेशीखण्ड वा सार्कोमियर (sarcomere) के गहरे भाग को दो खण्डों में विभक्त करती है।

hepar—(L. *hepar*, liver) यकृत; जिगर।

hepatic—(L. *hepar*, liver) याकृतिक; यकृत-; यकृत-सम्बन्धी।

hepatic artery—यकृत-धमनी।

hepatic caeca—यकृत अन्ध नलिका।

hepatic cells—यकृत कोष्ठ; यकृत कोशिकाएँ।

hepatic duct—यकृत-नली।

hepatic flexure—याकृतिक नति (वक्रता)।

hepatic portal vein—यकृत केशिकान्तक शिरा।

hepatic vein—यकृत शिरा।

hepatocolic—(L. *hepar*, liver) यकृत-शोषणांत्रिक; यकृत (liver) और शोषणांत्र (colon) सम्बन्धी।

hepatocystic—(L. *hepar*, liver; Gk. *kystis*, bladder) यकृत-पित्ताशयी; यकृत (liver) और पित्ताशय (gall bladder) सम्बन्धी।

hepatoduodenal—(L. *hepar*, liver; *duodeni*, twelve each) यकृत-पक्वाशयी। यकृत (liver) और पक्वाशय (duodenum) सम्बन्धी।

hepatoenteric—(L. *hepar*, liver; Gk. *enteron*, gut) यकृत-अन्ध्रीय; यकृतन्ध्रीय; यकृत (liver) और आँतों (intestines) सम्बन्धी।

hepatogastric—(L. *hepar*, liver; Gk. *gaster*, stomach) यकृत आमालयी; जिगर (liver) और आमालय (stomach) सम्बन्धी।

hepatopancreas—(L. *hepar*, liver; Gk. *pan*, all; *kras*, flesh) यकृत पक्वोम। चटुत में जन्तुहारीनों (invertebrates) की पाचन ग्रन्थि जो जिगर (liver) और पक्वोम (pancreas) का कार्य करती है।

hepatoportal—(L. *hepar*, liver; *portare*, to carry) यकृतिक ले निवातक।

hepatorenal—(L. *hepar*, liver, *renes*, kidney) यकृत वृक्कीय; यकृत (liver) और वृक्क या वृक्की (kidney) सम्बन्धी।

hepatoumbilical—(L. *hepar*, liver, *umbilicus*, navel) यकृत नाभि-कीय; यकृत (liver) और नाभि (umbilicus) की जोड़ने वाली।

hepatagynous—(Gk. *hepta*, seven; *gynē*, female) सप्त स्त्री केसरी।

heptamerous—(Gk. *hepta*, seven; *meros*, part) सात चक्रभागी; सप्तगर्भी; पुष्पों में सात की संख्या में चक्रों के भागों का होना।

heptandrous—(Gk. *hepta*, seven; *andros*, man) सप्त पुंकेसरी।

heptarch—(Gk. *hepta*, seven; *arche*, beginning) सप्त जादलम समुदायी।

heptastichous—(Gk. *hepta*, seven; *stichos*, row) सप्त पंक्तिरु; सात पंक्तियों में वर्गी पत्ती आदि।

herb—(M. E. *herbe*) शाक, इड़ी-इड़ी; अनाष्ट स्तम्भी बीज पादप।

herbaceous—(L. *herbaceus*, grassy) शारीर।

Herbst's corpuscle—(E. F. Herbst, German anatomist) हरश्ट कणिका; पित्तली में सामान्य प्ररूपक पेसोनियन (Pecinian) कणिका।

hercogamy—(Gk. *herkos*, barrier, *gamos*, union) वृत्ति अद्भुता; वह दशा जिसमें स्वयं निषेचन असम्भव होता है।

herbivorous—(L. *herba*, grass; *vorare*, to devour) वृत्त जीवी, शाकाहारी।

herd—(A. S. *hirdle*, herd) दूध।

hereditary—(L. *hereditas*, heirship) पारम्परिक, आनुवंशिक, वंश परम्परा सम्बन्धी।

heredity—(L. *hereditas*, heirship) वंश परम्परा; आनुवंशिकता।

hermaphrodite—(Gk. *hermaphroditos*, combining both sexes) उभय लिंगी, ऐसा जोर जिसे नर (male) और मादा (female) दोनों प्रकार की जनोद्धार (reproductive organs) हैं।

hermaphroditism—(Gk. *hermaphroditos*, combining both sexes) उभयलिंगता।

hepatology—(Gk. *hepar*, reptile, *logos*, discourse) यकृत विज्ञान, यकृतशास्त्र, यकृतशास्त्र (hepatology) की शाखाओं की मूल (hepatology) की शाखाएँ, यकृतशास्त्र (hepatology) की शाखाएँ।

hesperidium—(Gk. *Hesperides*, nymphs of golden apples, given by Hera) यकृत (liver) की शाखाएँ, यकृतशास्त्र (hepatology) की शाखाएँ।

heteracanthous

यह सुपीरियर, बहुकोष्ठी, युक्ताण्डप, स्त्रीकेसर से उत्पन्न होता है। वोजाण्डन्यास स्तम्भीय (axile placentation) होता है। उदाहरण—नीबू, सन्तरा, चकोतरा आदि।

heteracanthous—(Gk. *heteros*, other; *akathe*, spine) असमकण्ठीय। जिसमें पृष्ठ फिन (dorsal fin) के कण्ठक असमांश (asymmetrical) हों।

heteractinal—(Gk. *hetesos*, other; *aktis*, ray) इतरकिरणी; कीलोपम (स्पीक्यूल); ऐसा स्पीक्यूल जिसकी छः से आठ किरणें एक तल में लगी होती हैं तथा एक मजबूत किरण इनके समकोण लगी होती है।

heterandrous—(Gk. *heteros*, other; *aner*, man) असमान पुंकेसरी।

heterauxesis—(Gk. *heteros*, other; *auxein*, to grow) विषम वृद्धि।

heteraxial—(Gk. *heteros*, other; *axis*, axis) असमाक्षी, तीन असमान अक्ष (axis) वाला।

heteroagglutinin—(Gk. *heteros*, other; L. *agglutinare*, to glue to) विषम शुक्राणु प्रभावी; विषम शुक्राणु संयुजता।

heteroauxin—(Gk. *heteros*, other; *auxein*, to grow) हेट्रोऑक्सिन; वर्धन प्रभावी हार्मोन जो फन्जाई से निकाला जाता है; $C_{10}H_{16}O_2N$ ।

heteroblastic—(Gk. *heteros*, other; *blastos*, bud) विषम-विभाजी डिम्ब।

heterobranchial—(Gk. *heteros*, other; L. *brachium*, arm) (१) परिकेन्द्रक; (२) गुणसूत्र बिन्दु (centromere) के दोनों गुणसूत्रों की भुजा।

heterocarpus—(Gk. *heteros*, other; *karpos*, fruit) भिन्नफलद; दो स्पष्ट भिन्न प्रकार के फल देने वाला।

heterocellular—(Gk. *heteros*, other; L. *cellula*, cell) भिन्न कोष्ठी; भिन्न कोशिकीय; एक से अधिक किस्म की कोष्ठों या कोशिकाओं से बना हुआ।

heterocephalous—(Gk. *heteros*, other; *kaphale*, head) विषम मुंडकी; भिन्न सिर; स्त्री केसरी और पुंकेसरी पृथक सिर पर होना।

heterocercal—(Gk. *heteros*, other; *kerkos*, tail) असमदली (पुच्छ), असमदल पुच्छीय। जिसमें कशेरुकाण्ड (vertebral column) पुच्छ फिन (caudal fin) के

उर्ध्वदल (upper lobe) में समाप्त होता हो और पुच्छ फिन का उर्ध्व दल (upper lobe) निम्न दल से प्रायः बड़ा होता हो।

heterocercy—(Gk. *heteros*, other; *kerkos*, tail) असमदल पुच्छता।

heterochlamydeous—(Gk. *heteros*, other; *chlamys*, clock) विषम परिदल पुंजी; भिन्न प्रकार के बाह्यदल पुंज (कलेक्स) और दलपुंज (coralla) वाला।

heterochromatin—(Gk. *heteros*, other; *chroma*, colour) विषम क्रोमेटिन; हैटरोक्रोमेटिन; भिन्न क्रोमेटिन; न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य (cytoplasm) दोनों पर प्रभावी।

heterochromosome—(Gk. *heteros*, other; *chroma*, colour; *soma*, body) लिंग परम्परा सूत्र; देहातिरिक्त सूत्र; सामान्य परम्परा सूत्र से भिन्न।

heterochronism, heterochromy—(Gk. *heteros*, other; *chronos*, time) विषमकालता। अंग निर्माण (formation of organs) के सामान्य क्रम (typical sequence) से विचलन (departure)।

heterochrosis—(Gk. *heteros*, other; *chrosis*, colouring) विषमरंजन; असामान्य रंग का होना।

heteroclinous—(Gk. *heteros*, other; *kline*, bed) विषम मुंडकी।

heterocoelous—(Gk. *heteros*, other; *kline* bed) विषमगर्ती; (ऐसे कशेरु) जिनके संयोजक केन्द्रक (articulatory centra) काठी (saddle) के आकार के हों।

heterocysts—(Gk. *heteros*, other; *kystis*, bladder) भिन्न स्योतिक; कुछ शैवाल (algae) के तन्तुक पर पाई जाने वाली कोशिकायें।

heterodactylous—(Gk. *heteros*, other; *daktylos*, digit) विषमांगुलीय। प्रथम व द्वितीय पादांगुली (toes) पीछे की घूमी हुई रखने वाला।

heterodont—(Gk. *heteros*, other; *odous*, tooth) विषमदन्ती; भिन्न दन्ती।

heterodromous—(Gk. *heteros*, other; *dromein*, to run) विषमगामी; भिन्न वक्रता; तने की पत्ती और शाखा की पत्ती अलग-अलग दिशा में घूमी हुई होना।

- heteroecious—(Gk. *heteros*, other; *oikos*, house) मित्रोपजीवी । जीवन की भिन्न अवस्थाओं को भिन्न-भिन्न पोषकों (hosts) पर व्यतीत करने वाला ।
- heterogamete—(Gk. *heteros*, other; *gametos*, spouse) विषम-जन्यु ।
- heterogametic, heterogamous—(Gk. *heteros*, other; *gametes*, spouse) विषम जन्युकः विषम जन्युधारी । समान संख्या में दो भिन्न प्रकार के जन्यु (gametes) उत्पन्न करने वाला ।
- heterogamy—(Gk. *heteros*, other; *gamos*, offspring) लिंगोत्पत्ति-विपर्यय; विषम जन्युता । दो लिंगो-पीढ़ियों (sexual generations) का विपर्यय (alternation) जिनमें से एक निषेकज (sexual) और दूसरी अनिषेकज (parthenogenetic) होती है ।
- heterogangliate—(Gk. *heteros*, other; *ganglion*, ganglion) विषम गण्डीय; विभिन्न गैंगलिक ।
- heterogenesis—(Gk. *heteros*, other; *genesis*, descent) (१) उत्पत्ति विपर्यय; (२) स्वयंमुत्पत्ति; स्वतन्त्रोत्पादन ।
- heterogeny—(Gk. *heteros*, other; *genos*, generation) अनेक वंश श्रेणिक ।
- heterogenic—(Gk. *heteros*, other; *gonos*, produce) भिन्न वर्धक ।
- heterogenous—(Gk. *heteros*, other; *gonos*, birth) विभिन्न उत्पादन; पीढ़ी-एकान्तरण; उत्पत्ति विपर्यय ।
- heterogony—(Gk. *heteros*, other; *gonos*, birth) भिन्न जननता; दो विभिन्न प्रकार के पुष्प होने की दशा, विशेषकर पुकेसरों की लम्बाई में भिन्न होने की दशा ।
- heterogynous—(Gk. *heteros*, other; *gynē*, woman) द्विभिन्न मादी; दो भिन्न प्रकार की मादाओं वाला ।
- heterokaryote—(Gk. *heteros*, other; *karyon*, nut) भिन्नान्वितकः भिन्न केन्द्रकी दो स्पष्ट (distinct) प्रकार के केन्द्रको (nuclei) वाला ।
- heterokaryotic—(Gk. *heteros*, other; *karyon*, nut) विषम केन्द्रक, भिन्नान्वितकी; भिन्न न्युक्लियसवाले दो न्युक्लियसवाले कोशिका में आनुवंशिक सम्मान न्युक्लियस युक्त ।
- heterokinesis—(Gk. *heteros*, other; *kinesis*, to none), विषम विभाजन; गुण सूत्रों का भेदजन (अन्य प्रकारेण) विभाजन ।
- heterolecithal—(Gk. *heteros*, other; *lekithos*, yolk) असमविम्बात्री; जिसमें विम्बाद्र एक-ता वितरित (equally distributed) न हो ।
- heterologous—(Gk. *heteros*, other; *logos*, discourse) असमरूप; असम रचित ।
- [दितिसे—homologous]
- heterology—(Gk. *heteros*, other; *logos*, discourse) असमरूपता । उत्पत्ति (origin) या तत्वों (elements) की भिन्नता के कारण भागों (parts) की अनुस्यूता (correspondence) न होना ।
- heteromallous—(Gk. *heteros*, other; *mallas*, lock of wool) भिन्नविष्क वितति (कँचता दृशा) ।
- heteromastigate—(Gk. *heteros*, other; *mastix*, lash) भिन्नकपातन्त्री । दो जन्युदा अलहदा चिह्न के कपा तन्त्र (flagella) धारण करने वाला ।
- heteromerous—(Gk. *heteros*, other; *meros*, part) असमभागो; विषमावयवी ।
- heterometabolic—(Gk. *heteros*, other; *metabole*, change) अपूर्ण-रूपांतरी ।
- heteromorphic—(Gk. *heteros*, other; *morphe*, shape) विभिन्नरूपी; विविधरूपी ।
- heteromorphism—(Gk. *heteros*, other; *morphe*, shape) विभिन्नरूपता; विविधरूपता ।
- heteromorphosis—(Gk. *heteros*, other; *morphe*, shape) विषमोत्पत्ति; विषम आकारान्तरण । (१) किसी अंग का अनाधारण (अनियमित) रूपान्तरण होना । (२) किसी पुनरुत्पत्ति (regeneration) जिसमें नया भाग पुनर्गठन नष्ट हुए भाग से भिन्न होता है ।
- heteromorphous—(Gk. *heteros*, other; *morphe*, shape) विषमोत्पत्ति ।
- heteronereis—(Gk. *heteros*, other; *Nereis*, Nereid) द्विनेमिरीड, नेरीड का जल मादावृत्ति की स्वतन्त्र स्वकी द्विपरी पीढ़ी का नाम ।
- heteronomous—(Gk. *heteros*, other; *nomos*, law) (१) भिन्न नियमो, वृद्धि (growth) में भिन्न नियमों के दृष्टः (२) भिन्न विशेषता, भिन्न प्रकार के विशेषता (specialised) दृष्टः ।

heteronomous

heteronomous—(Gk. *heteros*, other; *nomos*, department) असमान खण्डी; भिन्नखण्डी ।

heteropelmous—(Gk. *heteros*, other; *pelma*, sole of foot) द्विभक्त स्नायुज; द्विभक्त अवनतक टेन्डन युक्त ।

heteropetalous—(Gk. *heteros*, other; *petalon*, petal) विषम दली; असमान पंखुडी युक्त ।

heterophagous—(Gk. *heteros*, other; *phagein*, to eat) विषमाहारी; विषमभक्षी; जन्माश्रित (atrics) दशा में बच्चे धारण करने वाले (पक्षी) ।

heterophil—(Gk. *heteros*, other; *philos*, loving) विषमरागी; ऐसे कणिकीय श्वेताणु जो रंगों के प्रति विशिष्ट अंतर रखते हैं ।

heterophyadic—(Gk. *heteros*, other; *phyas*, shoot) पृथक प्ररोही; भिन्न प्ररोही; ऐसे पौधे जो पृथक वनस्पतिक तथा जननीय प्ररोह उत्पन्न करते हैं ।

heterophyllous—(Gk. *heteros*, other; *phyllon*, leaf) विषमपर्णा; पौधे के विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार की पत्तियों (पर्ण) का होना ।

heterophytic—(Gk. *heteros*, other; *phyton*, plant) विषम स्पोरी; पृथक बीजाणु-उद्भिद् पर दो भिन्न प्रकार के स्पोरों को धारण करने वाला ।

heteroplasia—(Gk. *heteros*, other; *plassein*, to mould) विषम तन्तुजता; विषम ऊतकता; किसी ऊतक (टिशु-tissue) का अन्य प्रकार के ऊतक से उत्पन्न होना ।

heteroplasm—(Gk. *heteros*, other; *plasma*, mould) स्थानच्युत तन्तु या ऊतक (टिशु); असामान्य स्थानों (abnormal places) में बना हुआ तन्तु या ऊतक (टिशु) ।

heteroplasma—(Gk. *heteros*, other; *plasma*, mould) भिन्न जाति द्रव्य; विषम द्रव्यक ।

heteroplastic—(Gk. *heteros*, other; *plastos*, formed) विषमरोपण; असम्बन्धित व्यक्तियों के बीच में भिन्न जाति या वंश का प्रतिरोपण (transplantation) ।

heteropioid—(Gk. *heteros*, other; *haploos*, one fold) विषम गुणित ।

heteropod—विषमपाद ।

heteroproteose—(Gk. *heteros*, other; *protos*, first) हेटरोप्रोटियोस; प्रोपेपटोन (propeptone) । पाचक रसों द्वारा प्रोटीन पर बना उत्पाद ।

heteropycnosis—(Gk. *heteros*, other; *pyknos*, dense) विषम सांद्रता; विषम निविडता; लैंगिक गुण सूत्रों का वर्धन काल में घनीभूत (सांद्र या निविड) हो जाना ।

heterorhizal—(Gk. *heteros*, other; *rhiza*, root) विषम मूली; अनिश्चित स्थलों से जड़ों का निकलना ।

heterosexual—(Gk. *heteros*, other; L. *sexus*, sex) विषम लैंगिक; भिन्न लिंगी ।

heterosis—(Gk. *heteros*, other) पर-निषेक ।

heterosomal—(Gk. *heteros*, other; *soma*, body) विषमकायी ।

heterosome—(Gk. *heteros*, other; *soma*, body) विषम गुण सूत्री ।

heterosporangic—(Gk. *heteros*, other; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) विषम बीजाणुधानीत्व; पृथक बीजाणु धानीयों में दो प्रकार के स्पोरों का होना ।

heterospory—(Gk. *heteros*, other; *sporos*, seed) विषम स्पोरता; विषम बीजाणुता ।

heterostemonous—(Gk. *heteros*, other; *stemon*, stamen) असमान पुंकेसरी; भिन्न पुंकेसरी ।

heterostrophy—(Gk. *heteros*, other; *strophe*, turning) असामान्य घूर्णता; असामान्य व्यावर्तन ।

heterostyled—(Gk. *heteros*, other; *stylos*, pillar) विषम वर्त्तिक ।

heterostyly—(Gk. *heteros*, other; *stylos*, pillar) विषम वर्त्तिकता ।

heterostrophy—(Gk. *heteros*, other; *strophe*, turning) भिन्न घूर्णा ।

heterosynapsis—(Gk. *heteros*, other; *synapsis*, union) असमयुग्मी करण । दो असमान परम्परा सूत्रों (dissimilar chromosomes) का युग्म या जोड़े (pair) में संयुक्त होना ।

heterotaxis—(Gk. *heteros*, other; *taxis*, arrangement) असमान विन्यास ।

- heterothallic**—(Gk. *heteros*, other: *thallos*, young shoot) विषम युग्माणुजः युग्माणु (zygospore) बनाने हेतु दो पृथक कवक जालों की शाखाओं का होना ।
- heterotomy**—(Gk. *heteros*, other: *temnein*, to cut) (१) विषम परिदलता; (२) असमान्य या भिन्न परिदल (perianth) चक्रों की होने की रणा । (२) विषम द्विभाजन; क्रिनोइडिया (crinoidea) में विषम द्विभाजन (dichotomy) ।
- heterothermal**—(Gk. *heteros*, other: *thermic*, heat) अमित तापी ।
- heterotopy**—(Gk. *heteros*, other: *topos*, place) स्थान-च्युति; स्थान भ्रष्टता ।
- heterotrichous**—(Gk. *heteros*, other: *thrix*, hair) द्विविधतन्त्री; दो प्रकार के तंत्रों (cilia) वाला ।
- heterotrophic**—(Gk. *heteros*, other: *trophe*, nourishment) सजीव पोषी; जैविक पदार्थों से पुष्टिकर (पोष्टिक) पदार्थ लेने वाला, जैसे परजीवी पोषे ।
- heterotropic chromosome**—लिंग परम्परा सूत्र ।
[देखिये—sex chromosome]
- heterotropous**—(Gk. *heteros*, other: *trepein*, to turn) विषम बीजाण्टी; ऐसा बीजाण्ट जिसकी नाभिका और छुद्र द्वार विरुद्ध छोरों पर बीजाणतन (placenta) के समानान्तर तल (plane) पर होते हैं ।
- heterotypic**—(Gk. *heteros*, other: *typos*, pattern) विषम रूपी; विषम प्रतिरूप कृतिक । ऐसा विषम विभाजन जिसमें उचित गुण सूत्र एक साथ जुड़े रहते हैं और मुद्रिका बनाते हैं ।
- heteroxenous**—(Gk. *heteros*, other: *xenos*, guest) भिन्नोपजीवी । एक में अधिक पोषकों (hosts) पर पोषित होने वाला । [देखिये—heteroecious]
- heterozygosis**—(Gk. *heteros*, other: *zygon*, yoke) विषमोत्पत्ति । दो भिन्न प्रकार (species), गोषों (varieties) या नस्लों (races) की उतपत्ति (descent) ।
- heterozygote**—(Gk. *heteros*, other: *zygon*, yoke) विषमयुग्मजः ऐसा व्यक्ति जिसमें माता-पिता में प्राप्त परमाणु कण (genes) भिन्न प्रकार के हैं ।
- heterozygous**—(Gk. *heteros*, other: *zygon*, yoke) विषम यानः दो भिन्न विकल्पित (alternative) परम्परा कारकों (genetical factor) वाला ।
- hexacanth**—(Gk. *hex*, six: *akantha*, thorn) षट्शुली; अर्थात् छ. हुक (hook) या च. पट्टाभिकी (flatworms) का अणु (embryo) ।
- hexactinal**—(Gk. *hex*, six: *aktis*, ray) षट्किरणनी ।
- hexactine**—(Gk. *hex*, six: *aktis*, ray) षट्किरण, एक प्रकार का स्पोच्यूल (spicule) जिसमें छ. शुकी किरण नम्र कोन (at right angles) पर समानोत्ती ।
- hexactinellida**—षट्किरणनी ।
- hexactinian**—(Gk. *hex*, six: *aktis*, ray, पदांगी । जैसे अन्तु जिसमें श्मशं (tentacle) या क्षणपाय (mesenteries) ६ या ६ की गुच्छक नम्र में हों ।
- hexacyclic**—(Gk. *hex*, six: *kyklos*, circle) षष्टचक्री; पुष्प चक्री का छ. ही संघटन में होता ।
- hexagynous**—(Gk. *hex*, six: *gynē*, woman) छ. लकी हेनरी ।
- hexamerous**—(Gk. *hex*, six: *meros*, part) षट्शुली. षट्पत्नी; षट्शुली; छ. या छ. की गुच्छक-म-म में पाया जाने वाला ।
- hexandrous**—(Gk. *hex*, six: *andros*, man) षट्पुंशी ।
- hexapetaloid**—(Gk. *hex*, six: *petala*, petal, eidos, form) षट्पत्नी, षट्पत्नी परिसरणी ।
- hexapetalous**—(Gk. *hex*, six: *petala*, petal) षट्पत्नी. षट्पत्नीपरिदल ।
- hexaphyllous**—(Gk. *hex*, six: *phyllo*, leaf) षट्पत्नी; छ. पत्नी वाला ।
- hexaploid**—(Gk. *hex*, six: *plous*, ampl- eidos, form) षट्पत्नी गुणी, षट्पत्नी ।
- hexapod**—(Gk. *hex*, six: *pod*, foot) षट्पत्नी ।
- hexapterous**—(Gk. *hex*, six: *pteron*, wing) षट्पत्नी. छ. पर शरीर पर षट्पत्नी (pteron) वाले होने वाले प्राणी ।
- hexarch**—(Gk. *hex*, six: *arch*, chief) षट्पत्नीपरिदल ।

- hexasepalous**—(Gk. *hex*, six; F. *sepale*, sepal) षट् बाह्यदली ।
- hexaspermous**—(Gk. *hex*, six; *sperma*, seed) षट्बीजाणुक ।
- hexastemonous**—(Gk. *hex*, six; *stemon*, stamen) षट्पुमंगी; षट्पुंकेसरी ।
- hexaster**—(Gk. *hex*, six; *aster*, star) षटतारा; षटतारिका; षटकिरण (hexactine) का एक प्रकार जिसमें किरणें विभक्त होकर तारा-सदृश (star like) रचनाएँ बनाती हैं ।
- hexastichous**—(Gk. *hex*, six; *stichos*, row) षटपंक्तिक ।
- hexicology**—(Gk. *hexis*, habit; *logos*, discourse) जन्तु व्यवहार विज्ञान (bionomics) ।
- hexuronic acid**—हेक्स्युरोनिक अम्ल; विटामिन-सी; एस्कॉर्बिक (ascorbic) अम्ल ।
- hiatus**—(L. *haire*, to gape) दरार; प्रच्छिद्र ।
- hibernaculum**—(L. *hibernaculum*, winter residence) शिशिराङ्कुर ।
- hibernate**—(L. *hibernus*, wintry) शीततन्द्रा (hibernation) में हो जाना; शीत तन्द्रा की दशा में शीत ऋतु बिताना ।
- hibernation**—(L. *hibernus*, wintry) शीत तन्द्रा ; अमित तापी (cold-blooded) जन्तुओं की शीत-ऋतु में होने वाली विश्राम-दशा ।
- hidrosis**—(Gk. *hidros*, sweat) स्वेदोत्सर्ग; पसीना निकालना ।
- hiemal**—(L. *hiems*, winter) शीती; शीतकालीनी ।
- hilar**—(L. *hiems*, trifle) नाभिकीय ।
- hilum**—(L. *hilum*, trifle) हाईलम; (१) छोटा-सा कटाव, गद्दा या छेद जो प्रायः वृक्कों (kidney), फेफड़ों (lungs) या प्लीहा (spleen) आदि में रक्त नलिकाओं, तंत्रिकाओं (nerves) आदि के प्रवेश स्थान पर पाया जाता है । (२) नाभिका-बीजों में तथा वृक्क आदि में ।
- hind**—(A. S. *hindan*, back) पश्च, पिछला, पीछे का ।
- hind brain**—पश्च-मस्तिष्क ।
- hind gut**—पश्चान्त्र ।
- hinge joint**—चूल संधि (कब्जा), कोर-संधि । ऐसा जोड़ जो केवल एक ही दिशा में गति होने दे ।

- hinge ligament**—चूल-बन्ध; मौलस्का वर्ण के सीपी जन्तुओं (mussels) में दोनों कर्पर-कपाटों (valves of the shell) को जोड़ने वाला दृढ़ और लचीले पदार्थ का बना हुआ बन्ध ।
- hinge line**—चूल-रेखा ।
- hinge tooth**—चूल-दन्त; चूल-प्रवर्धन ।
- hip**—(A. S. *hype*, a hip) श्रोणि, पेड़ ।
- hip joint**—उरु-सन्धि । फीमर (femur) और श्रोणिवलय (hip-girdle) के मध्य की तन्दुक-गर्त सन्धि (ball and socket joint) ।
- hippocampus**—(Gk. *hippos*, horse; *kampe*. bend) हिप्पोकैम्पस ।
- hippuric**—(Gk. *hippos*, house; *ouron*, urine) हिप्पुरिक अम्ल; अश्व मूत्र से प्राप्त; तृण भोजी जन्तुओं के पेशाब में भी उपस्थित ।
- hirsute**—(L. *hirsutus*, hairy) रोमाभ्रपंखी; ऐसे पक्षी जिनके पंख सख्त, रोमाभी शूकों सदृश होते हैं ।
- hirudin**—(L. *hirudo*, leech) हिरुडिन; जोकों (leeches) से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ जो रुधिर का थक्का (clotting) बनने नहीं देता ।
- hispid**—(L. *hispidus*, rough) दृढ़ रोमी; दृढ़ शूकी; रूक्षी ।
- histamine**—(Gk. *histos*, tissue; *ammoniakom*, resinous gum) हिस्टैमिन; एक पदार्थ विशेष ।
 $C_5H_9N_3$
- histiocyte**—(Gk. *histos*, tissue; *kytos*, hollow) पुरा रक्त कोशिका ।
- histiomonocyte**—(Gk. *histion*, tissue; *monos*, alone; *kytos*, hollow) हिस्टिओमोनोसाइट; कुछ केशिकाओं (capillaries) की अन्तःस्तर (endothelial) कोशिका जिसका सम्बन्ध पुरारक्त कोशिकीय (histiocytic) उपापचय तंत्र से होता है ।
- histoblast**—(Gk. *histos*, tissue; *blastos*, bud) तन्तुज; ऊतक की एक इकाई ।
- histochemistry**—(Gk. *histos*, tissue; *chemos*, juice) तन्तु (ऊतक) रसायन विज्ञान ।
- histocyte**—(Gk. *histos*, tissue; *kytos*, hollow) तन्तु-कोशिका; ऊतक कोशिका ।
- histogenesis**—(Gk. *histos*, tissue; *genesis*; *descent*) तन्तु या ऊतक जनन; तन्तुओं या ऊतकों का निर्माण और वर्धन ।

- histogenic**—(Gk. *histos*, tissue; *genesis*, birth) तन्तु-जनक; तन्तु-उत्पादक ।
- histohaematin**—(Gk. *histos*, tissue; *haima*, blood) हिस्टोहेमाटिन; साइटोक्रोम (कोशिका प्रोटीन) ।
- histology**—(Gk. *histos*, tissue; *logos*, discourse) तन्तु विज्ञान; टिशु विज्ञान; ऊतक विज्ञान ।
- histologist**—(Gk. *histos*, tissue; *logos*, discourse) तन्तु वैज्ञानिक; तन्तु विज्ञान वेत्ता ।
- histolysis**—(Gk. *histos*, tissue; *lyein*, to dissolve) तन्तु लय; तन्तु ह्रास; ऊतक ह्रास ।
- histone**—(Gk. *histos*, tissue) हिस्टोन; कोशिका न्यूक्लियस; थाइमस, रुधिर कणिकाओं और लसीका ग्रन्थियों का एक प्रोटीन तत्व ।
- histophyly**—(Gk. *histos*, tissue; *phyle*, tribe, हिस्टोफाइली; ऊतक-इतिहास; एक कोशिका समूह का जाति विकास सम्बन्धी इतिहास ।
- histoteleosis**—(Gk. *histos*, tissue; *telos*, full grown) ऊतकी सम्पूर्ण विकसितता; ऊतक कोशिकाओं का कार्य विभिन्नता का सम्पूर्ण समापन ।
- histotrophic**—(Gk. *histos* tissue; *trophein*, to nourish) तन्तु या ऊतक पोषक ।
- histozoic**—(Gk. *histos*, tissue; *zoon*, animal) तन्तु या ऊतक वासी; तन्तुओं में रहने वाला ।
- histozyme**—(Gk. *histos*, tissue; *zyme*, leaven) हिस्टोजाइम; कुछ जन्तुओं के वृक्कों (kidneys) में पाया जाने वाला उद्दीपक (enzyme) जो हिप्पुरिक अम्ल (hippuric acid) का विघटन (decomposition) कर देता है ।
- hock**—(A. S. *hoh*, heel) हॉक; गुल्फ सन्धि या क्षेत्र ।
- holandry**—(Gk. *holos*, whole, *aner*, male) पूर्ण पुंसकता । वीर्य-ग्रन्थियों (testes) की पूर्ण संख्या का विद्यमान होना, जैसे अप्रपादियों (ओलीगोकीटा—oligochaeta) में वीर्य ग्रन्थियों के दो जोड़े पाये जाना । [देखिये—meroandry]
- holarctic**—(Gk. *holos*, whole; *arktos*, bear) सकल ध्रुवी । उस जन्तु-भौगोलिक प्रदेश (zoogeographical region) सम्बन्धी जिसमें नई और प्राचीन दुनियाओं (new and old worlds) के उत्तरी भाग सम्मिलित हैं ।

- holard**—(Gk. *holos*, whole; *ordo*, I water) सम्पूर्ण जल लक्ष्यता; पूर्ण जल मात्रा उपलब्धता । [देखिये—chresard]
- holaspidean**—(Gk. *holos*, whole; *aspis*, shield) होलास्पीडिडन; पूर्ण शल्की; टारसो-मेटाटारसस के पश्च तल पर दीर्घ शल्कों की एक पंक्ति ।
- holcodont**—(Gk. *holkos*, furrow; *odontos*, tooth) परिखा दन्ती । लम्बो अनवरित (continuous) परिखा (लीक) में लगे हुये दाँतों वाला ।
- hold fast**—स्थापनांग; संलग्नक ।
- holidic**—जातात्रयवी ।
- holism**—पूर्णतावाद ।
- holobenthic**—(Gk. *holos*, whole; *benthos*, depths) अगाध वासी । यावत्-जीवन समुद्र की गहराई में रहने वाले ।
- holoblastic**—(Gk. *holos*, whole; *blastos*, bud) पूर्ण-विभाजी (डिम्ब); पूर्ण भंजी ।
- holoblastic segmentation**—पूर्ण-विभाजी खण्डन ।
- holobranch**—(Gk. *holos*, whole; *branchia*, gills) पूर्ण गिल, ऐसा गिल जिसमें गिल सूत्र (gill filaments) दोनों ओर लगे हों ।
- holocene**—(Gk. *holos*, whole; *kainos*, recent) आधुनिक (recent); नवतम (pleistocene, भूस्तर-काल (geological epochs) के बाद आने वाला (वह काल) जो आजकल चल रहा है ।
- holochlamydate**—(Gk. *holos*, whole; *chlamys*, cloak) पूर्णपिघानी; मैन्टिल या पिघान (mantle) के किनारे पर बिना दनदाने (notch) वाला ।
- holochroal**—(Gk. *holos*, whole, *chros*, close) पूर्ण श्वेत मण्डली; कॉर्निया से सम्पूर्ण आंख का ढका होना ।
- holocrine**—(Gk. *holos*, whole; *krineion*, to separate) होनोक्राइन; पूर्ण स्त्रावी ग्रन्थि । [देखिये—mesocrine]
- holocyclic**—(Gk. *holos*, whole; *kyklos*, circle) पूर्ण चक्री; लैंगिक और अनिषेक संततियों का विपर्यय ।
- hologametes**—(Gk. *holos*, whole; *gametes*, spouse) पूर्ण वर्धी; पूर्ण युग्मक ।
- hologamy**—(Gk. *holos*, whole; *gamos*, union) वृहन्निषेक; देह कोशिकाओं (somatic cells) के समान निषेकाणु (gametes) होने की दशा । [देखिये—macrogamety]

hologastrula—(Gk. *holos*, whole; *gaster*, stomach) पूर्ण-गैस्ट्रुला; पूर्ण द्विस्तर; पूर्ण विभाजी डिम्ब (holoblastic ovum) से बनने वाला द्विस्तर (gastrula) ।

holognathous—(Gk. *holos*, whole; *gnathos*, jaw) अटक हनु; निर्दक हनु ।

holomastigote—(Gk. *holos*, whole; *mastrix*, whip) पूर्ण समकषी ! ऐसा जन्तु जिसकी पूर्ण देह पर एक ही प्रकार के कषा (flagella) एक से वितरित (scattered) हैं ।

holometabolic—(Gk. *holos*, whole; *metabole*, change) पूर्ण-रूपान्तरी ।

holometabolism—(Gk. *holos*, whole; *metabole*, change) पूर्ण रूपान्तरता ।

holomorphosis—(Gk. *holos*, whole; *morphe*, shape) पूर्ण पुनरुत्पादन । ऐसा पुनरुत्पादन (regeneration) जिसमें समस्त भाग फिर बन जाता है ।

holonephros—(Gk. *holos*, whole, *nephros*, kidney) पूर्ण-उत्सर्गक; एक कल्पित अनवरत (uninterrupted) उत्सर्गक-अंग (excretory organ) ।

holophytic—(Gk. *holos*, whole; *phyton*, plant) तब्र सम भोजी; वनस्पतियों (पौधों) के समान अपना सारा आहार ग्रहण करने वाला । [देखिये—holozoic]

holoplankton—(Gk. *holos*, whole; *planktos*, wandering) पूर्ण-प्लवक । वे सामुद्रिक या असामुद्रिक जल जीव जो अपना समस्त जीवन वृत्त (life cycle) पानी के ऊपरी तल पर इधर-उधर बहते हुए पूर्ण करते हैं ।

holoplanktonic—(Gk. *holos*, whole; *planktos*, wandering) पूर्ण-प्लवकी । [देखिये—holoplankton]

holopneustic—(Gk. *holos*, whole; *pnein*, to breathe) पूर्ण वात छिद्री, (वे जन्तु) जिनमें श्वास-क्रिया के लिये समस्त वात छिद्र (spiracles) खुले होते हैं ।

holoptic—(Gk. *holos*, whole; *ops*, eye) संयुज नेत्री; संसक्त नेत्र ।

holorhinal—(Gk. *holos*, whole, *rhis*, nose) अविदीर्णनासी; ऐसे नासा छिद्रों (nares) वाला जिसके पश्च तट (posterior margins) गोलाईदार हैं ।

[देखिये—schizorhinal]

holoschisis—(Gk. *holos*, whole; *schizein*, to cut) अमूत्र विभाजन । [देखिये—amitosis]

holosericeous—(Gk. *holos*, whole; L. L. *sericeus*, silken) पूर्ण कौशेय आवरण ।

holostomatous—(Gk. *holos*, whole; *stoma*, mouth) अछिन्नमुख; जिसमें छिद्र का मुख तट पूर्ण अर्थात् कटा हुआ न हो ।

holostyly—(Gk. *holos*, whole; *stylos*, pillar) पूर्ण स्तम्भी; कुछ मछलियों में पाई जाने वाली जवाड़ों की पुरातन अवलम्बन-दशा (primitive suspension) ।

holosystolic—(Gk. *holos*, whole; *systole*, contraction) पूर्ण संकुचनी ।

holotrichous—(Gk. *holos*, whole; *thrix*, hair) समग्र तन्त्री; समग्र देह पर तन्त्रों का एक-सा आवरण रखने वाला ।

holotype—(Gk. *holos*, whole; *typos*, image) एकादर्श; किसी नये प्रकार (species) के वर्णन और नामकरण के निमित्त इष्ट किया हुआ एक व्यक्ति-विशेष (individual) ।

holozoic—(Gk. *holos*, whole; *zoon*, animal) जन्तु सम भोजी; जन्तु सदृश आहारी; जन्तुओं के समान अपना समग्र आहार-ग्रहण करने वाला ।

[देखिये—holophytic]

holozoic mode of nutrition—जन्तुसम आहार ।

homacanth—(Gk. *homos*, like; *akantha*, spine) सम कंटकी; पृष्ठ-फिन (dorsal fin) के कंटक समाश (symmetrical) रखने वाले ।

homaxon—(Gk. *homos*, alike; *axon*, axis) समाक्षीय; समान अक्षों (axes) पर बना हुआ ।

homeokinesis—(Gk. *homoios*, same; *kinein*, to move) सम-विभाजन; ऐसा सूत्री विभाजन (mitosis), जिसमें क्रोमटिन तत्व सन्तति केन्द्रकों (nuclei) में बराबर-बराबर बँट जाते हैं ।

homeostasis—(Gk. *homoios*, alike; *stasis*; standing) समस्थिरता; जैसे पक्षियों और स्तनियों के शरीर जिनके अन्दर वातावरण स्थिर रहता है ।

homeotely—(Gk. *homoios*, alike *telos*, end) समविकासिता; सम रचित (homologous) परन्तु कुछ कम मिलते-झुलते भागों से विकास ।

homeotypic—(Gk. *homoios*, alike; *typos*, character) समलक्षणी; ह्रास विभाजन का आदर्श सूत्र विभाजन सहस्र द्वितीय विभाजन ।

homeozoic—(Gk. *homoios*, alike; *zoon*, animal) सम-जन्तु (प्रदेश); ऐसा प्रदेश या प्रदेशों (regions) के समुदाय जिनमें एक ही से जन्तु हों ।

homoblastic—(Gk. *homos*, alike; *blastos*, bud) समकोशिकज ।

homobrachial—(Gk. *homos*, same; L. *brachium*, arm) समगुण सूत्री शाखीय, अनुकेन्द्री (पैरासेन्द्रिक) ।

homocarpous—(Gk. *homos*, same; *karpos*, fruit) समान फली; एक प्रकार के फल वाला ।

homocercal—(Gk. *homos*, same; *kerkos*; tail) समदली (पुच्छ); समदल पुच्छीय; ऐसी पूँछ वाला जिसके दल (lobes) बराबर या लगभग बराबर हों और अक्ष (axis) पुच्छ मूल के लगभग बीचों बीच समाप्त होता हो ।

homocerebrin—(Gk. *homos*; same; L. *cerebrin*, brain) होमोसेरेब्रिन; सेरेब्रिन समान पदार्थ ।

homochlamydeous—(Gk. *homos*, same; *chlamys*, cloak) समपरिदल चक्री; बाह्य एवं आन्तर परिदल चक्री का समान होना ।

homochromous—(Gk. *homos*, same; *chroma*, colour) समानवर्णी; एकवर्णी ।

homochromous—(Gk. *homos*, same; *chromos*, time) समकालीन; निरन्तर संततियों में एक आयु या एक काल में पाये जाने वाले ।

homodermic—(Gk. *homos*, same; *derma*, skin) एक स्तरज; भ्रूण के एक ही स्तर (embryonic layer) से उत्पन्न ।

homodont—(Gk. *homos*, same; *odous*, tooth) समदन्ती; सारे एक से ही दाँतों वाला ।

homodromous—(Gk. *homos*, same; *dromos*, to run) समनिर्देशी ।

homodynamy—(Gk. *homos*, same; *dynamis*, power) अनुगण्य समरूपता ।

homoeomorphic—(Gk. *homoios*, like; *morphic*, form) समरचनक; समरूपक ।

homoeosis—(Gk. *homoiosis*, likeness) साहचर्यता; एक भाग का अन्य भाग के सहस्र हो जाना, जैसे स्पर्शक (antenna) का अन्य भाग के रूप में परिणत होना ।

homoeozoic—(Gk. *homoios*, alike, *zoe*, life) समजन्तुक (क्षेत्र) ।

homogametic—(Gk. *homos*, same; *gametes*, spouse) सम जन्तुक; एक ही प्रकार के जन्तु (gametes) उत्पन्न करने वाला ।

[देखिये—heterogametic; digametic]

homogamous—(Gk. *homos*, same; *gamos*, marriage) सम जन्तु, सम जान्यवी ।

homogamy—(Gk. *homos*, same; *gamos*, marriage) सगोत्र पारणय । किसी प्रकार के पृथक्करण (isolation) के कारण एक ही वंश या गोत्र के व्यक्तियों का परस्पर निषेक द्वारा जनन (reproduction) करना ।

homogangliate—(Gk. *homos*, same; *ganglion*, knot) समगंगालक; समगुच्छिका ।

homogen—(Gk. *homos*, same; *genos*, race) समानज; एक ही सामान्य उद्गम (common origin) वाले व्यक्तियों में से कोई एक उद्गम (origin) वाले अंगों की श्रेणी में से कोई एक ।

homogenesis—(Gk. *homos*, same; *genesis*, descent) समजनन; किसी जनन (reproduction) का वह प्रकार जिसमें किसी भाँति के व्यक्तियों से उसी भाँति के व्यक्त उत्पन्न होते हैं ।

homogenous—(Gk. *homos*, same; *genos*, race) समानज; एक ही उद्गम (origin) होने के कारण बहुत कुछ समान ।

homogeny—(Gk. *homos*, same; *genos*, race) समानजता । एक ही सामान्य (common) उद्गम होने के कारण अनुसृत्यता (correspondence) का होना ।

homogony—(Gk. *homos*, same; *gonos*, offspring) समान केमरी; एक प्रकार के फूल जिसमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर समान लम्बाई के होते हैं ।

homoiomerous—(Gk. *homoios*, like; *meros*, part) समसदृश ।

homoiosmotic—(Gk. *homoios*, like; *osmos*, impulse) सम-अभिसृत्यीय दार्थी ।

homoioplastic—(Gk. *homois*, like; *plastcs*, fomed) समरोपण; एक ही जाति के पौधों के बीच में रोपण ।

homiothermal—(Gk. *homoios*, like; *thermos*, hot) मिततापी; स्थिरतापी; ऐसे जन्तु जिनके देह का ताप-क्रम (temperature) वातावरण के कारण प्रायः बहुत कुछ स्थिर रहता है ।

homoiotransplantation—पररोपण; किसी एक अंगी के ऊतक या अंग का दूसरे (सम्भवतः भिन्न) अंगी में रोपण ।

homolecithal—(Gk. *homos*, same; *lekithos*, yolk) समयोक वितरती; सम डिम्बाक्षी; (ऐसे डिम्ब) जिनमें योक या डिम्बाक्ष (yolk) की मात्रा बहुत कम होती है और वह डिम्ब में एक-सा वितरित रहता है ।

homologous—(Gk. *homologos*, agreeing) सम-रूप; समरचन; रचना (structure) और उद्गम (origin) में सादृश्य रखने वाले । किसी एक जन्तु का कोई अंग दूसरे जन्तु के किसी अंग से 'समरूप' (homologous) होता है जबकि वे दोनों अंग रूप की मौलिक समानता लिये होते हैं । यह समानता भ्रूणीय वर्धन में अधिक स्पष्ट होती है । जैसे स्तनी की कर्ण अस्थिकाएँ (ossicles) मत्स्यों के हनु लगाव (jaw attachment) की अस्थियों के समरूप होते हैं । यह समरूपता केवल उन व्यक्तियों में होती है जिनके पूर्वज एक होते हैं । वैज्ञानिकों की यह धारणा है कि वर्धन में ही यह परिवर्तन दो भिन्न दशाओं में हो जाता है जिससे वंशज (descendent) प्रजातियों में यह समरूपता दृष्टिगोचर हो जाती है । इस प्रकार अंगों की समरूपता उन अंगियों के आनुवंशिक सम्बन्ध को बतलाती है ।

homologue—(Gk. *homologos*, agreeing) समरूप; समरचन; ऐसी बनावटों में से एक जो रचना (structure) और उद्गम (origin) में एक-सी हों ।

homology—(Gk. *homologia*, agreement) समरूपता; समरचनता । अंगों या भागों की रचना (structure) और वधन (development) में समानता का होना ।

homomalleus—(Gk. *homos*, same, *mallos*, lock of wool) समवक्र ।

homomorphic—(Gk. *homos*, same; *morphe*, form) समानाकार; समाकृति ।

homomorphism—(Gk. *homos*, same, *morphe*, form) समाकृतिता, अर्भक (larva) और प्रौढ़ (adult) में रचना सादृश्य होना ।

homomorphosis—(Gk. *homos*, same; *morphe*, shape) समपुनरुत्पत्ति । पुनरुत्पन्न (regenerated) भाग का नष्ट भाग के समान होना ।

homonomic—(Gk. *homos*, same, *nomos*, law) समानाचारी; एक-सा व्यवहार (behaviour) करने वाले ।

homonomous—(Gk. *homos*, same; *nomos*, law) समवर्धी; एक-सी स्थितियों (stages) या प्रक्रिया (process) में होकर वर्धन या वृद्धि करने वाले ।

homonomy—(Gk. *homos*, same; *nomos*, law) अनुखंड समरूपता । [देखिये—homodynamy]

homonym—(Gk. *homos*, same; *onyma*, name) समनाम; एकनाम; पूर्व नाम होने के कारण वही नाम रखना कानून की दृष्टि में अनुपयुक्त होता है ।

homopetalous—(Gk. *homos*, same; *petalon*, petal) समान दली, सम दली ।

homophyadic—(Gk. *homos*, same; *phyas*, short) सम प्ररोही ।

homophytic—(Gk. *homos*, same; *phyle*, race) एकनस्ली; समनस्ली ।

homophyllous—(Gk. *homos*, same; *phyllon*, leaf) सम पर्णी; समान पर्णी ।

homophytic—(Gk. *homos*, same; *phyton*, plant) सम स्पोरी; द्विभांति स्पोरक; एकल बीजाण उद्भिद् पर एक द्विलिंगी (bisexual) स्पोर धारण करने वाला ।

homoplasma—(Gk. *homos*, same; *plasma*, mould) सम जाति द्रव्य; उसी जाति के दूसरे जन्तु का द्रव्य—ऊतक संवर्धन हेतु प्रयोग किया जाना ।

[देखिये—heteroplasm—भिन्न जाति द्रव्य ।
autoplasm—स्व द्रव्य ।]

homoplast—(Gk. *homos*, same; *plastos*, moulded) समस्त्रावकणी ।

homoplastic—(Gk. *homos*, same; *plastos*, moulded) समरोपित; समाकृतिक; सहस्र ।

homoplasty—(Gk. *homos*, same; *plastos*, moulded) समानीकरण; अभिसरण; भिन्न अंगों (organs) या अंगियों (organisms) का समान पद्धतियों (similar lines) पर विकास (evolution) होने के कारण एक ही रचना (structure) वाला हो जाना ।

[देखिये—convergence]

homoplasia—(Gk. *homos*, same; *plastos*, moulded) समाभिसरण ।

homopterous—(Gk. *homos*, same; *pteron*, wing) समपंखी ।

homosomal—(Gk. *homos*, same; *soma*; body) समपिच्छी ।

homosporangia—(Gk. *homos*, same; *sporas*, seed; *anggeion* vessel) सम बीजाणुक; सम स्पोरक; एक ही बीजाणुधानी (sporangium) पर एक ही प्रकार अथवा दो प्रकार के स्पोरों को धारण करने वाला ।

homosporous—(Gk. *homos*, same; *sporas*, seed) सम स्पोरी; अभिन्न स्पोरी; सम बीजाणुक; केवल एक ही प्रकार के स्पोर उत्पन्न करने वाला ।

homostyled—(Gk. *homos*, same; *stylos*, pillar) समधारिकी ।

homosynapsis—(Gk. *homos*, same; *synapsis*, union) समयुग्मीकरण । दो समान प्रोमोनीम या परस्पर सूत्रों (chromosomes) का परस्पर निमग्न जोड़ा (युग्म) बनाना । [देखिये—heterosynapsis]

homotaxial—(Gk. *homos*, same; *taxis*, arrangement) समसंयोजकी ।

homotaxis—(Gk. *homos*, same; *taxis*, arrangement) समसंयोजक ।

homothallic (Gk. *homos*, same; *thallos*, young shoot) समधीरुज; समसंयोजक; समसंयोजक; जैसे कवक जीव (mycelium) को दो समानों द्वारा समसंयोजक (synopsis) का निर्माण ।

homothermal, homothermous—(समशीतोष्ण) ।

[देखिये—homothermat]

homotropous—(Gk. *homos*, same; *tropos*, turn) सम बीजाणुकी; ऐसा बीजाणु जिसका ध्रुव द्वार (micropyle) और निम्न (ईसाई—chalice) विपरीत छोरों पर हों ।

homotypic—(Gk. *homos*, same; *typos*, pattern) समप्रकृती; समरचनाकी ।

homotypy—(Gk. *homos*, same; *typos*, pattern) समप्रकृति; समरचनाकी; जिनका समजातता । समीर की मुख्य लक्ष पर समसंयोजक संरचनाएँ ।

homozygosis—(Gk. *homos*, same; *zygon*, yoke) समयुग्मकता; समयुग्मता; किसी पारम्परिक कारक (genetical factor) का द्वियुग रण (duplex condition) में होना और उस कारक की प्रति में केवल एक प्रकार के ही जन्तु (gametes) उत्पन्न करना ।

homozygote—(Gk. *homos*, same; *zygon*, yoke) समयुग्मक । किसी विनिश्चित स्थान के दोनों जीन या परम्परा कण (genes) एक में रखने वाला व्यक्ति ।

homozygous—(Gk. *homos*, same; *zygon*, yoke) समयुग्मक; किसी विनिश्चित स्थान के जीन या परम्परा कण (genes) एक में धारण करने वाला ।

homunculus—(L. *homunculus*, little man) होमनुकुलस; ऐनीमलकुलिस्ट (Animalculisti) के जन्तुकार मानव भ्रूण पर प्रथम रूप जो सूक्ष्म में विद्यमान माना जाता है ।

honey-dew—मधु शिष्टु ।

hooded—(A. S. *hōd*) कप; कवरण ।

hook—अङ्कुर; हुक ।

hordeaceous—(L. *hordeum*, barley) धर, धर जी के समान ।

horidimorphism—(Gk. *horos*, in seasons *dis*, twice; *morphe*, shape) ऋतु विकृतता ।

horizon—(Gk. *horizon*, bounding) क्षितिज; धर-रेखा ।

horizontal—(Gk. *horos*, bounding) क्षितिज (धर-रेखा); क्षितिज; section पर क्षितिज धर-रेखा; धर-रेखा के समाने समरेख कण वाले क्षितिज क्षितिज धर-रेखा ।

horme—(Gk. *horme*, impetus) उत्तिज; आशय-वृत्ति; इच्छित आचरण; जीवित अंगी या कोशिकाओं की आशय वृत्ति (purposive behaviour)।

hormocyst—(Gk. *hormos*, chain; *kystis*, bladder) हार्मोसिस्ट; नीले-हरे शैवाल में एक परिवर्तित घनी भित्ति वाला हार्मोगोनियम (hormogonium)।

hormogonium—(Gk. *hormos*, chain; *gone*, generation) हार्मोगोनियम; जननपिण्ड; दो हेट्टरोसिस्ट (histocysts) के बीच का भाग जो दूटने पर जनन पिण्ड की तरह कार्य करता है।

hormones—(Gk. *hormeo*, I excite) हारमोन; उद्दीपक; उत्तेजी अन्तःस्राव; क्रिया वर्धक अन्तःस्राव (उद्दीपक)। जन्तुओं में हार्मोन अन्तःस्रावी ग्रन्थियों से स्रावित होते हैं और ग्रन्थि कोशिकाओं से निकल कर सीधे रुधिर धारा में पहुँचते हैं। जैसे एड्रीनल ग्रन्थि से एड्रीनेलिन (adrenalin), पिट्यूटरी (pituitary) से पिट्यूटरीन (pituitarin), पैंक्रियाज (pancreas) से इन्सुलीन (insulin) और थाईरोइड (thyroid) से थाइरोक्सिन (thyroxin) आदि अन्तःस्राव या हार्मोन स्रावित होते हैं। कशेरुकों (vertebrates) में तो यह होते ही हैं। अकशेरुकों (invertebrates) में भी जैसे कीटों में कारपोरा अलेटा (corpora allata) से हार्मोन स्रावित होता है जिसे यौवन (juvenile) हारमोन कहते हैं, जिससे निर्मोचन के पश्चात् भी लारवा (larva)—लारवा लक्षणों को धारण किये रहता है और प्रौढ़ में नहीं बदलता है। वनस्पतियों के हार्मोन को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन (phyto hormones) कहा जाता है। यह पादप की वृद्धि में मुख्य भाग लेते हैं। कुछ पादप हार्मोन आक्सिन (auxins), साइटोकाइनेसि (cytokinins), जिबरेलिन (Gibberelin), फ्लोरोजिन (florigen) आदि हैं। यह हार्मोन पादप में किस प्रकार अभिगमन करते हैं ठीक-ठीक पता नहीं है। तरुण तनों में आक्सिन का अभिगमन जीवित कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है न कि सामान्य अभिसरण प्रक्रिया द्वारा। आक्सिन के अभिगमन की दशा सदैव एक अर्थात् तने की अग्रशीर्ष (tip) से दूर तलाभिसारी (basipetal) गति होती है। यह देखा गया है कि तने के कटे हुए तल पर यदि आक्सिन को लगा दिया जाये तो यह अग्रशीर्ष (tip) तल जब ही गति करता है

जबकि प्रति आक्सिन (antiauxin) जैसे २, ३, ५ ट्राई-आयोडो बेंजोइक अम्ल (tri-iodobenzoic acid) से उपचार कर दिया जाता है।

hormonic—(Gk. *hormaein*, to excite) उद्दीपक सम्बन्धी; हार्मोन सम्बन्धी।

homoproteius—(Gk. *hormaein*, to excite; *protos*, first) हारमोप्रोटीन; अन्तःस्रावी ग्रन्थियों द्वारा स्रावित प्रोटीन।

horn—(A. S. *born*) सींग; शृंग; विषाण।

horny—(A. S. *horn*) शृंगोपम; शृंगीय।

horotelic—(Gk. *hora*, right time; *telos*, fulfilment) नियत विकासी।

[देखिये—bradytelic—मन्थर विकासी
tachytelic—द्रुत विकासी]

host—(L. *hostis*, strecciter) सत्कारी; मेजवान; पोषक।

house—(A. S. *hus*) घर; गृह; वेष्टन; वास।

Houston's valves—(J. Houston; Irish surgeon) हाऊसटन के कपाट (वाल्व); मलाशय (rectum) में पाई जाने वाली अर्ध चन्द्राकार अनुप्रस्थ श्लेष्म कला भाँजे (folds)।

humeral—(L. *humerus*, shoulder) (१) स्कन्धीय; स्कन्धी प्रदेश (shoulder region) से सम्बन्ध रखने वाला। (२) ह्यूमेरल; कंधुओं के वक्ष पट्ट (plastron) का एक शृंगीय पटल (horny plate)।

humerus—(L. *humerus*, shoulder) ह्यूमेरस; प्रगंडास्थि; कुहनी से मुड़ू तक की हड्डी।

humistratous—(L. *humus*, soil; *sternere*, to spread) भूविस्तृत; भूमितल पर फैली हुई।

humoral—(L. *humor*, moisture) अक्षम मत; यह मत कि शरीर तरल में विष निग्रह शक्ति में अक्षमता (immunity) होती है।

humour—(Gk. *humor*, moisture) द्रव; कोई सरल (fluid) या रस (juice); जैसे आँख के जलीय तथा कांचीय द्रव।

hump—कूबर; गड्ढा; कूबड; ककुद्।

humus—(L. *humus*, earth) ह्यूमस; वनस्पति या जन्तु पदार्थों से बना विघटन पदार्थ जिससे मिट्टी का जैविक घट (organic part) बना होता है।

husk—(M. E. *huske*) भूसा; तुष; कई बीजों के ऊपर का आवरण (आवेष्टन) ।

huxley's layer (T. H. *Huxley*; English zoologist) हक्सले का स्तर; रोम की अन्तःमूलाच्छद की बहुभुजीय केशिकायों से बना मध्य-स्तर ।

hyaline—(Gk. *hyalos*, glass) काचीय ।

hyalogen—(Gk. *hyalos*-glass; *genos*, birth) हाय लोजन; जन्तु-तन्तुओं में पाये जाने वाले अघुलनशील पदार्थ ।

hyaloid—(Gk. *hyalos* glass; *eidos*, form) काचोपम; कांच की तरह का पारदर्शक ।

hyaloid membrane—काचोपम झिल्ली; आँख के विट्रियस पिण्ड (vitreous body) का आवरण बनाने वाली पतली झिल्ली ।

hyalomere—(Gk. *hyalos*, glass; *meros*, part) काचीय भाग; रुधिर पट्टिकाओं (blood platelets) का स्वच्छ एक-सा भाग ।

hyalomucoid—(Gk. *hyalos*, glass L. *mucus*, *mucus*; Gk. *eidos*, like) हायलोम्यूकोइड; ग्लूको-प्रोटीड (काचीय द्रव्य) में ।

hyaloplasm—(Gk. *hyalos*, glass; *plasma*, mould) काचद्रव; सैल (cell) का आधारक पदार्थ (ground substance) ।

hyalopterous—(Gk. *hyalos*, glass; *pteron*, wing) काचपंखी; पारदर्शकपंखी ।

hyalosome—(Gk. *hyalos*, glass; *soma*, body) कांचपिण्ड । केन्द्रक (nucleus) के अन्दर पाया जाने वाला एक केन्द्रक-सदृश (nucleolar like) पिण्ड जो केन्द्रक या प्लास्मा-रंजकों (nuclear or plasma stains) से हल्का रंग पाता है ।

hybrid—(L. *hibrida*, cross) संकर; वर्ण-संकर; विषम युग्मज । [देखिये—heterozygote]

hybridisation—(L. *hibrida*, cross) संकरी करण ।

hybridise—(L. *hibrida*, cross) संकरी करण करना ।

hybridism—(L. *hibrida*, cross) (वर्ण) संकरता ।

hydathode—(Gk. *hydor*, water; *hodos*, way) जल छिद्र; जल निर्यासक; जलस्राव ।

hydatid—(Gk. *hydatis*, watery vesicle) (१) जल कोषिका; स्वच्छ जलोपम द्रव से भरी हुई कोई धैली या

कोषिका (२) हाइडैटिड; सिस्ट कोषिका; धैली-सदृश रचना जिसके अन्दर ही पट्टेदेही अर्भकों (larval tape worms) की सिस्ट-आवृत (encysted) स्थितियाँ (stages) हों ।

hydatiform—(Gk. *hydatis*, watery vesicle; L. *forma*, shape) जलकोषिकोपम ।

hydatigenous—(Gk. *hydatis*, watery vesicle; *genes*, producing) जलकोषिका निर्माणक ।

hydranth—(Gk. *hydor*, water; *anthos*, flower) हाइड्रक; हाइड्रा-मुकुल; किसी हाइड्राकार सघ (hydroiodcolony) का पोषक मुकुल ।

hydrarch—(Gk. *hydor*, water, *arche*, beginning) जलप्रभव; आर्द्र अवस्था (hydric) से शुष्क (xeric) अवस्था की ओर बढ़ाव ।

hydric—(Gk. *hydor*, water) आर्द्र; अत्याधिक नमी की दशा ।

hydrocaulis—(Gk. *hydor*, water; *caulis*, stalk) हाइड्रक-नाल; किसी हाइड्रक सघ (hydroid colony) के सीनो सार्क (caenosarc) का खड़ा (vertical) शाखा मय स्तम्भ ।

hydrocircus—(Gk. *hydor*, water; *kirkos*, circle) हाइड्रोसर्कस । कंटक देहियों (इकाईनोडर्मेटा—echinoderms) में पाया जाने वाला हाइड्रोसील (hydrocoele) का वृत जो मुख की चारों ओर से घेरे रहता है ।

hydrocladia—(Gk. *hydor*, water; *klados*, shoot) हाइड्रक उपनाल; हाइड्रक-नाल की शाखाएँ ।

hydrocoel—(Gk. *hydor*, water; *koilos*, hollow) हाइड्रोसील; कंटक देहियों (इकाईनोडर्मेटा—echinoderms) में पाया जाने वाला जल नलिका मण्डल (water-vascular system) ।

hydrocyst—(Gk. *hydor*, water; *kystis*, bladder) ग्राही मुकुल । [देखिये—dactylozoid]

hydroecium—(Gk. *hydor*, water; *oikos*, house) हाइड्रोशियम; कीप की ।

hydroid—(Gk. *hydor*, water; *eidos*, form) हाइड्रोइड; हाइड्रक; हाइड्रा सदृश मुकुल ।

hydrolysis—(Gk. *hydor*, water; *lyein*, to dissolve) जलीय विश्लेषण ।

hydrome

hydrome—(Gk. *hydor*, water; *mestos*, full) जलप्रवाही ।

hydromegatherm—(Gk. *hydor*, water; *megas*, great; *therme*, heat) जल ऊष्णी; ऐसा पौधा जिसको पूर्ण विकसित होने हेतु अधिक जल व ऊष्णता की आवश्यकता होती है ।

hydronasty—(Gk. *hydor*, water; *nastos*, close pressed) आर्द्र वृत्ती; पौधों में पर्यावरण की आर्द्रता के परिवर्तन से प्रेरित गति (क्रिया) ।

hydrophilous—(Gk. *hydor*, water; *philein*, to love) जल परागणी; जल के माध्यम से परागण ।

hydrophoric—(Gk. *hydrophoros*, carrying water) जल वाहिनी; जल नलिका ।

hydrophyllium—(Gk. *hydor*, water; *phyllon*, leaf) हाइड्रोफिलियम ।

hydrophyte—(Gk. *hydor*, water; *phyton*, plant) जलपादप; जलोद्भिद ।

hydrophyton—(Gk. *hydor*, water; *phyton*; plant) हाइड्रक-तरु । एक पूर्ण हाइड्रक-संघ (hydroid colony) जिसमें जड़-सरीखी रचना, तना और शाखाएँ हों ।

hydroplanula—(Gk. *hydor*, water; L. *planus*, flat) हाइड्रोप्लैनुला; सीलोमान्त्रियों (सीलैन्ट्रेटा-coelenterates) में पाई जाने वाली प्लैनुला (planula) और ऐक्टिनुला (actinula) के बीच की स्थितियाँ (stages) ।

hydropolyp—(Gk. *hydor*, water; F. *polype*, polyp) हाइड्रक; हाइड्रक-मुकुल ।

hydroponics—(Gk. *hydor*, water; *ponos*, exertion) जल वनस्पति विज्ञान; जल कलचर (culture)—द्रव माध्यम में वनस्पति उगाने सम्बन्धी विज्ञान ।

hydropore—(Gk. *hydor*, water; *poros*, opening) हाइड्रोपोर; जल छिद्र; कंटक देही अर्भकों (echinoderm larvae) में पाये जाने वाले दाहिने हाइड्रोसील (hydrocoel) में खुलने वाला छिद्र ।

hydropote—(Gk. *hydropotes*, water drinker) जल प्रवेश्य; जल व्याप्य ।

hydropyle—(Gk. *hydor*, water; *pyle*, gate) जल क्षेत्र; भ्रूण की क्यूटिक्युलर कला में जल गमन हेतु विशिष्ट क्षेत्र जैसे टिड्डे (grass hopper) में ।

hydorabd—(Gk. *hydor*, water; *rhabdos*, rod) शलपिण्ड; शलकण ।

hydorhiza—(Gk. *hydor*, water; *rhiza*, root) हाइड्रक-मूल । किसी हाइड्रक-संघ (hydroid colony) के सीनोसार्क (coenosarc) का रेंगता हुआ जड़-सरीखा भाग ।

hydrosere—(Gk. *hydor*, water; L. *serere*, to put in a row) हाइड्रोइड मूलांश । हाइड्रोइड अधिनिवेश के योजकनाल (coenosarc) का मूलोपम भाग ।

hydrosome—(Gk. *hydor*, water; *some*, body) हाइड्रक-पिंड; सीलो मान्त्री (सीलैन्ट्रेटा-coelentrata) के जीवन-चक्र (life-cycle) में पाई जाने वाली स्पष्ट हाइड्रा-सदृश स्थिति (stage) ।

hydrospire—(Gk. *hydor*, water; L. *spira*, coil) हाइड्रोस्पायर; जलमीनार; जल को ऊँचा उठाने वाला अंग ।

hydrostatic—(Gk. *hydor*, water; *statikos*, causing to stand) प्लावी अंग; किन्हीं कीटों (insects) के जलीय अर्भकों (aquatic larvae) में पाया जाने वाले प्लावी (floating) अंग (organ) ।

hydrostome—(Gk. *hydor*, water; *stoma*, mouth) हाइड्रक-मुख; हाइड्रक-मुकुल (hydroid polyp) का मुख ।

hydrotaxis—(Gk. *hydor*, water; *taxis*, arrangement) जलज न्यास; अंगियों (organisms) का जल या नमी की उत्तेजना (stimulus) के प्रति प्रत्युत्तर (response) ।

hydrotheca—(Gk. *hydor*, water; *theke*, cup) हाइड्रक-पुट; अनेक सीलोमान्त्रियों (coelenterates) में पाई जाने वाली प्याले सरीखी बनावट जिसमें मुकुल (polyp) भीतर को खिच आता है ।

hydrotropic—(Gk. *hydor*, water; *trope*, turn) आर्द्रानत; किसी पौधे के अंग का अधिक नमी की ओर झुकना ।

hydrotropism—(Gk. *hydor*, water; *trepain*, to turn) जलाभिवृत्ति; जल उत्तेजना (stimulus of water) का प्रत्युत्तर ।

hydrozoa—(Gk. *hydor*, water; *zoon* animal) हाइड्रोजोआ ।
hydrula—(Gk. *hydor*, water) हाइडुला; एक काल्पनिक (hypothetical) सरल मुकुल (simp'e polyp) ।
hyetal—(Gk. *hyetos*, rain) वर्षा सम्बन्धी ।
hygiene—(Gk. *hygieinos*, healthful) हाईजीन; स्वास्थ्य विज्ञान ।
hygrochasy—(Gk. *hygros*, wet; *chasis*, separation) जलस्फुटन; नमी से बीज-पात्र का स्फुटन (dehiscence) ।
hygrokinesis—(Gk. *hygros*, wet; *kinesis*, movement) आर्द्र गति; आर्द्र विभिन्नता के प्रतिउत्तर में गति ।
hygrophilous—(Gk. *hydros*, wet; *philein*, to love) आर्द्र प्रेमी; नम या जलमग्न स्थान का वासी ।
hygrophyte—(Gk. *hygros*, wet; *phyton*, plant) जलपादप; जलोद्भिद ।
hygroplasm—(Gk. *hygros*, wet; *phyton*, plant) तरलिका; जीवनसत्व (protoplasm) का अधिक पतला भाग । [देखिये—stereoplasm]
hygroscopic—(Gk. *hygros*, wet; *skopein*, to regard) आर्द्रकर्षी; नमी को सोख लेने वाला ।
hylophagous—(Gk. *hyle*, wood; *phagein*, to eat) काष्ठाहारी, काष्ठ भोजी ।
holophyte—(Gk. *hyle*, wood; *phyton*, plant) काष्ठपादप ।
hylotomous—(Gk. *hyle*, wood; *temnein*, to cut) काष्ठ कर्त्तक ।
hymen—(Gk. *hymen*, membrane) योनिच्छद ।
hymenial—(Gk. *hymen*, skin;) हाइमीनियम सम्बन्धी ।
hymeniferous—(Gk. *hymen*, skin; L. *ferre*, to carry) हाइमीनियम धारी ।
hymenium—(Gk. *hymen*, skin) हाइमीनियम; छत्रक (mushroom) पत्रक (lamellae) का वाह्यतम स्तर जिसमें बीजाणुज कोशिकाएँ (spore producing) सामान्य कोशिकाओं के अन्तःप्रकीर्ण (interspersed) होती हैं ।

hymenoptera—(Gk. *hymen*, skin; *pteron*, wing) हाइमेनोप्टेरा; तनुपक्षक ।
hymenopterous—(Gk. *hymen*, skin; *pteron*, wing) तनुपक्षक; तनुपक्षकीय ।
hyobranchial—(Gk. Y; *branchia*, gills) हायो-ब्रेन्काल; हायोगिली; जिह्वास्थि (hyoid) और गिल (gill) सम्बन्धी ।
hyoepiglottic—(Gk. Y; *epi*, upon; *glotta*, tongue) हायक-कण्ठ प्रिधानी; हायो-एपिग्लोटिक ।
hyoglossal—(Gk. Y; *glassa*, tongue) ह्याइड-जिह्वकी; हाइड (hyoid) और जिह्वा सम्बन्धी ।
hypocone—(Gk. *hypo*, under; *konos*, cone) (१) मेखला पश्चक; मेखला कशाधारियों (dinoflagellates) में मेखला (girdle) से पीछे का भाग । (२) पश्चकशंकु; ऊपरी चर्वक (upper molar) का पिछला अन्दर की ओर का शंकु (cusp) ।
hypoglossal—(Gk. Y; *glossa*, tongue) अधो जिह्वी (नाड़ी); हाइपोग्लोसल; द्वादश (बारहवीं) कपालीय तंत्रिका जो जिह्वा मूल (base of tongue) में वितरित (distributed) रहती है ।
hyoid—(Gk. *hyoeides*, Y-shaped) हीएड; जिह्वास्थि ।
hyo—हायक; हायो ।
hyoidean—(Gk. *hyoeides*, Y-shaped) जिह्वास्थि सम्बन्धी; (१) जिह्वा घमनी (lingual artery) या प्रथम अपवाही घमनी (first efferent branchial vessel) की शाखा । (२) पश्च ट्रिमेटिक तंत्रिका (posterior trematic nerve) ।
hyoideus—(Gk. *hyoeides*, Y-shaped) हीएडियस तंत्रिका ।
hyomandibular—(Gk. Y; L. *mandibulum*, jaw) होयोमैन्डीबुलर ।
hyomental—(L. *mentum*, chin) हायक-चिबुकी; हीएड (hyoid) और चिबुक (chin) सम्बन्धी ।
hyoplastron—(Gk. Y; F. *plastran*, breast-plate) हायोप्लैस्ट्रान; पश्चाग्र वक्ष पट्ट ।
hyostapes—(Gk. Y; L. *stapes*, stirrup) हायोस्टै-पीज; कोल्युमेला मौल (columellar primordium) का निचला भाग जिससे कुछ सर्पकों (reptiles) में कोल्यु मेला अंशतः उत्पन्न होता है ।

hyosternum—(Gk. *Y*; *sternon*, breast) हायो-
स्टर्नम । [देखिये—hyoplastron]

hyostylic—(Gk. *Y*; *stylos*, pillar) होएड-स्तम्भी ।

hyosymplecticum—(Gk. *Y*; *symplektos*, plaited
together) हायोसिम्प्लेक्टिकम; उपस्थीय मूलांग
(primordium) जिससे हायोमेन्डीबुलर (hyomandi-
bular) और सिम्प्लेक्टिकम (symplecticum) अस्थियाँ
उद्भूत होती हैं ।

hyothyroid—(Gk. *Y*; *thyreos*, shield; *eidos*,
like) हायोथाइराइड; स्वर यंत्र (लिरिक्स) के हाँयड
(hyoid) और थाइरोइड उपास्थियों से सम्बन्धित ।

hypallelomorph—(Gk. *hypo*, under; *allelon*,
of one another; *morphe*, form) संयुज युग्म
विकल्पी; ऐसे युग्म विकल्पी (allelomorph) जो किसी
दशा में स्वयं संयुज (compound) हो जाते हैं ।

hypandrium—(Gk. *hypo*, under; *aner*, male)
अधः जनन पट्ट (पटल) । किन्हीं कीटों का नवाँ उदरीय
वक्ष पटल ।

hypanthium—(Gk. *hypo*, under; *anthos*, flo-
wer) पुष्पाक्ष स्फीति; पुष्पाक्ष का कोई स्फीति
(विस्तार) ।

hypanthodium—(Gk. *hypo*, under; *anthodes*,
like flowers) हाइपैन्थोडियम (पुष्पक्रम) । इसमें
रेक्स (rachis) के संघनित हो जाने से एक नारंगी
के आकार का पात्र बन जाता है, जिसके सिरे पर एक
छिद्र होता है । इसी पात्र के अन्दर पुष्पक ससीमाक्ष
(cymose) क्रम में लगे रहते हैं । उदाहरण, गूलर
और अंजीर (*Ficus carica*) ।

hypantrum—(Gk. *hypo*, under; *antron*, cave)
हाइपैन्ट्रम; कुछ सर्पकों (reptiles) के कशेरू (verte-
brae) पर एक दनदाना (notch) हाइपोस्फीन
(hyosphene) की सन्धि के लिये ।

hyapophysis—(Gk. *hypo*, under; *apo*, upon;
phyein, to grow) हाइपैपोफाइसिस; अधर-प्रवर्धन;
कुछ कशेरू-काय (vertebral centra) पर पाया जाने
वाला अधर प्रवर्धन (process) ।

hyarterial—(Gk. *hypo*, under; *L. arteria*,
artery) अधस्वमनीय; किसी धमनी के नीचे स्थिति ।

hypaxial—(Gk. *hypo*, under; *L. axis*, axis)
अक्षाधर (पेशियाँ); निम्नाक्ष पेशी ।

hyperapophysis—(Gk. *hyper*, above; *apo*,
from; *phyein*, to grow) अति अस्थि विवर्धन;
हाइपरएपोफाइसिस, कशेरूक की पृष्ठ ओर का पश्च-
पार्श्वीय प्रवर्धन (विवर्धन) ।

hyperchromasy—(Gk. *hyper*, above; *chroma*,
colour) अति रंज्यता; अतिक्रोमैटिनता; कोशिका में
कोशिक द्रव्य (cytoplasm) के लिये क्रोमेटिन (केन्द्रक
रंज्य) की अनुपातन अति उपाहता (supply) ।

hyperchromatosis—(Gk. *hyper*, above, *chroma*,
colour) अति अर्णित पदार्थ; अति न्यूक्लियर पदार्थ;
कोशिका विभाजन से पूर्व अत्यधिक न्यूक्लियस पदार्थ
का होना ।

hypercoracoid—(Gk. *hyper*, above; *korax*,
crow; *eidos*, like) हाइपरकोरकौइड ।

hyperfeminisation—अतिस्त्रैणता; किसी स्त्रैण नर
(feminised male) की दशा जिसमें नारी लक्षणों का
आधिक्य हो ।

hypergamesis—(Gk. *hyper*, above; *gamos*,
marriage) अति शुक्राणुता; मादा द्वारा अधिक मात्रा
में शुक्राणुओं के शोषण की प्रक्रिया ।

hypermastia—अतिस्तनता ।

hypermasculinisation—अतिपुंसता; पुंसीनारी (mas-
culinised female) की दशा जिसमें पुंस्त्व-लक्षणों की
अतिशयता हो ।

hypermetamorphosis—(Gk. *hyper*, above; *meta*,
after; *morphosis*, shaping) अतिरूपान्तरता;
अतिरूपान्तरण; अतिकार्यांतरण ।

hypermorphosis—(Gk. *hyper*, above; *morpho-*
sis, shaping) अतिवर्धनता; अतिरूपता ।

hypernutrition—अतिपोषण ।

hyperparasite—(Gk. *hyper*, above; *para*,
beside, *sitos*, food) उपर जीवी; परात्परजीवी;
किसी अन्य परोपजीवी (parasite) पर व्यतीत करने
वाला परोपजीवी ।

hyperphalangy—(Gk. *hyper*, above; *phalangx*,
line of battle) अतिबांगुलिता; अत्यांगुलिता; उँगलियों
की सामान्य संख्या से अधिक संख्या का होना ।

hyperpituitarism—(Gk. *hyper*, above L. *pituita*, phelgm) अति-पिट्यूठरिता; पिट्यूठरी ग्रन्थि (pituitary) की अतिशय क्रियाशीलता जिसके फल-स्वरूप महाकायता (gigantism) हो जाती है।

hyperplasia—(Gk. *hyper*, above; *plassein*, to mould) वृद्धि-बाहुल्य; अतिवर्धन; वृद्धि का असाधारण बाहुल्य जो केशिकाओं की संख्या-वृद्धि के कारण होता है। [देखिये—hypertrophy]

hyperploid—(Gk. *hyper*, above; *haploos*, one-fold, *eidos*, form) अतिगुण सूत्री।

hypernoea—(Gk. *hyper*, above; *pnos*, breath) तीव्र श्वसन; आवसीजन की अल्प मात्रा होने पर तीव्र श्वसन (rapid breathing)।

hypersensitivity—(Gk. *hyper*, above; L. *sentire* to feel) अतिवेदनता, अतिसंवेदनशीलता; उत्तेजनाओं (stimuli) के प्रति अतिशय वेदनशीलता (sensitivity)।

hypersusceptibility—अतिसुग्राहिता।

hypertely—(Gk. *hyper*, above; *telos*, end) अतिलक्ष्यता; अतिविशिष्टोपाजिता।

hypertonia—(Gk. *hyper*, above; *tonos*, tone) अतिपरासारी; अतिसुस्थता।

hypertrophy—(Gk. *hyper*, above; *trophe*, nourishment) अतिवृद्धि; वृद्धि की अतिशयता जो कोशिकों के परिमाण (size) में बढ़ जाने से होती है।

hypha—(Gk. *hyphe*, web) हाइफा; फंगस (fungus) का घागेनुमा भाग या वनस्पतिक कवक जाल (माइसीलियम) का तन्तुक (filament)।

hyphasma—(Gk. *hyphasma*, thing woven) अभिलषण-स्तम्भी; हाइफास्मा; (१) उजाड़ कवक जाल; (२) अगेरीक्स थैलस (Agaricus thallus)।

hypodrome—(Gk. *hyphe*, weli, *dromein*, to run) ऊतक प्रवाही; समस्त ऊतक में फैली हुई।

hypocyst—(Gk. *hypnos*, sleep; *kystis*, bladder) सुप्त सिस्ट; सुप्त स्योति; वह सिस्ट या स्योति (cyst) जिसके भीतर का अङ्गी (organism) निश्चेष्ट दशा में रहता है।

hypnodia—(Gk. *hypnodia*, sleepiness) अर्धक-तन्दा। किन्हीं अर्धकों (larvae) की लम्बी निश्चेष्ट अवस्था।

hypnogenic—(Gk. *hypnos*, sleep; *genos*, offspring) निद्रोत्पादक; निद्राजनक।

hypnosperm—(Gk. *hypnos*, sleep; *sperma*, seed) सुप्त बीजाणु।

hyponosporangium—(Gk. *hypnos*, sleep; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) सुप्त स्पोरक बीजाणुधानी; सुप्त स्पोर युक्त बीजाणुधानी।

hypnospor—(Gk. *hypnos*, sleep; *sporos*, seed) विरामी स्पोर; सुप्त स्पोर।

hypnote—(Gk. *hypnos*, sleep) सुप्तांगी।

hypoarion—(Gk. *hypo*, under; *arion*, little egg) हाइपोएरियन; अधिकांश अस्थि-मत्स्यों (telcosts) में नेत्र दलों (optic lobes) के नीचे स्थित एक छोटा दल।

hypobasal—(Gk. *hypo*, under; *basis*, base) निम्नाधार; वर्षी बीजाण्ड का निम्न खण्ड।

hypoblast—(Gk. *hypo*, under; *blastos*, bud) अन्तर्जनज; अन्तःजनन स्तर। [देखिये—endoderm]

hypoblastic—(Gk. *hypo*, under; *blastos*, bud) अन्तर्जनीय।

hypobranchial—(Gk. *hypo*, under; *branchia*, gills) अधोगिलक।

hypocentrum—(Gk. *hypo*, under; *kentron*, centre) अध. केन्द्रक; अध. कशेरुक मूल; अध. कायक; एक आड़ी (अनुग्रस्य) उपास्थि जो तंत्रिका दंड (nerve cord) के नीचे उत्पन्न होता है और कशेरुक-काया (vertebral centrum) का अंश बनाती है।

hypocercal—(Gk. *hypo*, under; *kerkos*, tail) अध.पालि (पृष्ठ रज्जु); पुच्छ फिन के निम्न दल या अध.पालि में समाप्त पृष्ठ रज्जु (notochord) युक्त।

hypochilium—(Gk. *hypo*, under; *cheilos*, lip) हाइपोकीलियम, ऑरकिड (orchid) के बोछ का निम्न भाग।

hypochondrium—(Gk. *hypo*, under; *chondros*, cartilage) हाइपोकोन्ड्रियम; अध. उपस्थिती; उप्वं जठर (एपीगैस्ट्रिक) का पार्श्व और कटि (lumbar) के ऊपर का क्षेत्र।

hypochoord

hypochoord—(Gk. *hypo*, under; *chorde*, cord)

हाइपोकोर्ड; अधोदण्ड; अधोरज्जुक। जरायुहीनों (anamniotes) में पाई जाने वाली एक पृष्ठदण्डोपम (notochord-like) रचना।

hypochoordal—(Gk. *hypo*, under; *chorde*, string) अधः पृष्ठरज्जु।

hypocheilidium—(Gk. *hypo*, under; *kleis*, key; *idion*, dim) हाइपोक्लाइडियम; अन्तर्वलेविकिल (interclavicle)।

hypocone—(Gk. *hypo*, under; *konos*, cone)
(१) हाइपोकोन; ऊपरी चर्वक (upper molar) का पश्चान्तरिय (postero-internal) कस्प (cusp)।
(२) मेखलापशुच; मेखला कपियों (dinoflagellates) में मेखला (girdle) के पीछे वाला भाग।

[देखिये—epicone]

hypoconid—(Gk. *hypo*, under; *konos*, cone) हाइपोकोनिड; निचले चर्वक (lower molar) का पश्च मौखिक (posterobuccal) कस्प (cusp)।

hypoconulid—(Gk. *hypo*, under; *konos*, cone) हाइपोकोन्युलिड। निम्न चर्वक (lower molar) का पश्चमस्थी (posteromesial) कस्प (cusp)।

hypocoracoid—(Gk. *hypo*, under; *korax*, crow; *eidōs*, like) हाइपोकोरैकोएड; मत्स्यों (fishes) में स्कन्धीय फिन (pectoral fin) के मूल पर पाई जाने वाली एक निचली हड्डी।

hypocotyl—(Gk. *hypo*, under; *kotyle*, cup) बीजपत्राधार; बीजपत्राधर भ्रूण में बीजपत्रों (cotyledens) के नीचे तने का भाग।

hypocotyledonary—(Gk. *hypo*, under; *kotyledon*, hollow) अधस्वीजपत्री।

hypocrateriform—(Gk. *hypo*, under; *krater*, bowl; L. *foma*, slope) पात्रोपम।

hypodactylum—(Gk. *hypo*, under; *daktylos*, digit) अंगुलाधर; हाइपोडैक्टिलम; पक्षियों में पादांगुलियों (toes) का अधस्तल (under surface)।

hypoderma—(Gk. *hypo*, under; *derma*, skin) अधस्त्वक; हाइपोडर्मा; अधस्त्वचा; पौधों में बाह्यछद (epidermis) के ठीक नीचे वाला ऊतक।

hypodermal—(Gk. *hypo*, under; *derma*, skin) अधस्त्वकी; हाइपोडर्मा सम्बन्धी।

hypodermalia—(Gk. *hypo*, under; *derma*, skin) हाइपोडर्मेलिया; अधश्चर्म दृढ़क; छिद्रदेहियों (sponges) की खाल के ठीक नीचे स्थित दृढ़क (spicules)।

hypodermic—(Gk. *hypo*, under; L. *dermis*, skin) चर्माधोगत; खाल के नीचे स्थित (अङ्ग)।

hypodermis—(Gk. *hypo*, under; L. *dermis*, skin) हाइपोडर्मिस; अधश्चर्मा; छण्डदेहियों (annelata) और सन्धिपादों (arthropoda) आदि में श्वेदिकिल (cuticle) के नीचे स्थित तथा उसे बनाने वाला कोशिका-स्तर (cellular layer)।

hypodicrotic—(Gk. *hypo*, under; *di*, two, *krolein*, to beat) हाइपोडाइक्रोटिक; एक हार्दिक स्पन्दन के लिये दो घमनी स्पन्दन का होना।

hypogastric—(Gk. *hypo*, under; *gaster*, stomach) अधोजठर।

hypogastrium—(Gk. *hypo*, under; *gaster*, stomach) अधोजठर प्रदेश; उदर (abdomen) का निचला मध्य प्रदेश (region)।

hypogeal—(Gk. *hypo*, under; *gē*, earth) अधो-भूमिक।

hypogenesis—(Gk. *hypo*, under; *genesis*, origin) निविपर्ययता, उत्पत्ति विपर्यय (alternation of generations) रहित बर्धन (development)।

hypogenous—(Gk. *hypo*, under; *genos*, birth) भ्रूम्यन्तर्गत।

hypoglossal—(Gk. *hypo*, under; *glossa*, tongue) अधोजिह्वी अधोजिह्वक; हाइपोग्लोसल; बारहवीं मस्तिष्क तंत्रिका जो जिह्वामूल (base of tongue) में वितरित होती है।

hypoglossis—(Gk. *hypo*, under; *glotta*, tongue) हाइपोग्लोसिस; जिह्वाधर; जीभ के नीचे का भाग; बीटिलों (beetles) के लेबियम (labium) का एक भाग।

hypognathous—(Gk. *hypo*, under; *gnathos*, jaw) लम्बाधर्नु, निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से तनिक लम्बा रखने वाला।

- hypogynium**—(Gk. *hypo*, under; *gyne*, female) डिम्बाशय आलवी ।
- hypogynous**—(Gk. *hypo*, under; *gyne*, female) अधोजायंगी ।
- hypohyal**—(Gk. *hypo*, under; *hyooides*, Y-shaped) अधोहायक ।
- hypoischium**—(Gk. *hypo*, under; *ischion*, hip) हाइपोइस्कियम; इस्कियम (*ischium*) हड्डियों के सम वाय (सिम्फिसिस—*symphysis*) से पीछे की ओर निकली हुई एक छोटी अस्थि-शलाका जो गुदाद्वार (*cloacal aperture*) की निचली भित्ति को आधार देती है ।
- hypolemmal**—(Gk. *hypo*, under; *lemma*, peel) अधोमांसाच्छदी; मांस सूत्रों के ऊपर की पारदर्शक झिल्ली के नीचे ।
- hypomeral**—(Gk. *hypos*, under; *meros*, part) हाइपोमिरल; कुछ मछलियों में घड़ की निचली पेशियों के बीच में पाई जाने वाली पतली हड्डी ।
- hypomere**—(Gk. *hypo*, under; *meros*, part) हाइपोमियर; अधोवट; सीलोम-थैलियों (*coelomic pouches*) का निचला भाग, जिसे पार्श्व-पट्ट (*lateral plate*) भी कहते हैं ।
- hypomeron**—(Gk. *hypo*, under; *meros*, part) हाइपोमिरोन; कंचुक पक्षों (*coleoptera*) में पुरावक्ष (*prothorax*) का मुड़ा हुआ पार्श्वीय भाग ।
- hyponasty**—(Gk. *hypo*, under; *nastos*, close pressed) प्राघस्तलता; किसी चपटी रचना में वृद्धि की वह दशा जिसमें नीचे का तल ऊपरी तल की अपेक्षा अधिक वेग से बढ़ता है ।
- hyponeural**—(Gk. *hypo*, under; *neuron*, nerve) अधोतंत्रिकीय; एकाइनोडर्मस (*echinoderms*) में अरीय और अनुप्रस्थ गति तंत्रिकाओं का एक तंत्र (*system*) ।
- hyponome**—(Gk. *hyponome*, underground passage) हाइपोनोम; अधस्कीप । शिरस्कपादियों (*cephalopods*) में पाया जाने वाला कीप (*funnel*) ।
- hyponychium**—(Gk. *hypo*, under; *onyx*, nail) नखाकार; बहिष्छद (*epidermis*) का वह स्तर (*layer*) जिस पर नख स्थित होते हैं ।
- hypopetalous**—(Gk. *hypo*, under; *petalon*, petal) अधस्वाहादली ।
- hypophare**—(Gk. *hypo*, under; *pherein*, to bear) हाइपोफेयर; अधोधरांश; छिद्र देहियों (*sponges*) का निम्न भाग जिसमें कोठरियाँ (*chambers*) नहीं होती ।
- hypopharyngeal**—(Gk. *hypo*, under; *pharynx*, pharynx) अधः; कण्ठक ।
- hypopharynx**—(Gk. *hypo*, under; *pharynx*, pharynx) हाइपोफैरिन्क्स; अधः कण्ठक; रसनक । अनेक कीटों (*insects*) में पाया जाने वाला रसनक या लिंगुआ (*lingua*) । मच्छरों (*mosquitoes*) में लेब्रियम (*labium*) के मूल से निकला हुआ एक प्रवर्धन जिसमें थूक नलिका या लीक होती है ।
- hypophloedal**—(Gk. *hypo*, under; *phleios*, bark) अधस्वल्कली ।
- hypophyllum**—(Gk. *hypo*, under; *phyton*, leaf) अधस्पर्ण; पर्णाभस्तंभ (*cladophyll*) के नीचे शल्कोपम पत्र (*scale leaf*) ।
- hypophyllous**—(Gk. *hypo*, under; *phyllon*, leaf) अधःपर्ण । पर्ण (पत्ती) के नीचे की स्थिति ।
- hypophysectomy**—(Gk. *hypo*, under; *physis*, growth; *ek*; out; *temnein*, cut) पिट्यूइटरी-हनन । (पिट्यूइटरी ग्रन्थि (*pituitary gland*) को काट कर निकाल देना या नष्ट कर देना ।
- hypophysial**—(Gk. *hypo*, under; *physis*, growth) पिट्यूइटरी पिंड सम्बन्धी; पीयूषिका सम्बन्धी ।
- hypophysin**—(Gk. *hypo*, under; *physis*, growth) हाइपोफाइसिन; पिट्यूइटरी ग्रन्थि कषाय (*extract*) ।
- hypophysis**—(Gk. *hypo*, under; *physis*, growth) हिपोफिसिस; पिट्यूइटरी पिंड ।
- hypoplasia**—(Gk. *hypo*, under, *plassein*, to mould) ऊनवृद्धि ।
- hypoplastron**—(Gk. *hypo*, under, *F. plastron*, shield) पश्च वक्ष पट्ट; हाइपोप्लैस्ट्रोन ।
- hypopleuron**—(Gk. *hypo*, under; *pleuron*, side) अधःपार्श्वक । षटपादों या कीटों (*insects*) के पश्च पार्श्वक (*metapleuron*) के नीचे का प्रदेश ।
- hypoploid**—(Gk. *hypo*, under; *haploos*, one-fold, *eidos*, form) न्यून गुणसूत्र ।

hypopodium—(Gk. *hypo*, under; *podium*, little foot) पर्णाधर; पर्णमूल ।

hypopteron—(Gk. *hypo*, under; *pteron*, feather) अधःपक्ष ।

hypoptilum—(Gk. *hypo*, under; *ptilon*, down) अनुपिच्छ; रोमउपगुच्छ ।

hypopus—(Gk. *hypo*, under; *pous*, foot) पुटी वत । ट्राइरोगिलीफिडी (Tyroglyphidae) की पुटी सदृश स्थिति ।

hypopyge—(Gk. *hypo*, under; *pyge*; rump) लिङ्गक । नर द्विपक्षों (dipterous insects) का आलिङ्गक अंग (clasping organ) ।

hyporachis, hyporhachis—(Gk. *hypo*, under; *rhachis*, spine) हाइपोरेकिस; पङ्ख के उपगुच्छ (after shaft) का दण्ड (stem) ।

hyposkeletal—(Gk. *hypo*, under; *skeletos*, hard); अन्तःकंकालान्तर्गत; अन्तःकंकाल (endoskeleton) के नीचे स्थित ।

hyposphene—(Gk. *hypo*, under; *sphen* wedge) हाइपोस्फीन; कुछ सर्पकों (reptiles) में कशेरू (vertebra) के न्यूरल वलय (neural arch) पर पाया जाने वाला पच्चड़-सरीखा प्रवर्धन (wedge-shaped process) जो हाइपैन्ट्रम (hypantrum) पर जमा रहता है ।

hypostatic—(Gk. *hypo*, under; L. *stare*, to stand) हाइपोस्टेटिक; एपीस्टेटिक; दो संवृत लक्षणों में से एक जिसके जीन्स युग्म विकल्पी (allelomorph) नहीं होते हैं ।

hypostereom—(Gk. *hypo*, under; *skereos*, solid) वेष्ट अन्तःस्तर; (१) क्रिन्नेइडिया (crinoidea) के त्वक का अन्तःस्तर । (२) सिस्टिडी (cystidca) के रक्षकावरण (thecal plates) का अन्तःस्तर या तृतीय प्लेट ।

hypostome, hypostoma—(Gk. *hypo*, under; *stoma*, mouth) हाइपोस्टोमा; मुखाधर; मुखशंकु । (१) केंकड़ा वंशियों (crustaceans) में मुख छिद्र के पश्चतट को घेरने वाला भाँज (fold) । (२) ट्राइलो-वाइटीज (trilobites) का लेब्रम या प्रौष्ठ (labrum) ।

(३) हावड्रोजोआ (hydrozoan) का मुख प्रवर्धन । (४) कीटों (insects) का अग्रोदर प्रदेश (antero-ventral region) । (५) किलीलियों (ticks) के मौखिक-उदर भाग (ventral mouth-part) । (६) हाइपोस्टोम (hypostome) ।

hypostomatous—(Gk. *hypo*, under; *stoma*, mouth) अधोमुखी; अधर या नीचे की ओर स्थित मुख वाला ।

hypotartus—(Gk. *hypo*, under; L. *tarsus*, ankle) हाइपोटार्टस; अनुगुल्फ । पक्षियाँ (birds) का कॅल्के-नियम (calcaneum) ।

hypothalamus—(Gk. *hypo*, under; *thalamos*, chamber) हाइपोथैलेमस; अधश्चेतक; थैलेमस के नीचे का क्षेत्र तथा तृतीय वैन्द्रीकिल (विवर) के भूतल (floor) को बनाने वाली संरचनायें ।

hypothallus—(Gk. *hypo*, under; *thallos*, young shoot) हाइपोथैलस; (१) बीजाणुधानी को धारण करने वाली कला कोषिका । (२) हाइफा (hypha) की तटी अचिवृद्धि ।

hypotheca—(Gk. *hypo*, under; *theke*, cup) अध.पुट; अधःप्रावरक; मेखला कणियों (dinoflagellate) में मेखला पत्र (hypocone) को ढकने वाला पुट (theca) ।

hypothecium—(Gk. *hypo*, under; *theke*, cup) हाइपोथीसियम; (१) लाइकिन्स (lichens) में थीसियम के नीचे घने हाइफल (hyphal) धारों का स्तर । (२) एस्कोमा (Ascoma) का उर्ध्वस्तर ।

hypothenar—(Gk. *hypo*, under; *thenar*, palm of hand) अधर करतल; अधःप्रपाणि । हथेली में छिगुली जँगली के अधर पर का फूला हुआ भाग ।

hypotonic—(Gk. *hypo*, under; *tonos*, tension) अल्प परासारी, न्यून अभिसरणीय दाब वाला, जैसे सीरम ।

hypotrematic—(Gk. *hypo*, under; *trema*, pore) हाइपोट्रिमेटिक; अधोर्ध्नीय ।

hypotrichous—(Gk. *hypo*, under; *thrix*, hair) (१) अधस्तंत्री; मुख्यतया अधस्तल (under surface) हाइपोट्राइका पर सीमित तन्त्र वाला; (२) अल्परोमी; कम बाल वाला; अवशूकी ।

hypotrochanteric—(Gk. *hypo*, under; *trochanter*, runner) अधःट्रोकेन्टर ।

hypotympanie —(Gk. *hypo*, under; L. *tympanum*, drum) आनकनिम्नस्थ, आभक; कर्णनक या कर्णपटह (tympanum) के नीचे स्थित ।

hyovalve—(Gk. *hypo*, under; L. *valva*, fold) हाइपोकोन; मेखलापङ्चः अध पाट ।

[देखिये—hypocene]

hypoxanthine—(Gk. *hypo*, under; *xanthous*, yellow) हाइपोजेन्थिन; $C_8H_{10}N_4$; कुछ बीजों तथा पेशी ऊतक में पाया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त रवेदार पदार्थ ।

hypozygal—(Gk. *hypo*, under; *zygon*, yoke, अधःजाइगली; हाइपोजाइगल, निम्न अस्थिक ।

hypselodont hypsodont—(Gk. *hypsos*, height; *odous*, tooth) हिप्सोडोन्ट; तुंगदन्ती; शिखरोन्नत; उच्चशिखरी (दाँत) ऊँचे शिखर (crown) और छोटी जड़ (मूल) वाला (दाँत) ।

hypsohyll—(Gk. *hypsos*, high; *phyllon*, leaf) अनुन्न

hypural—(Gk. *hypo*, under; *oura*, tail) पुच्छाघर; किन्हीं मत्स्यों में कुछ एक अन्न कण्डूकों के हीमल कूटों (haemal spines) से बनी अस्थि संरचना जो पुच्छ फिन को साधे रहती है ।

hysterectomy—(Gk. *hystera*, womb; *ek*, out; *temnein*, cut) गर्भाशय-कर्तन ।

hysterogenic—(Gk. *hysteros*, later; *genos*, birth) उत्तरवर्धी; पीछे में वर्धित (developed) या वृद्ध (grow) होने वाला ।

hysterotely—(Gk. *hysteros*, after; *telos*, completion) पूर्वलक्षणी; पूर्ववस्था लक्षणी; जैसे अर्धक लक्षणों का प्यूपा या प्रौढ़ में विद्यमान होना ।

hyther—(Gk. *hyō* (dor) water; *ther* (n), heat) तापार्द्र; किसी धर्मी (organism) पर नमी (moisture) और त्पक्रम (temperature) दोनों का मिल कर प्रभाव ।

I

I disc—आई डिस्क; पेशी तन्तुक (myofibrillae) में एकल परावृत्ती या सम अक्षी (isotropic) पट्टी या वैण्ड ।

ichnite—(Gk. *idinos*, track) जीवाश्म पद चिह्न ।

ichthyic—(Gk. *ichthys*, fish) मत्स्यी; मत्स्य-सम्बन्धी ।

ichthyodorulite—(Gk. *ichthys*, fish; *dory*, spear; *lithos*, stone) मत्स्य कंटकावशेष; किसी मछली के चर्म या फिन-कंटक (dermal or fin spine) का अवशेष ।

ichthyolite—(Gk. *ichthys*, fish; *lithos*, stone) मत्स्यावशेष ।

ichthyology—(Gk. *ichthys*, fish; *logos*, discourse) मत्स्य-विज्ञान ।

ichthyopterygia—(Gk. *ichthys*, fish; *pteryx*, wing or fin) (मछलियों के) युग्म फिन ।

icosandrous—(Gk. *eikosi*, twenty; *aner*, man) विश्वकुसेसरी; बीस या उससे अधिक पुंकेसर (stamens) युक्त ।

id—(Gk. *idios*, distinct) इड; एक कान्पनिक रचनात्मक इकाई (hypothetical structural unit) ।

idant—(Gk. *idios*, distinct) इडन्ट; इडो (ids) के समूहीकरण (aggregation) से बनने वाली इकाई (unit) ।

identical—(L. *idem*, the same) एक ही; अभिन्न; सम । देखिये (similar समान) जब दो भिन्न आभास होने वाली वस्तुएँ एक ही हों तो 'सम' या 'अभिन्न' शब्द का प्रयोग करना उचित है । दो या अधिक वस्तुओं का सादृश्य होने पर 'समान' शब्द प्रयोग करना चाहिये ।

ideoglandular—(Gk. *idein*, to see; L. *glandula*, small acorn) मनःव्याधित; मानसिक प्रविना (mental

ideomotor

image) द्वारा प्रेरित; (ग्रन्थियों की कार्यशीलता (glandular activity) !

ideomotor—(Gk. *idein*, to see; L. *movere*, to move) मनश्चालित; मानसिक प्रतिमा (mental image) के प्रत्युत्तर (response) स्वरूप उत्पन्न अनैच्छिक गति (unwilled movement) ।

ideovascular—(Gk. *idein*, to see; L. *vasculum*, small vessel) मनोवाहित; मानसिक प्रतिमा (mental image) द्वारा रक्त परिभ्रमण में प्रेरित परिवर्तन ।

idioandrosporous—(Gk. *idios*, distinct, *aner*, mali, *sporos*, seed) पुंबीजाणुधारी; उन तन्तु (filaments) पर पुंबीजाणु (androspores) का निर्माण जो अण्डधानी (oogonia) धारण नहीं करते हैं ।

idioblast—(Gk. *idios*, distinct; *blastos*; bud) इडियोब्लास्ट; इडजन; एक काल्पनिक इकाई ।

idiocalyptosome—(Gk. *idios*, distinct; *kalyptra*, covering, *soma*, body) विगोलिका बाह्य क्षेत्र; वीर्याणु कोशिकों (sperm cells) में विगोलिका (idiosphaerosome) से उत्पन्न होने वाला बाह्य क्षेत्र (outer zone) ।

idiochromatin—(Gk. *idios*, distinct; *chroma*, colour) इडियोक्रोमैटिन; जनन रंज्य । कुछ समय के लिये प्रसुप्त (dormant) जनन-क्रिया सम्बन्धी (generative) अष्टि-रंज्य (chromatin) ।

[देखिये—trophochromatin]

idiochromidia—(Gk. *idios*, distinct; *chroma*, colour) जनन क्रोमोडिया (अष्टि रंज्य) ।

idiochromosome—(Gk. *idios* distinct; *chroma*, colour; *soma*, body) लिंगी क्रोमोसोम; लिंग परम्परा सूत्र ।

idioeryptosome—(Gk. *idios*, distinct; *kryptos* hidden; *soma*, body) विगोलिकान्तर; वीर्याणु कोशिकों (sperm cells) में विगोलिका (idiosphaerosome) से उत्पन्न होने वाला भीतरी क्षेत्र (inner zone)

idiomuscular—(Gk. *idios*, peculiar, L. *musculus*, muscle) इडियोमस्कुलर; विपेशी; क्षीण या भ्रंश (degenerated) पेशी का कृत्रिम उत्तेजना द्वारा संकुचन ।

idiophthartosome—(Gk. *idios*, distinct; *phthartos*, transitory; *some*, body) इडियोजोम-शेष ।

idioplasm—(Gk. *idios*, distinct; *plasma*, mould जनन तत्व; कोष्ठ या कोशिका (cell) का जनन-क्रिया से सम्बन्ध रखने वाला भाग । [देखिये—trophoplasm]

idiosome—(Gk. *idios*, distinct; *soma*, body) इडियोसोम; विकाय; एक काल्पनिक इकाई ।

idiophaerosome—(Gk. *idios*, distinct; *sphaira*, globe; *soma*, body) (१) एक्रोसोम । (२) विगोलिका । विकोषिका (idiosphaerotheca) का केन्द्रीय कण (central granule) ।

idiosphaerotheca—(Gk. *idios* distinct; *sphaira*, globe; *theka*; case) एक्रोब्लास्ट; विकोषिका; शिर-स्पिड-कोषिका । वीर्याणु कोष्ठों या कोशिकाओं (sperm cells) में वह कोषिका (vesicle) जिसके भीतर एक्रो-सोम या शिरस्पिड (acrosome) होता है ।

idiothalamous—(Gk. *idios*, distinct; *thalamos*, room) भिन्नथैलेमस; विथैलेमस; ऐसे लाइकिन्स (lichens) जिनके विभिन्न भाग थैलेस से भिन्न रंगों के हों ।

idiothermous—(Gk. *idios*, personal; *thermos*, hot) स्थिरतापी; मिततापी ।

[देखिये—homoiothermal]

idiozome—(Gk. *idios*, distinct; *zome*, girdle) इडियोजोम; वीर्याणु-जनन (spermatogenesis) में जीवन-तत्व का वह भाग जो अन्ततः वीर्याणु (spermatozoon) के शीर्ष की टोपी (head cap) बनता है ।

idorgan—(Gk. *idios*, distinct; *organon*, instrument) इडिओरगन; कायकी बहुकोशिकीय इकाई जिसमें काय या पिण्ड के लक्षण नहीं होते हैं ।

ileocaecal—(L. *ileum*, groin; *caecus*, blind) शोषणान्त-सीकमी, शोषणान्त्र (ileum) और सीकम (caecum) सम्बन्धी ।

ileocolic—(L. *ileum*, groin; *kolon*, gut) शोषणान्त्रकोलनी; शोषणान्त्र (ileum) और कोलन (colon) सम्बन्धी ।

ileum—(L. *ileum*, groin) शोषणान्त्र; क्षुद्रान्त्र (small intestine) का निम्न भाग ।

iliac—(L. *ilia*, flank) इलियम—; इलियम-सम्बन्धी; इलियम (ilium) हड्डी से सम्बन्ध रखने वाला ।

iliocaudal—(L. *ilia*, flanks; *cauda*, tail) इलियम पुच्छीय; इलियम (ilium) और पुच्छ (tail) को सम्बन्धित करने वाली (पेशी) ।

iliococcygeal—(L. *ilia*; flanks; Gk. *kokkux*, cuckoo) इलियम-पुच्छास्थिक; इलियम (ilium) और पुच्छास्थिक (coccyx) से सम्बन्ध रखने वाली (पेशी) ।

iliocostal—(L. *ilia*, flanks; *costa*, rib) इलियम पुर्णुकी (कई पेशी) ।

iliofemoral—(L. *ilia*, flanks; *femur*, thigh) इलियम फीमर सम्बन्धी ।

iliohypogastric—(L. *ilia*, flanks; Gk. *hypo*, under; *gaster*, stomach) इलियो-अधोजठरी; श्रोणि अस्थि (ilium) और उदर के अधो अग्रभाग (lower anterior part) से सम्बन्धित तंत्रिका आदि ।

ilio-inguinal—(L. *ilia*, flanks, *inguem*, groin) इलियम-जंघासा सम्बन्धी (तंत्रिका) ।

ilio-ischiadic—(L. *ilia*, flanks; Gk. *ischion*, hip) इलियो-इश्चियम सम्बन्धी; इलियम और इश्चियम अस्थियों के बीच का छिद्र जब ये दोनों छोरों पर से जुड़ी हुई हों ।

liolumbar—(L. *ilia*, flanks; *lumbus*, loin) इलियो-लम्बर; इलियम और कटि प्रदेश सम्बन्धी (धमनी, शिरा आदि) ।

iliopectineal—(L. *ilia*, flanks; *pecten*, crest) इलियम और पेलविस के बीच की मेड़ ।

iliotibial—(L. *ilia*, flanks, *tibia*, skin) इलियम और टिविया (जंघास्थि) सम्बन्धी ।

iliotrochanteric—(L. *ilia*, flanks; Gk. *trochanter*, runner) इलियम और ट्रोकेन्टर सम्बन्धी ।

ilium—(L. *ilium*, flank) इलियम; एक हड्डी का नाम ।

illuvial—(L. *in*, into; *luere*, to wash) अधोभूमि स्तर ।

imaginal—(L. *imago*, image) (१) अंगमूलक सम्बन्धी; अभ्रंक्-बिम्ब (larval discs) या कोशिकों के वह क्षेत्र जिनसे नये अङ्ग बनते हैं । (२) इमैगो-; इमैगो-सम्बन्धी ।

imago—(L. *imago*, image) इमैगो; कीटों (insects) के रूपान्तर (metamorphosis) में अन्तिम या प्रौढ़ (adult) स्थिति (stage) ।

imbibition—(L. *in*, into; *bibere*, to drink) अंतःशोषण ।

imbricate—(L. *imbricate*, to tile) तटोपरितटी; छत की खपरैल की भाँति एक दूसरे पर चढ़े हुए ।

imitative—(L. *imitari*, to imitate) अनुरूपी; अनुकरण ।

immaculate—(L. *in*, not; *macula*, spot) चम्पाहीन ।

immature—अप्रौढ़ ।

immobile—अचल ।

immovable joint—अचल सन्धि; अचेष्ट-सन्धि ।

immunity—(L. *immunis*, free) रोगाक्षमता; रोगक्षमता । यह वह क्षमता होती है जो जन्तु या पौधे को परजीवी संक्रमण से प्रतिरोधना (महन करने की शक्ति) प्रदान करती है ।

जन्तुओं को यह रोगक्षमता कई प्रकार से प्राप्त होती है जैसे त्वचा का अभेदनीय या अप्रवेश्य (impervious) होना, अम्ल के कारण आमाशय का रोगाणुनाशक होना, भक्षक कोशिकाओं का सक्रिय होना, रासायनिक रक्षण प्रतिरक्षी (antibody) या मिथोघहन (interferon) द्वारा प्राप्त होना आदि । कुछ विदेशीय पदार्थ प्रति जन (antigen) जिनमें परजीवी भी सम्मिलित किये जा सकते हैं, के प्रवेश से भी रोगक्षमता प्राप्त की जाती है । इस प्रकार रोगक्षम प्रतिक्रिया में वह विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो प्रतिजन से मिलकर संक्रमण को नष्ट कर देते हैं । वह जन्तु जो प्रतिरक्षियों द्वारा संरक्षण प्राप्त करता है रोगक्षम (immunised) कहा जाता है । जो रोगक्षमता प्रतिजन (antigen) से प्राप्त होती है उसे सक्रिय रोगक्षमता (active immunity) कहा जाता है । निष्क्रिय रोगक्षमता (passive immunity) वह रोगक्षमता होती है जो किसी अन्य जन्तु के प्रतिरक्षियों को स्थानान्तरित करने से प्राप्त होती है ।

पादप किसी भी प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं करते हैं । इनमें रोगक्षमता कई कारणों से आती है । जैसे (१) संरचनात्मक विशेषताओं (structural features) के कारण—जैसे तल का मोमी (waxy) होना, जिससे

तल गीला नहीं हो पाता और रोगजनक (pathogens) विकसित हो जाते हैं। (२) प्रद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का रोगजनक न होना। (३) उपार्जित रोगक्षमता वाइरस आदि के होने से।

immune—(L. *immunis*, free) रोगाक्षम; रोधक्षम।

immunise—(L. *immunis*, free) रोगाक्षम करना; रोगमुक्त करना।

impar—(L. *impar*, unequal) अयुग्म; जोड़े में न पाया जाने वाला। [देखिये—azygous]

imparidigitate—(L. *impar*, unequal; *digitus*, finger) विषमगुलिक; विषम-संख्या (odd number) में अंगुलियाँ रखने वाला।

imparipinnate—(L. *impar*, unequal; *pinna*, wing) विषम पक्षाकार।

imperfurate—(L. *in*, not; *per*, through; *foratus*, bored) अछिद्रित।

impervious—(L. *in*, not; *per*, through; *via*, way) अप्रवेष्ट्य; दुर्भेद्य।

impetus—(L. *in*, not; *petere*, to fall upon) प्रेरणा।

implacental—(L. *in*, not; *placous*, a flat cake) जेर-हीन; कमल हीन। विना जेर (placenta) वाला।

implant—(L. *in*, not; *plantare*, to plant) स्थानान्तरित; कोई अंग या भाग जो किसी अन्य असाधारण स्थान में निधानित (plant) कर दिया जाए।

implex—(L. *in*, into; *plicare*, to fold) अन्त-व्यावर्तन (कीटों insects में); पेशी (muscles) जुड़ने के लिये अधिच्छद (integument) का भीतरी ओर को मुड़ा हुआ भाग।

importation—(L. *importare*, to carry into) अन्त-मंञ्जन; ग्राहक जन्तु (captor) के जीवन तत्व (protoplasm) में खाद्य-जन्तु का डूबकर प्रविष्ट होना, जैसा कुछ एक कोशिकों (protozoa) में होता है।

impregnation—(L. *impraegnare*, to fertilise) गर्भाधान; वीर्याणुओं (spermatozoa) का नर से मादा में पहुँचने की क्रिया; जिसके द्वारा वीर्याणु (spermatozoa) डिम्ब (ovum) से संलयित (fused) होकर भ्रूण कोशिका (zygote) बनाता है।

impuberal—(L. *impubes*, under-age) अवयस्क; अप्रौढ; प्रौढता (maturity) से पहले की अवस्था।

impulse—(L. *impulsus*, driven) अन्तःप्रेरणा। अतःप्रेरणा (impulse) तंत्रिका-सूत्र (nerve fibres) के साथ संचालित (conduct) होते हैं। यह समस्त तंत्रिका सूत्रों में मौलिक रूप से समान होता है। यह एक रासायनिक और भौतिक (physical) द्रुतधारा होती है जो मुख्यतः सूत्र की सतह कला को प्रभावित करती है। इसकी गति जन्तु प्रजाति (species) ताप (temperature), व्यास (diameter) तथा माइलिन (myelin) की मात्रा तथा कुछ अन्य परिस्थितियों पर निर्भर होती है जो सामान्य रूप से १ से १०० मीटर प्रति सैन्टिमिटर तक हो सकती है। प्रेरणा को शक्ति तंत्रिका सूत्र के रास्ते पर स्थानतः (locally) प्राप्त होती है, न कि उस उत्तेजना (stimulus) से जो प्रेरणा को आरम्भ करती है। अतः उत्तेजना की मात्रा या प्रवृत्ति का प्रेरणा के लक्षणों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे पूर्ण या शून्य नियम (All-or-none law) कहा जाता है अर्थात् तंत्रिका कोशिकाओं पर मानक परिस्थितियों में केवल दो प्रतिक्रियाएँ होती हैं—पूर्ण (all) या शून्य (none)। प्रेरणा तंत्रिका सूत्र पर विना शक्ति क्षीण किये चलती है तथा चाहे कहीं से उत्तेजना मिले; वह सम्पूर्ण तंत्रिका कोशिकाओं में पहुँचती है।

inanimate—(L. *in*, not; *animatus*, animate) अचेतन; जड़; निर्जीव; वेजान; निष्प्राण; प्राण-हीन।

inantherate—(L. *in*, not; Gk. *antheros*, flowery) अपरागकोशी।

inarticulate—(L. *in* not; *articulatus*, jointed) (१) सन्धि-हीन; अगंधित; विना जोड़ वाला (२) असम्बद्ध।

inaxon—(Gk. *is*, fibre. *axon*; axis) दूर शाखाक्ष; ऐसा नाड़ी कोष्ठ या तंत्रिका कोशिका (nerve cell) जिसमें सूत्राक्ष (axis cylinder) कुछ दूर पर शाखाओं (branches) में विभक्त होता है।

inbreeding—(L. *in* into; A. S. *bredan*, to cherish) सगोत्र परिणय; अन्तःप्रसवन।

incalculat—(L. *in*, not; *caliculus* small flower cup) अपात्रिकी।

incised—(L. *incisus*, cut into) छिन्नतटी; नहरे दन्-
दानेदार (deeply notched) तट या किनारे (margin)
वाला ।

incisiform—(L. *incisus*, cut into; *forma*,
shape) कर्तकाकार; कर्तक (incisor) का आकार
वाला ।

incisive—(L. *incisus*, cut into) कर्तकीय; कर्तक-
प्रदेशीय; कर्तक दाँतों (incisor) से सम्बन्ध रखने वाला
या कर्तक दाँतों के प्रदेश (region) में स्थित ।

incisor—(L. *incisus*, cut into) कर्तक; इन्साइजर ।

incisura—(L. *incidere*, to cut into) दानदाना ।

induded—(L. *indudere*, to shut in) नदहिःस्य
केसरी; पुंकेसर और स्त्रीकेसर बाह्यदल से बाहर न
निकलते हुए ।

incomplete metamorphosis—अपूर्ण रूपान्तरता; अपूर्ण
कायांतरण; वह रूपान्तरता (metamorphosis) जिसमें
निश्चल या स्थिर अवस्था (resting stage) नहीं
होती ।

incongruent—(L. *incongrueus*, not suiting) अस-
ङ्गत; वेमेल; यह शब्द ऐसे जोड़ों (joints) के लिये
आता है जिनके तल विल्कुल ठीक एक दूसरे के अनुकूल
नहीं होते ।

incoordination—(L. *in*, not; *cum*, together;
ordo, order) असंव्यवस्था; संव्यवस्था (coordina-
tion) से रहित होना ।

incrassate—(L. *incrassare*, to thicken) घनी
होना; स्थूलीकरण ।

incretion—(L. *in*, into; *cretus*, separated)
अन्तःस्राव (internal secretion) ।

incrustation—(L. *in*, into; *crusta*, shell) धातु-
परिवेष्टन; पर्पटाश्म; धातु पदार्थ (mineral substance)
द्वारा घिरने से जीवाश्मीकरण (fossilisation) ।

incubation—(L. *incubare*, to lie on) (१)
प्रोद्भावक; प्रोद्भवीकरण; अंडा सेना; ऊष्मायन; अण्डे
पर बैठना; अण्डों पर बैठकर या किसी कृत्रिम रूप से
उन्हें गर्मी पहुँचाना । (२) उद्वर्धन; संक्रमण (infect-
ion) से लेकर रोग के लक्षण (symptoms) प्रकट
होने तक की अवधि ।

incubator—(L. *incubare*, to lie on) इन्क्यूबेटर,
प्रोद्भावक; ऊष्मायन अण्डे सेने का यन्त्र ।

incubatorium—(L. *incubare*, to lie on) इन्क्यूबेटो-
रियम; ऊष्मालय; डिम्बधानी. एकिडना (echidna) में
पाई जाने वाली अस्थायी थैली जो स्तन-क्षेत्र (mam-
mary area) को घेरे रहती है और जिसमें अण्डे से दूध
निकलता है ।

incubous—(L. *incubare*, to lie on) इन्क्यूबस;
आधारछादी, पत्तियाँ इस प्रकार लगी होती हैं कि
प्रत्येक का आधार नीचे की पत्ती के उर्ध्व भाग से टका
रहता है ।

incudal—(L. *incus*, anvil) स्थूणोपम ।

incudate—(L. *incus*, anvil) स्थूणी ।

incumbent—(L. *incumbere*, to lie upon)
आश्रित; आधाराश्रित; नीचे को इस प्रकार झुका हुआ
कि अपने आधार (base) पर अवलम्बित पडा हो ।

incurrent—(L. *in*, into; *currere*, to run) अन्त-
गामी; अंतवाही ।

incurvate—(L. *incurvus*, bent) अन्तर्नत अंतर्वक;
श्रीतर या पीछे की ओर को मुड़ा या झुका हुआ ।

incurvation—(L. *incurvare*, to curve) द्विनतता;
कोई संरचना या अंग दो बार अपने ऊपर ही मुड़ा
हुआ ।

incus—(incus, anvil) इन्कस; स्थूण ।

indeciduate—(L. *in*, not; *decidere*, to fall
down) अपतनशील; अपाती; न झड़ने या गिरने वाला
(जैर)। ऐसा कमल या जैर (placenta) जिसका
मातृ-अंश दूध के पैदा होने पर बाहर नहीं निकलता ।

indeciduous—(L. *in*, not; *decidere*, to fall
down) अपतनशील; अपर्पताती, अपातिपर्ती ।

indefinite—(L. *in*, not; *definitus*, limited)
अनियमित; असीम; अनिश्चित ।

indehiscent—(L. *in*, not; *dehiscent*, gaping)
अस्फुटनशील; ऐसे फल जो पकने पर फटते नहीं हैं ।

indeterminate growth—अनिश्चित वृद्धि; स्तम्भ या
शाखा की वृद्धि जो अन्त्य कानिका के विकसित होने पर
रुकती नहीं है ।

indeterminate inflorescence—अनिश्चित पुष्पक्रम; पुष्पाक्ष की अनिश्चित शाखाओं द्वारा वृद्धि जो कि अन्त्य कलिका के वर्धन के कारण असीमित हो जाती है।

index—(१) निर्देशिनी; अँगूठे के पास वाली अँगुली।
(२) निर्देशिका; कोई संख्या या सूत्र (formula) जो एक परिमाण (quantity) का अन्य परिमाण से अनुपात (ratio) बताता है।

indifference—(L. *differre*, to bear) उदासीनता; उपेक्षा।

indigenous—(L. *indigena*, native) देशी; किसी अन्य देश से न आई हुई; परन्तु अपने देश में ही उत्पन्न।

indigestible—(L. *digestum*, to dissolve) अपच्य; न पचने वाला।

indirect—अव्यक्त।

indistinct—अस्पष्ट; धुँधला।

individual—(L. *in*, not; *dividuis*, divisible) व्यक्ति व्यक्तिगत; एकजन; प्रत्येक।

individualism—(L. *in*, not *dividuis*, divisible) व्यक्तताभास; वह सहजीवन (symbiosis) जिसमें दो व्यक्ति मिलकर एक ही व्यक्ति से दीख पड़ते हैं।

individuation—व्यक्तिकरण; कार्य की इकाइयों का अन्योन्याश्रयी वर्धन।

induced movement—प्रेरित गति।

inductive stimulus—प्रेरक उत्तेजना। वह बाह्य उत्तेजना (stimulus) जो किसी अंगी (organism) की वृद्धि (growth) या व्यवहार (behavior) पर प्रभाव डालता है।

indumentum—(L. *indumcutum*, covering) (१) पिच्छ; (२) रोयेंदार।

indusial—(L. *induere*, to put on) इन्ड्यूसियम; अर्भक कोष युक्त।

indusiate—(L. *induere*, to put on) कोषावृत इन्ड्यूसियम-युक्त; वे षटपाद या कीट अर्भक जो कोष (case) के अन्दर स्थित हों।

indusiform—(L. *induere*, to put on; *forma*, shape) इन्ड्यूसियम सदृश।

indusiam—(L. *induere*, to put on) इन्ड्यूसियम (१) सोरस को ढके हुए पादप अधिच्छद। (२) कीटा-र्भक कोष।

induviae—(L. *induere*, to put on) शल्क पत्र; विशोर्ण पर्ण: ऐसी पत्तियाँ जो विशोर्ण (सूखने) होने पर भी स्तम्भ से लगी रहती हैं।

induviate—(L. *induere*, to put on) शल्क पत्रक; विशोर्ण पर्णक।

inequilateral—(L. *in*, not; *aequus*, equal *latus*, side) असमपार्श्वी।

inequibate—(L. *in*, not; *aequus*, equal; *lobus* lobe) अमम दल; असम दली।

inequivalve—(L. *in*, not; *aequus*, equal; *valvae*, folding doors) असम कपाट।

inerm—(L. *inermis*, unarmed) अशस्त्री; निरायुध।

inert—(L. *iners*, inactive) निश्चल; गतिहीन।

infant—शिशु।

infection—(L. *in*, in; *ficere*, taint) संक्रमण।

infectious disease—संक्रामक रोग।

inferior—(L. *inferior*, lower) निम्न; निचला; अधर; न्यून; अधोदेशीय।

inferior abdominal vein—निम्नोदर शिरा।

inferoanterior—(L. *inferus*, beneath; *anterior*, in front) निम्नाग्र।

inferobranchiate—(L. *inferus*, beneath; Gk. *branchia*, gills) अधोगिली, पिघान (mantle) के किनारे के नीचे स्थित गिजवाला, जैसे कुछ मौलस्क (mollusc) में।

inferolateral—(L. *inferus*, beneath; *latus*, side) अध.पार्श्वी।

inferomedian—(L. *inferus*, beneath; *medius*, middle) अधोमध्यी; अधोमध्यक।

inferoposterior—(L. *inferus*, beneath; *posterior*, behind) अध:पश्च।

inferradial—(L. *inferus*, beneath; *radius*, radius) अधोअक्षर; इन्फररेडियल; किन्ही जीवाश्म क्रिनोइडस के द्विभक्त अक्षर (radials) का अधोभाग।

inflected—(L. *inflectere*, to bend in) अक्षा-भिनत: अक्ष (axis) का भीतर की ओर को मुड़ा हुआ होना।

inflorescence—(L. *inflorescence*, to begin to blossom) पुष्प शाखा विन्यास; पुष्पक्रम; पुष्पित गुच्छ; ऐसी तने की शाखायें जिन पर पुष्प के गुच्छे विशेष क्रम से सजे होते हैं।

influent—(L. *influer*, to flow into) अन्तःप्लुत; वे जन्तु जो किसी वनस्पति-निकर (plant community) में विद्यमान हों या उसके प्रमुख वनस्पति-प्रकार (dominant plant species) पर मुख्यतया आश्रित (dependent) और प्रभावशील हों।

infraaxillary—(L. *infra*, below; *axilla*, armpit) अधोकक्षीय।

infrabasal—(L. *infra*, below; *basis*, base) अधो-मूलक।

infrabranchial—(L. *infra*, below; Gk. *branchia*, gills) अधोगिलक।

infracentral—(L. *infor*, below; *centrum*, centre) अधोकेन्द्री।

infraclavicle—(L. *infra*, below; *clavicula*, little key) अधःक्लैविकिल; इन्फरा क्लैविकिल।

infraclavicular—(L. *infra*, below; *clavicula*, small key) इन्फरा-क्लैविक्यूलर।

infracortical—(L. *infra*, below; *cortex*, bark) अधोवल्की।

infracostal—(L. *infor*, below; *costa*, rib) अधो-पर्शुकी।

infradentary—(L. *infra*, below; *dens*, tooth) अधोडेन्टरी; अधोनिम्न हन्व।

infraglenoid—(L. *infra*, below; Gk. *glene*, socket) अधोगिलोनाइड; अधोगतोपम।

infrahyoid—(L. *infra*, below; Gk. *hyoides*, Y-shaped) अधोहाइड।

infralabial—(L. *infra*, below; *labium*, lip) अधो-लेवियल; अधो-ओष्ठीय।

inframarginal—(L. *infra*, below; *margo*, margin) अधोतटी; तटी सरचना।

inframaxillary—(L. *infra*, below; *maxilla*, jaw) अधो-मैक्सिलरी।

infranasal—(L. *infra*, below; *nasus*, nose) अधो-नासा; अधोनासिकास्थि; अधोनेजल।

infraorbital—(L. *infra*, below; *orbis*, circle) इन्फरा-ओरबीटल; अधो-अक्षिकास्थि।

infrapatellar—(L. *infor*, below; *patella*, kneecap) अधोपटेला; पटेला या घुटने की चपनी (patella) के नीचे स्थित।

infracrostral—(L. *infra*, below; *rostrum*, snout) अधो-रोस्ट्रल; अधो चंचु; अधो घूयन।

infracapular—(L. *infra*, below; *scapula*, shoulder girdle) अधो-स्कंधास्थि; इन्फरा-स्कैपुलर।

infraspecific—(L. *infra*, below; *species*, particular kind) उपभेद; उपप्रकार; प्रकार या भेद (species) की एक उपशाखा (sub-division)।

infraspina, **Infraspinous**—(L. *infra*, below; *spina*, spine) अधोकीली; स्कैपुला या कंधे की हड्डी (scapula) की कील (spine) के नीचे स्थित।

infrastapedial—(L. *infra*, below; *stapes*, stirrup) इन्फरा-स्टैपीडियल। कोल्युमिला (columella) का एक भाग।

infrasternal—(L. *infra*, below; *sternum*, breast bone) अधोस्टेनम; अधो-वक्षास्थिकी।

infratemporal—(L. *infra*, below; *tempora*, temples) इन्फरा टेम्पोरल।

infratrochlear—(L. *infra*, below; *trochlea*, pulley) अधोचक्री; अधोट्रोविलयर वह तंत्रिका जो नेजोसिलियरी के बीच से निकलती है।

infructescence—(L. *in*, into; *fructus*, fruit) पुष्पक्रम फल; फल के रूप में परिपक्व हुआ कोई पुष्पक्रम।

infundibular—(L. *infundibulum*, funnel) इन्फन्डिबुलम सम्बन्धी; कीपकी।

infundibulin—(L. *infundibulum*, funnel) इन्फन्डिबुलिन पिट्यूटरी का कषाय।

infundibulum (L. *infundibulum*, funnel) इन्फन्डिबुलम; कीपक; कीप (funnel) की शयल का कोई अङ्ग विशेष।

infusate—(L. *in*, into; *fuscus*, dark) गूदा; गहरे रंग वाला।

infusoriform—(L. *infusus*, poured into; *forma*, shape) इन्फ्यूसीयाकार। इन्फ्यूसोरियन (infusorian) के आकार वाला।

infusorigen—(L. *infusus*, poured into; *genos*, offspring) इन्फ्यूसोरीजिन; किन्हीं मीसोजोआ के वर्धन में द्विस्तर भ्रूण सदृश संरचना।

ingest—(L. *ingestus*, taken in) निमग्न; खाद्य का जन्तु द्वारा अन्दर लेना।

ingesta—(L. *ingestus*, taken in) निमग्नी; शरीर के अन्दर लिया हुआ खाद्य या आहार (food)।

ingestion—(L. *ingestus*, taken in) निमग्नता; अन्तर्ग्रहणता; खाद्यग्रहणता। निम्न जन्तुओं (lower animals) की खाद्य को ग्रहण करने की क्रिया।

ingluvies—(L. *ingluvies*, crop) पोटा; पक्षियों (birds) का अन्नाशय या पोटा (crop)।

ingression—अन्तः गमन; अन्तर्गमन।

ingrowth—अन्तर्वृद्धि।

inguinal—(L. *inguen*, groin) जंघासा-; जंघासा सम्बन्धी; वंक्षण।

inhalant—(L. *in*, into; *halare*, to breathe) निक्षेपक; आवाही।

inhalation—(L. *in*, into *halare*, to breathe) अन्तःश्वास।

inherent—अन्तर्वर्ती; स्वभाविक।

inherit—(L. *in*, in; *heres*, an heir) परम्परा प्राप्य।

inherited—(L. *in*, in; *heres*, an heir) वंशानुगत; पैतृक; परम्परा प्राप्त; वंशगत।

inheritance—(L. *in*, in; *heres*, an heir) वंश परम्परा; दास्य; वंशागति।

inhibition—(L. *inhibere*, to prohibit) निरोध; निषेध।

inhibitory—(L. *inhibere*, to prohibit) रोधक; निषेधक।

inhibitor nerve—निषेधक नाड़ी या तंत्रिका; निरोधक नाड़ी; ऐसी तंत्रिका (nerve) जो किसी कार्य जैसे गति (movement) या स्राव (secretion) का निरोध या नियंत्रण (control) करे।

inion—(Gk. *inion*, the occiput) इनियन; ओक्सीपिटलशोफ; ओक्सीपिटल हड्डी की बाह्य गाँठ या शोफ (external protuberance)।

ink sac—मसी कोष; स्याही कोष।

innate—(L. *in*, in; *gnatus*, born) परम्परा प्राप्त; वंशानुगत; नैसर्गिक; पैतृक।

inner—अन्तः; अन्दरूनी; अन्दर की।

inner coat—आन्तरिक पटल; आन्तरीय पटल।

inner wall—अन्तः प्राचीर; अन्दर की दीवाल या भित्ति।

innervation—(L. *in*, into; *nervus*, sinew) तंत्रिका विन्यास; तंत्रिका युक्त (या समन्वित होना)।

innominate—(L. *in*, not; *nomen*, name) (१) इन्नोमिनेट; अनामिका; निर्नाम; नाम रहित; अनामी। (२) सर्वाय या सह (common)।

innominate bone—इन्नोमिनेट अस्थि; श्रोणी मेखला का पार्श्विक अर्ध भाग; ओस कोक्सी; जंघास्थि।

innovation—(L. *innovare*, to renew) नवप्रारोह स्थापन; मस का प्रारोह जो नवीन पौधे में विकसित हो जाता है।

inocoma—(Gk. *is*, fibre; *komma*, clause) सार्कोमियर; इनोकोमा; तन्तुक अन्त्यांश; पेशी तन्तुक के जैड (Z) विम्ब के बीच का भाग।

inocular—(L. *in*, into; *oculus*, eye) नेत्रासिन्न। नेत्र या चक्षु (eye) के समीप या निकट (close) स्थित अङ्ग विशेष।

inocyte—(Gk. *is*, fibre; *kytos*, hollow) लंबाकृति कोशिका; वितत कोशिका; आयज कोशिका। सूत्रक तन्तु या ऊतक (fibrous tissue) की एक वितत या आयत (elongated) कोष्ठ (कोशिका)।

inogen—(Gk. *is*, fibre; *genos*, offspring) इनोजन पेशी तन्तु (muscle tissue) का एक नेत्रजन (nitrogen) युक्त पदार्थ।

inophragma—(Gk. *is*, fibre; *phragma*, fence) इनोफ्रागमा; तन्तुक अन्त्यांश और मध्यांश; एम (M) और जैड (Z) रेखाएँ ए (A) और आई (I) विम्बों को विभक्त करती हुई।

inorganic—(L. *in*, in; *organum*, organic) अजैविक; अकार्बनिक; इनओरगेनिक।

inositol—इनोसिटोल; $C_6H_{12}O_6$; कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट।

inotagmata—(Gk. *is*, fibre; *tagma*, arrangement) इनोटेगमेटा, एक काल्पनिक इकाई ।

inquiline—(L. *inquilinus*, tenant) सहभोजी ; अधिष्ठा । ऐसा जन्तु जो अन्य जन्तु के मकान (निवास स्थल) में वास करे तथा भोजन भी बाँटे ।

insect—(L. *insectus* cut into) पट्टपाद; कीट ।

insecticide—(L. *insectus*, cut into) कीड़े मारने की दवा; कीट नाशक ।

insectivorous—(L. *insectus*, cut into; *vorare*, to devour) कीट भक्षी; पट्टपाद भोजी । कीट या कीड़ों (insects) को खाने वाला ।

insemination—(L. *in*, in; *seminalis*, sowing) वीर्याणु प्रवेश; वीर्याणु रोपण; मादा जनन मार्ग (female genital tract) में वीर्य या वीर्याणु (semen या spermatozoa) का प्रवेश करना ।

inserted—(L. *in*, in; *serere*, to join) संश्लिष्ट; संघट्टिक; अन्ववसित; प्रसक्त ।

insertion—(L. *insertus*, jointed) असक्तता; अन्तर्गम; मांस पेशी (muscle) का हड्डी में लगा होना ।

insertion of a muscle—अन्तर्गम ।

insectorial—(L. *in*, in; *sedere*, to sit) यष्टि-विश । ऐसे जन्तु जो पक्षियों के सदृश वास-यष्टि (perch) पर बैठने के उपयुक्त हों ।

insistent—(L. *insistere*, to stand upon) पादाग्रभासी; कुछ पक्षी जिनकी पदांगुलि (toes) की नोक या पादाग्र भाग ही भूमि पर छूता हो ।

inspiration—(L. *inspirare*, to inhale) अन्तःश्वास पूरक, भीतर या अन्दर की सांस लेना । (२) संचार प्रेरणा; प्रोत्साहन ।

instaminate—(L. *in*, not; *stamen*, to read) अपुंकेसरी ।

instar—(L. *instar* form) इन्स्टार; मध्यमचः पट्टपाद या कीट (insects) से वर्धन (growth) में मुच्चों (moults) के बीच की एक अवस्था ।

insula—(L. *insula*, island) इन्सुला; रक्तद्वीप; लैंगरहैन्स के द्वीप; टेम्पोरल (कनपटी) पालि के पार्श्व दरार में स्थित एक त्रिकोणक उच्च स्थान जिसे रेल (Reil) के द्वीप समझे हैं ।

insulin—(L. *insula*, island) इन्सुलिन; $C_{47}H_{67}O_{14}N_{11}S \cdot 3H_2O$; कशेरुकों का एक हार्मोन; पैंक्रियाज का डायविटीज रोधक अन्तःत्त्रावी पदार्थ जिसका निर्माण लैंगरहैन्स के द्वीपों (islets of Langerhans) की बीटा कोशिकाओं में होता है । यह एक प्रोटीन होता है ।

integri-folious—(L. *integer*, whole; *folium*, leaf) समग्र पर्णी ।

integripallial, Integripalliate—(L. *integer*, whole; *pallium*, mantle) अविरत पिघानी; अविरत मँटली । ऐसे मोलस्का (molluscs) जिनके देहभित्ति (body wall) के ऊपर का पतल अविरत (unbroken) होता है ।

integument—(L. *integumentum*, covering) अध्यावरण; त्वक; वीजाण्ड का चोल; आवेष्टन ।

integumentary—(L. *integumentum*, covering) त्वक-; त्वकीय; त्वक सम्बन्धी ।

inter—मध्यस्थ; अन्यंतर; अन्तर ।

interacinous—(L. *inter*, between; *acinus*, grape) अन्तर्गुच्छाभ गतिक । द्राक्षगुच्छाभ ग्रन्थि की गर्विका के मध्य ।

interalveolar—(L. *inter*, among; *alveolus*, small cavity) अन्तर्गतिक; गत-मध्यस्थ या मध्यस्थ गर्ती ।

interamb—(L. *inter*, between; *ambulare*, to walk) अन्तर्वीथी क्षेत्र ।

interambulacral—(L. *inter*, between; *ambulare*, to walk) अन्तर्द्विवीथी क्षेत्र; वीथी क्षेत्र की एक पलेट (पट्ट) ।

interambulacrum—(L. *inter*, between; *ambulare*, to walk) अन्तर्द्विवीथी क्षेत्रक ।

interarticular—(L. *inter*, between, *articulus*, joint) सन्धि मध्यस्थ ।

interatrial—(L. *inter*, between, *atrium*, hall) बहिष्कोटर मध्यस्थ । हृदय (heart) के दोनों बहिष्कोटरों (atria) के मध्य में स्थित ।

interaauricular—(L. *inter*, between; *auricula*, little ear) अन्तरा अलिदं; अलिदं या ब्राहिया मध्यस्थ; हृदय (heart) के ब्राहिक कोनों या ब्राहिका (auricle) के मध्य में स्थित ।

interaxillary

interaxillary—(L. *inter*, between; *axilla*, arm-pit) अंतरा कक्ष; कक्ष मध्यस्थ । कक्ष या बगल (arm-pit) के मध्य में स्थित ।

interbrachial—(L. *inter*, between; *brachium*, arm) भुजा मध्यस्थ; अंतरा बाहु । भुजा (arm), किरण (ray) या भुजा पट्टों (brachial plates) के मध्य में स्थित ।

interbranchial—(L. *inter*, between; Gk. *branchia*, gills) गिल-मध्यस्थ; अंतराक्लम । अनुक्रमिक (successive) गिल दरारों (gill slits) के बीच स्थित व्यवधान (septa) आदि ।

interbreed—(L. *inter*, between; A. S. *brod*, brood) संकरी करण । विभिन्न गोत्रों (varieties) के जन्तुओं या पौधों का संकरी करण ।

intercalare—(L. *intercalaris*, inserted) इन्टर कैलर; बहुत-सी मछलियों (fishes) और जीवाश्मी (fossil) द्विधावासी (amphibians) के कशेरुओं (vertebrae) में पाया जाने वाला अतिरिक्त (additional) तत्व (element) ।

intercalary—(L. *intercalaris*, inserted) इन्टर कैलर सम्बन्धी; इन्टर कैलरी; अंतर्वेशी; अंतर्विष्ट ।

intercapitular—(L. *inter*, between; *capitulum*, head) उपाण्ड मध्यस्थ । उपाण्ड (capitulum) के मध्य में स्थित ।

intercarotid—(L. *inter*, between; Gk. *karos*, deep sleep) कैरोटिड मध्यस्थ; शिरस्क घमनी मध्यस्थ; शिरस्क (carotid) घमनियों (arteries) के बीच में स्थित ।

intercarpal—(L. *inter*, between; *carpus*, wrist) कार्पल मध्यस्थ । कलाई की हड्डियों या कार्पलों (carpals) के मध्य में स्थित ।

intercarpellary—(L. *inter*, between; Gk. *karpos*, fruit) अर्न्तवाह्यदल पुंजी ।

intercartilaginous—(L. *inter*, between; *cartilago*, gristle) अर्न्तोपस्थिक ।

intercavernous—(L. *inter*, between; *carus*, hollow) अर्न्तकुल्यक; गुहा कुल्याओं को संयुक्त करने वाला कुल्या, चक्षु शिरा का एक भाग ।

intercellular—(L. *inter*, between; *cellula*, little cell) कोष्ठांतर; अंतरा कोशिक; कोष्ककेन्द्र-मध्यस्थ; कोशिकान्तर ।

intercentral—(L. *inter*, between; *centrum*, centre) केन्द्र मध्यस्थ; अंतराकशेरुमूल; अंतराकायक; दो कशेरुओं (vertebrae) के कशेरुकायों (centra) को जोड़ने वाला या उनके बीच में स्थित ।

interchange—विनिमय ।

interchondral—(L. *inter*, between; Gk. *chondros*, cartilage) पशुका मध्यस्थ; अर्न्तपशुका ।

intercingular—(L. *inter*, between; *cingulum*, girdle) अर्न्तपर्याणी; किन्हीं डाइनोपलैजिलेटा में चक्रक पर्याण के भागों के बीच अनुदैर्घ्य सीता क्षेत्र ।

interclavicle—(L. *inter*, between; *clavicula*, small key) अर्न्तक्लैविकल; एपीस्टेनम ।

interclavicular—(L. *inter*, between; *clavicula*, small key) अर्न्तक्लैविकल के मध्य (लिगामैन्ट) ।

interclinoid—(L. *inter*, between; Gk. *kline*, bed; *eidos*, like) क्लिनोइड प्रवर्ध को जोड़ते हुए स्नायु लिगामैन्ट या सूत्रक प्रवर्ध ।

intercolumnar—(L. *inter*, between; *columna*, column) स्तम्भाकृति मध्यस्थ । स्तम्भाकार आकृतियों (columnar structures) के बीच में स्थित ।

intercondyloid—(L. *inter*, between; Gk. *kondylos*, knob; *eidos*, form) अर्ब्द-मध्यस्थ ।

intercostal—(L. *inter*, between; *costa*, rib) पशुका मध्यस्थ; अंतराशिरिय (Bot); पशुका या पसलियों (ribs) के बीच में स्थित ।

intercotyledonary—अन्तरा बीजपत्री ।

intercostobrachial—(L. *inter*, between; *costa*, rib; *brachium*, arm) अर्न्तपशुभुजा; द्वितीय अर्न्त-पुशक तंत्रिका की पार्श्व शाखा जो उर्ध्व बाहु में फैली होती है ।

intercoxal—(L. *inter*, between; *coxa*, hip) अर्न्तकावसा । सन्धिपादों (arthropoda) के जन्तुओं की टाँगों के कावसों (coxae) के बीच में स्थित ।

intercrescence—(L. *inter*, between; *creescere* to grow) प्रसृता कृति; अतिगमाकृति; ऐसी रचना या आकृति (structure) जो एक दूसरे में बढ़ी हुई हो ।

intercrural—(L. *inter*, between; *crus/leg*) अर्न्त; जंघासा ।

interculture—अर्न्तसंवर्धन ।

intercuneiform—(L. *inter*, between; *anneus*, wedge, *forma*, shape) इन्टरक्यूनीफार्म; टखने की तीन क्यूनीफार्म अस्थियों को जोड़ने वाले (लिगामेन्ट आदि) ।

interfascicular—(L. *inter*, between; *fasciculus*, small bundle) अर्न्तद्रववाहक संघाती ।

interdigital—(L. *inter*, between; *digitus*, finger) अंगुली मध्यस्थ; अंतरांगुलि; अंगुलियों (digits) के बीच में स्थित ।

interfemoral—(L. *inter*, between; *femur*, thigh bone) अर्न्तफेमोरल; जांघेय मध्यस्थ; अन्तराङ्गु ।

interference—(L. *inter*, between; *ferire*, to strike) व्यतिकरण; माध्यस्थ; समाघात ।

interfertile—(L. *inter*, between; *fertilis*, fertile) अर्न्तव्रि। संकरीकरण (interbreed) के उपयुक्त ।

interfilamentar—(L. *inter*, between; F. *filament*, from, L. *filum*, thread) अर्न्ततन्तुक; मौलस्का में गिल तन्तु (gill filament) को जोड़ने वाले ।

interfilar—(L. *inter*, between; *filum*, thread) तत्वाधार । जीवन तत्व (protoplasm) का आधारभूत पदार्थ (ground substance) ।

interfoliaceous—(L. *inter*, between; *folium*, leaf) अर्न्तपर्णी; दो विलोमपर्णी के मध्य स्थित ।

interfrontal—(L. *inter*, between; *frons*, forehead) इन्टरफ्रन्टल; ललाट मध्यस्थ ।

interganglionic—(L. *inter*, between; Gk *ganglion*, little tumour) गण्डीय मध्यस्थ; गैंगलीय मध्यस्थ ।

intergeneric—(L. *inter*, between; *genus*, kind) जाति मध्यस्थ; अर्न्तजातिका; मध्य जाति का ।

intergenital—(L. *inter*, between; *genitus*, produced) जननांग मध्यस्थ ।

interglacial—(L. *inter*, between; *glacies*, ice) अंतराहिमनदीय; अंतराहिमानी; प्लास्टोसीन युग की दो हैम युगों के मध्य का एक युग ।

interglobular—(L. *inter*, between; *globulus*, small globe) अर्न्तस्थली; अपूर्ण कैल्सीकरण के कारण डेन्टीन के बाह्यतल पर अनेक स्थल ।

intergular—(L. *inter*, between; *gula* gullet) इन्टरगूलर; अर्न्तकण्ठिका; अन्तरागलास्वि । कूर्म या कछुओं (chelonina) में कण्ठ (gular) के मध्य में स्थित युग्मी (paired) या एकाकी पट्ट (plate) ।

interhyal—(L. *inter*, between Gk. *byocides*, Y-shaped) इन्टरहायल; उच्च कशेरुकों में हायो-मेन्डीबुलर और श्लेष हायड (जिह्वास्थि) के बीच की एक छोटी अस्थि विशेष ।

interkinesis—(L. *inter*, between; Gk. *kinesis*, movements) अन्तरालावस्था; विभाजानांतराल अवस्था; कोशिका के दो सूत्र विभाजनों के बीच की विश्रामावस्था ।

interlamellar—(L. *inter*, between; *lamella*, thin plate) अंतरापटलिका; पटलिकांतर ।

interlaminar—(L. *inter*, between; *laminar*, thin plate) अंतरापटलीय; पटलिकांतरक ।

interlobular—(L. *inter*, between; *lobus*, lobe) अंतरापालि; पालि मध्यस्थ ।

interocular—(L. *inter*, between; *oculus*, co: -partment) अर्न्तकोष्ठीकी ।

interoculus—(L. *inter*, between; *oculus*, compartment) अर्न्तकोष्ठीक ।

intermandibular—(L. *inter*, between; *mandibulum*, jaw) अंतरा-चिबुकीय ।

intermaxilla—(L. *inter*, between; *maxilla*, jaw) अन्तराजभिक; प्रोमैक्सिला; मैक्सिली के बीच की अस्थि ।

intermaxillary—(L. *inter*, between; *maxilla*, jaw) अन्तराजम्भिक ।

intermediary—(L. *inter*, between; *medius*, middle) माध्यमिकी ।

intermediate—(L. *inter*, between; *medius*, middle) माध्यमिक ।

intermediate host—माध्यमिक सत्कारी या होन्ट या पोषक; गौण सत्कारी; गौण पोषक ।

intermedin

intermedin—(L. *inter*, between; *medius*, middle) इन्टरमीडिन; पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्यांश (पार्स इन्टरमीडिया) के भाग से प्राप्त हार्मोन; बी (B) पदार्थ ।

intermedium—(L. *inter* between; *medius*, middle) इन्टरमीडियम; कलाई या कारपास (carpus) और टारसस या गुल्फ (tarsus) की एक छोटी हड्डी ।

intermesentric—(L. *inter*, between; Gk. *mesos* middle; *enteron*, gut) अन्त्रयुज मध्या; मध्यांत्र मध्या ।

intermitotic—(L. *inter*, between; Gk. *mitos* thread) विषम विभाजन मध्या । विषम कोशिका विभाजन (mitosis) में स्वतंत्र जीवलयुक्त कोशिका (cell with individual life) जिसके कारण उसका उद्गम (origin) और विभाजन (division) संतति कोशिकों (daughter cells) में होता है ।

intermittent—(L. *inter*, between; *mittere*, to cause to go) सविराम; सविच्छेद; विरामी ।

intermittent fever—विरामीज्वर ।

intermuscular—(L. *inter*, between; *musculus*, muscle) पेशी मध्यस्थ; अन्तःपेशीय ।

intermyotomic—(L. *inter*, between; Gk. *mys*, muscle; *tome*, cutting) अन्तःमुखण्डी ।

internal—(L. *internus*, within) आन्तरिक; आन्तरः अन्तर; भीतरी; अन्तः ।

internal auditory meatus—आन्तरिक कर्णपथ ।

internal lining—आन्तरिक अस्तर ।

internal secretion—(L. *internus*, within) अन्तः स्राव ।

internasal—(L. *inter*, between; *nasus*, nose) अन्तःनासा; नासा मध्यस्थ ।

interneural—(L. *inter*, between; Gk. *neuron*, nerve) सुषुम्ना तोरण मध्य ।

interneurone—(L. *inter*, between; Gk. *neuron*, nerve) तंत्रिका कोशिका मध्यस्थ ।

internodal—(L. *inter*, between; *nodus*, knot) अन्तःकांडी ।

internode—काण्डांतर; दो कांडोम्ब या सन्धि के बीच की आकृति ।

internodia—अंगुलास्थि ।

internuncial—(L. *inter*, between; *nuntius*, messenger) अन्तर्वार्तिकी ।

interoceptor—(L. *internus*, inside; *capere*, to take) अन्तर्वेदनांग; आंतरग्राही; अन्तःग्राह्य । ऐसे ग्राह्य वेदनांग (receptor) जो शरीर के अन्दर से उत्तेजना (stimuli) ग्रहण करते हैं ।

interocular—(L. *inter*, between; *oculus*, eye) चक्षुमध्यस्थ; अंतराचाक्षुप ।

interopercle, interoperculum—(L. *inter*, between, *operaculum*, lid) आंतर-गिलछद; मध्य-छदिका; टिलिस्टोमाई (Telestomi) और डिप्नोई (Dipnoi) से गिलछद (operculum) की एक कला अस्थि जो मँडबिल (mandible) से जुड़ी होती है ।

interoptic—(L. *inter*, between; Gk. *optikos*, pert, sight) चक्षु दल मध्यस्थ ।

interorbital—(L. *inter*, between; *orbis*, circle) अक्षिगुहामध्यस्थ; अंतरानेत्र कोटर क्षेत्र ।

interosculant—(L. *inter*, between; *osculari*, to kiss) सहलक्षणी; सामान्य लक्षणी; अंतरसम्बद्ध दो या दो से अधिक प्रकारों (species) के लक्षणों से युक्त ।

interosseous—(L. *inter*, between; *os*, bone) अस्थि मध्य; अंतरास्थि; हड्डी या अस्थि के मध्य में स्थित ।

interparietal—(L. *inter*, between; *paries*, wall) इन्टरपैराइटल (अस्थि); अनेक कशेरुकों (vertebrates) में पैराइटल (parietals) और सुपरा ओक्सीपीटल (supra-occipital) के मध्य की अस्थि ।

interpeduncular—(L. *inter*, between; *pedunculus*, little foot) आंतर वृन्ती; मस्तिष्कीय वृन्तों के मध्य का अस्थि छिद्र (fossa) ।

interpetaloid—(L. *inter*, between; Gk. *petalon*, leaf; *eidos*, form) पेटेलाइड मध्य, दलाभ-क्षत्रांतर; एकाइनोडर्म आवरण के दलाभ (पेटेलाइड) क्षेत्रों के बीच ।

interpetiolar—(L. *inter*, between; *petiolus*, little foot) पर्ण वृत्तांतर ।

interphalangeal—(L. *inter*, between Gk. *phalangx*, line of battle) अंगुलास्त्रांतर (सन्धि) ।

interphalangeal—(L. *inter*, between; Gk. *phalangx*, line of battle) मध्यपर्वी ।

interphase—मध्यावस्थिति, अन्तरावस्था ।

[देखिये—interkinesis]

interplacental—(L. *inter*, between; *placenta*, flat cake) अंतराबीजांडासनी ।

interpleural—(L. *inter*, between; Gk. *pleuron*, side) फुफ्फुसावरणांतर; अंतराफुफ्फुसावरणी ।

interpubic—(L. *inter*, between; *pubes*, mature) वस्ति अस्थिांतर ।

interracial—(L. *inter*, between; *radix*, root) नस्ल मध्य ।

interradial—(L. *inter*, between, *radius*, radius) अंतरारीय; व्यासार्ध मध्यांतरी ।

interradium—(L. *inter*, between; *radius*, radius) व्यासार्ध मध्यांतर । अरसममितीय जन्तु के दो अर्ध व्यासों के बीच का क्षेत्र ।

interradius—(L. *inter*, between; *radius*, radius) व्यासार्ध मध्य; अन्तरार ।

interramal—(L. *inter*, between; *ramus*, branch) अन्तरशाखीय ।

interramicorn—(L. *inter*, between; *ramus*, branch; *cornu* horn) इन्टररेमीकोर्न; पक्षी चंचु का एक टुक ।

interrenal—(L. *inter*, between; *renes*, kidneys) अन्तरावृक्कीय; वृक्कों के मध्य, शिरा आदि ।

interrenal body—इन्टररीनल ग्रन्थि; वृक्कीय मध्वी ग्रन्थि; उपास्थि मस्सों में वृक्कों के मध्य स्थिति ग्रन्थि विशेष जो उच्च कशेरुकों के अधिवृक्क कॉर्टेक्स (adrenal cortex) के प्रतिरूप होता है ।

interrupted—(L. *inter*, between; *rumpere*, to break) असमंती (asymmetrical). अंतरागिक; विच्छिन्न; अव्यवस्थित (irregular); अविभक्त (unbroken); बाधा युक्त ।

interscapular—(L. *inter*, between; *scapula*, shoulder blade) अंतरास्कन्धफलकी; स्कन्धफलक के बीच अंतरासफलकीय ।

intersegmental—(L. *inter*, between; *segmentum*, part) देहखण्ड मध्वी; अन्तरखंडी; अंतराखंडीय ।

interseptal—(L. *inter*, between, *septum*, fence) व्यवधान मध्वी; जवनी मध्वी, अंतरापटीय ।

intersex—(L. *inter*, between; *sexus*, sex) नर नारी; मध्य लिंगी; मिश्रित लिंगी । नर (male) और नारी (female) लक्षणों (characters) के लक्षित रूप (mosaic form) के मिलने से बना हुआ व्यक्ति (individual) । [देखिये—gynandromorph]

interspecific—(L. *inter*, between; *species*, kind) विशिष्ट संकर; प्रकार संकर । किन्ही दो प्रकारी (species) के संकरज (crossing) में उत्पन्न स्पष्ट या विशिष्ट (distinct) संकर ।

interspicular—(L. *inter*, between; *spiculum* sharp point) कण्टक मध्वी ,

interspinal—(L. *inter*, between; *spina*, spine) मध्यकण्टकी ।

interstapedial—(L. *inter*, between, *stapes*, stirrup) इन्टरस्टेपीडियल; कर्ण की स्तंभिका अस्थि (कोल्युमुला) का एक भाग ।

intersterility—(L. *inter* between; *sterilis* unfruitful) उर्वरताहीन; सकरी करण (interbreeding) के अयोग्य ।

intersternal—(L. *inter*, between; Gk. *sternon*, breast plate) अन्तराधरक; वक्षास्थिांतर; उरोस्थिांतर ।

interstitial—(L. *inter*, between; *sistere*, to set) अन्तराल; अन्तरालीय; अन्तरस्थानीय; अंतराकानी-अंतराली ।

interstitial cell—अन्तराल-कोष्ठ या कोशिका ।

intertemporal—(L. *inter*, between; *tempora*, temples) इन्टरटेम्पोरल (कन्यादि) ।

intertentacular—(L. *inter*, between; *tentaculum*, feeler) स्पर्शक मध्वी ।

intertidal—(L. *inter* between; A. S. *tid*, time) तरंगी; तरंग मध्वी; अन्तराव्वारीय ।

intertrabecula

intertrabecula—(L. *inter*, between; *trabecula*, little beam) अंतरासंबंधक उपास्थि, इन्टरट्रेबेकुला; ट्रेबेकुली मध्धी; कुछ पक्षियों में ट्रेबेकुली के बीच एक पृथक प्लेट ।

inertrochanteric—(L. *inter*, between; Gk. *trochanter*, runner) ट्रेकिटरांतर; अन्तराशिखररू ।

intertrochlear—(L. *inter*, between; *trochlea*, pulley) ट्रोक्लियांतर ।

intertubercular—(L. *inter*, between; *tuberculum*, small hemp) आंतरशोथीय ।

intervarietal—(L. *inter*, between; *varius*, diverse) मध्यगोत्री; एक प्रकार (species) के दो स्पष्ट गोत्रों (two distinct varieties) के संकरज (crossing) से उत्पन्न प्राणी ।

intervertebral—(L. *inter*, between; *vertebra*, vertebra) कशेरू-मध्धी ।

intervertebral disc—कशेरू-मध्धीय बिम्ब ।

intervertebral foramen—कशेरू मध्धीय छिद्र ।

intervillous—(L. *inter*, between; *villi*, hair) ग्राहकांकुरांतर ।

interzonal—(L. *inter*, between; *zone*, belt) जोन मध्धी; मण्डल मध्धी ।

interzoecial—(L. *inter*, between; *zoon*, animal; *oikos*, house) इन्टरजूएसियल; जूएसिया (zoecia) के साथ-साथ पाया जाने वाला ।

intestinal—(L. *intestinalis*, internal) अंत्रीय; अंत सम्बन्धी ।

intestine—(L. *intestinalis*, internal) अन्त्र; अंत; अंतड़ी । आहार-नलिका (alimentary canal) का आमाशय (stomach) के पाइलोरिक छोर (pyloric end) से लगाकर पायु (anus) तक का भाग ।

intestine large—बृहदांत्र; बड़ी अंत ।

intestine small—सूद्रांत्र; छोटी अंत ।

intextine—(L. *intus*, within, *exter*, without) इन्टेक्सटाइन; एक्सटाइन की अंतःकला ।

intima—(L. *intimus*, innermost) अन्त पर्त; अन्तिम पर्त; आन्तरक ।

intine—(L. *intus*, within) अंतःचोल ।

intra—अन्तस्थ; भीतरी ओर; अन्तर्गत अर्थ सूचक उपसर्ग ।

intra-biontic—(L. *intra*, within; Gk. *bios*, life; *on*, being) प्राणी व्यावृत्ति ।

intracapsular—(L. *intra*, within; *capsula*, small chest) कुहरान्तर; कोषिकांतर ।

intracardiac—(L. *intra*, within; Gk. *kardia*, heart) हृदयान्तरिक; हृदयान्तरी ।

[देखिये—endocardiac]

intracartilaginous—(L. *intra*, within; *cartilago*, gristle) उपास्थितांतर ।

intracellular—(L. *inter*, within; *cellula*, little cell) अन्तर्कोष्ठीय; कोष्ठान्तरीय; कोष्ठान्तरिक; कोष्ठान्तर्गत; अन्तर्कोशिकीय ।

intracellular digestion—कोशिकान्तर्गत पाचन; अन्तर्कोशिकीय पाचन ।

intracortical—(L. *intra*, within; *cortex* rind) चल्कान्तरी ।

intra-epithelial—(L. *intra*, within; Gk. *epi*, upon; *thde*, nipple) अधिच्छान्तरिक; अधिच्छद (एपीथीलियम) में स्थिति ।

intrafascicular—(L. *intra*, within; *fasciculus*, little bundie) अंतःपूलीय; अंतःपूलक ।

intrafoliaceous—(L. *intra*, within; *folium*, leaf) अंतःपर्णी ।

intrafusul—(L. *intra*, within; *fusus*, spindle) अंतःतर्कु ।

intragemmal—(L. *intra*, within; *gemma*, bud) कलिकान्तर; कलिकान्तरिक ।

intraglobular—(L. *intra*, within; *globulus*, globule) कणान्तर्गत; कणान्तर ।

intrajugular—(L. *intra*, within; *jugulum*; throat) अंतःग्रेविय; ऑक्सिपिटल अस्थि के जुगुलर दनदाने (notch) के मध्य का एक प्रवर्धन ।

intramembranous—(L. *intra*, within; *membrana*, films) झिल्ली आन्तर; अंतः कलास्थि । जैसे झिल्ली जात (membranous) अस्थि (bone) ।

intralamellar—(L. *intra*, within, *lamella*, thin plate) अंतःपत्रकी; पत्रकांतर ।

intra-lobular—(L. *intra*, within; *lobulus*, small lobe) अंतःपालीय; पालीआंतर ।

intramolecular—(L. *intra*, within, F. *molecule*, small particle) अन्तराणुक (श्वसन); अंतःअणुक ।

intranuclear—(L. *intra*, within; *nucleus*, kernel) अष्टिन्तर; अष्टिन्तरिक; आन्तर केन्द्रकीय; आंतर केन्द्रक ।

intraparietal—(L. *intra*, within; *paries*, wall) अंतःपैराइटल; अंगान्तर ।

intrapetalous—(L. *intra*, within; Gk. *petalon*, leaf) अंतःदलाभ; इकाइनोडर्मस के दलाभ (पेटेलॉइड) क्षेत्र में स्थिति ।

intrapleural—(L. *intra*, within; *petiolus*, little foot) अंतःवृत्ती ।

intra-segmental—(L. *intra*, within; *segmentum*, part) अन्तर्निखण्डी; अन्तःखण्ड [देखिये—intermyotomic]

intra-selection—(L. *inter*, within; *selectic*, choice) अंतर्वर; कोशिकाओं (cells) का अंग के भीतर से जीवित रहने का सबसे अनुकूल छटाव (selection) करना ।

intraspicular—(L. *intra*, within; *spicula*, small spike) अन्तर्स्पीकुली ।

intrastelar—(L. *intra*, within; *stela*, pillar) अन्तर्स्तम्भी; आधार तल; स्तम्भ या जड़ के रंभ के अन्दर ।

intratarsal—(L. *intra*, within; *tarsus*, ankle) अंतःगुल्भीय; अंतःटारसस ।

intrathyroid—(L. *intra*, within; Gk. *thyreos*, shield; *eidōs*, like) अंतःथाइरॉइड उपास्थि; शिशु अवस्था में थाइरॉइड उपास्थि की दल पत्रिकाओं (laminae) को जोड़ने वाली उपास्थि ।

intrauterine—(L. *intra*, within; *uterus*, womb) गर्भांतगत ।

intravaginal—(L. *intra*, within; *vagina*, sheath) अन्तर्योनि; योनिअंतगती ।

intravascular—(L. *inter*, within; *vasculum*, small vessel) रक्त नलिकान्तर ।

intraventricular—(L. *inter*, within; *ventriculum*, small cavity) निलयान्तर; विवरान्तर ।

intravesical—(L. *intra*, within; *vesica*, bladder) कोपिकान्तर ।

intraxylary—(L. *intra*, within; Gk. *xylon*, wood) अंतःदास्की; अंतःजाइलम ।

intrinsic—(L. *intrinsecus*, inwards) स्वभाविक; आन्तर; निहित; नैज । [देखिये—extrinsic, बाह्य]

introitus—(L. *introitus*, entry) द्वार या छिद्र ।

intromittent—(L. *intro*, within; *mittere*, to send) प्रवेशक ।

introrse—(L. *introrsus*, within) अंतर्गत ।

introversion—(L. *intro*, within; *vertere*, to turn) अन्तःपरावर्तन ।

introvert—(L. *intro*, within; *vertare*, to turn) अंतर्मुखी ।

intussusception—(L. *intus*, within; *suscipere*, to receive) स्तर वृद्धि ।

inulase—(L. *inula*, elecampane) इनुलेज (वनस्पति एन्जाइम) वनस्पति एन्जाइम जो जल विघटन से इनुलिन (inulin) को लेवुलोज (laevulose) में परिणित करता है ।

inulin—(L. *inula*, elecampane) इनुलिन (कार्बो-हाइड्रेट); (C₆H₁₀O₅)_n; कई पौधों के जड़ों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो जल विघटित होकर लेवुलोज बनाता है ।

invaginate—(L. *in*, into; *vagina*, sheath) अंतर्वलन; अंतःपरावर्तन

invagination—(L. *in*, into; *vagina*, sheath) अंतर्वलनता; परिवृत्ति ।

invasion—(L. *in*, in; *vadere*, to go) आक्रमण; संक्रमण ।

inversion—(L. *invertere*, to turn; upside down) विलोमता; व्युत्क्रम ।

invertase—(L. *invertere*, to turn into) इन्वर्टेज; इन्वर्टिन; सुक्रोज; वनस्पति एन्जाइम जो गन्ना शर्करा की डेक्सट्रोज (dextrose) और लेवुलोज (laevulose) में बदल देती है ।

invert—(L. *invertere*, to turn upside down) परिवृत्त; विलोम; अधोमुख करना ।

invertase

invertase—(L. *invertere*, to turn into) इनवरटेज-
क्षामक विक्षेप जो गन्ने की शक्कर (canesugar) को
डेक्सट्रोस (dextrose) में बदल देता है ।

invertebrate—(L. *in*, not; *vertebra*, joint) कशेरू-
हीन; अकशेरू दण्डी; पृष्ठ वंश रहित; अकशेरू की; अपृष्ठ
वंशी; रीढ़ की हड्डी रहित जन्तु ।

investing bone—झिल्ली कृत अस्थियाँ; तन्तुकास्थि;
कलास्थि ।

investment—(L. *in*, in; *vestire*, to clothe) बाह्य
वरण; खोल; बाह्यावरण किसी अंग, जन्तु या पौधा ।

involutal—(Dim. of L. *involutum*, covering)
सहपत्र चक्रो; सहपत्रिका चक्र; कम्पांजिटी कुल के पुष्पों
में जैसे सूर्यमूखी, जोनिया इत्यादि में पुष्पक्रम के आधार
पर बाह्यदल-सदृश हरे सहपत्र के कई आवर्त होते हैं
जिन्हें सहपत्र चक्र (involutal) कहते हैं ।

involute—(Dim. of L. *involutum*, covering)
सहपत्र चक्राधर ।

involutal—(L. *involutum*, covering) परिचक्रक;
सहपत्र चक्रोपम ।

involute—(L. *involutum*, covering) सहपत्र
चक्रक ।

involute—(L. *involutum*, covering) सहपत्र
चक्रो; परिवेष्टन, परिचक्र ।

involuntary—(L. *in*, not; *voluntas*, wish) अनि-
च्छित; स्वाधीन; अत्रैच्छिक ।

involute—(L. *involutus*, rolled up) प्रतिकेन्द्रज;
अंतर्वलित ।

involution—(L. *involutus*, rolled up) पुरावर्तन ।
वर्धित, परिवर्तित या विकृत अङ्ग का पुनः सामान्य हो
जाना । (२) तन्तुओं का वृद्धावस्था में सिकुड़ना ।

iodophilic—(Gk. *iodos*, violet-like; *philos*,
loving) आयोडीन रागी; आयोडीन रंग से शीघ्र रंगा
जाने वाला ।

iodopsin—(Gk. *iodos*, violet, *opsis*, sight)
आयोडोपसिन; दृष्टव्य वैगनी; नेत्रान्त (retinal) शंकु
में पाया जाने वाला प्रोटीन विटामिन 'ए' यौगिक जो
अत्यन्त प्रकाशग्राही होता है ।

iodothyronin—(Gk. *iodos*, violet; *thyreos*, shield)
आयोडोथाइरिन; थाइरोइड ग्रन्थि के कलल तत्व में
पाया जाने वाला आयोडीन युक्त यौगिक ।

iodothyroglobulin—(Gk. *iodos*, violet; *thyreos*,
shield; L. *globus*, globe) आयोडोथाइरोग्लोबु-
लिन; थाइरोइड ग्रन्थि का हार्मोन ।

iridial angle—द्युति कोण; कोणिक विवर । कोनिया
(cornea) और आइरिस (iris) के बीच का कोणिक
विवर (angular recess) ।

iridocyte—(Gk. *iris*, rainbow; *kytos*, hollow)
द्युति कोष्ठ; द्युति कोशिकायें; रंगदीप्ताणु ।

iridomotor—(L. *iris*, rainbow; *movere*, to
move) द्युति गति; (१) ग्वानिनकण, पिण्ड या प्लेट
जिनसे मत्स्य की त्वचा के पुनरावृत्तिक ऊतक बने होते
हैं । (२) सीपिया (sepia) के त्वक की रंग दीप्ति
कोशिकायें (iridescent cells) ।

iris—(L. *iris*, rainbow) आइरिस; उपतारा (आँख
का तारा), आँख की पुतली (pupil) को घेरे हुए ताल
(lens) और कोनिया या कर्नीनिका (cornea) के बीच
में स्थित रक्तिय विम्ब (vascular disc) ।

irradiation—(L. *in*, into; *radius*, ray) किरणन;
किरण-उपचार; उत्तेजनाप्रसार ।

irregular—अक्रमिक; विक्रम; अव्यवस्थित; क्रमहीन;
विषम; अनियमित; टेढ़ा-मेड़ा ।

irritability—(L. *irritare*, to provoke) उत्तेजनता ।

irritable—(L. *irritare*, to provoke) उत्तेजनशील ।

irritant—(L. *irritare*, to provoke) उत्तेजक ।

ischiodic—(Gk. *ischion*, hip) इश्चियेडिक; श्रोणि
प्रदेशीय ।

ischiodipite—(Gk. *ischion*, hip; L. *capsula*,
little chest) इश्चियोकेप्सूलर; श्रोणि-संपुट सम्बन्धी ।

ischiodipite—(Gk. *ischion*, hip; L. *cavus*,
hollow) श्रोणि-शिशन (भगशिशन) सम्बन्धी (पेशी);
उद्धर्षी पेशी (erector muscle) ।

ischioflexorius—(Gk. *ischion*, hip; L. *flexus*,
bent) इश्चियोफ्लेक्सोरियस; पश्च उरु पेशी ।

ischiodipite—(Gk. *ischion*, hip; *pous*, foot)
इश्चियोपोडाइट; इश्चियापाद-खण्ड; केकड़ा वंशियों
(crustaceans) की चलने वाली टाँग का (शरीर के
पास का) समीपस्थ जोड़ ।

ischiopubic—(Gk. *ischion*, hip; L. *pubes*, adult) इश्चियोप्यूबिक; इश्चियन-प्युबिस के बीच का अस्थि छिद्र (fenestra) या विच्छेद (gap)।

ischiopubis—(Gk. *ischion*, hip; L. *pubis*, adult) संयुक्त इश्चियम-प्युबिस।

ischioirectal—(Gk. *ischion*, hip; L. *rectus*, straight) इश्चियम-रेक्टम सम्बन्धी।

ischium—(Gk. *ischion*, hip) इश्चियम, कशेरुकों (vertebrates) में सिवाय मत्स्यों (fins) के श्रोणिवलय (pelvic girdle) के प्रत्येक अर्ध भाग में पाई जाने वाली पृष्ठ व अधर अस्थि विशेष।

isidiferous—(Gk. *isis*, plant; L. *ferre*, to bear) आइसीडीफेरस; आइसीडियम धारी।

isidioid—(Gk. *isis*, plant; *idion*, *dim*; *eidos*, like) आइसीडियमवत् (सदृश)।

isidium, isidia—(Gk. *isis*, plant; *idion*, *dim*.) आइसीडियम; कुछ लाइकिन्स (Lichens) के तल पर मूंगोपम (coral-like) बीजाणुपुंज या स्रवक (soredia)।

islets of langerhans—(P. *langerhans*, german-anatomist) लगरहैंस की द्वीपिकाएँ। प्लोम (pancreas) में सर्वत्र फैले हुए गोलाकार पिण्ड जिनके द्वारा चीनी या शर्करा (sugar) का समीकरण होता है।

isoagglutinin—(Gk. *isos*, equal, L. *agglutinare*, to glue to) आइसोएग्लूटिनिन; समसंयुजक।

isoagglutininogen, isohaemagglutininogen—(Gk. *isos*, equal, *himma*, blood; *genos*; birth; L. *agglutinare*, to glue to) समसंयुजकज; उसी रुधिर वर्ग के लाल रक्ताणुओं को संलग्न (संयुज) करने वाला।

isobilateral—(Gk. *isos*, equal; L. *bis*, twice; *latus*, side) समद्विपार्श्वीय; सम-द्विपार्श्व; द्विपार्श्वीय समानता का एक भेद जिसमें आकृति (structure) दो स्तनों (two planes) पर समकोणों (right angles) पर बटती है।

isocarpous—(Gk. *isos*, equal; *karpos*, fruit) समसह्यक दली।

isocercal—(Gk. *isos*, equal; *kerkos*, tail) समदली पुच्छ; समपालि।

isochela—(Gk. *isos*, equal; *chela*, claw) सम चंगुल; समनखरिका; ऐसा चंगुल (chela) जिसके दोनों भाग समान हों।

isochromosome—(Gk. *isos*, equal; *chroma*, colour; *soma*, body) नम क्रोमोसोम; सम परम्परा सूत्र।

isochromous—(Gk. *isos*, equal; *chroma*, colour) समवर्णी; समान रङ्ग वाला।

isocortex—(Gk. *isos*, equal; L. *cortex*, bark) समदलकल; मस्तिष्क दलकल (काटेक्स) के तंत्रिका कोशिकाओं के छ: स्तर।

isocytic—(Gk. *isos*, equal; L. *cortex*, bark) समकोशिकीय; जिसकी समस्त सैल (cell) बराबर हो।

isodactylous—(Gk. *isos*, equal; *daktylos*, finger) समांगुलिक; समांगुलक।

isodiametric—(Gk. *isos*, equal; *dia*, through; *metron*, measure) समधुरी, सम व्याप्ती।

isodont—(Gk. *isos*, equal; *odous*, tooth) सम दन्ती; समदन्ती; समरूपदन्ती।

isodynamic—(Gk. *isos*, equal; *dynamis*, power) समओजी; समबल।

isogamete—(Gk. *isos*, equal; *gametes*, spouse) सम जन्युक; सम युग्मक।

isogametic—(Gk. *isos*, equal; *genesis*, descent) सम जन्युक; सम जन्युधारी।

isogamous—(Gk. *isos*, equal; *gamos*, marriage) सम जन्युक; सम युग्मकी।

isogamy—(Gk. *isos*, equal; *gamos*, marriage) सम जन्युता; सम युग्मन; सम युग्मकता।

isogenes—(Gk. *isos*, equal; *genos*, descent) समजीन।

isogenetic—(Gk. *isos*, equal; *genesis*, descent) समजीनप्ररूप; समततोती; समोद्गमी; समान जीवी संरचना।

isognathous—(Gk. *isos*, equal; *gnathos*, jaw) सम मुत्ताध्यवी; समान जवड़े वाला।

isolation—(L. *insula*, an island) पृथक्करण; पृथक्कता; विच्छेद।

isolecithal

- isolecithal**—(Gk. *isos*, equal; *lekithos*, yolk) समयोकी; ऐसा डिम्ब (egg) जिसमें डिम्बान्न या योक (yolk) एकसा या समान रूप से वितरित रहता है।
- isomastigote**—(Gk. *isos*, equal; *mastix*, whip) समकशी।
- isomere**—(Gk. *isos*, equal; *meros*, part) समानु-खण्डी।
- isomerous**—(Gk. *isos*, equal; *meros*, part) समसंख्यक भागी; समावयवी।
- isometry**—(Gk. *isos*, equal; *metron*, measure) सम वर्धन।
- isomorphic**—(Gk. *isos*, equal; *morphe*, shape) सम रचित।
- isomorphism**—(Gk. *isos*, equal; *morphe*, shape) सम रचनता।
- isomyaric**—(Gk. *isos*, equal; *mys*, muscle) सम अभिवर्तनी (पेशी)।
- isopedin**—(Gk. *isopedos*, level) आइसोपेडिन; मत्स्य शल्कों में पाया जाने वाला एक पदार्थ।
- isopetalous**—(Gk. *isos*, equal; *petalon*, petal) समान दली; समान पुंखुडिक।
- isophane**—(Gk. *isos*, equal; *phainein*, to show) समजैव दृग्बिषय।
- isophene**—(Gk. *isos*, equal; *phainein*, to show) समऋतुघटना रेखा; दृश्यरूपक परिधि।
- isophenous**—(Gk. *isos*, equal; *phainein*, to show) समव्यक्तज।
- isophytoid**—(Gk. *isos*, equal; *phyton*; plant; *eidos*, form) समव्यक्तिक (पादप)।
- isoploid**—समगुणित।
- isopodous**—(Gk. *isos*, equal; *pous*, foot) सम-पादी; समानपादी।
- isopogonous**—(Gk. *isos*, equal; *pogon*, beard) समजालपादी।
- isopygous**—(Gk. *isos*, equal; *pyge*, rump) समपृष्ठपश्चान्तरी।
- isospore**—(Gk. *isos*, equal; *sporos*, seed) समबीजाणुक; समान स्पोर।

- isosporous**—(Gk. *isos*, equal; *sporos*, seed) समस्पोरी; समबीजाणु।
- isostemonous**—(Gk. *isos*, equal; L. *stemon*, warp) समान पुंकेसरी; बाह्यदल या दल की संख्या के समान पुंकेसर युक्त।
- isotelic**—(Gk. *isos*, equal; *telos*, end) समभावी; एक ही प्रकार का प्रभाव डालने वाले।
- isotels**—(Gk. *isos*, equal; *telos*, end) समान कार्यकी; समान व्यापारक।
- isotomy**—(Gk. *isos*, equal; *temnein*, to cut) समकर्तन।
- isotonic**—(Gk. *isos*, equal; *tonos*, tone) सम-परासरी; समान दावी; समान खिचाव वाला।
- isotonicity**—(Gk. *isos*, equal; *tonos*, tone) समपरासरता; समान दाव।
- isotropic**—सम-अक्षी।
- isotropous**—(Gk. *isos*, equal; *trepein*, to turn) समबीजाण्डी।
- isotropy**—(Gk. *isos*, equal; *trepein*, to turn) समघूर्णी।
- isozoic**—(Gk. *isos*, equal; *zoon*, animal) सम जन्तु वसित; समजांतव।
- isozoid**—(Gk. *isos*, equal; *zoon*, animal; *eidos*, alike) सम मुकुल; पित्रोपम मुकुल; समजी-वक।
- isthmiate**—(Gk. *isthmos*, neck) संयती; तनुयोजी; संकीर्ण संयोजी।
- isthmus**—(Gk. *isthmos*, neck) संयत। वह संयत (narrow) आकृति जो दो बृहत् भागों (larger parts) को संयुक्त करे।
- itch**—खुजली।
- iter**—(L. *iter*, way) आइटर; वीथि; नलिका पथ। मध्य मस्तिष्क में पाया जाने वाला नलिका पथ।
- ithyphyllus**—ऋजू-हृद-पर्णी।
- itograph**—आवृत्ति लेख।
- ivory**—(L. *elmr*, ivory, *through*, F. *ivoire*) आइ-बरी; डेन्टीन। सफेद चमकता हुआ पदार्थ; हाथी दाँत आदि का।
- ixocutis**—श्यानावरण।

J

Jdisc—जे विम्ब; समदेशिक या आई विम्ब ।

Jacobson's cartilage—(L. L. *Jacobson*, danish anatomist) जैकब्सन की उपास्थि ।

Jacobson's organ—(L. *Jacobson*, danish anatomist) जैकब्सन का अङ्ग ।

Jactitation—(L. *jactare*, to toss) आक्षेपक विकिरण (बीज); आक्षेपक युक्ति (censer mechanism) द्वारा बीज विकिरण ।

jaculator—(L. *jaculator*, shooter) चरत्क्षेपक; किन्हीं फलों का हुकनुमा बीजाण्डासन ।

jaculatory—(L. *jaculatorius*, throwing) प्रक्षेपण-शील ।

jaculatory duct—(L. *jaculatorius*, throwing; *ducere*, to lead) प्रक्षेपण-शील नलिका ।

jaculiferous—(L. *jaculum*, a dart; *ferre*, to carry) ऋर-धारी ।

jarovization—(Russ. *jarovizaaja*, from *jaranoi*, vernal) ताप-आर्द्र स्थिति; पादप संवर्धन मत; ऊष्ण-स्थिति; (१) यह मत कि पादप का संवर्धन अनुक्रम (sequence) अन्यान्य (इतरेतर) स्वतंत्र स्थितियों पर निर्भर होता है । (२) वार्षिक और कुछ बहुवर्षीय शाकीय पौधों में प्रकाश-ताप स्थिति (Photophase) से पूर्व प्रथम संवर्धन स्थिति अर्थात् ताप-आर्द्र स्थिति ।

[देखिये—thermophase=vernalisation—ताप-आर्द्र स्थिति ; photophase—प्रकाश-ताप स्थिति]

jaw—(akin to *chaw*, chew) जबड़ा; हनु ।

jaw bone—जबड़े की हड्डी; हन्वस्थि ।

jaw foot—(maxillipede) हनुपाद ।

Jecorin—(L. *Jecur*, liver) जेकोरिन; यकृत या शरीर के अन्य अंगों में उपस्थित लेसीपिन सहस्र पदार्थ या फोस्फेटाइड (phosphatide) ।

Jejunum—(L. *Jejunus*, empty) जेजुनम; अन्नबुद्रांत्र; सूद्रांत्र (small intestine) का ड्यूडेनम (duodenum) और इलियम (ileum) के बीच का भाग ।

Jelly fish—जेलीफिश ।

Jelly of Wharton—ह्वार्टन का इलैक्टिक तन्तु ।

Johnston's organ—(C. *Johnston*, British entomologist) जौन्स्टन अंग; कीट स्पर्शक (antenna) के द्वितीय खण्ड में स्थित रूलाकोपम (rod like) यांत्रिक एवं ध्वनि तरंग ग्राह्य संवेदनांग ।

Jordan's organ—(K. *Jordan*, zoologist) जोर्डन अंग; जोरदाँ अंग । किन्हीं तनुपक्षक (Lepidoptera) के सिर पर स्थित दो लघु संवेदीय अंगों में से एक जिसमें शूक (bristles) तथा संवेदीय कोशिकाएँ होती हैं और आच्छद तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से सम्बन्धित होती हैं ।

[देखिये—chaetosema—शूकीय संवेदनांग]

joint—(L. *junctum*, to join) संधि; जोड़ ।

jointed—(L. *junctum*, to join) संधित; अनुबंधित ।

juba—(L. *juba*, mane) अयाल ।

jubate—(L. *jubatus*, maned) केंसरी; जटाधारी; अयाल वाला ।

jugal—(L. *jugum*, yoke) जुगल । कपाल की एक अस्थि मैक्सिला और स्क्वेमोजल के बीच ।

jugate—(L. *jugum*, yoke) युगल पर्णकी ।

Jugular—(L. *jugulum*, a collar-bone) ग्रैवेय, ग्रैव; गलस्य; जुगुलर ।

jugular artery—ग्रैवेय-धमनी ।

jugular eminence—ग्रैवेय या जुगुलर आरोह ।

jugular plate—ग्रैवेय (जुगुलर) फलक (प्लेट) ।

jugular prominence—ग्रैवेय-प्रबद्धन ।

jugular vein—ग्रैवेय-शिरा ।

Jugulum—(L. *jugulum*, collar bone) जुगुलम ।

jugum—(L. *jugum*, yoke) जुगम; (१) सम्मुहा युगल पर्णक; (२) किन्हीं माँय (moth) के अग्रपदा के पश्च तट पर की लघु पालि (small lobe); (३) अन्धेतीक्षी पौधों के फलांशक (mericarp) पर की मेड़ (ridge) ।

Juice—(G. *Jus*, broth) रस ।

Jurassic—(L. *Jura*, mountains) जुरसिक; मध्यम-युग (mesozoic era) का दूसरा काल (period) ।

juvenal

juvenal—(L. *juvenalis*, youthful) तरुण; अल्प वयस्क ।

juvenile hormone—अल्प वयस्क हार्मोन; किन्हीं कीटों में कॉर्पस एलेटम (*corpus allatum*) का स्राव जिसके प्रभाव से प्रौढ़ लक्षणों का विकास अवरोध हो जाता है ।

juxta—(L. *juxta*, close to) आसन्न तरी ।

juxtaglomerular—(L. *juxta*, close to; *glomerare*, to form into a ball) गुच्छासन्न कोशिका; कोशिकागुच्छासन्न: वृक्क के कोशिका गुच्छ (*glomerulus*) के घमनियों के भाग को घेरे हुए कोशिकायें ।

K

Kalidium—(Dim. of Gk. *kalia*, nut) कैलीडियम; एक प्रकार का बीजाणु-फलिका (*sporocarp*) या सिस्टोकार्प (*cystocarp*) ।

kainogaea—(Gk. *kinos*, recent; *gaia*, earth) नव भूमि ।

kainotype—नवप्ररूप ।

kainozoic era—नवजीव महाकल्प ।

kakogenesis—(Gk. *kakos* bad; *genesis*, descent) सङ्कराक्षमता; सङ्कर (*hybrid*) उत्पन्न करने में असमर्थता ।

kaleidoscope—बहुमूर्तिदर्शी; कैलाइडोस्कोप ।

kalloplan tou—श्लेपी ग्लवक ।

kalymmocytes—(Gk. *kalymma*, covering; *kytos*, cell) कलिमोसाइट । एसीडियन्स (*ascidians*) में वह कोषक कोशिकायें (*follicle cell*) जो परिपक्वता (*maturation*) के पश्चात् डिम्ब में पहुँच जाती हैं ।

karyaster—(Gk. *karyon*, nucleus; *aster*, star) तारा रूप गुणसूत्र ।

karyanchyma—(Gk. *karyon*, nucleus; *enchyma*, infusion) न्यूक्लियस द्रव्य; एक्रोमेटिन; न्यूक्लियस का आवरणक स्यली एवं ललित सूत्र (*lenin*) पदार्थ ।

karyogamy—(Gk. *karyon*, nucleus; *gamos*, union) केन्द्रक-संयोग; न्यूक्लियस संयोग ।

karyokinesis—(Gk. *karyon*, nucleus; *kinein* to change) विषम कोशिका विभाजन; केन्द्र परिवर्तन (क्रेण्ड) विभाजन; कैरियोकिनेसिस; माइटोसिस (*mitosis*) ।

karyology—(Gk. *karyon*, nut; *logos*, discourse) अष्टि विज्ञान; न्यूक्लियस विज्ञान; केन्द्रक विज्ञान ।

karyolymph—(Gk. *karyon*, nucleus; L. *lymph*, water) केन्द्रक रस; अष्टि लसीका; अष्टि प्ररस; न्यूक्लियस प्ररस ।

karyolysis—(Gk. *karyon*, nucleus; *lyein*, to loosen) केन्द्रक लयन; अष्टि विलन; न्यूक्लियस विलन ।

karyomere—(Gk. *karyon*, nucleus; *meros*, part) अष्टि खण्ड; न्यूक्लियस खण्ड ।

karyomicrosomes—(Gk. *karyon* nucleus; *miksis*, small; *soma*, body) अष्टि कण; न्यूक्लियस कण ।

karyomite—(Gk. *karpin*, nucleus; *mitos*, thread) परम्परा सूत्र; अष्टि सूत्र; गुण सूत्र; क्रोमोसोम ।

karyomitome—(Gk. *karyon*, nucleus, *mitome*, network) अष्टि सूत्र व्यवस्था; न्यूक्लियस पाश ।

karyomitosis—(Gk. *karyon*, nucleus; *mitos*, thread) विषम कोशिका विभाजन ।

karyon—(Gk. *karyon*, nucleus) अष्टि; न्यूक्लियस; केन्द्रक ।

karyophans—(Gk. *karyon*, nucleus; *phainein*, to appear) पिण्डाणु ।

karyophore—(Gk. *karyon*, nucleus; *pherein*, to bear) न्यूक्लियस धारी; बाह्यप्रस तन्तुक या कला जो न्यूक्लियस की गति अवरोध करती है ।

karyoplasma—(Gk. *karyon*, nucleus; *plasma*, something moulded) केन्द्रक द्रव्य; अष्टि सत्व; न्यूक्लियस सत्व ।

karyorhexis—(Gk. *karyon*, nucleus; *rhexis*, breaking) अष्टिद्वक; न्यूकलियस द्वक ।
karyosome—(Gk. *karyon*, nucleus; *soma*, body) अष्टि पिण्ड; क्रोमोसोम; केन्द्रक काय ।
karyosphere—(Gk. *karyon*, nucleus; *sphaira*, globe) उपाष्टि; उप केन्द्रक; उप न्यूकलियस ।
karyota—(Gk. *karyon*, nucleus) अष्टि युक्त कोशिका; अष्टि कोशिका; केन्द्रक युक्त कोशिका ।
karyote—अष्टि; केन्द्रक; न्यूकलियस ।
keryotheca—(Gk. *karyon*, nucleus; *theke*, concerning) अष्टि कला; केन्द्रक कला; न्यूकलियस कला ।
karyothin—(Gk. *karyon*, nucleus) क्रोमेटिन; अष्टि रज्य; केन्द्रक वर्ण ।
katabolism—(Gk. *kata*, down; *ballein* to throw) ह्रास; ह्रास-प्रक्रिया; अपचय ।
katabolite—(Gk. *kata*, down; *bole*, thrown) अपचय उत्पाद ।
katagenesis—(Gk. *kata*, down; *genesis*, descent) अधोविकास ।
katakinetic—(Gk. *kata*, down; *kinein*, to move) ऊर्जा अप्रेसर; वह प्रक्रिया जिससे ऊर्जा का मुक्त होना शुरू होता है ।
katakineteres—(Gk. *kata*, down; *kinein*, to move; *meros*, part) प्रभावहीन या अप्रभावी (अणु या प्रमाणु) ।
kataphase—(Gk. *kata*, down; *plasis*; appearance) उत्तर स्थिति; विषम कोशिका विभाजन में परम्परा सूत्रों के बनने से लगा कर कोशिका के विभाजन तक की स्थितियाँ ।
kataphoresis—(Gk. *kata*, down; *pherein*, to carry) विद्युत्प्रसरण ।
kataphoric—(Gk. *kata*, down; *pherein*, to carry) तंद्रा परिणाम; अनिवारक कार्य ।
kataplexy—(Gk. *kata*, down; *plassein*, to strike) मृतछद्मता; आघात मृत्यु ।
katastasis—प्ररस (protoplasm) की ह्रास प्रक्रियाओं द्वारा निष्कृत कोई भी पदार्थ ।
katastate—(Gk. *kata*, down; *stosis*, state) ह्रासवज; प्रोटोप्लाज्म (protoplasm) की ह्रास प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न पदार्थ विशेष ।

katatrepsis—(Gk. *kata*, down; *trepein*, to turn) ह्रस्वर्गत स्थिति ।
katharobic—(Gk. *katharos*, pure; *bio*, leios) स्वच्छ जल प्राणी ।
kathodic—(Gk. *kathodes*, descent) अनुवृत्तिक सपिल ।
kation—(Gk. *kata*, down; *ienai*, to go) घनात्मक आयन; घनायन ।
keber's organ—केबर का अङ्ग । मीषों आदि जन्तुओं में पाई जाने वाली हृदयावरण ग्रन्थि विशेष ।
keel—(A.S. *ceol*, ship) कील; कटक; मँड; शूटक । उड़ने वाले पक्षियों की छाती वाली हड्डी पर स्थित मानकैरिना कील या मुँडेर ।
kenenchyma—(Gk. *kenos*, empty; *engechyma*, infusion) कैननकाश्म; निष्प्राण-टिशु जैसे कार्क (cork) ।
keraphyllous—(Gk. *keras*, horn; *phyllon* leaf) शृंगान्तरः किराफिनस; मुर के शृंगीय और संबंधीय भागों के बीच का स्तर ।
keratine—(Gk. *keras*, horn) किरेटिन; सीप, नख या दान बनाने वाला रसायन ।
keratinization—(Gk. *keras*, horn) शृंगीकरण; सीप जैसे पदार्थ वाला बन जाना ।
keratogenous—(Gk. *keras*, horn; *gignesthai*, to produce) शृङ्गोत्पादक ।
keratohyalin—(Gk. *keras*, horn; *hyalos*, glass) किराटोहायलिन, त्वचा में पाया जाने वाला एक पदार्थ ।
keratoid—(Gk. *keras*, horn eidos, resemblance) शृङ्गोपम; शृङ्गानुरूप; सीप जैसा ।
keratose—(Gk. *keras*, horn) सीपदार; शृङ्गदूत-धारी ।
kernel—(A. S. *cyrnel*, small grain) नुकीली; अष्टि । बीज का श्रेष्ठ गुण अन्तर का भाग ।
ketogenic hormone—कैटोजेनिक हार्मोन; घन; उत्पादन प्रभावित करने वाला पीप्टाइडोसैरी का स्तर ।
kidney—कृमि; गुर्दा ।
kinaesthesia—(Gk. *kinein*, to move; *aisthesis*, perception) गतिबोध ।

kinaesthetic

- kinaesthetic**—(Gk. *kinein*, to move; *aisthesis*, perception) गतिबोधक ।
- kinase**—काइनेस; एक प्रकार का क्षोभक रस (enzyme) ।
- kinesiodic**—(Gk. *kinesis*, movement; *hodos*, way) चालक तंत्रिका पथ ।
- kinesis**—(Gk. *kinesis*, movement) आकस्मिक गति ।
- kinesodic**—(Gk. *kinesis*, movement; *hodos*, way) गति उत्तेजना वाहक ।
- kinetic**—(Gk. *kenein*, to move) गत्यात्मक; गति विषयक ।
- kinetoblast**—(Gk. *kinesis*, to move *blastos*, bud) गतिज । किन्हीं जलीय अर्भकों में पाया जाने वाला बाह्य तंत्र युक्त आवरण जिसमें विशेष रूप से गति के लक्षण होते हैं ।
- kinetochore**—(Gk. *kinein*, to move; *horos*, place) गति केन्द्र ।
- kinetogenesis**—(Gk. *kinein*, to move; *gignesthai*, to produce) गतिज-रचनावाद । इस मत (theory) के अनुसार यह माना जाता है कि जन्तुओं की शरीर-रचनाओं (structures) का विकास (evolution) उनकी विविध प्रकार की गतियों (movements) के द्वारा हुआ है ।
- kinetomeres**—(Gk. *kinein*, to move; *meros*, part) गति-अणु; गति-परमाणु ।
- kinetonnucleus**—(Gk. *kinein*, to move; L. *nucleus*, kernel) गति-अणु; गति केन्द्रक ।
- kinetoplasm**—किनेटोप्लाज्म; गति प्ररस ।
- kinetoplast**—(Gk. *kinerien*, to move; *plastos*, formed) गति कण; किन्हीं कपातंत्रियों (mastigophora) में अनुमूलक (parabasal) और अधो पिण्ड (blepharoplast) से मिल कर बना हुआ कण ।
- kinetosome**—(Gk. *kinein*, to move; *soma*, body) काईनटोसोम; गति पिण्ड; मांस स्पोर जनन में एक कण समूह जो ध्रुव प्लेट (polar plate) क्षेत्र में अधिष्ठित होता है ।

kingdom—राष्ट्र; जगत ।

- kinoplasm**—(Gk. *kinein*, to move; *plasma*, mould) काइनोप्लाज्म; आद्य-प्ररस; तारक किरणों तथा तर्कु तन्तुओं के आकर्षण गोलार्ध का एक पदार्थ ।
- kleistogamous**—(Gk. *kleistos*, closed; *gamos*, marriage) अप्रफुलित निषेचित । बन्द पुष्पों में निषेचित ।
- kleronomous**—(Gk. *kleronomos*, heir) वंशागत ।
- klinokinesis**—(Gk. *klinein*, to slope; *kinesis*, movement) आकस्मिक गति ।
- knee**—जानु; घुटना ।
- knephoplankton**—(Gk. *knephes*, twilight; *planktos*, wandering) जानुप्लावी ।
- knob**—शोफ ।
- knobbed**—शोफ युक्त; ग्रन्थिल ।
- knot**—(A. S. *cnotta*, knot) संधि; गाँठ; बंधन; ग्रथि; गंड ।
- kollikeers canal**—(kollier, सुइस जन्तु वैज्ञानिक) कोलीकर की नलिका; कोली कर नलिका ।
- komma**—(Gk. *komma*, clause) पेशी खण्ड ।
- koniocortex**—(Gk. *konis*, dust; L. *cortex*, bark) कणीय वल्कलांश; कार्टेक्स का कणीय भाग ।
- krause's membrane**—(W. J. F. Krause, German anatomist) क्राउस कला; अन्तप्रावर (telophragma); जैड (Z) बिम्ब; रेखित पेशी में एकल या द्वि बिन्दु पंक्तियाँ ।
- kreb's cycle (citric acid cycle)**—क्रेव चक्र (साइट्रिक अम्ल चक्र)—यह चक्र कोशिका के सूत्र-कणिका (mitochondria) से सम्बन्धित होता है जिसमें एन्जाइम का तंत्र (system) होता है । इनके प्रभाव से पाइरूविक अम्ल (pyruvic acid) आक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइ आक्साइड (CO₂) और एटीपी (ATP) जो शक्ति का स्रोत होता है संश्लेषित हो जाता है ।
- kupffer cell**—(K. W. Von Kupffer) German anatomist) कुप्फर कोशिका; यकृत कुल्फोओ की तारोपम दीर्घभक्षक कोशिकाएँ ।
- kyogenic**—(Gk. *kyesis*, pregnancy *genos*, descent) गर्भज ।

L

- Labella**—(L. *labellum*, small lip) लैबिला; पैरा-रओसा; परा-रसना ।
- labellate**—(L. *labellum*, small lip) लैबेलीय; लैबेला युक्त ।
- labelloid**—(L. *labellum*, small lip; Gk. *eidos* form) लैबेलोपम; लैबेलम के आकार वाला ।
- labellum**—(L. *labellum*, small lip) ओंफक; लैबिलम; उदोष्ठ (labrum) के नीचे स्थित दल ।
- labia**—(L. *labium*, lip) होठ; ओष्ठ ।
- labia cercbri**—प्रमस्तिष्क-ओष्ठ; प्रमस्तिष्क-गोलार्ध के तट महासंयोजक पिण्ड (corpus callosum) को ढके हुए ।
- labia majora or labium majus**—बृहत् भगोष्ठ ।
- labia minora or labium minor or minus**—क्षुद्र भगोष्ठ ।
- labial**—(L. *labium*, lip) ओष्ठीय; ओष्ठ-; लेबियल; होठ सम्बन्धी ।
- labial palp**—(L. *labium*, lip, *palpare*, to feel) ओष्ठ-पृष । (१) मौलस्का (mollusca) के मुँह के समीप दल समान (lobe-like) आकृति । (२) कीटों (insects) में लेबियम (labium) पर स्थित सन्धिगुक्त अवयव (jointed appendage) ।
- labiate**—(L. *labium*, lip) ओष्ठीय; ओष्ठोपम ।
- labiatiflorous**—(L. *labium*, lip; *flos*, flower) ओष्ठोपम विभक्त बाह्यदली ।
- labidophorous**—(Gk. *labis*, forceps; *pherein*, to carry) मुचुटी धारी; चिमटी सदृश अङ्गों युक्त ।
- labiella**—(L. *labium*, lip) लेबेला; अपजिह्वा; सहस्र-पादों (myriapod) के मुँह का एक भाग ।
- labiodental**—(L. *labium*, lip; *dens*, tooth) ओष्ठ दन्तीय । होठ या ओष्ठ (lip) और दाँत (tooth) सम्बन्धी ।
- labiosternite**—(L. *labium*, lip; *sternum*, breast bone) लेबियोस्टरनाइट कीटों (insects) के सिर पर स्थित पैलपीजम (palpigers) के बीच का मध्य क्षेत्र (median area) ।
- labiostipes**—(L. *labium*, lip; *stipes*, stalk) लेबियोस्टाइपीज; कीटों (insect) के लेबियम (labium) के मूलभाग (basal part) का एक भाग (portion) ।
- labium**—(L. *labium*, lip) प्रत्योष्ठ; लेबियम । कीटों (insects) का संलयित (fused) द्वितीय मैक्सिली (maxillae) ।
- laboratory**—(L. *laborare*, work) प्रयोगशाला ।
- labour**—(L. *labor*, to confine) प्रसव; वच्चा जनने सम्बन्धी ।
- labral**—(L. *labrum*, lip) लेब्रम; प्रोष्ठय; प्रोष्ठ- ।
- labrocyte**—(Gk. *labros*, greedy; *kytos*, hollow) मेदा कोशिका ।
- labrum**—(L. *labrum*, lip) (१) बरोष्ठ; (सन्धि पादों arthropods) में (२) मुखगतट; गैस्ट्रोपोडा (gastropod) में ।
- labyrinth**—(Gk. *labyrinthos*, labyrinth) लेबिरिनथ; काचीय पिण्ड ।
- labyrinth membranous**—आन्तरिक कर्ण या कर्ण यन्त्र ।
- labyrinthodont**—(Gk. *labyrinthos*, labyrinth; *odous*, tooth) विक्रम दन्ती ।
- lac**—(sans. *laksha*, 100,000, hence the terming lac insect) लाक; लासा; कीटाणुओं का गोंद सम पदार्थ विशेष ।
- lacerta**—(L. *lacerta*, lizard) छिपकली वर्ण; मृषी-शीलों (reptiles) का एक वर्ण विशेष ।
- lacerated**—(L. *lacerare*, to tear) व्यवच्छिदी; विपमच्छिन्नी; निर्भिदी ।
- laciniform**—(L. *lacerta*, lizard; *forma*, shape) गोधिकोपम; गृहलिकाकार; छिपकली के आकार का ।
- lachrymal, lacrimal**—(L. *lacrima* tear) आश्रय; अश्रुय; अश्रु सम्बन्धी; लैक्राइमल ।
- lacinia**—(L. *lacinia*, flap) नेमिनिया; मैक्सिला (maxilla) के अन्तःपाद गण्ड (endopodite) या आन्तरिक अवयव (inner appendage) गण्ड ।
- laciniate**—(L. *lacinia*, flap) नेमिनियेट; गून्क दन्त; टन्ने या गुल्क (tarsus) का दन्ध (ligament); विपम-च्छिन्न ।

- lacinula**—(L. *lacinia*, flap) लघुलेसिनिया; लघु प्रत्योष्ठ; लेसीनुला ।
- lacinulate**—(L. *lacinia*, flap) लघुप्रत्योष्ठी; लेसीनुला सम्बन्धी ।
- lacrimal**—(L. *lacrima*, tear) अश्रु-; आश्रव; अलिय; अश्रु सम्बन्धी ।
- lacrimonasal**—(L. *lacrima*, tear; *nasus*, nose) लेक्रीमोनेजल; अश्रु-नासिकीय । अश्रु तथा नासिका सम्बन्धी ।
- lacrimose**—(L. *lacrima*, tear) आश्रव; अश्रुरूपक ।
- lactalbumin**—(L. *lac*, milk; *albumen*, egg-white) लेक्टल अल्ब्यूमिन; दुग्ध प्रदेही ।
- lactase**—(L. *lac*, milk) लेकटेज; दुग्ध शर्करेय; जन्तुओं में पाया जाने वाला एक क्षोभक रस जिससे लेक्टोज (lactose) से ग्लूकोज (glucose) बनता है ।
- lactation**—(L. *lac*, milk) (१) स्तन्यकाल; वह काल या समय जिनमें माताओं (मादाओं) में दुग्ध स्रावन होता है । (२) स्तन्यन; स्तन ग्रन्थियों द्वारा दूध का बनना; स्तन्य स्रवण ।
- lacteal**—(L. *lac*, milk) दुग्ध-वाहिनी; छुद्रांत्र पायस-नलिका; लेक्टियल; लेटेक्स वाहिनी ।
- lactescent**—(L. *lactescere*, to turn to milk) दुग्धोत्पादी, क्षीरजन; लेटेक्सोत्पादक ।
- lactic**—(L. *lac*, milk) दुग्धीय; दूध सम्बन्धी ।
- lactiferous**—(L. *lac*, milk; *ferre*, to carry) दुग्ध वाहिनी; दूधधारो ।
- lactochrome**—(L. *lac*, milk; Gk. *chroma*, colour) दुग्ध-रंजक ।
- lactoflavin**—(L. *lac*, milk; *flavus*, yellow) लेक्टो-फ्लेविन, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी₂; C₁₇H₂₀O₆N₄ ।
- lactogenic**—(L. *lac*, milk; Gk. *genesis*, descent) दुग्ध वर्धी, दूध बढ़ाने वाली; ऐसे रसायन आदि जिनसे माताओं के स्तनों में दूध-स्राव (दूध की मात्रा) अधिक हो जाती है ।
- lactoglobulin**—(L. *lac*, milk; *globulus*, dim, of *globus*, globe) लेक्टों ग्लोब्यूलिन; दुग्ध प्रोटोन्य-दूध में पाया जाने वाला अधुलनशील प्रोटीन विशेष ।
- lactoproteid**—(L. *lac*, milk; Gk. *protos*, first) दुग्ध प्रोटोन्य; दुग्ध प्रोटीड ।
- lactose**—(L. *lac*, milk) दुग्ध शर्करा; दुग्ध मधुरा ।
- lacuna**—(L. *lacuna*, cavity) लेक्यूना; कोष्ठान्तर; हड्डी में का पोला भाग; कोष्ठ मध्यस्थ स्थल ।
- lacunar**—(L. *lacuna*, cavity) सकोष्ठान्तर; कोष्ठान्तरी ।
- lacunose**—(L. *lacuna*, cavity) कोष्ठान्तरी ।
- lacunosorugose**—(L. *lacuna*, cavity; *rugosus*, wrinkled) रेखांकित; गर्तकी; गहरे गड्ढे या नालियों वाले जैसे कुछ बीज या फल ।
- lacustrine**—(L. *lacus*; like) सरसीवासी; झील या सरस (lake) में रहने वाले ।
- laetotropic**—(Gk. *laios*, left; *trepein*, to turn) वामन्त; बाईं ओर झुका या घूमा हुआ ।
- laevulose**—(L. *laevus*, left) फल-शर्करा; फक्टोज; C₆H₁₂O₆ ।
- lagna**—(L. *lagna*, flask) लेजीना; अपान्त कर्ण ।
- lageniform**—(L. *lagna*, flask; *forma*, shape) पलिषाकर; फ्लास्क (flask) की शकल का ।
- lagopodous**—(Gk. *lagos*, hare; *pous*, foot) लोमपादी; पक्षपादी; लोम (hair) या पक्ष (feather) युक्त पैर वाले ।
- lamarckism**—(J.B. *delamarck*, french biologist) लमार्क मत; वह विकास मत जिसमें उपाजित लक्षण वंश परम्परा के द्वारा संतति पर पहुँचाना सम्भव मानते हैं; और इस प्रकार ऐसे लक्षणों द्वारा ही प्राणियों का विकास होना सिद्ध करते हैं ।
- lambda**—(Gk. *lambda*) लम्दा; मस्तिष्क की एक सन्धि ।
- lambdoid**—(Gk. *lambda*) लम्दोपम ।
- lamella**—(L. *lamella*, small plate) फलक; पत्रक; पटल ।
- lamellar, lamellate**—(L. *lamella*, small plate) फलकी; पत्रकी; पतले पत्रकों या फलकों से बना हुआ ।
- lamellibranchiate**—(L. *lamella*, thin plate; Gk. *branchia*, gills) पत्रक-गिली; पत्र-गिली ।
- lamellicorn**—(L. *lamella*, small plate, *cornu*, horn) पत्रशृङ्गक; ऐसे जन्तु जिनमें स्पर्श-शृङ्ग के जोड़ पत्रक के आकार के होते हैं ।
- lamelliferous**—(L. *lamella*, plate; *ferre*, to carry) फलकी; पत्रकी; पत्रधारो ।

lamelliform—(L. *lamella*, plate; *forma*, shape) फलकोपम; पत्रकाकार; फलकाकार ।

lamellirostral—(L. *lamella*, plate; *rostrum*, beak) फलक-चंचु; फलकान्तश चंचु; ऐसे जन्तु जिनके चंचु के आन्तरिक तट फलकाकार कूटों (ridges) से ढंके रहते हैं ।

lamina—(L. *lamina*, plate) पत्र-दल पत्रिका ।

lamina cribrosa—चालनी रूप पट्ट ।

lamina perpendicularies—ऋजु पट्ट; मीसेयमॉइड (mesethmoid) का मध्य प्रवर्धन या इथमॉइड (ethmoid) नासा व्यवधान का अस्थि भाग ।

lamina terminales—अन्त्य पट्ट; मस्तिष्क के तृतीय विवर (third ventricle) की अग्र सीमा बनाने वाला धूसर पदार्थ का पतला स्तर ।

laminar, laminaiform—(L. *lamina*, plate; *forma*, shape) पत्रदली, पत्रिकोपम ।

laminarian—(*Laminaria*, a genus of brown sea weeds) लेमीनेरियन; उयले पानी और पन्द्रह फेदम तक का क्षेत्र ।

lamination—(L. *lamina*, plate) स्तरण; स्तरीकरण; स्तर विन्यास ।

laminiplantor—(L. *lamina*, plate; *planta*, sole of foot) पादुका तल पट्ट; लैमिनिप्लैन्टर ।

lampre—लेमप्रे; एक प्रकार की निहंनु मतस्य विशेष ।

lanate—(L. *lana*, wool) लेनेट; उर्णी; लोमश; महीन-महीन रेशों से ढका हुआ जिससे सतह ऊन की तरह ढकी हुई प्रतीत देती है ।

lance-linear—(L. *lancea*, lance; *linea*, line) कुंत-रेखीय ।

lance-delong—(L. *lancea*, lance; *oblongus*, oblong) कुंत-आयन ।

lanceolate—(L. *lancea*, little lance) श्लयाकार ।

lance-oval, lance-ovate—(L. *lancea*, lance; *ovalis*, oval) श्लयाकार-अंडाकृति ।

lancet—(F. *lancette*, from L. *lancea*, lance) सूचिका ।

languet, languette—(F. *languette*, small tongue) जिह्विकोपम प्रवर्धन; एसीटियन्स के श्लोमकोद (branchial sac) का एक प्रवर्धन ।

land crab—भूककंट; भूकुलीर ।

Langerhan's, islets of—लैंगरहैन्स द्वीपिकाएं ।

laniary—(L. *laniare*, to tear in pieces) कीलक, कीलद-ती ।

lanthanin—(Gk. *lanthanein*, to conceal) लेन्थेनिन; आंक्सीक्रोमेटिन; लेनिन ।

lanuginous—(L. *lanugo*, wool) ऊर्णायु ।

lanugo—(L. *lanugo*, wool) उर्णा-वह, ऊन या उर्ण सहाय्य भ्रूणावरण जिसका जनन से पूर्व ही पतन प्रारम्भ हो जाता है ।

lapidicolous—(L. *lapis*, stone; *colere*, to cultivate) प्रस्तरान्तवासी; पाषाण-अघो वासी; पत्थरों के नीचे रहने वाले जन्तु ।

lapillus—(L. *lapillus*, pebble) लघुकणोदल; लघुकणिकाकण । टिलियोस्ट (teleosts) के कर्णोपव कोष (utriculus) में एक छोटा कणिकाकण (otolith) ।

lappaceous—(L. *lappa*, bur) कण्टकी, शूली ।

lappet—(M. E. *lappe*, loose hanging part) आस्कन्द; लोलक; ढीला लटकता हुआ भाग ।

large intestine—बृहदांत्र ।

larmier—(Fr. *larme*, tear) अश्रुगतं ।

larva—(Gk. *larva*, gnost) अर्भक; लारवा (लार्वा) । अण्डे जनने वाले प्राणियों की वह जीवन अवस्था जिनमें भ्रूण प्रौढ़ बनने से पूर्व स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता है ।

larval—(L. *larva*, ghost) अर्भकीय; लारवीय ।

larviform—(L. *larva*, ghost *forma*, shape) अर्भकोपम; अर्भकाकार ।

larviparous—(L. *larva*, ghost; *parere*, to produce) अर्भकोत्पादी ।

larvivorous—(L. *larva*, ghost; *vorare*, to devour) अर्भकाहारी; अर्भक भोजी ।

larvule—(L. *larvula*, small larva) अर्भक ।

laryngeal—(Gk. *larynx*, upper part of wind pipe) लेरिनजियल; स्वर-बंधीय ।

laryngopharynx—(Gk. *larynx*, larynx; *pharynx*, gullet) लेरिनोफैरिन्स; फेरिन्स का शोमक तानु (soft plate) और निगलक (oesophagus) के बीच का भाग ।

laryngotracheal—(Gk. *larynx*, wind pipe; *L. trachea*, trachea) लेरिजोट्रेकियल; लेरिगस (*larynx*) और श्वास नलिका (*trachea*) सम्बन्धी ।

larynx—(Gk. *laryngx*, *larynx*) लेरिगस; स्वर यन्त्र: पक्षियों के अतिरिक्त अधिकांश कशेरुकों में ।

lasso-cells—संलग्नशील कोशिकायें; टीनोफोरा (*ctenophora*) के टैटिकलस (स्पर्शक) पर सूत्रक गोलाधी संलग्नशील (*adhesive*) कोशिकायें ।

lata-type—उत्परिवर्तिक रूपक; अपने पितृ से एक या एक से अधिक गुणसूत्र वाला उत्परिवर्तित (म्यूटैन्ट) ।

latebra—(*latebra*, hiding place) श्वेतडिम्बान्न पलिघा; अण्डश्वेतपिण्ड ।

latebricole—(*L. latebra*, hiding place; *colere*, to cultivate) बिलवासी; छिद्रवासी ।

latent—(*L. latere*, to lie hidden or *latens*, hidden) सुप्त; अव्यक्त ।

latent bodies—विश्रान्त पिण्ड; अचेष्टावस्था ।

latent period—सुप्तकाल; प्रतिक्रिया काल; उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य का समय ।

lateral—(*L. latus*, side) पार्श्वीय; पार्श्विक; पार्श्व ।

lateral appendage—पार्श्वोपांग; पार्श्व-अवयव ।

lateral fold—पार्श्व भांज ।

lateral fossa—पार्श्व खात ।

lateral hearts—पार्श्व हृदय ।

lateral line—पार्श्व रेखा ।

lateral lobe—पार्श्व दल ।

lateral surface—पार्श्व तल ।

lateral ventricle—पार्श्व-विवर ।

lateralia—(*L. latus*, side) पार्श्व प्लेटें; सिरी-फीडिया की पार्श्व प्लेटें ।

laterigrade—(*L. latus*, side; *gradus*, step) पार्श्वगामी ।

laterinerved—(*L. latus*, side; *nervus*, sinew) पार्श्व शिरी ।

laterocranium—(*L. latus*, side; *cranium*, skull) पार्श्व-कपाल ।

lateral-sensory—(*L. latus*, side; *sensus*, sense) पार्श्व संवेदनांग तंत्र । मत्स्यों का पार्श्व संवेदनांग तंत्र ।

lateroventral—पार्श्वोदरीय; पार्श्व (lateral) और अदरीय (ventral) ।

latex—(*L. latex*, fluid) लेटेक्स; रबड़ क्षीर; रबड़ वृक्षों में पाया जाने वाला दुग्धीय अथवा वर्णक पदार्थ ।

latiplantar—(*L. latus*, side; *planta*, sole of foot) पश्च गोलगुल्फक; लेटीप्लान्टर; गोलाकार पश्च (binder) गुल्फीय तल (*tarsal surface*) वाला ।

latirostral—(*L. latus*, broad; *rostrum*, beak) व्यूढ़ चंचु ।

latiseptate—(*L. latus*, broad, *septum*, septum) व्यूढ़ व्यवधानी ।

latitudinal furrow—अक्ष सीता; विभाजन डिम्ब में विषवत् सीता (*equatorial furrow*) के समानान्तर अक्ष (*latitudinal*) सीता (*furrow*) ।

Laurer Stieda canal—लौरर-स्टीडा नलिका, ट्रिमेटोडा (*trematoda*) में डिम्ब नली (*oviduct*) और डिम्बान्त्री नली (*vitelline canal*) के जोड़ पर स्थित नलिका जो पृष्ठ तल पर खुलती है ।

laurinoxylon—(*L. launes*, laurd; Gk. *xylon*, wood) काष्ठ जीवाश्म ।

law of acceleration—त्वरण मत; यह मत कि अधिक महत्व के अंगों का संवर्धन अधिक तीव्रता से होता है ।

lax—(*L. laxus*, loose) शिथिल; ढीला ।

layer—(*A. S. lay*, to lie) स्तर; पर्त; तह ।

layer of Langhans—(*T. Langhans*, German histologist) लैंगहंस स्तर; अंतःपोषकोरक; साइटो-ट्रोफोब्लास्ट ।

leader—(*A. S. laedan*, to lead) उच्चतम प्ररोह ।

leaf—(*A. S. leaf*, leaf) अधिकतर हरा पर्ण; तने का अभिवर्द्धित फैला हुआ भाग ।

leberidocytes—(*Gk. leberis*, exunia; *kytos*, hollow) ग्लाइकोजनिक सैल (कोशिका) ।

lechriodont—(*Gk. lechrios*, slantwise; *odous*, tooth) संदन्ती ।

Iecithal—(*Gk. lekithos*, egg yolk) पीतकी; डिम्बान्त्री ।

Iecithalbumin—(*Gk. lekithos*, egg-yolk; *L. albumin*, white of egg) लेसोथअल्बुमिन; शरीर के

विभिन्न अंगों में पाया जाने वाला लेसिथिन और अल्बुमिन युक्त पदार्थ ।

lecithelles—(Gk. *lekithos*, egg yolk) डिम्बान्न कण ।

lecithin—(Gk. *lekithos*, egg-yolk) लेसिथिन; धोक; डिम्बान्न ।

lecithoblast—(Gk. *lekithos*, egg-yolk; *blastos*, bud) योकज ।

lecithocoel—(Gk. *lekithos*, egg-yolk; *koilos*, hollow) डिम्बान्न कोटर; लेसिथोसील ।

lectotype—(Gk. *laktos*, chosen; *typos*, image) लेक्टोटोइप; उद्भूतादर्श; संकलितादर्श; सकलित प्रति रूप ।

legume—(L. *legumen*, pulse) फली; लेग्युमिनोसी कुल का फल; यह एकाण्ड्य तथा सुपीरियर अण्डाशय से बनता है तथा पका फल दोनों सीवन-रेखा (sutures) से फटता है । उदाहरण—मटर, सेम तथा दालें (pulses) ।

legumin—(L. *legumen*, pulse) लेग्युमिन, लेग्युमिनोसी के बीज में पाया जाने वाला ग्लोबुलिन (globulin) ।

leech—(A. S. *laece*; one who heels) जोंक; रक्ता; जलाका; जलालुका; जलिका; जलुका; जलूका ।

leg—(ice. *leggr*, a leg) टांग ।

leiotrichus—(Gk. *leios*, smooth; *thring*, hair) सरललोमी ।

lemma—(Gk. *lemma*, husk) लेमा; शल्कवत सहपत्र; गेहूँ, जी आदि में स्पाइकिका (spikelets) के प्रत्येक पुष्प के लुप के अन्दर की ओर दो शल्कवत सहपत्र होते हैं । इनके सिरे झुक युक्त (awned) होते हैं जो लेमा (lemma) कहलाते हैं । लेमा के अन्दर एक सहपत्रिका (bracteole) होती है जिसे पोलिया (pelca) कहते हैं ।

lemniscus—(Gk. *lemniscus*, fillet) केशाना; बंधन; बंध । (१) एकन्धोविन्कनान (acanthocephalan) शृंङ के आधार पर स्थित दो में से एक मुद्दराकार अंग । (२) प्रमस्तिष्क के वृत्त (peduncles) के दोनों ओर सूत्र केशाना (बंध) ।

lenitle—(L. *lenis*, smooth) स्थित जन जीवी (नेगिटिव) । [देहिदे-iotic सरिता जल जीवी]

lens—(L. *lens*, lentil) लेन्स; ताल ।

lentic—(L. *lentus*, slow) स्थिर जन जीवी ।

lenticel—(L. *lens*, lentil) प्रवात कोशिका: प्रवात छिद्र । (१) आवृत बीजी (angiosperous) के तने या जड़ों के प्रवात (ventilating) छिद्र; (२) कॉर्क (cork) के छिद्र ।

lenticular—(L. *lenticular*, *dim*, of *lens*, lentil) मसूरोपम; मसूराकार ।

lenticular nucleus—मसूर-अष्टि: मसूरोपम-केन्द्रक ।

lentiform—(L. *lens*, lentil; *forma*, shape) मसूराकार: मसूरोपम ।

lentigerous—(L. *lens*, lentil; *gerere*, to bear) तालयुक्त: लेन्सधारी ।

lentiginose = lentiginous—(L. *lentigo*, freckle) चित्तीदार ।

lento-capillary point—प्रवात-केशिका बिन्दु । वह बिन्दु जिस पर नल तनाव के कारण मूल रोगों में जन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है ।

leopard—(Gk. *leopardos*, lion pard) चीता ।

lepidodendroid—(Gk. *lepis*, scale; *dendron*, tree; *eidos*, like) लेपीडोड-ट्राइड; पत्राकिन सफलरी । वृक्षोपम शल्करी ।

lepidophyte—(Gk. *lepis*, scale; *phytos*, plant) लेपीडोफाइट; फनकुल का एक जीवाश्म पौधा ।

lepidopterous—(Gk. *lepis*, scale; *pteron*, wing) शल्कीपक्षक; ऐसे जन्तु पतंगे (moths) व पतंगे (butterflies) आदि जिनके पक्ष (wings) सूक्ष्म शल्को (small scales) से ढके रहते हैं ।

lepidosteoid—(Gk. *lepis*, scale; *osteon*, bone; *eidos*, form) लेपीडोस्टोइड; कोस्मीन (cosmine) हीन गैनोइड शल्क ।

lepidote—(Gk. *lepis*, scale) सूक्ष्म शल्की ।

lepidotic—(Gk. *lepis*, scale) लेपीटोटिक; पक्ष-बन्धन ।

lepidotrichia—(Gk. *lepis*, scale; *thrix*, hair) शल्क-बंधन ।

lepoocyte—(Gk. *lepis*, husk; *kytos*, hollow) स्पष्ट भित्ती कोशिका, स्पष्ट भित्तिक कोशिका ।

lepospondylous

- lepospondylous**—(Gk. *lepos*, husk; *spondylous*, vertebra) उभयगतिक (कशेरु) ।
- leptocentric**—(Gk. *laptos*, slender; *kentron*, centre) पोषवाहोतक सकेन्द्रीय पोटलिका; केन्द्रीय पोषवाहोतक (leptome) को घेरे हुए सकेन्द्रीय पोटलिका (concentric bundle) ।
- leptocephaloid**—(Gk. *leptos*, slender; *kephale*, head; *eidōs*, form) ईलार्भकोपम; ईल (eel) मत्स्य के अर्भक (larva) के सदृश ।
- leptocercal**—(Gk. *leptos*, slender; *kerkos*, tail) लेप्टो सरकल; प्रलम्ब-पुच्छी; कृश-पुच्छी ।
- leptodactylous**—(Gk. *leptes*, slender; *daktylos*, finger) पलम्बांगुलिक; कृशांगुलिक ।
- leptodermatous**—(Gk. *leptos*, slender; *derma*, skin) तनुचर्मी; कृश-चर्मी; पतली खाल वाला ।
- leptome**—(Gk. *leptos*, slender) लेपटोम; पोषवाहोतक; पादप स्तम्भों का पनोद्गम सदृश द्रव वाहक ऊतक ।
- leptomeninges**—(Gk. *leptos*, slender; *meninx*, membrane) तनु मस्तिष्काच्छद; कोमलाच्छद (pia-meter) और अरेकनाइड कला ।
- leptonema**—(Gk. *leptos*, slender; *nema*, thread) प्रलम्ब सूत्र; कृश सूत्र; तनु सूत्र ।
- leptophloem**—(Gk. *leptos*, slender; *phloios*, smooth bark) तनुपोषवाह; तनुफ्लोएम ।
- leptophyllous**—(Gk. *leptos*, slender; *phyllon*, leaf) तनुपर्णी ।
- leptosoma**—(Gk. *leptos*, slender; *soma*, body) प्रलम्ब या कृश पिण्ड; तनु पिण्ड ।
- leptosporangiate**—(Gk. *leptos*, slender; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) तनुबीजाणुधानीय (पर्णाग-फन) । [देखिये—eusporangiate-यूबीजाणुधानीय]
- leptostroterate**—(Gk. *leptos*, slender; *strotos*, covered) तनुबीधी पट्ट ।
- leptotene**—(Gk. *leptos*, slender; *tainia*, band) तनु पट्ट; प्रलम्ब; कृश-सूत्री; तनु सूत्री; ह्रास-विभाजन (meiosis) की वह प्रारम्भिक पुरास्थिति (prophase), जिसमें क्रोमेटिन (chromatin) सूक्ष्म सूत्रों के रूप में रहता है ।

- leptotrombicula**—(Gk. *leptos*, slender; H. *tromba*, trumpet) ट्रोमबीकुला अर्भक ।
- leptoxylem**—(Gk. *laptos*, slender, *xylon*, wood) तनुजाइलम; तनुदारु; तनुकाष्ठीय ऊतक ।
- lepto-zygotene**—(Gk. *leptos*, slender, *zygōn*, yoke; *tainia*, band) लेप्टोजाइगोटीन; तनुयुग्मिक सूत्रक; तनुसूत्र (leptonema) और (zygonema) की अवस्थांतर (transition) स्थिति ।
- leptus**—(Gk. *leptus*, small) लेप्टस; कीटाभक विशेष ।
- lethal**—(L. *letum*, death) प्राणान्तक ।
- lethality**—(L. *letum*, death) मृत अनुपात ।
- leuceine**—(Gk. *leukos*, white) ल्यूमेन; श्वेतन्य ।
- leucine**—(Gk. *leulos*, white) ल्यूसीन; कुछ पौधों और जन्तुओं के कुछ ऊतकों व अंगों में पाया जाने वाला अमीनो कपरोइक अम्ल; $C_6H_{12}O_2N$ ।
- leucism**—(Gk. *leukos*, white) ध्वलपक्षता; ध्वल-रोमशता; जन्तुओं में रंगीन चक्षु व त्वचा होते हुए भी ध्वल पक्ष या रोम का होना । जन्तुओं में रंगीन चक्षु व त्वचा होते हुए भी ध्वल (सफेद) पक्ष या रोम से ढके होना ।
- leucite**—(Gk. *leukos*, white) निरंगाणु ।
- leuco-also leuko**—श्वेत; निरंग ।
- leucoblast**—(Gk. *leukos*, white; *blastos*, bud) श्वेतज ।
- leucocarpous**—(Gk. *leukos*, white; *karpos*, fruit) श्वेतफली ।
- leucocyan**—(Gk. *leukos*, white; *kyanos*, dark blue) लूकोसियान, किन्हीं शैवाल (एल्गी) में पाया जाने वाला वर्ण ।
- leucocyte**—(Gk. *leukos*, white; *kytos*, hollow) श्वेताणु; रक्त के सफेद कण ।
- leucocytogenesis**—(Gk. *leukos*, white; *kytos*, hollow; *genesis*, descent) श्वेत कोशिका जन ।
- leucophore**—(Gk. *leukos*, white; *pherein*, to bear) पीत कोशिका; द्युति कोशिका ।
- leucoplastids**—(Gk. *leukos*, white, *plastos*, formed) श्वेत-प्लास्टिड; श्वेत कणिका ।

leucoplasts—(Gk. *leukos*, white; *plastos*, formed) नीरंग-कण ।

leucopoiesis—(Gk. *leukos*, white; *poiesis*, making) श्वेतकर्णज ।

leucopterine—(Gk. *leukos*, white; *pteron*, wing) ल्यूकोप्टरीन; तनुपक्षकों का श्वेत वर्ण; $C_{19}H_{19}O_{11}N_{15}$ ।

levator—(L. *levare*, to raise) लैवेटर; उत्थापिका; किसी अङ्ग या भाग को ऊपर उठाने वाली मांस पेशी ।

Leydig's cell—(F. von, *leydig*, german anatomist) लेडिग कोशिका; वीर्य ग्रन्थि (testicular) सम्बन्धी मध्यान्तर (interstitial) तन्तु या ऊनक (tissue) कोशिका (cell) ।

Leydig's duct—वृत्कीयन नलिका ।

Leydig's organ—लैडिग-अंग; आर्थोपीडा (सन्धि पादों) के स्पर्शक (एन्टीना) पर स्थित सूक्ष्म गंधांग ।

liana, liane—(F. *liane*, from L. *Ligare*, to bind) काष्ठीय बल्लरी ।

lias—जुरैसिक महाकल्प के साइकड (cycad) कीट, एमोनाइट्स, सौरियन (saurian) तथा अन्य जीवाश्मों के न्यास (deposits) ।

liber—(L. *liber*, inner bark) अन्दरूनी छाल; अंतः-बल्कल ।

libido—(L. *libido*, desire) कामोत्तेजना ।

libiziform—(L. *liber*, inner bark; *forma*, shape) अंतःबल्कलीपम ।

Lichens—**Lichenes**—(Gk. *leichen*, liverwort) शैक; लाइकिन्स; एक कवक (फंगस) और एक शैवाल (एल्गा) दोनों के सहजीवन से बना द्वैत (dual) अंगी पौधा । इस सह जीवन का कवक सामान्यतः एस्कोमाइसिटी (Ascomycete) या कभी-कभी बेसिडियोमाइसिटी (Basidiomycete) और शैवाल हरा क्लोरोफाइटा (Chlorophyta) या नीला हरा सायनोफाइटा (Cyanophyta) होता है । इस समुदाय के पौधे वृक्षों के तनों पर, पुरानी दीवारों पर, जमीन पर या मृत्तिका चट्टानों आदि पर पाये जाते हैं ।

lichenism—(Gk. *leichen*, liverwort) लाइके-निजम; फन्धई और एल्गी का सहजीवनता ।

lichenoid—(Gk. *leichen*, liverwort; *eidos*, form) लाइकन वत, लाइकन सदृश; लाइकन रूपी ।

lichenology—(Gk. *leichen*, liverwort; *logos*, discourse) लाइकेन विज्ञान; शैक विज्ञान ।

liberkuhn's crypts—(J. N. *lieberkuhn*, german anatomist) लिबरखुन गुहिका; छुद्रांत्र (small intestine) की नलिकाकार (tubular) ग्रन्थियाँ (glands) ।

lien—(L. *lien*, spleen) प्लीहा; तिल्ली ।

lienal—(L. *lien* spleen) प्लीहैय; तिल्ली सम्बन्धी ।

lienculus—*dim.* of L. *lien*, spleen) निनकुलस; महायी प्लीहा ।

lienogastric—(L. *lien* spleen; *gaster*, stomach) प्लीहा-आभासिक; प्लीहा (spleen) और आभासय (stomach) सम्बन्धी ।

life cycle—जीवन चक्र; जीवन चक्र ।

life-history—जीवन इतिहास ।

ligament—(L. *ligamentum*, bandage) लिगामेंट; बंध; पेशी बंध; रेशे युक्त सूत्रीय बंध ।

ligneous—(L. *lignescere*, to become woody) काष्ठीय ।

lignescence—(L. *lignescere*, to become woody) काष्ठता; काष्ठीय ऊतक के लक्षणों को विकसित करना ।

lingnicolous—(L. *lignum*, wood; *colere*, to cultivate) कोष्ठोपजीवी; काष्ठोद्भिद ।

lignification—(L. *lignum*, wood; *facere*, to form) काष्ठोत्पन्नता; काष्ठ निर्माणता ।

lignin—(L. *lignum*, wood) लिगनिन; पदार्थ जो सेल्यूलोज के साथ मिलकर पादप कोशिका भित्ति में काष्ठ बनाता है ।

lignivorous—(L. *lignum*, wood; *vorare*, to devour) काष्ठाहारी ।

lignocellulose—(L. *lignum*, wood; *cellula*, little cell) लिगनोसेल्यूलोज; लिगनिन और सेल्यूलोज मिला पदार्थ जो पौधों में काष्ठ का निर्माण करता है ।

lignose—(L. *lignum*, wood) लिगनोस (सेल्यूलोज) की एक शिखर ।

ligula—(L. *ligula*, little tongue) लिगुला; उपजिह्वा ।

ligulate

- ligulate**—(L. *ligula*, little tongue) जीभिका युक्त ।
- ligule**—(L. *ligula*, little tongue) लिगूल ।
(१) पर्णफलक और पर्णवृन्त (petiole) की सन्धि पर कला अविवर्धन । (२) एनोलिड के परापाद (parapodium) की एक पालि (lobe) । (३) सिलेजीनेला (*Seleginella*) और आइसोटोज (*Isotes*) में पर्णाधार के उध्वन्तल पर एक शल्क (scale) ।
- liguliflorous**—(L. *ligula*, little tongue; *flos*, flower) लिगूलपुष्पी; केवल लिगूल युक्त पुष्प वाला ।
- limacel**—(F. from L. *limax*, slug) तुषाकशेष; लिमासल ।
- limaciform**—(L. *limax*, slug; *forma*, shape) स्लगोपम; स्लग (slug) के आकार वाला ।
- limb**—(A. S. *lim*, limb) अवयव; हाथ पाँव; पाद; पंख; शाखा ।
- limbic**—(L. *limbus*, border) तटी ।
- limbous**—(L. *limbus*, border) तटोपरितट सेवनी ।
- limbus**—(L. *limbus*, border) तट ।
- limen**—(L. *limen*, threshold) ग्रहावग्रहणी; प्रत्यक्ष निम्नतम उत्तेजना ।
- limicolous**—(L. *limus*, mud; *colere*, to dwell) कर्दमवासी; पंकवासी ।
- liminal**—(L. *limen*, threshold) ग्रहावग्रहणी सम्बन्धी; प्रत्यक्ष निम्नतम उत्तेजना सम्बन्धी ।
- limivorous**—(L. *limus*, mud; *vorare*, to devour) कर्दमभोजी; पंकाहारी ।
- limnetic**—(Gk. *limne*, marsh) कर्दमी; सरसी; झील जीवी ।
- limuology**—(Gk. *limne*, marshy lake; *logos*, discourse) स्थिर जल विज्ञान; सरोविज्ञान ।
- limnophilous**—(Gk. *limne*, marsh; *philein*, to love) कर्दम समृद्धी; तालरागी ।
- limnophyte**—(Gk. *limne*, marshy lake; *phyton*, plant) कर्दम पादप; जलाशय पौधे ।
- limnoplankton**—(Gk. *limne*, marsh; *planktos*, wandering) कर्दम प्लावी; सरोवर प्लवक ।
- limosphere**—(Gk. *limen*, receptacle; *sphaira*, globe) लिम्नोस्फीयर; लिमोस्फीयर; कुछ मांस

(mosses) में शुक्राणुजनन (spermiogenesis) में ब्लेफैरोब्लास्ट (blepheroblast) के समीप स्थित एक गोलाकार पिण्ड ।

linea—(L. *linea*, line) रेखिक; रेखाकार; आकृति या चिन्ह ।

linear—(L. *linea*, line) रेखिय; सूत्राकार; रेखाकार ।

linellae—(L. *linella*, fine thread) तन्तु तंत्र; कुछ सारकोडाइना (*Sarcodina*) में विदेशी कायों (xenophya) को घेरे हुए तन्तु तंत्र ।

lineolate—(L. *linea*, line) सूक्ष्म रेखीय; संकीर्ण रेखांकित ।

lingua—(L. *lingua*, tongue) रसनक; जीभ (कीटों insects की) ।

lingual—(L. *lingua* tongue) जीभी; जीभ-सम्बन्धी ।

lingula—(L. *lingula*, little tongue) लिंगुला; जिह्वाकार प्रवर्धन (process) ।

linin—(L. *linum*, flax) लिनिन; ललितसूत्र ।

lininoplast—(L. *linum*, flax; Gk. *plastos*, moulded) प्ररसकण ।

lining—अस्तर ।

linkage—(M. E. *linke*, link) संयुज लक्षण; सहलग्नता; सम्बद्धता; ऐसे पैतृक गुण (hereditary factors) जो कई एक (several) संततियों (generations) तक साथ-साथ रहें । एक गुणसूत्र के समस्त जीव एक संयुज समुदाय बनाते हैं ।

Linnaean—(C. *linne* or *linnaeus*, swedish naturalist) लीनियस वर्गीकरण विधि ।

lip—(A. S. *lippa*, lip) ओठ; ओष्ठ; होठ ।

lip cell—बीजाणुधारी कोशिका ।

lipase—(Gk. *lipos*, fat) लाईपेज; वसा विदलन सोमक ।

lipides—(Gk. *lipos*, fat) लिपिडज; वसाघुलनशील विजातीय यौगिक (heterogeneous compounds) ।
[देखिये—lipoids—फैटी पदार्थ]

lipines—(Gk. *lipos*, fat) लिपिन्ज; यौगिक लिपिडज ।

lipochondria—(Gk. *lipos*, fat; *chondros*, grain) लिपोइड कण (गौलगी क्षेत्र में) ।

lipochrin—(Gk. *lipos*, fat; *ochros*, sallow) लिपोक्रिन; प्रकाश से नीरंग पीत लिपोइड कणिका ।

lipochrome

lipochrome—(Gk. *lipos*, fat; *chroma*, colour) वसा रक्तज; मेदवर्ण; वसा में घुलनशील रङ्ग ।

lipoclastic—(Gk. *lipos*, fat; *ktastos*, broken) वसाविदलन ।

lipogastry—(Gk. *leipesthai*, to be lacking; *gaster*, stomach) अस्वाइँ जठर गुहा अवरुद्धता, (जैसे—कुछ स्पर्ज में) ।

lipogenous—(Gk. *lipos*, fat; *genos*, birth) मेदोत्पादी ।

lipohumour—(Gk. *lipos*, fat; L. *humor*, moisture) लिपोह्यूमर, तंत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न वसा घुलनशील पदार्थ ।

lipoid—(Gk. *lipos*, fat; *eidos*, form) लिपोइड; कोशिकीय वसा; फैटी पदार्थ जैसे स्टीरोल, कैरोटीन आदि ।

lipolytic—(Gk. *lipos*, fat; *lyein*, to reduce) वसा घोलक; चर्बी घटाने वाले ।

lipomerism—(Gk. *leipesthai*, to be lacking; *meros*, part) सण्हावरुद्धता ।

lipopalingenesis—(Gk. *leipesthai*, to be lacking; *palin*, anew; *genesis*, descent) स्थिति लंघन; जातिवृत्त (phylogeny) में किसी स्थिति या स्थितियों का लंघन (ommission) ।

lipostomy—(Gk. *leipesthai*, to be lacking; *stoma*, mouth) क्षणिक मुसहीनता ।

lipotropic—(Gk. *lipos*, fat; *tripe*, turn) वसा अपनयनी; वसा उपापजय प्रभावी ।

lipoxenous—(Gk. *lepesthai*, to be lacking; *xenos*, host) पोषक परित्याग; पोषक त्याग; वर्धन पूर्ण होने से पूर्व ही पोषक का त्याग ।

liquid—(L. *liquidus*, fluid) द्रव; तरल पदार्थ ।

lirella—(L. *lira*, furrow) लिरेला; लाइकिन्स का रेखीय ऐपोथीसियम ।

lissencephalous—(Gk. *lissos*, smooth; *engkephalos*, brain) सपाट-मस्तिष्की ।

lissoflagellate—(Gk. *lissos*, smooth; L. *flagellum*, whip) अमेरिना-कपी; कण्ठाहीन कपी ।

lith—कणिका; उपल ।

lithite—(Gk. *lithos*, stone) कणिका; खरिक खान; अश्मक ।

lithocarp—(Gk. *lithos*, stone; *kerpos*, fruit) फलाशय; फलकण ।

lithocysts—(Gk. *lithos*, stone; *kystis*, bladder) कणिका-कोष्ठ; अश्मपुरी ।

lithodesma—(Gk. *lithos*, stone; *desma*, bond) खरिक बंध; कुछ द्विकपर्णी (bivalve) में पाई जाने वाली कपर्णकार (shelly) लघुपट्ट (small plate) ।

lithodomous—(Gk. *lithos*, stone; *demain*, to build) चट्टान वासी; शिलावस; शैलदरवासी ।

lithogenous—(Gk. *lithos*, stone; *genos*, birth) प्रस्तर जन; शिलोत्पादी; शैलजन ।

lithophagous—(Gk. *lithos*, stone; *phagein*, to eat) कणिकाहारी; प्रस्तर निखन; शैलाहारी ।

lithophilous—(Gk. *lithos*, stone; *philein*, to love) शिलोपजीवी; शैलरागी; शैलचर ।

lithophyll—(Gk. *lithos*, stone; *phyllon*, leaf) पर्णाश्रम ।

lithophyte—(Gk. *lithos*, stone; *phyton*, plant) शैलोद्भिद् ।

lithosere—(Gk. *lithos*, stone; L. *screre*, to put in a row) प्रस्तर वनस्पति श्रम; शैल वनस्पति श्रम ।

lithotomous—(Gk. *lithos*, stone; *temnein*, to cut) शिला भेदक; शिलाच्छेदक ।

litoral—(L. *litus*, sea-shore) सागरतटी ।

little finger—कनिष्ठा; छिगुली अँगुली; छोटी अँगुली या उँगली ।

Littre's glands—(A. Littre, French Surgeon) लिटरेज ग्रन्थि; मूत्र मार्ग दर्शक ग्रन्थि ।

liver—(A. S. *lifer*, liver) यकृत; जिगर ।

liver-pancreas—यकृत-पैंक्रियाज; मोतस्क और पस्टे-शिया में विशिष्ट अंग जो यकृत और अग्नाशय दोनों के कार्य करता है ।

liver fluke—जिगर क्यूक-एक परजीवी. (पट्टेही platyhelminthes) का ।

living—(A. S. *lifs*, life) सजीव; जीवित ।

living organism—सजीव; प्राणी या प्राणि ।

lizard—द्विपत्नी; पोषक ।

lobate

lobate—(Gk. *lobes*, lobe) दली; दलयुक्त; पालि युक्त ।

lobe—(L. L. *lobus*, from Gk. *lobos*, lobe) दल; पालि; किसी अङ्ग का गोलाकार प्रवर्धन ।

lobed—(Gk. *lobos*, lobe) दली; दल युक्त; सपालि ।

lobopodia—(Gk. *lobos*, lobe; *pous*, foot) मुखरा पाद; पालिपाद; एक कोशिकीय (protozoa) जन्तुओं का मुखरा अस्थिर पाद (blunt pseudopodia) ।

lobose—(Gk. *lobos*, lobe) दली; दल युक्त; पालि युक्त ।

lobular—(Gk. *lobos*, lobe) दलोपम ।

lobulate—(Gk. *lobos*, lobe) दलीय; पालकीय; सपालिक ।

lobule—(Gk. *lobos*, lobe) दलिका; पालिका ।

local—(L. *locus*, a place) स्थानीय ।

localisation of function—व्यापार स्थिरता या स्थिरीकरण; व्यापार स्थानीकरण ।

localisation of sensation—वेदना स्थिरता या स्थिरीकरण ।

locality—(L. *locus*, a place) स्थल; स्थान प्रदेश ।

locally—स्थानतः ।

locellus—(L. *locellus*, from; *locus*, place) डिम्व-ग्रन्थि खण्ड ।

locomotion—(L. *locus*, a place, *motum*, to move) चालन; गति ।

locomotion rods—रेंगन शलाका; किन्हीं निमेटोडा (Nematoda) के अधर तल पर स्थित हुक या गंड युक्त रेंगने वाली शलाकायें ।

locomotory—(L. *locus*, a place; *motum*, to move) गतिशील; गतिकारक ।

ocular—(L. *oculus*, little place) कोष्ठकी ।

oculicidal—(L. *oculus*, little place; *caedere*, to cut) लोक्यूलिसाइडल (फल); इसमें प्रत्येक कोष्ठ अपने डार्सल सीवन रेखा (dorsal suture) से फटना है, जैसे भिण्डी, कपास ।

oculus—(L. *oculus*, dim. of *locus*, place) गुहिका; कोठरी; कोष्ठक ।

locus—(L. *locus*, place) लोकस; उत्तेजना स्थान; गुणसूत्र में जीन का स्थान ।

lodicule—(L. *lodricula*, coverlet) लोडीक्यूल; घासों में डिम्बाशय के आधार पर एक शल्क जो परिदल पुंज (perianth) को प्रदर्शित करता है ।

lodix—(L. *lodix*, blanket) लोडिक्स; जनन पट्ट आच्छादित पट्टिका तनु पक्षों (Lepidoptera) में सातवें उदरीय खण्ड की जनन पट्ट को घेरे अधरीय (ventral) पट्टिका (sclerite) ।

locust—(L. *locusta*, locust) शलभ; टिड्डी ।

loma—(Gk. *loma*, fringe) गोट; लोमा ।

lomastome—(Gk. *loma*, hemi; *stoma*, mouth) ओष्ठतटनती (छिद्र) ।

lomentaceous—(L. *lomentum*, bean meal) लोमेन्टमघारी; फलीघर ।

longicorn—(L. *longus*, long; *cornu*, horn) लम्न शृङ्गी; दीर्घशृङ्गी ।

longipennate—(L. *longus*, long; *penna*, wing) लम्ब पंखी; दीर्घ पंखी ।

longirostral—(L. *longus*, long; *rostrum*, beak) लम्ब चंचुरु ।

longitudinal section—लम्बकाट (कर्तन); अनुदैर्घ्य (काट) ।

loop—शिक्य; पाश; लूप; फन्दा ।

loph—(Gk. *lophos* ridge) मुँडेर; कूः; मेड़ ।

lophiostomate—(Gk. *lophion*, small crest; *stoma*, mouth) कूट छिद्र ।

lophobranchiate—(Gk. *lophos*, crest; *branchia*, gills) कूटगिली ।

lophocalthrops—(Gk. *lophos*, crest; *A. S. Coltraepp*, kind of thistle) कूटअरी (स्पीक्यूल) ।

lophocercal—(Gk. *lophos*, crest; *kerkos*, tail) कूट पुच्छी; मेड़ पुच्छी ।

lophodont—(Gk. *lophos*, crest; *odous*, tooth) मेड़-शिरस्क (दाँत); ऊपरी तल पर अनुप्रस्थ (transverse) मेड़-युक्त (चब्रक दाँत) ।

lophophore—(Gk. *lophos*, crest; *pherein*, to carry) अश्वपादोपम; स्पर्शक धारक ।

lophoselenodont—(Gk. *lophos*, crest; *selene*, moon; *odous*, tooth) चन्द्राकार मेड़-शिरस्क (दाँत) ।

Iophosteon

- Iophosteon**—(Gk. *lophos*, ridge; *osteon*, bone) स्टेनम भेद; वक्षास्थकूट ।
- Iophotriacene**—(Gk. *lophos*, ridge; *triaina*, trident) कूटधरी (स्पीक्यूल) ।
- Iophotrichous**—(Gk. *lophos*, ridge; *thrix*, hair) गुच्छ-सूत्री ।
- Ioral**—(L. *lorum*, thong) लोर स्थिति; चंचुनेत्रांतर स्थली ।
- Iorate**—(L. *lorum*, thong) वध्रोपम (वध्र = strap) ।
- Iore**—(L. *lorum*, thong) लोर; पक्षियों में चोंच तथा आंसु के बीच का स्थान; चंचुनेत्रांतर ।
- lorica**—(L. *lorica*, corselet) लोरिका; रंजीकर (rotifers) आदि का बाह्य रक्षावरण; वर्मिका ।
- loricate**—(L. *lorica*, corselet) लोरिका-वृक्त, वर्मिकाकार ।
- lorulum**—(L. *dim.* of *lorum*, thong) लघु वध्रोपम ।
- lorum**—(L. *lorum*, thong) वस्त्रा । (१) कुछ कीटों में अधोहनु का एक दृक जिस पर प्रत्योष्ठ मूल (submentum) आधारित होता है । (२) मकड़ी (spider) में सूका (pedicle) को आरक्षण प्रदान करने वाली पृष्ठ पट्ट या पलेट ।
- lotic**—(L. *lotum*, flowed against) सरितावासी ।
[देखिये—विलोम lentic—स्थिर जलीय]
- loxodont**—(Gk. *loxos*, oblique; *odous*, tooth) लोसलोटोडेंट; लीक दन्ती; ऐसे जन्तु जिनकी डाढ़ या चुबक दन्त (molar teeth) की सतह पर उबले (shallow) लीक (grooves) भेड़ों के मध्य (between the ridges) में होते हैं ।
- Luciferase**—(L. *lux*, light; *ferre*, to carry) लूसीफिरेस; प्रकाशजन्य (एन्जाइम); एक वाक्सीकारक एन्जाइम जो लूसीफेरिन (luciferin) को प्रभावित कर संदीप्तिता (luminescence) प्रदान करता है ।
- luciferin**—(L. *lux*, light; *ferre*, to carry) लूसीफेरिन ।
- lower jaw**—अधोहनु ।
- lumbar**—(L. *lumbus*, loin) कटि—कटि सम्बन्धी ।
- lumbocostal**—(L. *lumbus*, loin; *costa*, rib) कटि-पुशंक ।
- lumbosacral**—(L. *lumbus*, loin; *sacrum*, sacred) कटि शिकी; कटि सैधत ।
- lumbriciform**—(L. *lumbricus*, earthworm; *forma*, shape; Gk. *cidus*, form) भृदकीटाकार; केंचुपे के आकार का ।
- lumen**—(L. *lumen*, light) वृताङ्ग; कोटर; नृमन; नलिका कोटर; अन्तः स्थल; पुटी ।
- luminescent organs**—प्रकाशोत्पादक अंग ।
- lunar**—(L. *luna*, moon) लूनर; कर्भास्थि (carpal bone) विशेषः अर्धचन्द्राकार वृक्त ।
- lunate**—(L. *luna*, moon) अर्धचन्द्राकार; आंनिक चन्द्राकार ।
- lunette**—(F. *lunettes*, spectacles) लूनेट; नृष की पारदर्शक अधर पलक (lower eye lid) ।
- lung**—(A. S. *lunge*, lung) फेफड़ा; फुफ्फुस ।
- lung book**—पुस्तक-फुफ्फुस; पृष्ठोपम फुफ्फुस ।
- lunula**—(L. *lunula*, small moon) नर चन्द्रिका ।
- lunular**—(L. *lunula*, small moon) चन्द्रांशिक; चन्द्रचिह्नित ।
- lunule**—(L. *luna*, moon) नर चन्द्रिका; नव चद्रांक ।
- lunulet**—(L. *lunula*, small moon) लघु नर चन्द्रिका ।
- lupulin**—(L. *lupus*, hop) लूपुलिन; अंबिक गोणिक; $C_{21}H_{33}O_4$ ।
- luteal**—(L. *luteus*, orange yellow) लूटियम (हार्मोन); कॉर्पस लूटियम (corpus luteum) की कोशिका सतह नूटेन और पैरानूटेन कोशिकाएँ ।
- lutein**—(L. *luteus*, orange yellow) लूटेन; शिश्वाश्रु का पीला रंग; $C_{45}H_{74}O_2$ ।
- luteination**—(L. *luteus*, orange yellow) कॉर्पस लूटियम निर्माण; पीतपिटीकरण ।
- luteinisation**—(L. *luteus*, orange yellow) गर्भमा लूटियम निर्माण ।
- luteinising hormone**—लूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोतास बी (पिट्यूटरी हार्मोन); (LH); जनसको से पिट्यूटरी के अवनत द्वारा लूटियम जनन यदि पैरानूटेन हार्मोन

(gonadotrophic hormone) । मादाओं में अंडाशयों (ovaries) के ऑइस्ट्रोजन उत्पादक (oestrogen producing) ऊतक को उत्तेजित करता है तथा अंडाशयी पुटकों (ovarian follicles) के अन्तिम वर्धन स्थितियों को प्रोत्साहित कर अण्डोत्सर्ग कराता है । स्तनी में कॉर्पस ल्यूटियम (corpus luteum) अर्थात् पीतपिण्ड के अभिवर्धन का सूत्रपात करता है । नर में कृषाणु (testes) के एन्ड्रोजन उत्पादक (androgen producing) ऊतक को सक्रिय करता है और कुछ कशेरुकों में वीर्याणु को वृषण से वीर्याणु बाहिकाओं तक पहुँचाता है ।

luteosterone—प्रोजेस्टीरोम (progesterone); प्रोजेस्टिन (progestin); ल्यूटिप्रोस्टीरोन ।

lychnidiate—(Gk. *lychnidion*, small lamp) चमकीला ।

lycopene—(L. *L. lycopersicum*, tomato from Gk. *lykopersiken*) लाइकोपेन; $C_{40}H_{56}$ लाइकोपिन; टिमाटर, गुलाब आदि का लाल वर्ण ।

lygophil—(Gk. *lyge*, shadow; *philos*, friend) छायारागी ।

lymph—(L. *lympa*, water) लिम्फ; लसीका; रक्त सहाय विना रङ्ग वाला द्रव ।

lymph corpuscle—लिम्फ-कण ।

lymph gland—लिम्फ-ग्रन्थि ।

lymph heart—लिम्फ हृदय ।

lymphatic—(L. *lympa*, water) लिम्फीय; लसीकीय; लिम्फ सम्बन्धी ।

lymphatic space—लिम्फ-स्थल ।

lymphatic vessel—लिम्फ-नलिकाएँ; लसीका-नली ।

lymphocyte—(L. *lympa*, water; Gk. *kytos*, hollow) लिम्फ-कोशिका; लसिकाणु; लसिकोशिका ।

lymphogenic—(L. *lympa*, water; Gk. *genos*, birth) लिम्फोत्पादी; लसीका उत्पादी ।

lymphogenous—(L. *lympa*, water; Gk. *genos*, birth) लिम्फ जन ।

lymphoid—(L. *lympa*, water; Gk. *eidos*, form) लिम्फीय; लिम्फयुक्त; लसीकाभ ।

lymphoidocyte—(L. *lympa*, water; Gk. *eidos*, form; *kytos*, hollow) लिम्फोइडोसाइट; हीमोसाइटोब्लास्ट; लसीकाभ कोशिका ।

lymphomyelocyte—(L. *lympa*, water; Gk. *myelos*, marrow, *kytos*, hollow) मायलोब्लास्ट; लसीकामज्जाणु ।

lyochromes—(Gk. *lyein*, to loose; *chroma*, colour) लायोक्रोम; कोशिकाओं का जल घुलनशील पीला रंग ।

lyocytosis—(Gk. *lyein*, to loose; *kytos*, hollow) तन्तु ह्रासता ।

Lyonnet's glands—लायोनेट्स ग्रन्थियाँ; फिलिपी ग्रन्थियाँ; तनुपक्षक अर्भकों की युग्मिक सहायी कोशिय ग्रन्थियाँ ।

lyophil—(Gk. *lyein*, to loose) पुनः घुलनशील; घुलनरागी; ऐसे घोल जिन्हें पूर्ण रूप से सुखा दिया जावे और ठोस में पुनः तरल मिलाने पर शीघ्रता से घुल जावें, उन्हें घुलनरागी कहा जाता है ।

lyophobic—(Gk. *lyein*, to loose; *phobos*, fear) पुनः अनघुलनशील; घुलनावरुद्ध; ऐसे घोल जिनके सूख जाने या सुखाये जाने पर अवशिष्ट ठोस तरल के मिलाने पर पुनः घुलता नहीं है ।

lyotropic—(Gk. *lyein*, to loose; *trope*, turn) विलयन वृत्ति; ऐसे घोल जो घोलक पर निर्भर होते हैं ।

lyra—(Gk. *lyra*, lyre) लाइरा; विपंची (वीणा); किन्हीं मकड़ी में झंकारांग (stridulating organs) को बनाने वाली काइटिन की शलाकायें (विपंची) ।

lyrate—(Gk. *lyra*, lyra) वीणाकृतिक; वीणोपम (कुछ पत्तियाँ) ।

lyriform—(L. *Pyra*, lyre; *forma*, shape) वीणोपम ।

lysactinic—(Gk. *lysis*, loosing; *aktis*, ray) निम्न अर्धपादी ।

lysigenous—(Gk. *lysis*, loosing; *genos*, birth) विदलनोत्पादन ।

lysin—(Gk. *lysis*, loosing) लाईसिन; विदलनात्मक पदार्थ; विलयात्मक ।

lysis—(Gk. *lysis*, loosing) विदलनता; विलयता ।

lysine—(Gk. *lysis*, loosing) लाइसिन; वनस्पतिक प्रोटीन का एक तत्व; $C_6H_{14}O_2N_2$ ।

lysogenesis—(Gk. *lysis*, loosing; *genesis*, descent) लाइसिन प्रक्रिया ।

lyssa

lyssa—(Gk. *lyssa*, madness) निप्सा; क्रुमिसम संरचना; स्तनी की जिह्वा के नीचे पेसी, उत्तक अथवा उपास्थि का प्रवर्धन ।

lytta—(Gk. *lytta*, madness) उपास्थि प्लाका: मांसाहारी (carnivorous) जन्तुओं की जिह्वा में पाई जाने वाली सूत्रक (fibrous) या उपास्थिक (cartilaginous) प्लाका (rod) ।

M

M disc—'एम' विम्ब; हेन्सन (Hensen's) रेखा के मध्य की रेखा ।

M factor—'एम' कारक; उच्च जन्तुओं के लान रक्ताणुओं में पाया जाने वाला एक प्रतिरक्षी (antigen) ।

M rays—'एम' किरण: वर्धन प्रभावी रश्मि (mitrogenetic rays) ।

macerate—(L. *macerare*, to soften) आर्द्रिकता; आद्रिकता । (१) अद्भ या तन्तु के भागों का पृथक करना; (२) भिगो कर गलाना (नर्म करना); (३) पचाकर या अन्य किसी प्रकार भागों का छिन्न-भिन्न करना अथवा गलाना ।

maceration—(L. *macerare*, to soften) आर्द्रिकरण ।

machopolyp—(Gk. *mache*, fight; *polys*, many; *pous*, foot) प्रहारिक मुकुट ।

macrandrous—(Gk. *makros*, large; *aner*, man) वृहत् पंसी ।

macraner—(Gk. *makros*, large; *aner*, male) मेक्रेनर: वृहत्तर पिपीलिका; असामान्य दीर्घ कायी नर-पिपीलिका (चींटी) ।

macrergate—(Gk. *makros*, large; *ergates*, worker) मेक्रिगेट; वृहत् श्रमिक-पिपीलिका; दीर्घकर्मि; असामान्य दीर्घकायी श्रमिक पिपीलिका (चींटी) ।

macrobiotic—(Gk. *makros*, large; *bios*, life) दीर्घजीवी; निर-जीवी ।

macroblast—(Gk. *makros*, large; *blastos*, bud) वृहत् कोष; गुरुकोरक ।

macrocarpous—(Gk. *makros*, large; *karpos*, fruit) गुरुफली; दीर्घफली ।

macrocephalous—(Gk. *makros*, large; *kephale*, head) वृहत् सिरी: वृहत् शीर्ष ।

macrocnemic—(Gk. *makros*, large; *kneme*, tibia) दीर्घ अग्रघानी ।

macroconidium—(Gk. *makros*, large; *konis*, dust; *idion*, *dim.*) दीर्घ अनेगिक स्पोर (कोनिडियम) ।

macroconjugant—(Gk. *makros*, large; L. *conjugare*, to unite) वृहत् संयुग्मी ।

macrocyst—(Gk. *makros*, large; *kystis*, bladder) वृहत् सिस्ट; वृहत् स्फोति ।

macrocytase—(Gk. *makros*, large; *kytos*, hollow) मेक्रोसाइटेस; वृहत् भक्षक कोशिका एन्जाइम ।

macrodactylous—(Gk. *makros*, large; *daktylos*, finger) वृहदांगुलिक; बड़ी या लम्बी उँगलियों वाला ।

macrodont—(Gk. *makros*, large; *odous*, tooth) वृहत् दन्ती ।

macroevolution—(Gk. *makros*, large; L. *evolvere*, to unroll) दीर्घ विकास; वृहत् विकास ।

macrogamete—(Gk. *makros*, large; *gametes*, spouse) वृहत्-जन्तु; नारी जन्तु; दो संयुग्मीयो (conjugants) में से बड़ा संयुग्मी (conjugant) जिसको नरधरा मातृ संयुग्मी (female conjugant) या विम्ब में नन्तुन्य मानते हैं ।

macrogametocyte—(Gk. *makros*, large; *gametes*, spouse; *kytos*, hollow) वृहत्-जन्तु कोशिका ।

macrogamy—(Gk. *makros*, large; *gamos*, marriage) वृहत्विधेक ।

macroglia—(Gk. *makros*, large; *glia*, glue) वृहत् स्तम्भ; वास्तविक संश्लेषा स्तम्भ ।

- macroGLOSSATE**—(Gk. *makros*, large; *glossa*, tongue) वृहत् जिह्वाधारी ।
- macrognathic**—(Gk. *makros*, large; *gnathos*, jaw) वृहत् जवाड़ी; वृहत् हन्वी ।
- macrogonidium**—(Gk. *makros*, large; *gone*, generation; *idion*, *dim.*) वृहत्गोनीडियम; युग्म-कोद्भिद् की वृहत् अचल अलैंगिक उत्पादी कोशिका ।
- macrogyne**—(Gk. *makros*, large; *gyne*, woman) वृहत् नारी; दीर्घकाय नारी; स्थूलक; असामान्य बड़े नाप की मादा पिपीलिका (चींटी) ।
- macroleucocyte**—(Gk. *makros*, large; *leukos*, white; *kytos*, hollow) वृहत् भक्षक कोशिका; वृहत्-श्वेताणु; पुरा श्वेताणु (proleucocyte) से बना हुआ एक रंज्य श्वेताणु (chromophil leucocyte) ।
- macromere**—(Gk. *makros*; large; *meros*, part) मैक्रो कोशिका वृहत् खण्ड
- macromerozoite**—(Gk. *makros*, large; *meros*, part; *zoon*, animal) वृहत् मीरोजोइट; वृहत्-अंशाणु । स्पोरौजोआ (sporozoa) में वृहत्-स्फोटी (macrochizon) स्थिति से उत्पन्न अनेक खण्डों में से एक खण्ड ।
- macromesentry**—(Gk. *makros*, large; *mesos*, middle; *enteron*, gut) वृहत्-अन्त्राधार ।
- macromitosome**—(Gk. *makros*, large; *mitos*, thread, *soma*, body) वृहत् माइटो सोम; पराण्टि; वृहत् सूत्र पिण्ड ।
- macromyelon**—(Gk. *makros*, large; *myelos*, marrow) मेडूला-ओवर्लॉगेटा; मस्तिष्क का अन्तिम भाग ।
- macronotal**—(Gk. *makros*, large; *notoh*, back) दीर्घ वक्षक; दीर्घ वक्षी ।
- macront**—(Gk. *makros*, large; *on*, being); मैक्रोन्ट वृहत् स्फोटज; स्फोट-जनन (schizogony) के पश्चात् बनी हुई दो युग्मों (sets) में एक वृहत्-कोशिका ।
- macronucleocyte**—(Gk. *makros*, large; L. *nucleus*, kernel; Gk. *kytos*, hollow) वृहदाण्टिक कोशिका; गुरुकेन्द्रकाणु; ऐसी कोशिका जिसका कि न्युकलियस (nucleus) बड़ा होता है ।
- macronucleus**—(Gk. *makros*, large; L. *nucleus*, kernel) वृहदाण्टि; दीर्घाण्टि; गुरुकेन्द्रक ।

- macrophage**—(Gk. *makros*, large; *phagein*, to eat) वृहत्-भक्षक कोशिका; वृहत् भक्षकाणु । कशेरुकों के शरीर में विस्तार से वितरित वृहत्-भक्षक कोशिकायें । ये समस्त बन्धक ऊतकों में होते हैं जहाँ ये चोट के बाद अवशेष या मलवे (debris) को हटाने हेतु सक्रिय हो जाती हैं । बन्धक ऊतक में पाई जाने वाली विश्रामित वृहत् भक्षक कोशिकाओं को ऊतक कोशिका (histiocytes) कहा जाता है । ये जालिका अंतः स्तर तंत्र (reticulo-endothelial system) में लसीका के साथ लसीका ग्रन्थियों में तथा रुधिर (अस्थि मज्जा, प्लीहा या यकृत) में से भक्षकाणु क्रिया (phagocytosis) द्वारा विदेशीय पदार्थों को बाहर निकालती हैं । ये कला सदृश पादाम (pseudopodia) द्वारा गति करती है ।
- macrophagous**—(Gk. *makros*; large; *phageion*, to eat) महाभक्षी; महाभोजी ।
- macrophyllous**—(Gk. *makros*, large; *phyllon*; leaf) दीर्घपर्णी; दीर्घपर्णक (leaf let) ।
- macropodous**—(Gk. *makros*, large; *pous*, foot) दीर्घपाद; दीर्घपादी ।
- macropterous**—(Gk. *makros*, large; *pteron*, wing) दीर्घपंखी; दीर्घपक्षीय ।
- macroschizogony**—(Gk. *makros*, large; *schizein*, to cleave; *gone*; generation) दीर्घ या महा स्फोटजनन ।
- macroschizont**—(Gk. *makros*, large; *schizein*, to cleave, *gone*, generation) दीर्घ स्फोटी; वृहत् स्फोटी ।
- macroscopic**—(Gk. *makros*, large; *skopein*, to view) दीर्घकाय; स्थूल दर्शय; स्थूल काय; प्रत्यक्षांगी स्थूल शारीरिक ।
- macrosepalous**—(Gk. *makros*, large; F. *sepale*, sepal) दीर्घ नाह्यदली ।
- macroseptum**—(Gk. *makros*, large; L. *septum*, partition) दीर्घ व्यवधान; गुरूपट; प्राक्त या पूर्ण व्यवधान; एन्थोजोआ (anthozoa) का एक प्राक्त या पूर्ण (primary or perfect) व्यवधान (septum) ।
- macrosmatic**—(Gk. *makros*, large; *osme*, smell) पूर्ण घ्राणी; प्रघ्राणी; मैक्रोस्मैटिक ।

macrosomatus—(Gk. *makros*, large; *soma*, body) दीर्घकायी; असाधारण दीर्घ (large) काय या शरीर (body) वाला ।

macrosome—(Gk. *makros*, large; *soma*, body) बृहत्-कण; बृहत्-पिण्ड ।

macrosplanchnic—(Gk. *makros*, large; *splanchnon*, entrail) दीर्घपुरीतक; महान्त्रिक ।

macrospore—(Gk. *makros*, large; *sporos*, seed) दीर्घ या महा स्पोर; गुरुबीजाणु ।

macrosporangiophore—(Gk. *makros*, large; *sporos*, seed, *angeion*, vessel; *phercin*, to bear) दीर्घबीजाणुधानीघर ।

macrosporozoite—(Gk. *makros*, large; *zoon*, animal) महास्पोराणु ।

macrostomatous—(Gk. *makros*, large; *stoma*, mouth) दीर्घमुखी; बृहत् मुखी ।

macrostylospore—(Gk. *makros*, large; *stylos*, pillar; *sporos*, seed) महास्पोरोपम वृन्तीकाय ।

macrotherm—(Gk. *makros*, large; *thermic*, hair) महा-उष्णी ।

macrotoous—(Gk. *makros*, large; *ous*, ear) लम्ब कर्णी; मैक्रोटस ।

macrotrichia—(Gk. *makros*, large; *thrix*, hair) स्थूल रोमिका; दीर्घ रोमक; पटपाद या कीटों के देह या शरीरों पर स्थित बृहत् या स्थूल (large) रोमिका (setae) ।

macrotype—(Gk. *makros*, large; L. *typus*, a type) अधिपंखक गुणपेशी व्यवधानी बृहत् प्रभत; बृहत्पेशी व्यवधान प्रभुत्वक । एन्टोजोआ में पेशी व्यवधानों (mesenteries) का परिवर्तित विन्यास क्रममें दीर्घ पेशी व्यवधानों की संख्या नागान्य लघु पेशी व्यवधानों से अधिक होती है ।

macrozoogonidium—(Gk. *makros*, large; *zoon*, animal; *gone*, generation; *idion*, dim) बृहत् पलम्पोरी; दीर्घप्रजनितोन्मूलक ।

macrozoospore—(Gk. *makros*, large; *zoon*, animal; *sporos*, seed) दीर्घ महा स्पोर; गुरुबीजाणु ।

macula—(L. *macula*, spot) (१) धब्बा; चिन्ह; रंग का घटना । (२) गर्त या गड्ढा (depression) । (३) लपाण्ड (tubercle) ।

macula germinitina—जनन बिन्दु; टिन्ड की उपाष्टि ।

macula lutea—पीतबिन्दु (रेटीना का) ।

maculate—(L. *macula*, spot) बिन्दुक; चिन्ह युक्त ।

maculation—(L. *maculare*, to spot) बिन्दु प्रम या विन्यास; चिन्हों का जमाव ।

madrepore—(F. *madrepore*, from, L. *mater*, mother; Gk. *poros*, friable stone) मैट्रीपोर; (१) एक किस्म का कोरल या मूंगा (coral) । (२) कंटक देहियों ऐकाईनोडर्मस (echinoderms) में पाया नलिक (stone canal) के भाग छिद्र पर स्थित एक पट्ट (plate) जिसे madreporite भी कहते हैं ।

madreporite—(F. *madrepore*, madreporite) प्ररंघक; परिवर्तित जनन पट्ट; मैट्रीपोराइट ।

Magendie's foramen—(F. *Magendie*, French physiologist) मेगेन्डी फोरामन; चतुर्थ विदर की छत में स्थित मध्यीय छिद्र ।

maggot—(M. E. *magot*, grab) मैगट; कुछ एक कीटों (insects) का कृमि रूप (worm like) अर्धक विशेष ।

mala—(L. *mala*, cheek) माला; (१) पक्षियों के निचले जबड़े (lower jaw) का बाह्य भाग । (२) मालास्थि (malar bone) । (३) कपोल (cheek) ।

malacoid—(Gk. *malakos*, soft; *eidos*, form) नृदुग; कोमल वस्तु निर्मित ।

malacology—(Gk. *malakos*, soft; *logos*, discourse) मोलम्ब विज्ञान; मोलम्ब अर्थ में मोली पेशी अन्वृत्तों सम्बन्धी विज्ञान ।

malacophilous—(Gk. *malakos*, soft; *philein*, to love) मोलम्ब प्रेमी; मैट्रोपोर पसन्द ।

malacopterous—(Gk. *malakos*, soft; *pteron*, wing) नृदुर्गती; नृदुर्गती, मुलायम या कोमल पट्ट का कित वाला ।

malacostracous—(Gk. *malakos*, soft; *ostrakon*, shell) नृदुर्गती; कोमल कवची या शरीरी ।

malar—(L. *mala*, cheek) मैलर या जुगल; गंड; गाल सम्बन्धी; गाल या कपोल क्षेत्र में स्थिति ।

malaxation—(Gk. *malassein*, to soften) संदशता; विचर्चण; भिड (wasp) के सदृश्य मैन्डीविल (mandible) द्वारा काटना या चबाना ।

male—(L. *mas*, male) नर; पुरुष; पुंस; पुं ।

male genital organs—नर जननेन्द्रियाँ; पुजननांग ।

male pronucleus—नर पूर्वाण्डि; नरपुराण्डि ।

malleate—(L. *malleus*, hammer) मैलियेट; हथोड़ा कार; मूङ्गरी बत्; घनाकार ।

malleoincudal—(L. *malleus*, hammer; *incus*, anvil) मैलियो इन्कूडल, मैलियस और इन्कस (incus) कान की हड्डियों सम्बन्धी ।

malleolar—(L. *dim.* of *malleus*, hammer) मैलियोलर; रोमंथकारियों (ruminants) की अवशिष्ट (vestigial) फिबुला (fibula) ।

malleous—(L. *dim.* of *malleus*, hammer) मैलियोलस; गुल्फ वर्ध ।

malleoramate—(L. *malleus*, hammer; *ramus*, branch) मुगद्रास्थि युक्त पेषणी ।

malleus—(L. *malleus*, hammer) मैलियस; भुगद्रास्थि; कान की एक उपास्थि ।

malnutrition—कुपोषण ।

malpighian—(M. *malpighi* italian anatomist) मॅल्फिगी: मैलपीजियन; मैलपीजियाई (malpighi) इटली निवासी रचना वैज्ञानिक ।

malpighian layer—मैलपीजियन या मॅल्फिगी स्तर; मैलपीजी स्तर ।

malpighian tubule—मैल्फिगी नलिकायें ।

maltase—(A. S. *mealt*, malt, malt) मालटैज एक क्षोभक विशेष जिसके प्रभाव से माल्ट चीनी (malt sugar) अंगूर चीनी (grape sugar) में तबदील हो जाती है ।

maltose—(A. L. *mealt*, malt) मालटोज; एक शर्करा (चीनी) विशेष ।

mamelon—(F. *mamelon*, form, L. *memilla*, nipple) दद्रुण; अंतगंड ।

mamilla—(L. *mamilla*, nipple) कुचाग्रोपम ।

mamillary process or tubercle—कुचाग्रोपम प्रवर्धन या अपाण्ड ।

mamillate—(L. *mamilla*, nipple) शोथीय; शोथ खचित; शोथ (protuberance) से युक्त ।

mamma—(L. *mama*, breast) कुच; स्तन; धन; दुग्ध ग्रन्थि ।

mammal—(L. *mamma*, breast) स्तनी; स्तनधारी; स्तनपायी; सस्तन; कशेरुकाण्डियों (vertebrates) का वर्ण; ऐसे जन्तु जिनकी मादायें अपने बच्चों को स्तन द्वारा दूध पिलाती हैं ।

mammalogy—(L. *mamma*, breast; Gk. *logos*, discourse) स्तनी या स्तन पायी अध्ययन; स्तन पायी विज्ञान ।

mammary—(L. *mamma*, breast) स्तन सम्बन्धी; स्तन- ।

mammary gland—दुग्ध ग्रन्थि ।

mammiferous—(L. *mamma*, breast; *ferre*, to bear) सस्तन; स्तनी; दुग्ध स्रावी (milk secreting) ।

mammogenic—(L. *mamma*, breast; Gk. *genraein*, to produce) मैमोजेनिक; स्तनज; पिट्यूटरी हार्मोन का एक यौगिक जो दुग्ध ग्रन्थि की वृद्धि को प्रोत्साहन देता है ।

man—(L. *mas mans*, a male--sans, *manu*, a man) पुरुष, मनुष्य आदमी; नर; मानव; पुंस ।

mandible—(L. *mandibulum*, jaw) मैन्डिबिल; चिबुकास्थि; (१) अधोहन्वस्थि; जबड़े की निम्नास्थि । (२) चर्बक । (३) मुखी अवयव (सन्धिपाद जन्तुओं का) ।

mandibular—(L. *mandibulum*, jaw) मैन्डिबुलर; अधोहनु-नीचे के जबड़े सम्बन्धी; चिबुकीय ।

mandibulate—(L. *mambulum*, jaw) मैन्डिबुलैट; मैन्डिबिल या अधोहन्वस्थि युक्त; चिबुकी ।

mandibuliform—(L. *mandibulum*, jaw; *forma*, shape) मैन्डिविलोपम; अधोहन्वस्थिकार ।

mandibulohyoid—(L. *mandibulum*, jaw, Gk. *hyooides*, Y-shaped) मैन्डीबुलोहायड; चिबुक-हायड क्षेत्री ।

mandibulomaxillary—(L. *mandibulum*, jaw; *maxilla*, jaw) सन्धिपादों (आर्थ्रोपोडा) के मैन्डिबिल और मैक्सिला सम्बन्धी ।

manducation—(L. *manducare*, to chew) चर्चण (चर्बन) या चबाना ।

maniccate—(L. *manicatus*, sleeved) जटिन: उलझे हुए बालों या जटिल शल्कों (matted scales) से आवृत (ढंका हुआ) ।

manna—(Gk. *manna*, manna) मन्ना; (१) किन्हीं वृक्षों की छाल से निकला हुआ म्नाव जो सूखकर सख्त हो गया हो। (२) किन्हीं कॉबसीडी द्वारा स्रावित मधुतुषार (honey-dew) ।

mannose—(Gk. *manna*, manna) मेनोस; बहुत से पौध की शक्कर; $C_6H_{12}O_6$ ।

mantle—(L. *mantellum*, cloak) मेंटिल; पिधान; प्रावार; देहभित्ति (body wall) के ऊपर का आवरण सदृश्य पर्त ।

mantle cavity—मेंटिल कुहर; प्रावार कुहर ।

mantle cell—प्रावार कोशिका; बीजाणुधानी के पिधान ऊतक की एक कोशिका ।

mantle fibres—प्रावार सूत्र; पूर्ण बने तर्कु के तर्कु सूत्र ।

mantle layer—प्रावार स्तर; त्रूपिक मेडुला स्पाइनेलिस का स्तर ।

mantle lobes—प्रावार पालि; द्विकपाटी (bivalves) के प्रावार (mantle) के पृष्ठ (dorsal) और अधर (ventral) लोलक या प्रालम्ब (flaps) ।

manual—(L. *manus*, hand) हस्तपक्ष; पक्षियों के हाथ के डैने का एक पंख ।

manubrial—(L. *manubrium*, handle) मुष्टोपम ।

manubrium—(L. *manubrium*, handle) मैन्युब्रियम; मुष्टिक ।

(१) हाइड्रोजोन (hydrozoan) पोलिप (polyp) के दूरस्थ छोर (distal end) पर त्रिकोणक उत्थान ।

(२) मेडुसा (medusa) के निम्न तल से लटकती हुई मुग्दर सदृश आकृति ।

(३) स्टर्नम (sternum) का अधर भाग ।

(४) कर्ण (ear) की मुग्दाम्बि (मेनिवम-malleus) का हैरिडनमुमा भाग ।

manus—(L. *manus*, hand) हाथ; हस्त ।

manyplics—मैनीप्लारज; रोमन्पलीनो (ruminants) के आमाशय का तृतीय कोष (chamber) ।

[दोसरे—omasum or psaltarium वीमासम]

marcescent—(L. *marcescere*, to wither) अनात-जीर्ण; निषेक के परभाव चायुवनरुंज या वन का सूख जाना पर न गिरना ।

marginal—(L. *margo*, edge) तटी; उपात्ती; किनारे के नजदीक का; हासिये पर का ।

marginalia—(L. *margo*, edge) तटी स्वीक्यून; तीर हटा ।

marginate—(L. *margo*, edge) तटी; उपात्ती ।

marginicidal—(L. *margo*, edge; *caedere*, to cut) सीवन स्फुटन; सीवन रेखा (suture) से फटने वाला फल ।

marginiform—(L. *margo*, edge; *forma*, shape) उपात्तोपम ।

marginirostral—(L. *margo*, edge; *rostrum*, beak) चंचुतट ।

marita—(L. *maritus*, conjugal) प्रौढ़; वैवाहिक सम्बन्ध के योग्य; हेल्मिन्थ (helminthes) के जीवन इतिहास की प्रौढ़ावस्था ।

marital—(L. *maritus* conjugal) (१) प्रौढ़ सम्बन्धी (२) निषेकी अण्डे (fertilised eggs) पैदा करने वाले, जैसे कुछ एक ट्रिमेटोडम (trematodes) ।

marmorate—(L. *marmor*, marble) मंगमरमरोपम; संगमरमर के पत्थर के सदृश ।

marrow—(A. S. *mearg*, pith) मज्जा; अस्थिसार; हड्डी के भीतर का गुदा ।

marrow cavity—मज्जा गुहा ।

marsupial—(L. *marsupium*, pouch) मानसूत्रियज; मिथुपानिक; कंभेरु जैसे जन्तु; वह जन्तु जिनके कि पेट के ऊपर बच्चे रखने के लिये पैंती होती है ।

marsupium—(L. *marsupium*, pouch) (१) मिथुपानी; वह पैंती जैसी आकृति जो कुछ एक जन्तु पित्त में पाई जाती है, जिनमें कि बच्चा या मिथु का जन्म (development) पूर्ण होता है। (२) द्विपंथी (bivalves) की शिल गुहाएँ (gill cavities) ।

mask—(F. *masque*, mask) मास्क; ढावरण ।

mass—(L. *massa*, to squeeze together) दृढ़; मत्ति ।

masseter—(Gk. *masseter*, one that chews) मेसेटर या पैंती अर्धक। यह मान पैंती या सिन्धे तबड़े की उदात्ती है तथा पदार्थ से मत्तवत्ता देती है ।

messeteric

messeteric—(Gk. *masseter*, one that chews)

चर्वणी; चर्वण-; चर्वण सम्बन्धी ।

massive—(L. *massa*, mass) घनी; स्थूल; ठोस; भारी; निविड़ ।

massula—(L. *massula*, small mass) मेसुला; लघुस्पोर पुंज ।

mast cells—मेदा कोष्ठ या कोशिका ।

mastax—(Gk. *mastax*, jaws) पेषणी; रोटीफर (rotifer) जन्तु में पाई जाने वाली कण्ठकी (pharyngeal) या चर्वाय (gizzard) की चक्की या पेषणी ।

mastication—(L. *masticere*, to chew) चर्वण; चवाना; दाँतों द्वारा खाद्य (food) के चवाने की प्रक्रिया जिससे कि खाना महीन तथा गूदे की शक्ल का ही जाता है ।

masticatory stomach—केकड़ावशियों (crustaceans) में पाई जाने वाली आमाशयिक पेषणी (चक्की) ।

mastidion—(Gk. *mastos*, breast; *idion*, dim) मेस्टिडियोन; पयोधी ।

mastigium—(Gk. *mastigion*, little whip) पश्चकषा; अर्भकों (larvae) का पीछे का या पीछे की ओर स्थित आत्म रक्षा करने वाला पश्चकषा ।

mastigobranchia—(Gk. *mastix*, whip; *branchia*, gills) गिलकषा; कशावलोम; प्रोढ़ डेकापोडा (decapoda) का उपपादांश (epipodite) ।

mastigophora—कषा तंत्री; मैस्टिगोफोरा ।

mastigosome—(Gk. *mastix*, whip; *soma*, body) कषा पिण्ड; ब्लेफैरोब्लारस्ट; मेस्टीगोसोम ।

mastoid—(Gk. *mastos*, breast; *eidos*, form) स्तनोपम; स्तन के आकार का ।

mastoideosquamous—(Gk. *mastos*, breast; *eidos*, like; L. *squama*, scale) मेस्टोइडियो-स्ववामस; टेम्पोरल अस्थि के मेस्टोइड (mastoid) और स्ववामस (squamous) भागों सम्बन्धी ।

mastoidohumeralis—मेस्टोइडोहुमेरेलिस, किन्हीं चतुष्पादों में मेस्टोइड (mastoid) और ह्यूमेरस (humerus) को जोड़ने वाली पेशी ।

mastology—(Gk. *mastos*, breast; *logos*, discourse) स्तन पायी या स्तनी विज्ञान; स्तन पान कराने वाले जन्तुओं का वर्णन ।

masto-occipital—(Gk. *mastos*, breast; L. *occiput*, occiput) मेस्टो-ऑक्सीपिटल; टेम्पोरल का मेस्टोइड प्रवर्धन और ऑक्सीपिटल अस्थि सम्बन्धी ।

mastoparietal—(Gk. *mastos*, breast; L. *paries*, wall) मेस्टोपैराइटल; टेम्पोरल अस्थि का मेस्टोइड प्रवर्धन और पैराइटल अस्थि सम्बन्धी ।

mastotympanic—(Gk. *mastos*, breast; *tympanon*, drum) मेस्टोटिम्पेनिक; किन्हीं सरीसृप (reptiles) में आनक गुहा की सीमा ।

mate—(A. S. *ge-maca*, on equal) साथी; सहचर; संगी ।

maternal—(L. *maternus*, mother) मातृक ।

matiny types—सहचर प्ररूप ।

matriclinous—(L. *mater*, mother; Gk. *klinein*, to bend) मातृवृत्ति ।

matrix—(L. *mater*, mother) (१) आधारक; अन्तरा कोशिकीय पदार्थ; आधार पदार्थ । (२) गर्भाशय (uterus) बन्धक तन्तु (connective tissue) का आधार पदार्थ ।

mattula—(L. *matta*, mat) मेदूला; आस्तरण; ताड़ (palm) वृक्ष के वर्णवृत्त के आधार पर का रेशदार जाल (net work) ।

maturation—(L. *maturus*, ripe) प्रौढ़ता; परिपाक; परिपाक प्रक्रिया; पकना ।

mature—(L. *maturus*, ripe) प्रौढ़ ।

maturity—(L. *maturus*, ripe) प्रौढ़ता ।

Mauthner's cells—(L. *Mauthner*, Australian physician) मोथनर की कोशिकायें; तंत्रिका तन्तु के सूत्रच्छद (neurolemma) और मेडुलरी पिघान (medullary sheath) के बीच का स्तर ।

maxilla—(L. *maxilla*, jaw) मैक्सिला; उर्ध्वहनु. ऊपर का जबड़ा ।

maxillary—(L. *maxilla*, jaw) मैक्सिलरी; उर्ध्वहनु सम्बन्धी ।

maxilliferous—(L. *maxilla*, jaw; *ferre*, to carry) हनुधारी; मैक्सिलाधारी ।

maxilliform—(L. *maxilla*, jaw) मैक्सिलाकार; हन्वाकार ।

maxillipede—(L. *maxilla*, jaw, *pes*, foot) हनु-पाद ।

maxillo-dental—(L. *maxilla*, jaw, *dens*, tooth) हनु-दन्तीय ।

maxillojugal—(L. *maxilla*, jaw; *jugum*, yoke) मैक्सिलोजुगल; हनु और जुगल अस्थि सम्बन्धी ।

maxillomandibular—(L. *maxilla*, jaw; *mandibulum*, jaw) हनु चाप; आद्य मत्स्यों में वह चाप जो हनु बनाती है । मैक्सिला और मॅन्डिबिल सम्बन्धी ।

maxillopalatal—(L. *maxilla*, jaw; *palatus*, palate) हनु-तालव्य; पक्षियों में मैक्सिलरी प्रवर्धन ।

maxillopharyngeal—(L. *maxilla*, jaw, Gk. *pharyngx*, gullet) अधोहनु-कण्ठीय ।

maxillopremaxillary—(L. *maxilla*, jaw, *pre*, before) उर्ध्वहनु ।

maxilloturbinal—(L. *maxilla*, jaw; *turbo*, whorl) मैक्सिलोटर्बाइनल ।

maxillula—(L. dim of *maxilla*, jaw) मैक्सिल्युला; उपहनु; कैंकड़ा वंशी (crustacea) का प्रथम उर्ध्वहनु ।

meatus—(L. *meatus*, passage) नलिका पथ जैसे कान या नाक का रास्ता; कर्ण कुहर ।

mechanism—(Gk. *mechané*, machine) यंत्र कला, यंत्र रचना, यंत्र व्यापार ।

mechano-cyte—(Gk. *mechane*, contrivance; *kytos*, hollow) अन्योन्य कोशिका; अस्थि; उपास्थि; वन्धक तन्तु या मांस पेशी से बनी हुई कोष्ठ या कोशिका ।

mechanoreceptor—(Gk. *mechane*, contrivance; L. *recipere*, to receive) अन्योन्य ग्राही; विशिष्ट आकृति, जो स्पर्श, दबाव, तथा पृष्ठी आकर्षण के लिये विशेष रूप से सूक्ष्म ग्राही हो ।

Meckel's cartilage—मैकिल उपास्थि; मैकिलोपास्थि (१) निम्नकक्षकी (lower vertebrates) का अधो-हनु (mandible); (२) उच्च कक्षकी (higher vertebrates) का वह अण्डर जिसके आसपास जबड़े की हड्डियाँ बनकर आती हैं ।

meconium—(Gk. *mekon*, poppy) भ्रूण ताव; भ्रूण का कोषाकार निस्तर्जन रस; नव जन्म जात स्तनपायी के अंत्रिय पदार्थ ।

media—(L. *medius*, middle) माध्यम; मध्याकृति; संचारक ।

mediad—(L. *medius*, middle) मध्यीय; मध्य रेखा के समीप; लगभग मध्यीय ।

medial—(L. *medius*, middle) मध्य; माध्यमिक; केन्द्रीय; अन्तिममध्य ।

median—(L. *medius*, middle) मध्यम; मध्य-; मध्याक्ष पर स्थित ।

mediastinum—(L. *medius*, middle) मध्य-विभाजक; फुफ्फुम मध्यावकाश ।

mediastinal space—(L. *medius*, middle) मध्य विभाजक स्थान ।

mediator—(L. *medius*, middle) मध्यक; ऐसी तंत्रिका कोशिका (nerve cell) जो ग्राहक (receptor) तथा प्रभावक (effector) का सम्बन्ध स्थापित करे ।

mediodorsal—(L. *medius*, middle; *dorsum*, back) पृष्ठ मध्योद; मध्य पृष्ठी ।

mediopalatine—(L. *medius*, middle; *palatus*, palate) तालव्यास्थि मध्य (कुछ पक्षियों को कपालास्थि) ।

mediopectoral—(L. *medius*, middle; *pectus*, breast) वक्षस्थि मध्य; वक्षस्थि (स्टर्नम) का मध्य भाग ।

mediostapedial—(L. *medius*, middle; *stapes*, stirrup) मध्यस्तम्भिका; मीडियोस्टैपीज; काल्युमिला (calumella) आरिस (auris) का वह भाग जो स्टैपीज (stapes) के बाहर रहता है ।

mediotarsal—(L. *medius*, middle; *tarsus*, aukle) गुल्फास्थि मध्य; मीडियोटारसन ।

medioventral—(L. *medius*, middle; *venter*, belly) अण्डर रेखा मध्य, मीडियोवेंट्रल ।

medioproboscis—(L. *medius*, middle; Gk. *proboskis*, trunk) मीडियोप्रोबोसिस; मध्यमध्य; शीटो में मूढ़ का मध्य भाग; लिगुला (ligula) का भाग ।

mediothorax—(L. *medius*, middle, Gk. *thorax*, breast) मीडियोथोरैक्स; मध्य मध्य; मध्य (thorax) का मध्य भाग ।

medium

- medium**—(L. *medum*, middle) माध्यम ।
- medulla**—(L. *medulla*, marrow, pith) मेडुला; (१) मध्यांश; मध्य भाग (२) मज्जा; मज्जक; हड्डी के बीच का मुलायम भाग ।
- medulla oblongata**—मेडुला-ऑब्लान्गटा; मस्तिष्कान्त; मस्तिष्क का पश्च या पश्चात्य भाग । मस्तिष्क तथा सुपुम्ना के मध्य की आकृति ।
- medullated nerve fibres**—सूत्रच्छद तंत्रिका सूत्र; पिधान-युक्त नाड़ी (तंत्रिका) सूत्र; मज्जावृत्र तंत्रिका सूत्र ।
- medullary**—(L. *medulla*, pith) मेडुला-सम्बन्धी ।
- medullary canal**—मेडुला-नलिका; मज्जा नलिका; मज्जा-प्रणाली; सुपुम्ना-कुहर ।
- medullary groove**—मेडुला-खाँच, केन्द्रीय तंत्रिका कुहर (न्यूरोसील) ।
- medullary keel**—मेड्युला कील; किन्हीं आद्य (primitive) कशेरुकों (vertebrates) के केन्द्रीय तंत्रिका मण्डल के वर्धन में पुरान्त्र (archentron) के नीचे की ओर निकली हुई मेडनुमा (keel like) आकृति ।
- medullary plate**—मेड्युला पट्ट; भ्रूणवर्धन में ब्लास्टो-पोर (blastopore) को घेरे हुए वहिश्चर्म कोशिकाओं की पट्टनुमा आकृति ।
- medullary rays**—मेडुलरी किरणें; मज्जा रश्मि; बन्धक तन्तु के कई सूत्र (strands) जो मज्जा या पिथ (pith) और परिरंभ (pericyde) के बीच में फैले हुए होते हैं ।
- medullary sheath**—मेडुलरी पिधान ।
- medullary velum**—मज्जा-अञ्चल; मेडुलरी-नीलम; व्यूसेन्स (vieussens) का कपाट (valve) ।
- medullated**—(L. *medulla*, pith) मज्जा आच्छादित; मज्जा पिधानी ।
- medullated nerve fibres**—मज्जावृत तंत्रिका सूत्र; मस्तिष्क और सुपुम्ना के तंत्रिका सूत्र । इन तंत्रिका सूत्रों में आद्य तन्तुओं से रचित तंत्रिका सूत्राक्ष (neuraxis) होता है जो मज्जा पिधान (medullary death) तथा तंत्रिकाछद्म (neurilemma) से ढका होता है ।
- medullispinal**—(L. *medulla*, pith; *spina*, spine) सुपुम्नीय ।
- medusa**—(Gk. *medousa*, one who rules) मेडूसा; जैलीमत्स्य ।

- medusiform**—(Gk. *medousa*, one who rules, *L. forma*, shape) मेडुसोपम; मेडुसाकार ।
- medusoid**—(Gk. *medousa*, medusa; *eidōs*, like) मेडुसोपम ।
- medusome**—(Gk. *medousa*, medusa; *sona*, body) मेडुसोपम; मेडुसा; ओबीलिया (*obelia*) के जीवन इतिहास में मेडुसोपम (मेडुसा) स्थिति ।
- megacepalic**—(Gk. *megas*, large; *kephale*, head) महाशीर्षीय; महा या वृहत् कपाती; दीर्घ-शीर्षीय ।
- megagamete**—(Gk. *megas*, large; *gametes*, spouse) वृहत् (महा) जन्तु; गुरुयुग्मक ।
- megagametocyte**—(Gk. *megas*, large; *gametes*, spouse; *kytos*, hollow) वृहत् जनन कोशिका ।
- megagametogenesis**—(Gk. *megas*, great; *game-tes*, spouse; *genesis*, descent) वृहत् जन्तु जनन; गुरुयुग्मक जनन ।
- megakaryocyte**—(Gk. *megas*, large; *karyon*, nut; *kytos*, hollow) वृहत् अष्टि कोष्ठ; महाकेन्द्रक कोशिका; दीर्घाष्टि कोष्ठ; अस्थि मज्जा (bone marrow) की अमीबाकार (*amaeoid*) वृहत् अष्टि तथा उपाष्टि युक्त कोशिका ।
- megalaesthetes**—(Gk. *megalon*, great; *aisthetes*, perceiver) लक्षांग; दृष्टांग; प्लेकोफोरा (*placophora*) में पाये जाने वाले चक्षुसम वेदनांग (sensory organs) ।
- megalecithal**—(Gk. *megas*, large; *lekithos*, yolk) बहुयोकी; बहुडिम्बाक्षी; अतिपीतकी ।
- megaloblast**—(Gk. *megalos*, greatly; *blastos*, bud) वृहत्-रक्त कणज (प्राथमिक); महालोहित ।
- megalogonidium**—(Gk. *megalos*, greatly; *gonos*, offspring; *idion*, *dim.*) मैगालोगोनिडियम; वृहत्-गोनीडियम ।
- megalopic**—(Gk. *megalos*, greatly; *ops*, eye) मेगालोपीय; वृहत्-आकृतिक ।
- megalopore**—(Gk. *megalon*, great; *poros*, channel) वृहत्-छिद्र ।

megalopa—(Gk. *megalos*, greatly; *ops*, eye) मेगालोपा; मृजनेत्री; दीर्घाम्बक; किन्हीं केकड़ाचर्मियों (crustaceans) का अर्भक ।

megalospheric—(Gk. *megalos*, greatly; *sphaira*, globe) महावर्तुली; दीर्घगोलकी ।

megamere—(Gk. *megas*, large; *meros*, part) मेगोकोशिका; बृहत् खंड बद्धित चिम्ब (developing ovum) की एक बृहत् कोशिका ।

meganephridia—(Gk. *megas*, large; *nephros*, kidney; *idion*, dim.) बृहत्-उत्सर्गिकाएँ, पूर्ण-उत्सर्गिकाएँ; गुरुवृक्कक । [देखिये—holonephridia]

megaphanerophyte—(Gk. *megas*, large; *phanesos*, manifest; *phyton*, plant) दीर्घकायी वृक्ष; तीस मीटर से ऊँचा वृक्ष ।

megaphyllous—(Gk. *megas*, large; *phyllon*, leaf) गुरुपर्णी; दीर्घ पर्णी, सामान्य पत्तियों से बड़ी पत्ती वाला ।

meganucleus—(Gk. *megas*, large; *L. nucleus*, kernel) महाशक्ति; बृहत्शक्ति; दीर्घशक्ति; पोषण अशक्ति; महाकेन्द्रक ।

megasclere—(Gk. *megas*, large; *skleros*, hard) बृहत्-दृढा; गुरुकण्टिका ।

megasome—(Gk. *megas*, large; *soma*, body) बृहत्कण । [देखिये—macrosome]

megasporangium—(Gk. *megas*, large; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) गुरु/दीर्घ बीजाणुधानी; दीर्घ बीजाणु (स्पोर) से बनी बीजाणुधानी; बीजांड (ovule) ।

megaspore—(Gk. *megas*, great; *sporos*, seed) दीर्घ स्पोर; दीर्घरेणु; गुरुबीजाणु ।

megasporocyte—(Gk. *megas*, great; *sporos*, seed) स्पोर मातृ कोशिका ।

megasporophyll—(Gk. *megas*, great; *sporos*, seed; *phyllon*, leaf) गुरुबीजाणुपर्ण; स्पोर युक्त पर्ण जो दीर्घबीजाणुधानी बनाती है; अंडप (carpel) ।

megatherm—(Gk. *megas*, great, *therme*, heat) आर्द्रोष्ण तापी; मेगाथर्म ।

megazooid—(Gk. *megas*, great; *zoos*, animal; *eidos*, form) बृहत् मुकुत; महाजीवक ।

megazoospore—(Gk. *megas*, great; *zoos*, animal; *sporos*, seed) बृहत् संघ कोष्ठ; महासंघ बीजाणु ।

megistotherm—(Gk. *megas*, greatest, *therme*, heat) उच्चतम तापी ।

Mehlis' glands—मेह्लिस ग्रन्थिवा; (1) ट्रिमेटोडा (trematodes) की शूल ग्रन्थि (shell gland); (2) अंडवाहिनी (ootype) की घेरे हुए गुच्छ कोष्ठक (acinous) ग्रन्थि ।

Meibomian glands—(H. *meibom*, german anatomist) मीबोमियन ग्रन्थिवा; स्नेहिका ग्रन्थिवा; मायदीर्घी ग्रन्थि; आँसु के पत्रक पर स्थित ग्रन्थिवां जिनमें से निरपिना तनदार पदार्थ निकलता है ।

meiocyte—(Gk. *meion*, smaller; *kytos* hollow) अणु कोशिका; ह्रास-विभाजन (meiosis) से पूर्ण उत्पन्न कोशिका । [देखिये—auxocyte]

meiogenic—(Gk. *meion*, smaller; *gene*, descent) अष्टोत्सर्गक; केन्द्रक विभाजन (nuclear division) को प्रोत्साहित या उत्कर्ष करने वाला ।

meiomery—(Gk. *meion*, smaller; *meros*, part) ह्रस्वता; सामान्य संख्या से कम अणुओं या भागों के होने की वृत्ता ।

meiophylly—(Gk. *meion*, smaller; *phyllon*, leaf) अल्पपर्णी; पर्णघम; चक्र में एक या एक से अधिक पत्तियों का कम होना ।

meiosis—(Gk. *meion*, smaller) ह्रास विभाजन । जनन कोशिकाओं के परिपक्वता में परम्परा मूर्धों (chromosomes) की संख्या में ह्रास करने वाला युग्मसूत्री (diploid) से एकाकी या अयुग्मसूत्री (haploid) होने की प्रक्रिया । द्विगुणित कोशिका (diploid cell) के दो विभेद प्रकार के प्रथम कोशिका विभाजन, जिनसे बृंहिता कोशिकाओं में युग्मसूत्रों की संख्या आधी आती है । इन प्रकार का अर्ध विभाजन या ह्रास विभाजन (meiosis) पौनिक उत्पादी जीवों के जीवन चक्र में अनिवार्य होता है क्योंकि इसी से जनन कोशिकाएँ पुनः नियोजन में संयुक्त होकर पुनरावृत्ति में द्विगुणित स्थिति में आती हैं ।

जन्तुओं में और कुछ तैयान (एल्गी) में यह प्रक्रिया युग्मक निर्माण (gamete formation) से सम्बन्धित होती है । कई फंगस (fungi), हरे तैयान (green algae) और एबीसेडोआ में यह विभेद के युग्म परस्पर या पुनरावृत्ति (Zygote) से अंकुरण (germination) पर होती है । अधिकांश अन्य पारसी में सभी यह विभेद

meiostemnous

- के पश्चात् और कभी युग्मकों (gemete) के निर्माण से पूर्व, स्पोर बनने से पहिले होती है ।
- meiostemonous**—(Gk. *meion*, smaller; *stemon*, spun thread) अल्पपुंकेसरी, पुष्प में बाह्यदल या दल की संख्या से कम पुंकेसर युक्त ।
- meiotaxy**—(Gk. *mein*, smaller; *taxis*, arrangement) अङ्ग नियहता; अङ्ग दमनता ।
- meiotic**—(Gk. *meion*, smaller) ह्रास विभाजनी; ह्रास विभाजन सम्बन्धी ।
- Meissner's corpuscles**—(Gk. *meissner*, german histologist) मेसनर स्पर्शकण ।
- Meissner's plexus**—(Gk. *meissner*, german histologist) नरतर नाड़ी जाल; तंत्रिका सूत्रों (nerve fibres) का क्षुद्रांत्र (small intestine) के अधःश्लेष्मक (submucosa) का गण्डक (ganglionated) जाल (plexus) ।
- melanin**—(Gk. *melas*, black) मलैनिन; कृष्ण वर्ण; एक प्रकार का काला रंग ।
- melaniridosome**—(Gk. *melas*, black; *iris*, rainbow; *soma*, body) श्याम-श्वेत कणः मत्स्य चर्म में वर्णयुक्त कण ।
- melanism**—(Gk. *melas*, black) श्यामलता; कृष्ण-वर्णता; काले रङ्ग की अधिकता; काला पड़ना ।
- melonoblast**—(Gk. *melas*, black; *blastos*; bud) श्यामज; कृष्ण वर्णज; श्याम कोशिकज ।
- melanocyte**—(Gk. *melas*, black; *kytos*, hollow) कृष्ण वर्ण कोशिका; श्याम कोष्ठ या कोशिका ।
- melanophore**—(Gk. *melas*, black; *pherein*, to bear) श्याम कोष्ठ या कोशिका ।
- melanosoma**—(Gk. *melas*, black; *soma*, body) श्याम पिण्ड ।
- melanospermous**—(Gk. *melas*, black; *sperma*, seed) श्याम बीजाणुक; श्यामस्पोरी ।
- melanotic**—(Gk. *melas*, black) श्यामल; कृष्ण वर्णी ।
- melliferous**—(L. *mel*, honey; *ferre*, to carry) मधुत्पादक; शहद या मधु पैदा करने वाला ।
- melliphagous or mellivorous**—(Gk. *meli*, honey; *phagein*, to eat; L. *mel*, honey; *vorare*,

to devour) मधुभोजी; मधुहारी; शहद या मधु खाने वाला ।

mellisugent—(L. *mel*, honey; *sugere*, to suck) मधु-चूपक ।

member—(L. *membrum*, member) जन; सदस्य; शरीर का अवयव या अङ्ग ।

membrana—(L. *membrana*, membrane) झिल्ली; पतला पर्त; कोशिका या अङ्ग ढकने वाला पतला पर्त ।

membranaceous—(L. *membrana*, membrane) झिल्ली सम; झिल्ली सदृश्य; झिल्लीमय ।

membrana dorsalis—पृष्ठीय कला ।

membrana elastica externa—बाह्य प्रत्यास्थ कला ।

membrana elastica interna—अन्तः प्रत्यास्थ कला ।

membrana fenestrata—गवाझ कला ।

membrana granulosa—कणिकामय कला ।

membrane bone—झिल्ली जात अस्थि, जवनी जात या आवरण जात अस्थि, कलास्थि ।

membranella—(L. *membrana*, membrane) तंत्र-जवनी ।

membraniferous—(L. *membrana*, membrane; *ferre*, to carry) झिल्ली युक्त; झिल्लीदार; पर्त या आवरण युक्त ।

membranoid—(L. *membrana*, membrane; Gk. *eidos*, form) झिल्ली सदृश; कला सदृश; कलोपम; झिल्ली की तरह का ।

membranous—(L. *membrana*, membrane) झिल्लीदार; झिल्ली से ढँका हुआ ।

membranous cranium—मस्तिष्क कला ।

membranous labyrinth—आन्तरिक कर्ण; अन्तः कर्ण मेम्ब्रेन्स लेविरिन्थ; कलागहन । कशेरूकों का संवेदीय अंग जिससे जन्तु को गुष्टत्व (gravity), गति (speed) और ध्वनि का ज्ञान होता है । यह अंग खोपड़ी की श्रवण कोटर (auditory capsule) में स्थित होता है तथा मस्तिष्क से श्रवण तंत्रिका द्वारा जुड़ा होता है । यह आपस में मिले दो कोषों का होता है जिनमें कर्णाभ (otolith) होते हैं एक कोष यूट्रिकिल (utricle) से अर्ध चन्द्राकार नलिकायें लगी होती हैं तथा दूसरे सेकुलस (sacculus) से श्रवण अंग, जो कुछ चतुष्पाद (tetrapod) में कोकलिया (cochlea) के सदृश वर्धित

membranous vertebral column

हुआ होता है। समस्त अंतर्कर्ण में अन्दर तरल भरा रहता है जिसे अन्तःलसीका (endolymph) कहते हैं। अंतःकर्ण के बाहर और खोपड़ी के बीच भी तरल होता है जिसे परिलसीका (perilymph) कहते हैं।

membranous vertebral column—प्रकशेरुदण्ड; पृष्ठ दण्ड (notochord) और सुषुम्ना नलिका (neural tube) को घेरे हुए अविरत (continuous) मध्य जन (mesoderm) वेष्टन (sheath)।

membranula—(L. *dim*, of *membrane*, *membrane*) तंत्र कला।

membranule—(L. *dim*, of *membrana*, *membrane*) तनुक; कुछ कीटाणुओं के पंख के अधर में स्थित अपारदर्शक स्थान।

menarche—(Gk. *men*, month; *arche*, beginning) प्ररजस; ऋतु-आरम्भ।

Mendelian—मेन्डेलीय (लक्षण)।

Mendelism—मेंडल-सिद्धान्त; मेंडलवाद; मेंडल के नियम; वह वंश-परम्परा विधि जो ग्रेगर मेंडल (gregor mendel) द्वारा बताई गई है। यह सिद्धान्त प्राणियों के एकांकी लक्षणों का दिग्दर्शन कराता है और यह बतलाता है कि यह लक्षण किस प्रकार विशेष मान के दम्पति (parents) से संतति में पहुँचते हैं।

[**dominant characters**—प्रबल या प्रधान लक्षण।
recessive characters—अवरुद्ध लक्षण।]

meningeal—(Gk. *meninges*, *membrane*) मस्तिष्कावरण—; मेनिनजीय तानिका; मस्तिष्कावरण सम्बन्धी; मेनिनजीस (मस्तिष्कावरण) के प्रदेश में पाई जाने वाली आकृतियाँ जैसे घमनी, शिरा या तंत्रिका आदि।

meninges—(Gk. *meninx*, *membrane*) मेनिनजीस; मस्तिष्काच्छद; मस्तिष्क (brain) और सुषुम्ना (spinal cord) को ढँके हुए तीनों आवरण दृढ़ाच्छद (dura mater) तन्त्राच्छद (arachnoid) और कोमलाच्छद (pia mater) सामूहिक रूप से।

meningocyte—(Gk. *meninx*, *membrane*; *kytos*, *hollow*) कला कोशिका; विभक्ष कोशिका; उपतंत्राच्छद स्थल (sub-arachnoid space) की एक विभक्ष कोशिका।

meningosis—(Gk. *meninx*, *membrane*) कला प्रसक्तता।

meningospinal—(Gk. *meninx*, *membrane*; L. *spina*, *spine*) सुषुम्नाच्छदी।

meniscus—(Gk. *menis*, *kos*, little moon) मध्य कशेरुक; कशेरुक मध्योय द्विम्ब; नवचन्द्रक; मेनिस्कस।

menopause—(Gk. *men*, month, *pausi*, ending) ऋतु अवसान; रजोनिवृत्ति।

menotaxis—(Gk. *menein*, to remain; *taxis*, arrangement) अवशिष्ट विन्यास; अंशानुचलन।

mensa—(L. *mensa*, table) चर्वणतल; दाँत का चबाने वाला तल; मेन्सा।

menstruation—(L. *mensis*, month; *struere*, to flow) रजोधर्म; मासिक धर्म; ऋतु स्राव; रज; महावारी। बहुत से कशेरुकण्डियों (vertebrates) मुख्यतः उच्च स्तनियों (higher mammals) के गर्भाशय (uterus) का अनुकालिक (periodic) प्रस्राव।

mental—(L. *mentum*, chin) (१) मानसिक; बुद्धि सम्बन्धी; (२) चिबुकिय; चिबुक या ठुड्डी सम्बन्धी; (३) मेन्टम-, मेन्टम सम्बन्धी; मेन्टमी।

mentigerous—(L. *mentum*, chin; *gerere*, to carry) मेन्टमधारी; चिबुकधारी।

mentomeckelian—(L. *mentum*, chin; J. F. Meckel, junior, German anatomist) मेन्टोमकेलियन (उपास्थि अस्थि); निम्न कशेरुकों में चिबुकास्थि संयोग (mandibular symphysis) के दोनों ओर स्थित एक उपास्थि-अस्थि (cartilage bone)।

mentum—(L. *mentum*, chin) (१) ठुड्डी; ठोड़ी; चिबुक; (२) मेन्टम; चिबुकांग; कीटों (insects) में अग्रमेन्टम (prementum) और अधःमेन्टम (submentum) के मध्य का लेवियम (labium) का प्रदेश।

mericarp—(Gk. *meros*, part; *karpos*, fruit) फलांशक; भिदुरफल (schizocarpic fruit) के परिपक्व होने पर अनेक अस्फोटी टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और यह टुकड़े फलांशक (mericarp) कहे जाते हैं।

प्रत्येक फलांशक में एक या एक से अधिक बीज होते हैं जो फलभित्ति के सड़ने पर ही मुक्त होते हैं।

फलांशक लोमेन्टम, क्रैमोकार्प; कार्सेरुलस, समारा, रेग्मा फलों के बनते हैं।

meridional canal

- meridional canal**—दक्षिणाभिमुख नाल; रेखांशिक नाल; टीनोफोरा (ctenophores) में वह नाल जिनमें अधि अरीय नाल (adradial canals) खुलती हैं।
- meridional furrow**—दक्षिणाभिमुख खाँच; रेखांशिक सीता; विखण्डन डिम्ब में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैलने वाली अनुदैर्घ्य खाँच (सीता)।
- mere**—(L. *merus*, unmixed) मीयर; सीमा रेखा; अंश; खण्ड।
- meris**—(L. *meris*, division) कोशिका वृद्धि; वृद्धि। [देखिये—auxesis]
- merismatic**—(L. *merismos*, partition) खण्डन; खण्डों या कोशिका में बटना।
- merismoid**—(Gk. *merismos*, partition; *eidōs*, like) शाखीय सिरस्त्रयी (pileus)।
- merispore**—(Gk. *meros*, part; *sporos*, seed) स्पोर खण्ड; बहुकोशिकीय स्पोर निकाय का एक खण्ड या एक स्पोर।
- meristele**—(Gk. *meros*, part; *stēle*, pillar) रंभ शाखा; रंभ (stēle) की पर्ण को जाने वाली शाखा।
- meristem**—(Gk. *meristes*, divider) विभज्योतक; मेरिस्टेम; उपचीयमान (growing) बिन्दुओं पर पाया जाने वाला स्थानान्तरित होने वाली (आक्षेपण) कोशिकाओं का बना ऊतक (tissue)।
- meristematic**—(Gk. *meristes* divider) विभज्योतकी; उपचीयमान ऊतक कोशिकाएँ।
- meristic**—(Gk. *meristes*, divider) गणनीय; खण्डित भागों में बँटा हुआ; भागों की संख्या में भिन्न।
- meristic variation**—खण्डित विभिन्नता; भागों, खण्डों की संख्या में तथा भागों के ज्यामिति सम्बन्धों में विभिन्नता।
[देखिये—substantive variation सूत्र विभिन्नता]
- meristogenetic**—(Gk. *meristes*, divider; *genesis*, descent) विभज्योतक जनन; मेरिस्टेम जनन।
- merithallus**—(Gk. *meros*, part; *thallos* young shoot) मेरिथैलस अर्थात् पर्व (internode)।
- Merkel's corpuscle**—(F. S. *markel*, german anatomist) मरकल कण; स्पर्श ज्ञापक (त्वचा और मूँह में स्थित)।
- mermaid's purse**—जलपरी धानी; डिम्ब धानिन; डिम्बधानी; उपास्थि मत्स्यों (elasmobranchs) की तैरने वाली या जमी हुई लण्डों की थैली।

- mermithaner**—(Gk. *mermis*, cord; *aner*, male) शुल्बनर; मरमिस (mermis); आश्रित नर पिपीलिका (male ant)।
- mermithergate**—(Gk. *mermis*, cord; *ergates*, worker) शुल्बोद्योगी।
- mermithogyne**—(Gk. *mermis*, cord; *gyne*, female) शुल्बनारी।
- meroandry**—(Gk. *meros*, part; *aner*, male) अंश-पुंसकता।
- meroblast**—(Gk. *meros*, part; *blastos*, bud) अंशज; स्पोरोजोआ (sporozoa) जीवों में स्फोटी (schizont) तथा अंशाणु (merozoite) के बीच की स्थिति।
- meroblastic**—(Gk. *meros*, part; *blastos*, bud) अंश खण्डित; ऐसे डिम्ब जो परिवर्धन में केवल आंशिक खण्डित होते हैं।
- merocerite**—(Gk. *meros*, thigh; *keras*, horn) स्पर्शक चतुर्थ खण्ड; केकड़ा वंशियों (crustaceans) के स्पर्शक का चौथा खण्ड या भाग।
- merocrine**—(Gk. *meros*, part; *krinein*, to separate) मीरोक्राइन; वह ग्रन्थियाँ (glands) जिसमें स्राविक कोशिका (secreting cells) बारम्बार कार्य करने के उपयुक्त होती रहती है।
- merocytes**—(Gk. *meros*, part; *kytos*, hollow) मीरोसाइट; अंश कोशिका; अंशाणु।
- merogametes**—(Gk. *meros*, part; *gametes*, spouse) अंश-जन्मु।
- merogamy**—(Gk. *meros*, part; *gamos*, marriage) अंश निषेक; सूक्ष्म निषेक; प्रयुग्मन।
- merogastrula**—(Gk. *meros*, part; *dim* of *gaster*, stomach) अंश-द्विस्तर; अंश विभाजी डिम्ब से बना हुआ द्विस्तर भ्रूण (gastrula)।
- merogenesis**—(Gk. *meros* part; *genesis*, descent) अंश जनन; खण्डनता; खण्ड विभक्तता; भागों में बँट कर बनना।
- merognathite**—(Gk. *meros*, thigh; *gnathos*, jaw) हनुखण्ड; केकड़ा वंशी (crustaceans) के मुख-अवयव का चतुर्थ खण्ड।

merogony—(Gk. *meros*, part; *gone*, generation) अंश सन्तति; अंश विभाजन, अण्ड के एक भाग से साधारण छोटे नाप के भ्रूण का बनना जिसमें भादा पुराण्टि (female pronucleus) नहीं होती है।

meroistic—(Gk. *meros*, part; *oon*; *egg*) अंश डिम्बी; पोषी प्रकार; वह डिम्ब नलिका (oviduct) जिसमें पोषिक (nutritive) या घाय कोशिका (nurse-cell) होते हैं।

merokinesis—(Gk. *meros*, part; *kinesis*, movement) अंश कोशिका विभाजन; मीरोकनाईसिस।

merome—(Gk. *meros*, part) देह खण्ड; खण्ड; अनु-खण्ड।

meromorphosis—(Gk. *meros*, part; *morphosis*, shaping) अंश पुनर्निर्माण; आंशिक पुनरुत्पत्ति; नष्ट हुए भाग से कम का पुनर्निर्माण।

meron—(Gk. *meros*, upper thigh) मेरोन; मीरोन; पट्टिका; (१) कीटों (insects) के काँवसा (coxa) का पश्च भाग; (२) द्विपंखियों (diptera) में पश्च काँवसा (hind coxae) के समीप स्थित पट्टिका या स्क्लराइट (sclerite)।

meront—(Gk. *meros*, part, *on*, being) मीरोन्ट; खण्डक; एकाण्टि, स्फोटी; स्फोटी (schizont) अवस्था (stage) जिसमें केवल एक केन्द्रक या न्यूक्लियस (nucleus) होता है।

meroplankton—(Gk. *meros*, part; *planktos*, wandering) अंश प्लवक; अस्थायी प्लवक (plankton) जो अधिकांश में अण्डों (eggs) और अर्भकों (larvae) का बना होता है।

meropodite—(Gk. *meros*, upper; *thigh*; *pous*, foot) पादांश; खंडपादांश; (१) केकड़ा वंशियों (crustaceans) में वक्ष आवयव (thoracic appendage) का चतुर्थ खण्ड; (२) मकड़ियों (spiders) की फीमर (femur) टांग की हड्डी विशेष।

merosomatous—(Gk. *meros*, part; *soma* body) खण्ड देहिक; वक्ष (thorax) और उदर (abdomen) में बटा हुआ वाला।

merosome—(Gk. *meros*, part; *soma* body) खण्ड पिण्ड; रूंधित पिण्ड।

merosthenic—(Gk. *meros*, upper thigh; *sthenos*, strength) विपश्चावयवी; असाधारण पिच्छनी टांगों वाला।

merotomy—(Gk. *meros*, part; *temnein*, to cut) खण्डन; अंश कर्तन; भाग में बटा हुआ होना।

merozoite—(Gk. *meros*, part; *zoon*, animal) मीरोजोइट; खण्डज; अंशाणु; खंडजाणु; स्पोरोजोवा (sporozoa) में स्फोटी (schizont) के सणन में बने हुए अंशाणु (merozoites)।

merozoon—(Gk. *meros*, part; *zoon*, animal) खण्डित जीव; कृत्रिम रूप में विभाजित एक कोशिकीय जन्तु का वह भाग विशेष जिसमें बृहदाण्टि (macronucleus) का भी खण्ड रहता है।

merrythought—कमकुला; पक्षियों में हसुली की हड्डियों के जुड़ने से बनी हुई माना की तरह की हड्डी।

mesadenia—(Gk. *mesos*, middle; *aden*, gland) मध्य ग्रन्थी; मसाडीनिया, पट्टपादों (insects) के मध्य-जन (mesoderm) से उत्पन्न सहायी अन्तर्निद्रियाँ (accessory genital organs)।

mesamoeboid—(Gk. *mesos*, middle, *amoibe*, change; *eidōs*, form) मध्यरक्ताणुज; वह रक्त की केन्द्रक कोशिकाएँ (nucleated cell) जिनमें रक्ताणु (corpuseles) बनते हैं।

mesanepimeron—(Gk. *mesos*, middle; *ana*, up; *meros*, upper thigh) मिसानेपीमीरोना; द्विपंखियों (diptera) में पक्षाधर (wingbase) के नीचे तथा जाँघ के ऊपर स्थित हड्डी पट्ट या स्क्लराइट (sclerite)।

mesarch—(Gk. *mesos*, middle; *arche*, beginning) मध्यदारु; (१) आदिदारु (protoxylem) अनुदारु (metaxylem) से घिरा हुआ। (२) ऐसा दारु जिसमें आदिदारु (protoxylem) से सब दिशाओं में अनुदारु वधित होता हुआ—जैसे फर्न में।

mesaxonic—(Gk. *mesos*, middle; *axis*) पदाधर; पाँव की धीन की अंगुली तक बढ़ने वाला रज्जु।

mesectoderm—(Gk. *mesos*, middle, *ektos*, outside; *derma*, skin) मध्यवहिनदर; पर्यटनी (migrated) बहिजन (ectodermal) कोशिकाएँ (cells) से निर्मित ऊतक (tissue)।

mesembryo

mesembryo—(Gk. *mesos*, middle; *embryon*, embryo) ब्लास्टुला; एक स्तर भ्रूण (blastula) ।

mesencephalon—(Gk. *mesos*, middle; *on*, in; *kephale*, head) मध्य मस्तिष्क; मिजनसिफेलॉन ।

mesenchyma, mesenchyme—(Gk. *mesos*, middle; *engchein*, to pour in) मिजनकाईमा; मध्यो-तक; द्विस्तर भ्रूण (gastrula) के बहिजन (ectoderm) तथा अर्न्तजन (endoderm) के मध्य में स्थित तन्तु विशेष ।

mesendoderm—(Gk. *mesos*, middle; *endon*, within; *derma*, skin) अर्न्तवलीयजन; अर्न्तवलयजन ।

mesenterial—(Gk. *mesos*, middle; *enteron*, gut) अन्त्र युजी; मिसेन्टर सम्बन्धी; आंत्रयोजनी; पटीय ।

mesentric—(Gk. *mesos*, middle; *enteron*, gut) अन्त्रयुजी; मिसेन्टरी सम्बन्धी; मिसेन्ट्रिक; आंत्र-योजनी ।

mesenteriole—(L. *dim*, of mesenterium) अन्त्र-युज भाँज ।

mesenteron—(Gk. *mesos*, middle; *enteron*, gut) मिसेन्ट्रोन् । (१) अन्त्रनली का वह भाग जो अर्न्तजन (endoderm) से बनता है । (२) मध्यांत्र । (३) सीलो-मांत्री (coelenterata) की मुख्य (main) पाचक कोटर ।

mesentery—(L. *mesentesium*, mesentery) मिसेन्टरी; अन्त्रयुज; आंत्रयोजनी । (१) अन्त्राधार गह्वर वेष्ट (peritoneum) की वह सिलवट, जो अर्न्तडियों (intestines) को स्थिर रखती है । (२) सीलोमान्त्रियों (coelenterates) में देह भित्ति की ओर पहुँचता हुआ पेशीमय (muscular) व्यवधान ।

mesepimeron—(Gk. *mesos*, middle; *epi*, upon; *meros*, upper thigh) मिसेपीमीरोन; मध्यवक्षोर्ध्व पट्टिका; मध्यपश्च-पाश्वर् पट्टिका । कीटों (insects) के मध्यवक्ष (mesothorax) का पश्च पाश्वर् पट्टिका (epimeron) ।

mesepisternum—(Gk. *mesos*, middle; *epi*, upon; *sternon*, breast) मध्योपरि वक्षारिय; मध्य अधि उरोस्थि ।

mesethmoid—(Gk. *mesos*, middle; *ethmos*; sieve; *eidos*, form) मीजेथमोइड; झर्रिका; कपाल के मध्य की अस्थि विशेष ।

mesiad—(Gk. *mesos*, middle) मध्य समीप; मध्य-तक्ष (median plane) की ओर या समीप ।

mesial—(Gk. *mesos*, middle) मध्या; मध्य; मध्य में खड़ी (vertical) या लम्बी (longitudinal) तक्ष (plane) के मध्य में ।

mesic—मेसिक; मध्यावस्थी; ऐसे जन्तु या पौधे जो खुशक (xeric) और आर्द्र (hydric) दोनों अवस्थाओं के मध्य की अवस्थाओं में रहने वाले हों ।

mesobenthos—(Gk. *mesos*, middle; *benthos*, depths) मध्यागाधवासी; मध्यनितलक; समुद्र तल पर १०० से ५०० फँदम (fathom) की गहराई पर रहने वाले जन्तु या पौधे विशेष ।

mesoblast—(Gk. *mesos*, middle; *blastos*, bud) मध्यस्तर; मध्यांकुर; मध्यकोरक ।

mesoblastic—(Gk. *mesos*, middle; *blastos*, bud) मध्यस्तरी; मध्यस्तर सम्बन्धी; मध्यकोरकी ।

mesobranchial—(Gk. *mesos*; middle; *branchia*, gills) मध्यगिली; मध्यक्लोमी ।

mesobronchus—(Gk. *mesos*, middle; *branchos*, wind pipe) मध्यश्वास नलिका; मध्यश्वसनी; मुख्य श्वास नलिका । पक्षियों (birds) में श्वास की प्रमुख नली; जिससे गौण (secondary) श्वास उप-नलिकाएँ निकलती हैं ।

mesocaecum—(Gk. *mesos*, middle; L. *caecus*, blind) सीकम युज ।

mesocardium—(Gk. *mesos*, middle; *kardia*, heart) हृत्पुज; हृत्पुजनी ।

mesocarp—(Gk. *mesos*, middle; *karpos*, fruit) मध्य भित्ति; फल की बीच की परत जो मांसल तथा रेशेदार होती है ।

mesocentrous—(Gk. *mesos*, middle; *kentron*, centre) मध्यास्थि गठन; मध्य केन्द्र में अस्थि करण होना ।

mesocephalic—(Gk. *mesos*, middle; *kehhale*, head) मध्य कपाली; मध्यसिरी ।

mesochilium—(Gk. *mesos*, middle; *cheilos*, lip) ओष्ठक मध्य; आरकिड्स (orchids) के ओष्ठक (labellum) का मध्यांश ।

mesocoel—(Gk- *mesos*, middle; *koilos*, hollow) मध्य गुहा; (१) मध्यगह्वर-सीपीवंशी या मौलस्क (mollusca) के गह्वर या देहकोटर के तीन मुख्य भागों में से मध्य का भाग । (२) मध्य मस्तिष्क गुहा; (३) सिल्वियस (sylvius) की जल नलिका (aqueduct) (४) आईटर (iter) द्वितीय तथा तृतीय मस्तिष्क विवर (ventricle) जोड़ने वाला नलिका पथ ।

mesocolic—(Gk. *mesos*, middle; *kolon*, large intestine) मध्य वृहदांत्र ।

mesocolon—(Gk. *mesos*, middle; *kolan*, large intestine) मध्यवृहदांत्र; वृहदंत्रयोजनी ।

mesocoracoid—(Gk. *mesos*, middle; *korax*, crow; *eidos*, form) मध्यांसक; मीसोकोराकाइड, मध्य अंस तुण्ड ।

mesocotyl—(Gk. *mesos*, middle; *kotyle*, cup) मध्य चषक; मीसोकोटाइल ।

mesocycle—(Gk. *mesos*, middle; *kyklos*, circle) मध्य ऊतक; एक रंभीय तने में दारु (जाइलम) और फ्लोएम (phloems) के बीच का ऊतक स्तर । संज्जिष्ट (conjunctive) रंभ का ऊतक ।

mesodaeum—(Gk. *mesos*, middle; *odaios*, part, way) मध्यांत्र; भ्रूणिक (embryonic) पाचक पथ (digestive tract) का अन्तर्जनीय (endodermal) भाग जो अग्रांत्र या स्टोमोडियम (stomodaeum) तथा पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम (proctodaeum) के मध्य में होता है ।

mesoderm—(Gk. *mesos*, middle; *derma*, skin) मध्यस्तर; मध्य जन स्तर; मेसोडर्म; मध्य जन; बहिजन (ectoderm) और अन्तर्जन (endoderm) के मध्य का स्तर ।

mesodermal—(Gk. *mesos*, middle; *desma*, skin) मध्यजनी; मध्य जन सम्बन्धी; मध्यजन स्तरी; मध्यजन स्तर सम्बन्धी ।

mesodesm—(Gk. *mesos*, middle; *desma*, bond) मध्यानुबन्ध; मध्याबंध ।

mesodont—(Gk. *mesos*, middle, *odous*, tooth) मध्य दन्त; मध्य दन्ती ।

mesogaster—(Gk. *mesos*, middle; *gaster*, stomach) आभाशय-युज; आभाशय वन्धक; जठर योजनी ।

mesogastric—(Gk. *mesos*, middle; *gaster*, stomach) आभाशय युजी; मध्य पाचकी प्रदेश ।

mesogastrium—(Gk. *mesos*, middle; *gaster*, stomach) मध्योदर क्षेत्र; मीसो गेस्ट्रीयम ।

mesogleia—(Gk. *mesos*, middle; *gloia* glue) मध्य श्लेष; नाड़ी मण्डल में मध्यस्तर सम्बन्धी भक्षक स्थानान्तरित कोष्ठ या कोशिका ।

mesogloea—(Gk. *mesos*; middle; *gloia*, glue) मध्यश्लेषक; मध्यश्लेष स्तर; छिद्र देहियों (porifera) और सीलोमान्त्रियों (coelenterates) में बीच की अकोशिकीय (non-cellular) जिलेटिन (gelatinous) की एक तह ।

mesognathion—(Gk. *mesos*, middle; *gnathos*, jaw) पार्श्वश अग्रोर्ध्वहनु; अग्रोर्ध्व हनु (premaxilla) का पार्श्व खण्ड, जिसमें पार्श्वकर्तक (lateral incisor) लगे रहते हैं ।

mesohepar—(Gk. *mesos*, middle; *hepar*, liver) यकृत युज ।

mesolecithal—(Gk. *mesos*, middle; *lekithos*, yolk) मध्ययोकी; मध्य डिम्बाक्षी; मध्य पीतक; मध्य में योक या डिम्बान्न (yolk) वाला डिम्ब या अण्ड ।

mesology—(Gk. *mesos*, middle; *logos*, discourse) जन्तु व्यवहार विज्ञान; अङ्गीयों (organisms) और वातावरण (environment) का परस्पर व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन ।

mesomere—(Gk. *mesos*, middle; *meros*, part) मध्यक्षेत्र; मध्यखण्ड; भ्रूण (embryo) के सीलोम कोषिकाओं (coelomic pouches) के मध्य का क्षेत्र ।

mesometrium—(Gk. *mesos*, middle; *metra*, uterus) गर्भाशय युज; गर्भाशय (uterus) और उससे सम्बन्धित नलिकाओं (connecting tubes) की भिसेन्ट्री या वन्धक कला या युज ।

- mesomitosis**—(Gk. *mesos*, middle; *mitos*, thread) माध्याष्टि विभाजन; आंशिक विभाजन; अष्टान्तगत विभाजन; केन्द्रक कला (nuclear membrane) के अन्तर्गत का विषम विभाजन (mitosis) ।
- mesomorphic**—(Gk. *mesos*, middle; *morphe*, form) माध्यमिक—; मध्याकृतिक; बीच की बनावट वाला ।
- mesomyodian**—(Gk. *mesos*, middle; *mys*, muscle; *eidos*, form) मीसोमायोडियन; ऐसे पक्षी (birds) जिनमें स्वर वाद्य (syrinx) की मांसपेशियाँ (muscles) श्वास नलिका (bronchus) के अर्ध-छल्लों से (semi rings) लगी रहती हैं ।
- meson**—(Gk. *mesos* middle) केन्द्र तक्ष (तल) ।
- mesonephric**—(Gk. *mesos*, middle; *nephros*, kidney) मध्यवृक्कीय ।
- mesonephridium**—(Gk. *mesos*, middle; *nephros*, kidney; *idion*, dim) मध्योत्सर्गाश; मध्योत्सर्जिनी; कुछ अकशेरुकों (invertebrates) का उत्सर्गांग या विसर्जन अंग ।
- mesonephros**—(Gk. *mesos*, middle; *nephros*, kidney) मध्यवृक्क; कशेरुकों (vertebrates) के भ्रूण (embryos) के विसर्जन अङ्ग (excretory organ) का मध्य भाग । कशेरुकों के वृक्क का वह भाग जो भ्रूण वर्धन में प्राक्वृक्क (pronephros) के बाद और इसके पश्च से वर्धित होता है और प्राक्वृक्क वाहिनी (pronephric duct) में खुलती है । यह प्रौढ़ अनुल्बी वर्ग (anamnotes) की क्रियाशील वृक्क होती है और उल्बी वर्ग (amnotes) में केवल भ्रूण को ही वृक्क का यह कार्य करती हैं बाद में यह अपह्लासित (degenerate) हो जाती है । केवल नर में वृषण के साथ कुछ भाग लगा रहता है ।
- mesonotom**—(Gk. *mesos*, middle; *noton*, back) मध्य पृष्ठिका; पटपादों (insects) में मध्यवक्ष (mesothrax) का पृष्ठ भाग (dorsal part) ।
- mesoparapteron**—(Gk. *mesos*, middle; *para*, beside; *peron*, wing) माध्योपपृष्ठिका ।
- mesopetalum**—(Gk. *mesos*, middle; *petalon*, leaf) ओष्ठक या ओष्ठ (अंतरिक) का ।

- mesophanerophyte**—(Gk. *mesos*, middle; *phaneros*, manifest; *phyton*, plant) मध्यम वृक्ष; ८ से ३० मीटर तक की ऊंचाई के वृक्ष ।
- mesophloem**—(Gk. *mesos*, middle; *phloios*, smooth bark) मध्यवल्कल; हरीत वल्कल ।
- mesophase**—(Gk. *mesos*, middle; *phasis*, to shine) मध्यस्थिति ।
- mesophragma**—(Gk. *mesos*, middle; *phragma*, fence) मध्यप्रावर ।
- mesophryon**—(Gk. *mesos*, middle; *ophrys*, eyebrow) मध्योन्नम; (मध्य शिरोन्नम) ट्राइलो वाईटीज (trilobites) के सिर के बीच का ऊंचा उठा हुआ भाग ।
- mesophyll**—(Gk. *mesos*, middle; *phyllon*, leaf) मध्यपर्ण; पर्णांत निर्यासक, पक्षी के अन्दर का निर्यासक (parenchyma) ।
- mesophyte**—(Gk. *mesos*, middle; *phyton*, plant) शीतोष्णीपादप; परितरु; ऐसा पौधा (तरु) जो शीतोष्ण जलवायु और सामान्य आर्द्रता में समृद्ध रहता है ।
- mesoplankton**—(Gk. *mesos*, middle; *planktos*, wandering) मध्य प्लवक ।
- mesoplasm**—मध्य प्रदव्य ।
- mesoplast**—(Gk. *mesos*, middle; *plastos*, moulded) कोशिकाष्टि; अष्टि; केन्द्रक ।
- mesoplastic**—(Gk. *mesos*, middle; *plastos*, moulded) वैधिकाकृतिक; साधारण या औसत आकृति वाले ।
- mesoplastron**—(Gk. *mesos*, middle; *F. plastron*, breast plate) मध्य पट्टिका ।
- mesopleuron**—(Gk. *mesos*, middle; *pleura*, side) मध्यपार्श्व पटल; कीटों (insects) के मध्यवक्ष का पार्श्व पटल ।
- mesopodial**—(Gk. *mesos*, middle; *pous*, foot) पादमध्यांशी ।
- mesopodium**—(Gk. *mesos*, middle; *pous*, foot) पादमध्यांश; मध्यपाद; मौलस्का (mollusca) के पाँव के बीच का भाग ।

mesopraescutum—(Gk. *mesos*, middle; L. *prae*, before; *scutum*, shield) माध्यमिक पृष्ठिकाग्र मध्य; कीटों (insects) में मध्यवक्ष (mesothorax) का अग्र-पृष्ठ (praescutum) का मध्य ।

mesopterygium—(Gk. *mesos*, middle, *pteyr-gion*, little wing or fin) मध्य स्कन्धीय फिन; मध्य पंखक; उपास्थि मत्स्यों (elasmobranchs) में तीन स्कन्ध फिन या क्षेपणीयों (fins) में से मध्य की एक क्षेपणी या फिन (fin) ।

mesopterygoid—(Gk. *mesos*, middle *pteryx*, wing, *eidōs*, form) मीसोप्टेरीगोइड; मध्यत्र्यंगिका; अस्थि मत्स्यों या टिन्नियोस्टस (teleosts) के कपाल की एक अस्थि विशेष ।

mesoptile—(Gk. *mesos*, middle; *ptilon*, feather) मीसोपटाइल; पंख-मध्य; द्वितीय शावपिच्छ ।

mesorchium—(Gk. *mesos*, middle; *orchis*, testicle) वीर्याणु ग्रन्थि युज; वृषण युज; वृषणाघर ।

mesorectum—(Gk. *mesos*, middle; L. *rectus*, straight) मलाशय-युज; मलाशय योजनी ।

mesorhinal—(Gk. *mesos*, middle; *rhis*, nose) नासा मध्य; नासिका छिद्र मध्य; मध्य घ्राणीय ।

mesorhinium—(Gk. *mesos*, middle; *rhis*, nose) मध्य अंतरानासा; पक्षी चंचु का अंतरानासा (internerval) तल क्षेत्र ।

mesosalpinx—(Gk. *mesos*, middle; *salpinx*, trumpet) मध्य तुर्यक; फौलोपी योजनी; गर्भाशय नलिका को घेरने वाले चौड़े लिगामैन्ट का भाग ।

mesoscapula—(Gk. *mesos*, middle; L. *scapula*, shoulder blade) स्केपुला मेड़; स्कान्धास्थि कूट; मध्य अंश फलक खंड ।

mesoscutellum—(Gk. *mesos*, middle; L. *scutellum*, small shield) मीसोस्कूटेलम; मध्य स्कूटेलम; मध्य-पृष्ठिका पश्च; षट्पादों (insects) में मध्यवक्ष (mesothorax) का हृदाच्छद (scutellum) ।

mesoscutum—(Gk. *mesos*, middle; L. *scutum*, shield) मीसोस्कूटम; मध्यस्कूटम; मध्यपृष्ठिका; कीटों (insects) में मध्यवक्ष (mesothorax) का पृष्ठिका मध्य स्कूटम (scutum) ।

mesosoma—(Gk. *mesos*, middle; *soma*, body) देह मध्य; देह का मध्य भाग; मध्य काय ।

mesosome—(Gk. *mesos*, middle; *soma*, body) मध्यपिण्ड ।

mesosperm—(Gk. *mesos*, middle; *sporma*, seed) मध्य बीजाण्ड; बीजांड केन्द्रक त्वक्; बीजाण्ड के केन्द्रक (nucleus) को घेरे हुए त्वक (integument) ।

mesospore, mesosporium—(Gk. *mesos*, middle *spores*, seed) (१) मध्यकोन (बीजाणु); (२) एक कोशिकीय टेल्यूटो बीजाणु (teleutospore) किन्ही फन्जाई में; (३) बीजाणु विश्रामी अवस्था ।

mesostate—(Gk. *mesos*, middle; *stasis*, standing) परिणत मध्यावस्था; परिणति या उपापचय प्रक्रिया (metabolism) के बीच की स्थिति ।

mesostereom—(Gk. *mesos*, middle; *stereos*, solid) मध्य प्रावरक (thecal) पट्ट ।

mesosternebra—(Gk. *mesos*, middle; *sternum*, breast bone) मध्यवक्षकांश; मध्यवक्षक का बढ़ता हुआ या बनता हुआ (developing) भाग ।

mesosternum—(Gk. *mesos*, middle; L. *sternum*, breast bone) मध्यवक्षक; मीसोस्टर्नम; मध्यदरोस्थि ।

mesostethium—(Gk. *mesos*, middle; *stethos*, chest) मध्यवक्ष ।

mesostylous—(Gk. *mesos*, middle; *stylos*, pillar) मध्यवर्तिक; मध्य कक्षोंग-अनुवंधी (stylous) (कीटों में) ।

mesotarsal—(Gk. *mesos*, middle; L. *tarsus*, ankle joint) मध्यपाद गुल्फी; मध्यावयव गुल्फी; कीटों (insects) में मध्यावयव (middle limb) के गुल्फ या टारसस (tarsus) सम्बन्धी ।

mesotarsus—(Gk. *mesos*, middle; L. *tarsus*, ankle-joint) मध्यावयव गुल्फ; मध्यपाद गुल्फ ।

mesotergum—(Gk. *mesos*, middle, L. *tergum*, back) मीसोटरगम; मध्य पृष्ठ पटल; मध्य पृष्ठक ।

mesothecium—(Gk. *mesos*, middle; *theke*, cup), मध्य परागकोश आच्छद ।

mesothelium—(Gk. *mesos*, middle; *thele*, nipple) पेशी तन्तु जन; मध्यजन (mesoderm) जो पुरा-सीलोम (primitive coelome) को घेरे रहती है और जो मांस (muscular) व बंधक तन्तु (connective tissue) को बनाती है ।

mesotherm

mesotherm—(Gk. *mesos*, middle; *therme*, heat) मध्यऋणो; मध्यतापी ।

mesothoracic—(Gk. *mesos*, middle; *thorax*, chest) मध्यवक्षीय ।

mesothorax—(Gk. *mesos*, middle; *thorax* chest) मध्यवक्ष ।

mesotic—(Gk. *mesos*, middle; *ous*, ear) मीसोटिक; मध्यकपालीय उपास्थि; पक्षियों (birds) के कपाल की अस्थि विशेष ।

mesotriaene—(Gk. *mesos*, middle; *triaina*, trident) मध्य त्रिशाली स्पीक्युल ।

mesotrochal—(Gk. *mesos*, middle; *trochos*, wheel) मध्य चक्री; मध्य चक्रक; खण्डदेहियों (annelida) का अर्भक विशेष ।

mesotrophic—(Gk. *mesos*, middle; *trophe*, nourishment) सामान्य पुष्टि; मध्य पोषी ।

mesotympanic—(Gk. *mesos*, middle; *tympa-num*, drum) मीसोटिम्पेनिक; मध्यानक; सिम्प्लैटिक मत्स्यों के अघोहनु के आलम्बक यंत्र (suspensory apparatus) की एक अस्थि ।

mesovarium—(Gk. *mesos*, middle; L. *ovarium*, ovary) डिम्बाशय-युज । मत्स्यों (fishes) में लटकी हुई (suspensory) मीसेन्टरी या अन्त्र युज (mesentry) ।

mesoventral—(Gk. *mesos*, middle; L. *venter*, belly) मध्यअधरी ।

mesozoic era—(Gk. *mesos*, middle; *zoe*, life) मध्ययुग; मध्य जन्तुयुग; गौण भूगर्भकाल; सृष्टी (reptiles) जन्तुओं का युग ।

mesotome—(Gk. *mestos*, filled) बाहक गुच्छ ।

meta—“दीर्घ में”, “साथ” अर्थ का उपसर्ग ।

metabiosis—(Gk. *meta*, after, *biosis*, a living) परिणित जीवन; अनुजीविता; एक अंगी (organism) का पूर्णतः वातावरण तैयार करने के पश्चात् मर जाना और दूसरे अंगी का उसी स्थान में आकर रहने की दशा ।

metabolic—(Gk. *metabole*, change) परिणित सम्बन्धी; उपापचयी ।

metabolism—(Gk. *metabole*, change) परिणित प्रक्रिया; समष्टि प्रक्रिया; उपापचय; (१) शरीर की वह क्रियायें जिनसे भोजन जीवित तत्वों में परिणित होता है । (२) सजीव पदार्थों के समस्त रसायनिक परिवर्तनों का योग ।*

metabolite—(Gk. *metabole*, change) परिणितज; उपापचयज; समष्टिज; समष्टि या परिणित (metabolism) द्वारा उत्पन्न कोई वस्तु विशेष । वह पदार्थ जो उपापचय प्रक्रिया में भाग लेता है । अधिकांश उपापचयज (metabolite) उपापचय के दौरान अंगी द्वारा बनाये जाते हैं, शेष जिनकी आवश्यकता होती है पर्यावरण से लिये जाते हैं । स्वपोषित जीव (autotrophic organisms) केवल अकार्बनिक उपापचयज जैसे पानी, कार्बन डाइ आक्साइड, नाइट्रोजेन्स और कई सूक्ष्म मात्रक तत्व (trace elements) पर्यावरण से लेते हैं । परपोषित जीव (heterotrophic organisms) अकार्बनिक तथा कार्बनिक उपापचयज कुछ विटामिन और अमीनो अम्ल सहित पर्यावरण से लेते हैं ।

metaboly—(Gk. *metabole*, change) परिणिता; आकारांतरण ।

metabranial—(Gk. *meta*, after; *brangchia*, gill) उत्तर गिली; पृष्ठ क्लोमी ।

metacarpal—(Gk. *meta*, after; *karpos*, wrist) मेटाकारपल; करभास्थि; हथेली की हड्डी; करभिका ।

metacarpophalangeal—(Gk. *meta*, after; *karpos*, wrist; *phalangx*, series) कर्भ-पर्व सम्बन्धी ।

metacarpus—(Gk. *meta*, after; *karpos*, wrist) हथेली की हड्डियाँ; करभ । कलाई और अंगुली के बीच की हड्डियाँ जो प्रधानतः पाँच शलाकाकार (rod like) हड्डियाँ होती हैं ।

metacentric—(Gk. *meta*, among; *kentron*, centre); (१) अपकेन्द्री; च्युत केन्द्रक; मध्यकेन्द्री; (२) मध्य परम्परा सूत्री; मध्य केन्द्र गुणसूत्र ।

metacercaria—(Gk. *meta*, after; *kerkos*, tail) मेटासर्करिया, उत्तर सर्करिया; एक अर्भक विशेष ।

metacestode—(Gk. *meta*, after; *kestos*, girdle; *eidos*, form) मेटासेस्टोड; ब्लैडरवर्म; स्योतिक सिस्टोड; पट्ट-देहियों (tapeworms) का अर्भक ।

*नोट—परिणित=रूपान्तरित पका या पचा हुआ । परिणति=रूप में परिवर्तन होना; परिष्कार; समष्टि; अंत ।

metachordata—उच्चपृष्ठ दण्डी ।

metachromatic—(Gk. *meta*, after; *chroma*, colour) विरंजक; विविध रंजक; ऐसे पदार्थ विशेष जो रंग जाने पर ही पहिचाने जा सकते हैं ।

metachromy—(Gk. *meta*, after; *chroma*, colour) रंगविभेदता, रंग परिवर्तनता; वर्णतिरण ।

metachrosis—(Gk. *meta*, after; *chrosis*, colouring) रंगविभेदक्षमता; रञ्जक कोशिकाओं (pigment cells) के प्रसार (expansion) या संकुचन (contraction) द्वारा त्वचा (skin) के रंग या वर्ण (colour) में परिवर्तन करने की शक्ति ।

metacneme—(Gk. *meta*, after; *kneme*, tib a पेशीमय व्यवधान; गौण-युज, गौणपट ।

metacoel—(Gk. *meta*, after; *koilos*, hollow) अनुसील; मंडासील; पश्चगुहा; (१) मौलस्क (mollusc) की सीलोम या देह कोटर (coelome) का पश्च (posterior) भाग; (२) मस्तिष्क के चतुर्थ विवर (fourth ventricle) का अग्र प्रवर्धन (anterior extension) ।

metacone—(Gk. *meta*, after; *konos*, cone) अनुशंकु; पश्चदंताग्र; उर्ध्व चर्वक (upper molar) का बाह्य पश्च (postero-external) कस्प, शिखर या शंकु (cusp) ।

metaconid—(Gk. *meta*, after; *konos*, cone) अधः शंकु । अधोचर्वक (lowermolar) का अन्तः पश्च (posterointernal) कस्प, शिखर, या शंकु (cusp) ।

metaconule—(Gk. *meta*, after; *konos*, cone) गौण अनुशंकु ।

metacoracoid—(Gk. *meta*, after; *korax*, crow; *eidos*, form) मेटाकोराकाइड; कोराकाइड (coracoid) के पीछे का भाग ।

metacromion—(Gk. *meta*, after; *akros*, summit; *omos*, shoulder) मेटाक्रोमियन; पश्चांस फलक प्रवर्ध; स्कंधास्थिकूट (scapular spine) पर स्थित एक्रोमियन प्रवर्धन (acromion process) का पश्च शाखा (posterior branch) प्रवर्धन (process) ।

metacryptozoites—उत्तर गुप्ताणु; अनुक्रिप्टोजॉइड ।

metacyclic—(Gk. *meta*, after; *kyklos*, circle) पुनः संक्रमक; अनुचक्री; एक कोशिकीय परजीवी

(unicellular parasite) की वह स्थिति जो पुनः दूसरे पोषक (host) में रोग चालू कर सके ।

metadiscoidal—(Gk. *meta*, after; *diskos*, disc) उत्तरबिम्बकमल; पश्च चक्रकाभ अपरा; वह कमल या जेर (placenta) जिसमें प्रथम रसिकायें (villi) छितरी होती हैं और बाद में थालीनुमा आकृति में लग जाती हैं ।

metadromous—(Gk. *meta*, after; *dromos*, running) अनुशिरी ।

metaesthetism—(Gk. *meta*, after; *aisthetos*, perceptible by senses) अभिज्ञमत; यह सिद्धान्त या मत कि चेतना (consciousness) पदार्थ (matter) और शक्ति (energy) के विकास (evolution) की उपज है ।

metagastric—(Gk. *meta*, after; *gaster*, stomach) पश्च-आमाशयिक; आमाशय के पश्च भाग सम्बन्धी ।

metagastrula—(Gk. *meta*, after; *gaster*, stomach) मेटागैस्ट्रूला; उत्तर द्विस्तर भ्रूण; पश्च कन्दुक ।

metagenesis—(Gk. *meta*, after; *genesis*, descent) उत्पत्ति विपर्यय; समैकान्तरण । किसी प्राणी के जीवन में निर्लिङ्गी (asexual) और लिङ्गी (sexual) अवस्थाओं का क्रमशः प्रकट होना ।

metagyny—(Gk. *meta*, afterwards, *gyne*, female) पूर्व पुंसकता; पश्च जायता ।

[देखिये--protandry]

metakinesis—(Gk. *meta*, after; *kinein*, to mould) कोशिका विभाजन मध्यावस्था । विषम कोशिका विभाजन (mitosis) की मध्यावस्था या मध्य स्थिति (middle stage) जिसमें परम्परा सूत्र या क्रोमोसोम (chromosome) विषवत् तल (equatorial plane) में होते हैं ।

metallic—(Gk. *metallon*, mine) धातु रूप; धातु-सम्बन्धी; धात्विक; धातु- ।

metaph—(Gk. *meta*, after; *lophos*, crest) संहति शंकु; संयुक्त शंकु; चर्वक (molar) का पश्च शिखर (posterior crest) जो समस्त शिखरों को संयुक्त करे ।

metamere

metamere—(Gk. *meta*, after; *meros*, part) अनुखण्ड; विखंड ।

metameric—(Gk. *meta*, after; *meros*, part) अनुखण्डित; विखंडी ।

metamerism—(Gk. *meta*, after; *meros*, part) अनुखण्डता; समखण्डता; विखंडावस्था ।

metamerised—(Gk. *meta*, after; *meros*, part) समखण्डी ।

metamitosis—(Gk. *meta*, after; *meros*, part) पूर्ण विभाजन; पश्च सूत्रण; ऐसा विभाजन जिसमें अण्डि (nucleus) और कोष्ठ द्रव (cytoplasm) दोनों ही भाग विभक्त होते हैं । [देखिये—mesomitosis]

metamorphosis—(Gk. *meta*, beyond; *morpha*, form) रूपान्तर; कायान्तरण; किन्हीं जन्तुओं विशेषकर कीटों (insects) के जीवन इतिहास (life history) में डिम्ब (egg) से प्रौढ़ बनने तक की विभिन्न अवस्थायें ।

metamps—(Gk. *meta*, after; *morphe*, form) प्रकार रूपक; एक ही प्रकार (species) के कई एक रूप जैसे कुछ एक छिद्रदेहियों (porifera) में ।

metamyelocyte—(Gk. *meta*, among; *myelos*, marrow) अश्वपादाण्डि मज्जा कोशिका; श्वेताणु (leucocyte) में परिवर्तित होने से पूर्व अश्वपादाकार (horse-shoeshaped) केन्द्रक (nucleus) युक्त मज्जा कोशिका (myelocyte) ।

metanauplius—(Gk. *meta*, after; L. *nauplius*, kind of shell-fish) मेडानोपलियस; केंकड़ा वंशियों (crustaceans) का अर्भक विशेष ।

metandry—(Gk. *meta*, after; *aner*, male) अन्त-पुंसकता; अनुपुंसकता; स्त्रीपूर्वता ।
[protandry—पूर्व पुंसकता का उलटा]

metanephric—(Gk. *meta*, after; *nephros*, kidney) पश्च वृक्की; पश्च वृक्कीय ।

matanephros—(Gk. *meta*, after; *nephros*, kidney) पश्च वृक्क । उल्दी कशेरुकों (amniote vertebrates) के वृक्क का भाग जो भ्रूणिक वर्धन में मध्यवृक्क के पश्च और वाद में विकसित होता है । ये भाग मूत्र वाहिनी (ureter) को अपना लेता है जो मौलिक प्राक्वृक्क से उदित होती है । यह उत्तरार्ध भ्रूण और प्रौढ़ की क्रियाशील वृक्क होती है ।

metanotum—(Gk. *meta*, after; *noton*, back) पश्च या अनुपृष्ठिका ।

metanucleus—(Gk. *meta*, after; L. *nucleus*, kernel) उत्तर डिम्बाण्डि; जनन कोशिका के बाहर आ जाने पर डिम्ब की अण्डि ।

metaphase—(Gk. *meta*, after; *phainein*, to appear) विभाजी स्थिति, उत्तर स्थिति; मध्यावस्था; सूत्र कोशिका विभाजन (mitosis) की वह स्थिति; जिसमें परम्परा सूत्र या क्रोमोसोम (chromosomes) विष्वत् पट्ट (equatorial plate) पर लगे रहते हैं ।

metaphery—(Gk. *meta*, beyond; *pherein*, to bear) अंग विचलता; अंगों को अपने स्थान से विचलित हो जाना या हटा होना ।

metaphloem—(Gk. *meta*, after; *phloos*, bark) अनुपोषवाह (फ्लोएम); गौणदारु (जाइलम) का पोषवाह (फ्लोएम) ।

metaphragma—(Gk. *meta*, after; *phragma*, fence) अन्तःप्रवार; पश्चवृत्ति; कीटों (insects) में आन्तरिक (internal) अन्तः वक्षीय (metathoracic) जवनी या व्यवधान (septum) ।

metaphyte—(Gk. *meta*, after; *phyton*, plant) बहुकोशिकीय तह (पादप) ।

metaplasia—(Gk. *meta*, after; *plasis*, moulding) तन्तुपरिवर्तनता; तन्तुओं का एक किस्म से दूसरी किस्म में बदलना जैसा अस्थि करण में ।

metaplasia—(Gk. *meta*, after; *plasis*, moulding) परिपाक काल; जीव के जीवन का परिपक्व (mature) काल (period) ।

metaplastm—(Gk. *meta*, after; *plastos*, mould) अजीवित कण; निर्जीवांग; अजीव द्रव्य ।

metaplastic—(Gk. *meta*, after; *plastos*, mould) अजीवित कण सम्बन्धी ।

metaplastic or metaplastic bodies—अजीवित कण-; जीवन सत्व (protoplasm) के कण जो समष्टि प्रक्रिया या परिणति (metabolism) के कारण उत्पन्न हो जाते हैं पर वे वास्तव में उसके अङ्ग नहीं होते ।

metapleural—(Gk. *meta*, after; *pleura*, side) पश्चपाश्वरीय स्थिति ।

metapleure—(Gk. *meta*, after; *pleura*, side) अधरपार्श्व वलय; पुरातत्त्व कशेरुकों का उदरीय (abdominal) या अधर-पार्श्व त्वचा (integument) वलय (fold)।

metapleuron—(Gk. *meta*, after; *pleura*, side) पश्चपार्श्वक।

metapneustic—(Gk. *meta*, after; *pneum*, breath) मेटान्युस्टिक; पश्चरंध्र; कीटों (insects) का अर्भक विशेष जिसमें केवल एक अन्तिम (terminal) श्वास छिद्रों (spiracle) का ही युग्म (pair) होता है।

metapodeon or metapodeum—(Gk. *meta*, after; *pous*, foot) अन्तोदर; अनुवृन्तोदर कीटों (insects) के उदर का पाँव से पीछे का भाग।

metapodial—(Gk. *meta*, after; *pous*, foot) अन्तोदरी; अन्तोदर सम्बन्धी।

metapodium—(Gk. *meta*, after; *pous*, foot) पाद-पश्च; पश्चपाद; पादोत्तर; (१) मौलस्का (mollusca) के पाँव का पश्च भाग। (२) चतुष्पादों (four footed) में गुल्फ (tarsus) और उँगलियों (digits) के मध्य का भाग।

metapophysis—(Gk. *meta*, after; *apo*, from; *phyein*, to grow) उत्तर प्रवर्धन; अग्रवर्ध; कुचाग्रो प्रवर्धन; मेटापोफाइसिस; किन्हीं कशेरुकों (vertebrates) के कशेरु (vertebrate) का आगे की ओर निकला हुआ संयुक्तक प्रवर्धन (articular process)।

metapore—(Gk. *meta*, after; *poros*, channel) उत्तर छिद्र; पश्च रंध्र; दस्तिक के चतुर्थ विवर (fourth ventricle) की छत के मध्य का छिद्र।

metapostscutellum—(Gk. *meta*, after; *post*, after; *scutellum*, small shield) उत्तर पृष्ठिका पश्चान्त।

metapraescutum—(Gk. *meta*, after; *L. prae*, before; *scutum*, shield) उत्तर पृष्ठिकाग्र; मेटाप्रो-स्कूटम; कीटों (insects) के उत्तरवक्ष (metathorax) का पृष्ठिकाग्र (prescutum) भाग।

metapterygium—(Gk. *meta*, after; *pterygion*, little wing) पश्च स्कन्धीय फिन।

metapterygoid—(Gk. *meta*, after; *pteryx*, wing) पश्चटेरीगोयड; मेटाटेरीगोयड।

metaptile—(Gk. *meta*, after; *ptilon*, feather) पखपश्च।

metascutellum—(Gk. *meta*, after; *L. scutellum*, small shield) उत्तर पृष्ठिका पश्च; पश्च स्कूटेलम; मेटास्कूटेलम।

metascutum—(Gk. *meta*, after; *L. scutum*, shield) उत्तर पृष्ठिका; मेटास्कूटम; पश्चस्कूटम।

metasitism—(Gk. *meta*, after; *sitos*, food) प्रति रूप भक्षणता; नर भुंजता; अनुभक्षता।

metasoma—(Gk. *meta*, after; *soma*, body) उदरपश्च; पश्चोदर; पश्चकाय; (१) अरेकनोयडिया (arachnoidea) जन्तुओं के शरीर के पीछे का भाग। (२) उदर (abdomen) के पीछे का भाग।

metasomatic—(Gk. *meta*, after; *soma*, body) उदर पश्चीय; उदर पश्च सम्बन्धी; पश्च कायिक।

metasperm—(Gk. *meta*, after; *sperma*, seed) अनुबीजाणु; आवृत बीजाणु; आवृत बीजी।

metastasis—(Gk. *metastasis*, removal) (१) समष्टि या परिणति प्रक्रिया; उपापचय; (२) प्रक्रिया स्थानान्तरीकरण या एक अङ्ग से दूसरे अङ्ग पर क्रिया परिवर्तन; (३) रक्त वाहक संस्थान द्वारा जीवाणु परिचालन।

metastatic life history—अनुस्थिर जीवन चक्र; किन्हीं ट्रिमेटोडा (Trematoda) का ऐसा जीवन चक्र जिसमें तरुणावस्था मध्यस्थ पोषक में प्रविष्ट होने के पश्चात् प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार का मध्यस्थ पोषक (intermediate host) अंतिम पोषक द्वारा निगल लिया जाता है।

metasternum—(Gk. *meta*, after; *L. sternum*, breast bone) मेटास्टर्नम; पश्च उरोस्थि; (१) (कीटों में) वक्षास्थि का पश्चिम भाग। (२) अपुच्छी (anura) द्विधावासियों (amphibians) में जीफोस्टर्नम (xiphisternum) का पश्च भाग।

metasthenic—(Gk. *meta*, after; *sthenos*, strength) पश्च वर्धित; उत्तर वली; ऐसा जन्तु जिनके शरीर का पिछला भाग अधिक उन्नतिशील या वली होता है।

metastigmate—(Gk. *meta*, after; *stigma*, mark) पश्च श्वास छिद्री।

metastoma

metastoma—(Gk. *meta*, after; *stoma*, mouth) विभक्त-औष्ठ; मेटास्टोमा; पश्च मुखक; कैंकड़ा वंशियों (crustaceans) का दो दलों में बटा हुआ नीचे का होठ ।

metastructure—(Gk. *meta*, after; L. *struere*, to build) अतिसूक्ष्माकृति ।

metasyndesis—(Gk. *meta*, after; *syndesis*, bond) अनुसंयुजता ।

[देखिये—telosyndesis—अंत संयुजता]

metatarsal—(Gk. *meta*, after; L. *tarsus*, ankle) प्रपादास्थि-सम्बन्धी; प्रपादास्थि—; मेटाटार्सल; प्रपदवीय; पाँव के तलुवे की हड्डियों सम्बन्धी ।

metatarsus—(Gk. *meta*, after; L. *tarsus*, ankle) प्रपादास्थि; मेटाटार्सस; प्रपद ।

metathalamus—(Gk. *meta*, after; *thalamos*, chamber) अनुधैलेमस; अनुपात्र; अन्तर्मस्तिष्क (thalamencephalon) की जानुनत (geniculate) काय (body) ।

metatherian—(Gk. *meta*, beyond; *therion*, small animal) मेटाथीरिया; अनुस्तनी; शिशुज जन्तु विशेष ।

metathetely—(Gk. *metathein*, to run behind; *telos*, completion) पूर्वलक्षणी; पूर्वावस्था लक्षणी; पश्च पूर्णता; जैसे अर्भक लक्षणों का प्यूपा (pupa) या प्रौढ़ (imago) में विद्यमान होना ।

metathorax—(Gk. *meta*, after; *thorax*, chest) पश्च वक्ष ।

metatroch—(Gk. *meta*, after; *trochos*, wheel) पश्च चक्री; पश्च चक्रक ।

metatrophic—(Gk. *meta*, after; *trope*, nourishment) विविध पुष्टिक; पश्च पोषित; ऐसे प्राणी जो नेत्रजन युक्त (nitrogenous) और कार्बन युक्त (carbonaceous) दोनों जैविक पदार्थों पर जीवित रहते हैं ।

metatype—(Gk. *meta*, after; *typos*, image) प्रकार प्रतिरूप; अनुप्ररूप ।

holotype—एक जीव प्रतिरूप । नवीन जाति के लिये केवल एक ही जीव का चुन लेना ।

lectotype—समान प्रतिरूप । नवीन जाति के निर्णय के लिए समान प्रतिरूपों में से एक चुन लेना ।

topotype—मौलिक प्रतिरूप । मौलिक प्रतिरूप (original type) के स्थान से एक नमूना ।

metaxenia—(Gk. *meta*, beyond; *xenia*, hospitality) पश्च सत्कृति; मातृ ऊतक पर पराग का कार्यकी प्रभाव ।

metaxylem—(Gk. *meta*, after; *xylon*, wood) द्वितीय दारू ।

metazoea—(Gk. *meta*, after; *zoe*, life) मेटा-जुइया; पश्च जोइया; कैंकड़ा वंशियों (crustaceans) का अर्भक विशेष ।

metazoon—(Gk. *meta*, after; *zoon*, animal) बहुकोष्ठज; बहुकोशिकीय; उत्तर जन्तु ।

metembryo—(Gk. *meta*, after; *embryon*, embryo) द्विस्तर भ्रूण गैस्ट्रुला ।

metencephalon—(Gk. *meta*, after; *en*, in; *kephale*, head) अन्त्य या पश्च मस्तिष्क जिसमें मस्तिष्क का सेरीबिल (cerebellum), पोंस (pons) तथा चतुर्थ विवर (fourth ventricle) का माध्यमिक भाग रहता है ।

metenteron—(Gk. *meta*, after; *enteron*, gut) अन्त्यांत्र ।

metepimeron—(Gk. *meta*, after; *epi*, upon; *meros*, upper thigh) अन्त्य पक्षोर्ध्व पट्टिका; मेटेपीमीरोन ।

metepisternum—(Gk. *meta*, after; *epi*, upon; *sternon*, breast bone) अन्त्य पश्च पार्श्व पट्टिका; मेटेपीस्टर्नम ।

methaemoglobin—(Gk. *meta*, after; *haima*, blood; L. *globus*, globe) मेथेमोग्लोविन; हीमोग्लोविन का जारिक (oxidised) रूप, जिसका रसायनिक सूत्र HbO, HbOH होता है ।

metochy—(Gk. *meteche*, sharing) सनाभिता; पोषक (host) तथा निरक्षेप-अतिथि (neutral host) के बीच का सम्बन्ध ।

metoecious—(Gk. *meta*, after; *oikos*, house) भिन्नोपजीवी; जीवन की अवस्थाओं को दो पोषकों पर व्यतीत करने वाला ।

metoestrus—(Gk. *meta*, after; *oistros*, gadfly) अन्त्यमद; मदान्त दशा; मद के पश्चात् की शान्त दशा ।

metope—(Gk. *metopon*, foreheaded) मध्य ललाट; मध्य मस्तिष्कीय; केकड़ा वंशियों (crustaceans) के कपाल का मध्य भाग ।

metopic—(Gk. *metapon*, forehead) ललाटीय; मीटोपिक; (१) ललाट सेवनी सम्बन्धी । (२) ललाट सम्बन्धी; ललाटीय ।

metosteon—(Gk. *meta*, after; *osteon*, bone) पश्चवक्षीय अस्थिकरण (पक्षियों आदि में) ।

metovum—(Gk. *meta*, after; L. *ovum*, egg) परिवेष्ठित डिम्ब; योक (yolk) परिवेष्ठित डिम्ब कोशिका ।

metoxenous—(Gk. *meta*, after; *xenos*, guest) भिन्नोपजीवी ।

metraterm—(Gk. *metra*, womb, *terma*, end) अन्त्य गर्भाशय; गर्भाशयांत; ट्रिमेटोड (trematode) के गर्भाशय (uterus) का अन्तिम भाग ।

metula—(Dim. of L. *meta*, end-post) बीजाणु शाखा; स्पोर धारक शाखा ।

micella—(L. dim. of *mica*, morsel) मिसेला; काल्पनिक इकाई; शृंखला सम परमाणुओं का यथाक्रम संग्रह (समुदाय) ।

micraesthetes—(Gk. *mikros*, small; *aisthetes*, perceiver) अणु संवेदी ।

micraner—(Gk. *mikros*, small; *aner*, male) अणु नर; वामन नर; पिपीलिका (चींटी); लघु नर ।

micrergate—(Gk. *mikros*, small; *ergates*, worker) अणु-उद्यमी; बौनी संग्राहक पिपीलिका (चींटी) ।

micro-aerophils—अल्प-ओषी; ऐसे जीवाणु जिन्हें वायु में उपस्थित ओषजन (oxygen) की मात्रा से कम की आवश्यकता होती है ।

microbe—(Gk. *mikros*, small; *bios*, life) सूक्ष्मांगी; अणुजीवी; रोगाणु; अणुअङ्गी; ऐसे जीव या अङ्गी (organisms) जो सूक्ष्म दर्शक यन्त्र (microscope) की सहायता से ही देखे जा सकते हैं ।

microbiology—(Gk. *mikros*, small; *bios*, life; *logos*, discourse) सूक्ष्मांगी जीव विज्ञान; सूक्ष्म जैविकी; सूक्ष्म जीव विज्ञान ।

microblast—(Gk. *mikros*, small; *blastos*, bud) सूक्ष्मज; सूक्ष्म कोशिका; सूक्ष्म कोरक ।

microcalthrops—(Gk. *mikros*, small; A. S. *coltraeppe*, kind of thistle) आद्य चतुषाक्षी; चार अरी; यथार्थ तारक; चार अरयुक्त सामान्य केन्द्री तारक (aster) ।

microcentrum—(Gk. *mikros*, small; *kentron*, centre) अणु केन्द्र; सूक्ष्म केन्द्र ।

microcephalic—(Gk. *mikros*, small; *kephale*, head) अणु कपाली; लघु शीर्ष ।

microchromosome—(Gk. *mikros*, small; *chroma*, colour; *soma*, body) अणुक्रोमोसोम; अणु परम्परा सूत्र ।

microconidium—(Gk. *mikros*, small; *konis*, dust; *iodion*, dim) लघु कोनीडियम; गोनीडियम ।

microconjugant—(Gk. *mikros*, small; L. *conjugare*, to unite) अणु संयोगार्थी; कोई गतियुक्त (motile) तांत्रिक (ciliated) प्लावी (free swimming) संयोगार्थी (conjugant) या जन्यु (gamete) जो वृहत्-संयोगार्थी से जुड़कर निषेक करता है ।

microcyst—(Gk. *mikros*, small; *kytos*, hollow) अणु सिस्ट; अणु-स्थोति ।

microcytase—(Gk. *mikros*, small; *kytos*, hollow) अणु श्वेताणु ।

microcytes—(Gk. *mikros*; small; *kytos*, hollow) अणु रक्ताणु; सूक्ष्माणु ।

microdont—(Gk. *mikros*, small; *odous*, tooth) अणु दन्ती; लघु दन्ती ।

microevolution—(Gk. *mikros*, small; L. *evolvere*, to unroll) अल्प-विकास; सूक्ष्म-विकास; ऐसा विकास (evolution), जिसमें समस्त विकास प्रक्रियायें (evolutionary processes) अल्प काल (समय) जैसे मनुष्य जीवन काल में ही देखी जा सकें ।

microflaria—(Gk. *mikros*, small, L. *filum*, thread) माईक्रोफाइलेरिया; सूक्ष्मसूत्राभ; एक अर्भक विशेष ।

microgamete—(Gk. *mikros*, small; *gametes*, spouse) अणु जन्यु; नर जन्यु; लघुयुग्मक; दो संयोगार्थी (conjugant) जन्युओं (gametes) में से छोटा जन्यु जिसको नर जन्यु कहा जाता है ।

microgametoblast

microgametoblast—(Gk. *mikros*, small; *game-tes*, spouses; *blastos*, bud) अणु जनन कोशिका; लघुयुग्मक कोरक; किन्हीं एक कोशिकीय (protozoa) में मीरोजोइट या अंशाणु (microzoites) से निर्मित कोशिका जिससे अणु जन्यु (microgametes) उत्पन्न होते हैं।

microgametocyte—(Gk. *mikros*, small; *game-tes*, spouse; *kytos*, hollow) सूक्ष्म युग्मकज; किन्हीं प्रोटोजोआ में खंडजाणु से विकसित कोशिका जो लघु-युग्मक को जन्म देती है।

microgametogenesis—(Gk. *mikros*, small; *gametes*, spouse; *genesis*, descent) अणु जन्यु जनन; लघुयुग्मक जनन।

microgamy—(Gk. *mikros*, small; *gamos*, marriage) सूक्ष्म-निषेक; सूक्ष्म संलयन; भंजन (fission) या कलिकोत्पादन (gemmation) से उत्पन्न सबसे छोटे व्यक्तियों में निषेकोत्पादन (syngamy) या जन्यु संलयता (fusion of gametes)।

microglia—(Gk. *mikros*, small; *glia*, glue) अणुश्लेष; सूक्ष्म वन्ध; सूक्ष्म तंत्रिका वन्ध; (१) मध्य श्लेष; (२) मध्य जन (mesodermal) भक्षक कोशिका (phagocytic cells) धूसर (grey) और श्वेत (white) तंत्रिका पदार्थों में।

microgonidium—(Gk. *mikros*, small; *gonos*, offspring; *idion*, dim.) लघुगोनीडियम; नर-युग्मकज।

microgyne—(Gk. *mikros*, small; *gyne*, female) अणुनारी; लघुजाया; वामन (dwarf) नारी या मादा पिपीलिका (चींटी)।

microhenad—(Gk. *mikros*, small; *henas*, unit) अति सूक्ष्मांगी।

microleucithal—(Gk. *mikros*, small; *leukos*, white; *kytos*, hollow) अल्पयोकी; अल्प डिम्बात्री।

microleucocyte—(Gk. *mikros*, small; *leukos*, white; *kytos*, hollow) लघु अमीबीय कोशिका, सूक्ष्म श्वेताणु।

micromere—(Gk. *mikros*, small; *meros*, part) अणु खण्ड; अणु कोशिका; लघु खण्ड; अंश विभाजी

(meroblastic) या अन्य डिम्बों (other eggs) में ऊर्ध्व (upper) या जन्तु गोलार्ध (animal hemisphere) की एक कोशिका (cell)।

micromerozoite—(Gk. *mikros*, small; *meros*, part; *zoon*, animal) अणु अंशाणु; लघुखंडजाणु; अणु स्फोटी (microschizonts) से निर्मित कोशिका (cell) जो हीमोस्पोरीडिया (haemosporidia) में जन्यु कोशिका (gametocyte) बन जाती है।

micromesentery—(Gk. *mikros*, small; *mesos*, middle; *enteron*, gut) अपूर्णमिसेन्टरी; अणु-मिसेन्टरी; जुअनथेरिया (zooantheria) में एक गौण (secondary) अपूर्ण (incomplete) मिसेन्टरी (mesentery)।

micromyelocyte—(Gk. *mikros*, small; *myelos*, marrow, *kytos*, hollow) (लघु) अणु मज्जा कोशिका।

micron—(Gk. *mikros*, small) माइक्रोन-एक इकाई विशेष; मिलीमीटर का एक हजारवाँ भाग—जिसका चिह्न μ (म्यू) है।

micronephridia—(Gk. *mikros*, small; *nephros*, kidney; *idion*, dim) अणु उत्सर्गिका; अणु उत्सर्गाङ्ग; सूक्ष्म वृक्कक।

micront—(Gk. *mikros*, small; *on* being) माइक्रोन्ट; अणु स्फोटज; स्फोटी (schizogony) द्वारा निर्मित एक छोटी कोशिका; जिससे अणु जन्यु (microgametes) बनते हैं।

micronucleocyte—(Gk. *mikros*, small; *L. nucleus*, kernel; *Gk. kytos*, hollow) लघु-केन्द्रक कोशिका; अणु अष्टि कोशिका; सूक्ष्म केन्द्रकाणु; एक अभीवा कोशिका (amoebocyte) जिसमें अणु या लघु (small) केन्द्रक (nucleus) होता है।

micronucleus—(Gk. *mikros*, small; *L. nucleus*, kernel) अणु अष्टि; सूक्ष्म केन्द्रक; लघु अष्टि; लघु-न्यूक्लियस।

micronutrients—अणु खाद्योज; अणु पुष्टिक (पौष्टिक); लघु पोषक; ऐसे खाद्यान्न या खाद्योज (nutrients) जो अङ्गियों (organisms) के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक हैं तथा जिनकी आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है।

micro-organism—(Gk. *mikros*, small; *organon*, instrument) अणुअंगी; सूक्ष्म जीव; सूक्ष्मांङ्गी ऐसे जन्तु जो केवल सूक्ष्म दर्शक यन्त्र या माइक्रोस्कोप (microscope) से ही दिखाई देते हैं।

microparasite—(Gk. *mikros*, small; *para*, beside; *sitos*, food) अणुपरजीवी; सूक्ष्मांङ्गी (अणु अंगी) परजीवी; सूक्ष्म परजीवी।

microphages—(Gk. *mikros*, small; *phagein*, to eat) बहुरूपाष्टक; सूक्ष्म भक्षक; ऐसे श्वेत कोशिका (leucocytes) जो बहुरूपक (polymorph) केन्द्रकों (nuclei) से युक्त हों।

microphagic—(Gk. *mikros*, small; *phagein*, to eat) अणु अंगीहारी; सूक्ष्म भक्षकता; अणु अंगी भक्षक; सूक्ष्म अङ्गियों (organisms) को खाने वाले।

microphagocyte—(Gk. *mikros*, small; *phagein*, to eat; *kytos*, hollow) अणु भक्षक कोशिका; रक्त के छोटे भक्षक कोशिका (phagocyte)।

microphagous—(Gk. *mikros*, small; *phagous*, to eat) अल्पाहारी; सूक्ष्म भक्षी, अल्प भोजी; सूक्ष्म भक्षकाणु।

microphanerophyte—(Gk. *mikros*, small; *phaneros*, manifest; *phyton*, plant) लघु वृक्ष; लघु क्षुप (झाड़ी); ऐसा वृक्ष या क्षुप जिसकी ऊँचाई २ से ८ मीटर तक की हो।

microphyllous—(Gk. *mikros*, small; *phyllon*, leaf) लघु पर्णी।

microphyte—(Gk. *mikros*, small; *phyton*, plant) सूक्ष्मपादप (पौधा)।

microphytology—(Gk. *mikros*, small; *phyton*, plant; *logos*, discourse) सूक्ष्मपादप विज्ञान।

micropodous—(Gk. *mikros*, small; *pous*, foot) अणुपादी; लघुपादी; लघुपादीय।

micropore—(Gk. *mikros*, small; *poros*, channel) सूक्ष्म छिद्र; अणु छिद्र; सूक्ष्म रंध्र।

micropterism—(Gk. *mikros*, small; *pteron*, wing) अणु पंखता; लघुपक्षता; असाधारणतः बहुत छोटे पंखों के होने की दशा जैसे कुछ एक कीटों (insects) में।

micropterous—(Gk. *mikros*, small; *pteron*, wing) अणु पङ्गी; अणुफिनी; लघुपक्षीय।

micropyle—(Gk. *mikros*, small; *pyle*, gate) अणु द्वार; बीजांड द्वार; (१) वृहत् जन्तु (macrogamete) की स्योति या सिस्ट (cyst) की भित्ति में स्थित लघु द्वार (छिद्र) जिसमें होकर अणु जन्तु (microgamete) प्रवेश करता है; (२) डिम्ब स्योति का छिद्र; (३) डिम्ब झिल्ली (egg membrane) का वह छिद्र जिसमें से वीर्याणु (spermatozoon) प्रवेश करता है। (४) बीजांड द्वार।

microrhabdus—(Gk. *mikros*, small; *rhabdus*, rod) अणु यष्टिका; माइक्रोरेडस; सूक्ष्म एक धुरी या शलाकाकार दृढ़ा (spicule)।

microschizogony—(Gk. *mikros*, small; *schizein* to cleave; *gonos*; birth) अणु स्फोटी जनन; सूक्ष्म विखंडनीजनन; अंशाणुजस्फोटी; वह स्फोटीजनन (schizogony) जिसमें छोटे अंशाणु (merozoites) बनते हैं।

microschizont—(Gk. *mikros*, small; *schizein*, to cut; *onta*, beings) अणु स्फोटी; सूक्ष्म शाइजॉन्ट।

microscelere—(Gk. *mikros*, small; *skleros*, hard) सूक्ष्म दृढ़ा; अणु दृढ़ा; अणु स्वलीयर; लघु कंटिका।

microscope—(Gk. *mikros*, little; *skopein*, to look at) अणुवीक्षण यंत्र; सूक्ष्म दर्शक (यंत्र); सूक्ष्मदर्शी; खुर्दबीन; छोटी वस्तुओं को बड़ी देखने का यंत्र।

microscopic—(Gk. *mikros*, small; *skopein*, to look at) अणुअङ्गी; सूक्ष्म कायी।

microscopic anatomy—सूक्ष्म शरीर विज्ञान (कायकी)।

microseptum—(Gk. *mikros*, small; L. *septum*, partition) अणु जवनी; अणु व्यवधान; सूक्ष्म व्यवधान।

microsmatic—(Gk. *mikros*, small; *osme*, smell) अणुघ्राणी; ऐस जन्तु जिसमें घ्राण (smell) चेतना (sense) अल्प मात्रा में होती है।

microsome—(Gk. *mikros*, small, *soma*, body) अणु पिण्ड; पिण्डाणु।

microspecies—सूक्ष्म जाति।

microsphere—(Gk. *mikros*, small; *sphaira*, globe) अणु मंडल; सूक्ष्म गोलक।

microspheric

microspheric—(Gk. *mikros*, small; *spharia*, globe) अणु मण्डली ।

microsplanchic—(Gk. *mikros*, small; *splanchinon*, entrail) अणु पुरीतक; अणुांत्रिक; छोटे शरीर और लम्बी टांगों वाला ।

microsporangium—(Gk. *mikros*, small; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) लघु बीजाणुधानी; लघु स्पोर युक्त लघु बीजाणुधानी; पुष्पोद्भिद् (फँतरोगम) का पराग कोश या पराग कोशक (anther lobe) ।

microspore—(Gk. *mikros*, small; *sporos*, seed) अणु स्पोर; लघु स्पोर; लघु बीजाणु ।

microsporocyte—(Gk. *mikros*, small; *sporos*, seed; *kytos*, hollow) लघु बीजाणु कोशिका; दो अर्ध विभाजन द्वारा उत्पन्न लघु स्पोरज, पराग मातृ कोशिका (pollen mother cell) ।

microsporophyll—(Gk. *mikros*, small; *sporos*, seed; *phyllon*, leaf) (१) पर्णधारक लघु बीजाणुधानी; (२) पुंकेसर (stamen) ।

microsporozoite—(Gk. *mikros*, small; *sporos*, seed; *zoon*, animal) अणु स्पोराणु; सूक्ष्म बीजाणुज; स्पोरोजोआ (sporozoa) जन्तुओं के अन्तर्जनी (endogenous) लघु या अणु स्पोराणु (smaller sporozite) ।

microstome—(Gk. *mikros*, small; *stoma*, mouth) अणु मुख; सूक्ष्म रंध ।

microstylospore—(Gk. *mikros*, small; *stylos*, pillar; *sporos*, seed) लघुवृत्त स्पोर ।

microstylous—(Gk. *mikros*, small; *stylos*, pillar) लघुवृत्तिक; विभिन्न वृत्तिक पुष्प ।

microzoon—सूक्ष्म प्राणी ।

microtaxonomy—(Gk. *mikros*, small; *taxis*, arrangement; *nomos*, law) सूक्ष्म वर्गीकरण मत; वर्गीकरण (classification) के सिद्धान्त जो उप प्रकार (species) गोत्र (varieties) या नस्लों (races) के वर्गीकरण के उपयोग में लाये जाते हैं ।

microtherm—(Gk. *mikros*, small; *therma*, heat) शिथिल तापी; न्यून तापी ।

microtrichia—(Gk. *mikros*, small; *thrix*, hair) अणुरोम; सूक्ष्म रोम; कीटों (insects) के पंखों पर

स्थित मूल जोड़ हीन (without basal articulation) लघु या अणु रोम ।

microtype—(Gk. *mikros*, small; L. *typus*, type) अणुरूप ।

microzooid—(Gk. *mikros*, small; *zoon*, animal; *eidos*, form) अणुमुकुल; माईक्रोजोएड; सूक्ष्म जीवक ।

microzoospore—(Gk. *mikros*, small; *zoon*, animal; *sporos*, seed) अणु संघ रेणुक ।

microzyma—(Gk. *mikros*, small; *zyme*, leaven) माईक्रोजाईमा; अणु एकांक; अन्त्येकांक ।

microzyme—(Gk. *mikros*, small; *zyme*, leaven) अणुक्षोभक ।

micturition—(L. *mingere*, to void water) मूत्र विसर्जन ।

mid—मध्य का; विचला; बीच का ।

mid-body—मध्य काय; कोशिका के सूत्री विभाजन (mitosis) के पश्चावस्था (anaphase) में तर्कु के मध्य में स्थित कोशिका पट्ट, समूह या कण ।

mid-brain—मध्य मस्तिष्क ।

middle-ear—मध्य कर्ण ।

mid-rib—मध्य पर्शु, मध्य रेखा; मध्य नलिका ।

mid-riff—(A. S. *mid*, middle; *hrif*, belly) डायफ्राम; वक्षीय (thoracic) और उदरीय (abdominal) कोटरों (cavities) को पृथक करने वाली मोटी और आड़ी मांस पेशी ।

Miescher's tubes—(J. F. *Miescher*, swiss pathologist) मीसचर नलिकायें; रेने नलिकायें ।

migration—(L. *migrare*, to transfer) पर्यटन; निवास स्थान परिवर्तन; प्रवास; अभिगमन; मौसम; आवहवा, भोजन आदि के कारण पक्षी (birds) बारहसिंगा (raindcer) चिमगादड़ (bat) कुछ एक मत्स्य (fishes) और कीटों (insects) का एक निवास स्थान से दूसरे को गमन या पर्यटन ।

migratory cell—पर्यटन कोशिका; परिभ्रमण कोशिका ।

miliary—(L. *milium*, millet) दनदानेदार; यवाभ ।

milk teeth—दुग्ध दन्त; पतनशील दाँत; अस्थायी दाँत; दूध के दाँत; पातुक दन्त; स्तनी (mammals) में दाँतों की प्रथम श्रेणी ।

millepede

- millepede**—कनखजूरा; मिलीपीड; सहस्रपाद।
- milt**—(A. S. *milte*, spleen) (१) प्लीहा; (२) मत्स्यों के वीर्य ग्रन्थि; (३) वीर्य-द्रव (spermatie fluid)।
- mimetic**—(Gk. *mimetikos*, imitative) अनुकारकी; अनुहारी।
- mimic**—(Gk. *mimikos*, imitative) अनुकारक; अनुकारिन; सादृश्य; अनुहारक।
- mimicry**—(Gk. *mimikos*, imitating) अनुहरण; अनुकारता; अनुकरणता; सादृश्यता; रक्षा के हेतु रंग (colour) या आकृति (structure) को धारण करना।
- mind**—(L. *mens*, the mind) मन; चित्त।
- minim**—(L. *minimus*, least) क्षोदिष्ठ; लघिष्ठ।
- minimus**—(L. *minimus*, least) कनिष्ठका; कनिष्ठा; कनीनी; हाथ या पाँव की छोटी अँगुली।
- Miocene**—(Gk. *meion*, less; *kainos*, recent) नव-युग; मायोसीन युग; पुरातन युग का एक काल। ऊननव काल या ओलीगोसीन (oligocene) और नवतर काल अर्थात् प्लाओसीन (pliocene) के बीच का काल।
- miotic**—(see meiotic)—ह्रास विभाजनी; ह्रास विभाजन सम्बन्धी।
- miracidium**—(Gk. *dim*, of merakion, strip-ling) मीरासीडियम; ट्रिमेटोडा (trematode) का अर्भक विशेष।
- miscegenation**—(L. *miscere*, to mix; *genus*, race) संकरी करण; श्वेताश्वेत संकरण।
- mite**—(A. S. *mite*) किल्ली; किलनी; जन्तु विशेष।
- mitochondria**—(Gk. *mitos*, thread; *chondros*, grain) कणांग; माइटोकोन्ड्रिया; सूत्र कणिका। प्रत्येक कोशिका के साइटोप्लाज्म में विभिन्न आकृति और संख्या में पाये जाने वाले सूक्ष्मकायी (microscopic bodies) सिवाय वैक्टोरिया और नीले-हरे शैवाल (एल्गी) के जिनमें यह नहीं होते हैं। ये कायी शलाका या सूत्र सदृश कणिकीय होते हैं। इनका व्यास ०.५ माइक्रोमीटर और सूत्र रूपी की लम्बाई १० माइक्रोमीटर या इससे अधिक होती है। जीवित कोशिकाओं में इन्हें जेनस ग्रीन (Janus Green) से आसानी से रंगा जाता है। आकृति में यह बाहर से

दोहरी कला (double membrane) से घिरे होते हैं अन्दर घना आधारक (मैट्रिक्स) होता है। दोहरी कला बीच-बीच में अन्दर की ओर आधारक में बलन लिये होती है, इस आकृति को क्रिस्टी (cristae) कहते हैं। यह क्रिस्टी प्रारम्भिक कण (elementary particles) से युक्त होते हैं जिनमें आक्सीकारक एन्जाइम तंत्र के घटक होते हैं। क्रिस्टी भिन्न संख्यक, भिन्न रूपक एवं समकोणक या समानान्तर होते हैं। कोशिका कार्यों के लिए यह शक्ति स्रोत होते हैं और एटीपी (ATP) के रूप में शक्ति उत्पन्न करते हैं। हरे पौधों में पाये जाने वाले प्लास्टिड या लवक कण (plastids) माइटोकोन्ड्रिया से सम्बन्धित होते हैं।

mitochondrial sheath—काणांग पिधान; सूत्र कणिका आच्छद।

mitogenetic—(Gk. *mitos*, thread; *genesis*, descent) अभि-कोष्ठज; वर्धन प्रभावी; कोशिका विभाजन (cell division) को उत्साहित करने वाला।

mitome—(Gk. *mitos*, thread) सत्व जाल; कोशिका सत्व जाल।

mitoschisis—(Gk. *mitos*, thread; *schizein*, to cleave) विषमाण्टि विभाजन; सूत्री विभाजन।

mitosis—(Gk. *mitos*, thread) सूत्री विभाजन; विषम कोशिका विभाजन; समसूत्रण; कोशिका विभाजन जिसमें अण्टि या केन्द्रक (nucleus) परम्परा सूत्रों तथा अन्य अवस्थाओं के पश्चात् विभाजित होता है।

[देखिये—karyokinesis]

mitosome—(Gk. *mitos*, thread; *soma*, body) सूत्री पिण्ड।

mitotic—(Gk. *mitos*; thread) सूत्री विभाजन सम्बन्धी।

mitotin—(Gk. *mitos*, thread) माइटोटिन; पदार्थ विशेष जो माइटोटेस (mitotase) एन्जाइम के साथ वर्धनप्रभावी (mitogenetic) विकरण उत्पन्न करता है।

mitra—(L. *mitra*, head band) मित्रा; (१) बाह्य-दल या दल का छत्रवत् भाग; (२) किन्हीं फन्जाई का अर्ध समकोणोपम (mitriform) सिरस्छत्र (pileus)।

mitral cells—माइट्रल कोशिकायें; घ्राण कन्द (olfactory bulb) के परमाणु स्तर (molecular layer) में पाई जाने वाली सूच्छाकार कोशिकायें (pyramidal

mitral-valve

cells) जिनमें घने आघारिक (basal) द्रुमाकृति (dendrites) होते हैं ।

mitral-valve—(L. *mitra*, head band) हृत् द्विदली कपाट; माइट्रल वाल्व; द्विकपर्क कपाट ।

mitriform—(L. *mitra*, head band; *forma*, shape) अर्ध समकोणोपम; टोपी रूप; अर्ध समकोण के आकार सम बनावट ।

mixipterygium—(Gk. *mixis*, mixing; *pterygion*, little wing or fin) मिश्रालिगक; (१) नर उपास्थि मत्स्यों (cartilaginous fishes) का आलिगक अङ्ग (copulatory organ); (२) वस्तिफिन की मध्य फली ।

mixochromosome—(Gk. *mixis*, mixing; *chroma*, colour, *soma*, body) मिश्र परम्परा सूत्र ।

mixoploidy—(Gk. *mixis*, mixing; *haploos*, one-fold; *eidos*, form) मिश्रसूत्री; मिश्र संख्यक; मिश्र गुणिता; एक ही जीव में मिश्र संख्या के परम्परा सूत्रों, कोशिकों या तन्तुओं की पाई जाने की दशा ।

mixotrophic—(Gk. *mixis*, mixing; *trephein*, to nourish) भिन्न पुष्टि; मिश्र जीवी; मिश्र पोषी; मिश्र पोषित; आंशिक परजीवी; (१) तरु समभोजी (holophytic) और गलितजीवी (saprophytic) आहारों का भिन्ना होना; (२) ऐसा परजीवी जो आंशिक रूप से बाहर से भी प्याद्य लेता हो ।

mnemic (Gk. *mneme*, memory) निमिक; स्मृति आधारमत; वह मत जो भूत संततियों (past generations) की सुप्तावस्था को वंश परम्परा (hereditary) का आधार मानता है ।

mnemotaxis—(Gk. *mneme*, memory; *taxis*, arrangement) धारणावृत्ति; स्मरण शक्ति द्वारा निर्देशक गति जैसे कुछ जन्तुओं का खाने या रहने के स्थान पर स्वतः वापिस आ जाना ।

moat—खाई; परिखा ।

mode of life—जीवन विधि ।

modification—(L. *modus*, measure; *facere*, to make) रूपान्तर; रूपान्तरण; रूप परिवर्तन; वातावरण (environment) या व्यापार (function) विशेष के कारण रूप में स्याई परिवर्तन ।

modifier—(L. *modus*, measure; *facere*, to make) रूपान्तरक; परिवर्तक; रूपान्तर कराने वाला; अपरिवर्तक; रूपान्तरक ।

modiolus—(L. *modiolus*; small measure) कबु अक्ष ।

modulation—(L. *modulatus*, measured) कोशिका विशिष्टता; तन्तु निर्माण में कोशिका का वारम्बार विशिष्ट होना ।

modulator—(L. *modulatus*, measured) विशिष्टज ।

mole, glands—मोलकी ग्रन्थियाँ ।

molar—(L. *molere*, to grind) चर्वक; चर्वक दन्त; दाढ़, चर्वणक ।

molecular hypothesis—यह कल्पना कि पेशी और तंत्रिका परमाणु और कणों के घनात्मक और ऋणात्मक तल लिए हुए उसी प्रकार के बने होते हैं जैसे कि किसी चिम्बक के कण ।

molecular layer—प्रमाणु स्तर; (१) प्रमस्तिष्क (cerebrum) और अनुमस्तिष्क (cerebellum) के बल्कल (cortex) की बाह्य स्तर; (२) घ्राण कन्द (olfactory bulb) का स्तर; (३) जालोपम (plexiform) स्तर ।

mollusca—(L. *molluscus*, softish) मौलस्का; अक-शेरुकों (invertebrates) का एक गण (phylum) ।

molluscoid—(L. *molluscus*, soft; Gk. *eidos*, form) मौलस्का सदृश ।

molt—पर्णपतन; प्रपतन; केंचुली बदलना; निर्मोचन ।

[देखिये—moult]

monacanthid—(Gk. *monos*, alone; *akantha*, thorn) एक शूल पंक्ति; एक काँटों या शूलों (spines) की पंक्ति युक्त ।

monact—एक दिशा ।

monactinal—(Gk. *monos*, alone; *aktis*, ray) एक किरणी; एक अरीय; एक किरण वाले स्पीक्युल या दृढ़ा (spicule) ।

monactinellid—(Gk. *monos*, alone; *aktis*, ray) एक किरणक; ऐसे छिद्रदेही (sponges) जिनमें केवल एक किरणी स्पीक्युल या दृढ़ा (spicule) होते हैं ।

monad—(Gk. *monas*, unit) मोनैड; पुरांगी; एकांगी; जीवैकक ।

monadelphous—(Gk. *monos*, single; *adelphous*, brother) एक संघी; तन्तुओं की संयुजता से समस्त पुंकेसरी एक संघ में बँधे हुए ।

monadiform—(Gk. *monas*, unit; L. *forma*, shape) एकांकाकार; कशाभरूपी ।

monandrous—(Gk. *monos*, alone; *aner*, male) एकपुंकेसरी ।

monarch—(Gk. *monos*, alone, *arcle*, beginning) एक आदि दारुक ।

monaster—(Gk. *monos*, alone; *aster*, star) मोनएस्टर; एक तारा ।

monoxial—(Gk. *monos*, alone; *axon*, axis) एक धुरी ।

monaxon—(Gk. *monos*, alone; *axon*, axis) एकाक्ष; एकाक्षक; एकाक्ष कंटिका ।

monaxonic—(Gk. *monos*, alone; *axon*, axis) एकक्षीय; एकायत कोशिकीय; एकाक्षकीय ।

monecious (see **monoecious**)—उभयलिंगी: ऐसे जन्तु जिसमें नर और मादा उत्पादक अंग (जननेन्द्रियाँ) दोनों ही होते हैं ।

monembryonic—(Gk. *monos*, alone; *embryon*, foetus) एक भ्रूणक; एक भ्रूणी; एक वार में एक ही भ्रूण को जन्म देने वाले ।

monergic—(Gk. *monos*, alone; *energos*, active) एकाष्टि कोशिकीय ।

monilicorn—(Gk. *monile*, necklace; *cornu*, horn) एकशृङ्गी; मालोपम स्पर्शक ।

moniliform—(L. *monile*, necklace; *forma*, shape) मालाकार; मालोपम ।

monimostylic—(Gk. *monimos*, fixed; *stylos*, pillar) स्थिर क्वाडरेटी; अचल निलंबित ।

monocardian—(Gk. *monos*, alone; *kardia*, heart) एकहृत् कोष्ठी; एक अलिन्द (auricle) और निलय (ventricle) युक्त ।

monocarp—(Gk. *monos*, alone; *karpos*, fruit) एक फलद; एक कार्य; एक फल देने वाला पौधा ।

monocarpellary—(Gk. *monos*, alone; *karpos*, fruit) एकांडपी । ऐसा फल जिसमें एक अंडप (carpel) होता है ।

monocarpic—(Gk. *monos*, alone; *karpos*, fruit) एक कार्पी; एक बार फल देकर मर जाने वाला ।

monocarpous—(Gk. *monos*, alone; *karpos*, fruit) एक अंडाशयी; जायांग से वर्धित एक अंडाशय (ovary) ।

monocephalous—(Gk. *monos*, alone; *kephale*, head) एककपाली; एक उपाण्डी; एकमुंडकी ।

monocercous—(Gk. *monos*, alone; *kerkos*, tail) एकदल पुच्छी; एक कशातन्त्री ।

monocerous—(Gk. *monos*, alone; *keros*, horn) एक शृङ्गी; एक पुच्छी ।

monochasium—(Gk. *monos*, alone; *chasis*, division) एकलशाखी ससीमाक्ष (पुष्पक्रम): इसमें मुख्य-अक्ष के सिरे पर एक पुष्प होता है और अक्ष के बाधार पर एक पार्श्व अक्ष होती है जिसके सिरे पर भी एक पुष्प होता है परन्तु वृद्धि बनाये रखने के लिये इससे दूसरी शाखा निकलती है । पुष्पों का क्रम नन्वा-भिसारी (basipetal) होता है अर्थात् सबसे पुग्ना पुष्प मुख्य अक्ष पर और नये पुष्प इससे नीचे की ओर होते हैं । यह दो प्रकार के होते हैं: (१) कुण्डलित (scorpid) और (२) घोंघाकार (helicoid) । उदाहरण—जलघनियाँ (Ranunculus); मकोय, मायोसोटिस (forget me not) ।

monochlamydeous—(Gk. *monos*, alone; *chlamys*, cloak) अदलीय, केवल बाह्यदल पुंजी दलहीन, केवल बाह्यदल पुंज युक्त ।

monochorionic—(Gk. *monos*, alone; *chorion*, skin) एक जरायुज; एक डिम्बीय-जुड़वा ।

monociliated—(Gk. *monos*, alone; L. *cilium*, eyelid) एक तन्त्री; एक पक्षामी ।

monoclinous—(Gk. *monos*, alone; *kline*; couch) उभयलिंगी ।

monocotyledonous—(Gk. *monos*, alone; *kotyledon*, cup-shaped hollow) एक बीजपत्री ।

monocrapid—(Gk. *monos*, alone; *krepis*, foundation) प्रतिष्ठापित स्पीक्यूल; एक निर्माणक स्पीक्यूल; एक अक्षीय स्पीक्यूल पर द्वितीय सिलिका जमाव से बना महास्पंज स्पीक्यूल ।

monocule

- monocule**—(Gk. *monos*, alone; L. *oculus*, eye) एक नेत्रीय; एक नेत्र वाला जन्तु जैसे कुछ एक कीट (insects) या कैंकड़ादंशी (crustacean) ।
- monocyclic**—(Gk. *monos*, alone; *kyklos*, circle) एक चक्री; वर्षीय या शाकी ।
- monocytes**—(Gk. *monos*, alone; *kytos*, hollow) श्वेताणु संघ; एक केन्द्रकाणु; पुरारक्त कोशिका; अन्तर्जन श्वेत कोशिका ।
- monodactylous**—(Gk. *monos*, alone; *daktylos*, finger) एकांगुलिक ।
- monodelphic**—(Gk. *monos*, alone; *delphys*, womb) एकगर्भकोशा; युक्तगर्भाशयी; ऐसे जन्तु जिनके दोनों ओर के गर्भाशय (uteri) मिलकर प्रायः एक बन जाते हैं ।
- monodont**—(Gk. *monos*, alone; *odous*, tooth) एक दन्ती; एक दन्त ।
- monoecious**—(Gk. *monos*, single; *oikos*, house) उभय लिंगी; उभय लिंगाश्रयी (पादप); संयुक्त लिंगी ।
- monoestrous**—(Gk. *monos*, alone; *oistros*, gadfly) एकमदी; एक मदकाल; ऐसे जन्तु जिनके उत्पादीय काल में केवल एक ही बार ऋतु-स्राव (रजस्वला) होता है ।
- monogamous**—(Gk. *monos*, single; *gamos*, marriage) एक भोगी; एक संगमनी; एक स्त्रीक; केवल एक ही साथी या संगी से संयोग या सम्भोग (consorting) करने वाला ।
- monoganglionic**—(Gk. *monos*, alone; *ganglion*, little tumor) एक गण्डी; केवल एक ही गण्ड (ganglion) रखने वाला ।
- monogastric**—(Gk. *monos*, alone; *gaster*, stomach) एक आमाशयिक; केवल एक ही पाचक (gastric) कोटर (cavity) वाला ।
- monogenesis**—(Gk. *monos*, alone; *genesis*, descent) एक जनन; (१) आर्लिगिक या अर्लेगिक जनन । (२) यह वर्धन मत (theory of development) कि समस्त अंगी (organisms) एक कौशिका (single cell) से ही बने हैं ।
- monogenetic**—(Gk. *monos*, alone; *genesis*, descent) एकलिंगज; एक जन्य; एक पोषित; एक पोषीय ।

- monogenic**—(Gk. *monos*, single; *genos*, sex) एकलिंगी; एकोद्भवी; एकलिंगज केवल एक ही लिंग की सन्तान या बच्चे (offspring) पैदा करने वाला ।
- monogenous**—(Gk. *monos*, alone; *genos*, offspring) एकलिंगक उत्पादन ।
- monogeny**—(Gk. *monos*, single; *genos*, sex) एकलिंगता; केवल एक ही लिंग (sex) की सन्तान पैदा करने वाला ।
- monogonoperous**—(Gk. *monos*, single; *gonos*, offspring; *poros*, channel) एक जनन छिद्री; ऐसे जन्तु जिनमें नर और मादा जनन अंगों का एक ही छिद्र होता है जैसे कुछ एक टरयीलेरिया (turbellaria) ।
- monogony**—(Gk. *monos*, alone; *gonos*, offspring) निर्लिंगी उत्पादन (जनन); अनिषेक जनन; अलिंगक-उत्पादन, जिसमें स्फोट जनन (schizogony) तथा कलिकोत्पादन (gemmation) दोनों ही सम्मिलित हैं ।
- monogynocelial**—(Gk. *monos*, alone; *gyne*, female; *oikos*, house) एक स्त्री केसरी ।
- monogynous**—(Gk. *monos*, alone; *gyne*, female) एक नारी भोगी; एक मादा सेवी; केवल एक ही मादा (female) से सम्भोग (consorting) करने वाला; एक स्त्री केसरी ।
- monohybrid**—(Gk. *monos*, alone; L. *hybrida*, mongrol) एक संकर; एक-वर्णसंकर । ऐसी संकर (hybrid) सन्तति या सन्तान (offspring) जो केवल एक लक्षण (character) में भिन्न पितृ (parents) से उत्पन्न हो ।
- monokaryon**—(Gk. *monos*, alone; *karyon*, nut) एक केन्द्री अष्टि; एक केन्द्र बिन्दु (centriole) वाला केन्द्रक (nucleus) विशेष ।
- monolophous**—(Gk. *monos*, alone; *lophos*, crest) एक मेड़ी; एक शिखर; ऐसा स्पीक्यूल या दृढ़ (spicule) जिसमें एक बटी हुई या विभक्त (forked) या शिखर की तरह शाखा में बटी हुई किरण हो ।
- monomastigate**—(Gk. *monos*, alone; *mastix*, wipe) एक कशाधारी; एक कशाभ ।
- monomeniscous**—(Gk. *monos*, alone; *meniskos*, small moon) एकतालक नेत्री ।

monomeric—(Gk. *monos*, alone; *meros*, part) एक खण्डी; एक ही हिस्से या खण्ड से बने हुए; एकलक ।

monomerosomatous—(Gk. *monos*, alone; *meros*, part; *soma*, body) अनुखण्ड देही; ऐसा जन्तु जिनके शरीर के समस्त खण्ड एक साथ निमित्त हों जैसे कुछ एक कीट ।

monomerosous—(Gk. *monos*, alone; *meros*, part) एक खण्डीय; एक भागी ।

monometrosis—(Gk. *monos*, alone; *meter*, mother) एक मातृ संघ; केवल एक नारी (या माता) द्वारा निमित्त जन्तु संघ जैसे कुछ एक हाइमेनोपट्टरा (*hymenoptera*) वर्ग की रानी (*queen*) द्वारा ।

monomial—(Gk. *monos*, alone; L. *nomen*, name) एक शब्दीनाम; ऐसे वैज्ञानिक नाम जो केवल एक ही शब्द से बने हों ।

[देखिये—*binomial*—द्विशब्दी
trinomial—त्रिशब्दी (नाम)]

monomorphic—(Gk. *monos*, alone; *morphe*, form) एक रूपक; एक रूपी; ऐसे जन्तु विशेष जो वृद्धिक्रम में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बहुत ही कम भिन्नता रखते हों । [देखिये—*polymorphic*]

monomyaric—(Gk. *monos*, alone; *mys*, muscle) एक पेशीय; केवल पश्च-अभिवर्तनी पेशी युक्त; (अपवर्तनी पेशी (*abductor muscle*) अनुपस्थित रहती है) ।

mononeuronic—(Gk. *monos*, alone; *neuron*, nerve) एक नाड़ी युक्त; केवल एक नाड़ी वाला ।

monont—(Gk. *monos*, alone; *on*, being) असंयोगी, एकांकी जीव; एक व्यक्ति (*single individual*) जो बिना संयोग (*without conjugation*) के उत्पादन करता है । [देखिये—*zygote* या *sporont*]

mononuclear—(Gk. *monos*, alone; L. *nucleus*, kernel) एकाष्टिक; एक केन्द्रक ।

mononychous—(Gk. *monos*, alone; *onyx*, claw) एक नखी; एक नखरी; एक नख या पंजे (*claw*) वाला ।

monophagous—(Gk. *monos*, alone; *phagein*, to eat) एकाहारी; एकाहारी प्राणी; ऐसा जन्तु जो एक ही किस्म के खाने पर जीवन निर्वाह करता हो ।

[देखिये—*stenophagous* या *oligophagous* मिताहारी]

monophasic—(Gk. *monos*, alone; *phainin*, to appear) संक्षिप्त जीवन वृत्ति; एक प्रावस्थी ट्रिपनोसोम (*trypanosome*) आदि का संक्षिप्त जीवन वृत्त (*life cycle*) जिसमें गति युक्त स्थिति नहीं होती है ।

[देखिये—*diphasic* विस्तृत जीवन वृत्ति]

monophyletic—(Gk. *monos*, alone; *phyle*, tribe) एक वंशाद्भव, एक स्रोतोद्भवी ।

[देखिये—*oligophylitic* ऊनवंशोद्भव, और
polyphyletic बहुवंशोद्भव]

monophyllous—(Gk. *monos*, alone; *phyllon*, leaf) एक पर्णी ।

monophyodont—(Gk. *monos*, alone; *phyein*, to produce; *odous*, tooth) एकाश्रेणी दन्ती; एकबार दन्ती; ऐसे जन्तु जिनके दूध के दाँत भ्रूण काल में ही पच जाते हैं या पूर्णरूप से अनुपस्थित रहते हैं, जिनके कारण केवल एक ही श्रेणी या सन्तति दाँतों की (*one set of teeth*) पाई जाती है ।

monoplacid—(Gk. *monos*, alone; *plax*, flat plate) एक पट्टिक; केवल एक पट्ट (*plate*) वाला ।

monoplacula—(Gk. *monos*, alone; *plax*, flat plate) मोनोप्लेकुला; पुच्छ दण्डकों (*urochorda*) की भ्रूणिक अवस्था (*embryonic stage*) ।

monoplastic—(Gk. *monos*, alone; *plastos*, formed) एकावृत्तिक; किसी एक रूप या आकृति (*form*) में रहने वाला ।

monoploid—(Gk. *monos*, alone; *haploos*, simple; *eidos*, form) अगुणित (*haploid*); बहुसूत्र क्रम में मूल अगुणित गुणसूत्र संख्याकी ।

monopodial—(Gk. *monos*, alone; *pous* foot) एकशाखीय ।

monopodium—(Gk. *monos*, alone; *pous*, foot) एक पक्षी; आद्य-पक्षी ।

monopyrenous—(Gk. *monos*, alone; *pyren*, kernel) एक अष्टिक; एक गुठलीयुक्त ।

monorchic—(Gk. *monos*, alone; *orchis*, testis) एक वीर्याण ग्रन्थिक ।

monorhinal—(Gk. *monos*, alone; *rhis*, nose) एकनासी; एक नयुना या नासा (*nostril*) वाला ।

monosepalous—(Gk. *monos*, alone; F. *sepale*, sepal) एक बाह्यदली; समस्त बाह्यदल मिलकर एक बाह्यदल बनाये हुए ।

monosiphonic—(Gk. *monos*, alone; *siphon*, tube) एक साइफनी; एक विनालीय ।

monosome—(Gk. *mono*, alone; *soma*, body) एक पिण्डी; एक सूत्रक; एकलसूत्र; अयुग्म (unpaired) सहायी (accessory) परम्परा सूत्र विशेष या X-क्रोमोसोम ।

monospermous—(Gk. *monos*, alone; *sperma*, seed) एकबीजी ।

monospermy—(Gk. *mono*, alone; *perma*, seed) एकानिषेक; एक शुक्राणुता; एक ही बीर्याणु (sperm) के प्रवेश से निषेक; सामान्य निषेक (normal fertilisation) ।

monospondylic—(Gk. *monos*, alone; *spondylos*, vertebra) केन्द्र मध्यस्थी हीन कशेरू ।

monosporangium—(Gk. *monos*, alone; *sporos*, seed; *anggeinon*, vessel) एक बीजाणुक बीजाणुघानी । साधारण बीजाणु उत्पन्न करने वाली बीजाणुघानी (sporangium) ।

monospore—(Gk. *monos*, alone; *sporos*, seed) एक स्पोर; एक बीजाणु; एक साधारण या बिना बटा हुआ स्पोर (spore) या बीजाणु ।

monosporous—(Gk. *monos*, alone; *sporos*, seed) एक स्पोरी या स्पोरक; एक स्पोर (spore) वाला; एक-बीजी ।

monostachyous—(Gk. *monos*, alone; *stachys*, corn ear) एकल स्वाइकी; एक शूली; एक कीली; एक धान्य शीर्षक ।

monostele—(Gk. *monos*, alone; *stete*, column) एक रंभक ।

monostelic—(Gk. *monos*, alone; *stete*, column) एक रंभकी ।

monostichous—(Gk. *monos*, alone; *stichos*, row) एक पंक्तिक; एका बलिक ।

monostigmatous—(Gk. *monos*, alone; *stigma*, mark) एक चिन्ही; एक बात छिद्री ।

monostylous—(Gk. *monos*, alone; *stylos*, pillar) एक सूचिकी; एक शूकिकी ।

monosy—(Gk. *monos*, alone) अङ्ग पृथक्ता; साधारणतः संयुक्त भागों का पृथक् होना ।

monosymmetrical—(Gk. *monos*, alone; *symmetria*, due proportion) एक समांशी; एक व्यास सममित, द्विपार्श्व (bilateral) समांशता (symmetry) में केवल एक ही तक्ष (plane) वाला ।

monothalamous—(Gk. *monos*, alone; *thalamos*, chamber) एक कोष्ठी ।

monothecal—(Gk. *monos*, alone; *theke*, box) एक कक्षी, एक कोदरी या कोटर; एक कोष्ठीकी ।

monothelious—(Gk. *monos*, alone; *thelys*, female) बहुनर भोगी; एकाधिक नर संभोगी; ऐसी नारी या मादा (female) जो एक से अधिक नरों (males) से संभोग करती है ।

monotocous—(Gk. *monos*, alone; *tokos*, offspring) एक प्रसवनी, एकसू, एकप्रसु; सकृत्फली; एक शिशु-जन्म दात्री; एक बार में केवल एक शिशु को जन्म देने वाली मादा या नारी (female) ।

monotreme—पुरास्तनी; पुरास्तन पायी; अंडजस्तनी; एक विद्र; मोनोट्रीम ।

monotrichous—(Gk. *monos*, alone; *thrix*, hair) एक कशा धारी; एरोकमी; एक कशाभी ।

monotrochous—(Gk. *monos*, alone; *trochos*, wheel) एक घूर्णनी ।

monotrophic—(Gk. *monos*, alone; *trophe*, nourishment) एक पुष्टी; एकाहारी; केवल एक ही प्रकार के खाने पर निर्भर रहने वाला ।

monotype—(Gk. *monos*, alone; *typos*, type) एकांकी रूप; एकल प्ररूप; मोनोटाइप; एक ही जन्तु जिससे प्रकार (specie) या जाति (genus) बना हो ।

monotypic—(Gk. *monos*, alone; *typos*, type) एक रूपी; एकल प्ररूपी; एक ही प्रकार (specie) वाला ।

monro, formen of—(A. *monoro*, scottish anatomist) मनरो छिद्र ।

monoxenous—(Gk. *monos*, alone; *xenos*, host) एक सत्कारी; एकोपजीवी; केवल एक सत्कारी (host) रखने वाला परजीवी; एकागन्तुक ।

[देखिये—heteroxenous भिन्नोपजीवी]

monozoic—(Gk. *monos*, alone; *zoon*, animal) एक स्पोराणुक; केवल एक स्पोराणु (sporozoite) पैदा करने वाला ।

monozygotic—(Gk. *monos*, alone; *zygotes*, yoked) एक संयुक्त कोष्ठी; एक युग्मजी; एकांडजी; एक निषिक्त डिम्बी; एक निषिक्त डिम्ब (fertilised ovum) से वर्धित जैसे समान जुड़वाँ (identical twins) ।

Montgomery's glands—(W. F. Montgomery, Irish physician) मोन्टगुमरी ग्रन्थियाँ; चूचक की सांतराल ग्रन्थियाँ (areolar glands) जो स्तन्यकाल (lactation) में उभरी हुई सुस्पष्ट होती हैं ।

monster—(L. *monstrum*, an omen) रौद्र; दैत्य ।

monticolous—(L. *mons*, mountain; *cohere*, to inhabit) पर्वत दासी ।

monticulus—(L. *dim. mons*, mountain) मोनटी-क्युलस; प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग—उर्ध्व वरमीज (superior vermes) ।

mores—(L. *mos*, wont) मोरेज; मोर्स; संभावांगी समूह । ऐसे जन्तुओं का समूह जिनका समान निवास स्थान, समान उत्पादन काल और समान ही भौतिक वातावरण का उत्तर हो । [देखिये—mune]

morphallaxis—(Gk. *morphe*, form; *allaxis*, changing) रूपान्तर; परिणत्ता; पुनः निर्माण में एक भाग का दूसरे भाग में परिवर्तित हो जाना या किसी आकृति का क्रमशः विशिष्ट रूप में वर्धन या बढ़ जाना ।

morphogenesis—(Gk. *morphe*, form; *genesis*, descent) अंग जनन; संरचना विकास; अङ्गोद्भव; अंगों (part) का उद्भव (origin) तथा वर्धन; (development) ।

morphogenetic—(Gk. *morphe*, form; *genesis*, descent) अंगजननी; संरचना विकासी; अङ्गोद्भवी;

अन्तः स्राव (internal secretion) जो अङ्गों की वृद्धि आदि पर प्रभाव डालते हैं ।

morphologic index—रचना घंडु; घड़ (trunk) और अवयवों (limbs) के सम्बन्ध को बताने वाला अनुपात ।

morphology—(Gk. *morphe*, form; *logos*, discourse) आकार विज्ञान; आकृति विज्ञान; अकारिकी ।

morphon—(Gk. *morphe*, form; *on*, being) अश्रितांगी; माँफॉन ।

[देखिये—bion या biont—स्वांगी या अनाश्रितांगी]

morphoplasm—(Gk. *morphe*, form; *plasma*, formation) निर्माणक ।

morphoplasmy—(Gk. *morphe*, form; *plassein*, to mould) निर्माण शक्ति ।

morphosis—(Gk. *morphosis*, form) निर्माण विधि ।

morphotic—(Gk. *morphosis*, form) तन्तु निर्माणक ।

morula—(L. *morum*, mulberry) मोरूला; तूतक; कोशिका पुंज; (१) डिम्ब विभाजन (segmentation) में प्रथम ठोस गोलाकार आकृति; (२) वृद्धिक्रम में द्विस्तर (gastrula) से पहले की अवस्था; (?) वीर्याणु पुंज ।

morulation—(L. *morum*, mulberry) मोरूला करण; कोष्ठ पुंजता; खण्ड विभाजन द्वारा मोरूला का बनना ।

morulit—(L. *morum*, mulberry) उपाष्टि या केन्द्र पिण्ड ।

mosaic—(It. *mosaica*, mosaic) सचित्र; मोजेक । वनस्पति विज्ञान में पौधों में पाये जाने वाले कई वाइरस रोगों के चिन्ह—सामान्य हरे रंग के मध्य बदरंग घञ्जे । आनुवंशिक विज्ञान (genetics) में विचित्रोतिकी या काइमीरा (chimaera) एक दूसरे के पर्यायनाम (synonym) हैं । ऐसे जन्तु जिनके ऊतक दो या अधिक प्रकार की आनुवंशिक भिन्नता लिये होते हैं, सामान्य रूप से मोजेक (mosaic) कहे जाते हैं । पौधों को काइमीरा कहा जाता है । जन्तु विज्ञान में मोजेक परिवर्धन (mosaic development) होता

है। इस परिवर्धन में निर्धारण (determination) क्रियात्मक विभिन्नता आरम्भ होने से पूर्व ही हो जाता है। भ्रूण का प्रत्येक क्षेत्र स्वतंत्र रूप से विभिन्नता लाने लगता है। कशेरुकों (vertebrates) में यह द्विस्तरता (gastrulation) के पश्चात् तथा अनेक अकशेरुकों में प्रारम्भिक विदलन (cleavage) स्थितियों में,—जो भोजक परिवर्धन प्रदर्शित करते हैं, में आता है।

mothercell—मातृ-कोशिका ।

motion—(L. *movere*, to move) गति ।

motoneuron—(L. *movere*, to move, Gk. *neuron*, nerve) गति तंत्रिका कोशिका ।

motor—(L. *movere*, to move) चालक; गतिकारी; गति सम्बन्धी; प्रेरक; मोटर ।

motor area—चालक क्षेत्र; गति क्षेत्र (मस्तिष्क में) ।

motor end organ—प्रेरक अन्तस्थांग; धारीदार पेशी (striated muscle) के अक्षक (axis cylinder) का दन्तस्थ (terminal) शाखा न्यास (ramification) ।

motor nerve—चालक तंत्रिका ।

motor neurones—चालक कोशिका, यह तंत्रिका कोशिकाएँ जो गति (movement) को व्यवस्थित (regulate) करती हैं ।

motorium—गति क्षेत्र; गति प्रेरक काय; तंत्रिका मण्डल के वह भाग जहाँ गति सम्बन्धी चेतना स्थिर रहती है ।

moult—(L. *mutare*, to change) पक्ष पतन; पर्ण-पतन; केंचुलीव दलना; निर्मोक; मुच; (१) पक्ष पतन; पर झाड़ना; कुरीज करना; पंखों, खाल या बाल का बदलना; (२) पर्णपत; (३) केंचुली बदलना; (४) मुच, खोल बदलना; वृद्धि क्रम में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचने के लिये समस्त कवच या खोल को गिराना ।

moulting hormone—निर्मोक हार्मोन ।

mouth—(A. S. *muth*, mouth) मुँह; मुख ।

mouth part—मुखावयव; सन्धिपाद (arthropoda) के सिर (head) या मुँह का अवयव ।

mouth cavity—मुख विवर; मुख गुहा ।

movement—(L. *movere*, to move) गति; संचलन ।

mucific—(L. *mucus*, mucus; *facere*, to make) श्लैष्मोत्पादक; श्लैष्म स्रावक ।

muciform—(L. *mucus*, mucus; *forma*, shape) श्लैष्मोपम; श्लैष्मवत् ।

mucigen—(L. *mucus*, Gk. *genos*, offspring) श्लैष्मज; श्लैष्मिक कला के कोशिकों के अन्दर का पदार्थ ।

mucilage—(L. *mucus*, mucus) श्लैष्म; सरस; लसदार पदार्थ; श्लैष्मक; म्यूसिलेज ।

mucilaginous—(L. *mucus*, mucus) श्लैष्मवत्; श्लैष्मोपम; सरस की तरह का ।

mucin—(L. *mucus*, mucus) मूसिन; श्लैष्म (mucus) का ग्लाइकोप्रोटीन—जो कोशिका या ग्रन्थियों के स्राव में होता है ।

mucinogen—(L. *mucus*, mucus; Gk. *genos*, offspring) श्लैष्मज ।

muciparous—(L. *mucus*, mucus; *parere*, to beget) श्लैष्मोत्पादक; श्लैष्म स्रावक ।

mucocellulose—(L. *mucus*, mucus; *cellula*, small cell) मूकोसेलूलोज; सेलूलोज श्लैष्म पदार्थ के साथ मिला हुआ जैसा कुछ बीजों और फलों में पाया जाता है ।

mucocutaneous, mucodermal—(L. *mucus*, mucus; *cutis*; skin; Gk. *derma*, skin) त्वक्-श्लैष्मी; श्लैष्मत्वचीय; त्वचा और श्लैष्मिक कला सम्बन्धी ।

mucoïd—(L. *mucus*, mucus; Gk. *eidōs*, like) श्लैष्मोपम; श्लैष्मवत्; श्लैष्माभ ।

mucoproteins

mucoproteins—(L. *mucus*, *mucus*; Gk. *protos*, first) मूकोप्रोटीन्स; ग्लूकोप्रोटीन्स; ग्लाइकोप्रोटीन्स—प्रोटीन और कार्बोज (कार्बोहाइड्रेट) मिश्रित यौगिक ।

mucosa—(L. *mucus*, *mucus*) श्लेष्मक; श्लेष्मल; म्युकोसा ।

mucoserous—(L. *mucus*, *mucus*; *serum*, *whay*) श्लेष्म-लसीका द्रव; श्लेष्म तथा दैहिक तरल स्राव ।

mucous—(L. *mucus*, *mucus*) श्लेष्म; श्लेष्मल ।

mucous membrane—श्लेष्मिक झिल्ली ।

micro—(L. *micro*, sharp point) सूक्ष्म; अङ्गान्तक; तीक्ष्णाय; नोक ।

micronate—(L. *micro*, sharp point) सूक्ष्मनेट; अंगान्तकी; नोकदार; तीक्ष्णायी ।

micronulate—(L. *micro*, sharp point) अङ्गान्तकी ।

micronule—(L. *micro*, sharp point) सूक्ष्मन्यूल; ऊनसूक्ष्म; लघु-अंगान्तक ।

muculent—(L. *mucus*, *mucus*) श्लेष्म युक्त; श्लेष्मक ।

mucus—(L. *mucus*, *mucus*) श्लेष्म; चिकना; चिपचिपा, चमकीला, लसदार पदार्थ विशेष; श्लेष्मा ।

mucus membrane—श्लेष्म कला (छद्); श्लेष्मछद् ।

mulberry body—मैरूला; कोशिका पुंज; तूतक ।

mullerian bodies—(F. *muller*, german naturalist) मुलेरियन पिण्ड; एफ. मुलर पिण्ड ।

mullerian ducts—(J. *muller*, german anatomist) मुलेरियन नलिकाएँ; म्यूलरी वाहिनी; जे. मुलर नलिकाएँ; मध्य वृक्क नलिकाओं (wolffian ducts) के पार्श्व भाग (lateral portion) से आरम्भ होने वाली नलिकाएँ ।

Muller's fibres—(H. *Muller*, German anatomist) एच. मुलर सूत्र; मुलर के सूत्र । (१) मुलर

के सहायी (subtentacular) या अरीय (radial) सूत्र; (२) रेटिना के तंत्रिका स्तर को साघने वाला श्लेष्म सूत्रों का जाल ।

Muller's larva—(J. *Muller*, German zoologist) जे. मुलर डिम्बक (लारवा); पोलीक्लिडिडा (Polycladida) का पक्ष्माभिकामय (ciliated) (लारवा) ।

Muller's muscle—(H. *Muller*, German anatomist) एच. मुलर पेशी; (१) पलकों (eyelids) की एक सरल पेशी; (२) अधो नेत्र कोटर (inferior orbital) दरार (fissure) के तीरांतर (across) एक सरल पेशी ।

multangular—(L. *multus*, many; *angulus*, angle) मल्टेन्गुलर अस्थि; दीर्घ और लघु मल्टेन्गुलम—दो करभास्थि—जिन्हें ट्रेपेजियम (दीर्घ-) और ट्रेपेजोइड (लघु-) करभास्थि भी कहा जाता है ।

multiarticulate—(L. *multus*, many; *articulus*, joint) बहु सन्धिक; बहु सन्धीय; कई एक जोड़ों या सन्धि (joint) वाला ।

multibrachiate—अनेक बाहु ।

multicamerate—(L. *multus*, many; *camera*, chamber) बहुकक्षीय; बहुकोटर युक्त; कई एक कोटरों (chambers) वाला ।

multicapsular—(L. *multus*, many; *capsula*, little chest) बहुपात्रक; बहुकेप्सुली; बहुकोटरी (capsule = कोटर या पात्र) ।

multicarinate—(L. *multus*, many; *carina*, keel) बहुकीलक ।

multicellular—(L. *multus*, many, *cella*, cell) बहुकोशिकीय; बहुसेलीय ।

multicentral—(L. *multus*, many; *centrum*, centre) बहुकेन्द्रीय; एकाधिकेन्द्रीय; एक से अधिक वृद्धि या वर्धन (growth or development) केन्द्र वाला ।

multiciliate

multiciliate—(L. *multus*, many; *cilium*, eyelid) बहुतन्त्री; बहुपक्ष्माभी ।

multicipital—(L. *multus*, many; *caput*, head) बहुसिरी; बहु शाखीय; बहुत से सिरों या शाखाओं वाला जो एक विन्दु से ही प्रारम्भ होती हैं ।

multicostate—(L. *multus*, many; *costa*, rib) बहु पर्शुक; बहुत सी पसलियों या पर्शु (ribs) वाला; बहु शिरामय ।

multicuspid—(L. *multus*, many; *cusps*, spear-head) बहुकस्पी; बहुशिखरी; बहुदंताग्र ।

multidentate—(L. *multus*, many; *dens*, tooth) बहुदन्ती; बहुत दानेदार; बहुदन्तुर ।

multidigitate—(L. *multus*, many; *digitus*, finger) बहु-आंगुलिक; बहु अंगुल्याकार ।

multifid—(L. *multus*, many; *fidus*, cleft) बहु दरारी ।

multiflagellate—(L. *multus*, many; *flagellum*, whip) बहुकशी; अनेककशाभी ।

multiflorous—(L. *multus*, many; *flos*, flower) बहुपुष्पी ।

multifoliate—(L. *multus*, many; *folium*, leaf) बहुपर्णी ।

multifoliate—(L. *multus*, many; *foliolum*, small leaf) बहुपत्रक ।

multiganglionate—(L. *mulius*, many; Gk. *ganglion*, small tumour) बहुगण्डी; बहुगैंगलीय ।

multigyrate—(L. *multus*, many; *gyrus*, circle) बहु घुमेड़ी ।

multijugate—(L. *multus*, many; *jugum*, yoke) बहु युगन पत्रकी ।

multilaminar—(L. *multus*, many; *lamina*, plate) बहुफलकी; कई या अनेक फलक (laminae) से निमित्त ।

multilobate—(L. *multus*, many; *lobus*, lobe) बहु दली ।

multilobulate—(L. *multus*, many; *lobulus*, small lobe) बहु पालिकीय ।

multilocular—(L. *multus*, many; *loculus*, chamber) बहु कोहरी या बहु कोठरी; बहुकोष्ठकी ।

multinervate—(L. *multus*, many; *nervus*, sinew) बहुतंत्रिकीय; बहुशिरी ।

multinodal—(L. *multus*, many; *nodus*, knot) बहुकाण्डी; बहुपर्वसंधिक ।

multinomial—(L. *multus*, many; *nomen*, name) बहुशब्दी; बहुपदी । [देखिये—binomial द्विशब्दी]

multinucleate—(L. *multus*, many; *nucleus*, kernel) बहुअष्टिक; बहुकेन्द्रकी ।

multinucleolate—(L. *multus*, many; *nucleolus*, small kernel) बहु उपाष्टिक; बहु उपकेन्द्रक ।

multiovulate—(L. *multus*, many; *ovum*, egg) बहु डिम्बी ।

multiparous—(L. *multus*, many; *parere*, to beget) बहु शिशु दात्री; बहुशाखी; बहुप्रजक; एक बार में एक से अधिक बच्चे जनने वाली ।

multiple—गुणित; बहुगुणा; बहु, बहुत ।

multiplecorolla—बहुदली; दो या दो से अधिक पंखुड़ियों के दल चक्रों से युक्त ।

multiple factors—बहुकारक; ऐसे जीव जो संयुक्त या एक त्रक प्रभाव डालें ।

multiple fission—बहु भजन; बहु खण्डन ।

multipolar—(L. *multus*, many; *polus*, axis end) बहु ध्रुवी ।

multiradiate—(L. *mulius*, many; *radius*, ray) बहु किरणी; बहु अरी ।

multiramose—(L. *multus*, many; *ramus*, branch) बहु शाखीय; बहु शाखी ।

multiseptate—(L. *multus*, many; *septum*, partition) बहु व्यवधानी; बहुपटीय ।

multiserial—(L. *multus*, many; *series*, row) बहु पंक्तिक; बहु क्रमिक ।

multispiral—(L. *multus*, many; *spira*, coil) बहु चक्री ।

multisulcate—(L. *multus*, many; *sulcus*, furrow) बहु सीता युक्त ।

multitentaculate—(L. *multus*, many; *tentaculum*, feeler) बहु स्पर्शक; बहु स्पर्शकी ।

multituberculate—(L. *multus*, many; *tuberculum*, small hump) बहु-उपाण्डी; बहु-गुलिका ।

multituberculy—(L. *multus*, many; *tuberculum*, small hump) बहु-गुलिकीय; यह मत कि चवर्णक (molar teeth) ऐसे प्ररूप से वर्धित हुए हैं जिनमें कई गुलिकायें (tubercles) थीं ।

multivalve—(L. *multus*, many; *valvae*, folding doors) बहु कपाटी; बहु कपाटीय ।

multivincular—(L. *multus*, many; *vinculum*, fetter) बहु बन्धनी; बहुबन्धन युक्त; मस्टी विन्कुलर ।

multivoltine—(L. *multus*, many; It. *volta*, turn) बहु प्रसवनी; बहु सू; बहु प्रसू; बहु प्रज; एक वर्ष में एक से अधिक बार शिशु या बच्चे को देने वाली ।

multiocular—(L. *multus*, many; *oculus*, eye) बहुनेत्री; अनेक चक्षुकी ।

multiungulate—(L. *multus*, many; *ungula*, hoof) बहु खुरी; बहु शकीय ।

munce—(L. *munus*, function) मोरेज व संभावंगी; विशिष्टांगी ।

muricate—(L. *muricatus*, full of sharp points) मूरीकेट; तीक्ष्ण कण्टकी; रूखवर्ध ।

muriform—(L. *murus*, wall; *forma*, shape) भित्ति कोपम; ईंटों या ईष्टि (brick) की दीवान (wall) के सदृश; इण्डिकापुंजाभ ।

musca—मस्का; मक्षिका; मक्खी जाति का नाम ।

musicoline—(L. *muscus*, moss; *colere*, to inhabit) मांसवासी ।

muscle—(L. *musculus*, muscle) पेशी; शरीर का मांसीय भाग ।

musoid—(L. *muscus*, moss; Gk. *eidos*, form) मांस सदृश; मांसोपम ।

muscology—शेवल (moss) विज्ञान ।

muscular—(L. *musculus*, muscle) पेशी युक्त ।

muscular system—पेशी मण्डल (संस्थापन) ।

musculature—(L. *musculus*, muscle) मांस पेशी; पेशी विन्यास ।

musculocutaneous—(L. *musculus*, muscle) त्वचा पेशी; पेशी त्वचीय; त्वचा और मांस पेशी सम्बन्धी ।

musculophrenic—(L. *musculus*, muscle; Gk. *phren*, midriff) त्वचा-डायफ्राम-; त्वचा-डायफ्राम सम्बन्धी ।

musculospiral—(L. *musculus*, muscle; *spira*, coil) स्कुलोस्पाइरल (तंद्रिका); अरीय तंद्रिका जो चक्राकार रूप में ह्यूमेरस से नीचे गुजरती है ।

mushroom shaped gland—छत्रकोपम; ग्रन्थि कीटों के शुक्राशय (seminal vesicle) का दूसरा नाम ।

mutafacient—(L. *mutare*, to change; *facere*, to make) उत्परिवर्तन-प्रोत्साहक ।

mutant—(L. *mutare*, to change) विच्छिन्न भित्री; उत्परिवर्ती; म्यूटेन्ट; वह व्यक्ति (जन्तु विशेष) जो कि पितृ प्रकार से भिन्न लक्षणों से युक्त हो ।

mutation—(L. *mutare*, to change) विच्छिन्न भिन्नता; उत्परिवर्तन; म्यूटेशन । गुणसूत्रीय डीएनए (DNA) में आकस्मिक परिवर्तन, उत्परिवर्तन (mutation) कहे जाते हैं । सबसे महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन वे होते हैं जो युग्मक या उनके पूर्वगामीयों में होते हैं क्योंकि ये उन अंगीयों में जो इनसे वर्धित होते हैं लक्षणों में आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं । इस प्रकार का प्रत्येक परिवर्तन विकास का आधारभूत होता है । बहुसंख्यक उत्परिवर्तन व्यक्तित्व जीन में परिवर्तन होते हैं, केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो गुण सूत्रों की सकल संरचना में परिवर्तन लाने वाले होते हैं, ऐसा स्थानान्तरण या ह्यूट्रमण (translocation या inversion) से होता है । जब किसी वेक्टर की गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन लाता है, तो उसे

muticous

बहुगुणता (polyploidy) कहा जाता है। उत्परिवर्तन सामान्य रूप से अनित्य (infrequent) होते हैं।

जा उत्परिवर्तन काय-कोशिकाओं में होते हैं उन्हें दैहिक उत्परिवर्तन (somatic mutation) कहा जाता है।

muticous—(L. *muticus*, maimed) विकलांगी; प्रहार अंग जैसे पंजे, दाँत आदि हीन; कुंठित।

mutilation—(L. *mutilare*, to main) अंग भंगता; विकलता; अंग कर्तन; अंगों का कटाव।

mutualism—(L. *mutus*, exchanged) सहजीवनता; महोपकारिता; पारस्परिकता; दो जन्तुओं का साथ-साथ रहना, जिससे दोनों को लाभ पहुँचे।

myarian—(Gk *mys*, muscle) मायूरियन; पेशी-आधार वर्गीकरण।

mycelioid—(Gk. *mykes*, fungus; *eidos*, form) माइसीलियम सदृश; कवक जालाभ।

mycelium—(Gk. *mykes*, fungus) माइसीलियम; कवक तंतु जाल। फंगस की आदर्श वनस्पतिक संरचना—तंतुक कोशिकाओं या कवक तंतु (hyphae) से बनी संरचना (structure)।

mycetocyte—(Gk. *mykes*, fungus; *kytos*, hollow) माइसेटोसाइट; कवक कोशिका; पश्च-अंडक (oocyte) ध्रुव की एक पुटक-कोशिका (follicle cell) जिसमें होकर एफिड (Aphides) के अंडे पर सहजीवियों (symbionts) द्वारा संक्रमण होता है।

mycetogenetic—(Gk. *mykes*, fungus; *genesis*, descent) कवजक; कवक (fungus) से उत्पन्न।

mycetoid—(Gk. *mykes*, fungus; *eidos*, form) कवकाभ; कवकोपम।

mycetology—देखिये—mycology-कवक विज्ञान।

mycetoma—(Gk. *mykes*, fungus) कवक कोशिका समूह।

mycetophagous—(Gk. *mykes*, fungus; *phagein*, to eat) कवक भोजी।

mycoderm—(Gk. *mykes*, fungus; *derma*, skin) वैक्टीरिया पटल।

mycology—(Gk. *myelos*, fungus; *loos*, dis-course), फफूंदी विज्ञान; फन्जाई विज्ञान; कवक विज्ञान।

mycoplasm—(Gk. *mykes*, fungus; *plasma*, form) कवक प्रदव्य; कवक प्ररस; दालों के बीजों में पाया जाने वाला परजीवी पदार्थ जो कवक रस्ट (rust) को उत्पन्न करता है।

mycopremna—(Gk. *mykes*, fungus; *premon*, stem) सहजीवी कवक युक्त कंदक।

mycorhiza—(Gk. *mykes*, fungus; *rhiza*, root). कवक-मूल संगति; कवक तंतु का अन्य उच्च पादपों की जड़ों से संगति।

mycorhizic—(Gk. *mykes*, fungus; *rhiza*, root) आंशिक सहजीवी; कवक-मूल संगति युक्त।

mycotrophic—(Gk. *mykes*, fungus; *trophe*, nourishment) कवक सहजीवी; कवक पोषी। कवक के साथ सहजीवन व्यतीत करने वाले पोषे।

myelencephalon—(Gk. *myelos*, marrow, *engkephalos*, brain) पश्च मस्तिष्क; पश्चाद्भाग; माइलेन-विफैलोन; पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा और चतुर्थ वैन्ट्रीकल वाला भाग।

myelin—(Gk. *myelos*, marrow) मज्जा; माइलिन।

myelination—(Gk. *myelos*, marrow) मज्जाजन।

myeloblast—(Gk. *myelos*, marrow; *blastos*, bud) मज्जा कोष्ठज; मज्जा कोरक।

myelocoel—(Gk. *myelos*, marrow; *koilos*, hollow) सुषुम्ना नलिका; मज्जा गुहा।

myelocyte—(Gk. *myelos*, marrow; *kytos*, hollow) मज्जा कोशिका; मज्जाणु; माइलोसाइट।

myeloid—(Gk. *myelos*, marrow; *eidos*, form) मज्जाओपम; मज्जा सदृश; मज्जाभ।

myelomere—(Gk. *myelos*, marrow; *meros*, part) सुषुम्ना खण्ड।

myelon—(Gk. *myelos*, marrow) सुषुम्ना।

myeloplast—(Gk. *myelos*, marrow; *plastos*, formed) मज्जा श्वेताणु।

myeloplax—(Gk. *myelos*, marrow; *plax*, some thing flat) वृहत्काय मज्जा कोशिका; मज्जा (marrow) और रक्त जनन अंगों (blood forming organs) की एक वृहत्काय-कोशिका।

myentric—(Gk. *mys*, muscle, *enteron*, gut) अंत्र पेशी नियंत्रक; अंत्र (gut) की मांस पेशी (muscle) की चाल को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका, जिससे भोजन ऊपर से नीचे की ओर जाता है।

myiasis—(Gk. *myia*, fly) उप प्लव; द्विपक्षी (diptera) अर्भक का जीवित जन्तुओं पर आक्रमण।

mylohyoid—(Gk. *myle*, mill; *hyoeides*, shaped) मयलोहाएड; हायडाघोहन्वस्त्रि।

myoalbumin—(Gk. *mys*, muscle; L. *albumen*, white egg) पेशी एलब्युमिन।

myoblast—(Gk. *mys*, muscle; *blastos*, bud) पेशी कोष्ठज; पेशी कोरक; वह कोशिका जिससे कि मांस पेशी के रेशे बनते हैं।

myocardium—(Gk. *mys*, muscle; *kardia*, heart) हृत्पेशी; मध्यहृत् स्तर।

myochrome—(Gk. *mys*, muscle; *chroma*, colour) मांस वर्ण (रंग); पेशी वर्णक।

myocoel—(Gk. *mys*, muscle; *koilos*, hollow) पेशीखंड गुहा; दैहिक गुहा का वह भाग जो पेशीखंड (myotome) में होता है।

myocomma—(Gk. *mys*, muscle; *comma*, clause) पेशी खण्ड जवनी; मायोकोमा; अंतरा पेशी पट्ट।

myocyte—(Gk. *mys*, muscle; *kytos*, hollow) पेशी कोशिका।

myodome—(Gk. *mys*, muscle; *domos*, chamber) पेशी कोटर (कक्ष); कुछ अस्थि मत्स्यों (teleosts) में कुछ पेशियों सम्बन्धी कोटर या कक्ष (chamber)।

myodynamic—(Gk. *mys*, muscle; *dynamis*, power) पेशी शक्ति; मांस पेशी की संकुचन शक्ति।

myoepicardial—(Gk. *mys*, muscle; *epi*, upon; *kardia*, heart) अधिहृद्स्तर पेशी।

myoepithelial—(Gk. *mys*, muscle; *epi*, upon; *thelē*, nipple) पेशी और अधिच्छद सम्बन्धी।

myofibrillae—(Gk. *mys*, muscle; L. *fibrilla*, small fibre) पेशी ऊतक के आंकुचक सूत्रक (तन्तुक)।

myogenic—(Gk. *mys*, muscle; *gennaein*, to produce) पेशी जन; पेशी जनक; मांस पेशी में उत्पन्न होने वाली।

myoglobulin—(Gk. *mys*, muscle; L. *globulus*, small globe) पेशी गोलिका; मायोग्लोबुलिन।

myohaematin—(Gk. *mys*, muscle; *haima*, blood) पेशी तन्तु वर्ण; कोशिका वर्ण; मायोहीमेटिन।

myoid—(Gk. *mys*, muscle; *eidōs*, form) पेशी निर्मित; पेशी सदृश; पेशिभः मांस पेशी तमान या मांस पेशी का बना हुआ।

myolemma—(Gk. *mys*, muscle; *lemma*, skin) पेशी पिघान।

myology—(Gk. *mys*, muscle; *logos*, discourse) पेशी विज्ञान।

myomere—(Gk. *mys*, muscle; *meros*, part) पेशी खण्ड; बन्धक तन्तुओं (connective tissue) में खण्डित मांस पेशी खण्ड।

myometrial—(Gk. *mys*, muscle; *metra*, uterus) मायोमेट्रियल; गर्भाशय (uterus) की भित्ति ग्रन्थि जिनका उद्दीपक (hormone) स्राव (secretion) दुग् ग्रन्थियों (mammary glands) पर प्रभाव डालता है।

myometrium—(Gk. *mys*, muscle; *metra*, uterus) गर्भाशय भित्ति।

myoneme—(Gk. *mys*, muscle; *nema*, thread) पेशी संकुचक; पेशी सूत्र; मायोनीम।

myoneural—(Gk. *mys*, muscle; *neuron*, nerve) तंत्रिका पेशी सम्बन्धी।

myoneure—(Gk. *mys*, muscle; *neuron*, nerve) पेशी तंत्रिका; प्रेरक तंत्रिका कोशिका।

myonicity—(Gk. *mys*, muscle) पेशी संकुचन शक्ति।

myophan—(Gk. *mys*, muscle; *phainein*, to appear) पेशी सदृश।

myophore—(Gk. *mys*, muscle; *pherein*, to bear) पेशीधारो; पेशी प्रेमी; ऐसी आकृति (structure) जो पेशी आसक्तता (attachment) के लिये उपयुक्त होती है।

myophrisk

myophrisk—(Gk. *mys*, muscle; *phrix*, ripple)
पेशी संकुचक ।

myoplasm—(Gk. *mys*, muscle; *plasma*, mould)
पेशी संकुचन तत्व; पेशी द्रव्य ।

myopolar—(Gk. *mys*, muscle; *polos*, axle-end)
पेशी ध्रुवता ।

myoproteid—(Gk. *mys*, muscle; *protos*, first)
मायोप्रोटीड; मत्स्य पेशी का ग्लोबुलिन सहश पदार्थ ।

myoseptum—(Gk. *mys*, muscle; L. *septum*,
partition) पेशी वियुज; पेशी खण्ड व्यवधान; अंतरा
पेशी पट्ट ।

myosin—(Gk. *mys*, muscle) मायोसिन; पेशी ऊतक
का मृत ग्लोबुलिन; पेशी थक्का ।

myotaxis—(Gk. *mys*, muscle; *taxis*, tension)
पेशी आतति ।

myotatic—(Gk. *mys*, muscle; *taxis*, tension)
पेशी आतति कारक ।

myotic—(Gk. *myein*, to close) संकुचन कारी ।

myotome—(Gk. *mys*, muscle; *tome*, cutting)
पेशी देह खण्ड; आदि पेशी खंड, मायोटोम ।

myotania—(Gk. *mys*, muscle; *tonos*, tension)
पेशी खिचाव; पेशी तनाव ।

myrmecochore—(Gk. *myrmex*, ant; *chore*,
farm) चींटी आकषक; चींटियों को आकर्षित करने
वाला तैल्य बीज (पदार्थ) ।

myriapoda—अयृत पादी; जन्तु विशेष ।

myrmecology—(Gk. *myrmex*, ant; *logos*, dis-
course) चींटी विज्ञान; चींटी (पिपीलिका) अध्ययन
शास्त्र ।

myrmecophagous—(Gk. *myrmex*, ant; *phagein*,
to eat) चींटी भोजी; पिपीलिकाहारी; चींटी आहारी;
चींटी भक्षी ।

myrmecophil—(Gk. *myrmex*, ant; *philos*,
loving) चींटी प्रेमी; वन्नरागी ।

myrmecophilous—(Gk. *myrmex*, ant; *pholos*,
loving) चींटीरागी; चींटियों द्वारा परागणित ।

myrmecophyte—(Gk. *myrmex*, ant; *photon*,
plant) चींटी पादप; चींटियों को घर बनाकर रहने
देने वाला वृक्ष (पादप) ।

myrosin—(Gk. *myron*, unguant) माइरोसिन
(एन्जाइम) क्रूसीफेरी (*cruciferae*) कुल के पौधों का
एक एन्जाइम जो ग्लूकोसाइड पर प्रभाव डालता है ।

myrtiform—(L. *myrta*, myrtle; *forma*, shape)
छिदी दरार ।

mystacial—श्मश्रु ।

myxocyte—(Gk. *myxa*, stinic; *kytos*, hollow)
श्लैष्म कोशिका ।

myxoflagellate—(Gk. *myxa*, stinic; L. *flage-
llum*, whip) श्लैष्म कशाभिक ।

myxopodium—(Gk. *myxa*, stinic; *pous* foot)
श्लैष्म कूटपाद ।

myxopterygium—see mixipterygium-मिश्र पक्षक t

N

NFactor—एन कारक; उच्च जन्तुओं के लाल रक्तानुओं का एक प्रतिजन (antigen) ।

nacre—(Ar. *nakir*, hollowed.) मुक्ता; नेकर

nacreous—(Ar. *nakir*, hollowed.) मुक्तास्फोटी; शुक्तिपुट, मुक्ताभ; मुक्तान्तक ।

nacrine—(Ar. *nakir*, hollowed.) मुक्ताभ ।

naiad—(L. *naias*, water-nymph.) न्याड; जलार्भक; अंशरूपान्तरिक (hemimetabolic) कीटों (insects) की निम्फावस्था या पूर्व प्रौढ़ावस्था (nymphal stage) ।

nail—(A.S. *naegel*, nail.) नख; नह, नाखून ।

nail bone—नखास्थि; अँगुली या पादांगुलि की अन्त की हड्डी ।

naked—(A.S. *nacod*, naked.) नग्न; नंगा; अभूषित; अलोमी; अरक्षित ।

naked eye—उपकरण हीन नेत्र; केवल आँख ।

nanism—(Gk. *nanos*, dwarf.) वामनता; नाटापन ।

nanophanerophyte—(Gk. *nanos*, dwarf; *phaneros*, manifest; *phyton*, plant) अणुक्षुप; वामन-क्षुप; २ मीटर की ऊँचाई से कम वाली झाड़ी (क्षुप) ।

nanoplankton—(Gk. *nanos*, dwarf; *planktos*, wandering.) अणु प्लवक परासूक्ष्म प्लवक; अणुांगी (microscopic) तैरने वाले या प्लावी (floating) वनस्पति (plant) या जन्तु (animal) ।

nape—(A.S. *knap*, knob.) गुद्दी; मन्या; कंधरा; गर्दन का पिछला भाग ।

napiform—(L. *napus*, turnip; *forma*, shape.) कुम्भी रूप; शलजम के आकार का ।

narcosis—(Gk. *narke*, numbness.) मूर्छा; अचेतावस्था, स्वापक-सुप्ति; नार्कोसिस ।

narcotic—(Gk. *narke*, numbness.) अचेतनात्मक; स्वापक; बेहोश करने वाली दवा ।

nares—(L. *nares*, nostrils.) नासा छिद्र; नथुना; नाक के छेद; नासा रंध्र ।

nares external—(anterior)—बाह्यनासा छिद्र; अग्र-नासा छिद्र ।

nares internal (posterior)—अन्तनासा छिद्र; पश्च-नासा छिद्र ।

narial—(L. *nares*, nostrils.) नासा व्यवधान; नासा जवनी; नासारन्ध्र सम्बन्धी ।

narial apertures—नासा छिद्र ।

narial septum—नासा व्यवधान; नासा जवनी ।

naricorn—(L. *nares*, nostrils; *cornu*, horn.) नासाशल्क; नासिका शृङ्ग । टरवीनेरीज (turbinares) के नथुने (nostril) के अन्त का शृङ्गमय या शृङ्गी (horny) भाग ।

nariform—(L. *nares*, nostrils; *forma*, shape.) नासोपम ।

nasal—(L. *nasus*, nose.) नासा-; नासीय; नेत्रल नासा सम्बन्धी ।

nasal aperture—नासा छिद्र ।

nasal bone—नासास्थि ।

nasal capsule—नासा कुहर; नासा-सम्पुट ।

nasal cartilage—नासोपास्थि; नासिकोपास्थि ।

nasal cavity or chamber—नासा कोटर; नासा गुहा ।

nasal fossa—नासा खात ।

nasal mucous membrane—नासा श्लैष्मिक कला (झिल्ली) ।

nasal septum—नासा पट;

nasally—(L. *nasus*, nose.) नाक से ।

nascent—नव जात ।

nasion—(L. *nasus*, nose.) नेसियोन; नासा-ललाट सेवनी मध्य बिन्दु ।

nasmyth's membrane—(A. *nasmyth*, Scottish dentist.) नेसमिथ कला या झिल्ली; स्तनी (mammals) के दाँतों के बाहरी भाग के इनेमिल (enamel) के ऊपर की पारदर्शक कला ।

nasoantral—(L. *nasus*, nose; *antrum*, cavity.) नेसोएन्ट्रल; नासा मैक्सिलरी; नासिका और मैक्सिलरी कुहर सम्बन्धी ।

nasobuccal

- nasobuccal**—(L. *nasus*, nose; *bucca*, cheek) नासामुख विवरी; मुखनासा; नासा और मुख विवर सम्बन्धी ।
- nasociliary**—(L. *nasus*, nose; *cilia*, eyelashes.) नासा पक्ष्मनी; नासा और बरीनी (पक्ष्मन्) सम्बन्धी ।
- nasofrontal**—(L. *nasus*; nose, *frons*, forehead.) नेसोफ्रन्टल; नासा ललाट सम्बन्धी ।
- nasolabial**—(L. *nasus*, nose; *labium*, lip) नेसो-लेवियल; नासोष्ठी; नासा-ओष्ठ; नासा और होठ सम्बन्धी ।
- nasolacrimal**—(L. *nasus*, nose; *lacrima*, tear) नासाश्रुनलिका या वाहिनी; नासा और अश्रु नलिका सम्बन्धी; अश्रुग्रन्थि (lacrimal sac) से नासा-श्रवः छिद्रं (inferior meatus of nose)-तक की नलिका ।
- nasomaxillary**—(L. *nasus*, nose; *maxilla*, jaw.) नेसोमैक्सिलरी; नासा-हनु सम्बन्धी ।
- nasooptic**—(L. *nasus*, nose; Gk. *optikos*, relating to sight.) नेसोपटिक, नासादृष्टिक; नासा (nasal) और मैक्सिलरी (maxillary) प्रवर्धनों (processes) के मध्य में स्थित भ्रूणिक (embryonic) लीक (groove) ।
- nasopalatal**—(L. *nasus*, nose; *palatus*, palate) नासा-तालु; नासा और तालु के बीच की नाली; नासा तालव्य ।
- nasopalatine**—(L. *nasus*, nose; *palatus*, palate.) नेसोपेलेटाइन; वोमरलीक, नासा-तालव । (१) नासा व्यवधान (nasal septum) में विभक्त स्थान (recess) । (२) वोमर (vomer) की लीक (groove) ।
- nasopharyngeal**—(L. *nasus*, nose; Gk. *pharyngx*, gullet.) नासा कण्ठ; नासा कण्ठीय; नासाग्रसनी ।
- nasopharynx**—(L. *nasus*, nose; Gk. *pharynx*, gullet.) नासा कण्ठ; नासा ग्रसनी; पश्च नासिका (posterior nares) से अनुबन्ध (continuous) कण्ठ (pharynx) का भाग ।
- nasoturbinal**—(L. *nasus*, nose; *turbo*; whorl.) नासा सुरंगा; नासा घूर्णी, नासा सपिकास्थि ।
- nastic (movement)**—(Gk. *nastos*, presed crosse) अनुकुंचन; अमेध्य गति; विस्तृत उत्तेजना द्वारा उत्पन्न (पादप) चलन (movement) । जैसे प्रकाश की मात्रा में

- परिवर्तन के प्रति उत्तर में कई पुष्पों का खुलना या बन्द होना या छुई-मुई (*Mimosa pudica*) की पत्तियों का छुने पर मुरझाना या नीचे को हो जाना । पौधों की अनुकुंचन या अमेध्य गति (nastic movements) को उत्तेजना के स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जैसे प्रकाश अमेध्य गति या प्रकाश अनुकुंचन (photonasty) ताप अनुकुंचन या ऊष्मा अमेध्य गति (thermonasty), संक्षोभ अमेध्य गति या कंपनाकुंचन (seismonasty) ।
- nasus**—(L. *nasus*, nose.) नाक; नासिका; घ्राणेन्द्रिय । (२) कीट = सिर की क्लाइपियस (clypeus) पट्टिका ।
- nasute**—(L. *nasus*, nose) तुंडी दीमक; तुंड (rostrum) युक्त सैनिक दीमक ।
- natal**—(L. *nates*, buttocks.) (१) नितम्ब; नितम्बी; नितम्ब सम्बन्धी । (२) प्रसव ।
- nativity**—(L. *natalis*, pert; birth.) जन्मदर; जन्म मान; उत्पत्ति मान; जनसंख्या के अनुसार बच्चों की प्रति सहस्र उत्पत्ति ।
- natant**—(L. *natare*, to swim.) तल-प्लवक; प्लावी; पानी की सतह पर तैरने वाला ।
- natatorial or natatory**—(L. *natare*, to swim.) प्लवक; तरणक; तैरने या प्लवन (swimming) के उपयुक्त जन्तु विशेष ।
- native**—(L. *natus*, born) देशज; देशीय; देशवासी; पैदाइशी; स्थानीय; मूल निवासी ।
- natural**—(L. *natura*, to be born.) प्राकृतिक; प्राकृत; स्वभाविक ।
- natural death**—यथाकाल मरण; प्राकृतिक मृत्यु ।
- natural enemy**—जाति शत्रु ।
- natural history**—नैसर्गिक इतिहास; प्राणी विज्ञान; पशु जीवन शास्त्र; प्रकृति-विज्ञान ।
- naturalist**—पदार्थ शास्त्रज्ञ; प्राणी विज्ञान वेत्ता; प्रकृति-वादी ।
- naturalistic**—प्राकृतिक, जन्तु वैज्ञानिक ।
- natural relationship**—प्राकृतिक सम्बन्ध ।
- natural selection**—प्राकृतिक छटाव (संकलन) । इस मत को कि विकास प्रकृति व संकलन (natural selection) से होता है, डार्विन ने १८५९ में प्रतिपादित किया था । इस मतानुसार यह स्वीकार किया जाता है कि अगली

संतति में वंशज का अशदान पूर्णतया संयोगिक या अनियमित नहीं होता है अपितु परिवर्तनशीलता से पारस्परिक सम्बन्ध लिये होता है। कुछ परिवर्त (variant) व्यक्ति अन्य से अधिक सफल जीवन व्यतीत करने को दृढ़ योग्यता रखते हैं और ये सफल परिवर्त और उनकी संतति "प्राकृतिक प्रक्रिया" द्वारा संकलित कही जाती है। दूसरे शब्दों में विभिन्न परिवर्त में भिन्न अतिजीविता मान (survival value) होता है। इन विभिन्नताओं में वही विभिन्नतायें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो वंशानुगत होती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संकलन समय काल में किसी समष्टि (population) के गठन को नियंत्रित करने का मुख्य कारक होता है। इसके द्वारा कुछ परिवर्त पृथक् हो जाते हैं और वे परिवर्तन नहीं ला पाते हैं तथा कुछ परिवर्त प्रभुत्वशील हो जाते हैं और वे विकास सम्बन्धी परिवर्तन ला देते हैं।

nature—(L. *natura*, native.) प्रकृति; स्वभाव; पैतृक विशेषताओं का पूर्ण योग।

nauplius—(L. *nauplius*, shell fish.) नौपलियस; कुछ केकड़ावंशियों (crustaceans) का स्वतन्त्र तैरने वाला अर्भक विशेष।

nautiliform—(L. *nautilus*, nautilus; *forma*, shape) नॉटिलस रूप;

navel—(A.S. *naafle*, navel.) नाभि; टूंडी; तुन्दिका तुन्दी; ढोढी।

navicular—(L. *navis*; *ship*.) नौका रूपी, नौकाभिका, नाव के आकार का।

naviculare—(L. *navis*, *ship*.) नेवीकुलेर; स्तनी (mammalian) करभ (capus) की एक अस्थि।

nealogy—(G.k. *neales*, youthful; *logoas*, discourse) शैशव विज्ञान।

neanic—(Gk. *neankos* youthful.) न्यूनी; (१) शैशवावस्था। प्रपोड़ावस्था (२) प्रपोड़ाभिक स्थिति।

nearectic—(Gk. *neos*, new; *arktos*, great bear.) नवशीत प्रदेश; जन्तु भौगोलिक (zoogeographical) प्रदेश (region) जिसमें ग्रीन लैंड (green land) उत्तरी अमेरिका (North America) और उत्तरी मैक्सिको (mexico) सम्मिलित हैं।

neb—(A.S. *nebb*, the face.) नाक, यूनन; चोंच।

nebankern—(Ger. *neben*, near; *kern*, nucleus.) पुराष्टि।

neck—(A. S. *hnecca*, neck) ग्रीवा; गर्दन. नाड़; कण्ठ; गला।

neck of tooth—दन्त ग्रीवा।

necrobiosis—(Gk. *nekros*, dead; *biosis*, manner of life.) कोशिका छिप्रता; मरणोत्तर सक्रियता अंगी (organism) की, मृत्यु पश्चात् कोशिकों की छिप्रता (activity)।

necrogenous (Gk. *nekros*, dead; *genos*, offspring.) मृतोपजीवी; मृतोपवासी; मृत शरीर (dead bodies) में रहने वाला या उन पर वर्धन (develop) करने वाला।

necrophagous necrophilous—(Gk. *nekros*, dead; *phagein*, to eat; *philein*, to love.) मृतोपाहारी मृतक भोजी।

necrosis—(Gk. *nekros*, dead.) ऊतक क्षय; मृतता; टिसू-क्षयता।

nectar—(Gk. *nektar*, nectar.) मधु; अमृत; पुष्पासव; फूलों का रस (पुष्प रस); नेक्टर; मकरन्द।

nectar guides—मकरन्द इंगित कीं, पुष्पों के पंखुड़ियों पर पाये जाने वाले चिन्ह जो कीटों को मकरन्द तक पहुँचने में मार्ग दर्शक का कार्य करते हैं।

nectariferous—(Gk. *nektar*, nectar; L. *ferre* to carry.) पुष्प रस स्रावी; नेक्टर स्रावी, मकरन्दघर।

nectarivorous—(Gk. *nektar*, nectar; L. *vorare* to devour.) अमृताहारी; मधु सेवी; अमृत या पुष्परस चूसने वाले कीट (insects) आदि।

nectary—(Gk. *nektar*, nectar.) मधु ग्रन्थि; नेक्टरी; मकरन्द कोष।

nectocalyx—(Gk. *nektos*, swimming; *kelyx*, cup.) तरण पुट, तरण चपिका।

nectocyst—(Gk. *nektos*, swimming; *kystis*, bladder.) तरणपुट कोपिका।

nectomonad—(Gk. *nektos*, swimming, *monas*, units) मुक्त रूपक; कुछ परजीवी कपाधारियों की एक स्वतन्त्र अवस्था (मुक्त रूपक)।

nectophore—(Gk. *nektos*, swimming; *pherein*, to carry.) तरणपुट धारी; तरणघर।

nectopod—(Gk. *nektos*, swimming; *pous*, foot.) तरण पाद; तैरने में मदद देने वाला अवयव (appendage)।

nectosome—(Gk. *nektos*, swimming; *soma*, body.) तरण-पिंड; तरणकाय।

nectozooid—(Gk. *nektos*, swimming; *zoon*,

nedham's sac

- animal; *eidos*, form.) तरण मुकुल ।
 Needham's sac—नीडम-कोष; किन्हीं सिफैलीघडा में नर जनन वाहिनी के फूलने से बनी वीर्य पिटिका (कोष) ।
 negative tropism—प्रत्यादिश वृत्ति; किसी उत्तेजना (stimulus) के उद्गम (origin) से अलग हटने का स्वभाव ।
 nekton—(Gk. *nektos*, swimming.) तरणांगी; तरण प्लवक; पानी में तैरने वाला अंगी (organism) ।
 nema—(Gk. *nema*, thread.) सूत्रक या सूत्र देही; नेमा ।
 nemathecium—(Gk. *nema*, thread; *thekē*, box) सूत्र पिटिका; थैलसमंड; फंजाई (थैलोफाइट thallophyte) के थैलस (thallus) का एक ग्रैड (protuberance) ।
 nemathyomes—(Gk. *nema*, thread; *hylos*, humped) सूत्र कुब्ज; एडवर्ड्सिया (Edwardsia) में वक्षित दंशकोशिकाओं वाला मध्य श्लेष स्तर भाग ।
 nemathelminthes, nematoda—सूत्र देही ।
 nematoblast—(Gk. *nema*, thread; *blastos*, bud). दंशक कोष्ठ; दंशक कोशिका; सूत्र कोरक ।
 nematocalyx—(Gk. *nema*, thread; *kalyx*, cup.) दंशक पुट; दंशक घारी ।
 nematocyst—(Gk. *nema* thread; *kystis*, bladder.) दंशक कोषिका; दंश कोशिका; nematoda निमाटोडा; सूत्र-देही वर्ण (class) ।
 nematogen—सूत्रजन ।
 nematogene—(Gk. *nema*, thread; *genos*, offspring.) सूत्रक भ्रूण ।
 nematogone—(Gk. *nema*, thread; *gone*, seal) सूत्र कोशिका; प्रवृद्धि कोशिका । किन्हीं मौस (moss) में तनुभिन्निक प्रवृद्धि कोशिका ।
 nematology—(Gk. *nema*, thread; *logos*, discourse.) सूत्र देही विज्ञान । सूत्र कृमि विज्ञान ।
 nematophore—(Gk. *nema*, thread; *pherein*, to carry.) सूत्रघारी, दंशक सूत्रघारी ।
 nematophorous—(Gk. *nema*, thread; *pherein*, to carry) सूत्रघर सम्बन्धी ।

- nematsphere—(Gk. *nema*, thread; *sphaira*, globe) सूत्र मण्डल; किन्हीं सीएनीमोन (sea-anemones) में स्पर्शक का कटा हुआ गोल किनारा ।
 nematozoid—(Gk. *nema*, thread; *zoon*, animal; *eidos*, form) रक्षक मुकुल (हाइड्रोजोआ में) ।
 nematorose—(Gk. *nemos*, woodland with pasture.) जंगल वासी ।
 neo—'नव', नवीन या आधुनिक अर्थ का उपसर्ग ।
 neoarctic region—नव ध्रुवी प्रदेश; नवशीत प्रदेश ।
 neocerebellum—(Gk. *neos*, new; L. dem. of *cerebrum*, brain) नव अग्रमस्तिष्क; [देखिये palacocerebellum आद्य अग्रमस्तिष्क]
 neo darwinism—(नव डारविन मत (वाद); नियोडार-विनिजम । यह मत कि विकास का मुख्य कारक (chief factor) प्राकृतिक छटाव (natural selection) है जो कि जनन भिन्नताओं (germinal variations) के कारण होता है न कि उपाजित लक्षणों (acquired characters) के कारण जैसा कि अभी तक विचार (मत) था ।
 neencephalon—(Gk. *neos*, young; *engkephalos*, brain.) नवाग्र मस्तिष्क । पूर्वाग्र मस्तिष्क । मस्तिष्क का नवीनतम (latest) उद्भिज (evoloved) अग्र भाग (anterior part) ।
 neogaea—(Gk. *neos*, new; *gain*, earth) निओगिया (नियोडोइक परिमण्डल) ।
 neogamous—(Gk. *neor*, young; *gamous*, marriage.) कौमार संगी; अकाल पक्व जनन कोशिका संगी; वह एक कोष्ठीय या कोशिकीय (protozoa) जिनमें कौमार या अकाल पक्व (precoecious) जनन कोशिकाओं (gametocytes) का संग या समागम (association) होता है ।
 neogene—(Gk. *neos*, young; *genos*, birth.) नव जन; नियोजीन (युग); नूतन (later) त्रियेशिक काल (tertiary period) । नव तथा नवतर (miocene और pliocene) काल (epochs) ।
 neogenesis—(Gk. *neos*, young; *genesis*, birth.) नव तन्तु निर्माण; पुनर्जीवन; पुनरुत्पत्ति ।
 neo-lamarckism 'नव लामार्क मत' या वाद । लामार्क विकासवाद मत का पुनरुद्धार, कि परम्परा प्राप्त

(inherited) उपाजित विशेषताओं (acquired characters) से विशिष्ट भिन्नतायें (specific differences) आरम्भ होती हैं ।

neolaurentian—(Gk. *neos*, young; St. Lawrence river.) नव लोरेन्सियन; आद्य पुरा जन्तु युग (proterozoic era) सम्बन्धी ।

neolithic—(Gk. *neos*, young; *lithos*, stone.) नव पाषाण युगी; नवपाषाणी ।

neomorph—(Gk. *neos*, young; *morphe*, form.) भिन्नाकृति; नवरूप; आदर्श (प्रतिरूप) से आकृति सम्बन्धी रूपान्तर ।

neomorphosis—(Gk. *neos*, young; *morphosis*, change.) भिन्न पुनरुत्पत्ति, नवोत्पत्ति; पुनरुत्पत्ति या पुनर्जीवन (regeneration) जिसमें नवीन भाग पूर्व भागों से बिल्कुल भिन्न हो ।

neonatal—(Gk. *neos*, new, L. *natus*, born.) नवजात ।

neonychium—(Gk. *neos*, new, *onyx*, nail (नूतन) नव नखाच्छद ।

neopallium—(Gk. *neos*, young; L. *pallium*, cloak.) नवाच्छादन; नवप्रावार ।

neoplasm—(Gk. *neos*, young; *plasma*, formation.) नवीन या स्यंच तन्तु, नवद्रव्य । साधारणतः रोग के कारण नया या जुड़ा हुआ तन्तु ।

neornithes—नव पक्षी; नियोनियथीज ।

neoptile—(Gk. *neos*, young; *ptilon*, feather.) नवीन पर्ण ।

neossoptile—(Gk. *neossas*, nestling; *ptilon*, feather.) नवीन पक्षी ।

neoteinia—(Gk. *neos*, young; *teinein*, to stretch.) आयत कौमारता; निरुध वर्धन ।

neoteinic—(Gk. *neos*, young; *teinein*, to stretch.) अवरुध वर्धित ।

neoteny—(Gk. *neos*, young; *teinein*, to stretch.) आयत कौमारता; चिरभ्रूणता; चिरडिम्भता; निरुध वर्धन । अर्भक लक्षणों का सामान्य काल से अधिक रहना या मीढ़ लक्षणों का अर्भक में पाया जाना जैसा द्विधावासियों (amphibia) में ।

neotropical—(Gk. *neos*, new; *trope*, turning, नवोष्ण-कटिबंधी; नव-ऊष्ण कटिबंधीय (जन्तु भौगोलिक क्षेत्र); इसमें दक्खिनी मेक्सिको (Southern Mexico); मध्यीय और दक्खिनी अमरीका वेस्टइंडीज (West-Indies) होते हैं ।

neozoic—(Gk. *neos*, young; *zoe*, life) नवयुग; निओजोइक; मध्य युग (mesozoic) के अन्त से आधुनिक युग तक का काल ।

nephric—(Gk. *nephros*, kidney.) वृक्कीय; वृक्क (गुर्दा) सम्बन्धी ।

nephridial—(Gk. *nephros*, kidney.) उत्सर्गाङ्गीय; उत्सर्गिकायें सम्बन्धी; वृक्कीय; वृक्कक; (१) वृक्क में लघु विसर्जन नलिकायें । (२) अकशेरुकी (invertebrates) के मलोत्सर्ग अंग (excretory organs) या उत्सर्गिकायें (nephridia) ।

nephridiopore—(Gk. *nephros*, kidney; *idion*, dim, pores, passage.) उत्सर्जन छिद्र; वृक्ककरंध्र ।

nephridium—(Gk. *nephros*, kidney; *idion*, dim.) उत्सर्गिका; वृक्कक; उत्सर्जिनी; उत्सर्गाङ्ग (विशेषतः अकशेरुक जन्तुओं, का) कशेरुकों में भ्रूणिक वृक्क नलिका ।

nephrocoel—वृक्कानुखण्ड कोटर ।

nephrocyte—(Gk. *nephros*, kidney; *kytos*, hollow.) उत्सर्ग कोशिका । छिद्र देही (sponges) तथा कीटों (insects) में वह कोशिका जो मल आदि लेकर शरीर के तट पर पहुँच मलोत्सर्ग करते हैं ।

nephrodinic—(Gk. *nephros*, kidney; *odis*, labour.) विसर्जनोत्पादी; विसर्जन (excretion) और जनन या उत्पादन (genital) कार्यों के लिए एक ही नलिका वाला ।

nephrogonoduct—(Gk. *nephros*, kidney; *gonos*, offspring; L. *du* (ere, to lead), विसर्जनोत्पादक नलिका ।

nephroid—(Gk. *nephros*, kidney; *eidos*, form.) वृक्काकार; वृक्कोपम; वृक्काम ।

nephrolytic—(Gk. *nephros*, kidney; *lyein*, to dissolve.) वृक्कनाशक; वृक्कघोलक ।

nephromere—(Gk. *nephros*, kidney; *meros*, part.) वृक्कानुखण्ड ।

nephromixium—(Gk. *nephros*, kidney; *mixis*, mixing) संयुक्त वृक्कांग ।

nephron—(Gk. *nephros*, kidney.) वृक्कांक, वृक्काणु ।
कवोस्क वृक्क की उत्सर्जन इकाई जो मेलपीगीकोष (Malpighian capsule) और उससे लगी हुई मूत्रजन नलिका (uriniferous tubule) से मिलकर बनी होती है ।

nephropore—(Gk. *nephros*, kidney; *poros*, passage.) उत्सर्जन छिद्र ।

nephros—(Gk. *nephros*, kidney.) वृक्क; गुदा ।
साधारणतः वृक्क का क्रियाशील भाग ।

nephrostoma—(Gk. *nephros*, kidney; *stoma*, mouth.) उत्सर्ग मुख; वृक्क मुख; वृक्कक मुख ।

nephrotome—(Gk. *nephros*, kidney; *temnein*, to cut.) वृक्कानु खण्ड; आदि वृक्क खण्ड ।

neponic—(Gk. *nepos*, infant.) बालकीय; शैशव-कालीन; शैशव काल में ।

neritic—(Gk. *nerites*, a mussel.) तट जल वासी; मेरिटांचली ।

nervate—(L. *nervus*, sinew.) नरवेद; नाड़ी युक्त; सनाड़ी ।

nervation, nervature—L. *nervus*, sinew.) नरवेशन; नाड़ी फैलाव (विस्तार); तंत्रिका विन्यास; पंख आदि में तंत्रिका का विस्तार ।

nerve—(L. *nervus*, sinew.) नाड़ी; तंत्रिका; पत्ती शिरा या पक्ष शिरा ।

nerve canal—नाड़ी पथ नलिका; दन्त मज्जा तक पहुँचने का नाड़ी का रास्ता (पथ) ।

nerve cell—नाड़ी कोष्ठ; नाड़ी कोशिका; तंत्रिका कोशिका ।

nerve centre—नाड़ी केन्द्र, तंत्रिका केन्द्र ।

nerve cord—नाड़ी रज्जु; तंत्रिका रज्जु ।

nerve eminence—नाड़ी विशिष्टता (श्रेष्ठता); कुछ मत्स्यों में उथली कोष्ठों या कोशिकाओं का दल जो एक शानेन्द्रिय की तरह काम या व्यापार करता है और जो पार्श्व रेखा मण्डल (lateral line system) से जुड़ा होता है ।

nerve ending—नाड़ी-अन्त; नाड़ी अन्त्य; तंत्रिका-अन्त ।

nerve fibres—नाड़ी-सूत्र; धागे नुमा बनावटें जिनसे नाड़ी बनती है ।

nerve foramina—अस्थि तंत्रिका-छिद्र ।

nerve ganglion—तंत्रिका गैंगलिया ।

nerve impulse—नाड़ी प्रेरणा (उत्तेजना)

nerve plexus—नाड़ी जाल; तंत्रिका जाल ।

nerve plexus, brachial—बाहु नाड़ी जाल; घृतंत्रिका जाल ।

nerve plexus; coeliac—उदरीय नाड़ी जाल; उदरीय तंत्रिका जाल ।

nerve ring—नाड़ी मुद्रिका; नाड़ी वलय । तंत्रिका मस्तिष्क ।

nerve net—तंत्रिका जाल; सीलोमांत्रियों (coelenterates) में वेदना कोशिकाओं और पेशी तत्वों (muscular elements) को जोड़ने वाली नाड़ी कोशिकाओं और उनसे सम्बन्धित प्रवर्धनों का जाल ।

nerve pentagon—तंत्रिका पंच भुज; कण्टक देहियों (echinoderms) के मुँह के चारों ओर स्थित पंच भुजाकार नाड़ी वलय या मुद्रिका (nerve ring) ।

nerve root—तंत्रिका मूल; (आधार; उद्गम) ।

nervimotion—(L. *nervus*, sinew; *movere*, to move.) तंत्रिका चेष्टा, वात गति; तंत्रिका के प्रभाव के कारण गति (चाल) ।

nervous—(L. *nervus*, sinew.) नाड़ी; नाड़ी-सम्बन्धी; नाड़ी युक्त; चैतामय; तंत्रिकीय ।

nervous system—नाड़ी मण्डल; वात संस्थान । मस्तिष्क; सुपुम्ना तंत्रिका व उनकी शाखायें आदि का मण्डल; तंत्रिका तन्त्र ।

nerve—(L. *dim*, of *nervus*, sinew.) नरवूल; पक्ष उपशिरायें; कीटों (insects) के पंखों में नाड़ी की सूक्ष्म शाखायें या अन्त्य भाग ।

nervuration—(L. *nervus*, sinew.) तंत्रिका व्यवस्था ।

nervure—(L. *nervus*, sinew.) नरवियोर; पक्ष में शिरायें ।

nervus lateralis—(L. *nervus*, sinew; *lateralis*, *pert*, *side*.) पार्श्विक तंत्रिका प्रसार ।

nervus terminalis—(L. *nervus*, sinew; *terminalis*, *bounding*.) वोमर-नेजल अंग से सम्बन्धित एक कपाल-तंत्रिका (cranial nerve) ।

nessoptile—कीमल पिच्छ । देखिये—neossoptile—
नवीन पर्ण ।

nest—(A. S. nest; L. nidus, nest.) नीड़, घोंसला ।

net knots—केन्द्रक काय ।

netrum—(A. S. net, mesh work.) नेटम; प्रारम्भिक
तरकुट; विभाजित कोशिका का प्रारम्भिक तर्कुट
(spindle) ।

netted veined—जालधत् शिरा युक्त ।

netting cells—(or nettle cells.) दंशक कोष्ठ; सीलो-
मान्त्रियों (coelenterates) के दंशक कोशिका (stinging
cells या nematocysts) ।

neurad—(Gk. neuron, nerve.) पृष्ठीय ।

neural—(Gk. neuron, nerve.) तंत्रिका सम्बन्धी ।

neural arch—(Gk. neuron, nerve.) सुषुम्ना तोरण,
तंत्रिका चाप, कबेरु में केन्द्रक (centrum) के ऊपर
वाला वह महाराव का भाग जो सुषुम्ना को ऊपर से ढके
रहता है ।

neural canal—(Gk. neuron, nerve.) सुषुम्ना कोटर;
तंत्रिका नाल ।

neural cavity—सुषुम्ना कोटर ।

neural gland—सुषुम्ना ग्रन्थि; एसीडियन (Ascidians)
में तंत्रिका गुच्छिका के अधर और एक ग्रन्थि—सम्भवतः
क्रैनिया (craniata) जन्तुओं में पाई जाने वाली पीयूषिका
(hypophysis) का समजात (homologous) अंग
विशेष ।

neural plates—(१) सुषुम्ना तोरण पट्ट, तंत्रिक पट्ट;
(२) मध्य पट्ट कछुओं के कवच या केरापेस (carapace)
के पृष्ठीय आवरण के अष्ट पट्ट (eight plates) मध्य
पंक्ति में लगे हुए ।

neural spine—सुषुम्ना तोरण प्रवर्धन; तोरण कूट;
तंत्रिका कंटक ।

neural transmitter—(neuro humor)—तंत्रिका सूत्र
अन्त्य द्वारा मुक्त रासायनिक पदार्थ । यह रसायन अत्यन्त
सूक्ष्म मात्रा में या तो अंतर्ग्रथन पर छूटता है जबकि यह
समीपी तंत्रिका कोशिका को उत्तेजित करता है या फिर
गति-तंत्रिका अन्त्य पर, जबकि यह समीपी कार्यकर अंग
(effector organ) को उत्तेजित करता है एसीटाइल
कोलाइन (acetyl choline), एड्रीनेलिन (adrenaline)

और नोरएड्रीनेलिन (noradrenaline) इसके अच्छे
उदाहरण हैं ।

neurapophysis—(Gk. neuron, nerve; apo, from;
phyein, to grow.) सुषुम्ना प्रवर्धन ।

neurulation—(Gk. neura, sinew.) नाड़ी जाल; नाड़ी
व्यवस्था; तंत्रिका व्यवस्था; शिरा विन्यास ।

neuraxis neuraxon—(Gk. neuron, nerve; L.
axis, axle.) नाड़ी सूत्राक्ष; तंत्रिका सूत्राक्ष । तंत्रिकाक्ष;
न्यूरैक्सॉन ।

neurenteric—(Gk. neuron, nerve; enteron, gut)
नाड़ी-अन्न कोरर सम्बन्धी ।

neurenteric canal—तंत्रिका-अन्न नलिका ।

neuricity—(Gk. neuron, nerve.) तंत्रिका गुण
(विशिष्ट लक्षण) ।

neurilemma—(Gk. neuron, nerve; lemma, skin.)
नाड़ी-आवरण; नड्यावरण; नाड़ीछद; तंत्रिकाछद ।

neurility—(Gk. neuron, nerve.) नाड़ी क्षमता; नाड़ी
सामर्थ्य; नाड़ियों को प्रोत्साहन (उत्तेजना) भेजने की
शक्ति ।

neurite—(Gk. neuron, nerve.) तंत्रिका वर्ध; सूत्राक्ष;
शक्षक ।

neurobiotaxis—(Gk. neuron, nerve, bios, life;
taxis, arrangement.) तंत्रिका जीवन वृत्ति; तन्नि-
जीवानुचलन; तंत्रिका सूत्र या नाड़ी पिण्ड कोष्ठों की
उत्तेजना उद्गम (origin of stimulus) की और
स्थानान्तरित (migrate) होने की प्रवृत्ति (taxis) ।

neuroblast—(Gk. neuron, nerve; blastos, bud.)
नाड़ी कोष्ठज; तंत्रिका कोटक; विशेष अविच्छेद कोशिका
जिनसे नाड़ी (तंत्रिका) कोशिका बनते हैं ।

neurocentral—(Gk. neuron, nerve; L. centrum,
centre.) नाड़ी केन्द्रीय; तंत्रिका केन्द्रीय ।

neurochord—(Gk. neuron, nerve; chorde,
string.) नाड़ी रज्जु; तंत्रिका रज्जु ।

neurocirrus—(Gk. neuron, nerve; L. cirrus,
curl.) नाड़ी अनुरोम ।

neurocoel—(Gk. neuron, nerve; koilos, hollow.)
नाड़ी कोटर; नाड़ी कुहर; नाड़ी सील; केन्द्रीय नाड़ी
मण्डल (central nervous system) की कोटर या
कुहर या सील (cavity) ।

neurocranium—(Gk. *neuron*, nerve; *kranion*, skull.) नाड़ी कपाल; उपास्थि (cartilage) या अस्थि (bone) खोल या पेटा, जिसमें मस्तिष्क व मुख्य ज्ञानेन्द्रियाँ (brain and special sense organs) निहित रहती हैं। देखिये (viscerocranium)।

neurocrine—(Gk. *neuron*, nerve; *krinein*, to separate.) नाड़ी स्राव।

neurocyte—(Gk. *neuron*, nerve; *kytos*, hollow.) नाड़ी कोष्ठ; नाड़ी कोशिका; तंत्रिका कोशिका।

neurocyton—(Gk. *neuron*, nerve; *kytos*, hollow.) नाड़ी कोष्ठ पिण्ड; नाड़ी कोष्ठ देह।

neurodendron—(Gk. *neuron*, nerve; *dendron*, tree.) नाड़ी द्रुमक।

neuro-epithelium—(Gk. *neuron*, nerve; *epi*, upon; *thele* nipple.) चेतनाविच्छद; कोशिकाओं (cells) का अगढ़ या उथला (superficial) स्तर या पर्त (layer) जिसमें ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं।

neurofibrils—(Gk. *neuron*, nerve; L. *fibrilla*, fine fibre.) सूक्ष्म नाड़ी सूत्र; तंत्रिकातंतु; अति सूक्ष्म सूत्र जिसे सूत्रच्छद या पिधान युक्त तंत्रिका सूत्र (medullated nerve fibres) बनते हैं।

neurogenesis—(Gk. *neuron*, nerve; *genesis*, descent.) नाड़ी जनन।

neurogenic—(Gk. *neuron*, nerve; *genos*, birth.) नाड़िज; तंत्रिकाजन; प्रेरणा या उत्तेजना (stimulus) पर निर्भर जैसे हृदताल (heart rhythm)।

neuroglia—(Gk. *neuron*, nerve; *glia*, glue. तंत्रिका (नाड़ी) श्लैष्म, तंत्रिवंध।

neurohumour—(Gk. *neuron*, nerve; L. *humor*, moisture.) नाड़ी द्रव; तंत्रिकोद; नाड़ी उद्दीपक; न्यूरोह्यूमर।

neuropohyphysis—(Gk. *neuron*, nerve; *hypo*, under; *phyein*, to grow.) नाड़ी अधः प्रवर्धन, तंत्रिका। तंत्रिका हाइपोफिसिस।

neuroid—(Gk. *neuron*, nerve; *eidos*, form.) नाड़ी सदृश; नाड़्योपम; नाड़ी तुल्य।

neurokeratin—(Gk. *neuron*, nerve; *keras*, horn.) नाड़ी किरेटिन; नाड़ी शृङ्ग पदार्थ।

neurolemma—(Gk. *neuron*, nerve; *lemma*, skin.) सूत्रच्छद; तंत्रिकाच्छद न्यूरोलेमा।

neurology—(Gk. *neuron*, nerve; *logos*, discourse.) नाड़ी विज्ञान; तंत्रिका विज्ञान; न्यूरोलॉजी।

neuromasts—(Gk. *neuron*, nerve; *mastos*, knoll.) वेदना कोशिका समूह; मत्स्यों में (fishes) पार्श्व पंक्ति मण्डल (lateral line system) में वेदना कोशिकाओं (sensory cells) का समूह (group); न्यूरोमैस्ट।

neuromere—(Gk. *neuron*, nerve; *meros*, part.) सुषुम्ना खण्ड; नाड़ी अनु खण्ड; तंत्रिका खंड।

neuromery—(Gk. *neuron*, nerve; *meros*, part.) नाड़ी वर्तन; नाड़ी खण्डन; वर्धी (developing) तंत्रिका मण्डल में खण्डन (segmentation) का होना।

neuromuscular—(Gk. *neuron*, nerve; L. *musculus*, muscle.) नाड़ी-पेशीय; नाड़ी-पेशी सम्बन्धी; तंत्रिका पेशीय।

neuromyal—(Gk. *neuron*, nerve; *mys*, muscle) तंत्रिका पेशीय सम्बन्धी।

neurone—(Gk. *neuron*, nerve) नाड़ी कोष्ठ; तंत्रिका कोशिका।

neuroneme—(Gk. *neuron*, nerve; *nema*, thread.) नाड़ी अनुसूत्र; तंत्रिका सूत्र; न्यूरोनीय।

neuronephroblast—(Gk. *neuron*, nerve; *nephros*, kidney; *blastos*, bud)

तंत्रिका-वृक्कज; तंत्रिका रज्जु (nerve cord) और वृक्कज (nepridia) को जन्म देने वाली कोशिका।

Neurone theory—न्यूरोन मत; यह मत कि तंत्रिका तंत्र असंख्य विविक्त (descrete) तंत्रिका कोशिकाओं (nerve cells) का बना होता है। प्रत्येक कोशिका भ्रूणिक तंत्रिकीय ऊतक (embryonic neural tissue) की एकल कोशिका से उद्भूत होती है जो आपस में अंतःग्रंथन (synapse) पर सम्पर्क करती है।

पूर्वमत कि समस्त तंत्रिका तंत्र में प्रोटोप्लाज्मिक तार-तम्यता होती है अब अमान्य कर दिया गया है।

neurophags—(Gk. *neuron*, nerve; *phagein*, to eat.) नाड़ी कोशिका भक्षी; भक्षक कोशिका (phagocytic cells) जो वृद्धावस्था (old age) में नाड़ी कोशिकाओं का ह्रास कर देते हैं।

neurophan-(Gk. *neuron*, nerve; *phainein*, to appear.) वेदनीय; संवेदनीय ।

neuropile-(Gk. *neuron*, nerve; L. *pilus*, hair.) नाड़ी लोम; तंत्रिका पुंजक ।

neuroplasm-(Gk. *neuron*, nerve; *plasma* form.) नाड़ी तत्व या सत्व; तंत्रिका द्रव्य ।

neuropodium-(Ch. *neuron*, nerve; *pous*, foot.) न्यूरोपोडियम; निम्नपाद; (१) अन्त्य सूक्ष्म नाड़ी सूत्र; पिघान-हीन (नाड़ी) सूत्र (non-medullated nerve fibre) का अन्त्य सूक्ष्म सूत्र । (२) प्रपाद अघर दल पोलिकोटा (polychaeta) के प्रपाद (parapodium) का अघर दल (ventral lobe) ।

neuropore-(Gk. *neuron*, nerve; *poros*, passage.) नाड़ी छिद्र; तंत्रिकारंध्र; न्यूरोपोर ।

neuropophysis-(Gk. *neuron*, nerve; *apo*, from; *phyein*, to grow.) सुषुम्ना प्रवर्धन ।

neuropterous-(Gk. *neuron*, nerve; *petron* wing.) नाड़ी पक्षीय-नाड़ी; (तंत्रिका) पंखीय; ऐसे पंख वाला जिसके पंख पर नाड़ी जाल हो ।

neurosecretory-(Gk. *neuron*, nerve; L. *secer- nere*, to separate.) नाड़ी स्रावक; तंत्रिकास्रावी; ग्रन्थिल नाड़ी कोशिका ।

neuroskeleton-(Gk. *neuron*, nerve; *skeletos*, dried.) अन्तः कंकाल ।

neurosomes-(Gk. *neuron*, nerve; *soma*, body.) नाड़ी कोष्ठ कणांग ।

neurosynapse-(Gk. *neuron*, nerve; *synapsis*, union.) नाड़ी (तंत्रिका) संगम । नाड़ी कोशिकाओं की अन्तिम शाखा पुंजों (terminal arborisations) द्वारा संगम (synapse) ।

neurotendinous-(Ok. *neuron*, nerve; *tendere*, to stretch.) नाड़ी-स्नायुक; नाड़ी और स्नायु सम्बन्धी ।

neurotoxic-तंत्रिकाविषी ।

neurotrophic-(Gk. *neuron*, nerve; *trepein*, to turn.) नाड़ी पोषक; नाड़ी मण्डल को पुष्ट करने करने वाला ।

neurotropism-(Gk. *neuron*, nerve; *trepein*, to turn.) नाड़ी वृत्ति; तंत्रिकानुवर्तन ।

neurula-(Gk. *neuron*, nerve.) नेरुला; पृष्ठदण्डों या कशेरुका की एक वर्धनावस्था; न्यूरुला ।

neuston-(Gk. *neus*, ship.) तल तरणाङ्गी ।

neuter-(L. *neuter*, of neither sex.) नपुंसक; निलिगी ।

neutral-(L. *neuter*; neither) (१) निलिगी; (२) उदासीन (३) निष्प्रभावी ।

neutrophil-(L. *neuter*, neither; Gk. *philein*, to love.) उदासीन श्वेताणु । बहु-प्रष्टिक श्वेताणु ।

newborn-नवजात; तुरन्त या हाल का उत्पन्न ।

nibbler-कुतरने वाला ।

niche-(F. *niche*, from it.) निवास स्थल; निलय ।

nicotinic acid-निकोटिनिक अम्ल; $C_6H_5O_2N$; विटामिन बी कम्प्लेक्स का पी० पी० कारक (P. P. Factor); प्लागरा (pellagra) अवरोधक ।

nictitant-(L. *nictare*, to wink) मीलक; निमिप; पलक झपकने (मारने) वाला ।

nictitating membrane-निमीलक या निमीलिका झिल्ली; निमेषक पटल ।

nidamental-(L. *nidus*, nest.) डिम्बावरणी ग्रंहावरणी ।

nidation-(L. *nidus*, nest.) गर्भ कला परावर्तन; डिम्बनिविष्टता । (१) स्त्रियों के मासिक घर्म के बीच में गर्भाशय स्तर का बदलना । (२) निषिक्त डिम्बों (fertilised ovum) का गर्भाशय श्लेष्म कला (uterine mucous membrane) में निहित या निविष्ट (embedding) होना ।

nidicolous-(L. *nidus*, nest; *colere*, to cultivate.) नीड़ वासी; नीड़-प्रेमी । अण्ड से निकल कर गृह काल तक घोंसले (नीड़) में निवास करने वाला ।

nidifugous-(*nidus*, nest; *fugere*, to flee.) नीड़ त्यागी । अण्ड से निकल कर तुरन्त घोंसले को छोड़ देने वाला ।

nidulus-(L. *dim*, of *nidus*, nest.) नाड़ी उद्गमाण्ड; वह अण्ड (nucleus) जिससे नाड़ी उद्गम या उद्भव होती है ।

nidus-(L. *nidus*, nest.) घोंसला; नीड़ ।

nidus hirudinalis—निडस हिर्बुडीनेलिस; सेरे बिल्म रंघ; निडस एवीज ।

nigrescent—(L. *nigrescer*; to turn black.)
इयामज ।

nipple—(Dim. of A. S. *nib*, for *neb*, nose.)
चूचुक, स्तनाग्र; निपल; स्तन का अगला भाग ।

[देखिये *teat*]

nissl granules—(F. *nissl*, German neurologist.)
निस्ल कण; निस्ल कणिका ।

nisus formativus—(L. *nisus*, effort; *formare*, to form). उत्पादन प्रवृत्ति ।

nitrificatim—(Gk. *nitron*, soda; L. *facere*, to make), वैकटीरिया की क्रिया से अमोनिया का आक्सीकरण—अमोनिया से नाइट्राइट्स (nitrites) और नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स (nitrates) में ।

nitid, nitidous—(L. *nitidus*, shining.) रुचिर; चमकीला; चिकना; मसूण ।

nitrogen—(Gk. *nitron*, soda. *genos*, descent.)
नाइट्रोजन; नैत्रजन :

nitrogenous—(Gk. *nitron*, soda; *genos*, descent,
नाइट्रोजनयुक्त ।

Nitrogen cycle—नाइट्रोजन अणुओं का चक्र; नाइट्रोजन चक्र; मुख्यतः ज्वित द्वारा नाइट्रोजन अणु का परि-संचरण अर्थात् स्वपोषित पादप मिट्टी और जल से अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक मुख्यतः नाइट्रेट्स का अव-शोषण कर कार्बनिक यौगिक बनाते हैं । इनके मृत होकर सड़ने पर या जन्तुओं के खाने पर यह पुनः कार्बनिक यौगिक के रूप में मिट्टी और जल में पहुँच जाता है और वैकटीरिया के प्रभाव से अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाता है । कुछ नाइट्रोजन वायुमण्डल में गैस के रूप में मिल जाता है और यह फिर नाइट्रोजन यौगिकीकरण (nitrogenfixation), वैकटीरिया या नीले हरे शंवाल द्वारा वायुमण्डल से खींच लिया जाता है । यही नाइट्रोजन चक्र होता है ।

nitrophilous—(Gb. *nitron*, soda; *philein*, to love.) नेत्रजन प्रेमी; नेत्रजन-समृद्धि; नाइट्रोरागी; नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में बढ़ने वाला; नाइट्रोजन रागी ।

nitrophyte—(Gk. *nitron*, soda; *phyton*, plant.)
नाइट्रोजन रागी पौधा ।

nociceptive—(L. *nocere*, to hurt; *capeoe*, to take.) तत्सु क्षति ।

noctilucent—(L. *nox*, night; *lux*, light.) नक्तम प्रकाशी; निशादीप्त; रात्रि में चमकने वाला ।

nocturnal—(L. *nox*, night.) रात्रिचर; नैश; नैशिक; नक्तमचर । रात्रि में विचरण या बाहर निकलने वाला ।

nodal—(L. *nodus*, knob.) कांडी; कांड सम्बन्धी; नोडीय ।

node—(L. *nodus*, knob.) गाँठ; पर्व; काण्ड; जोड़; तने (stem) का जोड़ जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं ।

node of Ranvir—रनवीर का पर्व ।

nodose—(L. *nodus*, knob.) गाँठदार, गाँठयुक्त; गन्धिल, गठीला; काण्डी ।

nodule, nodulus—(L. *nodulus*, dim of *nodus*.)
लोष्ट; छोटी गाँठोपम आकृति, ग्रंथिकी ।

noduliferous—(L. *nodus*, knob; *ferre*, to carry.)
लोष्टक; लोष्टी ।

noematic—(Gk. *noema*, thought) चिबुक-प्रवर्धनी;
चिबुक-प्रवर्धन सम्बन्धी ।

noise—(Fr. *noise*, quarrel.) ध्वनि, शब्द; शोर-गुल ।

nomad—(Gk. *nemein*, to drive to pasture.)
स्वतन्त्र; स्थानच्युत; घूमने वाला; घुमकड़; खाना-वदोश; चलवासी; यायावर ।

nomenclature—(L. *nomen*, name; *calare*, to call.) नाम करण; नाम पद्धति; पौधे, जन्तु या अङ्ग आदि को नाम देने की विधि ।

nomenclature, binomial—द्विशब्दी नामकरण ।

nomogenesis—(Gk. *nomos*, law; *genesis*, dcs-cent) वर्धनमत; यह मत कि वर्धन (development) और विकास (evolution), वर्धन के नियमों द्वारा शासित होते हैं, वातावरण से नहीं ।

non-cellular—अकोष्ठीय; कोष्ठ हीन; अकोशिकीय ।

nondiffusible—अशोषणशील; अशोषणी ।

non-disjunction—रंजक-अपृथकता; रंजक पिण्डों का ह्रास विभाजन में (meiosis) अलहदा या पृथक् न हो सकना ।

nonadaptive—अननुकूलनी ।

non-functional—व्यापार हीन; निरर्थक ।

non-granular—अकणी; दनदाने हीन ।
non-lethal dose—अविनाशक मात्रा ।
non-living—जड़; अचेतन; निर्जीव; निष्प्राण
non-medullated, non-myelinated; myelinated, nerve fibres—पिघान हीन नाड़ी (तंत्रिका) सूत्र; असूत्रच्छद ।
non-viable—जीवन अयोग्य; अयोग्यी। जीने के अयोग्य; विधिवत् वृद्धि के अयोग्य; जीवनाक्षम ।
norma—(L. *norma*, rule.) रूख; नोरमा ।
normal—(L. *norma*, rule.) सामान्य; साधारण ।
normolasts—(L. *norma*, rule, Gk. *blastos*, bud) अपरिपक्व लाल रुधिर कणिका; अपरिपक्व लाल रक्ताणु; नोर्मोब्लास्ट;
normocyte—(L. *norma*, rule, Gk. *kytos*, hollow; पूर्ण वद्वित लाल रुधिर कोशिका; पूर्ण वद्वित लाल रक्ताणु ।
nose—(L. *nasus*, nose) नाक; नासिका; नासा; घ्राणेन्द्रिय ।
nosogenic—(Gk. *noso*, disease; *gennacin.* to produce) रोगोत्पादक; रोगाणु ।
nostrils—(A. S. *nostryl*, nostril.) नासारन्ध्र; नासिका बाह्य छिद्र; नथना; नथुने ।
notch—(from *nick*, old form of notch.) दाँता; दर्रा; भंग; कटाव ।
nothocline—(Gk. *nothos*, illegitimate; *klinein* to slant) जारज संकर ।
notochord—(Gk. *noton*, back; *chorde*, cord.) पृष्ठदण्ड; पृष्ठ रज्जु; नोटोकॉर्ड ।
[देखिए *chordadorsalis*]
notochordata, notochordal—(Gk. *noton*, back; *chorde*, cord.) पृष्ठदण्डीय ।
notochordal—(Gk. *noton*, back; *chorde*, cord.) पृष्ठदण्डी ।
notocirrus—(L. *notum*, back; *cirrus*, curl.) पृष्ठानुरोम; पृष्ठतरंग ।
notogenesis—(Gk. *noton*, back; *genesis*, origin.) पृष्ठजनन ।
notonectal—(Gk. *noton*, back; *nektos*, swimming.) आर्वाकी ।
notopodium—(Gk. *noton*, back; *pous*, foot.) नोटोपोडियम; पृष्ठप्रपाद; पृष्ठपाद ।

nototribe—(Gk. *noton*, back, *tribein*, to rub) पृष्ठ वर्ण, ऐसे पुष्प जिनके धुंकेसर और स्त्री केसर उन कीटों की पीठ (पृष्ठ) को छूते हैं जो दल के अन्दर घुसते हैं, ऐसी विधि परनिषेचन हेतु होती है ।
notum—(L. *notum*, back.) नोटम; टरगम; पृष्ठिका; वक्ष पृष्ठक ।
nucellus—(L. dim of *nux*, nut) दूढ़फली; अण्डाशय (ovary) और उसके अन्तः खण्ड के मध्य का मृदूतक (पैरेन्काइमा) ।
nuchal—(L. *nucha*, spinal marrow.) नुकल; कंधरा; (१) मत्था (nape of the neck) । (२) तरुणोपास्थिक-शिरस्कपादी (cephalopoda); कछुओं (chelonian) तथा कुछ उपास्थि मत्स्यों (chondrostei) आदि में ।
nuciferous—(L. *nux*, nut; *ferre*, to carry.) मिगीदार; दूढ़फलघर ।
nucivorous—(L. *nux*, nut; *vorare*, to devour.) मिगी भोजी ।
nuclear—(L. *nucleus*, kernel.) अण्टिक; नाभिक; केन्द्रक; न्यूक्लीयर ।
nuclear disc—अण्टि-विम्ब; केन्द्रक-विम्ब ।
nuclear membrane—अण्टि फिल्ली; अण्टि-आवरण; केन्द्रकीय फिल्ली ।
nuclear plate—अण्टि पट्ट; केन्द्रक पट्ट ।
nuclear spindle—अण्टि तर्कुट; केन्द्रकीय नकु ।
nuclear stain—अण्टि वर्ण; केन्द्रीय वर्ण ।
nuclease—(L. *nucleus*, kernel.) न्यूक्लियस, अण्टि-क्षोभक ।
nucleate—(L. *nucleus* kernel.) अण्टिक केन्द्रक ।
nucleation—(L. *nucleus*, kernel.) अण्टिकरण ।
nucleic—(L. *nucleus*, kernel.) अण्टिज; न्यूक्लीक ।
nucleiform—(L. *nucleus*, kernel; *forma*, shape.) अण्टि-ओपम; अण्टिसम केन्द्रकोपम ।
nuclein—(L. *nucleus*, kernel.) न्यूक्लियेन-अण्टि-रसायन विशेष ।
nucleochylema—(L. *nucleus*, kernel; Gk. *chylos*, juice.) न्यूक्लियस-आधारक ।
nucleohyaloplasm—(L. *nucleus*, kernel; Gk. *hyalos*, glass; *plasma*, mould.) न्यूक्लियस द्रव ।
nucleoid—(L. *nucleus*, kernel; Gk. *eidōs*, form.) अण्टि-ओपम; अण्टिवत्; केन्द्रकीय ।

nucleolar

nucleolar—(L. *nucleus*, kernel.) उपाष्टिक; केन्द्रकीय ।
nucleolar organiser—न्यूक्लियोलस स्रावक; ऐसा कण (granule) या जीन जो न्यूक्लियोलस स्राव को एकत्रित करता है ।

nucleolinus—(Dim. of L. *nucleus*, kernel.) अष्टिकण ।

nucleolo-centrosome—केन्द्रक-तारक काय; ऐसा केन्द्रक पिण्ड (nuclear body) जो तारक-काय (centrosome) की तरह सूची विभाजन (mitosis) में कार्य करता है ।

nucleolus—(L. *nucleolus*, dim of *nucleus*, little kernel.) उपाष्टि; उपकेन्द्रक; न्यूक्लियोलस ।

nucleomicrosome—(L. *nucleus*, kernel; Gk. *mikros*, small; *soma*, body.) अष्टि-पिण्डाणु ।

nucleoplasm—(L. *nucleus*, kernel; Gk. *plasma*, mould.) अष्टि-सत्व ।

nucleoprotein—(L. *nucleus*, kernel; Gk. *protos*, first) न्यूक्लियोप्रोटीन; न्यूक्लियस अम्ल और प्रोटीन का एक यौगिक ।

nucleus—(L. *nucleus*, kernel.) अष्टि; न्यूक्लियस, केन्द्रक ।

nucleus ambiguus—न्यूक्लियस एम्बिग्युयस; मेडुला ओबलोगेता की कोशिकायें जिनसे गति सूत्र उद्भूत होते हैं ।

nucleus pulposus—न्यूक्लियस पल्पसस; मृदुअर्न्तभाग; अन्तरा कनेरुक विम्ब के अन्तर का मृदुल भाग ।

nuculanium—(L. *nucula*, small nut) न्युकुलेनियम; एक प्रकार का सरसफल, जो द्राक्षोराम (grape like) होता है तथा सुपीरियर (उत्तरवर्ती) होता है ।

nudibranchiate—(L. *nudus*, naked; Gk. *branchia*, gills.) अरक्षित गिली; अनावृत गिली; अनावृत-क्लोमी ।

nudicaudate—(L. *nudus*, naked; *cauda*, tail.) अनावृतपुच्छी; नग्नपुच्छी ।

nudicaulous—(L. *nudus*, naked; *caulis* stem) अपर्णी स्तम्भी; नग्न स्तम्भी ।

nudiflorous—(L. *nudus*, naked; *flos*, flower) अरोमपुष्पी; अग्रन्थीय पुष्पी; रोम'या अग्रन्थिहीन पुष्प वाला ।

nulliplex—(L. *nullus*, none; *plexus*, interwoven) लुप्तजाली; प्रभावी हीन; बहु गुणिता में एक विशिष्ट लक्षण में केवल अग्रभावी लक्षण का होना और प्रभावी जीन का न होना ।

nummulation—(L. *nummus*, coin.) कण संघनता ।

nummulitic—(L. *nummus*, coin.) मुद्रोपम ।

nuptial flight—(L. *nuptum*, to marry.) निषेक उड़ान; मैथुनी उड़ान ।

nurse cells—(L. *nutrix*, to nourish.) घाय कोशिका; घात्री कोशिका ।

nurse generation—घाय सन्तति ।

nurture—(M. E. *norture*, nursing.) घायता; पालन-पोषण करना ।

nut—(A. S. *knutu*, nut) १-नट (सूखा फल) यह एक बीजी, बहुअण्डपी, उत्तरवर्ती (सुपीरियर) अण्डाशय से उत्पन्न होता है, इसकी फलमिति कठोर और दृढ़ होती है । उदाहरण—चेस्टनेट; काजू; लीची; मूंड ।

nutant—(L. *nutare*, to nod) अधोनत, अवनम; नमित ।

nutation—(L. *nutare*, to nod) न्यूटेशन; १-वर्धित पादप में अंगों का स्थानान्तरण अथवा वक्रता । २-कूटपाद द्वारा मूंड चक्रगति ।

nutlet—(Dim. of nut) लघुनट; अष्टिल पाषाणवत अन्तः भित्ति ।

nutricism—(L. *nutrix*, nurse.) एक लाम्बी सहजीवन; ऐसा सह जीवन जिसमें केवल एक साथी को ही सारा लाभ होता है ।

nutrition—(L. *nutrix*, nurse.) पोषण; जन्तुओं द्वारा खाद्य का लेना, पचाना तथा शोषण ।

nutritive—(L. *nutrix*, nurse.) पोष्टिक ।

nutritive fluids—पोषक द्रव ।

nyctanthous—(Gk. *nyktos*, nightly; *anthos*, flower) रात्रिपुष्पक ।

nyctinasty—(Gk. *nyktios*, nightly; *nastos*, presed claw) पादप सुप्त गति ।

nyctipelagic—(Gk. *nyktios*, nightly; *pelagos*, sea) रात्रि प्लवक ।

nyctitropism—(Gk. *nyktios*, nightly; *trepein*, to turn) निद्रा अभिवृत्ति; कुछ पर्ण का रात्रि में ऊपर की ओर मुड़ने की वृत्ति ।

nymph—(Gk. *nymphē*, bride) निम्फ; कीट (insects) के जीवन इतिहास (life history) के रूपान्तर (metamorphosis) में प्रौढ़ से पहिले की अवस्थाएँ जिनमें जननांग नहीं बने होते हैं ।

nymphal—(Gk. *nymphē*, chrysalis.) निम्फी; निम्फ सम्बन्धी ।

O

- Oar**—(A. S. *ar*, *oar*.) क्षेपण; चप्पू; अरित्र ।
- oar feathers**—(A. S. *ar*, *oar*.) क्षेपण-पंख; डैने वाले पंख । वह डैने के पंख जो पक्षी की उड़ान में डांड की तरह मदद देते हैं ।
- obclavate**—प्रतिमुद्गर रूपी ।
- ob compressed**—(L. *ob*, towards; *comprimere*, to compress.) लम्ब-रूप संकुचित; प्रति संपीडित ।
- obconical**—प्रतिशंकुरूप; अघोमुख शंकु ।
- obcordate**—(L. *ob*, against; *cor*, heart.) प्रति या अभिहृताकार; अभिहृत्; प्रतिहृदयाकार; अघोमुखहृदयाकार । उलटे या विपर्ययेण (*inversely*) हृदय की शकल (*heart-shaped*) का ।
- obelion**—(Gk. *obelos*, spit.) छिद्रान्तर; छिद्रमध्यस्थल । पैराइटल (*parietal*) मध्य सेवनी (*suture*) के अस्थि छिद्रों के मध्य का स्थान ।
- obese**—मेदुर, स्थूल ।
- obex**—(L. *obex*, obstacle.) ओवेक्स; परिच्छेदक ।
- obimbricate**—(L. *ob*, in the way; *imbrex*, tile.) विलोम तटोपरितटी । उल्टे क्रम से एक दूसरे पर चढ़े हुए शल्क (*scales*) ।
- oblanceolate**—(L. *ob*, reversely; *lancea*, spear.) विलोम प्रासोपम ।
- obligate or obligatory (parasites)**—अविकल्प परजीवी, अपरिहार्य जीवी; अविकल्पी; पूर्ण परजीवी; ऐसे परजीवी जो केवल पोषक (*host*) के सहारे ही जीवित रह पाते हैं । (देखिये उलटा (*opposite*), *facultative*—विकल्प जीवी) ।
- oblique or obliquus**—(L. *obliquus*, bent.) तिरछा; टेढ़ा वक्र; तिर्यक ।
- obliterate**—(L. *ob*, reversely; *litera*, letter.) अस्पष्ट; घुंघला; विलोपन ।
- obovate**—(L. *ob*, against; *ovum*, egg.) प्रति अण्डाकार ।
- obovoid**—(L. *ob*, against; *ovum*, egg; *eidōs*, shape.)—अण्डाकार ।

- obsolescence**—(L. *obsolescere*, to wear out.) विलोपता ।
- obsolete**—(L. *obsolescere*, to wear out.) विलोपी ।
- obtect**—(L. *ob*, in the way; *tectus*, covered.) आवृत्त ।
- observation**—(L. *observare*—*ob*, before; *servare*, to keep.) निरीक्षण; पच्यविक्षण; अवलोकन; प्रेक्षण ।
- obturator**—(L. *obturare*, to close.) सेतुक; गवाक्षी; ओवटूरेटर—गवाक्ष छिद्र (*obturator foramen*) के पास स्थित बनावट ।
- obturator foramen**—गवाक्ष छिद्र; श्रेणिरंध्र ।
- obturator membrane**—गवाक्ष कला; गवाक्ष झिल्ली ।
- obturator tubercle**—गवाक्षबुद ।
- obtusilingual**—(L. *obtundere*, to make blunt; *lingua*, tongue.) लघु जिह्वक । लघु जिह्वी; छोटी जीभ वाला ।
- obumbrate**—(L. *obumbrare*, to overshadow.) अतिव्याप; उपरिलंब; ऐसी आकृति जो अन्य भागों के ऊपर लटकती हुई होती है और जिससे वे आंशिक रूप से छिपे दिखाई देते हैं ।
- obverse**—(L. *obvertese*, to turn round.) आधार का शिखर से पतला होना ।
- obvolute**—(L. *obvolvere*, to wrap round.) तटोपरितटी ।
- obvolvment**—(L. *obvolvment*, to warp round.) न्यंच; नीचे तथा भीतर की ओर मुड़ा हुआ ।
- occipital**—(L. *occiput*, back of head.) ओक्सीपीटल; कपालानुगामी; पश्च कपालांश; अनुकपाल; कपाल के पीछे के भाग का ।
- occipital condyle**—कपालाबुद; कपाल गुम्मत; अनुकपाल अस्थि कंद ।
- occipitalia**—(L. *occiput*, back of head.) पश्च कपालास्थि । वह हड्डियाँ जो कपाल का पीछे का भाग बनाती हैं ।
- occipito-atatantal**—L. *occiput*, back of head; Gk. *Atlas*, atitan.) एटलेन्टो-ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटो-एटलेन्टल; एम्फीत्रिया में प्रथम कशेरु के तंत्रिका ।

occiput

चाप (neural arch) और खोपड़ी के मध्य स्थल को ढकने वाली कला (membrane) ।

occiput—(L. *occiput*, back of head.) ओक्सीपुट; ओक्सीपटल प्रदेश (कपाल का); पश्च कपाल; मस्तिष्क-शिर पृष्ठ ।

occlusion—(L. *occludere*, to shut in.) अतिव्याप सक्रियता ।

occluser—(L. *occludere*, to shut in.) निरोध; निरोधक; रोकने वाला ।

ocellate—(L. *ocellus*, little eye.) नेत्रिकोपम; नेत्रोपम; नेत्रांकित ।

ocellated—(L. *ocellus*, little eye.) नेत्रिकी; नेत्रिका युक्त ।

ocellation—(L. *ocellus*, little eye.) नेत्रिकीय ।

ocelli—(L. *ocellus*, little eye.) नेत्रिका; अक्षिका; आँसिली ।

(१) निम्न जन्तुओं में पाई जाने वाली साधारण आँख ।

(२) कीटों (insects), मत्स्यों (fishes) में चक्षुसम आकृति दिन्ने ।

ochrophore—(Gk. *ochros*, pale yellow; *pherein*, to bear.) पीत कोष्ठ; द्युति कोष्ठ; द्युति कोशिका ।

ocrea—(L. *ocrea*, greave.) आँकिया; प्राण; पर्णवृन्त (petiole) के आघार पर नालाकृति पिधानोपम वितर्तित (expansion) ।

ocreaceous—(L. *ocrea*, greave)—आँकिया सदृश; प्राणोपम ।

ocreate—(L. *ocrea*, greave) आँकिया युक्त; आँकिया-धारी ।

octactine—(Gk. *oktu*, eight; *aktis*, ray.) अष्ट किरण स्पीक्युल । छिद्रदेहियों या स्पंजियों (sponges) के शरीर में अष्ट भुजा वाला दूढ़ा या स्पीक्युल (spicule) ।

octogynous—(Gk. *okta*, eight; *gyne*, woman.) अष्टस्त्रीकेसरी (pistils) ।

octamerous—(Gk. *okta*, eight; *meros*, part.) अष्ट भागी; अष्ट खण्डी; आठ की संख्या में अङ्ग या अङ्गों के भाग वाला ।

octandrous—(Gk. *okta*, eight; *aner*, man) अष्ट पुंकेसरी (stamens) ।

octant—(L. *octa*, eight.) अष्टांगिकी; द्विम्ब विभाजन के अष्ट कोशिकाओं में से एक कोशिका ।

octopetalous—(Gk. *okta*, eight; *petalon*; leaf.) अष्टदली (petals) ।

octopod—(Gk. *okta*, eight; *pous*, foot.) अष्टपादी; आठ पैर (foot) वाला ।

octoradiate—(L. *octo*, eight; *radius*, spoke.) अष्ट किरणी ।

octosepalous—(L. *octo*, eight; F. *sepale*, seed.) अष्ट बाह्यदली (sepals) ।

octosporous—(Gk. *okta*, eight; *sporos*, seed.) अष्ट स्पोरक; अष्ट बीजाणुक ।

octostichous—(Gk. *okta*, eight; *stichos*, row.) अष्ट पंक्तिक ।

octozoic—(Gk. *okta*, eight; *zoon*, animal) अष्ट स्पोराणुक ।

ocular—(L. *oculus*, eye.) नेत्रीय; चक्षुक; प्रत्यक्ष; नेत्र सम्बन्धी; आँख का ।

ocular lobe—नेत्रीय दल ।

oculate—(L. *oculus*, eye.) नेत्रीय; नेत्रयुक्त; आँख वाला ।

oculiferous, oculigerous—(L. *oculus*, eye; *ferre*, gerere, to carry.) नेत्रधारी; आँखों वाला ।

oculofrontal—(L. *oculus*, eye; *frons*, forehead.) चक्षु मस्तिष्कीय (चक्षु-तलाट) प्रदेश ।

oculomotor—(L. *oculus*, eye; *movere*, to move.) चक्षु गोलक नाड़ी; चक्षु चालक ।

oculonasal—(L. *oculus*, eye; *nasus*, nose.) चक्षु-नासा; चक्षु नासिका सम्बन्धी ।

oculus—(L. *oculus*, eye.) अक्षि; नयन ।

oddi's sphincter—(R. *oddi*, Italian anatomist.) ओडीस स्फिन्क्टर; पित्तनलिका छिद्रावरोधक पेशी ।

odontoblast—(Gk. *odous*, tooth; *blastos*; bud.) डेन्टीनोत्पादक; दन्तोत्पादक कोष्ठ ।

odontoclast—(Gk. *odous*, tooth; *klan*, to break.) दन्त मूल शोषणी; दन्त नाशक ।

odontogeny—(Gk. *odous*, teeth; *genos*, offspring.) दन्त जनन; दाँत का उद्गम (origin) तथा वर्धन (development) ।

odontoid

odontoid—(Gk. *odous*, tooth; *eidos*, form.)
दन्तोपम; दाँत सदृश ।

odontoid process—(Gk. *odous*, tooth; *eidos*, form.) ओडनटोइड प्रवर्धन; द्वितीय कशेरु के केन्द्रक का प्रवर्धन जिसके सहारे प्रथम कशेरु (Atlas) घूमता है ।

odontology—(Gk. *odous*, tooth; *logos*, discourse.) दन्त शास्त्र; दन्त विज्ञान ।

odontophore—(Gk. *odous*, tooth; *pherein*, to carry.) दन्तधारी ।

odontoplast—(Gk. *odous*, tooth; *plastos*, moulded.) दन्तोत्पादक कोष्ठ ।

odontostomatous—(Gk. *odous*, tooth; *stoma*, mouth.) दन्तमुखी; दाँत युक्त जबड़े वाला ।

odoriphore—(L. *odor*, smell; Gk. *pherein*, to carry.) गंधधारी अणु ।

oecoid—(Gk. *oikos*, house; *eidos*, form.) रक्त-कणाघार ।

oecology—(Gk. *oikos*, house; *logos*, discourse.) परिस्थितिकी; जीव परिस्थिति विज्ञान ।

oecotrophobiosis—(Gk. *oikos*, household; *trophe* food; *biosis*, a living.) इतरतरभरण (पोषण) [देखिये—Trophallaxis] ।

oedematin—(Gk. *oidema*, swelling.) स्फीताणु; अष्टि (nucleus) के आधारक (ground substance) के अणुपिण्ड या स्फीताणु (microsomes) ।

oenocyte—(Gk. *oinos*, wine; *kytos* hollow) पृथुल कोशिका; कीटों (insects) में वायु नलिका (trachea) तथा स्नेह पिण्ड को घेरे हुए गुच्छों में से एक बड़ी कोशिका ।

oenocytoid—(Gk. *oinos*, wine; *kytos*, hollow; *eidos*, form.) निस्तल कोशिका; कीटों (insects) के हीमोफिल (haemophil) की एक वृत्ताकार (rounded) अम्लयुक्त (acidophil) श्वेताणु कोशिका (leucocyte) ।

oesophageal—(Gk. *oisophagos*, gullet.) ग्रसिका; निगर—; निगर निगलाशय ।

oesophagus—(Gk. *oisphagos*, gullet.) ग्रास नली; निगर; निगलक; पाचन नली में गले और आमाशय के मध्य की नलिका ।

oestradiol—(Gk. *oistros*, gadfly, *dislor*, together) आस्ट्राडियोल; एस्ट्रैडाइमॉल; ग्रंथाशय हार्मोन; $C_{18}H_{24}O_2$

oestrin—प्रॉस्ट्रिन; एस्ट्रोन; $C_{18}H_{24}O_2$; आस्ट्रिन और एस्ट्रोन एक ही हार्मोन माने जाते हैं—पुटक (follicular) द्वारा यह मदोत्पादक (आँइस्ट्रोजन) हार्मोन स्रावित किया जाता है ।

oestrogen—(Gk. *oistros*, gadfly; *genos*, offspring.) मदोत्पादक; एस्ट्रोजन एक उद्दीपक रस । एक रसायन जो मादा लैङ्गिक अंगों में उसी समान परिवर्तन उत्पन्न कर देता है जैसे कि कशेरुक डिम्बाशय से उत्पन्न प्राकृतिक आस्ट्राडियोल (oestradiol) हार्मोन से उत्पन्न होते हैं । आस्ट्राडियोल हार्मोन एक स्टेरॉयड (steroid) होता है और मादा उत्पादक तन्त्र की वृद्धि और कार्य को प्रभावित करता है । इसी से मादा के गौण लैङ्गिक लक्षण भी वर्द्धित होते हैं । यह रसायन कम मात्रा में एड्रीनल बल्क (adrenal cortex) और वृषण (testis) से भी उत्पन्न होता है । मंश्लेषित एस्ट्रोजन (oestrogens) अनिवार्य रूप से स्टेरॉयड (steroid) नहीं होते हैं ।

oestrogenic—(Gk. *oistros* (gadfly; *genmaein*, to produce.) मद-प्रोत्साहक; मद को प्रोत्साहन देने वाली ।

oestrual—(Gk. *oistros*, gadfly.) मदीय; मद सम्बन्धी; कामोन्माद ।

oestrus—(Gk. *oistros*, gadfly.) (पशुओं का) मद; मैथुन (सम्भोग की इच्छा); स्यतिक; मद चक्र ।

[A crow in heat वृष स्यंती]

oestrous (estrous) cycle—मद चक्र (वृत्त); कई स्तनी प्रजातियों (species of mammal) में गर्भ की अनुपस्थिति में पाया जाने वाला उत्पादन चक्र । यह प्रजाति के अनुसार पाँच से साठ दिन के बाद लैंगिकता परिपक्व मादाओं में आता है । कुछ में केवल प्रजनन काल में ही यह चक्र आता है । प्रत्येक चक्र केवल एक या दो दिन का होता है और इसी समय मादा नर से सम्भोग करती है । यह चक्र अण्डोत्सर्ग (ovulation) के साथ ही घटित होता है । इससे पूर्व और पश्चात् गर्भाशय में भी कई परिवर्तन होते हैं जो गर्भ धारण हेतु उसमें आते हैं । समस्त परिवर्तन हार्मोन से नियंत्रित होते हैं । मद चक्र की विभिन्न स्थितियों की रूपरेखा निम्न होती है :—

- (i) पुटक (follicular)—इसमें डिम्बाशय के ग्रैफियन फोल्किल्स (Graafian follicles) की वृद्धि होती है। गर्भाशय अंतः स्तर (endometriumi) में वृद्धि, जिससे एस्ट्रोजन (oestrogen) हार्मोन भी अधिक स्रावित होता है।
- (ii) अण्डोत्सर्ग (ovulatoin)—सम्भोग प्रतिवर्त (reflex) के आ जाने से।
- (iii) पीत पिण्ड (luteal)—अण्डाशय में कार्पस ल्यूटियम (corpus luteum) के निर्माण से—जिससे प्रोजेस्ट्रोन का स्तर अधिक और एस्ट्रोजन का कम हो जाता है।
- (iv) पीत पिण्ड का ह्रास, जिससे पुटक वृद्धि पुनः प्रारम्भ हो जाती है। यदि गर्भाधान हो जाता है तो चक्र यहीं समाप्त हो जाता है। यदि गर्भ स्थापित नहीं होता है तो पुनः यह चक्र प्रारम्भ हो जाता है। कुछ प्रजातियों में यह चक्र जनन काल में केवल एक बार ही आता है। यह चक्र पिट्यूटरी ग्रन्थि द्वारा स्रावित जननभ्रंथि प्रेरक (gonadotrophic) हार्मोन के कारण आती है जिससे अण्डाशय के परिवर्तन नियन्त्रित होते हैं और ये डिम्बाशय के परिवर्तन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन के उत्पादन को नियन्त्रित करते हैं जिनके कारण यह चक्र आता है।
- offset—प्ररोहक; भूस्तरिका; क्षैतिज विस्थापन।
- offshoot—शाखा या उपशाखा; प्रशाखा।
- offspring—सन्तान।
- oike—(Gk. *oikein*, to have as one's abode.) निवास स्थल।
- oikesis—(Gk. *oiksis*, act of dwelling.) प्रवसन; अङ्गी (organism) का नवीन स्थान में संस्थापन या वसना।
- oikoplast—(Gk. *oikos*, house; *plastos*, moulded.) गारकोष्ठ; परिशिष्टी या अपेण्डी क्यूलेरियन (apendicularian) की बहिजन (ectoderm) कोशिकाओं (cells) में से एक बड़ी कोशिका जिससे जिलेटिन स्तर निर्मित होता है।
- oikosite—(Gk. *oikos*, house; *sitos*, food.) स्थिर परजीवी या सहजीवी।
- oil gland—तैल ग्रन्थि; पुच्छ पृष्ठीय ग्रन्थि। पक्षियों में दुम के निचले सिरे या छोर पर स्थित, जिसके द्रव या तेल से पक्षी अपने पंख चिकने करता है।
- oleaginous—(L. *olea* oil.) तैलोत्पादक; तेल उत्पादन करने वाला या तेल युक्त।
- olecranon—(Gk. *olekranon*, point of elbow.) अँगूली-कैनान; कुहनी; कूर्पर। अलना अस्थि (ulna) के ऊपरी सिरे पर एक बड़ा प्रवर्धन।
- olecranon fossa—कूर्पर या अँगूली कैनान खात; कफोणि खात।
- olecranon process—कूर्पर या अँगूली-कैनान प्रवर्धन; कफोणि प्रवर्ध।
- oleiferous—(L. *oleum*, oil; *ferre*, to carry.) तैलोत्पादक; तेल युक्त; तेल धारण करने वाला या उत्पन्न करने वाला।
- olein—(L. *olhum*, oil.) ओलीन; ओलिइन; तरल स्नेह पदार्थ जो साधारण ताप पर द्रव (liquid) ही रहता है।
- olfactory—(L. *olere*, to smell; *facere*, to make.) घ्राण; घ्राण सम्बन्धी।
- olfactory area—घ्राण क्षेत्र।
- olfactory bulb—घ्राण कन्द।
- olfactory capsule—घ्राण कोष।
- olfactory cells—घ्राण कोशिकायें।
- olfactory centre—घ्राण केन्द्र।
- olfactory hairs—घ्राण रोम (लोम)।
- olfactory lobe—घ्राण दल, घ्राण पालि।
- olfactory nerve—घ्राण नाड़ी; घ्राण तंत्रिका।
- olfactory organs—घ्राणेन्द्रिय।
- olfactory pit—घ्राण गर्त।
- olfactory plate—घ्राण पट्ट।
- olfactory sulcus—घ्राण सीता।
- olfactory tract—घ्राण प्रदेश; घ्राण पथ।
- oligocanthous—(Gk. *oligos*, few; [*akaniha*, spine.] ऊन कण्टकी।
- oligandrous—(Gk. *oligos*, few, *aner*, man) अल्प पुंकेसरी; ऊन पुंकेसरी।
- oligocarpous—(Gk. *oligos*, few; *karpous*, fruit) ऊन अंडपी; अल्प अंडपी (carpels)।
- oligocene—(Gk. *oligos*, few; *karpos*, fruit.)

ऊन-नव काल; अधिनूतन; ओलीगोसीन; अल्प नूतन
आधुनिक (जन्तु) काल (epoch) का एक काल। नवोदय
या इओसीन (eocene) और नव या मायोसीन (mio-
cene) काल के बीच का काल विशेष।

oligodendroglia—(Gk. *oligos*, few; *dendron*,
tree.) माध्य श्लैष्म द्रुमक। ऊन श्लैष्म द्रुमक।

oligodynamic—(Gk. *oligos*, few; *dynamic*,
power.) ऊन बली।

oligogene—(Gk. *oligos*, few; *gene*, descent.)
ऊन जीन या ऊन परम्परा कण; अल्पजीन।

oligogenic—Gk. *oligos*, few; *gene*, descent.) ऊन
जीनो पादक; ऊन जीन नियन्त्रित; अल्पजीनी।

oligoglia—(Gk. *oligos*, few; *glia*, glue.) माध्य-
श्लैष्म; ऊन श्लैष्म

oligomeric—(Gk. *oligos*, few; *meros*, part.)
ऊन-खण्डी; अल्प भागी; अल्पतयी।

oligonephrous—(Gk. *oligos*, few; *nephros*,
kidne.) ऊनोत्सर्गाङ्गी।

oligophagous—(Gk. *oligos*, few; *phagein*, to
eat.) मित्तहारी; अल्प भक्षी।

[देखिये monophagous एकाहारी]

oligophyletic—(Gk. *oligos*, few; *phyle*, tribe.)
ऊनवंशोद्भवी।

oligopod—(Gk. *oligos*, few; *pous*, foot,) ऊनपादी;
मित्तपादी।

oligopyrene—(Gk. *oligos*, few; *pyren*, fruits-
tone.) ऊन परम्परा सूत्री; मित्त सूत्रक। ऐसे वीर्याणु
(sperms) जिनमें परम्परा सूत्रों (chromosomes) की
संख्या कम होती है।

oligospermous—(Gk. *oligos*, few; *sperma* seed,
ऊनवीर्याणुक; अल्प बीजी; ऐसे जन्तु जिनमें वीर्याणुओं
(sperms) की संख्या कम होती है।

oligostemonous—(Gk. *oligos*, few; *sterun*,
thread) ऊनपुकेसरी।

[देखिये oligandrous]

oligotaxy—(Gk. *oligos*, few; *taxis*, arrange-
ment.) ऊन-न्यास; ऊन चक्रक।

oligotokous—(Gk. *oligos*, few; *tokos*, offspring.)

ऊनप्रसूतक; ऊनटोकस; कम बच्चे देने वाला; अल्प-
प्रजक।

oligotropic—(Gk. *oligos*, few; *trophe*, nourish-
ment.) ऊन पुष्टक; अल्पपोषी; मित्तपोषणी।

oliva, olive—(L. *oliva*, olive.) ओलाइवा; उत्तङ्ग;
स्तनियों (mammals) के मस्तिष्क में पोंस (pons) के
नीचे स्थित उत्तङ्ग (prominence)।

olivary—(L. *oliva*, olive.) उत्तङ्गी; वतुलिका;
उत्तङ्ग सम्बन्धी।

omasum—(L. *omasum*, paunch.) ओमासम; आमा-
शय तृतीय कोष; रोमन्थशाली (ruminants) के आमा-
शय (stomach) का तृतीय कोष (उप जठर)।

[देखिये Psalterium—ओमासम]

ombrophil—(Gk. *ombros*, rain; *philein*, to love.)
वर्षारोगी।

omental—(L. *omentum*, fold.) उदरास्तरी।

omentum—(L. *omentum*, fold.) ओमेन्टम; वपा;
उदरास्तर भाँज; दैहिक अङ्गों (viscera) को बाँधे हुए
एक भाँज (fold)।

ommateum—(Gk. *omma*, eye.) यौगिक नेत्र।

ommatidium—(Gk. *omma*, eye; *idion*, dim.) उप-
नेत्रिका; नेत्रांशक।

ommatoids—(Gk. *omma*, eye; *eidos*, form.)
नेत्रिकोपम। पेडीपेलपाई (pedipalpi) के अन्तिम
उदरीय खण्ड पर स्थिति दो या चार हल्के रंग की चिन्हित
आकृतियाँ, जिनका कार्य विवादास्पद है।

ommatophore—(Gk. *omma*, eye; *pherein*, to
bear.) उपनेत्रिका धारी।

omnicolous—(C. *omnis*, all; *colere*, to dwell.)
सर्वत्र वासी; सर्ववासी।

omnivorous—(L. *omnis*, all; *vorare*, to devour.)
सर्वभक्षी; सर्वाहारी; ऐसा जन्तु जो जन्तु और वनस्पतिक
तत्त्वों दोनों का ही सेवन करने वाला हो।

omohyoid—(Gk. *omos*, shoulder; *hyoedes*,
Y-shaped.) ओमोहाइड; मांस पेशी विशेष; अंस-
कंठिनी।

omoideum—(Gk. *omos*, shoulder; *eidos*, shape.)
ओमोइडियम; पक्षी कपाल की टेरीगोइड (pterygoid)
हड्डी।

omosternum

omosternum—(Gk. *amos*, shoulder; *sternon*, breast.) ओमोस्टर्नम; अग्रउरोस्थि; द्विधावासी (amphibian) की स्कन्धास्थि (shoulder bone) का अग्र टुक (anterior element)

omphalic—(Gk. *omphalos*, navel.) नाभीय; नाभि सम्बन्धी ।

omphaloid—(Gk. *omphalos*, navel; *eidos*, like.) नाभिवत्; नाभि युक्त ।

omphaloidium—(Gk. *omphalos*, navel; *idim*, dim.) नाभिका अंक; नाभिका किण; बीज की नाभिका (bilum) पर किण या अंक (scar) ।

omphalomesenteric—(Gk. *omphalos*, navel; *mesenteron*, midgut) नाभि-अन्त्रयुज सम्बन्धी ।

onchosphere—(Gk. *ohgkos*, hook; *sphaira* globe.) ओनकोस्फीयर; अर्भक विशेष; गोलोकुश ।

ontocycle—(Gk. *on*, being; *kyklos*; circle.) सत्व विकास; अनरूप विकास; ऐसा विकास, जिसमें प्रथम स्थितियाँ (early stages) पूर्ण रूप से बाद की स्थितियों (later stage) के अनुरूप होती है ।

ontogenesis, ontogeny—(Gk. *on* being; *genesis*, descent.) व्यक्ति वर्धन विकास; व्यक्तित्व; व्यक्ति विकास विज्ञान; व्यक्ति विकास । व्यक्ति का जीवन इतिहास (देखिये, उल्टा phylogeny—जाति विकास विज्ञान) ।

ontogenetic—(Gk. *on*, being; *genesis*, descent.) व्यक्ति विकास सम्बन्धी; व्यक्ति वृत्तीय; व्यक्ति के जीवन इतिहास सम्बन्धी ।

onychium—(Gk. *onyx*, nail.) अघ: नख पर्त; नाखूनों (नख) के नीचे का स्तर या पर्त ।

onychegenic—(Gk. *onyx*, nail; *genos*, offspring.) नखोत्पादक ।

onychophora—ओनाईकोफोरा; नखधारी; नखी ।

ooapogamy—(Gk. *oon*, egg; *apo*, away; *gamos*, marriage.) अनिवेक परिणय ।

ooblastema—(Gk. *oon*, egg; *blastos*, bud.) निषिद्ध डिम्ब । गर्भाधान के बाद का अण्डा ।

oocarp—(Gk. *oon*, egg; *karpos*, fruit.) निषिक्त डिम्ब कोशिका ।

oocyst—(Gk. *oon*, egg; *kystis*, bladder.) डिम्ब सिस्ट; डिम्ब स्योति; युग्मदण्ड; संयुग्मी (conjugating) जन्युओं (gametes) को घेरे हुए सिस्ट या स्योति (cyst) ।

oocyte—(Gk. *oon*, egg; *kytos*, hollow.) पूर्व डिम्ब कोशिका; अंडक; प्रथम लोपिका (first polar body) के पृथक् होने से पूर्व का डिम्ब ।

oocytin—(Gk. *oon*, egg; *kytos*, hollow) वीर्याणु कषाय; वीर्याणुओं (sperms) से निकला हुआ रस, जिसमें उसी जाति के डिम्बों को निषिक्त करने की क्षमता होती है ।

ooecium—(Gk. *oon*, egg; *oikos*, house.) डिम्ब-कोषिका ।

oogamete—(Gk. *oon*, egg; *gamos*, marriage.) मादा जन्यु ।

oogamous—(Gk. *oon*, egg; *gamos*, marriage.) विषम जन्यु ।

oogamy—(Gk. egg; *gamos*, marriage.) विषम जन्युता; विषम युग्मकता ।

oogenesis—(Gk. *oon*, egg; *genesis*, descent.) डिम्बोत्पादन; डिम्ब जनन; डिम्ब परिपक्वता; अण्ड, जनन ।

oogloea—(Gk. *oon*, egg; *gloia*, glue.) डिम्ब श्लेष ।

oogonial—(Gk. *oon*, egg; *gonos*, descent.) आद्यडिम्ब कोष्ठी; डिम्बपूर्वक-कोष्ठीय; डिम्ब मातृ कोष्ठी ।

oogonium—(Gk. *oon*, egg; *gonos*, offspring.) युगोनियम; डिम्ब मातृ कोष्ठ; डिम्ब पूर्वज कोशिका; आद्य डिम्ब कोशिका; अंडधानी; अंडजननी ।

ooid—(Gk. *oon*, egg; *eidos*, form.) अण्डोपम; अण्डाकार; अण्ड की आकृति का ।

ookinesis—(Gk. *oon*, egg; *kinein*, to move.) डिम्ब विभाजन ।

ookinete—(Gk. *oon*, egg; *kinein*, to move.) कृमिकाणु; ऊकेनाइट ।

oolemma—(Gk. *oon*, egg; *lemma*, husk.) (१) डिम्बात्मकला । (२) विषद मण्डल (zona pellucida) ।

- oology**—(Gk. *oon*, egg; *logos*, discourse.) अण्ड विज्ञान; डिम्ब-विज्ञान ।
- oophore**—(Gk. *oon*, egg; *pherein*, to bear,) डिम्ब कोष (ग्रन्थि); डिम्बवाहारी ।
- oophoridium**—(Gk. *oon*, egg; *pherein*, to bear; *idion*, dim.) गुरुवीजाणुधानी ।
- oophyte**—(Gk. *oon*, egg; *phyton*, plant) ऊफाइट; अंडोद्भिद; युग्मकोद्भिद ।
- (१) लिवखनटस (liverworts) जैसे पौधों में लैंगिक संतति;
- (२) युग्मकोद्भिद (gametophyte) ।
- ooplasin**—(Gk. *oon*, egg; *plasma*, mould.) डिम्ब सत्व ।
- oopod**—(Gk. *oon*, egg; *pous*, foot.) अण्ड स्वापकांश; दंशांश ।
- ooporphyrin**—(Gk. *oon*, egg; *porphyra*, purple.) ऊपोरेफिरिन; पक्षियों के अंडकवच (egg shell) का वर्णक (pigment) ।
- oosome**—(Gk. *oon*, egg; *soma*, body.) डिम्ब पिण्ड; डिम्बध्रुवी पिण्ड ।
- oosperm**—(Gk. *oon*, egg; *sperma*, seed.) निषिक्त डिम्ब; भ्रूण कोष्ठ; निषिक्तांड ।
- oosphere**—(Gk. *oon*, egg; *sphaira*, globe.) अनिषिक्त डिम्ब; मादा जन्तु; निषेक से पूर्व डिम्ब, अंड; अंडगोल ।
- oospore**—(Gk. *oon*, egg; *sporos*, seed.) निषिक्त डिम्ब कोशिका ।
- oostegite**—(Gk. *oon*, egg; *stegē*, roof.) डिम्ब कुटल; अंडपात्र; अंडछाद ।
- oostegopod**—(Gk. *oon*, egg; *stegē*, roof.) डिम्ब कुटलपाद; अंडछादप्रद ।
- ootheca**—(Gk. *oon*, egg; *theke*, case.) डिम्ब-पिटिका; अंडकवच; कीटों (insects) में अण्डों का कवच या पिटिका ।
- ootid**—(Gk. *oon*, egg; *idion*, dim.) डिम्बांशी ।
- ootocoid**—(Gk. *oon*, egg; *tokos*, offspring; *oidos*, form.) अण्डोपम शिशु (भ्रूण) ।
- ootocous**—(Gk. *oon*, egg; *tokos*, offspring.) अण्डज; अण्डे देने वाला ।
- ootype**—(Gk. *oon*, egg; *type*, place.) ल्टाइप; संगमा वृत्ति । डिम्ब प्रणाली का वह भाग जहाँ कर्पर (shell) तथा डिम्ब (yolk) ग्रन्थियों (glands) की नलिकाओं (ducts) का संगम होता है ।
- ooze**—(A. S. *wos*, juice,) चुन; ऊज; निषेक ।
- oozoite**—(Gk. *oon*, egg; *zoon*, animal) अण्डजीव; ट्यूनीकेटस (tunicates) में, नितिनी पितृ (asexual parents) ।
- oozoid**—(Gk. *oon*, egg; *zoon*, animal; *oidos*, from.) अण्डज; अण्डे से बना हुआ प्राणी; अंडजीवक ।
- opaque**—(L. *opacns*, dark.) अपारदर्शक; अपारदर्शी; अपार्षं पारान्ध ।
- opercular**—(L. *operculum*, lid.) प्रच्छदी; गिलावरणी; छदी ।
- operculate**—(L. *operculum*, lid.) छत्र; छदी छत्र युक्त; प्रच्छदी ।
- operculiform**—(L. *operculum*, lid; *fōrma*, shape.) छदोपम ।
- operculigenous**—(L. *operculum*, lid; Gk. *genos*, offspring.) छदज ।
- operculum**—(L. *operculum*, lid.) प्रच्छद; गिलावरण; छद; आच्छद; गिल छद् । मत्स्यों (fishes) का छद् (cover); कुछ पक्षियों (birds) के नयुने (nostrils) और कानों (ears) को ढकने वाला चपटा ढक्कन; मास कैप्सूल (mass capsule) का ढक्कन ।
- opesia**—(Gk. *ope*, hole) कला छिद्र; पोतीजोमा में मुखद्वार के नीचे कला छिद्र ।
- ophiocephalous**—(Gk. *ophis*, serpent; *kephale*, head.) सृपशिरस्क (प्रभंक विशेष); सर्पशीर्ष ।
- ophiopluteus**—(Gk. *ophis*, serpent; L. *pluteus*, shed.) ओफियोप्लूटियस; अहितूमोप्लूटियस (प्रभंक विशेष) ।
- ophiuroid**—(Gk. *ophis*, serpent; *oura*, tail; *oidos*, form.) अहितूमौ ।
- ophryon**—(Gk. *ophrys*, brow.) सन्पितट; जानन-मस्तिष्क सन्धि तट ।

ophthalmic

- ophthalmic**—(Gk. *ophthalmos*, eye.) चक्षु; चाक्षुष; नेत्र सम्बन्धी; नेत्र ।
- opisthaptor**— (Gk. *opisthe*, behind; *haptain*, to fasten, पश्च स्थिरक; ट्रिमेटोडा (Trematoda) में पश्च चूषक या विम्ब ।
- opisthion**—(Gk. *opisthe*, behind.) ओपिसथियोन; महा छिद्र (foramen magnum) के पश्च तट का मध्य बिन्दु ।
- ophidian**—(Gk. *ophidion*, dim, of *ophis*, a serpent.) सृषी; सर्प वर्ग; सर्प-सम्बन्धी; ओफीडियम ।
- ophiology**—(Gk. *ophis*, serpent; *logos*, discourse.) सर्प विज्ञान ।
- ophiophagous**—(Gk. *ophis*, serpent; *phagein*, to eat.) सर्प भोजी; सर्पाहारी ।
- ophite**—(Gk. *ophis*, serpent.) सर्पाकार ।
- opisthocoelous**—(Gk. *opisthe*, behind; *koilos*, hollow.) पश्चगत घारी; पश्चगर्ती । ऐसे कशेरू (vertebrate) जिनके केन्द्रक (centrum) पीछे की ओर गत युक्त या पुटाकार (concave) होते हैं ।
- opisthodontic**—(Gk. *opisthe*, behind; *detos*, bound.) पश्च वंधी; पश्चस्थ ।
- opisthoglossal**—(Gk. *opssthe*; behind; *glossa*, tongue.) पश्च मुक्त जिह्वी । ऐसे जन्तु, जिनकी जीभ पीछे से स्वतन्त्र तथा सामने से जुड़ी रहती है ।
- opisthognathous**—(Gk. *opisthe*, behind; *ganthos*, jaw.) अपक्रम हान्वी; पीछे की ओर घूमे हुए जबड़े वाला ।
- opisthonephros**—(Gk. *opisthe*, behind; *nephros*, kidney.) भ्रूण वृक्क । मध्य या अन्त उत्सर्गीय (meso and metanephric tubules) युक्त भ्रूण का विसर्जन अंग ।
- opisthosoma**—(Gk. *opisthe*, behind; *soma*, body.) पश्च-प्रदेश (देह); अनुकाय; दैहिक पश्चपिण्ड ।
- opisthotic**—(Gk. *opisthe*, behind; *ous*, ear.) पश्चकर्णास्थि; पश्च कर्णक; कर्ण पश्चिक ।
- opisthure**—(Gk. *opisthe*, behind; *oura*, tail.) पश्च वर्धन; कशेरू दण्ड का पिछला निकला हुआ भाग ।
- opponens**—(L. *opponere*, to oppose.) ओपोन्यूस; पत संयुज पेशी ।

- opposite**—(L. *opponere*, to oppose.) अभिमुख; सम्मुख; विरुद्ध; विपरीत; प्रतिगामी; सामने का ।
- opsonic**—(Gk. *opsonein*, to cater.) ऑप्सोनिक; वैक्टीरिया भक्षक; ऑप्सोनिनीय ।
- opsonin**—(Gk. *opsonein*, to cater.) ऑप्सोनिन; वैक्टीरिया नाशक । रुधिर का वह मौलिक अंश (constituent) जो भक्षक कोशिकाओं (phagocytes) को वैक्टीरिया विनाश करने में सहायता देता है ।
- optic**—(Gk. *opsis*, sight.) चाक्षुपी; नेत्रीय; नेत्र सम्बन्धी; दृष्टि सम्बन्धी; दृष्टिक; अक्षि; चाक्षुष ।
- optic disc**—दृक्त्रिका की प्रवेश का क्षेत्र; अन्व बिन्दु ।
- optic lobes**—दृक्पालिकायें; पिंड-युगल (corpora bigemina) ।
- optic nerve**—नेत्र नाड़ी; नेत्र तंत्रिका; दृक्त्रिका ।
- optic rod**—दृक्शलाका (rhabdome) ।
- optical**—(Gk. *opsis*, sight.) चाक्षुष; आंख का; दृष्टि सम्बन्धी; चाक्षुषीय ।
- optical lobe**—(Gk. *opsis*, sight.) चाक्षुष; आंख का; दृष्टि सम्बन्धी चाक्षुषीय ।
- optical lobe**—(Gk. *opsis*, sight.) दृष्टि-दल; दृष्टि पिण्ड; अक्षि पिण्ड; मस्तिष्क का वह दल या पिण्ड (lobe) जो नेत्रों से सम्बन्धित रहता है ।
- optociliary**—(Gk. *opsis*, sight; L. *colia*, eye-lash) चाक्षुष-पक्षयाभिकी तंत्रिका ।
- opticon**—(Gk. *opsis*, sight) आपटीकॉन; कीटों में पिंड-युगल का आन्तरिक क्षेत्र (मण्डल) ।
- optocopyllary**—(Gk. *opsis*, sight; L. *pupilla*, pupil of eye) चाक्षुष-तारा तंत्रिका ।
- optimum**—(L. *optimus*, best.) अत्यधिक; इष्टतम; अनुकूलतम ।
- optocoel**—(Gk. *opsis*, sight; *koilos*, hollow.) चाक्षुष-विवर दृक्निलय; मस्तिष्क के चाक्षुष (optical) दलों (lobes) का विवर (coel) ।
- optogram**—(Gk. *opsis*, sight; *graphein*, to write.) दृष्टि चित्र । आंख के रेटीना—दृष्टि पटल (retina) पर (प्रकाश किरण द्वारा) प्रतिबिम्बित या अङ्कित चित्र ।
- ora serrata**—तरंग तट; रेटीना (retina) का वह तरंग तट जहाँ तंत्रिका तन्तु नहीं होते हैं ।
- oral**—(L. *os*, mouth.) मौखिकी; मौखिक; मुख; मुँह सम्बन्धी; मुखीय ।

oral arm—मुख भुजा; मुख बाहु ।

oral region—मुख प्रदेश ।

orbicularis—(Gk. *orbis*, orb) अरवीक्यूलर;
१—गोलकार पर्ण २—वर्तुल पेशी (चक्षु) ।

orbicularis—(L. *orbis*, orb) वर्तुल पेशी (किसी द्वार
या छिद्र को घेरे हुए) ।

orbiculate—(L. *orbis*, orb.) वर्तुली ।

orbit—(L. *orbita*, circuit.) नेत्र गुहा; आँख का गढ़ा;
अक्षिकूप; कपाल का वह अस्थि कुहर जिसमें आँख स्थित
रहती है ।

orbital—(L. *orbita*, circu't.) अक्षिक; अक्षि; नेत्र
कोटर; नेत्रख ।

orbital fossa—अक्षि खात ।

orbitomalar—(L. *orbita*, circuit; *mala*, cheek.)
अक्षि-कपोलीय; अक्षि कपोल सम्बन्धी;

orbitonasal—(L. *orbito*, circuit; *nasus*, nose.)
अक्षि-नेसल ।

orbitosphenoid—(L. *orbita*, circuit; Gk. *sphen*,
wedge; *eidos*, form) ओरबीटोस्फीनोइड—युगल कपा-
लास्थि-पैरास्फीनोइड और फ्रन्टल अस्थियों के मध्य में ।

orchitic—(Gk. *orchis*, *testis*.) वीर्य-कोषीय ।

orchotomy—(Gk. *orchis*, *testis*.) वधिया करना;
वीर्याणु नलिका कर्तन ।

order—(L. *orda*, order) ऑर्डर; गण, वर्गीकरण
(classification) में घनिष्ठ सादृश रखने वाले वंशों
(families) के समूह का नाम गण (order) है ।

ordinate—(L. *ordo*, order.) पंक्ति चिन्ही; पंक्तियों में
लगे हुए चिन्ह युक्त; कोटि ।

ordinatopunctate—(L. *ordo*, order; *Punctum*,
prick) पंक्ति बिन्दुक; क्रम बिन्दुक ।

Ordovician—(L. *ordovices*, people of Wales.)
ओरडोवीसियन; ऑर्डोविशन; सिल्युरीय (Silurian)
और कैम्ब्रीय (Cambrian) के मध्य का पुरायुग
(paleozoic) काल (era) का समय ।

organ—(Gk. *organon*, implement.) अङ्ग (अंग);
इन्द्रिय; आर्गन; अंगी (organism) का किसी विशेष
आकृति का भाग जो किसी विशिष्ट कार्य (special
function) के लिये उपयुक्त हो ।

organs of special sense—ज्ञानेन्द्रियाँ ।

organellae—(Gk. *organon*, instrument.) सूक्ष्मांग;
सूक्ष्मांग ।

organic—(Gk. *organon* instrument.) जैविक; आर-
गैनिक; कार्बनिक (पदार्थ विशेष); जैव ।

organicism—(Gk. *organon*, instrument) अंगी
करण ।

organific—(Gk. *organon*, instrument; L. *facere*,
to make.) अंगज ।

organised—(Gk. *organon*, instrument.) (१) अंगी;
(२) संज्ञित । अंगी (organism) के लक्षण युक्त या
उसी प्रकार व्यवहार करने वाला ।

organiser—(Gk. *organos*, foshioning) संगठक;
आकृति व्यवस्थापक; भ्रूण का वह भाग जो कार्य की
वर्धन और विभिन्नता को प्रोत्साहित करता है ।

organism—(Gk. *organon*, instrument.) (१) अंगी;
जीव; प्राणी । कोई जीवित जन्तु या वनस्पति (२) व्यक्ति ।

organismic—(Gk. *organon*, instrument) व्यक्तित्ता

organogen—(Gk. *organon*, instrument; *gennacin*
to produce.) अंगीजन । जैविक पदार्थ बनाने वाले
तत्व ।

organogenesis—(Gk. *organon*, instrument; *gene-*
sis, descent.) अंगोत्पादन; अंग जनन ।

organography—(Gk. *organon*, instrument; *gra-*
phain, to write.) अंग शास्त्र; अंग वर्णन; जीवित
अंगी (living organism) के अंगों (organs) सम्बन्धी
वर्णन शास्त्र ।

organoid—(Gk. *organon*, instrument; *eidos*,
form) अंगाम; कोशिकांग; प्रोटोप्लाज्म में बनी आकृतिक
रचना ।

organoleptic—(Gk. *organon*, instrument; to
take hold of.) अंग प्रभावक: इन्द्रियग्राही; अंगों पर
प्रभाव करने के योग्य ।

organology—अंग विज्ञान ।

organonymy—(Gk. *organon*, instrument; *monos*;
laws.) जीवन सिद्धान्त; जीव सिद्धान्त । जीवन या जीवन
से सम्बन्ध रखने वाला सिद्धान्त या मत ।

organonymy—(Gk. *organon*, instrument;
onyma, name.) अंग नाम करण ।

organophyly—(Gk. *organon*, instrument; *phy-*
lon; tribe) अंग-जाति विकास; अंगों का जाति विकास
(phylogeny) ।

organotrophic—(Gk. *organon*, instrument; *trep-*
hein, to nourish) अंग पुष्टक; अंग पोषिक । अंग
निर्माणक ।

organule—(Gk. *organon*, instrument.) (१) कोष्; (२) जीवांश ।

orgasm—(Gk. *organ*, to smell) अंग स्फीकता ।

Oriental—(L. *orientalis*, eastern.) ओरिएण्टल;
पौरव प्रदेश; प्राच्य ।

orientation—(L. *oriens*, rising.) दिक्विन्यास
(दिक्विन्यास); अग्निदिन्यास; अनुस्वापन ।

orifice—(L. *os*, mouth; *facere*, to make.) छुद्र;
द्वार; मार्ग; नलिका द्वार ।

origin—(L. *origo*, origin.) उद्गम; उद्भव; आरम्भ ।

original—(L. *origo*, origin.) मूलिक; प्रारम्भिक ।

ornis—(Gk. *ornis*, bird.) पक्षी समुदाय; किसी प्रदेश
(region) के पक्षी विशेष ।

ornithic—Gk. *ornis*, bird.) पक्षी सम्बन्धी ।

ornithichnite—(Gk. *ornis*, bird; *ichnos*, track.)
पक्षी जीवाश्म पदचिह्न ।

ornithine—(Gk. *ornis*, bird) आरनीयिन, पक्षियों के
विच्छा में पाया जाने वाला डाइअमीनोवेलेरिक अम्ल—
 $C_5H_{12}O_2N_2$ ।

ornithocopros—(Gk. *ornis*, bird; *kopros*,
diung) पक्षीविच्छा ।

ornithogaea—(Gk. *ornis*, bird; *kepros*, dung.)
पक्षी-भूगोलिक प्रदेश ।

ornithology—(Gk. *ornis* bird; *logos*, discourse.)
पक्षी विज्ञान, पक्षीकी ।

ornithophilous—Gk. *ornis*, bird; *philein*, to
love.) पक्षी प्रेमी; पक्षिरागी; पक्षिपरागति ।

oroanal—(L. *os*, mouth; *anus*, anus.) मुख-पायु:
मुख (mouth) और पायु (anus) दोनों की तरह
उपयोग में आने वाला ।

oronasal—(L. *so*, mouth; *nasus*, nose.) मुख-नेसल;
मुख नासिकीय; मुख-नासिका सम्बन्धी; मुख-नासा ।

ortho—सीधा; युद्ध; सही; ऋजु अर्थ का उपसर्ग ।

orthochromatic—(Gk. *orthos*, straight; *chroma*,
colour.) सरल-अष्टि रंज्य ।

orthodontine—(Gk. *orthos*, straight; L. *dens*,
tooth) ऋजु डेन्टीन ।

orthoenteric—(Gk. *orthos*, straight; *enter n*,
intestine.) उदरांत्री; ऋजु-आंत्रिक । ऐसे जन्तु जिनमें
अन्न प्रणाली (alimentary canal) देह के आंतरिक
(internal) अघर तल (ventral surface) पर लगी
होती है ।

orthogenesis—(Gk. *orthos*, straight; *genesis*,
descent.) नियत विकास; ऋजुजनन; पूर्व निर्धारण मत
(विकासवाद—evolution का एक मत) । इस मत के
नुसार प्राणियों का विकास अभिन्नता के सिद्धान्त द्वारा
पूर्व निर्धारित पथ पर होता है और वाह्य प्रभावों या
प्राकृतिक चुनाव या छटाव (natural selection) का
उस पर कोई असर नहीं होता है, यह माना जाता है ।

orthoptera—(Gk. *orthos*, straight; *pteron*, wing.)
आर्थोप्टेरा; आर्थोप्टेरा; ऋजुपक्षक; सन्धि पादों या
आर्थोपोडा (Arthropoda) का एक गण (order) ।

orthopterous—(Gk. *orthos*, straight; *pteron*,
wing.) ऋजु पक्षक; ऐसे जन्तु जिनके पख सीधे या ऋजु
(straight) और पट किये हुए (folded) होते हैं ।

orthoradial—(Gk. *orthos*, straight; L. *radius*,
ray.) समांशाली; समांश-अक्षी । ऐसा अण्ड-विभाजन
(segmentation) जिसमें अण्ड समांशिक रूप से अक्ष
(axis) के साथ जमते हैं ।

orthoselection—(Gk. *orthos*, straight; L. *selectin*,
choice.) उपयुक्त वृत्ति; ऐसा छटाव (selection) या
वृत्ति जो उपयुक्तता या अनुकूलता (adaptation) की
ओर ले जाती है ।

orthospermous—(Gk. *orthos*, straight; *sperma*,
seed.) ऋजु बीजक ।

orthostichous—(Gk. *orthos*, straight; *stichos*,
row.) सरल पंक्ति ।

orthotriaene—(Gk. *orthos*, straight, *trina*,
trident, ऋजुत्रिअरी ।

orthotropic—(Gk. *orthos*, straight; *type*, turn,
उर्ध्ववृत्ति ।

orthotropism—(Gk. *orthos*, straight; *trope*, turn, उर्ध्ववृत्तिकता ।

orthotropous—(Gk. *orthos*, straight, *trope*, turn, ऋजु बीजाण्ड; ऐसे बीजाण्ड (ovule) जिनमें निभाग (chalaza), नाभिका (hilum) और अणु छिद्र या बीजाण्डद्वार (micropyle) एक ही समरेखा में होते हैं ।

os. ora—(L. *os*, mouth.) मुख; मुँह ।

os—(L. *os*, bon.) हड्डी; अस्थि ।

osculant—(L. *osculeus*, kissing.) (१) संसक्त; (२) मध्य शीली; मध्य लक्षणी । ऐसे जन्तु जो किन्हीं समूहों (groups) जातियों (genera) या प्रकारों (species) के मध्य लक्षणों या शीलों (characters) से युक्त हों ।

oscular—(L. *osculum*, small mouth.) निर्गम द्वार; उत्क्षेपक द्वार सम्बन्धी ।

osculate—(L. *osculare*, to kiss.) निर्गम द्वार युक्त ।

osculiferous—(L. *osculum*, small mouth) निर्गम द्वार धारी; उत्क्षेपक द्वार वाला ।

osculum—(L. *osculum*, small mouth) निर्गम द्वार; अपवासी द्वार; उत्क्षेपक द्वार; छिद्रदेहियों; अर्थात् स्पंज (sponges) में पाया जाने वाला निर्गम (excurrent) द्वार ।

osmeterium—(Gk. *osme*, smell.) ऑस्मेटोरियम; गन्धोत्सर्गक; किन्हीं तितलियों (butterflies) के अर्भकों (larvae) के वाक्षास्थि खण्ड (thoracic segment) पर स्थित संदण्डाकार (forked) निःसरण शील (protuberant) अंग विशेष जो गन्ध (smell) देते हैं ।

osmics—(Gk. *osme*, smell.) घ्राण शास्त्र । वह विज्ञान जिसके अन्तर्गत घ्राण (smell) सम्बन्धी अङ्गों, घ्राण वेदना तथा गन्ध पदार्थों (odoriferous substance) का अध्ययन किया जाता है ।

osmiophil—(*os-mium*, from Gk. *osme*, smell-philien, to love.) आस्मिक अम्ल रंजी ।

osmoregulation—अभि-नियमन ।

osmosis—(Gk. *osmos*, impulse.) अभिसरण; प्रसरण; परासन । दो तरल पदार्थों या घोलों (solutions) का जन्तु की झिल्ली अर्थात् प्रसरणशील झिल्ली (permeable membrane) में होकर प्रसरण करना (osmosis) ।

osmosium—(Gk. *osmos*, impulse, आस्मोसियम; निमेटोड की अंत्र का एक भाग विशेष जो स्वतन्त्र वाहिकाओं (demanian vessels) से जोड़ता है ।

osmotaxis—(Gk. *ormos*, impulse; *taxis*, arrangement) घना-न्यास; अभिसरणीय दबाव के कारण गति प्रत्युत्तर ।

osmotic—(Gk. *osmos*, impulse.) प्रसरण शील; अभिसरणीय ।

osmyl—(Gk. *osme*, smell; *hyle*, matter.) गन्ध-पदार्थ ।

osphradium—(Gk. *osphradion*, strong scent.) ऑसफरेडियम; जलेक्षिका; मौलस्का (mollusca) के देहिक-गण्ड (visceral ganglia) से सम्बन्धित रसायनिक (chemical) वेदनाङ्ग (sense organs) ।

osphresiology—(Gk. *osphresis*, sense of smell; *logos*, discourse.) घ्राणोन्द्रिय शास्त्र; घ्राणकी ।

osphresis—(Gk. *osphresis*, sense of smell.) घ्राण चेतना ।

ossa triquetra—वोरमियन (wormian) अस्थियाँ ।

ossein—(L. *osseus*, bony.) ओसीन (अस्थि पदार्थ) हड्डी का सबसे अधिक जैविक तत्व ।

osseous—(L. *osseus*, bony.) अस्थिमय, अस्थिल; अस्थिवत् ।

ossicle—(L. *os*, bone.) अस्थिका; कोई छोटी हड्डी जैसे कान की उपास्थियाँ ।

ossicone—(L. *os*, bone; *conus* cone), शृंग मध्य; ऑस कोरनू ।

ossicular—(L. *os*, bone) अस्थिक युक्त; अस्थिक ।

ossiculum—(L. *os*, bone.) ओसीक्यूलम; अस्थिक ।

ossific—(L. *os*, bone.) अस्थिज । अस्थि बनाने वाला ।

ossification—(L. *os*, bone; *facere*, to make.) अस्थिकरण; अस्थीभवन; हड्डी बनना । उपास्थि के स्थान पर अस्थि पदार्थ का आना ।

ossify—(L. *os*, bone; *fieri*, to become.) अस्थि गठन; हड्डी या अस्थि कोशिकाओं का जमना ।

osteichthyes—अस्थि मत्स्य ।

osteoblast—(Gk. *osteon*, bone; *blastos*, bud.) अस्थिज; अस्थि कोरक; अस्थि-उत्पादक कोशिका ।

osteochondral—(Gk. *osteon*, bone; *chondros*, cartilage, अस्थि-उपास्थीय; अस्थि और उपास्थि का का बना

osteoclast—(Gk. *osteon*, bone; *klan*, to break.) अस्थि नाशक; अस्थि शोषक; अस्थि भुक; अस्थि ह्रासक । वह कोशिका जो अस्थि टिश्यु या ऊतक का शोषण (absorb) या छिन्न-भिन्न (break) कर देता है ।

osteocoma—(Gk. *osteon*, bone; *komma*, piece.) कशेरू खंड ।

osteocranium—(Gk. *osteum*, bone; *kranion*, skull.) अस्थि-कपाल ।

osteocyte—(Gk. *osteon*, bone; *kyios*, hollow.) अस्थि-कोशिका ।

osteodentine—(Gk. *osteon*, bone; L. *dens*, tooth.) अस्थि-डेन्टीन । वह डन्टीन (dentine) जो रचना में अस्थि के समीप पहुँचती है ।

osteodermis—(Gk. *osteon*, bone; *derma*, kin.) अस्थि-छद; अस्थितान्तरछद, अस्थिल चर्म; ऐसा अन्तरछद (dermis) जो अस्थि गठित (ossified) होता है ।

osteogen—(Gk. *osteon*, bone; *genos*, offspring.) अस्थि जन । ऐसा ऊतक या टिश्यू (tissue) जो परिवर्तित होकर अस्थि बन जाता हो ।

osteogenesis—(Gk. *osteon*, bone; *genesis*, descent.) अस्थि जनन, अस्थि करण; हड्डी का बनना ।

osteogenetic, osteogenic—(Gk. *osteon*, bone; *genesis*, descent.) अस्थि उत्पादन सम्बन्धी; अस्थि-करण सम्बन्धी ।

osteoid—(Gk. *osteon*, bone; *eidos*, form.) अस्थिग्रोपम: अस्थि सदृश; अस्थिवत् । हड्डी की तरह का ।

osteology—(Gk. *osteon*, bone; *logos*, discourse.) अस्थि शास्त्र, अस्थि की; अस्थि विज्ञान । जन्तु विज्ञान का वह भाग जो हड्डियों या अस्थि की रचना आकृति; स्वभाव तथा वृद्धि से सम्बन्ध रखता हो ।

osteoplastic—(Gk. *osteon*, bone; *plastos*, moulded.) अस्थि-उत्पादक ।

osteoporosis—(Gk. *osteon*, bone; *poros*, pore.)

अस्थि छिद्रता; अस्थि भ्रंश । अस्थि ऊतकों के ह्रास होने के कारण अस्थि का छिद्र पूर्ण होना ।

osteoscut—(Gk. *osten*, bone; L. *scutum*, shield) अस्थिवाह्य शल्क ।

ostiate—(L. *ostium*, door.) मुख-छिद्री ।

ostiolar—(L. *ostiolum*, little door.) मुख-छिद्री ।

ostiole—(L. *ostiolum*, little door.) मुख-छिद्रक; अन्तर्प्रवाह छिद्र; गर्भाशय छिद्र ।

ostium—(L. *ostia*, plu.) मुख-छिद्र । जैसे संघिपादों (arthropoda) का हृत्-छिद्र (ostium) या छिद्र देहियों-स्पंज (sponges) में कपातन्त्रीय (flagellate) नलिका का आद्यांत्र कोटर या छिद्र ।

otic—(Gk. *ous*, ear.) कर्णिय; कर्ण काषिक । ।

otidium—(Gk. *ous*, ear; *idion*, dim) ओटीडियम; कर्णक; कर्णिका; मौलस्का (mollusca) की कर्ण सिस्ट या स्योति (otocyst) ।

otoconium—(Gk. *ous*, ear *konia*, grain of sand.) कर्ण-रज ।

otocrypt—(Gk. *ous*, ear; *kryptos*, hidden.) कर्ण गुटिका; किन्हीं मौलस्का (mollusca) में पाँव की खाल का खुला हुआ कान की तरह का अन्तर्वलय (invagination) ।

otocyst—(Gk. *ous*, ear; *kystis*, bladder.) कर्ण सिस्ट; भ्रूणिक, कर्णीय कोष; स्थितिज्ञ कोष; कर्णपुटी; संतुलन पुटी ।

otolite—(Gk. *ous*, ear; *lithos*, stone.) कर्णोदल; कर्ण-कणिका; कर्ण-कण, कणश्मि ।

oto-occipital—Gk. *ous*, ear; L. *occiput*, back of head.) कर्ण-ओक्सीपिटल; कर्णानुकपाल; कर्ण कपाल पृष्ठीय ।

otoperpae—(Gk. *ous*, ear; *porpe*, brooch, ओटो-पोरपी; हाइड्रोमेहुसी के छत्र बहिस्तल (exumbroker) पर दंश कोशिकाओं (enidoblasts) की धारियाँ धारियाँ (stripes) ।

otosalpinx—(Gk. *ous*, ear; *salpingx* trumpet) कर्ण-कण्ठ (नलिका) ।

otostapes—(Gk. *ous*, ear; L. *L. stapes*, stirrup, कर्णयांत्र; स्टैपीज और कॉलूमेला का निर्माण करने वाली ।

otosteon—(Gk. *ous*, ear; *ostevn* bone) अँटोस्टी-
योन; कर्ण-अस्थिका (ossicle) ।
out growth—उद्बृद्धि; उद्-वर्धन (उद्बर्धन) ।
oval—(L. *ovum*, egg.) अण्डाकार; अंडाकृति ।
ovalbumin—(L. *ovum*, egg; *albumen*, white of
egg.) अण्ड श्वेत; ओवैल्बुमिन;
ovarian—(L. *ovarium*, ovary.) डिम्ब ग्रन्थीय; डिम्ब
ग्रन्थि सम्बन्धी; अंडाशयी ।
ovariole—(L. *ovarium*, ovary.) अंडाशयक; डिम्ब
ग्रन्थि नलिका; कीटों (insects) में डिम्ब-ग्रन्थि (ovary)
की नलिका विशेष ।
ovariotestis—(L. *ovarium*, ovary; *testis*, testi-
cle.) डिम्ब-वीर्याणुक; डिम्ब-वीर्य ग्रन्थि; ऐसी जनन
ग्रन्थि जिससे अण्ड (eggs) व वीर्याणु (sperms) दोनों
साव हों ।
ovarium—(L. *ovarium*, ovary.) डिम्ब ग्रन्थि; अंडा-
शय ।
ovary—(L. *ovarium*, ovary.) डिम्ब ग्रन्थि; डिम्बाशय;
मादा जनन ग्रन्थि ; अंडाशय ।
ovate—(L. *ovum*, egg.) अण्डोपम; अण्डाकार;
अण्डवत् ।
ovate-accuminate- तीक्ष्ण-अण्डवत् ।
ovate-ellipsoidal-अण्डाकार-अण्डवत् ।
ovate-lanceolate-अण्डवत्-भालाकार ।
ovate-oblong-अण्डवत्-दीर्घकाल ।
ovejector—(L. *ovum*, egg; *ejectum*, thrown out),
अण्ड निष्कासनी ।
ovenchyma—(L. *ovum*, egg; Gk. *enchyma*,
infusion): अण्डाभवंधक, अण्डाभ कोशिकाओं का बन्धक
ऊतक ।
ovicell—(L. *ovum*, egg; *cellula*, cell.) अण्ड-
कोशिका, डिम्ब कोटर; डिम्ब कोशिका की एक थैली
जो गर्भाशय का कार्य करती है ।
oviducal funnel—डिम्ब-प्रणाली कीप ।
oviduct—(L. *ovum*, egg; *ducere*, to lead.) डिम्ब-
प्रणाली; अण्डवाहिनी; डिम्ब ग्रन्थि से डिम्बों को बाहर
ले जाने वाली नलिका ।

oviferous—(L. *ovum*, egg; *ferre*, to carry.) अण्ड-
वाहक; अण्डधर ।
oviform—(L. *ovum*, egg; *forma*, shape.) अण्डा-
कार; अण्डवत् अण्डे के आकार वाला ।
oviparity—(L. *ovum*, egg; *perere*, to bring
forth.) अण्डजता ।
oviparous—(L. *ovum* egg; *parere*, to bring
forth.) अण्डज; अण्डे देने वाला ।
oviposit—(L. *ovum*, egg; *ponere*, to place.) अण्ड
स्थापी । ऐसे जन्तु जो अण्डों को किसी अङ्ग विशेष की
सहायता से स्थापित करते हैं ।
ovipositor—(L. *ovum*, egg; *ponere*, to place.)
अण्ड स्थापक; अण्ड निक्षेपक ।
oviposition—(L. *ovum*, egg; *ponere*, to place.)
अण्ड स्थापन; अण्ड निक्षेपण ।
ovisac—(L. *ovum*, egg; *saccus*, bag.) डिम्ब
कोषिका; डिम्ब पुटिका; अण्ड कोष ।
oviscapte—(L. *ovum*, egg; F. *capere*, from,
L. *captare* to conduct) अण्ड निक्षेपक ।
ovism—(L. *ovum*, egg) अण्ड जीवाणु मत; यह मत
कि अण्डा समस्त आने वाली पीढ़ियों के जीवाणु रखता
है ।
oviviparous—अण्ड-जरायुज ।
ovocentre—(L. *ovum*, egg; *centrum*, centre.)
डिम्ब केन्द्र बिन्दु ।
ovocyst, ovocyte, ovogenesis—डिम्ब सिस्ट;
अण्डजनाणु; पूर्व डिम्ब कोष; डिम्ब परिपक्वता या
डिम्बोत्पत्ति ।
oocyst, oocyte, oogenesis—शब्द पहले देखिए ।
ovoid—(L. *ovum*, egg; Gk. *eidōs*, form.) अण्ड
सम; अण्डाभ; अण्डाकार ।
ovomucoid—(L. *ovum*, egg; *mucus*, mucus; Gk.
eidōs, form.) अण्डरलेप्तोपम; अण्डम्यूकॉइड ।
ovotestis—(L. *ovum*, egg; *testis*, testicle.) डिम्ब-
वीर्य ग्रन्थि । किन्हीं गेस्ट्रोपोड (gastropoda) की
उभय लिंगी (hermaphrodite) उत्पादक-ग्रन्थि
(reproductive gland) ।
ovoviviparous—(L. *ovum*, egg; *vivus*, living;
parere, to bring forth.) अण्ड-शिशुज । वह जन्तु

ovulate

- जो खोलदार अण्डा उत्पन्न करते हैं परन्तु यह अण्डा माता के शरीर के अन्दर ही या तुरन्त रखे जाने के पश्चात् फूट जाता है और बच्चा निकल आता है ।
- ovulate—(L. *ovum*, *egg*.) डिम्बी; डिम्ब युक्त; बीजांडी ।
- ovulation—(L. *ovum*, *egg*.) डिम्बोत्सर्जन; डिम्बों का डिम्ब ग्रन्थि से छूटना ।
- ovulatory—(L. *ovum*, *egg*; *latum*, borne away), डिम्बोत्सर्जन सम्बन्धी ।
- ovuliferous—(L. *ovum*, *egg*; *ferre*, to carry), डिम्बोत्पादक; बीजाण्डी ।
- ovulophore—डिम्बधर ।
- ovule—(L. *ovum*, *egg*.) बीज या लघु डिम्ब; अण्डप; बीजांड ।
- ovum—(L. *ovum*; *egg*.) डिम्ब; मादा जनन कोशिका, अण्डाणु ।
- oxalates—(Gk. *oxys*, sharp.) आक्जेट्स; आक्जेलिक अम्ल के योगिक जो विभिन्न वनस्पति ऊतकों तथा मूत्र में उपापचय उत्पाद की तरह उपस्थित होते हैं ।
- oxea—(Gk. *oxys*, sharp.) ओक्सिया; तीक्ष्ण कंटिका; द्विधारी स्पीक्यूल या दूदा (spicule); ऐसा दूदा या स्पीक्यूल (spicule) जो दोनों ओर से तेज होता है ।
- oxeote—(Gk. *oxys*, sharp.) ओक्सियोपम; तीक्ष्णांत ।
- oxidase—(Gk. *oxys*, sharp.) ओक्सीडेस (ऐन्जाइम) जो आक्सीकरण को प्रोत्साहित करता है ।
- oxidise—(Gk. *oxys*, sharp.) आक्सीकरण ।
- oxyaster—(Gk. *oxys*, sharp; *aster*, star.) तीक्ष्ण शरीय स्पीक्यूल ।
- oxidation—आक्सीकरण कंटिका ।
- oxybiotic—(Gk. *oxys*, sharp; *bios*, means of life, आक्सीजन जीवी ।
- oxychlorocruoria—(Gk. *oxys*, sharp; *chloras*, green; L. *cruor*, blood, आक्सीक्लोरोक्रियोरिन ।
- oxychromatin—(Gk. *oxys*, sharp; *chroma*, colour.) ओक्सीक्रोमेटिन । ललित सूत्र; लेनिन ।
- oxydactyl—(Gk. *oxys*; sharp; *daktylos*, finger.) कशांगुलिक; शिशांगुलि ।
- oxydiact—(Gk. *oxys*, sharp; *di-two*; *aklis*; ray.) द्वि विकसित तीन शरीय स्पीक्यूल; ऐसा स्पीक्यूल जो तीन शरीय होता है और जिसकी दो अर पूर्ण विकसित होती हैं ।
- oxydase—(Gk. *oxys*, sharp.) आक्सीडेस; क्षोभक रस जो भ्रूषजन (oxygen) से संयुक्त होने में सहायता देता है ।
- oxygnathous—(Gk. *oxys*, sharp; *gnathos*, jaw.) तीव्र हनु ।
- oxy-haemoglobin—(Gk. *oxys*; sharp; *haima*, blood; L. *globus*, globe.) ओक्सी-हीमोग्लोबिन ।
- oxyhexactine—(Gk. *oxys*, sharp; *hex*, six; *aktis*, ray.) षट तीक्ष्ण किरणी ।
- oxyhexaster—(Gk. *oxys*, sharp; *hex*, six; *aster*, star.) तीक्ष्ण षटशरीय स्पीक्यूल ।
- oxyluciferin—(Gk. *oxys*, sharp; L. *hex*, light; *ferre*, to carry; प्रकाश निर्गमी; आक्सीलूसीफेरिन; वह पदार्थ जो लूसीफेरिन पर लूसीफिरेस के प्रभाव से प्रकाश निर्गमी अंगों से प्रकाश निर्गम करता है ।
- oxyntic—(Gk. *oxyein*, to make acid.) अम्लोत्पादक ।
- oxyphil—(Gk. *oxys*, sharp; *philein*, to love.) तीव्र अम्लरंगी; शीघ्र (गूढ़) अम्ल वर्णी ।
- oxyphilous—(Gk. *oxys*, sharp; *philein*, to love.) अम्लीय मृत्तिकारंगी ।
- oxyphole—(Gk. *oxys*, sharp; *pholos*, flight.) अप अम्ली मृत्तिकी ।
- oxyphyte—(Gk. *oxys*, sharp; *phyton*, plant.) आक्सीपादप ।
- oxtocic—(Gk. *oxys*, sharp; *tokos*, birth.) प्रसव-गति वर्धक; गर्भाशय संकोचक ।
- oxytocin—(Gk. *oxys*, sharp; *tokos*, birth) आक्सीटोसिन; गर्भाशय संकोची (हार्मोन) ।
- oxytropism—(Gk. *oxys*, sharp; *trope*, turn) ओपजनवृत्ति; आक्सीजनानुवर्तन ।
- oxytylote—(Gk. *oxys*, sharp; *tylos*, knob.) तनु स्पीक्यूल ।

P

P₁—P₄—प्रथम पैतृक संतति श्रेणी या पीढ़ी; **p₂—P₂**—प्रपिता आदि। (देखो F₁) मेन्डल (Mendel) के सिद्धान्त में वंश परम्परा या आनुवंशिकता (heredity) पर प्रयोग करने के लिए जिन जन्तुओं से आरम्भ करते हैं, उन्हें पैतृक श्रेणी (P₁) कहते हैं और उनके पितामह या प्रपिता (grand fathers) को 'P₂' कहते हैं।

pacchionian bodies—(A. *Pacchioni*, Italian anatomist.) पैकियोनियन कण; अरैक्नीयड ऊतक के उभार या कण जो अरैक्नीयड कला से ढके रहते हैं तथा दृढ़ाच्छद (duramater) पर दाब देते हुए होते हैं।

pace-maker—पैस मैकर।

१—कोई भाग या क्षेत्र जो शरीर के अन्य भागों की क्रिया-शीलता की दर को निश्चित करता है।

२—शिरा-अलिन्द गाँठ जो सामान्य हृदय स्पन्दन को आरम्भ कराती है। पैस मैकर (pace maker) के प्रत्येक स्पन्दन से एक विद्युत-ऋणात्मक धारा फैलती है जो पहिले अलिन्द (auricle) और फिर निलय (ventricle) को क्रम से सिकुड़ने हेतु उत्तेजित करती है। यदि पैस-मैकर को हटा दिया जावे तो भी शेष हृदय धीमी गति से स्पन्दन करता रहता है। हृत्पेशियों में निहित शक्ति क्रमानुकुचन करने की होती है।

pachy—स्थूल; सघन।

pachydermatous—(Gk. *pachys*, thick; *derma*, skin.) स्थूल चर्मी; स्थूल वरणी; सघन चर्मी; मोटी खाल या आवरण युक्त।

pachymeninx—(Gk. *pachy*, thick; *meninx*, memberane.) दृढ़ाच्छद। स्थूलाच्छद।

pachynema—(Gk. *pachys*, thick; *nema*, thread.) संयुज सूत्र स्थिति; स्थूल सूत्र।

pachytene—(Gk. *pachys*, thick; *tainia*, band.) संयुज सूत्री; स्थूल पट्ट। हास विभाजन (meiosis) की वह पुरास्थिति या पूर्वावस्था (prophase) जिसमें समरचन (homologous) परम्परा या रंजक सूत्र या गुण सूत्र (chromosomes) दो-दो की संख्या में जुड़े रहते हैं।

pacinian bodies or corpuscles—(F. *pacini*,

Italian anatomist.) पेसीनी स्पर्श कण। (पेसीनी *pacini*) इटली निवासी रचना वैज्ञानिक (anatomist)।

paddle—डाँड; क्षेपणी।

paedogenesis—(Gk. *pais*, child; *genesis*, descent.) तरुणोत्पादन; शावकीजनन; डिम्ब जनन। अर्भक (larval) या तरुण (young) अवस्था में उत्पादन करने वाला जैसे द्विपंखी (diptera) में।

paedomesoblast—(Gk. *pais*, boy; *mesos*, middle; *blastos*, bud.) आद्य-मध्य स्तर।

paedomorphic—(Gk. *pais*, child; *morphe*, from.) आद्याकृतिक; शावकी; आधुनिक (recent) प्रौढ़ (adult) जन्तुओं में आद्य (primitive) या भ्रूणिक (embryonic) आकृतियों का विद्यमान रहना।

pair—(Fr. *paire*, a couple.) युग्म; जोड़ा; युगल।

paired bodies—युग्म-पिण्ड; युग्मत पिण्ड।

paired fins—युग्म-फिन; युग्मत फिन।

pairing—युग्मता; युग्मित; युग्मीकरण; युगलन; जोड़ा खाते हुए। भ्रूण कोशिका (zygote) निर्माण में समरचन परम्परा सूत्रों (homologous chromosomes) का आकर्षण प्रक्रिया (process of attraction) द्वारा मिलना।

Palaeartic—(Gk. *palaios*, ancient, *orktos*, great bear.) पुराशीत प्रदेश। वह जन्तु-भौगोलिक क्षेत्र (Zoogeographical region), जिसमें यूरोप (Europe), उत्तरी अफ्रीका (North Africa), पश्चिमी एशिया (Western Asia), साइबेरिया (Siberia), उत्तरी चीन (North China), और जापान (Japan) देश सम्मिलित हैं।

plaeobotany—(Gk. *palaios*; ancient; *botane*, pasture.) वनस्पति जीवाश्म-शास्त्र; पादपाश्म विज्ञान; पुरावनस्पति विज्ञान; जीवाश्म (fossil) वनस्पतियों (plants) का विज्ञान।

palaeocerebellum—(Gk. *palaios*, ancient; L. *dim*, of *cerebrum*, brain.) आद्यसेरेबिलम; सेरे-पुरा

palaeocranium

विलम; जाति विकास के अनुसार मग्न मस्तिष्क का पुरातन भाग ।

palaeocranium—(Gk. *palaios*, ancient; *kranion*, skull.) पुरा-कपाल ।

palaeo-encephalon—(Gk. *palaios*, ancient; *engkephalos*, brain.) पृष्ठदण्डी-पुरा मस्तिष्क ।

palaeogene—(Gk. *palaios*, ancient; *genos*, an age.) पुरातन काल; पैलियोजीन; प्रारम्भिक त्रियेसिक (early tertiary) काल या प्रारम्भिक तृतीय युग जिसमें नवोदय (eocene) और नवीन (oligocene) सम्मिलित हैं ।

palaeogenetic—(Gk. *palaios*, ancient; *genesis*-descent.) पूर्वज-अवतरणी ।

palaeolaurention—(Gk. *palaios*, ancient; *river st. lawrence*.) प्रारम्भिक युग; पेलियोलोरेन्सियन; एक कोशकीय युग । वह युग जिसमें एक कोशकीय जीव (unicellular life) ही होते थे । (देखिये—archaeozoic era प्रारम्भिक युग ।

palaeolithic—(Gk. *palaios*, ancient, *lithos*, stone) पुरापाषाण युगी; पुरा-पाषाण युग सम्बन्धी ।

palaeontology—(Gk. *palaios*, ancient; *on*, being; *logos*, discourse.) जीवाश्म शास्त्र; जीवाश्म विज्ञान ।

palaeozoic era—(Gk. *palaios*, ancient; *zoon*, animal.) पुरा युग; पुरा जन्तु युग; पुरा कल्प; पुरा-जीवी महाकल्प ।

palaeozoology—(Gk. *palaios*, ancient; *zoon*, animal; *logos*, discourse.) जन्तु जीवाश्म शास्त्र; जीवाश्म प्राणि-विज्ञान; प्राणिअश्म विज्ञान ।

palama—(Gk. *palame*, the palm.) पाल्मा; पक्षीपाद जाल; जलवासी पक्षियों के पाँव की झिल्ली ।

palatal—(L. *palatum*, palate.) तालव्य; तालु सम्बन्धी ।

palate—(L. *palatum*, palate.) तालु; तालू; अघ-रिका; काकुद ।

palatine—(L. *palatum*, palate.) पैलेटाइन, तालव्य; तालु सम्बन्धी; तालव ।

palatine bone—पैनेटाइन अस्थि; तालवस्थि ।

palatine process—तालु प्रबर्द्धन; पैलेटाइन प्रबर्द्धन ।

palatoglossal—L. *palatum*, palate; Gk. *pharyngx pharynx*.) तालव्य कण्ठी; तालु कण्ठ सम्बन्धी; तालु-ग्रसनी ।

palatopterygoid—(L. *palatum*, palate; Gk. *pterygion*, little wing; *eidos*, form.) तालव्य टेरीगोइड; तालु टेरीगोइड सम्बन्धी; तालव्यत्रयंगिका ।

palatoquadrate—(L. *palatum*, palate; *quodratum*, squared.) तालव्य-क्वाडरेट; तालु क्वाडरेट सम्बन्धी; तालव्य प्रलम्ब ।

palea—(L. *palea*, chaff.) पेल;

१—लेमा (lemma) के अन्दर एक सहपत्रिका (bracteole) होती है, जिसे पेल (palea) कहते हैं जैसे घास (grasses) ।

२—कम्पोजिटों के पुष्पक (florates) में लघु सहपत्र (bract) ।

३—फर्न में बाह्य चर्म की शल्की अभिवृद्धि (ramantum) ।

paleaceous—(L. *palea*, chaff) पेलयुक्त; तुषी ।

Palaearctic—पुराशीत प्रदेश; पुरा ध्रुवी प्रदेश ।

palette—(F. *palette*, from L. *pala*, spade.) पेलीट; तोरण शृङ्गी गुल्फ । नर गुवरीलों (male beetles) या वीटलों में अग्र टांग (anterior leg) का परावर्तित तोरण शृंगी (cupule bearing) टारसस या गुल्फ (tarsus) ।

paliform—(L. *pales*, stake; *form*, shape.) उन्नत दण्डवत् ।

palinal—(Gk. *palin*, reversely.) प्परिवृत्त; पीछे से आगे की ओर ।

palingenesis—(Gk. *palin* anew; *genesis*, descent.) लक्षण पुनरावृत्ति; पुनर्भवन; सहसा पुनरावर्तन; पैतृक लक्षणों का फिर से उदय होना ।

palingenetic—(Gk. *palin*, anew; *genesis*, descent.) पुरोद्भवी (लक्षण) ।

palisade tissue—पेलीसेड ऊतक; शंकुपंक्ति ऊतक; अनेक सामान्य पर्णों में प्रकाश संश्लेषणी आधारक ऊतक ।

pallaesthesia—(Gk. *pallein*, to quiver; *aisthesis*, sensation.) स्फुरण-वेदना ।

pallet—(L. *pala*, spade.) खनिज पट्ट; प्रपट्टिका ।

pallial—(L. *pallium*, mantle.) मँटल; पिघान; प्रावार; मोलस्का (mollusca) के शरीराङ्गों को ढकने वाली मांस झिल्ली ।

pallial cavity—मँटल गुहा; प्रावार गुहा ।

palliate—(L. *pallium*, mantle.) मँटली; पिघानी; मँटल युक्त ।

pallidium—(L. *pallius*, pale.) पांडु गोलिका पिण्ड-मध्यांश; युवाकृति या यवरूप (lentiform) केन्द्रक (nucleus) के पांडु गोलिका पिण्ड (globus pallius) का अक्षिमध्य (medial) भाग (part) ।

palliopedal—(L. *pallidum*, mantle; *pes*, foot.) पिघान पादो; मोलस्का (mollusca) में पिघान या मँटल (mantle) और पाद (foot) सम्बन्धी ।

pallium—(L. *pallium*, mantle.) पिघान; मँटल; अच्छादन; अधिवास; प्रावार ।

palm—(L. *palma*, palm of hand.) हस्त तल; हथेली; करतल ।

palmar—(L. *palma*, palm of hand.) हस्त तली; हस्त तल सम्बन्धी; हथेली का; करतल ।

palmate—(L. *palma*, palm.) पामेट; हस्ताकार; करतलाकृति; हथेली के आकार का; (ताड़) खजूर पत्रोपम; पाणिवत ।

palmatifid—(L. *palma*, palm; *findere*, to cleave.) ताड़ावृत; पाणिदर; दीर्णहस्ताकार ।

palmatilobate—(L. *palma*, palm; *lobus*, lobe.) ताड़-दली ।

palmatipartite—(L. *palma*, palm; *partitus*, divided.) ताड़ा-दीर्ण; पाणि विदर ।

palmisect—(L. *palma*, palm; *sectus*, cut.) ताड़ा कर्तन; ताड़ा खण्डित ।

palmella—(Gk. *palmos*, quivering.) निपङ्गु कोशिका; जेली में स्थित विभाजित कोशिका ।

palmiped—(L. *palma*, palm; *pes*, foot.) जाल-पदी; झिल्लीपादी ।

palmitin—(Gk. *palma*, palma-tree) पामीटिन; (C₁₅H₃₁COO)₃C₃H₅; वसा ऊतक; दूध और ताड़ तैल में पाई जाने वाली वसा विशेष ।

palmula—(L. *palma*, palm.) पालमुला, कीटों

(insects) के पाँव के युग्मी पंजों (paired claws) के मध्य का अन्तिम दल (terminal lobe) या प्रवर्धन (process) ।

palp—(L. *palpare*; to feel.) मर्शक; पैल्प; स्पर्शक; पट्पादों या कीटों (insects) में पाई जाने वाली श्रोण्य जानेन्द्रिय ।

palpacle—(L. *palpare*, to touch softly.) मृदुल स्पर्शक ।

palpal—(L. *palae*, to stroke.) मर्शकी; पैल्प सम्बन्धी ।

palpate—(L. *palpare*, to stroke.) (१) पैल्प युक्त; (२) स्पर्श ज्ञान (निरीक्षण) ।

palpebral—(L. *palpebra* eyelid.) पलक; नेत्रच्छद ।

palpebral—(L. *palpebra*, eyelid.) नेत्रच्छदी; पलक सम्बन्धी ।

palpifer, palpiger—(L. *palpare*, to feel; *ferre, gerere*, to carry.) पैल्पिजर; मृशकधारी; पैल्प धारी; पैल्पी जर ।

palpiform—(L. *palpare*, to feel; *forma*, shape.) मृशकोपम; पैल्प सदृश; स्पर्शक रूप ।

palpimacula—(L. *palpare*, to feel; *macula*, spot.) मृशक-बिन्दु; किन्हीं पट्पादों या कीटों (insects) के श्रोण्य मृपक (labial palp) पर स्थित वेदना बिन्दु (sensory spot) ।

palpocil—(E. *palpare*, to touch; *cilium*, eye-lash.) पैल्पोतिल; वेदना सूत्र; स्पर्श प्रवर्ध ।

palpon—(L. *palpare*, to feel.) ग्राही मुकल (देखिए (hydrocyst या dactylozoid) ।

palpulus—(L. *palpare*, to fell.) लघु मृशक ।

palpus-palpi—(L. *palpare*, to feel.) श्रोण्य मृशक

paludicole—(L. *palus*, marsh; *colere*, to inhabit.) कर्दम वासी; कच्छवासी ।

palule—(L. *palus*, stake) स्थाणु; मूंगों (corals) के स्थाणु रूप (stake like) खरिक प्रवर्धन ।

palus-pali—(L. *palus*, stake.) स्थाणुक ।

palynology—(Gk. *playnein*, to scatter; (*pale*, pollen); *logos*, discourse.) पराग विज्ञान; परागाणु विज्ञान ।

pamprodactylous

pamprodactylous—(Gk. *pan*, all; *pro*, in front; *daktylos*, digit) अग्रनिर्दिश पादांगुलिक; ऐसे जन्तु जिनकी पाँव की उँगलियाँ आगे की ओर होती हैं।

pampiniform—(L. *pampinus*, tendril; *forma*, shape.) प्रतानीपत्र; प्रतान रूप, वीर्याणु रज्जु का आसावृत शिरा जाल।

pancreas—(Gk. *pan*; all; *kreas*, flesh.) पैंक्रियाज; अग्नाशय; क्लोम। ग्रीक शब्द पैंक्रियाज इसलिए दिया गया है कि यह सब ही प्रकार के भोजन तत्वों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर प्रभाव डालता है। ये ग्रन्थि विशेष ग्नथोस्टोम-हनुमुखी (gnathostome) कशेरूकों में ड्यूडेनम (duodenum) के समीप अंत्रयुज (mesentery) में स्थित होती है। यह ग्रन्थि पैंक्रियेटिक वाहिनी (pancreatic duct) द्वारा पाचक एन्जाइम ट्रिपसिनोजन, लाइपेज, एमाइलेस, मालटेज आदि के क्षारीय मिश्रण को अंत्र में पहुँचाती है। यह मिश्रण सेक्रेटिन (secretin) हार्मोन से उत्तेजित होकर स्रावित होता है। इस ग्रन्थि के लैंगरटैन्स के द्वीपों में एक कोशिका समूह होता है जो इन्सुलीन तथा ग्लूकागोन (glucagon) हार्मोन को रुधिर शर्करा (blood sugar) की मात्रा के अनुसार निवाहिका रुधिर तंत्र में पहुँचाते हैं। साइब्लोस्टोम में पैंक्रियाज अंत्र भित्ति के साथ ही लगे होते हैं।

pancreatic—(Gk. *pan*, all; *kreas*, flesh.) क्लोम सम्बन्धी; अग्न्याशयी।

pancreatrophic—(Gk. *pan*, all; *kreas*, flesh; *trophe*, nourishment.) क्लोमेत्तेजक; अग्न्याशयवर्ती।

pancreozymin—(Gk. *pan*, all; *kreas*, flesh; *zyme*, leaven.) पेनक्रियोजीमिन; क्लोम हार्मोन स्रावी।

panduriform—(L. *pandura*, late; *forma*, shape.) वायलिनरूपी; क्षारिकावत्; शारंगी रूपक।

Paneth cells—(J. Paneth, Austrian physician.) पैंनेथ कोशिकायें; लिवरकुन (Lieberkubn) की गुहिकाओं के आधार पर पाई जाने वाली तीव्र अम्ल रंगी कोशिकायें।

pangamic—(Gk. *pan*, all; *gamos*, offspring.) सर्वसंगी; अविविक्त सहचर; सर्व संगमनी।

pangamy—यदृच्छा संगमन।

pangen—(Gk. *pan*, all; *genos*, offspring.) पैन-जन; पैनजीन; एक कार्बनिक इकाई।

pangenesis—(Gk. *pan*, all; *genesis*, descent.) पेन्जेनिसिस मत; पैन्जीनवाद; दायकण मत। दाय-कण सिद्धान्त (gemmule theory), कि वंश परम्परा (hereditary) विशेषतायें व्यक्तिगत दैहिक कोशिकाओं (individual body cells) से जर्म या जीवाणु (germs) द्वारा ले जाई जाती है। इस मतानुसार यह माना जाता है कि दाय-कण या जेम्पूल (gemmule) दैहिक कोशिकाओं (body cells) से निरन्तर निकल कर जनन-कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं और वे इस प्रकार पैतृक-लक्षण संतति में पहुँचाते हैं।

panicle—(L. *panicula*, tuft.) पैनिकिल, (१) संयुक्त रेसीम (compound raceme); (२) पुष्प गुच्छ, बद्ध (closed) या विक्षिप्त (scattered); (३) बीज गुच्छ।

paniculate—(L. *panicula*, tuft.) संयुक्त रेसीम पुष्पी।

panmeristic—(Gk. *pan*, all; *mixis*, mixing.) चरम खण्डित।

panmixia—(Gk. *pan*, all; *mixis*, mixing.) सर्व-संगता; अविविक्त संकरीकरण; यदृच्छा संगमन।

panniculus—(L. *dim pennus*, cloth.) परिधान; जैसे, बर्हिःस्थ (superficial) पेशी बन्धक (fascia)।

panoistic—(Gk. *pan*, all; *oon*, egg.) योकहीन; डिम्बान्नहीन।

panphotometric—(Gk. *pan*, all; *phos*, light; *motion*, measure.) सर्व प्रकाश परिहरण विन्यास (पर्ण); (देखिये—euphotometric)।

pansporoblast—(Gk. *pan*, all; *sporos*, seed; *blastos*, bud.) सर्व स्पोरज; आद्य बीजाणुक, नियो-स्पोरोडिया का एक कोशिका समूह जो स्पोरज (spore-blast) और स्पोर (spores) उत्पन्न करता है।

panthalassic—(Gk. *pan*, all; *thalassa*, sea.) सर्वत्र सागरवासी; सर्वत्र सामुद्रिक। समुद्र के किनारे और बीच दोनों ही में रहने वाला।

pantothenic—(Gk. *pantothern*, from everywhere.) पैंटोथीनिक; विटामिन बी ३।

pan-tropic—सर्वानुवर्ती (विषाणु)।

pan-tropical—यावत् अयनवृत्ति ।

papilionaceous—(L. *papilio*, butterfly.) (१) पैस-घर; (२) तितली सदृश; (३) पैपिलियोनेटीय पुष्पदल विन्यास, इसमें पाँच स्वतन्त्र दल तितली के आकार का दल पुंज बनाते हैं; पश्च दल सबसे बड़ा होता है, इसे ध्वज (*vexillum*) कहते हैं; दो अग्र दल लगभग जुड़े से होते हैं और नाव के आकार की रचना बनाते हैं, इसे नौतल (*keel*) कहते हैं। दो पार्श्व दल जो पंख (*wings*) कहलाते हैं, नौतल को ढके रहते हैं। इस प्रकार के दल पुंज पैपिलियोनेसी उपकुल में जैसे मटर (*sweet pea*); चना (*gram*); सेम (*bean*) आदि में पाये जाते हैं।

papilla—(L. *papilla*, nipple.) कूट; अंकुरक; पिप्पल; पैपिला ।

papillary—(L. *papilla*, nipple.) कूटक; पैपिली ।

papillate—(L. *papilla*, nipple) कूटी; कूट युक्त; प्राग्रकी; पैथिलामय; पिप्पलमय :

papilliform—(L. *papilla*, nipple; *forma*, shape.) कूटोपम; पैपिलारूपी ।

pappiferous—(L. *pappus*, down; L. *ferre*, to carry.) रोमसूत्रचारी ।

pappose—(L. *pappus*, down.) रोमसूत्री ।

pappus—(L. *pappus*, down.) रोमसूत्र; रोमगुच्छ ।

papulae—(L. *papula*, pimple.) (१) पिपिका युक्त; पटिकी । (२) अघस्रच्छद गिल ।

papyraceous—(L. *papyrus*, rush.) पर्णरचन; पत्र-रचन; पत्रकी ।

parabasal—(Gk. *para*, beside; *basis*, base.) अनुमूलक; पराघार; पैरावेसल । कषीर्यों या कशाभी (*flagellates*) की एक कोशिका विशेष ।

parabasalia—(Gk. *para*, beside; *basis*, base.) अनुवेसल; अनुमूलास्थि ।

parabiosis—(Gk. *para*, beside; *biosis*, manner of life.) अनुजीवनता; संश्लिष्टता; संयुक्त जीवन ।

parabiotic—(Gk. *para*, beside; *bios*, life.) अनुजीवी; संश्लिष्ट; संयुक्त जीवी ।

parablast—(Gk. *para*, beside; *blastos*, bud.)

अनुकोष्ठी; अंशविभाजी (*meroblastic*) डिम्ब (*egg*) का डिम्बान्न या योक (*yolk*) ।

parabranchia—(Gk. *para*, beside; *brangchia*, gills.) अनुगिली; पराक्लोम; मूलस्का (*mollusca*) का रोमीय रसजग्राही (*chemoreceptor*) ।

parabronchi—(Gk. *para*, beside; *brongchos*, windpipe.) अनुस्वास नलिकायें; पार्श्व श्वसनी ।

paracentral—(Gk. *para*, beside; L. *centrum*, centre.) अनुकेन्द्री; तदन्तर केन्द्र-पिण्डी ।

paracentric—(Gk. *para*, beside; *kentron*, centre.) अनुकेन्द्रक; पराकेन्द्री ।

parachordal—(Gk. *para*, beside; *chorde*, cord.) अनुसुषुम्नीय; पार्श्वरज्जु; उपास्थि कपाल (*chondrocranium*) के समीप स्थित युग्मीय (*paired*) क्षितिज (*horizontal*) उपास्थि पट्ट ।

parachromatin—(Gk. *para*, beside; *chroma*, colour.) अनुक्रोमेटिन; रंगाक्षम अष्टि पदार्थ (*achromatic nuclear substance*) जिससे तरकुट (*spindle*) रेशे (*fibres*) उद्भव (*rise*) होते हैं ।

paracme—(Gk. *parakme*, deadence) अवपात; अवसाद; पराकाष्ठान्तर । किसी जाति (*species*) या नस्ल या प्रजाति (*race*) की वृद्धि उच्चतम शिखर तक पहुँच कर पुनः कम हो, इसको अवपात या अवसाद कहते हैं ।

paracoel—(Gk. *para*, beside; *koiios*, hollow.) अनुशील; पार्श्व विवर; अग्रमस्तिष्क विवर; पार्श्वगुहा ।

paracondyloid—(Gk. *para*, beside; *kondylos*, knnckle; *eidosis*, form.) अनु-अबुर्दोपम; अनुगुम्ब-टोपम ।

paracone—(Gk. *para*, beside; *konos*, cone.) अनुशंकु; पराशंकु; अग्रशंकुन्दु, ऊर्ध्व चर्बक का अग्र बाह्य शंकु ।

paraconid—(Gk. *para*, beside; *konos*, cone) अनुअघर्कस्प; अग्रोघर कस्प (शंकु); अघर चर्बक का अग्रान्त कस्प ।

paracorolla—(Gk. *para*, beside; L. *corolla*, small crown) परादल ।

paracortex—परावल्कुट ।

paracept

paracept—(Gk. *para*, beside; *kystis*, bladder) परापुटी; पाइरोनिमा (*Pyronema*) की पुंघानी (antheridium) ।

paracyte—(Gk. *para*, beside; *kytos*, hollow) पराकोष्ठ; पराकोशिका ।

paracytoids—(Gk. *para*, beside; *kytos*, hollow; *eidōs*, shape.) पराकोष्ठोंश ।

parademe—(Gk. *para*, beside; *demas*, body.) परान्त कंकाल । गौणान्त कंकाल ।

paraderm—(Gk. *para*, beside; *derma*, skin.) पराच्छद ।

paradesmus—(Gk. *para*, beside; *desmos*, bond.) पराबद्ध ।

paradidymis—(Gk. *para*, beside; *didymos*, testicle.) परा-उपांड; भ्रूणिक मध्य वृक्क के पश्च भाग को बनाने वाली घुमावदार (convoluted) नलिकायें जो वीर्याणु रज्जु (spermatic cord) के अधर भाग के आगे स्थित होती हैं ।

parafacialia—(Gk. *para*, beside; *facies*, face.) पराग्राननी; अनुग्राननी ।

parafibula—(Gk. *para*, beside; L. *fibula*, buckle.) पराफीबुला; अनुफीबुला ।

paraflagellum—(Gk. *para*, beside; L. *flagellum*, whip.) पराकशा; अनुकषा ।

paraflocculus—(Gk. *para*, beside; L. *floccus*, lock of wool.) परागुम्फिका ।

parafrons—(Gk. *para*, beside; L. *frons*, forehead.) परा-ललाटिका; अनुललाटिका; किन्हीं षटपादों या कीटों (insects) में चक्षु (eyes) और ललाटीय सेवनी (frontal suture) के मध्य का क्षेत्र ।

parafrontal—(Gk. *para*, beside; L. *frons*, forehead.) पराललाट; अनुललाट; षटपादों या कीटों (insects) में चक्षु और ललाट सेवनी के मध्य में स्थित कपोलिकाओं (genae) का अविरत भाग ।

paraganglia—(Gk. *para*, beside; *ganglion*, swelling) परागण्ड; अनुगण्ड, परागुच्छिका । जन्तु देह में ओरटा (aorta) या अन्य भागों में विक्षिप्त (scattered) कोशिकाओं के गण्ड रूपी समूह जिनसे एड्री-

नेलोन (adrenelin) आदि रस स्राव होते हैं ऐसा अनुमान लगाया जाता है ।

paragaster—(Gk. *para*, beside; *gaster*, stomach.) परा-आमाशय; पराजठर; छिद्रदेहियों (sponges) की मध्य कोटर या गुहा (central cavity) जिसमें आमाशयिक छिद्र (ostia) खुलते हैं ।

paragastric—(Gk. *para*, beside; *gaster*, stomach.) परा-आमाशयिक; जठराभ गुहा ।

paragastrula—(Gk. *para*, beside; *gaster*, stomach.) परा-गैस्ट्रूला; परा-द्विस्तर भ्रूण ।

paragenesis—(Gk. *para*, beside; *genesis*, descent.) पराजनन; क्रमिक सहजनन; उत्पादन (reproduction) की एक गौण विधि (subsidiary mode) ।

paraglobulin—(Gk. *para*, beside; L. *globus*, globe) परा-ग्लोब्युलिन; रक्त वषा या द्रव (blood serum) का ग्लोब्युलिन ।

paraglossa—(Gk. *para*, beside; *glossa*, tongue) पराग्लोसा; परा-रसनक; पार्श्वजिह्विका ।

paraglycogen—(Gk. *para*, beside; *glyks*, sweet; *genos*, birth.) परा-ग्लाइकोजन ।

paragnath—(Gk. *para*, beside; *gnathos*, jaw.) परा-मैक्सिला; पराहनु; सन्धिपादों (arthropoda) के मैक्सिला (maxilla) का युग्मीय, कोमल, असन्धिक प्रवर्द्धन ।

paragnathous—(Gk. *para*, beside; *gnathos*, jaw.) पराहनु; समहन्वी; परा-मैन्डिबिली; सम-मुखावयवी ।

para-Golgi apparatus—परा-गौलगी पिण्ड; गौलगी-पिण्डों के मध्य में अतिरिक्त कोशिका तत्व ।

paragula—(Gk. *para*, beside; L. *gula*, gullet.) परागुला; परा कण्ठिका; षटपादों या कीटों (insects) के सिर पर गुला या कण्ठिका (gula) से पास का प्रदेश या क्षेत्र (region) ।

paraheliotropism—(Gk. *para*, beside; *helios*, sun; *trope*, turn) पराप्रकाशवृत्ति; पौधों की पत्तियों के किनारों को तीव्र प्रयाश की ओर मोड़ने की वृत्ति ।

paragynous—परिजायांगी ।

parahormone—(Gk. *para*, beside; *hormoein*, to arouse.) परा-उद्दीपक । परा-हार्मोन ।

parahypophysis—(Gk. *para*, beside; *hypo*, under; *phyein*, to grow.) पराहिपोफिसिस; परापिट्युटी पिण्ड ।

paralimnic—(Gk. *para*, beside; *limne*, lake.) परासरसी ।

paralinin—(Gk. *dara*, beside; *linou*, linen thread.) परालिनिन; पराललित सूत्र ।

parallelinervate, parallelodrome—समानान्तर शिरी तंत्रिकीय) ।

paralutein—(Gk. *para*, beside; L. *lutus*, golden yellow.) पराहैम पिण्ड; परापीत पिण्डी; पराल्यूटेन ।

paralyser—निरोधकर ।

paramastigote—(Gk. *para*, beside; *mastrix*, whip.) परापश्चकपी ।

paramastoid—(Gk. *para*, beside; *mastos*, breast; *eidōs*, form) परास्तनोपम ।

paramere—(Gk. *para*, beside; *meros*, part) परा-अंश; अनु-अंश; समांशार्ध; द्विपार्श्वीय (bilaterally) समांशी (symmetrical) आकृति (structure) का आधा भाग ।

parametrium—(Gk. *para*, beside; *metra*, womb.) परासौत्रिक तन्तु । वह सौत्रिक तन्तु (fibrous tissue) जो गर्भाशय (uterus) को आंशिक रूप में घेरे होता है ।

paramitome—(Gk. *para*, beside; *mitos*, thread) परासत्व जाल ।

paramorph—(Gk. *para*, beside; *morpha*, form.) परा-रच, परारूप ।

paramorphism—पराकायांतरण ।

paramylum—(Gk. *para*, beside; *amylon*, starch.) परामाईलम (पैरामाईलम); उपमण्ड; परामाईलीन; स्टार्च (starch) के समान एक पदार्थ विशेष जो कषा-वंशियों (flagellates) में पाया जाता है ।

paranasal—(Gk. *para*, beside; L. *nasus*, nose.) अनुनासा; परानासा ।

paranephric—(Gk. *para*, beside; *nephros*, kidney.) अनुवृक्की; परावृक्की ।

paranephros—(Gk. *para*, beside; *nephros*, kidney.) उपवृक्क, परावृक्कांश ।

paranota—(Gk. *para*, beside; *noton*, back.) परापृष्ठ; परावक्षपृष्ठक; सन्धिपादों (arthropoda) के नोटम (notum), टरगम या पृष्ठिका (tergum) का वह पार्श्व (lateral) वितति (expanded) भाग जिससे पटपादों या कीटों (insects) के विकास में पंखों का बनना माना जाता है ।

paranuclein—(Gk. *para*, beside; L. *nucleus*, kernel.) पराण्डितत्व; पाइरेनिन; पराकेन्द्रित; वास्तविक अण्डित या न्युक्लियस का पदार्थ ।

paranucleus—(Gk. *para*, beside; L. *nucleus*, kernel.) पराण्डित; अणुअण्डित; उपनाभिक; पराकेन्द्रक ।

parapet, paraphyll—(It. *parae*, to guard; *petto*, beacast.) प्राकार; पराचेट; सीएनीमोन (sea-anemone) जन्तुओं में विम्ब के तट के नीचे स्थित गोल देह भित्ति भाँज (fold) ।

phraphyll—(Gk. *para*, beside; *phyllon*, leaf.) परापत्र ।

paraphysis—(Gk. *para*, beside; *physis*, growth.) पराफिसिस; सहसूत्र ।

parapineal—(Gk. *para*, beside; L. *pinēd*, pinecone.) परापीनियल ।

paraplasm—(Gk. *para*, beside; *plasma*, mould.) पराकण; पराद्रव्य; अजीवित कण । कोशिका पदार्थ (cell substance) का वनस्पतिक या ऊनोद्योगी (less active) भाग ।

parapodium—(Gk. *para*, beside; *pous*, foot.) परापद; पार्श्वपाद पैरापोडियम; पौली कीट (polychaetes) के देह खण्डों पर स्थित पार्श्वीय युग्मिक गति कारक अंग (locomotory structure) ।

parapolar—(Gk. *para*, beside; *polos*, pivot.) पराध्रुवीय ।

parapophysis—(Gk. *para*, beside; *apo*, from; *physis*, growth.) अधरानुप्रस्थ प्रवर्धन; पार्श्ववर्ध; पैरापोफिसिस; कशेरुकाय (vertebral centrum) का अनुप्रस्थ प्रवर्धन ।

parapostgenal—(Gk. *para*, beside; L. *post*, after; *gena*, cheek.) परा-ओक्सीपुट ।

paraproct—(Gk. *para*, beside; *proktos*, anus.) परा गुदा पट्ट; गुदीय पट्ट या पोडीकल पट्ट ।

paraprostate—(Gk. *para*, beside; L. *pro*, before; *stare*, to stand.) पराप्रोस्टेट; ऊर्ध्व काउपर (couper) ग्रन्थि ।

parapsid—(Gk. *para*, beside; *hapsis*, arch.) पेरापसिड । एक छिद्री कपाल ।

parapsis—(Gk. *para*, beside; *hapsis*, arch.) पेरापसिस; पराचाप; पार्श्व मध्य पृष्ठिका । मध्य नोटम या (mesonotum) पृष्ठिका का पार्श्व भाग (lateral portion) ।

parapteron—(Gk. *para*, beside; *pteron*; wing.) परापंख; परापक्षकक ।

parapyles—(Gk. *para*, beside; *pyle*, gate.) पराछिद्र; वृद्धित (developing) रेडियोलेरिया (radio-laria) के दो सहायी (accessory) छिद्र ।

paraquadrate—(Gk. *para*, beside; L. *quadra*-*thus*, squared.) पराक्वाडरेट; स्कोमोजल (squamosal) एक कपालीय अस्थि ।

pararectal—(Gk. *para*, beside; L. *rectus*, straight.) परामलाशयी ।

parasematic—(Gk. *para*, beside; *sema*, sign.) पराभ्रमी; पराभ्रमक । दुश्मन को भुलावे में डालने वाला चिन्ह; आकृति या वर्तव ।

paraseme—(Gk. *para*, beside; *sema*, sign.) पराभ्रमक; परासीम ।

paraseptal—(Gk. *para*, beside; L. *septum*, partition.) अनुव्यवधानी; परा जवनिका ।

parasite—(Gk. *parasitos*, from; *para*, beside; *sitos*, food.) परजीवी; परजीव; ऐसा प्राणी जो दूसरे प्राणी के शरीर के अन्दर या साथ अपने लाभ के लिए रहता है या वह प्राणी जो सत्कारी या पोषक (host) के शरीर पर आंशिक या पूर्ण रूप से निर्वाह करता है ।

parasitic—(Gk. *para*, beside; *sitos*, food.) परजीवी ।

parasitic castration—परजीवी जनदनाशन; परजीवी-वन्ध्यता; परजीवी की उपस्थिति के कारण दन्ध्यता, जैसे नर क्रेव में सेकुलाइना (sacculina) की उपस्थिति से ।

parasitism—(Gk. *para*, beside; *sitos*, food.) परजीवता । सहजीवनता (symbiosis) का वह प्रकार

जिसमें एक सहजीवी या परजीवी (symbiont या parasite) सत्कारी या पोषक (host) से लाभ उठाता है ।

parasitology—(Gk. *para*, beside; *sitos*, food; *logos*, discourse.) परजीवी विज्ञान ।

parasphenoid—(Gk. *para*, beside; *sphen*, wedge; *eidos*, form.) पेरास्फीनोइड; कपाल की एक हड्डी ।

parastamen—ब्रन्थ्य पुंकेसर ।

parasternalia—(Gk. *para*, beside; *sternon*, breast) उदरीय पशु ।

parasternum—(Gk. *para*, beside; L. *sternum*, breast bone.) परावक्ष; परास्टर्नम ।

parastichy—(Gk. *para*, besides; *stichos*, row.) परा आर्वाति; पर्ण-विन्यास में द्वितीय आर्वाति (चक्र) ।

parastipes—(Gk. *para*, beside; L. *stipes*, stalk.) परोदवृन्त; पैरास्टाइपीज ।

parasymbiosis—परा सहजीवन ।

parasympathetic—(Gk. *para*, beside; *sympathes*, of like feelings.) परा संवेदी; सह संवेदी; परा अनुकंपी (तंत्र) ।

parasynapsis—परासूत्र युग्मन ।

parasyndesis—(Gk. *para*, beside; *syndesis*, binbing together.) परा संयुजता; वह संयुजता जिसमें समरचन (homologous) क्रोमोसोम (chromosomes) लम्बाई में संयोग (conjugate) करते हैं ।

parately—(Gk. *para*, beside; *telos*, end.) परा विकास; ऐसा विकास (evolution) जो जाति से असम्बन्धित (unrelated) पदार्थ से होता है और जिसके कारण केवल ऊपरी समानता (superficial resemblance) होती है ।

paratestis—(Gk. *para*, beside; L. *testis*, testicle.) परादीर्याणु ग्रन्थि ।

parathyrin—(Gk. *para*, beside; *thyreos*, shield.) पैराथाइरिन; पैराथोरमोग; पैराथाइरोइड के अन्तःस्राव का प्रमुख तत्व जिससे कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय नियन्त्रित होता है ।

parathyroid—(Gk. *para*, beside; *thyreos*, shield; *eidos*, form) पैराथाइराइड; परावटु; परा चुल्लिका ग्रन्थि । नलिका हीन (endocrine) ग्रन्थि (gland)

विशेष । चतुष्पाद कशेरुकों (tetrapod vertebrates) की एक युग्मिक (paired) अन्तःस्त्रावी ग्रन्थि । ये ग्रन्थि सामान्यतः थाइरायड ग्रन्थि के समीप होती है केवल कुछ प्रजातियों में थाइरायड के अन्दर होती है । ये क्लोम कोष (gill pouches) से वर्द्धित होती है । इसका हार्मोन एक प्रोटोन होता है जो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के वितरण को नियंत्रित करता है । इसके हार्मोन को शरीर में पहुँचा देने से कैल्शियम अस्थि से रक्त में पहुँचता है । इसकी न्यूनता रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है जिससे टिटनी (tetany) नामक रोग होता है ।

paratoid—(Gk. *parateinein*, to extend along.) पराटोइड; पैराटोइड; किन्हीं द्विघाजीवी (amphibians) की पीठ पर दो पंक्तियों में पाई जाने वाली विप ग्रन्थियाँ ।

paratomy—(Gk. *para*, beside; *tome*, cutting.) पूर्व पुनरुत्पादन भञ्जन; किन्हीं खण्ड देहियों (annelids.) का वह भञ्जन (fission) द्वारा उत्पादन (reproduction) जिसमें पूर्वगत पुनरुत्पादन (antecedant regeneration) अवश्य होता है । (देखिए—architomy) ।

paratonic—(Gk. *para*, beside; *trephein*, nourish.) परोत्तेजी ।

paratrophic—(Gk. *para*, beside; *trephein*, to nourish.) परापोषी; परापोष्य ।

paratype—(Gk. *para*, beside; *typos*, image.) परादर्श; अपरप्ररूप ।

paravesical—(Gk. *para*, beside; L. *vesica*, bladder.) पराकोषिका ।

paraxial—(Gk. *para*, beside; L. *axis*.) पराक्षी; उपाक्षीय ।

parazoa—(Gk. *para*, beside; *zoon*, animal.) पैराजोआ; परा जन्तु ।

parencephalon—(Gk. *para*, beside; *engekephalos*, brain.) परा कपाल; सैरीब्रल गोलाद्धों (cerebral hemispheres.) में से एक ।

parenchyma—(Gk. *para*, beside; *engchyma*, infusion.) पैरनकाइमा; मूद्दतक, अगाधारी; निर्यासक ।

parenchymalia—(Gk. *para*, beside; *engechyma*, infusion.) निर्यासिक स्पीक्यूल ।

parenchymatous—(Gk. *para*, beside; *engechyma*, infusion.) निर्यासकी ।

parenchymula—(Gk. *para*, beside; *engechyma*, infusion.) पैरनकाइमुला; छिद्र देहियों का अर्भक विशेष ।

parent—(L. *parere*, to bring forth.) मूल; पितृ; पितर; जनक ।

parent cell—पितृ कोशिका ।

parent generation—पैतृक श्रेणी ।

parental—(L. *parere*, to bring forth.) पैतृक ।

parhomology—(Gk. *para*, beside; *homos*, alike; *logos*, discourse.) व्यक्त समरचनता ।

parichnos—(Gk. *para*, beside; *ichnos*, trace.) पराकिण; किन्हीं लुप्त फर्न में द्रववाहक गुच्छ के पार्श्वों में दो पार्श्व किण (scars) ।

paries—(L. *paries*, wall.) प्रच्छद् ।

parietal—(L. *paries*, wall.) प्राचीर; प्रावृतक; भित्तीय ।

parietal bone—पैराइटल अस्थि; भित्तिकारिस्थि; खोपड़ी या कपाल (skull) के छत्त की एक अस्थि ।

parietal lobe—स्तनी के मस्तिष्क का एक दल, पैराइटल दल; भित्तीय पालि ।

parietofrontal—(L. *paries*, wall; *frons*, forehead) पैराइटोफ्रन्टल (कपालास्थि); जैसे डिपनोई (Dipnoi) में पैराइटल्स और फ्रन्टल्स के स्थान पर पैराइटोफ्रन्टल ।

parietomastoid—(L. *paries*, wall; Gk. *mastos*, breast; *eidos*, form.) पैराइटोमेस्टोइड; मेस्टोइड (mastoid) और पैराइटल को जोड़ने वाली सेवनी (sture) ।

parieto-occipital—(L. *paries*, wall, *occiput*, back of head.) पैराइटो-ऑक्सीपिटल (दरार); पैराइटल और ऑक्सीपिटल पालियों के बीच की दरार (fissure) ।

parietotemporal—(L. *paries*, wall; *tempora*, the temples.) पैराइटो-टेम्पोरल (घमनीशाखा) । मध्य प्रमस्तिष्कीय घमनी की एक शाखा जो पैराइटो-टेम्पोरल क्षेत्र में होती है ।

parieto-vaginal—(L. *paries*, wall; *vagina*, sheath.) पैराइटो-वेजाइनल (पेशियाँ); ब्रायोजोआ (Bryozoa) में निर्वतनक युगल पेशी ।

- pectinal—(L. *pecten*, comb.) प्रसाधनी; पेक्टन सम्बन्धी ।
- pectinate—(L. *pecten*, comb.) प्रसाधनक; कंकताकार ।
- pectineal—(L. *pecten*, comb.) पेक्टीनियल । पक्षियों के प्यूबिस (pubis) अस्थि का प्रवर्धन ।
- pectinellae—(L. *pectinella*, small comb.) प्रसाधनिक ।
- pectinirhomb—(L. *pecten*, comb; Gk. *rhombos*, wheel.) ककती चक्र ।
- pectocellulose—(Gk. *pektos*, congealed; L. *cellula*, small cell) पेक्टो सेलुलोज ।
- pectoral—(L. *pectus*, breast.) स्कन्ध; अंस; छाती (सीना) सम्बन्धी; अंसीय ।
- pectoral girdle—अंसवलय; स्कन्ध वलय; अंस भेखला ।
- pectoralis major and minor—अंसीय पेशी; वृहत् एवम् लघु अंसीय मांस पेशियाँ जो सीना, हाथ और कन्धे की हड्डियों को जोड़ती है ।
- pectose—(Gk. *pektos*, congealed.) पेक्टोज; पादप कोशिका की क्रोशिका भित्ति का कार्बोहाइड्रेट तत्व, जो पेक्टोसीनेस (pectosinase) एन्जाइम के प्रभाव से पेक्टिन और सेलुलोज में परिणत हो जाता है ।
- pectus—(L. *pectus*, breast.) पेक्टस; उरस ।
- pedal—(L. *pes*, foot.) पाद; पैर; पाँव या पाद सम्बन्धी; पादीय, पदिक ।
- pedal ganglia—पाद गण्ड; पाद-गुच्छिका ।
- pedate—(L. *pes*, foot.) पादी; पादोपम; पैर के आकार का; पंजाकार ।
- pedatipartite—(L. *pes*, foot; *partitus*, divided.) पिडेटीपारटाइट; पश्च हस्ताकार ।
- pedatisect—(L. *pes*, foot; *sectus*, cut.) पाद मध्य विच्छिद ।
- pediceal—वृंत; पुष्पवृंत ।
- pedicellarie—(L. *pediculus*, small foot.) लघु संदंशाकार; कुछ एकाइनोडर्म (echinoderm) के तल पर पाई वाली लघु संदंशाकार संरचनायें ।
- pedicellate—(L. *pediculus*, small foot.) सवृंती ।
- pedicellus—(L. *pediculus*, small foot.) यष्टिक; यूकापूर्ण ।
- pedicle—(L. *pediculus*, small foot.) यष्टि; यूका; वृंतक ।
- pedipalpus—(L. *pes*, foot; *palpare*, to feel.) पेडीपैल्पस; पश्च-स्पर्शक; पदस्पर्शक ।
- pedigamy—(Gk. *pais*, child; *gamos*, union.) तरुण मिलन; विशिष्ट स्वयं निषेक । एक कोष्ठीय तन्तुओं में स्वयं दिपेक (autogamy) का वह प्रकार जिसमें जन्तु (gametes) केन्द्रक (nucleus) के बहु विभाजन (multiple division) के पश्चात् बनते हैं ।
- pedogenesis—Gk. *pais*, child; *genesis*, descent.) तरुणोत्पादन; अपवोत्पादन; मृदाजनन ।
- pedogenic—(Gk. *pedon*, soil; *gennaîn*, to produce.) मृत्तिकोत्पादी; मृदाजनिक ।
- pedology—(Gk. *pedon*, soil; *logos*, discourse.) मृत्तिका विज्ञान; मृदा-विज्ञान ।
- pedonic—(Gk. *pedon*, ground.) सरसक ।
- peduncle—(L. *pendunculus*, small foot.) (१) वृन्त । (२) घवल सूत्र पट्ट (मस्तिष्क के विभिन्न भागों को संयुक्त करने वाला) । (३) सन्धिपादों (arthropoda) में वक्ष और घड़ (abdomen) को जोड़ने वाला पतल भाग (४) पुष्पावलि वृन्त ।
- pedunculate—(L. *pedunculus*, small foot.) वृन्ती; वृन्तकी ।
- peg—कीलक; खूंटी ।
- pelage—(F. *pelage*, fur.) लोमश; महीन रोम से ढका हुआ ।
- pelagic—(L. *pelagus*, sea.) अम्बुधी; पेलैजिक; वेलापवर्ती; सागर वासी; तलप्लावी ।
- pelasgic—(L. *pelasgus*, pelasgian.) अस्थिर वासी ।
- pellicle—(L. *pellicula*, small skin.) पेलीकिल; प्रावृत्त; तनुत्वकी ।
- pelliculate—(L. *pellicula*, small skin.) पेलीकिल युक्त; प्रावृत्ती; तनुत्वकी ।
- pellions—(Gk. *pella*, cup.) पट्ट मण्डल; पट्टमुद्रा ।
- pelma—(Gk. *pelma*, sole.) पाद तल; पाँव का तलुआ ।

pelophilous

pelophilous—(Gk. *pelos*, clay; *philein*, to love.)
मृत्तिका प्रेमी; मृत्तिका जात; मिट्टी पर उगने (वढ़ने)
वाला ।

peloria—(Gk. *pelorios*, monstrous) अनुलोम ।

peloric—(Gk. *pelorios*, monstrous) सृष्टिक्रम बाह्य;
अक्रमक्रमी (पुष्प); ऐसा पुष्प जो सामान्यता अक्रमिक
होता है क्रमिक हो जाता है ।

pelta—(Gk. *pelte*, shield) फलक ।

peltate—(Gk. *pelte*, shield.) फलकी; छत्रिकाकार ।

pelvic—(L. *pelvis*, basin.) श्रोणीय; वस्ति; पेहू
सम्बन्धी; श्रोणी ।

pelvic girdle—श्रोणी वलय; कटिचक्र; श्रोणि मेखला ।

pelvis—(L. *pelvis*, basin.) वस्ति; श्रोणि; श्रोणि
प्रदेश ।

pelvisternum—(L. *pelvis*, basin, L. *sternum*,
breast bone.) उपनितम्बास्थि; श्रोणि-उरोस्थि ।

pen—(L. *penna*, feather.) (१) पर्ण मध्य शिरा;
(२) सिफलपोडा (cephalopoda) का खूंझ
(gladius) ।

pendulous—(L. *pendere*, to hang.) अप्रलम्बी;
लोलकी; निलंबी ।

penetrance—(L. *penetrare*, to penetrate.) जीन
प्रभव; अभिक्षणता ।

penial setae—गुदा लोम; मैथुन-शूक ।

penicillate—(L. *penicillum*, painter's brush.)
लोमशिखरी; वर्तिकोपम; कूर्चकार ।

penicillus—(L. *penicillus*, painter's brush.)
वर्तिकी; कूर्चिका ।

penis—(L. *penis*, penis.) शिश्न; नरंग (नरांग); नर
संयोगांग; लिंग ।

pennaceous—(L. *penna*, feather.) पंखी; पिच्छी ।

pentacapsular—(Gk. *pente*, five.) L. *capsula*,
capsule, पंचपुटी ।

pentacarpellary—(Gk. *pente*, five; *karpus*,
fruit.) पंच अंडपी ।

pentachenium—(Gk. *pente*, five; *a*, nob;
chainein, to gape) पंच अंडपी भिदुर (schizocarp) ।

pentacoccus—(Gk. *pente*, five, *kokkos*, karnel.)
पंचवीजी या पंच अंडपी ।

pentacrinoid—(Gk. *pente*, five; *kokkos*, kernel.)
पेन्टाक्रिनोइड (अर्भक विशेष) ।

pentactinal—(Gk. *pente*, five; *akis*, ray.) पंच
किरणी; पंच शाखीय ।

pentacula—(Gk. *pente*, five; L. *aculeus*, prickle.)
पंच स्पर्शकी । कंटक देहियों (echinoderms) के जीवन
वृत्त (life history) में पंच स्पर्शक (five tentacles)
युक्त स्थिति ।

pentacylic—(Gk. *pente*, five; *kyklos*, circle.)
पंच वृत्ती ;

pentad—पंचतय; पंच ।

pentadactyl—(Gk. *pente*, five; L. *findere* to
cleave.) पंचांगुलिक; पंचांगुलि ।

pentadelphous—(Gk. *pente*, five; *adelphous*,
brother.) पंच संघी ।

pentadactyl limb—पंचांगुलि अवयव; इस प्रकार का
अवयव कशेरुकों के चार वर्गों—एम्फीबिया, सृपी, पक्षी
और स्तनी में होता है । अवयव तीन भागों—उर्ध्व बाहु
(upper arm) या उरु (thigh); अग्रबाहु (fore arm)
जंघा (shank), और हाथ या पाँव । अन्तिम भाग में
पाँच उँगलियाँ होती हैं इसी कारण इस अवयव को पंचांगुलि
अवयव संज्ञा दी गई है यह अवयव भौमिक जीवन के
हेतु एक अनुकूलता है ।

pentafid—(Gk. *pente*, five; *findere*, to cleave.)
पंचविभक्ती ।

pentagonal—(Gk. *pente*, five; *gonia*, angle,) पंच
कोणी ।

pentagynous—(Gk. *pente*, five; *gynē*, woman.)
पंच वर्तिकी; पंच शूक्रिकी ।

pentamerous—(Gk. *pente*, five; *meros*, part.)
पंचभागी; पंचांश ।

pentandrous—(Gk. *pente*, five; *aner*, male.) पंच
पुंकेसरी ।

pentapetalous—(Gk. *pente*, five; *petalon*, leaf.)
पंचदली ।

pentaploid—(Gk. *pente*, five; *haploos*, simple;

eidos, form.) पंच गुणक सूत्री; पंच गुणित; पांच गुना परम्परा सूत्रों या गुण सूत्रों (chromosomes) की संख्या वाला ।

pentapterous—(Gk. *pente*, five; *pteron*, wing.) पंच पंखी; पंच पक्ष ।

pentarch—(Gk. *pente*, five; *arche*, beginning.) पंच वृत खण्डी ।

pentasepalous—(Gk. *pente*, five; F. *sepale*, sepal.) पंच बाह्यदली ।

pentastichous—(Gk. *pente*, five; *stichos*, row.) पंच पंक्ति ।

pepo—(Gk. *pepon*, melon.) पीपी (कुकरवितेसी कुल का फल); यह अधोवर्ती (इन्फ़ीरियर), एक कोष्ठी या त्रिकोष्ठी युक्ताण्डप जायांग (syncarpous gynaeceum) से विकसित होता है । इनमें बाह्यफल भित्ति एक दृढ़ छिलका (rind) बनाती है तथा बीज प्लेसेण्टा (बीजाण्डासन) से लगे होते हैं जैसे खीरा, ककड़ी, लोकी, कदू, खरबूजा आदि ।

pepsin—(Gk. *pepsis*, digestion.) पेप्सिन; आमाशय का पाचक क्षोभक रस जो नमक के तेजाव (hydrochloric acid) के साथ मिलकर या उसकी उपस्थिति में प्रोटीन (protein) पर प्रभाव डालता है और उसको पेप्टोन (peptone) में बदल देता है ।

peptic—(Gk. *peptin*, to digest) पेपसीनोजन; पेपसीनोत्पादक (पाचक उद्दीपक) ।

peptone—पेप्टोन ।

peptonephridia—(Gk. *pepsis*, digestion; *nephros*, kidney.) पाचकोत्सर्गिका; पाचक-उत्सर्गिका ।

perch—(Gk. *perke*, perch.) वासयष्टि; संडी; पक्षिसाद ।

percnosome—(Gk. *perknos*, dark; *soma*, body.) गूढ़ पिण्ड ।

percurrent—(L. *percurrens*, running through.) सर्वधावित; आर्द्ध्य वर्षी; समस्त लम्बाई में फैली हुई अक्षर से चोटी तक ।

peregrine—प्रभ्रमी ।

perceion—(Gk. *peraioun*, to convey.) वक्षान; केंकड़ा वंशी (crustacea) का वक्ष ।

pereiopods—(Gk. *peraioun*, to convey; *pous*, foot.) वक्षानपाद; घड़ावयव ।

perennation—(L. *per*, through; *annus*, year.) वर्षायुसता (वर्ष-आयुसता) ।

perennial—(L. *per*, through; *annus*, year.) वर्षायुस; बारहमासी; बहुवर्षी; चिरस्थायी ।

perennibranchiate—(L. *per*, through; *annus*; year; Gk. *branchia*, gills.) अपातिक्लोम; आयुस गिली; समस्त या यावत जीवन गिल या गिलफड़ा रहने वाला जैसे कुछ एक द्विधावासी या एम्फीवियनस (amphibians) ।

perfect—(L. *perfectus*, finished.) पूर्ण; अखण्ड; निर्दोष; निपुण; परिपूर्ण; आदर्श; यथार्थ ।

perfoliate—L. *per*, through; *folium*, leaf.) छिद्री-पर्ण; ऐसी पत्ती (पर्ण) जिसमें आधार पालि इस प्रकार मिली हों कि उनमें से स्तम्भ निकलता हुआ सा प्रतीत हो ।

perforate—(L. *perforare*, to bore through.) छिद्री; छेद युक्त ।

perforator—(L. *perforare*, to bore through.) वेधक; वेधनिका ।

perforatorium—(L. *perforare*, to bore through.) वेधक शीर्ष; छिद्रकांगक; प्रवेधक, (देखिये Acrosome) ।

perhydridase—(L. *per*, through; Gk. *hydor*, water.) पृरहाइड्राइडेस; एक क्षोभक विशेष ।

perianth—(Gk. *peri*, around, *anthos*, flower.) पुष्पाच्छद्, परिदलपुंज; जब बाह्यदलपुंज और दलपुंज एक ही आकार व रंग के हों, तो ऐसी दशा में आवर्ती को परिदलपुंज कहा जाता है । देखिये polyphyllous-पृथक परिदलीय; gamöphyllous-संयुक्त परिदलीय ।

periblast—(Gk. *peri*, around; *blastas*, bud.) (१) बाह्यस्तर, परिकोरक; (२) पटपाद या कीट (insect) भ्रूण (embryo) की एक स्तर पट (blastoderm) ।

periblastic—(Gk. *peri*, around; *blastas*, bud.) बाह्यस्तरी; बाह्यस्तर सम्बन्धी ।

periblastula—(Gk. *peri*, around; *blastos*, bud.) एक स्तरपरि; उपरि एक स्तर; ऐसा एक स्तर

(blastula) जो बाह्यस्तर (periblast) विभाजन या खण्डन (segmentation) से बना हो ।

periblem—(Gk. *peri*, round; *blema*, coverlet.) वल्कुटजन; परिकृतक; त्वचाजन (dermatogen) और रंभजन (plerome) के वधित बिन्दुओं पर स्थिति आधार (ground) या मौलिक (fundamental) उतक के स्तर ।

peribranchial—(Gk. *peri*, around; *brangchia*, gills) गिलोपरि; परिक्लोम ।

pericardiac-perichardial—(Gk. *peri*, round; *kardia*, heart) हृत्तोपरि; हृद्वेष्टनी; परिहृत्य; परिहृदा ।

pericardium—(Gk. *peri*, round; *kardia*, heart.) हृदावरण; हृदयावरण; परिहृद; हृद्वेष्टन; हृदय को ढकने वाला झिल्ली (वन्धक तन्तु) ।

pericarp—(Gk. *peri*, around; *karpos*, fruit.) फलभित्ति; फलावरण; परिकफलभित्ति; फल के अंदाशय की भित्ति ।

pericellular—(Gk. *peri*, round; L. *cellnia*, smal(cell.) परिकोष्ठज ।

pericentral—(Gk. *peri*, round; *kentron*, centre.) परिकेन्द्री ।

pericentric—(Gk. *peri*, round; *kentron*, centre.) परिकेन्द्रक ।

perichaetial—(Gk. *peri*, around; *chaite*, hair.) परिधानी सम्बन्धी; परिधानीय ।

perichaetium—(Gk. *peri*, around; *chaite*, hair.) परिधानी; परिलिगधानी, ब्रायोफाइटा में स्त्रीधानी archegonium) या पुंधानी (antheridium) को घेरे हुए कला या पर्ण ।

perichondral—(Gk. *peri*, round; *chondros*, cartilage) परि उपस्थिज; पर्युपास्थिक ।

perichondrium—(Gk. *peri*, round; *chondros*, cartilage.) उपास्थि वेष्टन, पर्युपास्थि; वह सौत्रिक आवरण जो उपास्थि को घेरे रहता है ।

perichordal—(Gk. *peri*, round; *charde*, cord.) परिपृष्ठ दण्डी; पृष्ठदण्ढोपरि; परिपृष्ठ रज्जुक; परि-रज्जुक ।

perichrome—(Gk. *peri*, round; *chroma*, colour.) परिनिरल पिण्डी ।

pericranium—(Gk. *peri*, around; *kranion*, skull.) परिकपाल; कपाल वेष्टन; कपाल वरण; कपाला-स्थिच्छद ।

pericycle—(Gk. *peri*, around; *kyklos*, circle.) परिरम्भ ।

pericyte—(Gk. *peri*, around; *kytos*, hollow.) परिकोष्ठ; परिकोशिका ।

peridental—(Gk. *peri*, round; L. *dens*, tooth.) परिदन्त; दन्त वेष्टन ।

periderm—(Gk. *peri*, round; *derma*, skin.) त्वकोपरि; परिचर्म; परित्वक; बाह्य वल्क; परिचर्म ।

peridesm—(Gk. *peri*, round; *desme*, bundle) परिसंघहन-बंधल ।

peridesmium—(Gk. *peri*, round; *desmos*, band.) तन्तु वेष्टन; परितन्तु ।

perididymis—(Gk. *peri*, around; *didymos*, testicle.) वृषणोपरि ।

peridial—(Gk. *peridion*, small wallet.) फलक फल भित्तिक ।

peridiolum—(Dim. of Gk., *peridim*, small wallet) लघु पेरीडियम ।

peridium—(Gk. *peridium*, small wallet.) पेरी-डियम; कवकफल भित्ति; बाह्यावरण; फूत्कार कन्दुक; कवक तन्तु वल्कल ।

peridural—(Gk. *peri*, around; L. *durus*, hard.) परिस्तिकाच्छदी । वृद्धि (growth) के उत्तर पक्ष में परिमरितकाच्छद स्थल (perimeningeal space) ।

perientric—(Gk. *peri*, around; *enteron*, gut.) परिसंत्री ।

perienteron—(Gk. *peri*, around; *enteron*, gut.) अरि अंत्र ।

perifoliary—(Gk. *peri*, around; L. *folium*, leaf.) परिपर्णतटी ।

periganglionic—(Gk. *peri*, round; *ganglion*, little tumour,) परिगण्डीय, परिगुच्छिकीय; परि-गुच्छिक ।

perigastric

perigastric—(Gk. *peri*, around; *gaster*; stomach.) परि देहांगिक; परि आमाशयिक ।

perigastrium—(Gk. *peri*, around; *gaster*, stomach.) देहकुहर या सीलम; उदर-कोटर ।

perigastrual—(Gk. *peri*, round; *gaster*, stomach.) परिद्वस्तर ।

perigemmal—(Gk. *peri*, round; *gemma*, bud.) परिकलिकीय; परिकोरक; परिस्वादुकोरक ।

perigonium—(Gk. *peri*, round; *gona*, seed.) परि जनन पुट; परिगोनियम ।

perigynium—(Gk. *peri*, round; *gyne*, female) स्त्रीधानी आवरण; परिस्त्रीधानी ।

perigynous—(Gk. *peri*, round; *gyne* female) परिजायांगी; बाह्यदलपुंज, दलपुंज तथा पुंकेसरी के जायांग (*gynoecium*) को घेरे हुए ।

perigyne—(Gk. *peri*, round; *gyne*, female) परिजायांगी बिन्यास ।

perihaemal—(Gk. *peri*; round; *haima*, blood.) परिरक्तिय, परिहीमल ।

perikaryon—(Gk. *peri*, around; *karyon*, nucleus.) परिअण्डि; परिकेन्द्रक; परिन्यूक्लियस ।

perilymph—(Gk. *peri*, round; *L. lymph*, water.) पेरीलिम्फ; परिलिम्फ परिलसीका । कर्ण कोटर (auditory capsule) और कर्ण यन्त्र (internal ear) के मध्य के स्थल का द्रव ।

perimedullary—(Gk. *peri*, around; *L. medulla*, marrow, परिमज्जा; तने के पिथ (मज्जा) को घेरे हुए (क्षेत्र) ।

perimeningeal—(Gk. *peri*, round; *meninx*, membrane) परि मस्तिष्काच्छदी ।

perimetrium—(Gk. *peri*, round; *metra*, womb. गर्भाण्डय वेष्टन; परिगर्भाण्डय ।

perimysium—(Gk. *peri*, round; *mys*, muscle.) पेशी बन्धक; परिपेशिका; पेरीमाइसियम, कई एक रेशों और पुट्टों को बाँधने वाला बन्धक तन्तु ।

perineal—(Gk. *perinaion*, part between anus and scrotum.) पेरीनियल, मूलाधार सम्बन्धी; वृषण (testicle) और पायु (anus) के मध्य के स्थान सम्बन्धी ।

perinaeum—(Gk. *perinaion*, part between anus and scrotum) पेरीनियम, मूलाधार ।

perinephrium—(Gk. *peri*, round; *nephros*, kidney.) वृक्कावरण; परिवृक्क ।

perineurium—(Gk. *peri*, round; *neuron*, nerve.) परिनाड़ी सूत्र, परितंत्रिका सूत्र; परितंत्रिका ।

perineuronal—(Gk. *peri*, round; *neuron*, nerve.) परिनाड़ी कोष्ठक; नाड़ी कोष्ठावरण; तंत्रिका कोषिकावरण ।

perinium—(Gk. *peri*, round; *is*, fibre) परिलघु-बीजाणु; एपी-स्पोर; किन्हीं फर्न में लघुस्पोर बाह्यावरण ।

period—(Gk. *periodos*, circuit.) काल; समय; युग; आवर्त काल; भ्रवधि; कल्प ।

periodicity—(Gk. *peridos*, circuit.) नियत कालता; आवर्तिता ।

periodontal—(Gk. *peri*, round; *odous*, tooth.) दन्तावरण; परिदन्त; दन्त वेष्टन ।

perioesophageal—(Gk. *peri*; round; *oisophagos*, gullet.) परिनिगरणी, परिग्रसनी ।

periople—(Gk. *peri*, round; *hoplon*, shield.) क्षुरावरण; परिखुर ।

periopticon—(Gk. *peri*; round; *opsis*, sight.) परिचक्षु; उपचक्षुक; परिअक्षिक । षटपादों या कीटों (insects) में चक्षुदलों (optic lobes) का चक्षु के सबसे समीप का क्षेत्र (zone) ।

periosteum—(Gk. *peri*, round; *osteon*, bone) बाह्य या परि अस्थि वेष्टन; अस्थिच्छद; पर्यस्थिकला; अस्थिआवरण ।

periostracum—(Gk. *peri*, round; *ostrakon*, shield.) पेरीओस्ट्रेकम; परिशुक्तिज; परिकवच; कर्पूर बाह्यस्तर ।

periotic—(Gk. *peri*, round; *ous*, ear.) पेरी; ओटिक; परिकर्ण; परिकर्णिक ।

peripetalous—(Gk. *peri*, round; *petalon*, leaf.) परिदली ।

peripharyngeal—(Gk. *peri*, round; *pharyngx*, gullet.) परिकण्ठीय ।

peripheral—(Gk. *peaipherein*, to move round.) परिवेशी; परिधि—; केन्द्र से परे; परिधीय; परिरेखीय ।

peripheral nervous system—परिधि तंत्रिका तंत्र;

केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को छोड़ कर शेष समस्त तंत्रिका तंत्र । ये मुख्यतः तंत्रिकाओं का होता है जो कार्यकर (effectors) और ग्राही (receptors) से लगी होती है । वे तंत्रिका सूत्र जो ग्राही को केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलते हैं संवेदीय तंत्रिका सूत्र (sensory nerve fibres) होते हैं तथा जो कार्यकर से केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को जोड़ते हैं गति कारक तंत्रिका सूत्र होते हैं । एक ही तंत्रिका में यह साथ-साथ हो सकते हैं पर पारस्परिक क्रिया अन्तर्ग्रथन (synapse) के माध्यम से ही कर पाते हैं ।

peripheral—(Gk. *peripherein*, to move round.) परिभ्रूणपोषक; बीज में भ्रूणपोष (endosperm) को घेरे हुए भ्रूण ।

periphysis—(Gk. *peri*, round; *physis*, growth.) परिऋद्धि ।

periplasm—(Gk. *peri*, around; *plasma*, mould.) केन्द्र सत्व; परिसत्व; परिद्रव्य ।

periplasmodium—(Gk. *peri*, around; *plasma*, model; *eidos*, form) परिप्लासमोडियम; परिप्लज्मोडियम ।

periplast—(Gk. *peri*, round; *plastos*, moulded.) परिकण; केन्द्र पिण्ड; परिद्रव्यक ।

peripneustic—(Gk. *peri*, round; *pneustikos*, pert, breathing) पार्श्व श्वास छिद्री; परिश्वासी; परिरन्ध्र (श्वासन तंत्र) ।

periproct—(Gk. *peri*, round; *proktos*, anus.) परिपायु; परिगुद; परिगुदक; परिप्राक्ट ।

perisarc—(Gk. *peri*, round; *sarx*, flesh) बहिद्रव वाह्यावरण; परिकला ।

periscleral—(Gk. *peri*, round; *skleros*, hard.) परिस्कलीरा ।

perisome—(Gk. *peri*, round; *soma*, body.) परिस्कलीरा ।

perisome—(Gk. *peri*, round; *soma*, body.) परिपिण्ड; परिभित्ति; देहभित्ति; परिकायिक; त्वक्; शूल देहियों (echinoderms) का त्वक् (integument) ।

perisperm—(Gk. *peri*, around; *sperma*, seed.) परिरीर्याणु; डिम्बाण्ड अणुशेष; परिभ्रूण पोष ।

perispiracular—Gk. *peri*, round; *L. spiraculum*, air hole.) परिवात छिद्री ।

perispore—(Gk. *peri*, around; *sporos*, seed.) स्पोरावरण; परि स्पोर; बीजाणु चोल ।

perissodactyl—(Gk. *perissos*, odd; *daktylos*, finger) त्रिसमांगुलिक; एक खुरीय; पेरिसोडैक्टाइला । जैसे घोड़ा, टेपीर (tapirs), गेंडा (rhinoceros) आदि ।

peristalsis—(Gk. *peri*, round; *stellein*, to draw in.) परिस्टोलसिस; परिकुंचन; क्रमाकुंचन; अन्न प्रणाली का कृमिसम-आकुंचन ।

peristaltic—(Gk. *peri*, round; *stellein*, to draw in.) परिकुंचन; परिकुंचनी; क्रमाकुंचक ।

peristasis—(Gk. *peri*, round; *stasis*, standing.) परिटेसिस; परिस्थिति ।

peristatic—(Gk. *peri*, round; *stasis*, standing) परिस्थतिक ।

peristethium—(Gk. *peri*, round; *stethos*, breast.) परिमध्य स्टेनम ।

peristigmatic—परिवात छिद्री ।

peristome—(Gk. *peri*, round; *stoma*, mouth.) परिमुख; परिछिद्र, पेरिस्टोम ।

peristomium—(Gk. *peri*, round; *stoma*, mouth.) परिमुख—; परिमुख खण्ड; परितुंड; पेरिस्टोमियम ।

perisystole—(Gk. *peri*, round; *systole*, drawing together.) हृतसंकोचान्तर । प्रसार तथा संकुचन के मध्य का अन्तर ।

perithecium—(Gk. *peri*, round; *theka*, case.) पेरीथीसियम; फ्लास्क रूपी ऐस्कोकार्प ।

peritoneal—(Gk. *peri*, around; *thela*, nipple.) परिकेशिका; केशिकावरण ।

peritoneum—(Gk. *peri*, round; *teinein*, to stretch.) अन्त्रवेष्टनी; अन्त्र वेष्टन सम्बन्धी ।

perithelium—(Gk. *peri*, around; *teinein*, to stretch.) अन्त्र वेष्टन; गह्वर वेष्ट; उदरास्तर; उदर्या; पर्युदर्या ।

peritreme—(Gk. *peri*, round; *trema*, hole.) परिद्वार; कर्परद्वार तट ।

peritrichous

peritrichous—(Gk. *peri*, round; *thrix*, hair.)
परिरोमी; परिपक्षमात्र ।

peritrochium—(Gk. *peri*, round; *trochos*,
wheel.) वृत्तन्त्री; गोलाकार तन्त्रों से युक्त अर्भक या
लार्वा (larva) विशेष ।

peritrophic—(Gk. *peri*, round; *trophe*, food.)
परिपौष्टिक; परिवृत्ति; परिपोष ।

periurethral—(Gk. *peri*, round; *ourethra*,
from ouron.) परिशिश्न ।

perivascular—(Gk. *peri*, round; L. *vasculum*,
small vessel.) परिरक्तनलिका; परिवाहिक ।

perivisceral—(Gk. *peri*, round; L. *viscera*,
bowels) परिदेहांगी; परिदेहांग; पर्यंतरंग ।

perivitelline—(Gk. *peri*, round; L. *vitellus*,
yolk of egg.) परियोक; परिडिम्बान्न; परिपीतक ।

perizonium—(Gk. *peri*, around; *zone*, girdle.)
परिमेखली ।

permanent cartilage—स्थायी (स्थायी) उपास्थि; सर्व-
कालीन उपास्थि । ऐसी उपास्थि जो यावत (समस्त)
जीवन अस्थि में परिणित नहीं होती है ।

permanent teeth—स्थायी (स्थायी) दांत; स्थिर दन्त ।

permanent tissue—स्थायी ऊतक ।

Permian—पर्मीयन; परमियन; पर्मियन ।

peronate—(L. *peronatus*, round-booted.) उर्णा-
वृत् ।

peroneal—(Gk. *perone*, fibula) फिबुला सम्बन्धी ।

peroneotibial—(Gk. *perone*, fibula; L. *tibia*,
tibia.) पेरानियोटिबियल; फिबुला (fibula) और टिबिया
(tibia) अस्थियों के क्षेत्र में स्थित ।

peroral—(L. *per*, through; *os*, mouth.) परि-
मुखी ।

peroxidase—(L. *per*, through; Gk. *oxys*,
sharp.) पेर-ऑक्सीडेस (एन्जाइम); ऑक्सीजन पर-
ऑक्साइड को क्रियाशील करने वाला एन्जाइम ।

perpendicular—लम्ब ।

perradius—(L. *per*, through; *radius*, radius.)
मुख्य व्यासार्ध ।

perseveration—(L. *perseverare*, to persist.) अभि-
निवेशता ।

persistent—(L. *persistere*, to preserve.) अजर;
अप्राती ।

person—(L. *persona*, person.) जन; व्यक्ति; शरीर;
देह ।

personate—(L. *personatus*, masked.) छद्मवेशिन ।

perspiration—(L. *per*, through; *spirare*, to
breathe.) स्वेद; पसीना; स्वेदन ।

pertusate—(L. *pertusus*, thrust through.) शिखर
छिद्रक; विदरमुक्त ।

perula—(Dim. of L. *pera*, wallet.) पेह्ला; पर्ण-
कोरक शल्क ।

pervalvar—(L. *per*, through; *valvar*, folding
doors.) लम्बद्विभाजक; परापाटीय ।

pervious—(L. *per*, through; *via*, away.) व्याप्य;
प्रवेश; प्रवेशनीय ।

pes—(L. *pes*, foot.) पाद; पाँव; पैर ।

pressulus—(L. *pressulus*, bolt.) पेसूलस; स्वरास्थिटूक
(पक्षियों का) ।

pest—अनिष्टकारी; विनाशकारी; कंटक; नाशक जीव ।

petal—(Gk. *petalon*, leaf.) पंखुड़ी; दल पत्र ।

petaliform—(Gk. *petalon*, leaf; L. *forma*,
shape.) दलपत्रोपम ।

petalled—(Gk. *petalon*, leaf.) दल पत्र युक्त ।

petalody—(Gk. *petalon*, leaf; *eidōs*, form.) दल-
पत्र सम; फल के अन्य भागों का दलपत्रों में परिवर्तित
होना ।

petaloideous—(Gk. *petalon*, leaf; *eidōs*, form.)
दलपत्रसमी ।

petasma—(Gk. *petasma*, anything spread out.)
प्टासमा; स्फुटित; केंकड़ावशियों (crustaceans) का
एक अवयव ।

petiolar—(L. *petiolus*, small foot.) डण्ठली; वृत्तीय,
पर्णवृत्तीय ।

petiolate—(L. *petiolus*, small foot.) डण्ठली ।

petiole—(L. *petiolus*, small foot.) पिटियोल

(१) पर्ण वृन्त; पत्ती का लम्बा डण्डल के समान भाग ।

(२) तनुवृन्त—बीटों में वक्ष और उदर को जोड़ने वाला
पतला डण्डलनुमा आकृति ।

- (३) लघु पट्टिका—मकड़ी में स्पर्शकांग के अघर पर लघु पट्टिका ।
- (४) परिणत पिच्छक—पिच्छाधार पर चपटा और परिवर्तित पिच्छक (barb) ।
- petiolule—(Dim. of L. *petiolus*, small foot.) पत्रकवृन्त ।
- petrification—(L. *petra*, rock; *facere*, to make.) अश्मीकरण; अश्मन; अश्मी भवन ।
- petrology—शैलविज्ञान; शैलकी ।
- petromastoid—(Gk. *petros*, stone; *mastos*, breast; *eidosis*, form.) पेट्रोमैस्टोइड ।
- petro-occipital—(Gk. *petros*, stone; L. *occiput*, back of head) पेटरो-ऑक्सिपिटल (दरार) ।
- petrophyte—(Gk. *petros*, stone; *phyton*, plant.) अश्मी पौधा ।
- petrosal—(Gk. *petros*, stone.) निविडास्थिक; अश्म ।
- petrosphenoidal—(Gk. *petros*, stone; *sphen*, wedge; *eidosis*, form.) अश्म-स्फीनोइड; स्फीनोइड और टेम्पोरल के पेटरस (petrous) भाग सम्बन्धी ।
- petrosquamodal—(Gk. *petro*, stone; L. *squama*, scale.) अश्म-स्क्वेमोजल सम्बन्धी ।
- petrotympanic—(Gk. *petros*, stone; *tympanon*, drum.) अश्म-आनन (दरार) ।
- petrous—(Gk. *petros*, stone.) अश्मी; अश्माभ; अश्मवत् ।
- Peyer's glands or patches—(J. C. Peyer, Swiss anatomist.) पेयर-ग्रन्थियाँ या खण्ड; अन्न भित्ति पर लसीका कणों के गोल खण्ड । pH—पीएच—घोल की क्षारीयता या अम्लीय बताने की मात्रात्मक विधि अर्थात् हाइड्रोजन आयनों की सान्द्रता प्रति लिटर ग्राम परमाणुओं की किसी घोल में । उदासीन घोल का pH—७; अम्लीय घोल का pH—७ से कम तथा क्षारीय घोल का pH—७ से अधिक होता है ।
- phacella—(Gk. *phakelos*, bundle of faggots.) फेसिला; ग्रामाशयिक सूत्र; पंक्तिका ।
- phacoid—(Gk. *phakos*, lentil; *eidosis*, form.) मसुरोपम; लेन्साकार ।

- phaeism—(Gk. *phaios*, dusky.) अस्पष्टता ।
- phaeno also pheno—फीनो; ईष ।
- phaenogam—(Gk. *phainein*, to show; *gamos*, marriage.) ईषयुग्मन; फैनोगम (Phanerogam); ईषपरिगम; फीनोगम; व्यक्त पुष्पी पादप ।
- phaeodium—(Gk. *phaios*, dusky; *eidosis*, form.) परिपुरीष; कुछ रेडियोलेरिया (Radiolaria) में खाद्य और विसर्जित पदार्थों का पुंज केन्द्रीय सम्पुट छिद्र को घेरे हुए ।
- phaemelanin—(Gk. *phaios*, dusky; *melas*, black.) ईषकृष्णता ।
- phaeophyll—(Gk. *phaios*, dusky; *phyllon*, leaf.) ईष वभ्रु शैवाल वर्ण; वभ्रु (भूरा) शैवाल का वर्ण पदार्थ ।
- phaeochrome—(Gk. *phaios*, dusky; *chroma*, colour.) ईषवर्ण ।
- phaeochrous—(Gk. *phaios*, dusky; *chros*, colour.) ईषवर्णी ।
- phage—(Gk. *phagein*, to eat.) भक्षक; विभोजी; फेज; फाज ।
- phagocytal—(Gk. *phagein*, to eat; *kytos*, hollow.) भक्षक-कोष्ठक; कोष्ठ-भक्षणी ।
- phagocyte—(Gk. *phagein*, to eat; *kytos*, hollow.) भक्षक-कोशिका; भक्षकाणु; फ्रैगोसाइट । अमीबा (Amoeba) के आकार वाला वह कोशिका जो अन्य कोशिका तथा विदेशीय पदार्थ (foreign bodies) का भक्षण करता है ।
- phagocytosis—(Gk. *phagein*, to eat; *kytos*, hollow.) भक्षक-कोशिका भक्षण; कोशिकाशन; जीवाणु भक्षण; भक्षक कोशिकों द्वारा जीवाणुओं का भक्षण ।
- phagolysis—(Gk. *phagein*, to eat; *lysis*, loosening.) भक्षक-कोशिका ह्रस्व ।
- phagozoite—(Gk. *phagein*, to eat; *zoon*, animal.) मृतकजीवी; मृतकाहारी ।
- phalange—(Gk. *phalangx*, line of battle.) पोरुआ (देखिये Phalanx) ।
- phalangeal—(Gk. *phalangx*, line of battle.) पर्व; पर्व सम्बन्धी; अंगुलास्थि सम्बन्धी ।

phalanx-phalanges

- phalanx-phalanges**—(Gk. *phalangx*, line of battle.) १—पर्व; पोरु । २—अंगुलास्थि: पोरु की हड्डी ।
- phallosome**—(Gk. *phallos*, penis; *meros*, part.) शिश्नटूक; शिश्नखण्ड; शिश्नकपाट (षटपादों या कीटों insects में) ।
- phallosome**—(Gk. *phallos*, penis; *soma*, body.) शिश्न पिण्ड; मध्य पिण्ड; शिश्नकाय ।
- phallus**—(Gk. *phallos*, penis.) फैलस; शिश्नज; र्लगज; शिश्न ।
- phanerocodonic**—(Gk. *phaneros*, manifest; *kodon*, bell.) व्यक्त मुकुल ।
- phanerogam**—(Gk. *pheneros*, manifest; *gamos*, marriage) पुष्पीय पौधे; व्यक्त पुष्पी (पादप); बीजाणु-पादप; फ़ेरोगेम [देखिये क्रिप्टोगेम] ।
- phanerogamous**—(Gk. *phaneros*, manifest; *gamos*, marriage.) व्यक्तपुष्पी; ऐसे पौधे जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर युक्त पुष्प होते हैं ।
- phanerophyte**—(Gk. *phaneros*, manifest; *plyton*, plant) सुव्यक्तपादप; फेनरोफाइट; वायवी सुप्त कोरक वृन्त या भ्रूप ।
- phaoplankton**—(Gk. *phaos*, light; *plankus*, wandering.) तल प्लावी; प्रकाश गम्य अगाधी ।
- phaosome**—(Gk. *phaos*, light; *soma*, body) प्रकाशांगी ।
- pharmacodynamics**—(Gk. *pharmakon*, drug; *dynamis*, power.) औषधि विज्ञान ।
- pharyngeal**—(Gk. *pharynx*, gullet.) कण्ठकी; कण्ठ सम्बन्धी; ग्रसनी; ग्रसनीय ।
- pharyngobranchial**—(Gk. *pharynx*, gullet; *branchia*, gills.) शिखर गिलक; कण्ठ गिल सम्बन्धी; क्लोम ग्रसनी ।
- pharyngohyal**—(Gk. *pharynx*, gullet; *hyoeides*, Y-shaped.) शिखर-जिह्वक ।
- pharynx**—(Gk. *pharynx*, gullet.) फ़ैरिक्स; कण्ठ; गला; ग्रसनी ।
- phase**—(O E. *fesian*, to derive away.) अवस्थिति; स्थिति; प्रावस्था; कला ।
- phasmids**—(Gk. *phasma*, apparition.) छाया कण; पश्चक; पर्णाभक; फ़ैस्मिड ।

- phellogen**—(Gk. *phellos*, cork; *gennaen*, to generate.) कार्कजन; कागजन ।
- phengophil**—(Gk. *phenggos*, light; *philos*, friend.) प्रकाश प्रेमी ।
- phengophobe**—(Gk. *phenggos*, light; *phobos*, fear) प्रकाशघृणी ।
- phenocopy**—(Gk. *phainein*, to appear; F. *copier*, copy, from L.L. *copia*, transcript.) आविर्भावी; व्यक्तज; लक्षणकृति; जलवायु के प्रभाव से प्राणियों की आकृति में परिवर्तन होने के कारण बनी आकृति ।
- phenology**—(Gk. *phainein*, to appear; *logos*, discourse.) व्यक्तज विज्ञान; आविर्भाव शास्त्र; घटना-विज्ञान ।
- phenotype**—(Gk. *phainein*, to appear; *typos*, image.) व्यक्तादर्श; समलक्षणी; लक्षण प्ररूप; दृश्य-रूप; व्यक्त व्यवस्था । (तुलना के लिए देखिए genotype) ।
- phenotypic**—(Gk. *phainein*, to show; *typos*, image.) व्यक्तक; लक्षणप्ररूपी; समलक्षणीय; व्यक्त व्यवस्था सम्बन्धी । ऐसे लक्षण जो वातावरण के प्रभाव के कारण व्यक्त हो जाते हैं ।
- pheron**—(Gk. *pherein*, to bear.) फिरोन; एन्जाइम का कलिल धारक मुख्य तत्व । (देखिए: agon—एगोन; symplex—सिम्प्लेक्स)
- phialide**—(Gk. *phiale*, bowl; *eidos*, form.) पुट-ग्रीवोपम (बीजाणुधारी शाखा) ।
- phialopore**—(Gk. *phiale*, bowl; *poros*, chornel.) पुटग्रीवा छिद्र (वोल्वोक्स) ।
- philuum**—(Gk. *philtron*, philtre.) अ्रवटी; ऊपर के होठ (upper lip) पर नासिका व्यवधान (septum of nose) के नीचे स्थिति गड्ढा, या अ्रवटी (depression) ।
- phlebenterism**—(Gk. *phleps*, vein; *entron*, intestine.) अन्न विष्कदता; अन्न विस्तृतता । अन्न शाखाओं का अन्य भागों तक फैले होने की दशा ।

phleboedesis

phleboedesis—(Gk. *phleps*, vein; *oidein*, to swell.) रुधिर तन्त्र शूयमानता; संवहन तंत्र का इतना फूला होना कि देह कोटर (सीलोम) घटकर अत्यन्त छोटी हो जावे। जैसा मीलस्का के जन्तुओं में।

phloem—(Gk. *phloios*, smooth bark.) फ्लोएम; पोषवाह; बाह्य वृक्षों का मुलायम बास्ट (bast) जो चलनी नलिका ऊतक से बना होता है।

phloem parenchyma—फ्लोएम पैरन्काइमा; पोषवाह मृदूतक; फ्लोएम की चलनी-नलिकाओं से सम्बन्धित पतली भित्ति वाला मृदूतक (पैरन्काइमा)।

phloem sheath—फ्लोएम पिधान।

phobotaxis—भयानुचलन।

phloeotrema—(Gk. *phloios*, bark; *terma*; end.) अन्तश्छद; वल्कल या कॉर्टेक्स की सबसे अन्दर का स्तर।

phobotaxis—(Gk. *phobos*, manifest, fear; *taxis*, arrangement.) परिहार वृत्ति।

phobia—भीति; भय।

pholadophyte—(Gk. *pholas*, lurking; *phyton*, plant.) प्रकाशपरिहारी पादप; सुषिर पादप।

pholidosis—(Gk. *pholis*, scale.) शल्क न्यास।

phonation—(Gk. *phone*, sound.) स्वरोच्चारण; ध्वनि उच्चारण; उच्चारण; स्वनन।

phonoreceptor—(Gk. *phone*, sound; L. *receptor*, receiver.) ध्वनि ज्ञापक; ध्वनि ग्राही।

phoranthium—(Gk. *pherein*, to bear; *anthos*, flower.) फोरेनथियम; पुष्पासन; कम्पोजिटी पीघों का पात्र या आशय या आसन (receptacle)।

phoresia—(Gk. *pherein*, to bear.) फोरेसिया; लादना; एक अंगी (organism) का दूसरे अंगी द्वारा लाद कर ले जाया जाना।

phoront—(Gk. *phara*, producing; *on*, being.) फोरोन्ट; स्योत्ति-अवस्था।

phorozooid—(Gk. *pherein*, to bear; *zoon*, animal.) *eidosis*, form.) फोरो मुकुल।

phorozoon—(Gk. *pherein*, to bear; *zoon*, animal.) फोरो जीव; अलिगी जीव।

phosphagen—फोस्फेजन; (१) कशेरुक पेशी में क्रियेटिन फोस्फेट (creatine phosphate) जिसका संकुचन में

क्रियेटिन और फोस्फेरिक अम्ल में विदलन हो जाता है और सामान्य स्थिति में आने पर पुनः निमित्त हो जाता है।

(२) अकशेरुकों की पेशी में आरजिनाइन फोस्फेट (arginine phosphate)।

phosphene—(Gk. *phos*; light; *phainein*, to show, फॉस्फीन; प्रकाश किरण के अतिरिक्त अन्य उत्तेजना का रेटीना पर हल्का प्रभाव।

phosporescence—(Gk. *phosphoros*, bringing-) स्फुरदीप्ति; बिना पर्याप्त ऊष्णता के दीप्त की दशा जैसी सामुद्रिक प्रोटोजोआ, कुछ कोपीपोडा (copepods) और अधिकांश अगाध सामुद्रिक जन्तुओं में पाई जाती है।

२—जैव संदीप्ति (bioluminescena)।

photic—(Gk. *phos*, light.) आलोकी; प्रकाशी; प्रकाश सम्बन्धी।

photism—प्रकाशन।

photochromatic—(Gk. *phos*, light; *chroma*, colour.) प्रकाशवर्णी; रंगान्तर।

photodinesis—(Gk. *phos*, light; *dine*, eddy.) प्रकाशवर्तता; प्रकाश द्वारा प्ररस (plasma) में गति या आवर्त (भँवर) प्रोत्साहित होना।

photodynamics—(Gk. *phos*, light; *dynamis*, strength.) प्रकाश गतिकी; पीघों पर प्रकाश प्रभाव का अध्ययन।

photogen—(Gk. *phos*, light; *genms*, producing.) प्रकाशजन; प्रकाशोत्पादक (अङ्ग)।

photogenic—(Gk. *phos*, light; *genes*, producing.) प्रकाशोत्पादक; प्रकाशजनक।

photokinesis—(Gk. *phos*, light; *kinesis*, movement.) द्युतिराशिकरण; प्रकाश गतिक्रम; अङ्गियों (organisms) का प्रकाश के प्रभाव के कारण एक स्थान में एकत्रित होना।

photonasty—(Gk. *phos*, light; *nastos*, close pressed.) प्रकाशमेध्य; प्रकाशानुकुचन।

photopathy—(Gk. *phos*, light; *pathos*, feeling.) प्रकाश वेदना। प्रकाशगम्यता।

photoperiod—(Gk. *phos*, light; *periodos*, circuit.) प्रकाश कार्यकाल; दीप्ति काल; अङ्गी का प्रत्येक

दिन प्रकाश में रहने का समय जिसमें अधिकतम कार्य उसका शरीर करता है।

photoperiodism—(Gk. *phos*, light, *periodos*, circuit.) दीप्ति कालिता; प्रकाश कार्यकालता; किसी अङ्गी का दिन और रात्रि का सापेक्षिक प्रति उत्तर।

पौधों में दीप्ति कालिक प्रति उत्तर फाइटोक्रोम (phytochrome) रंजक के उत्क्रमणीय (reversible) गुण के कारण होती है और दिवा-ताल (diurnal rhythm) या सरकेडियन लाल (circadian rhythm) इसका मौलिक आधार होता है। कुछ पौधे जैसे क्राइजेन्थिमम (chrysanthemum), कोसमोस (cosmos), सोयाबीन (soyabean) केवल प्रकाश काल के प्रति उत्तर में ही पुष्पित होते हैं। इनका क्रान्तिकाल (critical period) चौबीस घण्टे के चक्र में दिवस विस्तार (day length) से कम होता है अतः ऐसे पौधों को लघु दिवसी पौधे (short day plants) कहा जाता है। इनके विपरीत दूसरे पौधे जैसे मूली (radish), सलाद (lettuce) आदि दीर्घ दिवसी पौधे (long day plants) होते हैं। दीप्ति कालिक प्रति उत्तर पौधे की आयु और ताप के अनुसार भिन्न होता रहता है। दीप्ति कालिक उत्तेजना पत्तियों द्वारा ली जाती है और हार्मोन—जिसे फ्लोरोजिन (florigen) की संज्ञा दी गई है—के रूप में वृद्धि बिन्दु (growing point) की ओर प्रेषित होती है जहाँ ये पुष्पों को खिलने के लिए तैयार करती है।

जन्तुओं में भी कई कशेरुक जन्तुओं के प्रजनन काल (breeding season) के समय को भी दिवा-विस्तार (day length) नियंत्रित करता है।

photosynthetic—(Gk. *phos*, light; *synthesis*, putting together.)।

photophil—प्रकाशरागी। प्रकाश संश्लेषता; कार्बन समीकरण द्वारा पोषण; हरीत पादप तुल्य भरण (पोषण)।

photophilous—(Gk. *phos*, light; *philos*, loving.) प्रकाश प्रेमी; प्रकाशरागी। प्रकाश समृद्धि। ऐसे जन्तु जो प्रकाश में भली भाँति जीवित रहते हैं।

photophobic—(Gk. *phos*, light; *phobos*, fear.) प्रकाश त्यागी; प्रकाश भीत।

photophore—(Gk. *phos*, light; *pharein*, to bear.) प्रकाशांग; प्रकाशाघर; फोटोफोर।

photophygous—(Gk. *phos*, light; *pyge*, flight.) प्रकाश परिहारी; प्रकाश त्यागी; प्रकाश द्वेषी।


photopic—(Gk. *phos*, light; *ops*, eye.) प्रमानेत्र; आलोकवृत्ति नेत्र।

photoreceptor—(Gk. *phos*, light; L. *receptus*, received.) प्रकाश ज्ञापक; प्रकाश ग्राही।

photospheres—(Gk. *phos*, light; *sphaira*, globe.) प्रकाश बिन्दु; प्रकाश वृतांग; प्रकाश-मंडल।

photosynthesis—(Gk. *phos*, light; *synthesis*, putting together.) कार्बनीकरण; प्रकाश-संश्लेषण; कार्बन समीकरण; फोटोसिन्थेसिस; सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे भाग (chlorophyll) द्वारा कार्बन (carbon) का समीकरण होना।

यह समीकरण क्लोरोप्लास्ट (हरित लवक) के अन्दर होता है सूर्य प्रकाश के अवशोषण से कई क्रमिक प्रकाश-रसायनिक (photochemical) क्रियायें आरम्भ होती हैं, जो प्रकाश-संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन युक्त होता है और एक न्यूनीकारक (reducing agent) एनएडीपीएच₂ (NADPH₂) जनित होता है और प्रकाश फोस्फोटीकरण (photophosphorylation) प्रक्रिया से प्रकाश-ऊर्जा (light energy) ऊर्जा पूर्ण योगिक एटीपी (ATP) के बनने से रसायनिक ऊर्जा (chemical energy) में परिवर्तित हो जाती है। यह सब अभिक्रियायें (reactions) क्लोरोप्लास्ट के ग्राना (grana) [धान्य रूपीकण] में होती हैं। इन कर्णों में कुछ अभिक्रियायें और होती हैं जिन्हें 'अंध्र' अभिक्रियायें (dark reactions) कहा जाता है। एनएडीपीएच₂ की न्यूनीकरण शक्ति और एटीपी की ऊर्जा से कार्बन डाइ-ऑक्साइड (CO₂) कार्बोहाइड्रेट में न्युनिता हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मूलानुपाती सूत्र (empirical formula) निम्न होता है—



प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हरे पौधों से भिन्न होते हैं। इनमें हाइड्रोजन का स्रोत भिन्न होता है। बैंगनी और हरे गन्धक युक्त बैक्टीरिया में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S) से लिया जाता है। गन्धकहीन बैक्टीरिया में कार्बनिक योगिक हाइड्रोजन का स्रोत होते हैं।

phototaxis—(Gk. *puos*, light; *tasis*, arrangement.) प्रकाश न्यास; प्रकाश विन्यास; प्रकाशानुचलन।

phototonus—(Gk. *phos*, light; *tonos*, tension.) प्रकाशोत्थान; प्रकाश बोधता; प्रकाशातति।

phototropism—(Gk. *phos*, light; *trope*, turn.) प्रकाशवृत्ति; प्रकाशानुवर्तन।

phragma—(Gk. *phragma*, fence.) फ्रेगमा, प्रावर; वृत्ति; वक्ष या उदर का कीटों में पटल भाँज (endotergite) या पृष्ठ अन्तः अस्थि प्रवर्धन (apodeme)।

phragmocone—(Gk. *phragma*, fence; *konos*, cone.) प्रावर शंकु; वृत्ति शंकु।

phragmocytтарous—(Gk. *phragma*, fence; *kyttaros*, honey-comb cell.) आधार कंकती; (देखिए stelocytтарous—स्तम्भ कंकती)।

phragmoplast—(Gk. *phragma*, fence; *plastos*, moulded.) प्रावर-रचन; तर्कुटावस्था सूत्री; विभाजन (mitosis) में दीर्घ गोलाकार तर्कुटी (barrel-shaped spindle) स्थिति।

phragmospore—(Gk. *phragma*, fence; *sporos*, seed.) फ्रेगमोस्पोर; प्रावर स्पोर।

phratry—(Gk. *phratre*, a sub-division of a tribe.) फिरेत्री; उपसंघ शाखा; फ़ैट्री।

phrenic—(Gk. *phren*, diaphragm, mind.) डायफ्राम सम्बन्धी; डायफ्राम—; मध्यच्छद—।

phrenicocolic—(Gk. *phren*, diaphragm; *kolon*, lower part of intestine.) फिरेनी कोकोलिक; डायफ्राम (diaphragm) और कोलन या वृहदांत्र (colon) सम्बन्धी।

phrenicocostal—(Gk. *phren*, diaphragm; *L. eosta*, rib.) फिरेनी कोकोस्टल; डायफ्राम और पशु सम्बन्धी; डायफ्राम-पशु कीय।

phrenicolienal—(Gk. *phren*, diaphragm; *L. lien*, spleen.) डायफ्राम-स्प्लीन सम्बन्धी (लिगामेंट); मध्यपट-प्लीहा सम्बन्धी।

phrenicopericardiac—(Gk. *phren*, diaphragm; *peri*, around; *kardia*, heart.) मध्यपट-हृदयावरणी; मध्यपट (डायफ्राम से हृदयावरण, pericardium—तक फैला हुआ लिगामेंट)।

phthisaner—(Gk. *phthisis*, wasting; *aner*, male.) क्षयिन नर; परिपुष्ट-नर। अरैसिमा (orasema) अर्भक द्वारा परान्नपुष्टी प्यूपीय (pupal) पियोलिका नर (चींटी)।

phthisergate—(Gk. *phthisis*, wasting; *ergates*, worker.) परिपुष्ट-उद्योगी; क्षयनि उद्योगी; अरैसिमा (orasema) अर्भक द्वारा परान्नपुष्टी प्यूपीय (pupal) उद्योगिक चींटी।

phthisogyne—(Gk. *phthisis*, wasting; *gyne*, female.) क्षयनि नारी; परिपुष्ट-नारी; अरैसिमा (orasema) अर्भक द्वारा परजीवी परान्नपुष्टी प्यूपीय नारी चींटी।

phycochrome—(Gk. *phykos*, seaweed; *chroma*, colour.) फाइकोक्रोम; नीलहरित वर्णक; नील हरित शैवाल का रंग।

phycochrysin—(Gk. *phykos*, seaweed; *chrysos*, gold.) फाइकोक्राइसिन; नारंग-पीत शैवाल का सहायी वर्णक।

phycocyanin—(Gk. *phykos*, seaweed; *kyanos*, dark blue) फाइकोसाइनिन; नील-हरित शैवाल का रंग।

phycoerythrin—(Gk. *phykos*, seaweed; *erythros*, red) फाइकोअरेथ्रिन; लाल-शैवाल का रंग।

phycology—(Gk. *phykos*, seaweed; *logos*, discourse) शैवाल विज्ञान; वनस्पति विज्ञान का वह भाग जो शैवाल (algae) से सम्बन्ध रखता है।

phycophaein—(Gk. *phykos*, seaweed; *phaios*, dusky) फाइकोफैन; भूरे शैवाल का रंग।

phycoxanthin—(Gk. *phykos*, seaweed; *xan-shos*, yellow) फाइकोज़ैन्थिन; डायएटम और भूरे शैवाल का पांडुवर्ण।

phryon—शिरोन्म।

phyla—(Gk. *phylon*, tribe.) संघ; वर्गीकरण (classification) में समस्त जन्तु राष्ट्र या जगत (animal kingdom) संघ (phylum) में बाँटा जाता है।

phylacobiosis—(Gk. *phylox*, guard; *biosis*, manner of living) रक्षित सहजीवन।

phylactocarp—(Gk. *phylaktikos*, guarding; *karpos*, fruit.) जनकपोलिय आवरण; हाइड्रोमिहूसी में

phylembryo

जनकपोलिप (genophore) की सुरक्षार्थ हाइड्रोक्लो-डियम का परिवर्तित रूप ।

phylembryo—(Gk. *phylon*, race; *embryon*, embryo.) जातीय भ्रूण; प्रोटिगूलम (अर्ध गोलाकार भ्रूण कवच) के सम्पूर्ण होने के बाद की त्रिकियोपोडा की एक वर्धनावस्था ।

phylephebic—(Gk. *phylon*, race; *ephebeia*, manhood.) सन्तति प्रौढावस्था ।

phyletic—(Gk. *phylon*, race.) संघ सम्बन्धी ।

phyllade—(Gk. *phyllas*, foliage.) फिलेड; न्यूनित शल्कवत् पर्ण ।

phyllary—(Gk. *phyllon*, leaf.) फाईलेरी; कम्पोजिटी के सहपत्र चक्र (involucre) का एक सहपत्र (bract) ।

phyllidium—(Gk. *phyllidion*, little leaf.) फिलीडियम; पणिका; सेसटोइडिया (cestoidea) के मौवासिर (scolex) से निकला हुआ अतिवर्धित भाग ।

phyllbranchia—(Gk. *phyllon*, leaf; *branchia*, gills.) पत्रगिल; पर्णक्लोम ।

phylloclade—(Gk. *phyllon*, leaf; *klados*, sprouts) पर्णम स्तम्भ; फिलोक्लेड; मांसल हरा तना; ऐसे तने शुष्क वातावरण में रहने वाले पौधों में पाये जाते हैं । यह तना मांसल तथा हरा होता है जिससे यह अपने शरीर में जल की अधिक मात्रा संचित कर लेते हैं तथा प्रकाश-संश्लेषण भी कर लेते हैं—जैसे नागफनी ।

phyllocyst—(Gk. *phyllon*, leaf; *kystis*, bladder) पर्णकोषिका ।

phyllode—(Gk. *phyllon*, leaf; *eidosis*, form.) पर्णम-वृन्त; पर्णमवृन्त रूपी पर्णवृन्त; फिल्लोड; पीटियोल (petiole) या ऐफिस चपटे होकर पत्ती-सदृश हो जाते हैं । उदाहरण—अकेशिया (बबूल) की कुछ स्पीशीज ।

phyllody—(Gk. *phyllon*, leaf; *eidosis*, form.) पर्णांतरण; किसी अंग (organ) का पर्ण में परिणित होना ।

phyloerythrin—(Gk. *phyllon*, leaf; *erythros*, red.) फिलोअरेथ्रिन; बिलीपरप्यूरिन (bilipurpurin); कोलोटीमेटिन (cholotaematin); बजोरोफिल से प्राप्त होने वाला लाल वर्णक जो तृणाहारी स्तनी के पित्त में होता है ।

phylogenetic—(Gk. *phyllon*, leaf; *genesis*, descent) पर्णजनक ।

phylliod—(Gk. *phyllon*, leaf; *eidosis*, form) पर्णमि ।

phyllomania—(Gk. *phyllon*, leaf; *mania*, madness.) पर्ण वाहुलता; पर्ण वातुलता; असाधारण पत्ती उत्पन्न होना ।

phyllomorphosis—(Gk. *phyllon*, leaf; *morphosis*, form.) पर्णांतरण; विभिन्न मौसमों में पत्तियों की विभिन्नता ।

phyllophagous—(Gk. *phyllon*, leaf; *phagein*, to eat) पत्र जीवी; पत्ती हारी; पर्ण भक्षी ।

phyllophore—(Gk. *phyllophoros*, leaf; *bearing*.) पर्णधार; ताड़ वृक्षों में अन्त्य कोरक या वर्धित विन्दु ।

phyllophorous—(Gk. *phyllophoros*, leaf; *bearing*.) पर्णधारी ।

phyllopode—(Gk. *phyllon*, leaf; *pous*, foot.) पिधान पर्ण; आइसोटीज (Isoetes) की पिधानी पर्ण ।

phyllopodium—(Gk. *phyllon*, leaf; *pous*, foot.) पर्णक्षि; पर्ण अक्ष ।

phyllopodous—(Gk. *phyllon*, leaf; *pous*, foot.) पत्रपादी; पर्णपाद ।

phylloptosis—(Gk. *phyllon*, leaf; *ptosis*, falling.) पर्णपतन; पर्णपात ।

phyllsiphonic—(Gk. *phyllon*, leaf; *sphon*, tube.) पर्ण साइफनी; पर्ण प्रभव का इस प्रकार निवेश की अक्षीय रंभ अतक भंग हो जावे ।

[देखिये—cladostiphonic]

phyllspondybos—(Gk. *phyllon*, leaf; *spondylos*, vertebra.) पत्र-कशेरू ।

phyllotaxis—(Gk. *phyllon*, leaf; *taxis*, arrangement.) पर्ण विन्यास ।

phyllozooid—(Gk. *phyllon*, leaf; *zoon*, animal; *eidosis*, form.) पर्ण-मुकुल; फलकोपम मुकुल ।

phylobiology—(Gk. *phylon*, race; *bios*, life; *logos*, discourse.) जाति जीव विज्ञान ।

phylogenesis-phylogeny—(Gk. *phylon*, race; *genesis*, descent.) जाति विकास; जाति विकास विज्ञान; जातिवृत्त ।

phylogenetic—(Gk. *phylon*, race; *genesis*, descent.) जाति विकास सम्बन्धी; जातिवृत्तीय ।

phylogerontic—(Gk. *phylon*, race; *geron*, old man.) जाति ह्रास; प्रजातिवृद्ध; जाति इतिहास की हीन या अवनत दशा (अवस्था) ।

phylon-phylum—(Gk. *phylon*, race.) संघ ।

phyloneanic—(Gk. *phylon*, race; *neanikos*, youthful.) कौमारिक ।

phylonepionic—(Gk. *phylon*, race; *nepios*, infant.) पश्च भ्रूणिकावस्था; प्रजाति शिशु ।

phylum—(Gk. *phylon*, race or tribe.) संघ; फाइलम ।

phyone—(Gk. *phyein*, to make to grow.) फियोन; वृद्धि उद्दीपक; पिटुइटरी (pituitary) पिण्ड के स्राव का एक तत्व जो वृद्धि को नियन्त्रित करता है ।

physa—(Gk. *physa*, bellows.) फाइसा; गोलाघार; भस्त्री; विल में रहने वाले (burrowing) सीएनीमोन (sea-ane-mone) का परिणित गोलमूल (modified rounded based) ।

physicist—(Gk. *physikos*, physical.) भौतिक विज्ञान-वेत्ता ।

physiogenic—(Gk. *physis*, nature; *genes*, producing.) व्यापार जनित ।

physiogeny—(Gk. *physis*, nature; *genes*, producing.) व्यापार जनन ।

physiognomy—रूपाकृति विज्ञान ।

physiognony—रूप ।

physiology, physiology—(Gk. *physis*, nature; *logos*, discourse) प्रक्रिया विज्ञान; शरीर क्रिया विज्ञान; फिजियोलोजी; कार्याकी; व्यापार विज्ञान; जीव-विज्ञान (biology) की वह शाखा जो शरीर के विविध अङ्गों (organs), तन्तुओं या ऊतकों (tissues) और कोशिकाओं (cells) आदि के कार्य या व्यापार (function) के वर्णन से सम्बन्ध रखती है ।

physoclistous—(Gk. *physa*, bladder; *kleinein*; to close) स्रोतहीन; अमुखवाताशयी; पाचक प्रणाली और प्लावी आशय (swim bladder) को संयुक्त करने वाली नलिका या स्रोत का न होना जैसे अधिकांश अस्थि मस्त्र्यों (teleosts) में ।

physodes—(Gk. *physa*, bubble.) फाइसोड; डिम्बिका; पुटिका ।

physogastry—(Gk. *physan*, to below up; *gaster*, belly.) विउत उदरी; अतिमेदस वर्धता; षटपादों या कीटों (insects) में उदर का अत्याधिक वसा (excessive fat) के कारण बढ़ा होना ।

physostomous—(Gk. *physa*, bladder; *stoma*, mouth) स्रोती ।

phytobiology—(Gk. *phyton*, plant; *bios*, life; *lagos*, discourse.) वनस्पति जीव विज्ञान; पादप विज्ञान; द्रुमजीव विज्ञान; द्रुम या पौधों के जीवन इतिहास सम्बन्धी विज्ञान ।

phytobiotic—(Gk. *phyton*, plant; *bios*, life.) वनस्पति वासी; पौधों के अन्दर रहने वाला जैसे कुछ एक कोष्ठी या कोशिकीय (protozoa) ।

phytochemistry—(Gk. *phyton*, plant; *chemeia*, transmutation) वनस्पति रसायन शास्त्र ।

phytochromes—(Gk. *phyton*, plant; *chroma*, colour.) पादप वर्ण; पौधों के क्रोमोप्रोटीन जैसे कुछ सामुद्रिक तृणादिक (sea weed) के वर्णक । यह प्रकाश उत्क्रमणीय (reversible) होते हैं । लाल प्रकाश किरणों द्वारा हार्मोन उत्पन्न करते हैं जो वृद्धिकारक होते हैं ।

phytocoénosis—(Gk. *phyton*, plant; *koinos*, common.) वनस्पति समुदाय; किसी विशिष्ट स्थल के समाहार पौधे ।

phytogenesis—(Gk. *phyton*, plant; *genesis*, descent.) पादप संवर्धन ।

phytogenous—(Gk. *phyton*, plant; *genos*, generation.) पादपोद्भव; वनस्पति प्रभव ।

phytogeography—(Gk. *phyton*, plant; *ge*, earth; *graphein*, to write.) वनस्पति भूगोलिक विवरण अध्ययन ।

phytohormones—(Gk. *phyton*, plant; *hormaein*, to excite) वनस्पति हार्मोन; पादप हार्मोन ।

phytoid—(Gk. *phyton*, plant; *eides*, form.) तरु सम; पादपक; जैव जन्तु मुकुल (zooid) ।

phytology—(Gk. *phyton*, plant; *logos*, discourse) वनस्पति विज्ञान; पादप विज्ञान ।

phytoma

- phytoma—(Gk. *phyton*, plant.) वनस्पतिक तत्व ।
 phytome—(Gk. *phyton*, plant.) उद्भिद ।
 phytomer—(Gk. *phyton*, plant; *meros*, part.) कलिकाधारी पर्व; पौधे की कोई रचनात्मक इकाई ।
 phytomorphic—(Gk. *phyton*, plant; *morphe*, form.) द्रुम समावृत्तिक ।
 phyton—(Gk. *phyton*, plant.) फाइटॉन, मौलिक तत्व; पादप ।
 phytonomy—(Gk. *phyton*, plant; *nomos*, law.) वनस्पति व्यवहार विज्ञान । पौधों या वनस्पति (plants) के उद्भव (origin) और वर्धन (development) सम्बन्धी नियम ।
 phytopathology—(Gk. *phyton*, plant; *pathos*, suffering; *logos*, discourse) वनस्पति रोग विज्ञान ।
 phytophagous—(Gk. *phyton*, plant; *phagein*, to eat; *philos*, loving.) वनस्पति आहारी; तृण जीवी; पादप भक्षी ।
 phytophysiology—(Gk. *phyton*, plant; *physis*, nature; *logos*, discourse) वनस्पति (पादप) क्रिया विज्ञान ।
 phytoplankton—पादप-प्लवक ।
 phytoplasm—(Gk. *phyton*, plant; *plasma*.) वनस्पति प्लाज्मा; वनस्पति सत्व (प्ररस) ।
 phytosociology—(Gk. *phyton*, plant; *L. socius*, companion; *Gk. logos*, discourse.) वनस्पति-समाजविज्ञान अध्ययन; वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों या वनस्पति की परिस्थितिकी (ecology), क्षेत्र वर्णननी (chorology) और आनुवंशिकी (genetic) का अध्ययन किया जाता है ।
 phytotomy—(Gk. *phyton*, plant; *tome*, cutting.) वनस्पति विच्छेदन ।
 phytotoxin—(Gk. *phyton*, plant; *toxikon*, poison.) वनस्पति विष; पादप आविष ।
 phytotrophic—(Gk. *phyton*, plant; *trechein*, to nourish) तृप्तसम भोजी; वनस्पति वृत्ति ।
 piamater—(L. *piamater*, kind mother) कोमलाच्छद; केन्द्रीय तंत्रिका मण्डल को घेरे हुए अल्पवन्त कोमल रक्त पूर्ण भित्तली (माच्छद) ।

- pigment—(L. *pingere*, to paint) वर्ण; रंग; वर्णक ।
 pigment cell—रंग कोष्ठ या कोशिका ।
 pigmentation—(L. *pingere*, to paint) वर्ण न्यास; रंग भाव; वर्णकता ।
 pieces—(L. *petium*, a piece of land) टुक; टुकड़ा ।
 pileated—(L. *pileus*, felt cap) किरीटि; कलंगी युक्त; पाइलिया युक्त ।
 pileolated—(L. *pileolus*, small cap) सिरस्त्राणिक ।
 pileolus—(L. *pileolus*, small cap) लघु सिरस्त्राण; छत्रोपम; छत्रिका ।
 pileorhiza—(L. *pileus*, cap; *Gk. rhiza*, root) मूलाग्र माच्छद; मूल-गोप (root cap) ।
 pileum—(L. *pileum*, cap) सिरस्त्र ।
 pileus—(L. *pileus*, cap) सिरस्त्र; छत्र ।
 pilidium—(Gk. *pilidion*, small cap) पाइलीडियम; सिरस्त्राणाकार; निर्मटिया (nemertea) जन्तुओं का सिरस्त्राणोपम (helmet-shaped) अर्भक या लार्वा ।
 pilifer—(L. *pilus*, hair; *ferre*, to carry) पिलिफर; रोमधर; तितलियों आदि के लेब्रम (labrum) का एक भाग ।
 piliferous—(L. *pilus*, hair; *ferre*, to carry) रोमी; रोमयुक्त; रोमोत्पादक; रोमधारक ।
 pilomotor—(L. *pilus*, hair; *movere*, to move) रोम गति कारक ।
 pilose—(L. *plius*, hair) तृणलोमी; मृदुलोमवत्; रोमों से ढका हुआ ।
 pilus—(L. *plius*, hair) तूलरोम ।
 pinacocytes—(Gk. *pinax*, tablet; *kytos*, hollow) फलक कोशिका; शल्क कोशिका; सपाट कोशिका ।
 pincers—चंगुल; संदिश; संदंशिका; चिमटी ।
 pineal body or gland—पिनियल पिण्ड या ग्रन्थि; मस्तिष्क स्थिति वाली हीन ग्रन्थि, जिसके स्राव से लिंग ग्रन्थियों का विकास होता है ।
 pineal sac—पिनियल कोश; अधिप्रवर्ध (epiphysis) के अन्ताशय (end vesicles) जैसे स्फीनोडोन (sphenodon) में ।
 pineal system—पिनियल तंत्र; पैराइटल भ्रंग (parietal organ) और संलग्न संरचनायें जैसे पिनियल कोश;

वृत्त; तंत्रिकायें; पैरापिनियल अंग और अधिप्रवर्ध (epiphysis) आदि ।

pin-eyed—मत्स्यभ्रूपुंकेसरी एवं नलिकाकार दल के मुंह पर चक्षु चिह्न (stigma) युक्त । (देखिये—thrum-eyed दिशा-चक्षुक)

pinna—(L. *pinna*, feather) पिन्ना; बाह्य कर्ण ।

pinnate—(L. *pinna*, feather) पर्णी; पिच्छाकार ।

pinnatifid—दीर्घ पिच्छाकार ।

pinnatilobate—(L. *pinna*, feather; *lobus*, lobe) पिच्छाकार दलीय ।

pinnation—(L. *pinna*, feather) पिच्छीय ।

pinnatipartite—(L. *pinna*, feather; *partitus*, divided) पिच्छाकार विभक्त ।

pinnatiped—(L. *pinna*, feather, *pes*, foot) पिच्छी-पादांगुलि जैसे पक्षियों की पादांगुलि (toes) ।

pinnatisect—(L. *pinna*, feather; *sectus*, cut) पिच्छाकार दलीय; लगभग आघार या मध्यशिरा (mid rib) तक दलों में बड़ी हुई पत्ती युक्त ।

pinnatodentate—(L. *pinna*, feather; *dens*, tooth) पिच्छदन्तुरिक ।

pinnato pectinate—(L. *pinna*, feather; *pecton*, comb) पिच्छ कंकती ।

pinniform—(L. *pinna*, feather; *forma*, shape) पक्षाकार; पर्णीपम ।

pinninervate—(L. *pinna*, feather; *nervus*, sinew) पद तंत्रिकी ।

pinnule—(L. *pinnula*, dim. of *pinna*, feather) पक्षिक; पिन्यूल; भुजपक्ष; पिच्छिक ।

pinocytosis—(Gk. *piein*, to drink; *kytos*, hollow) कणिका भक्षण; कोशिका पाचन ।

pinulus—(L. *pinulus*, small fir) पिन्युलस; परिभद्रक; चीड़ कंटिका ।

piscicolous—(L. *piscis*, fish; *colere*, to inhabit) मत्स्य वासी; मत्स्यों में रहने वाला परजीवी (parasite) आदि ।

pisciculture—मत्स्यपालन ।

pisces—(L. *piscis* fish) मत्स्य; मीन ।

pisciform—(L. *piscis*, fish; *forma*, shape) मत्स्योपम; मत्स्याकार; मत्स्य रूप ।

piscivore—मत्स्याहारी ।

piscivorous—(L. *piscis*, fish; *vorere*, to devour) मत्स्याहारी; मत्स्य भक्षी ।

pisiform—(L. *pisum*, pea; *forma*, shape) सती-लोपम; मटराकार; गोलकास्थि; मणिबन्धकास्थि ।

pisohamate—(L. *pisum*, pea; *hamus*, hook) पिसो हेमेट; मणिबन्धकास्थि (carpalbone) और हुकोपम (hamate) अस्थि को जोड़ने वाला पेशीबन्ध (लिगामेंट) ।

pisometacarpal—(L. *pisum*, pea; Gk. *meta*, beyond; L. *carpus*, wrist) पिसोमेटाकार्पल (लिगामेंट); मणिबन्धकास्थि और पंचम करमास्थि को जोड़ने वाला पेशीबन्ध (लिगामेंट) ।

pistil—(L. *pistillum*, pestle)—स्त्रीकेसर; प्ररूपी अण्डप; पुष्प का बीजधारण करने वाला अंग जो अण्डाशय (ovary), वृत्तिका (style) और वर्तिकाग्र (stigma) से मिलकर बनता है ।

pistillate—(L. *pistillum*, pestle) स्त्रीकेसरधारी ।

pistillidrum—(L. *pistillum*, pestle; Gk. *idion*, dim.) पिस्टिलीडियम; मादा लैंगिक अंग; ब्रायोफाइट; टेरीडोफाइट और जिमिनोस्पर्म का मादा लैंगिक अंग ।

pistillody—(L. *pistillum*, pestle; Gk. *eidos*, form) स्त्रीणांगन; पुष्प के किसी भी अंग का अण्डपों (carpels) में परिवर्तन ।

pistillum—(L. *pistillum*, pestle) पिस्टिलम (पेशी-पुंज) ।

pit—(A.S. *pyt*, pit) गड्ढा; गर्त ।

pitcher—(L.L. *picarium*, beaker) घट ।

pitcher leaf—घटपर्णी, जैसे नेपेन्थीज (Nepenthes) की पत्ती ।

pith—A.S. *pitha*, pith) पिय; मज्जा; द्विबीजपत्री तने का केन्द्रीय क्षेत्र या मेडुला ।

pitocin—पिटोसिन; पिट्यूटरी ग्रन्थि के पश्च दल का एक हार्मोन, जिससे मूत्र पेशी का संकुचन होता है ।

pitressin—पिटरेसिन; (१) पिट्यूटरी ग्रन्थि के पश्च दल का एक हार्मोन, जो रक्तचाप की वृद्धि को प्रारम्भ करता है, (२) बीटा हाइपोफैमीन (β -hypophamine) ।

pituitary—(L. *pituita*, phlegm; Gk. *kytos*, hollow)—पिट्यूकोशिका; पिट्यूटरी ग्रन्थि के तंत्रिका

pituitary

भाग (pars nemosa) की एक कोशिका (agial cell) ।

pituitary—(L. *pituita*, phlegm) पिट्यूटरी; पीयूष काय; पीयूष ग्रन्थि; मस्तिष्क के मूल पर स्थित नली विहीन ग्रन्थि ।

pituitrin—(L. *pituita*, phlegm) पिट्यूटरीन; पिट्यूट्रिन; पिट्यूटरी स्राव; पीयूष ग्रन्थि रस (स्राव) ।

pivot joint—चूल सन्धि; घुराग्र सन्धि; कोलक सन्धि ।

placenta—(L. *placenta*, flat cake) कमल; नाल; प्लैसेन्टा; जेर; आंवल; ओम्फडी; खेडी; अपरा; (२) बीजाण्डासन ।

placental—(L. *placenta*, flat cake) जेर सम्बन्धी; आंवल सम्बन्धी ।

placentate—(L. *placenta*, flat cake) आंवल युक्त; जेर युक्त ।

placentation—(L. *placenta*, flat cake) बीजाण्डन्यास; बीजाण्डासन (placenta) पर बीजाण्ड (ovule) लगे होते हैं । अण्डाशय में प्लैसेन्टा के विभिन्न प्रकार के विन्यास को बीजाण्डासन (placentation) कहते हैं ।

placochromatic—(Gk. *plax*, plate; *chroma*, colour) पट्टवर्णी; पट्टवर्ण ।

placode—(Gk. *plax*, plate; *eidōs*, form) पट्टिका; स्थाली ।

placoid—(Gk. *plax*, plate; *eidōs*, form) पट्टिकोपम; फलकाकार शल्क; पट्टाम ।

placula—(Gk. *plax*, plate) प्लेकूला; चपटा ब्लास्टूला; कन्दुक ।

plagioclimax—(Gk. *plagios*, athwart; *klimax*, ladder) जनकृत चरम ।

plagiosere—(Gk. *plagios*, athwart; L. *severe*, to put in a row) जनकृत क्रमक ।

plagiotropic—(Gk. *plagios*, oblique; *trope*, turn) वक्रान्त; तिर्यक् अनुवर्ती ।

plagiotropism—(Gk. *plagios*, oblique; *trope*, turn) वक्र वृत्ति; लम्ब रेखा से तिरछा या क्षितिज की ओर झुकने की प्रवृत्ति ।

plagiotropous—(Gk. *plagios*, oblique; *trope*, turn) वक्रान्ती; तिरछा झुका हुआ ।

plagula—(L. *plagula*, curtain) प्लेगुला; मकड़ियों (spiders) में यूका (pedicle) की रक्षा करने वाला अधर पट्ट (ventral plate) ।

plakea—(Gk. *plax*, a plain) पट्टोपम, प्लेट सदृश; संमंडल (coenobium) के निर्माण में प्लेट सदृश (plate-like) प्रारम्भिक अवस्था ।

plan—खाका; नक्शा; प्लान ।

plane—(L. *planus*, flat) तल; पक्ष ।

planidium—(Gk. *planas*, wandering; *idion*, dim) प्लैनीडियम; भ्रमणार्भक; कुछ एक पटपादों या कीटों (insects) का लार्वा या अर्भक विशेष ।

planiform—(L. *planus*, level; *forma*, shape) समतली ।

plankton—(Gk. *plangkton*, wandering) प्लवक; परिप्लावी; पानी में बहते हुए जन्तु या वनस्पतियों के भ्रुण या पुंज ।

planoblast—(Gk. *planos*, wandering; *blastos*, bud) भ्रमणी मुकुल; प्लवक मुकुल; अटकोरक ।

planogamete—(Gk. *planos*, wandering; *gametes*, spouse) भ्रमणी जन्तु; चलद्युग्म की ।

planont—(Gk. *planos*, wandering; *on*, being) भ्रमणी; भ्रमिक; प्लेनोन्ट; चलाण ।

planosome—(Gk. *planos*, wandring; *soma*, body) अतिरिक्त रंजक या गुण सूत्र । अर्ध कोशिका विभाजन (meiosis) में संगियों (mates) के न मिलने के कारण सामान्य से अधिक संख्या का उत्पन्न रंजक या गुण सूत्र (chromosome) ।

planta—(L. *planta*, sole of foot) प्लैन्टा; पादतल; तलुआ ।

plantar—(L. *planta*, sole of foot) पादतली; पाद तल सम्बन्धी ।

plantigrade—(L. *planta*, sole of foot; *gradus*, step) पादतलगामी; पादतलचारी; संपूर्ण तलुओं को घरती पर रख कर चलने वाला प्राणी या पंजे के बल या सहारे चलने वाला प्राणी ।

plantula—(L. *plontula*, small sole) प्लेनटूला; पलवाइलस; पटपाद या कीटों (insects) के पाँव पर लगी हुई चिपकने वाली गद्दीनुमा माकृति (pulvillus) ।

planula—(L. *plamus*, flat) प्लैनुला; सीलोमांत्रियों या सोलेन्टेटा (colenterates) का गोल, स्त्रच्छन्द तैरने वाला अर्भक या लार्वा ।

planum—(L. *plamus*, flat) क्षेत्र ।

plaque—(F. *plaque*, plate) गोलाकार क्षेत्र (पट्ट) ।

plasma—(Gk. *plasma*, form) प्लाजमा; प्ररस; जीवन तत्व; कोशिकाओं (cells) का तरल तत्व (सत्व); जीव-द्रव्य ।

plasmagel—प्लैज्माजेल ।

plasmagene—(Gk. *plasma*, form; *genos*, descent) प्लासमा जीन; कोशिका सत्वजन; द्रव्य जीन ।

plasmalemma—(Gk. *plasma*, form; *lemma*, skin) प्ररसच्छद्; त्वगाच्छद्; कोशिका प्रावृत; द्रव्यकला ।

plasmamol—प्लैज्मासोल ।

plasmatic—(Gk. *plasma*, form) प्लाज्मेटिक; सत्व (प्ररस) सम्बन्धी ।

plasmatoparous—(Gk. *plasma*, form; L. *parere*, to beget) द्रव्याणुधारी;

plasmocyte—(Gk. *plasma*, form; *kytos*, hollow) सत्व कोशिका; प्लाजमा कोशिका; श्वेत कोशिका; श्वेत कण; प्लाज्माणु ।

plasmodesma—(Gk. *plasma*, form; *desma*, bond) प्लाजमा बन्ध; कोशिका द्रव बंध; द्रव्य तन्तु; जीव द्रव्य तंतु ।

plasmoidal—(Gk. *plasma*, form; *eidos*, form) प्लासमोडियल ।

plasmodiocarp—(Gk. *plasma*, form; *eidos*, form; *karpos*, fruit) प्लैज्मोडियोकार्प; प्लैज्मोडियम परि वर्तित रूप ।

plasmotrophoblast—प्लास्मोडी ट्रोफोब्लास्ट; समान पोषण कोशिका ।

plasmodium—(Gk. *plasma*, form; *eidos*, form) प्लासमोडियम; प्ररस एकता; प्लैज्मोडियम; अमीबो पम पुंजी का बहु न्यूक्लियस आकृति; न्यूक्लियस संयुजकहीन समुचय ।

plasmogamy—(Gk. *plasma*, form; *gamos*, marriage) प्ररस-संलिष्टता (संलयता); बहुत से एक कोशिकीय (protozoa) जन्तुओं के केवल प्ररस या प्लाजमा (plasma) का सम्मिश्रण या संलयता (fusion) जिससे बहु-न्यूक्लियस वाली संहति या आकृति बन जाती है ।

plasmolysis—(Gk. *plasma*, form; *lysis*, loosing) प्लाजमा ह्रास; जीवन तत्व क्षयता (क्षोक्ता); जीव द्रव्यकुंचन ।

plasmomites—(Gk. *plasma*, form; *mitos*, thread) प्ररस अन्तर्कणिकार्य; सूक्ष्म तन्तुक का प्ररस कण के साथ मिलकर कोशिका के अन्तर्कणिका पदार्थ का निर्माण ।

plasmophore—(Gk. *plasma*, form; *phora*, carrying) अन्त-प्रावर; जैड विम्ब; प्ररस धारी ।

plasmosome—(Gk. *plasma*, form; *soma*, body) प्ररस कण; वास्तविक पिण्ड; वास्तविक उपाष्टि; प्लैज्मोसोम; सूक्ष्म (minute) कोशिका-द्रव (cytoplasmic) कण (granule) ।

plasmotomy—(Gk. *plasma*, form; *tome*, cutting) प्ररस विच्छेद; कोशिकाद्रव्य-विभाजन; प्लैज्मोटोमी ।

plasome—(Gk. *plasma*, form; *soma*, body) प्लेसोम-एक काल्पनिक इकाई ।

plasson—(Gk. *plassein*, to form) तत्वजन ।

plastic—(Gk. *plastos*, formed) आकारक; कल्पक; आकार देने योग्य; सुघट्य; प्लैस्टिक ।

plastid—(Gk. *plastos*, formed; *idion*, dim) प्लास्टिड; स्रावकण; लवक; प्लैस्टिड । बहुत छोटे विभिन्न आकार के लवक जो वनस्पति कोशिकाओं में पाये जाते हैं ।

plastidome—(Gk. *plastos*, formed; *idion*, dim; *mestos*, full) सर्वकण; प्लैस्टिडोम; कोशिका द्रवीय अन्तर्द्रव्य (cytoplasmic inclusions) जिनसे स्राव कण (plastid) बनते हैं ।

plastidule—(Gk. *plastos*, formed; *idios*, dim) प्लास्टीड्यूल; एक काल्पनिक इकाई ।

plastin—(Gk. *plastos*, formed) प्लैस्टिन; कोशिकाओं के जीवन द्रव जाल (reticulum) में पाया जाने वाला पदार्थ ।

plasteochondria—कण्ठांग; माइटोकॉन्ड्रिया (mitochondria) ।

plastrochreone—(Gk. *plastos*, formed; *chronos*, time) प्ररस कालांतर; वर्धन की क्रमिक अवस्थाओं के बीच का समय ।

plastodynamia—(Gk. *plastos*, formed; *dynamis*, power) आकारद शक्ति ।

plastogamy—(Gk. *plastos*, formed; *yamos*, marriage) प्रस संयोगता; कोष्ठ द्रव संलयता ।

plastogeres—(Gk. *plastos*, formed; *gennaein*, to produce) प्लास्टोजेन; कोशिका द्रव्य कारक जो न्यू-क्लियस के साथ कार्यरत होकर कर्णों की विभिन्नता को निर्धारित करते हैं ।

plastomere—(Gk. *plastps*, formed; *meros*, part) कर्णांग खण्ड; लवकांश ।

plastral—(F. *plastron*, breast plate) वक्ष पट्ट सम्बन्धी; वक्ष पटली ।

plastron—(F. *plastron*, breast plate) अधरवर्म; प्लैस्ट्रन; प्लास्ट्रोन; वक्ष पटल; कछुओं के कवच का निचला पटल ।

platybasic—(Gk. *platys*, flat; *basis*, base) अधो-विस्तृत गवाक्षीय उरस्थिकपाल । [देखिये *tropibasic*—अधो लघुगवाक्षीय उपस्थिकपाल]

platydactyl—(Gk. *platys*, flat; *daktylos*, finger) पट्टांगुलिक; चिपिटंगुलि ।

platyhieric—(Gk. *platys*, flat; *hieros*, sacred) सपाटत्रिकी ।

platyhelminthes—पट्ट कृमियों; प्लैटोहेलिमन्थीज; अपृष्ठ दण्डियों या अकशेरुकों (*invertebrates*) का एक संघ (*Phylum*) ।

platysma—(Gk. *platysma*, flat piece) प्लेटिसमा; पेशी प्रच्छद; प्लैटोस्मा ।

platyspermic—(Gk. *platys*, flat; *sperma*, seed) सपाटबीजाणुक; द्विपार्श्व सममित बीजाणुक ।

plectenchyma—(Gk. *plektos*, twisted; *engchyma*, infusion) आभासी मूहतक; व्यावृत मूहतक; फन्जाई में कोशिका सूत्रक ऊतक ।

plectomenic—(Gk. *plektos*, twisted; *menos*, disposition) आभासी भाव ।

plectonephridia—(Gk. *plektos*, twisted; *nephros*, kidney) विट्टुत्सङ्गिक; जालवृक्ककी ।

plegetropism—(Gk. *plege*, stroke; *trope*, turn) हनवृत्ति; जीव की गति कम होने के कारण जीवन तत्व या प्रस के कर्णों का पुनर्न्यास (*redistribution*), जिसके कारण अंग की गति होती है ।

pleiochasmus, **polychasialcyme**—(Gk. *pleion*, more; *chasis*, division) बहु शाखी समीमाक्ष, (पुष्पक्रम); इसमें अग्रस्थ पुष्प के आघार से दो से अधिक पार्श्व शाखायें निकलती हैं ।

pleiocotyl—(Gk. *pleion*, more; *kotyle*, cup) बहु बीजपत्रक, दो से अधिक बीजपत्र वाला पौधा ।

pleiocotyledony—(Gk. *pleion*, more; *kotyledon*, cup shaped hollow) बहु बीज पत्रकता; दो से अधिक बीजपत्र होने की दशा वाला पौधा ।

pleiocyclic—(Gk. *pleion*, more; *kyklos*, circle) बहुक्रिया चक्री ।

pleiomorous—(Gk. *pleion*, more; *meros*, part) अतिअवयवी; अतिभागी; अतिरिक्त भागी ।

pleiomery—(Gk. *pleion*, more; *meros*, part) अति अवयवता; अतिरिक्त संख्यक भागी ।

pleiopetalous—(Gk. *pleion*, more; *petalon*, leaf) अतिदली ।

pleiophyllous—(Gk. *pleion*, more; *phyllon*, leaf) अतिपर्णी; अतिपर्णक; अतिपत्रक ।

pleiotaxy—(Gk. *pleion*, more; *taxis*, arrangement) अतिविन्यास; अतिचक्री ।

pleiotropic—(Gk. *pleion*, more; *trope*, turn) बहुवृत्तिक; बहुप्रभावी; एक से अधिक लक्षणों पर प्रभाव डालने वाला बहु-प्रभावी ।

pleiotrophy—(Gk. *pleion*, more; *trope*, turn) बहु वृत्ति; बहुप्रभाविता ।

pleistocene—(Gk. *pleistos*, most; *keions*, recent) प्लास्टोसीन; नवतम युग; अभिनूतन, अत्यन्तनूतन युग ।

pleochoric—(Gk. *pleon*, more; *chros*, colour) बहुवर्णी; विभिन्न वर्णी ।

pleochromatic—(Gk. *pleion*, more; *chroma*, colour) बहुवर्ण प्रदर्शी; भिन्न परिस्थितियों में भिन्न रंग प्रदर्शित करने वाला ।

pleocyte—प्लवाणु ।

pleometrosis—(Gk. *pleon*, more; *meter*, mother) बहुमातु संघ;—एक से अधिक मादा द्वारा निर्मित जन्तुदल या वस्ती (*colony*) ।

pleomorphic—(Gk. *pleion*, more; *morphe*, form) बहुरचन; बहुरूपी; एक जीवन चक्र में दो या दो से अधिक आकृति या रचनाओं वाला ।

pleon—(Gk. *plein*, to swim) पिलियोन; केंकड़ा वशियों (*crustacea*) का अधर प्रदेश ।

pleopod—(Gk. *plein*, to swim; *pous*, foot) प्लविक पाद; उदर पाद; प्लवपाद ।

plerergate

plerergate—(Gk. *pleros*, full; *ergetes*, worker) पूर्ण जठरी उद्योगी ।

plerocecid—(Gk. *pleros*, full; *kerkos*, tail; *eidos*, form) पूर्णपुच्छाभक; प्लीरोसरकोइड, भ्रूणक या लार्वा (larva) विशेष ।

plerocestoid—(Gk. *pleros*, full; *kestos*, girdle) पूर्णमेखली स्योतिकाभक; सस्टोइड (cestoid) कृमियों का आलिगी (sexless) सिस्ट या स्योति (encysted) युक्त अवस्था ।

plerome—(Gk. *pleroma*, a filling) प्लीरोम; शिखाग्र खण्डित भाग का केन्द्रीय भाग ।

plebiobiotic—(Gk. *plesios*, near; *biosis*, a living) प्रतिवेशक; अति समीप रहने वाला; आसन्न जीवी ।

plebiometacarpal—(Gk. *plesios*, near; *meta*, after; *karpos*, wrist) आसन्न करभास्थिकता समीपस्थ टूक धारण करने की दशा । [देखिये *telemetacarpal* करभास्थि दूरस्थ करभास्थिकता]

plebiotype—(Gk. *plesos*, near; *typos*, image) सामन्त रूप; वह व्यक्ति या अंगी (specimen) जिसका कि वर्णन जाति (specie) की स्थापना (establishment) के पश्चात् किया गया हो ।

pleura—(Gk. *pleura*, side.) पार्श्वपटल; पार्श्वक; फुफ्फुसावरण; फुफ्फुसावेष्टन; फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली ।

pleural—(Gk. *pleura*, side.) फुफ्फुसावेष्टनी; पार्श्वपटल सम्बन्धी; पार्श्व; फुफ्फुसावरणी ।

pleural cavity—फुफ्फुसीय गुहा; रतनी में फुफ्फुस को घेरे हुए प्रगुहिक अवकाश (coelomic space) जो डायफ्राम (diaphragm) द्वारा शेष पर्यंतरंग गुटिका (perivisceral cavity) से पृथक् रहती है । फुफ्फुस कोष युग्मिक होते हैं और एक दूसरे से फुफ्फुस मध्यावकाश (mediastinum) और हृदयावरणी कोष (pericardial sac) से अलग-अलग रहते हैं ।

pleuralia—(Gk. *pleura*, side) पार्श्व स्पीक्यूल; पार्श्व कंटिका ।

pleurapophysis—(Gk. *pleura*, side; *apo*, from; *physis*, growth) पार्श्व प्रवर्धन । कुछ कशेरु केन्द्रकों (vertebral centra) पर पाये जाने वाले पार्श्वीय प्रवर्धन (lateral processes) या वास्तविक पशु (true ribs) ।

pleurethmoid—(Gk. *pleura*, side; *ethmos*, sieve; *eidos*, form) पार्श्व भ्रूणरास्थि ।

pleurite—(Gk. *pleura*, side) पार्श्वपटल पट्टिका; पार्श्वकांश ।

pleurobranchiae—(Gk. *pleura*, side; *branchia*, gills) पार्श्व गिल; पार्श्व क्लोम ।

pleurocerpic—(Gk. *pleura*, side; *karpos*, fruit) पार्श्वशाखाफलिनः ।

pleurocentrum—(Gk. *pleura*, side; L. *centrum*, centre) पार्श्व केन्द्री; पार्श्व केन्द्रावयव; पार्श्वकायक ।

pleurocerebral—(Gk. *pleura*, side; L. *cerebrum*, brain) पार्श्व मस्तिष्क गुच्छीय; मौलस्का में पार्श्व गैंगलिया (pleural) और मस्तिष्कीय (cerebral) गैंगलिया (गुच्छ) सम्बन्धी ।

pleurodont—(Gk. *pleura*, side; *odous*, tooth) पार्श्व या पार्श्वस्थ (दन्त या दाँत) पार्श्वदन्ती; । जबड़े की हड्डी के पार्श्व तल (lateral surface) पर आसक्त दंत (fixed teeth) ।

pleuron-pleura—(Gk. *pleuron*, side) पार्श्व पटल; पार्श्वक; सन्धिपादों (arthropoda) में दैहिक खण्डों के बाह्य पार्श्वीय टूक ।

pleuropedal—(Gk. *pleura*, side; L. *pes*, foot) पार्श्व-पाद गुच्छिकीय ।

pleuroperitoneum—(Gk. *pleura*, side; *periteinein*, to stretch round) पार्श्व-उदरास्तरीय; डायफ्राम विहीन जन्तुओं में कायास्तर कला ।

pleuropodium—(Gk. *pleura*, side; *pous*, foot) पार्श्व-पादी ।

pleurosten—(Gk. *pleura*, side; *osteen*, bone) पार्श्वस्थि; तरुण पक्षियों के स्टर्नम का पार्श्व प्रवर्धन ।

pleurotribe—(Gk. *pleura*, side; *tribein*, to rub) पार्श्वघर्षणक ।

pleurovisceral—(Gk. *pleura*, side; L. *viscere*, intestines) पार्श्व-दैहिक गुच्छीय ।

plexiform—(L. *plexus*, interwoven; *forma*, shape) व्यावृत्ती; जाल के सदृश आपस में सटी हुई आकृति वाला ।

plexus—(L. *plexus*, interwoven) तन्त्रिका जाल या जालक; जालिका ।

plica

- plica—(L. *plicare*, to fold) त्वचा भाँज; वलिक; प्रवलन; कला भाँज ।
- plicate—(L. *plicare*, to fold) कला भाँजी; ताल वृत्तक; वलिकीय; प्रवलित ।
- pliciform—(L. *plicare*, to fold; *forma*, shape) तालवृन्तोपम ।
- pliocene—(Gk. *pleion*, more) प्लाओसीन; नवतर काल; अतिनूतन युग ।
- plotophyte—(Gk. *plotos*, floating; *phyton*, plant) प्लविक पौधा; प्लवन पादप; प्लवनोद्भिद ।
- ploughshare bone or pygostyle—पाईगोस्टाइल; कृषकास्थि; फालक ।
- pluma—(L. *pluma*, feather) परिणाह पक्ष; अधि- पिच्छ ।
- plumage—(L. *pluma*, feather) पिच्छ; पक्षा; पक्षति ।
- plumate—(L. *pluma*, feather) पिच्छी; पिछकी ।
- plume—(L. *pluma*, feather) पिच्छ; या पिच्छोपम; पिछक ।
- plumicome—(L. *pluma*, feather; *coma*, hair) पिच्छाकार स्पीक्यूल; पिच्छ स्पीक्यूल; प्लूमीकोम ।
- plumicorn—(L. *pluma*, feather; *cornu*, hair) पिच्छ शृङ्गी; पिच्छ शृंग ।
- plumigerous—(L. *pluma*, feather; *girere*, to carry) पक्षा; पंखयुक्त; पिछवान ।
- plumiped—(L. *pluma*, feather) *pes*, foot) पंख-पादी; पंखों से युक्त पाँव वाला पक्षी आदि ।
- plumose—(L. *pluma*, feather) सपक्ष; पक्षयुक्त; पक्षा-कार; पिच्छकी ।
- plumula—(L. *plumula*, small feather) रोमपक्ष; पिच्छक ।
- plumular—(L. *plumula*, small feather) पिच्छ-कीय ।
- plumulata—(L. *plumula*, small feather) रोम-पक्षीय ।
- plumule—(L. *plumula*, small feather) प्लूमूल; प्रांकुर ।
- pluriaxial—(L. *plus*, more; *axis*, axle) द्वितीय प्रांरोह पुष्पी ।

- pleuripartite—(L. *plus*, more; *partus*, divided) अधिक पालिय (lobes); अधिक संविभागी (partitions) ।
- plurilocular—(L. *plus*, more; *loculus*, little place) अधिकोपिकी; दो या दो से अधिक कोपिका (loculi) युक्त ।
- pluricaps—बहुमुंडी ।
- pluriseptate—(L. *plus*, more; *septum*, partition) बहुव्यवधानी; बहुजवनी ।
- pluriserial—(L. *plus*, more; *series*, row) बहु-पत्तिक; अनेक पंत्तिक ।
- plurivalent—(L. *plus*, more; *valere*, to be worth) बहुपरम्परा सूत्री; अनेक युग्मी ।
- pluteal—(L. *pluteus*, shed) प्लूटियल; प्लूटियस सम्बन्धी ।
- pluteus—(L. *pluteus*, shed) प्लूटियस; कंटकदेहियों (echinoderms) का एक स्वतन्त्र प्लावी (free swimming) लार्वा या अर्भक विशेष ।
- pneumatic—(Gk. *pneuma*, air) वायवी; वायवीय; वातीय; वातिल ।
- pneumaticity—(Gk. *pneuma*, air) वातीय; वात छिद्रकी ।
- pneumatised—(Gk. *pneuma*, air) वात छिद्रक ।
- pneumatocyst—(Gk. *pneuma*, air; *kystis*, bladder) वात कोष ।
- pneumatophore—(Gk. *pneuma*, air; *pherein*, to bear) वातकोषिकाधारी; ह्वसन मूल; वात पुटीधर ।
- pneumatopyle—(Gk. *pneuma*, air; *pyle*, gate) वात छिद्र ।
- pneumogastric—(Gk. *pneuma*, air; *gaster*, stomach) न्यूमोगैस्ट्रिक; वैगस तंत्रिका; देहांगी नाड़ी; श्वास-जठर; दशम मस्तिष्कीय नाड़ी या तंत्रिका (tenth cranial nerve) ।
- pneumostome—(Gk. *pneuma*, breath; *stoma*, mouth) वात मुख ।
- pneumotaxis—(Gk. *pneuma*, air; *taxis*, arrangement) वात वृत्ति ।
- pod, legume—(M. E. *pod*, bag) फली (लेग्युमिनोसी कुल का फल) यह शुष्क सम्पुटी (capsular) फल होते हैं । यह एकाण्डप तथा सुपीरियर अण्डाशय से बनते हैं ।

podal

तथा पकने पर दोनों सीमन रेखाओं (sutures) से फटते हैं—उदाहरण—मटर, सेम तथा दालें ।

podal—(Gk. *pous*, foot) पाद्रीय; पाँव या पैर (पाद) सम्बन्धी ।

podon—(Gk. *pous*, foot) पोडियन; वृंतोदर; शिबिका; हाइमेनोपट्टरा (hymenoptera) गण के जन्तुओं के उदर का पतला मध्य भाग ।

podetiform—(Gk. *pous*, foot; L. *forma*, shape) शिबोकोपम ।

podetium—(Gk. *pous*, foot) पोडेटियम; स्तम्भवत वृन्तोपम; उच्छाय ।

podex—(L. *podex*, rump) उपपायु; पायुप्रदेश ।

podical—(L. *podex*, rump) पायुक; पायु सम्बन्धी ।

podical plate—पोडिकल पट्ट; षटपादियों (insects) में गुदाद्वार को घेरे हुए पट्ट या फलक (plate) ।

podite—(Gk. *pous*, foot) पादिका; केंकड़ा वंशियों (crustaceans) की चलने वाली (walking) टांग या पादिका (leg or podite) ।

podium—(Gk. *pous*, foot) पादिकोपम; पादक ।

podobranchiae—(Gk. *pous*, foot; *branchia*; gills) पादगिल; पाद क्लोम; किन्हीं सन्धिपादों (arthropoda) में वक्षकावयवों (thoracic appendages) के काक्सा खण्डों (coxopodites) से निकलने वाले पाद-गिल (foot gills) ।

podoccephalous—(Gk. *pous*, foot; *kephale*, head) पादशिरसी; लम्बे डन्ठल पर पुष्प धारण करने वाले ।

podoconus—(Gk. *pous*; foot; *konos*, cone) पाद-शंकु । सारकोडाइना (sarcodina) के बिम्ब (disc) को केन्द्रीय कुहर (central capsule) से सम्बन्धित करने वाली शंकु आकृति (conical) जो अन्तर्द्रव्य पदार्थ से बनती है ।

podocyst—(Gk. *pous*, foot; *kyttis*, hollow) पाद-कोषिका; पादपुटी ।

pododerm—(Gk. *pous*, foot; *derma*, skin) पादी-यत्वक; पदचर्म । खुर (hoof) के शृङ्गीय स्तर (horny layer) के अन्दर की अन्तपृष्ठ ।

podogynium—(Gk. *pous*, foot; *gynec*, female) पादजायांगी ।

podomere—(Gk. *pous*, foot; *meros*, part) पाद-खण्ड; अवयव खण्ड; सन्धिपादों (arthropoda) के अवयव (limb) का खण्ड (segment) ।

podophthalmite—(Gk. *pous*, foot; *ophthalmos*, eye) चक्षुवृन्तखण्ड ।

podotheca—(Gk. *pous*, foot; *theke*, box) पादा-वरण; पादपिधान; पादावरक ।

pogonion—(Gk. *pogonion*, little beard) पोगोनियन; प्रचिदुक; चिदुककूट ।

podzol—(Russ. *pod*, under; *zolo*, ash) घूसर राख या मिट्टी (जंगल आदि की) ।

pogonion—(Gk. *pogonion*, little; beard) पोगो-नियन; चिदुकास्थि (mandible) पर प्रमुख चिन्ह ।

poikilocyte—(Gk. *poikilos*, various; *kytos celi*) विरूप; कोशिका । लाल रक्तकण (erythrocyte) की विरूप आकृति जो किसी रोग की दशा में उपस्थित होती है ।

poikilogony—(Gk. *poikilos*, various; *gene*, generation) अन्तर्जाति विभिन्नता; पर्यावरण कारकों के कारण भ्रूणिक प्रक्रिया में अन्तर्जाति विभिन्नतायें ।

poikilothermal—(Gk. *poikilos*, various) अमित-तापी; भिन्नतापी; असमतापी; तापतरतम्यसह; ऐसे जन्तु जिनका तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है ।

ये लक्षण पक्षी और स्तनी के अतिरिक्त सब ही जन्तुओं का होता है । जलीय असमतापीयों का ताप आसपास के जल का ताप ही होता है । भौमिक जन्तुओं का ताप पर्यावरण के ताप से भिन्न हो सकता है, जिस कारण वे अपने शरीर का ताप वाष्पन द्वारा शीतलता प्राप्त कर अथवा सूर्य विकिरण से या पेशी व्यायाम से ऊष्मा प्राप्त कर समान लाते हैं । इन जन्तुओं को अंग्रेजी में cold blooded—'शीत रुधिर प्राणी' भी कहा जाता है ।

[देखिये—Homoio thermic—समतापी]

poison—(L. *potare*, to drink) विष ।

polar—(Gk. *polos*, pivot) ध्रुवी; ध्रुवक; ध्रुवीय ।

polar body—ध्रुवपिण्ड; लोपिका छोर पिण्ड ।

polar capsules—ध्रुव सम्पुट ।

polar cartilage—ध्रुव उपास्थि ।

polar nuclei—ध्रुव न्यूक्लियस; आवृतबीजीयों के भ्रूण

- के दोनों सिरों पर स्थिति न्यूक्लियस जो बाद में द्वितीय न्यूक्लियस (secondary nucleus) बनाते हैं ।
- polar plate**—ध्रुव पट्टिकायें ।
- polar rays**—ध्रुव किरण; तारा किरण ।
- polar rings**—ध्रुव मुद्रिकायें ।
- polarity**—(Gk. *polos*, pivot) ध्रुवीयता; ध्रुविता; पौधों की ध्रुव से वृद्धि पाने की प्रवृत्ति—जड़ें नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर ।
- pole**—(L. *polus*, to be in motion) ध्रुव ।
- pole plate**—ध्रुव पट्ट ।
- polian vesicles**—(Gk. *poll*-Italian naturalist) पोलियन-कोषिकायें । एस्टेरोइडिया (Asteroidea) और होलोइथुरोइडिया (Holothuroidea) के धीवी तन्त्र (ambulacral system) में कासाध कोषिकायें (interadial vesicles) मुद्रिका वाहिका (ring vesicles) में खुलती हुई ।
- polioplasm**—(Gk. *polios*, gray; *plasma*, form) कणी प्ररस; कण मय जीवन सत्व ।
- pollakanthia**—(Gk. *pollakis*, many times; *anthos*, flower) अनेक पुष्पावधिकीय; कई बार पुष्प धारण करने वाले ।
- pollen**—(L. *pollen*, fine flour) पराग; बीजी पौधों का नर निषेकज तत्व ।
- pollen grain**—परागकण ।
- pollen sac**—पराग कोष; बीजी पौधों की लघु बीजाणु-धानी (microsporangium) ।
- pollen tube**—पराग नलिका; (१) वर्तिकाग्र से चिपकने के पश्चात् । पराग कणों से उत्पन्न नलिकाकार प्रवर्धन । (२) नर युग्मकोदभिद (male gametophyte) ।
- pollex**—(L. *pollex*, thumb) अंगूठा हस्त; हस्तांगुष्ठ; मुठ ।
- pollinarium**—(L. *pollen*, fine flour) संलग्न बिम्बी पराग पुंज ।
- pollination**—(L. *pollen*, fine flour) परागण; पुष्पों में निषेचन हेतु परागकण का परागकोष से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया ।
- cross pollination**—पर-परागण ।
- self pollination**—स्व-परागण ।

- polliniferous**—(L. *pollen*, fine flour; *ferre*, to carry) परागधर; परागधारी ।
- pollinum**—(L. *pollen*, fine flour) परागपिंड; संयुजी-परागपुंज ।
- pollinodium**—(L. *pollen*, fine flour) पोलिनोडियम; माइसीलियम (mycelium) की मुगदराकार एक शाखा ।
- pollinoid**—(L. *pollen*, fine flour) नर युग्मक ।
- polocytes**—(Gk. *polos*, axis; *kytos*, hollow) ध्रुव कोशिका लोपिका ।
- polstar**—(Gk. *polster*, pad) पोल्स्टर; एक प्रकार का बारहमासी (perennial) पीठोपधान (cushion) पादप ।
- polyadelphous**—(Gk. *polys*, many; *adelphous*, brother) बहुसघी ।
- polyandrous**—(Gk. *polys*, many; *aner*, male) पृथक पुंकेसरी; बहु पुंकेसरी; दोस या वीस से अधिक पुंकेसर (stamen) युक्त ।
- polyandry**—(Gk. *polys*, many; *aner*, female) बहुनर सेवी; बहुपतित्व ।
- polyanthus**—बहुपुष्पी; बहुपुंकेसरता; बहुनरता ।
- polyarch**—(Gk. *polys*, many; *archos*, chief) बहु-आदिदारुक ।
- polyaxon**—(Gk. *polys*, many; *axis*, axle) बहु अक्षक; बहुअक्ष ।
- polyblast**—(Gk. *polys*, many; *blastos*, bud) पुरारक्त कोशिका; वृहत्-तन्तु भक्षक (कोशिका) ।
- polycarp**—(Gk. *polys*, many; *karpos*, fruit) बहु-जननांग । कुछ एसीडियन (ascidian) में मेन्टल या पिधान (mantle) के अन्तराल या अन्तःतल (inner surface) में स्थित जननांग ।
- polycarpellary**—(Gk. *polys*, many; *karpos*, fruit) बहु अण्डपी; पृथक अण्डपी ।
- polycarpic, polycarpous**—(Gk. *polys*, many; *karpos*, fruit) बहुशः फलनी; बहुअण्डपी ।
- polycentric**—(Gk. *polys*, many; *kentron*, centre) बहु केन्द्र पिण्डी, बहु केन्द्रीय परम्परा-सूत्र; बहुकेन्द्री ।
- polycercous**—(Gk. *polys*, many; *kerkos*, tail) बहु स्योतिक; बहु सिरस्क; बहुपुच्छक ।

polychasium—(Gk. *polys*, many; *thesis*, division) बहुशाखी ससीमाक्ष (पुष्पक्रम); इसमें अग्रस्थ पुष्पक आघार से एक ही बिन्दु से दो से अधिक पार्श्व-शाखाएँ निकलती हैं। उदाहरण—मदार (*calotropis*)।

polychromasy—(Gk. *polys*, many; *chroma*, colour) बहुवर्णता; बहुवर्णकता; एक ही रंग द्वारा बहुत से रंगों में रंगा जाना।

polychromatic—(Gk. *polys*, many; *chroma*, colour) बहुवर्णी; विविध वर्णी; बहुत से रंगों वाला।

polychromatocyte—(Gk. *polys*, many; *chroma*, colour; *kytos*, hollow) बहु वर्ण लाल रक्त कोशिका।

polychromatophil—(Gk. *polys*, many; *chroma*, colour; *philein*, to love) बहुवर्णत्मक।

polychrome—(Gk. *polys*, many; *chroma*, colour) बहुवर्ण; बहु रंग; बहुवर्णी।

polycotyledon—(Gk. *polys*, many; *kotyledon*, hollow vessel) बहुबीजपत्र; दो से अधिक बीजपत्र।

polycotyledonary—(Gk. *polys*, many, *kotyledon*, hollow vessel) बहुबीजांडासनी; बीजांडासन कई भागों में बंटा हुआ।

polycotyledonous—(Gk. *polys*, many; *kotyledon*, hollow vessel) बहुबीजपत्री (जैसे चीड़ (*fir*) का भ्रूण)।

polycotyledony—(Gk. *polys*, many; *kotyledon*, hollow vessel) बहुबीजपत्रज; बीजपत्र की संख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी।

polycrotism—(Gk. *polys*, many; *krotos*, heating) बहुनाड़ी स्फुरणता।

polycyclic—(Gk. *polys*, many; *kyklos*, circle) बहुचक्री; बहु मुद्राकृतिक।

polycystid—(Gk. *polys*, many; *kystis*, bladder) बहुस्योतीय; बहुस्योति कोषिक।

polydactyly—(Gk. *polys*, many; *daktylos*, finger) बहु अंगुलिकता; बहु अंगुलिक; बहु दशा जिसमें जन्तु की साधारण संख्या से अधिक अंगुलियाँ होती हैं।

polyembryony—(Gk. *polys*, many; *embryon*, foetus) बहुभ्रूणता—एक युग्मनन (*zygote*) में से एक से अधिक भ्रूणों का होना या बनना; जैसे (१) एक गुग्मजी

जुड़वाँ; (२) आरमेडिलो (डेसीपोडस) जिसमें एक युग्मन से केवल चार भ्रूण बनते हैं; (३) परजीवी हाइमनोप्टरा (*hymenoptera*) में एक युग्मजी (*zygote*) से 2000 तक भ्रूण बनते हैं।

polyenergic—(Gk. *polys*, many; *energos*, active) बहुकेन्द्र बिन्दुक; एक से अधिक केन्द्र बिन्दु (*centriole*) वाला न्यूक्लियस (*nucleus*)।

polygamous—(Gk. *polys*, many; *gamous*, marriage) बहुपत्नीक; बहुस्त्रीक; सर्वलिगी; बहुसंगमनी।

polygene—(Gk. *polys*, many; *genos*, descent) बहुजीन; बहु परम्परा कण; अनेक जीन; ऐसा जीन या परम्परा कण (*gene*) जो अधिकांश लक्षणों पर नियन्त्रण करता है।

polygenetic—(Gk. *polys*, many; *genesis*, descent) बहुजनी; बहुमूलज।

polygenic—(Gk. *polys*, many; *genes*, producing) बहुपरम्परा कणी; बहुमूलज।

polygerm—(Gk. *polys*, many; *L. germen*, bud) बहुजर्म; बहुजीवाणु।

polygonal—बहुकोणी; बहुभुजी।

polygoneutic—(Gk. *polys*, many; *goneuein*, to beget) बहु अण्डोन्यापनी; एक मौसम में एक से अधिक बार अण्डों को सेने वाली।

polygynoecial—(Gk. *polys*, many; *gyne*, woman; *oikos*, house) बहु पुंजफल।

polygynous—(Gk. *polys*, many; *gyne*, female) बहुपत्नीक; बहुस्त्रैण; बहुजाया।

polykaric—(Gk. *polys*, many; *karyon*, nut) बहु-अष्टिक; बहु-केन्द्रकी।

polykaryocyte—(Gk. *polys*, many; *karyon*; *nut*; *kytos*, hollow) बहुअष्टिक कोशिका; अस्थि मज्जा की बहु-अष्टिक या केन्द्रक कोशिका।

polykaryon—(Gk. *polys*, many; *karyon*, nut) बहु बिन्दुकाष्टिक।

polykont—(Gk. *polys*, many; *kontos*, pole) बहु-कपी; अनेक कशाभी।

polymastigote—(Gk. *polys*, many; *mastix*, whip) गुच्छ कपी; शिखकशाभ।

polymastism—(Gk. *polys*, many; *mastos*, breast) बहुस्तनता; सामान्य स्तन संख्या से अधिक स्तनों का होना ।

polymegaly—(Gk. *polys*, many; *megalos*, greatly) असमान वीर्याणुक्त; अनेक शुक्राणुता; एक जन्तु से दो से अधिक नापों के वीर्याणुओं का होना ।

polymeniscous—(Gk. *polys*, many; *meniskos*, small moon) बहुचन्द्रतल ;

polymerous—(Gk. *polys*, many; *meros*, part) बहुखण्डी; बहुतयी ।

polymorph—(Gk. *polys*, many; *morphe*, form) बहुरूपा (श्वेत-कोशिका); बहुरूपक । इनके अन्य नाम बहुरूपकेन्द्री श्वेताणु (polymorpho-nuclear leucocyte) या बहुरूपकेन्द्रक कणिकाणु (polymorphonuclear granulocyte) हैं । ये कशेरुकों के रक्त की श्वेत कोशिकाएँ होती हैं । मानव में ये ७ से ९ माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं तथा रक्त का ६५ से ७५ प्रतिशत भाग इनसे ही बना होता है । ये भक्षक प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं । इनका निर्माण निरन्तर अस्थि मज्जा में होता रहता है । ये अल्प जीवी होती हैं ।

polymorphic—(Gk. *polys*, many; *morphe*, form) बहुरूपी ।

polymorphism—(Gk. *polys*, many; *morphe*, form) बहुरूपता ।

polymorphonuclear—(Gk. *polys*, many; *morphe*, form); L. *nucleus*, kernel) बहुरूपाष्टिक; बहुरूपकेन्द्रकीय ।

polymorphous—(Gk. *polys*, many; *morphe*, form) बहुरूपा ।

polynucleate—(Gk. *polys*, many; L. *nucleus*, kernel) बहुअष्टिक ।

polyoestrous—(Gk. *polys*, many; *oistros*, gadfly) बहुमदी; बहुमद चक्री ।

polyp—(L. *polypus*, polyp) पॉलिप; मुकुल; एक साधारण एकटीनोजोआ (actinozoa) के समूह (colony) का एक प्रथम मुकुल (zooid) ।

polyparium—(L. *polypus*, polyp) बहुमुकुली; पॉलिपेरियम ।

polypetalous—(Gk. *polys*, many; *petalon*, leaf) बहुदली; पृथक् दली ।

polyphagous—(Gk. *polys*, many; *phagein*, to eat) बहुभोजी; बहुग्राहारी; विविध भक्षी ।

polyphyletic—(Gk. *polys*, many; *phyllon*, race) बहुवंशोद्भव ।

polyphyllous—(Gk. *polys*, many; *phyllon* leaf) बहुपर्णी; पृथक् परिदलीय ।

polyphyodont—(Gk. *polyphyes*, manifolds; *odous*, tooth) बहु श्रेणिक दन्ती; बहुवारदन्ती ।

polypide—(L. *polypus*, polyp) पॉलीपीड; मुकुल व्यक्ति ।

polyplastic—(Gk. *polys*, many; *plortos*, formed) बहुआकृतिक; बहुरूपी ।

polyploid—(Gk. *polys*, many; *aploos*, one fold) *eidos*, form) बहुगुणित । ऐसे बहुगुणित व्यक्ति जिनमें अगुणित (haploid) क्रोमोसोम की संख्या से तीन या अधिक गुना क्रोमोसोम की संख्या होती है । ऐसे व्यक्ति पौधों में अधिक और जन्तुओं में प्रायः नहीं के बराबर होते हैं, इसका मुख्य कारण बहुगुणित का बंध्य (sterile) होना होता है । जब कभी कोई बहुगुणित यकायक द्विगुणित समष्टि (diploid population) में उभर आता है तो वह केवल अनिषेक जनन (parthenogenetically) या स्वनिषेक (self-fertilization) से ही उत्पादन कर सकता है । यह प्रकार वनस्पतियों में ही अधिक होते हैं जबकि जन्तुओं में केवल निम्न जन्तुओं में ही और वे भी बहुत कम संख्या में पाये जाते हैं । [देखिये—Allotetraploid—परचतुर्गुणित या Amphidiploid—उभय द्विगुणित] ।

polypneustic—(Gk. *polys*, many; *pnein*, to breathe) बहुश्वास छिद्री; बहुरंध्री ।

polypod—(Gk. *polys*, many; *pous*, foot) बहुपादी; अनेक पदी ।

polypoid—(L. *polypus*, polyp; Gk. *eidos*, form) मुकुलोपम; पॉलिपाम ।

polyprotodont—(Gk. *polys*, many; *protos*, first, *odous*, tooth) बहुकर्तक दन्ती; बहुप्रदन्त; बहुआदिदन्त; ऊर्ध्वहनु (upper jaw) के दोनों पार्श्वों में चार या पाँच और अधःहनु (lower jaw) में कुछ कम संख्या में कर्तक दन्त (incisors) रखने वाला ;

polyrhizal—(Gk. *polys*, many; *raiza*, foot) बहुमूलक; बहुमूलिकायुक्त ।

polysepalous—(Gk. *polys*, many; F. *sepal*, sepal)—पृथक् बाह्यदली ।

polysiphonic—(Gk. *polys*, many; *siphon*, tube) बहुविनाल; बहुसाइफनी ।

polysomic—(Gk. *polys*, many; *soma*, body) अधिक गुण या परम्परा सूत्री; सामान्य संख्या से एक या अधिक रजक या गुण सूत्रों का होना ।

polysomitic—(Gk. *polys*, many; *soma*, body; *temnein*, to cut) बहुखण्ड देही ।

polysomy—(Gk. *polys*, many; *soma*, body) अधिगुणसूत्रता ।

polyspermous—(Gk. *polys*, many; *sperma*, seed) बहुबीजाणुक ।

polyspermy—(Gk. *polys*, many; *sperma*, seed) बहुवीर्याणुता; बहुशुक्राणुता ।

polyspondyly—(Gk. *polys*, many; *spondylos*, vertebra) बहुकशेरुकता । पेशीदेहखण्ड (myotome) के विभक्त हो जाने पर कशेरुक भागों की बहुलता होने की दशा ।

polysporocystid—(Gk. *polys*, many; *sporos*, seed; *kystis*, bladder; *eidos*, form) बहुस्पोर स्योतिक; स्पोरोजोआ की वह डिम्बस्योति (oocyst) जिसमें चार से अधिक स्पोर स्योति उपस्थित होते हैं ।

polysporous—(Gk. *polys*, many; *sporos*, seed) बहुबीजाणुक; बहुस्पोरी ।

polystachyous—(Gk. *polys*, many; *stachys*, ear of corn) बहुकणिस; बहुस्पाइकी ।

polyspore—बहु बीजाणु ।

polystetic—(Gk. *polys*, many; *stete*, part) बहुरंभी ।

polystely—(Gk. *polys*, many; *stete*, part) बहु-रंभता; बहुसंवाहन वण्डली ।

polystemonous—(Gk. *polys*, many; *stemon*, warp) बहुपुंकेसरी । दल या बाह्य दल की संख्या से दुगने पुंकेसर युक्त ।

polystichous—(Gk. *polys*, many; *stichos*, row) बहुपंक्ति; बहु-अवलिक ।

polystomatous—(Gk. *polys*, many; *stoma*, mouth) बहुमुखी; बहुमुख छिद्री, बहुमुखीय ।

polystomium—(Gk. *polys*, many; *stoma*, mouth) पोलीस्टोमियम; डिस्कोमेडुसी (discomedusae) का चूषण मुख (suctorial mouth) ।

polystylar—(Gk. *polys*, many; *stylos*, pillar) बहुडण्ठली; बहुस्तम्भी; बहुवर्तिकीय ।

polysymmetrical—(Gk. *polys*, many; *symmetria*, due proportion) बहुसमांशी ।

polytene—(Gk. *polys*, many; *tainia*, band) पोली-टीन; बहु पट्टक; बहुपट्टीय ।

polythalamous—(Gk. *polys*, many; *thalamos*, chamber) बहुकोषकीय; बहुकोष्ठीय कवच ।

polythelia—(Gk. *polys*, many; *thete*, nipple) बहुधनी; बहुचूचकी ।

polytocous—(Gk. *polys*, many; *tokos*, offspring) बहुप्रज ।

polytomous—(Gk. *polys*, many; *tome*, cutting) बहुउपशाखीय; बहुभाजी ।

polytrichous—(Gk. *polys*, many; *thrix*, hair) बहु मृशतंत्रिक ।

palytrochal—(Gk. *polys*, many; *trechos*, wheel) बहु घूर्णतन्त्रिक ।

polytrophic—(Gk. *polys*, many; *trophe*, nourishment) बहुवृत्तिक; बहुपोषी ।

polytypic—(Gk. *polys*, many; *typos*, type) बहु-आदर्शक; बहुल प्ररूपी ।

polyvoltine—(Gk. *polys*, many; *It. volta*, time) बहुशावकगणी; बहुप्रजी; एक मौसम (ऋतु) में कई प्रजी (ब्रूड) देने वाले ।

polyzoorium—(Gk. *polys*, many; *zoon*, animal) पॉलिजोरियम; पॉलिजोआ अघिनिवेश; पॉलिजोआ अस्थितन्त्र ।

polyzoa (Bryozoa)—(Gk. *polys*, many; *zoon*, animal) बहुकोष्ठक; बहुकोशिकीय; पॉलिजोआ । छोटे जलीय जन्तुओं का एक संघ (फाइलम) । इस संघ के जन्तु निवही (colonial) बद्ध (fixed) तथा ऊपर से हाइड्राभ सीलेन्टरेट (hydroid coelentrates) से मिलते जुलते होते हैं । इनमें पक्षमाभी स्पर्शक (टेंटिकिल) होते हैं जिनसे

यह खाद्य लेत हैं, पायू (anus), सीलोम तथा खरिकीय कंकाल (calcareous skeleton) युक्त होते हैं—यह हाइड्राम-सीलेन्टेट से कहीं अधिक जटिल होते हैं पहिले इस संघ के दो वर्ग थे एक एक्टोप्रोक्टा (actoprocta) और दूसरा एन्डोप्रोक्टा (endoprocta) पर अब इनको पृथक् संघ माना जाता है ।

polyzoic—(Gk. *polys*, many; *zoon*, animal) बहु स्पोरोजोइट ।

polyzoid—(Gk. *polys*, many; *zoon*, animal; *eidos*, form) पॉलिजूयाइड; बहुजन्तुमुकुली; पॉलिजोया अधिनिवेश में एक जन्तु मुकुल (zoid) ।

pome—(L. *pomum*, apple) पोम; (सेब) इस फल में अण्डाशय इन्फोरियर मुक्ताण्डपी (syncarpous) होता है । खाने वाला मांसल भाग पुष्पासन का फूला हुआ भाग होता है । वास्तविक फल फूले हुए पुष्पासन के अन्दर होता है । उदाहरण—सेब, नाशपाती आदि ।

pompetta—(It. *pompetta*, little pump) धीर्याणु-बोकनी ।

pomum adami—देंदुआ; चुल्लिका उपास्थि की प्रमुख कूट (श्रीवा के सम्मुख) जो नर (male) में अधिक व्यापक होती है ।

ponogen—(Gk. *ponos*, toil; *gennaen*, to produce) पोनोजन; क्लान्ति विष; परिश्रम में उत्पन्न विसर्जन पदार्थ ।

ponora—फल वृतांत ।

pons—(L. *pons*, bridge) पोन्स; संवरक ।

pontal, pontic, pontile, pontine—पोन्स वेरोलाई (varolii) सम्बन्धी ।

ponticulus—(L. *ponticulus*, small bridge) पोन्टीकुलस; कणपल्लव उपास्थि पर खड़ी उत्संग (ridge) ।

popliteal—(L. *poples*, ham) पृसतीय ।

porcellanous—(F. *porcelaine*, from. It-*porcellana*, venus shell) चीनी मिट्टी सदृश पदार्थ ।

population—(L. *popularis*, the people) आवादी; समष्टि ।

pore—(Gk. *poros*, channel) छेद; छिद्र ।

pore-organ—छिद्र-अंग ।

poricidal—(Gk. *poros*, channel; L. *caedere*, to cut) कपाट या छिद्र स्फूटन ।

porifera—पोरीफेरा; छिद्र देही; अष्टदण्डियों का (in vertebrates) एक संघ (phylum) ।

poriferous—(Gk. *poros*, channel; L. *ferre*, to bear) छिद्रक; छिद्र युक्त ।

poriform—(Gk. *poros*, channel; L. *forma*, shape) छिद्रोपम; छिद्र वत् ।

porocyte—(Gk. *poros*, channel; *kytos*, {hollow} छिद्र कोष्ठ; छिद्रकोशिका; रंध्रकोशिका; रंध्राणु ।

porogam—(Gk. *poros*, channel; *gamos*, marriage) छिद्राणु निषेचन; ऐसा पौधा जिसकी पराग नलिका बीजांड (ovule) में छिद्राणु (microphyle) से प्रवेश करती है ।

[देखिये chalazogam—निभागी निषेचन]

porogamy—(Gk. *poros*, channel; *gamos*, marriage) छिद्राणु निषेचनता ।

poroids—(Gk. *poros*, channel; *eidos*, shape) उलका छिद्र; रंध्राभिका ।

porophyllous—(Gk. *poros*, channel; *phykon*, leaf) छिद्रपर्णी; ऐसी पत्ती जिसमें अनेक पारदर्शक चिन्ह हों ।

porphyrins—(Gk. *porphyre*, purple) पोरफाइरिन्स; कुछ जैविक वर्णक यौगिक जो घातु के साथ मिलकर श्वसन वर्ण या उत्प्रेरक (catalysts) बनाते हैं ।

porphyrophore—(Gk. *porphyra*, purple; *pherein*, to bear) वृत्रवर्ण-कोशिका; नील लोहित कोष्ठ ।

porphyropsin—(Gk. *porphyra*, purple; *opsis*, right) पोस्फाइरोप्सिन; स्वच्छ जलीय मत्स्यों के रेटिना में पाया जाने वाला वर्ण (pigment) ।

porrect—(L. *porrectus*, stretched out) आयामी; अग्रभिमुख; बाहर की ओर निकला हुआ ।

porta—(L. *porta*, gate) द्वारोपम; द्वारवत्; द्वार सदृश ।

portal—(L. *porta*, gate) केशिकान्तक; निवाहिका; प्रतिहारिणी; पोर्टल ।

portal system—केशिकान्तक संस्थान (मण्डल); निवाहिका तंत्र ।

portal system renal—वृक्क-केशिकान्तक मण्डल या तंत्र ।

portal system hepatic—यकृत केशिका मण्डल या तन्त्र ।
 portal vein—केशिकान्तक शिरा; प्रतिहारिणी या निवाहिका शिरा ।
 portio—(L. *portio*, portion) बंट; अंश ।
 position effect—स्थल प्रभाव; गुणसूत्र या क्रोमोसोम के अन्दर जीन पर तुलनात्मक स्थिति का प्रभाव ।
 positive tropism—घनात्मक वृत्ति ।
 post—‘पश्च’; ‘पिछला’; ‘पीछे का’ अर्थ सूचक उपसर्ग ।
 postabdomen—(L. *post*, after; *abdomen*, belly) पश्चोदर ।
 postanal—(L. *post*, after; *anus*, vent) पश्च पायुक् ।
 postantenal—(L. *post*, after; *antenna*, sail yard) पश्च स्पर्शक; पश्च ऐन्टीनल ।
 postaxial—(L. *post*, after; *axis*, axle) पश्चाक्षी; अक्ष पश्च ।
 postbranchial—(L. *post*, after; *branchia*, gills) पश्च गिली; पश्च क्लोम ।
 postcardinal—(L. *post*, after; Gk. *kardia*, heart) पश्च हृदयी; हृदयश्च; पश्च प्रमुख ।
 postcava or postcanal vein—(L. *post*, after; *cavus*, hollow) पश्चमहाशिरा ।
 postcentral—(L. *post*, after; *centrum*, centre) पश्च केन्द्री; केन्द्र पश्च ।
 postcentrum—(L. *post*, after; *centrum*, centre) पश्चकेन्द्रक ।
 postcerebral—(L. *post*, after; *cerebrum* brain) पश्च मस्तिष्की ।
 postclavicle—(L. *post*, after; *clavicule*, small key) पश्च क्लैविकल; पश्च; हँसुली अस्थि; पश्च जन्तुक ।
 postclitellian—(L. *post*, after; *clitellac*, back-saddle) पश्च पर्याणी; पर्याणिका पश्च ।
 postclinal—(L. *post*, after; *clinus*, hill) पश्चोन्नत-दरार । प्रमस्तिष्क के उन्नत भाग (*clinus*) के पीछे की दरार (*fissure*) ।
 postclypeus—(L. *post*, after; *clypeus*, shield) पश्च क्लाइपियस ।

postcornual—(L. *post*, after; *cornu*, horn) पश्च-शृंगी ।
 postcranial—(L. *post*, after, *cranium*, skull) पश्चकपाली ।
 postdicrotic—(L. *post*, after; Gk. *dis*, twice; *krotein*, to beat) पश्च स्पंदन तरंग ।
 postembryonic—(L. *post*, after; Gk. *embryon*, foetus) पश्च भ्रूणी; पश्च भ्रूणीय; भ्रूणोत्तर ।
 posterior—(L. *posterior*, later) पश्चात्; पश्चात्य; पिछला; पीछे का; मध्यरेखा के पीछे का; पश्च ।
 posterolateral—(L. *posterus*, following; *latus*, side) पश्चात् पार्श्वीय; पश्च-पार्श्वीय ।
 posteromedial—(L. *posterus*, following; *medius*, middle) पश्चात्-मध्तीय ।
 postflagellate—(L. *post*, after; *flagellum*, lash) पश्चात्-कपी, पश्च कशामी ।
 postfrons—(L. *post*, after; *frons*, forehead) पश्च ललाटिका; अनुललाट ।
 postfrontal—(L. *post*, after; *frons*, forehead) पश्च फ्रन्टल; पश्चललाटास्थि; ललाटिकापश्ची ।
 postfurca—(L. *post*, after; *furca*, fork) पश्च फर्का; पश्चद्विशिख ।
 postganglionic—(L. *post*, after; Gk. *ganglion*, tumour) पश्चगण्डीय; गुच्छिका पश्च ।
 postgena—(L. *post*, after; *gena*, cheek) पश्च-कपोलिक; पश्च कपोल ।
 postglenoid—(L. *post*, after; Gk. *glene*, socket) पश्च-गर्तोपम ।
 posthepatic—(L. *post*, after; *hepar*, liver) पश्च-यकृती; पश्च यकृतीय ।
 postheterokinesis—(L. *post*, after; Gk. *heteros*, other; *kinesis*, movement) पश्च विषम गति; ह्रास-विभाजन (*meiosis*) की वह दशा जिसमें लैंगिक गुणसूत्र विभाजित एक ध्रुव की ओर द्वितीय वीर्याणुजनन कोशिका विभाजन में गति कर जाता है ।
 posticous—(L. *posticus*, behind) पश्चतली; केन्द्र-पराङ्मुखी; बहिमुखी ।
 postischium—(L. *post*, after; Gk. *ischion*, hip) पश्च-इश्चियम; कुछ सूपसीलों (*reptiles*) में इश्चियम

postlabrum

(ischium) के पश्चात् भाग (hinder part) का पार्श्वीय प्रवर्धन ।

postlabrum—(L. *post*, after; *labrum*, lip) पश्च-लेब्रम ।

postminimus—(L. *post*, after; *minimus*, smallest) पश्च-छिगुलिक; अधिकांगुलि ।

postmitotic—(L. *post*, after; Gk. *mitos*, thread) पश्चविषम विभाजनी; ऐसी कोशिका जिसका कि व्यक्तिगत जीवन (individual life) विषम कोशिका विभाजन से आरम्भ या उद्भव होकर मृत्यु (death) पर समाप्त होता है । (देखिये intermitotic)

postneural—(L. *post*, after; Gk. *neuron*, nerve) पश्च नाडीय; पाईगल (pygal) ।

postnodular—(L. *post*, after; *nodulus*, small knot) पश्च काण्डीय ।

postnotum—(L. *post*, after; Gk. *noton*, back) पश्चनोटम; पश्च पृष्ठिका; उत्तरवक्ष पृष्ठक ।

postorbital—(L. *post*, after; *orbis*, circle) पश्चाक्षिक; पश्च-अक्षिक; पश्चाक्षि; नेत्रकोटरपश्ची ।

postotic—(L. *post*, after; Gk. *ous*, ear) पश्चकर्णो ।

postparietal—(L. *post*, after; *paries*, wall) पोस्ट पैराइटल (अस्थि विशेष); पैराइटल (parietal) और इन्टरपैराइटल (interparietal) के मध्य युगल अस्थि पोस्टपैराइटल का पाया जाना ।

postpatagium—(L. *post*, after; *patagium*, border) पश्च-त्वकापतर; पश्च चर्मप्रसर; पक्षियों (birds) में ऊर्ध्व बाहु (upper arm) और घड़ (trunk) के मध्य में फैला हुआ खाल का एक पर्त ।

postpermanent—(L. *post*, after; *permanens*, remaining) पश्च स्थाई; स्थान (स्थायी) दाँतों (permanent) के बाद के दाँतों का चिन्ह ।

postphragma—(L. *post*, after; *phragma*, fence) पश्चकर्मगम; पश्च प्रावर; पश्चवृत्ति; पश्चवक्षछद ।

postpubic—(L. *post*, after; *pubes*, adult) पश्च-प्युविवस ।

postpubis—(L. *post*, after; *pubes*, adult) पश्च-प्युविस ।

postpyramidal—(L. *post*, after; *pyramis*, pyramid) पश्चशृण्डावृत्ति ।

postretinal—(L. *post*, after; *retina*, form; *rete*, net) पश्च-रेटीनल ।

postscutellum—(L. *post*, after; *scutellum*, small shield) पश्चस्त्व्यूटेलम ।

postsphenoid—(L. *post*, after; Gk. *sphen*, wedge; *eidos*, form) पश्चस्फीनोइड ।

poststernellum—(L. *post*, after; *sternum*, breast bone) पश्च-स्टर्निलम ।

post-temporal—(L. *post*, after; *temples*) पश्च-टेम्पोरल ।

post-trematic—(L. *post*, after; Gk. *trema*, hole) पश्च-गिरी; पश्चश्वास छिद्री ।

postzygapophysis—(L. *post*, after; Gk. *zygon*, yoke; *apo*, form; *physis*, growth) पश्च सन्धिक प्रवर्धन; पश्चयोजिप्रवर्ध; पश्चयोजिवर्ध ।

potamoplankton—(Gk. *potamos*, river; *planktos*, wandering) सरिता प्लाविक ।

potential—(L. *potens*, powerful) शक्तिज; बलाढ्य; विभव; शक्य; स्थितिज ।

pouch—(O. F. *pouche*, bag) पुट; थैली; प्रसेव; कोशिका ।

poupart's ligament—(F. *poupart*, french anatomist) पाऊपाट लिगामेंट; वक्षण/जंघासा (inguinal) पेशीबन्ध (लिगामेंट) ।

praecabdomen—(L. *prae*, before; *abdomen*, belly) अग्रोदर ।

praemaxial—(L. *prae*, before; *axis*; axle) अग्राक्षी ।

praecentrum—(L. *prae*, before; *centrum*, centre) अग्रकेन्द्रक ।

praecoces—(L. *prae*, before; *coquere*, to cook) बाल प्रौढ़; स्वाश्रित; ऐसे पक्षी जो अण्डे से निकलते ही स्वयं खाने लगते हैं । (देखिये altrices जन्माश्रित)

praecostai—(L. *prae*, before; *costa*, rib) अग्र-पशुकी ।

praecoxa—(L. *prae*, before; *coxa*, hip) अग्रकाँवसा; उपकावसा ।

praecrural—(L. *prae*, before; *crust*, leg) अग्र-जंघासीय ।

praecuneus—(L. *prae*, before; *cuneus*, wedge) प्रीकूनियस; १—पैराइटल पालि का माध्यमिक तल; २—प्रमस्तिष्क (cerebrum) की अनुसंधिका (quadrate) पालि (lube) ।

praemorse—(L. *praemorsus*, bitten off) अग्रवाम ।

praecoccipital—(L. *prae*, before; *occiput*, back of head) अग्रोक्सीपिटल ।

praeoral—(L. *prae*, before; *os*, mouth) मुखाम्र ।

praepubic—(L. *prae*, before; *pubes*, meture) अप्यूविक; प्यूविकाग्र ।

praeputial—(L. *praeputium*, foreskin) शिश्नाग्र ।

praeputium—(L. *praeputium*, föreskin) शिश्नाग्रच्छद ।

praescutum—(L. *prae*, before; *scutum*, shield) अग्रस्कूटम; अग्रपृष्ठीकामध्य ।

praesphenoid—(L. *prae*, before; Gk. *sphen*, wedge) अग्र-स्फीनोइड ।

praesternal—(L. *prae*, before; *sternum*, breast bone) अग्र-स्टर्नम; अग्रवक्षीय ।

praetarsus—(L. *prae*, before; *tarsus*, ankle) अग्र-गुल्फ; गुल्फाग्र ।

pre-also prae—'पूर्व' अर्थ का उपसर्ग ।

preadaptation—(L. *prae*, before; *ad*, to; *aptare*, to fit) पूर्व अनुकूलता ।

pre-anal—(L. *prae*, before; L. *anus*, anus) पूर्व पायु ।

pre-axial—(L. *prae*, before; *axis*, axle) पूर्वाक्षीय; अग्रक्ष ।

precambian (Era)—पुराकैम्ब्रीय या जीवोदय-(युग) ।

precartilage—(L. *prae*, before; *cartilago*, gristle) पूर्व-उपास्थि ।

precava—(L. *prae*, before; *cavus*, hollow) ऊर्ध्व-महाशिरा; अग्रमहाशिरा ।

precentral—(L. *prae*, before; *centrum*, centre) पूर्व केन्द्रीय ।

prechordal—(L. *prae*, before; Gk. *chorde*, cord) पूर्व-सुषुम्नीय; पूर्व पृष्ठ-दण्डीय ।

precipitins—प्रीसिपीटिन्स; अवक्षेपी; विशिष्ट प्रतिरक्षी (antibodies) जो प्रतिरक्षित (immune) सीरम में अपने

एन्टीजन (antigens) से मिलकर अवक्षेप (precipitate) बना देते हैं ।

preclavia—(L. *prae*, before; *claves*, key) पूर्वक्ले-विया; स्कन्ध बलय (pectoral girdle) की एक हड्डी ।

preclimax—(L. *prae*, before; Gk. *klimax*, ladder) पूर्व चरम समुदाय (पादप) ।

precoracoid—(L. *prae*, Gk. *korax*, crow; *eidōs*, form) अग्रोसक; प्रिकोराकोइड; अंसतुंडी पूर्वी ।

precystic—(L. *prae*, before; Gk. *kystis*, bladder) पूर्वस्योतिक; पुटीपूर्व; कुछ एक-कोशिकीय (protozoa) की स्योतिक-अवस्था से पूर्व (encystment stage) का रूप या आकृति (form) ।

precocial—अग्रश्रित उलटा ।

[देखिये altrces जन्माश्रित]

precocious—कालपूर्व ।

predaters—परभक्षी ।

predelineation—(L. *prae*, before; *de*, down; *linea*, line) पूर्व चिन्हता; पूर्व जननिक स्थानीकरण ।

predeutary—(L. *prae*, before; *dens*, tooth) प्रोडेन्टरी; डाइनोसोर में जबड़े की एक अस्थि ।

predeutrin—(L. *prae*, before; *dans*, tooth) प्रोडेन्टीन; डेन्टिन पूर्व (पदार्थ) ।

predigital—(L. *prae*, before; *digitus*, finger) पूर्वाङ्गलिक; अग्रगुलिक; पूर्वागुलक ।

pre-epistome—(L. *prae*, before; Gk. *epi*, upon; *stoma*, mouth) पूर्वमुखोपरिका ।

preflagellate—(L. *prae*, before; *flagellum*, lash) पूर्वकषी; पूर्वकशाभी ।

prefloration—(L. *prae*, before; *flos*, flower) कौरक पुष्पदल विन्यास ।

[देखिये—ptyxis aestination कौरक पुष्पदल विन्यास]

prefoliation—(L. *prae*, before; *folium*, leaf) पर्ण पल्लव विन्यास ।

preformed—(L. *prae*, before; *forma*, shape) पूर्व-निमित्त; पूर्व रचित; वटक ।

preformation theory—पूर्वजनितवाद; वर्धन (development) के विषय में यह मत (theory) कि जन्तु का प्रत्येक डिम्ब (ovum) अपनी बनावट में एक प्रकार का सूक्ष्म प्रौढ़ (miniature adult) होता है; उसमें प्रौढ़ के

सब अंग सूक्ष्म रूप में अग्नि से ही विद्यमान होते हैं और उसे पूर्ण रीति से वर्धित होने के लिए केवल पोषण (nourishment) की ही आवश्यकता होती है।

prefrontol—(L. *prae*, before; *frons*, forehead) भ्रिफ्रन्टल; पूर्वललाटास्थि; ललाटिका पूर्वी।

pregamnation—(L. *prae*, before; *gammation*, *dim*, of T) पूर्व कोणिक दंड (पोलियोस्पोन डाइलस पुरा कशेरुक में)

preganglionic—(L. *prae*, before; Gk. *ganglion*, *tumour*, परिगुच्छिकीय; पूर्व गुच्छिकीय; (पिधानी तंत्रिका) सूत्र में।

preglobulin—(L. *prae*, before; *globulus*, small globe) प्ररिप्रोटीड; प्रीग्लोब्युलिन; श्वेत रुधिर कण (white blood corpuscles) का प्रोटीड योगिक।

pregnant—(L. *prae*, before; *gnans*, being with child) गर्भवती; सगर्भी।

prehallux—(L. *prae*, before; *hallux*, great toe) अग्रगुष्ठ; अग्र-अंगुष्ठ।

prehalteres—(L. *prae*, before; Gk. *halter*, weight) परिशल्क; लघुशल्कता; शल्क विन्यास डिप्टिरा (diptera) का शल्क विन्यास (squamae)।

prehaustorium—(L. *prae*, before; *haurire*, to drink) परिचूपक; न्यूनित मूलोपम चूपक।

prehensile—(L. *prehendere*, to seize) पकड़ने योग्य; परिग्राही।

prehepatic—(L. *prae*, before; *hepar*, liver) पूर्व-यकृतिय।

preheterokinesis—पूर्व विपम गति; ह्रास विभाजन (meiosis) की वह दशा जिसमें अविभाजित लैंगिक गुण-सूत्र एक ध्रुव की ओर प्रथम वीर्याणु जनन कोशिका विभाजन में गति कर जाता है।

prehyoid—(L. *prae*, before; Gk. *hyocides*, Y-shaped) हायडाग्र; हायड पूर्व; मैडिबल और हायड वलय (hyoid arch) के अग्र भागों के मध्य अंग (cleft)।

preinterparietal—(L. *prae*, before, *inter*, between) सुपरा अॉक्सीपिटल निर्माण क्षेत्र; प्रीइन्टर पैराइटल। सुपरा अॉक्सीपिटल के निर्माणक एक या दो उध्व-कलाजात केन्द्र।

prelacteal—(L. *prae*, before; *lac*, milk) प्रीडुग्घ दन्त; दुग्घदन्त पूर्व दन्त श्रेणी।

prelocalisation—(L. *prae*, before; *locus*, place) पूर्व निर्धारित मत; यह मत कि अंडाणु के कुछ भाग पूर्व से ही विशिष्ट अंग या उनके भागों में वर्धित होने हेतु निश्चित होते हैं।

premaxilla—(L. *prae*, before; *maxilla*, jaw) प्रीमैक्सिला; जंभिकापूर्वी; अधिकांश कशेरुकों में मैक्सिला से आगे एक युगल अस्थि।

premaxillary—(L. *prae*, before; *maxilla*, jaw) प्रीमैक्सिला सम्बन्धी।

premedian—(L. *prae*, before; *medius*, middle) पूर्वमध्य।

premolar—(L. *prae*, before; *mola*, mill) पूर्वचर्वक; अग्रचर्वकदन्त; अग्र चर्वणक।

prenasal—(L. *prae*, before; *nasus*, nose) प्रीनेजल; अस्थि विशेष। कुछ खोपड़ियों में मीसेथमॉइड (mesethmoid) के सामने स्थित अस्थि।

prenatal—प्रसव पूर्व।

pronotum—(L. *prae*, before; *notone*, back) पूर्व पृष्ठक।

preocular—(L. *prae*, before; *oculus*, eye) नेत्राग्र; कोई भी आकृति जैसे स्पर्शक (antennae), शल्क (scales) जो चक्षु से आगे स्थित हों।

preoperculum—(L. *prae*, before; *operculum*, cover) प्रच्छद्राग्र; गिलाच्छद् या प्रच्छद् की अग्र कला जात अस्थि।

preoptic nerve—अन्तय तन्त्रिका; नेत्र तंत्रिकाग्र तंत्रिका।

preoral—(L. *prae*, before; *os*, mouth) मुखाग्र; पूर्वमुखी; मुख पूर्वी।

preorbital—(L. *prae*, before; *orbis*, circle) नेत्र-कोटराग्र; जैसे (१) टिलियोस्ट (teleosts) की एक कला जात अस्थि; (२) रोमन्थशीलों (ruminants) की एक अस्थि।

preparietal—(L. *prae*, before; *paries*, wall) प्रीपैराइटल; पैराइटल अग्र; कुछ लुप्त सृपी (extinct reptiles) में पैराइटल से आगे स्थित एक अस्थि विशेष।

prepatagium—अग्रत्वचापत्र; पूर्व चर्म प्रसर ।

prepenna—(L. *prae*, before; *penna*, feather) पूर्व पिच्छ; पूर्व कोमल पिच्छ जो आगे चलकर प्रौढ़ का देह पिच्छ (centour feather) बनता है । पंख मध्य (mesoptile) पंखाग्र (protoptile) ।

prepharynx—(L. *prae*, before; Gk. *pharyngx*, gullet) प्रीफैरिक्स; कण्ठाग्र; ट्रिमेटोड (trematoda) में मुख चूषक (oral sucker) और कण्ठ (pharynx) को जोड़ती हुई क्षीण भित्तिक संरचना ।

prephragma—(L. *prae*, before; Gk. *phragma*, (fence) पूर्व प्रावर; कीटों में पृष्ठिका (नोटम) के साथ बनी फ्रैगमा (प्रखर) ।

prepituitary—(L. *prae*, before; *pituita*, phlegum) पिप्यूटरी अग्रपालि ।

preplacental—(L. *prae*, before; *placenta*, flat cake) आंवल पूर्व; वर्धन में आंवल (placenta) से पहिले वाली रचना ।

preplumula—(L. *prae*, before; *plumula*, small feather) प्रीप्लूमूला; पूर्व पिच्छ ।

prepollex—(L. *prae*, before; *pollex*, thumb) मुष्ठाग्र; कुछ एम्फीबिया और स्तनी में एक न्यूनित अतिरिक्त अंगुली जो अंगूठे की अक्ष से पूर्व होती है ।

prepotency—(L. *prae*, before; *potens*, powerful) अग्रक्षमता; अग्रप्रबलता; एक पितृ को दूसरे पितृ की तुलना में अधिक लक्षण देने की शक्ति ।

prepuberal—(L. *prae*, before; *pubes*, mature) श्रेणि अग्र ।

prepubertal—(L. *prae*, before; *pubertas* adult state) शैवनाग्र अवस्था या आयु ।

prepubic—(L. *prae*, before; *pubes*, mature) श्रेणिअग्र; कुछ मत्स्यों में श्रोणि वलय के प्रवर्धन ।

prepubis—(L. *prae*, before; *pubes*, mature) प्रीप्यूबिस; कुछ सृषी की श्रोणि वलय का प्यूबिस अस्थि के आगे का भाग ।

prepotent—(L. *prae*, before; *potens*, powerful) पूर्वशक्ति मत ।

prepuce—see praeputium. शिश्नाग्रत्वच; शिश्नमुंड-छद ।

prepupa—(L. *prae*, before; *pupa*, puppet) प्रीप्यूपा; पूर्वप्यूपा; पूर्व कोशित । कुछ कीटों में प्यूपा से पहिले शान्त स्थिति ।

prepyloric—(L. *prae*, before; *pyloros*, gate keeper) जठर; निर्गमाग्र; जठर अस्थिक; कशदेशिया की आमाशयिक चक्की की एक अस्थिक (ossicle) ।

prepyramidal—(L. *prae*, before; *pyramis*, pyramid) प्रमस्तिष्कीय दरार ।

prescutum—(L. *prae*, before; *scutum*, shield) प्रीस्कूटम; पृष्ठिकाग्र (षटपादों में); अग्रस्कूटम ।

presentation time—निम्नतम काल; प्रति उत्तर के लिए आवश्यक निम्नतम निरन्तर उत्तेजना ।

preserved animal—त्रात जन्तु; परिरक्षित जन्तु ।

prespermatid—(L. *prae*, before; Gk. *sperma*, seed) द्वितीय वीर्याणु जननिक कोशिका ।

presphenoid—(L. *prae*, before; Gk. *sphen*, wedge) जतूक पूर्वी; प्रीस्फीनोइड-कशेरुक के कपाल की वेसीस्फीनोइड के आगे की एक अस्थि ।

presumptive—सम्भावित; अनुमानित; पूर्ण धारणा ।

pressor—(L. *pressare*, to press) दबाव ।

pressure—(L. *pressare*, to press) दबाव ।

presternal—(L. *prae*, before; *sternum*, breast bone) प्रीस्टर्नल; स्तनघ्राग्र; वक्षस्थि-अग्र ।

presterum—(L. *prae*, before; *sternum*, breast bone) अग्राघरक, मैनुब्रियम, स्तनभाग ।

pretrematic—(L. *prae*, before; Gk. *trema*, hole) अग्ररंध्र; प्रीक्लोमी; अग्रवात छिद्री; वड तंत्रिकाएँ जो प्रथम गिल दरार से कण्ठ (फैरिक्स) तक होती हैं ।

retrochantion—(L. *prae*, before; Gk: *trochanter*, runner) अघःकाक्सा (sub coxa) ।

prevertebral—(L. *prae*, before; *vertebra* vertebra) कशेरुकाग्र; सहानभूतिक तंत्रिका तंत्र के गैंगलिया (गुच्छिका में) ।

prevomer—(L. *prae*, before; *vomer*, plough-shore) प्रीवोमर ।

१—अस्तनी कशेरुकों की वोमर (vomer) ।

२—कशेरुकों में टेरीगाँइड (pterygoid) के आगे की अस्थि विशेष ;

- prey—मोनोट्रिमेटा (monotremeta) में नासागुहा (nasal cavities) के फर्श की एक कला जाति अस्थि-विरोधाभासी अस्थि (paradoxical bone) या डम्बलास्थि (dumb bell) ।
- prey—आखेट, आहार ।
- prezygapophysis—(L. *prae*, before; Gk. *zygon*, yoke; *apo*, form; *physis*, growth) अग्रसन्धिक प्रवर्धन ।
- prickle—(A. S. *prica*, point) कंटक; काँटा ।
- primary—(L. *primes*, first) प्रमुख; प्रथम, प्रधान; मुख्य; प्राथमिक ।
- primary host—मुख्य पोषक (होस्ट); वह पोषक जिसमें परजीवी (parasite) लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करता है ।
- primaxil—(L. *primus*, first; *axilla*, arm pit) प्रथम कक्षीय भुजा; क्रिनोइड की प्रथम कक्षीय भुजा ।
- primibrachs—(L. *primus*, first; *brachia*, arms) भुजाएँ; प्रथम कक्षीय भुजा सहित क्रिनोइड (crinoids) में समस्त भुजाएँ ।
- primine—(L. *primus*, first) बीजांड बाह्यत्वक्; कभी-कभी पहिला बना चोल अर्थात् अन्तःचोल (internal coat) ।
- primate—(L. *primus*, first) प्राइमाइट; प्रीमाइट; प्राथमिक गुरली ।
- primates—(the first order of mammals) प्राई-मेटस; स्तनी प्राणियों (mammals) में सबसे उच्च श्रेणी के स्तनी जैसे बन्दर, मनुष्य आदि ।
- primitive—(L. *primitivus*, original) प्राचीन पुरातन; आदिम; आद्य; आदि ।
- primitive chordates—पुरातन पृष्ठदण्डी ।
- primitive streak—आदि रेखा; आद्य रेखा ।
- primordial—(L. *primordium*, beginning) आद्य; मौलिक; आद्य कैम्ब्रियन ।
- primordium—(L. *primordium*, beginning) मौल; प्राक्तन; मूलंग; आद्यक ।
- priodont—(Gk. *prion*, saw; *odous*, tooth) आरी-दन्ती ।
- prisere—(L. *primus*, first; *sere*, to put in a row) प्राथमिक क्रमिक ।
- prismatic—(L. *prisma*, prism) त्रिज्योपम त्रिज्यीय ।
- pro—(Gk. *pro*, before) 'पुरा', 'आगे', 'पूर्व' अर्थ का उपसर्ग ।
- proamnion—(Gk. *pro*, before; *amnion*, foetal membrane) पुराजरायु (भ्रूणावरण) ।
- proandry—(Gk. *pro*, before; *aner*, male) अग्र वषणी ।
- proangiosperm—(Gk. *pro*, for; *anggeion*, vessel; *sperma*, seed) अग्रम आवृत बीजी ।
- proatlas—(Gk. *pro*, before; *atlas*) प्रोएटलस; कुछ सृषी में एटलस और कपाल के बीच की एक मध्यीय अस्थि ।
- probosciform—(Gk. *proboskis*, trunk; L. *forma*, shape) शृङ्खलित; तुण्डोपत्र ।
- proboscis—(Gk. *proboskis*, trunk) प्रोथ; तुण्ड; शृङ्खलित ।
- procambial strand—प्रोकैम्बियल सूत्र ।
- procambium—(L. *pro*, before; L. L. *cambium*, nuriment) एषापूर्व; ऐसा कृतक जिससे संवहन बंडल (पूल) वर्धित होते हैं ।
- procarp—(Gk. *pro*, for; *karpos*, fruit) प्रोकार्प; लाल शैवाल का मादा जननांग ।
- procaryotic (prokaryotic)—आद्य केन्द्रक; इन केन्द्रकों में आनुवंशिक तत्व सामान्य डीएनए (DNA) के सूत्र होते हैं जो केन्द्रक कला (nuclear membrane) द्वारा साइटोप्लाज्म से पृथक नहीं होते हैं । इस प्रकार के केन्द्रक बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल कोशिकाओं में पाये जाते हैं ।
- procartilage—(L. *pro*, before; *cartilage*, gristle) पुरा उपास्थि; उपास्थि की पूर्व अवस्था; प्राक उपास्थि ।
- process—(L. *processus*, process) प्रक्रिया; प्रक्रम ।
- process (projection)—प्रवर्धन; प्रवर्ध; किसी अङ्ग का उभरा या निकला हुआ भाग ।
- procercoid—(Gk. *pro*, before; *kerkos*, tail; *eidosis*, form) प्रपुच्छाभ; प्रोसरकॉयड (अर्भक) ।
- procerebrum—(Gk. *pro*, before; *cerebrum*, brain) अग्रप्रस्तिष्क (कीटों में) ।

procerus—(L. *prōcerus*, tall) प्रांशु; नाक की पिरै-
मिडी (pyramdial) पेशी ।

prochorian—(Gk. *pro*, before; *chorin*, skin)
चर्मिका अग्रज; जरायुपूर्व; पूर्व चर्मिका ।

prochromatin—(Gk. *pro*, before; *chroma*,
colour) प्लासमोसोमज; प्रोक्रोमेटिन ।

prochromosome—(Gk. *pro*, before; *chroma*,
colour) गुणसूत्र अग्रज;

procoelous—(Gk. *pro*, before; *koilos*, hollow)
अग्र गर्तक; अग्रगर्तधारी; अग्रगर्ती ।

procoracid—(Gk. *pro*, before; *korax*, crow;
eidōs, form) अग्रअंसतुंड ।

procruscula—(L. *pro*, for; *dim*, of *crus*, leg)
घनगतिक वर्धन; रेडिया (redia) अर्भक के पंचिकायांग
पद एक सुगल मुखरे (blunt) गतिक प्रवर्धन ।

procryptic—(Gk. *pro*, for; *kryptos*, hidden)
गोपकीय; ऐसे वर्ण युक्त जो गोपकता हेतु उपयुक्त होते
हैं ।

proctal—(Gk. *proktos*, anus) पायुक; पायु
सम्बन्धी ।

proctiger—(Gk. *proktos*, anus; L. *gerere*, to
bear) पायुदल; द्विपंखियों (diptera) में बाह्य जननांग
या अन्त्य जननांग (terminalia) के लिंगक (hypopy-
gium) का गुदा सम्बन्धी भाग ।

proctodaeum—(Gk. *proktos* anus; *hodos*, way)
परचात्र; अन्तपायु; गुदा-गर्त; पुदपथ; प्रोक्टोडियम ।

procumbent—(L. *pro*, before; *cumbens*, lying
down) शयान; लम्बभूगत ।

prodeltidium—(Gk. *pro*, before; Δ , delta;
idion, dim) छद्म विवर पट्ट; पूर्व विवर पट्ट; वह
प्लेट जो छद्म विवर पट्ट (pseudodeltidium) में
वर्धित हो जाती है ।

prodentine—(L. *pro*, before; *dens*, tooth) डेन्टीन
पूर्व; डेन्टीन को बनाने वाला खारक हीन आघारक पदार्थ ।

proenzyme—(Gk. *pro*, before; *en*, in; *zyme*,
leaven) एन्जाइमज; प्रोएन्जाइम; जाइमोजन; एन्जाइम
पूर्वग; ऐसा पदार्थ जो एन्जाइम में बदलने योग्य होता
है ।

proepimeron—(Gk. *pro*, before; *epi*, upon;
meros, upper (high) प्रोस्पीमीरोन; पश्चात्पाखं
पट्टिका पूर्व; प्रोप्लूरा से पश्चस्थित पट्टिका (sclerite) ।

progamete—(Gk. *pro*, before; *gamos*, marriage)
जन्युज; एक आकृति जो जन्यु (gametes) को जन्म देती
है ।

progamic—(Gk. *pro*, before; *gamos*, marriage)
जन्युजक; जन्यु उत्पादन हेतु ब्रूड (brood) का विभाजन ।

progastrit—(Gk. *pro*, before; *gaster*, stomach)
गैस्ट्रिनपूर्वांग; प्रोगैस्ट्रिन; आमाशय के दलैषमिक कला में
जठर स्नायु के पूर्व का रूप ।

progenesis—(L. *pro*, before; *genesis*, origin)
अग्रपक्वता; (शरीर) वृद्धि पूर्ण होने से पूर्व जन्यु या
जमनांग (gametes) का परिपक्व होना ।

progeotropism—(Gk. *pro*, for; *ge*, earth; *trope*,
turn) घन गुरुत्वानुवर्तन; घन गुरुत्व-वृत्ति ।

progestational—(L. *pro*, for; *gestare*, to bear)
प्रसवपूर्वग; प्रौगर्भकाली (हार्मोन); १. मदचक्र (oestrous
cycle) की लूटियल (luteal) हार्मोन और गर्भाशय-
अन्तः स्तरक (endometrial) क्रियाशीलता के मध्य की
एक प्रावस्था (phase) ।

progestin—(L. *pro*, for; *gestare*, to bear) प्रोजे-
स्टिन; प्रोजैसटिरोन; $C_{21}H_{30}O_2$; कॉर्पस ल्यूटियम
का एक प्रोगैस्टेसनल हार्मोन विशेष ।

progeny—संतति ।

proglottides—(Gk. *pro*, before, *glotta*, tongue)
कृमिखण्ड, देहखण्ड, पट्टकृमि (tapeworm) का उत्पादन
शक्तियुक्त (propagative) देहखण्ड (body segment)
जो कि शृङ्खलीकरण (strobilation) के द्वारा बनते हैं ।

prognathous—(Gk. *pro*, before; *gnathos*, jaw)
प्रलम्ब चंचुक; प्रलम्ब तुण्डक; उद्दहनु; आगे की निकले
हुए जबड़े वाला ।

progonal—(Gk. *pro*, before; *gonos*; begetting)
पूर्वजननांग; जनन मेड (genital ridge) का वन्ध्य
(sterile) अग्र भाग (anterior portion) ।

prohydrotropism—(Gk. *pro*, for; *hydor*, water;
trope, turn) घन जलानुवर्तन; घन जलामिच्छति ।

proiospory—(Gk. *proios*, early; *sporos*, seed)
प्रोस्पोरी; प्रोआयोस्पोरी; अपूर्णकालज बीजाणुकता ।

- projectile**—(L. *pro*, forth; *facere*, to throw) प्रलम्बी; प्रक्षेपणीय; आगे को बढ़ने योग्य ।
- projection**—(L. *pro*, forth; *jacere*, to throw) प्रवर्धन; निकास; प्रक्षेपण; प्रक्षेप ।
- projicient**—(L. *projiciens*, projecting) दूरस्थ वेदनांग ।
- prolactin**—(L. *pro*, for; *lac*, milk) प्रोलैक्टिन; दुग्धस्रावी प्रोपिट्यूट्रिन हार्मोन ।
- prolamines**—प्रोल—एमाइन; दालों के बीजों में उपस्थित एक प्रकार के प्रोटीन विशेष ।
- prolan**—प्रोलान; गौनाडोट्रोपिक हार्मोन; यह हार्मोन कुछ स्तनीयों में गर्भकाल में शरीर के कुछ तरल तथा कई ऊतकों में पाये जाते हैं ।
- प्रोलान "A"—अण्डाशयोपुटक (ovarian follicles) और नर जनन कोशिकाओं को प्रोत्साहित करता है ।
- प्रोलान "B"—ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ।
- preleg**—(L. *pro*, for; M. E. *leg*, leg) पूर्वपाद; अर्धस्थिक पाद; प्रपाद ।
- proleucocyte**—(Gk. *pro*, before; *leukos*, white; *kytos*, hollow) पूर्वश्वेत कण; श्वेताणु ।
- proliferate**—(L. *proles*, offspring; *ferre*, to bear) बहुप्रजा; संततवर्धक ।
- proliferation**—(L. *proles*, offspring; *ferre*, to bear) संततवर्धता; सतत वृद्धि; प्रचुरोद्भवन; क्रम प्रसरण ।
- proliferous**—(L. *proles*, offspring; *ferre*, to bear) बहुप्रजा; बहुजन; प्रचुरोद्भव ।
- proloculus**—(L. *pro*, before; *loculus*, compartment) प्रथम कोशिका ।
- promeristem**—(Gk. *pro*; before; *meristes*, divider) प्रोमेरीस्टेम; वर्द्धीय बिन्दु का खण्डित होने वाला भाग ।
- prometaphase**—(Gk. *pro*, before; *meta*, after; *phasis*, appearance) पुरोत्तरस्थिति; प्राकमध्यावस्था; विषम विभाजन (mitosis) और ह्रास विभाजन (meiosis) में पुरास्थिति (prophase) और विभाजी-स्थिति (metaphase) के मध्य की स्थिति ।
- promitosis**—(Gk. *por*, before; *mitos*, thread) पुराविषम विभाजन; प्रसूत्री विभाजन, प्रसम सूत्रण ।
- promontory**—(L. *por*, forth; *mons*, mountain) अन्तरीय ।
- promorphology**—(Gk. *pro*, before; *morphe*, form; *logos*, discourse) पुरारचन विज्ञान ।
- promuscis**—(L. *promuscis*, proboscis) पुराप्रोय; पुरातुण्ड ।
- promycelium**—(Gk. *pro*, before; *mykes*, mushroom) कवकजालपूर्वांग; प्रोमाइसीलियम; आद्यवेसिडियम । ऐसा कवकजाल (mycelium) जो युग्माणु (zygospore) से वर्द्धित होता है और बीजाणुधानी (sporangium) को बनाता है ।
- promyelocyte**—(Gk. *pro*, before; *myelos*, marrow; *kytos*, hollow) पुरामज्जाकोष्ठ ।
- prorate**—(L. *pronare*, to bend forward) नत; झुका हुआ उन्मुख; अधोमुख ।
- pronation**—(L. *pronare*, to bend forward) प्रोनेशन; झुकाना नवाना; श्रवतानन; वह मांसपेशी जिससे हाथ की हथेली नीचे की ओर झुकती है ।
- prone**—अधर स्थिति; नीचे की हुई हथेली की स्थिति ।
- pronephric**—(Gk. *pro*, before; *nephros*, kidney) पुरावृक्कीय; प्राकवृक्कीय ।
- pronephros**—(Gk. *pro*, before; *nephros*, kidney) अग्रवृक्क; प्रथम वृक्क; पुरावृक्क प्राकवृक्क केशेरुकों के वर्धन में वृक्क का पहिला भाग । इसकी वाहिनी 'वोल्फी वाहिनी' (wolffian duct) होती है । ये वृक्क यद्यपि अनुल्बी वर्ग (amniotes) जैसे टेडपोल की प्रकायक (functional) वृक्क होती है लेकिन उन प्रकारों जैसे उपास्थिमत्स्यों (elasmobranch) में जिनमें लारवा स्थिति नहीं होती है ये वृक्क छोटी तथा अकार्यव (non-functional) होती हैं । उल्बीवर्ग (amniotes) में ये अवशेषी अंग (vestigial) के समान होती है ।
- pronotum**—(Gk. *pro*, before; *noton*, back) अग्र-पृष्ठिका; प्रवक्ष पृष्ठक ।
- pronucleus**—(L. *pro*, before; *nucleus*, kernel) पूर्वाण्डि; पुराण्डि प्राकेन्द्रक; न्यूक्लियस; नाभिक; प्रावल्केन्द्रक ।

- pronucleus, male—नरपुराण्टि ।
 pronucleus-female—नारी पुराण्टि ।
 pronymph—(L. *pro*, before; *nympha*, maiden) पूर्व निम्फ; पुरा प्रप्रौढ़ ।
 pro-oestrus—(Gk. *pro*, before; *oistros*, gadfly) पूर्व मदकाल; पूर्व स्त्रीमद काल ।
 pro-ostracum—(Gk. *pro*, before; *ostrakon*, shell) प्रकर्परस्तर ।
 prootic—(Gk. *pro*, before; *ous*, ear) अग्रकर्णक; अग्रकर्णास्थि । कर्णगुहा पूर्व अस्थि ।
 propagative—(L. *propagere*, to propagate) बहु-प्रजी; वृद्धि करने योग्य; उत्पन्न करने योग्य ।
 propagulum—(L. *propagere*, to propagate) प्रकौरक; प्रप्रारोह; प्रोपेगूलम; कौरक या प्रारोह (shoot) जो प्रौढ़ में वर्द्धित होने के योग्य हो ।
 propatagium—देखिये prepatagium पूर्व पेटेजियम; पूर्व चर्मप्रसर ।
 propes—(L. *pro*, before; *pes*, foot) पुरापाद; पूर्व-पाद ।
 prophase—(Gk. *pro*, before; *phasis*, appearance) प्रोफेज; पुरास्थिति; पूर्वविस्था; कोष्ठअर्ध विभाजन (meiosis) या विषम विभाजन (mitosis) में प्रथम या पुरा स्थिति (आद्यावस्था) ।
 prophototropism—(Gk. *pro*, *phos*, for; *light*, *trope*, turn) पूर्वप्रकाशवृत्ति; घनात्मक प्रकाश वृत्ति ।
 prophyllum—(Gk. *pro*, for; *phyllon*, leaf) प्रफिलम; 1—लघुसत्पत्र या सत्यपत्रक ।
 2—शाखा के आधर पर स्थित प्रथम पर्ण ।
 propleuron—(Gk. *pro*, before; *fleura*, side) पूर्व पार्श्व पटल ।
 propeustic—(Gk. *pro*, before; *pnein*, to breathe) पूर्वछिद्री; पुरावक्षछिद्री ।
 propodeon—(Gk. *pro*, before; *pnein*, to breathe) पूर्व पोडियन; पूर्वशिविका ।
 propodite—(Gk. *pro*, before; *pous*, foot) पूर्व-पादखण्ड; मकड़ी आदि में टिविया ।
 propodium—(Gk. *pro*, before; *pous*, foot) पूर्व-

पादिका; अग्रपाद; मोलस्का (mollusca) के पाँव का छोटा अगला भाग ।

propolis—(Gk. *pro*, for; *polis*, city) प्रोपोलिस, मक्षिका श्लैष्म कुछ वृक्षों की कलियों या पर्णाक्ष से प्राप्त रेजिनी पदार्थ (resinous substance) ।

proprioceptor—(L. *proprius*, one's own; *capere*, to take) स्वात्म ज्ञापक ।

propriogenic—(L. *proprius*, one's own; *genus*, kind) अपेशीजन; मांसपेशी (muscle) के अतिरिक्त प्रभावक (effectors) जो दोनों ही ज्ञापक (receptors) तथा प्रभावक (effectors) होते हैं ।

prop-roots—सहायी-मूल; अपस्थानिक जड़ें; अवस्तंभ मूल, स्तम्भ या प्रोप जड़ें; जैसे बरगद या मक्का आदि की ।

propterygium—(Gk. *pro*, before; *pterygium*, little wing) पूर्वटेरीजियम ।

propupa—(L. *pro*, before; *pupa*, puppe) पूर्व पिटिका, प्रप्यूपा; पटपाद अर्थात् कीटों के रूपान्तर में प्यूपा पिटिका (pupa) से पूर्व की आकृति ।

propygidium—(Gk. *pro*, before; *pygidion*, small rump) पूर्वपाइगीडियम; पूर्वान्तर पट्टिका; प्रोपाइ-जिडियम ।

prorachis—(Gk. *pro*, before; *rhachis*, spine) पूर्वपिच्छाक्ष; प्रोरैकिस (पेनाटुलेसिया—*pennatulacea*) में;

proral—(Gk. *prora*, prow) पोताग्र; आगे से पाछे की ओर । देखिये palinal—

proscapula—(L. *pro*, before; *scapula*, shoulder-blade) प्रोस्केपूला; अग्रस्कन्धास्थि ।

proscoplex—(Gk. *pro*, before; *skolex*, worm) प्रमीवासिर; प्रोस्कोलेक्स (प्रस्कोलेक्स); प्रमूर्ध ।

prosecretin—(L. *pro*, before; *secretus*, separated) प्रसक्रेटिन; प्रसाव ।

prosecretion—(Gk. *pro*, before; *secretus*, separated) प्रसाव ।

prosencephalisation—(Gk. *pros*, before; *engkephalos*, brain) अग्रमस्तिष्कता; नियंत्रिक केन्द्रों पर अग्रमस्तिष्क की ओर आ जाना ।

prosencephalon—(Gk. *pros*, before; *engkephalos*, brain) अग्रमस्तिष्क; प्रोजेन्सेफलॉन ।

prosenchyma—(Gk. *pros*, near; *engchyma*, infusion) दीर्घऊतक; प्रोजेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना ऊतक ।

prosenchymatous—(Gk. *pros*, near; *engchyma*, infusion) वनस्पति ऊतक जो आयत (elongated), साय (pointed), पतली या मोटी कोशिका-मितीयुक्त कोशिकाओं से बना होता है ।

prosthmeid—(Gk. *pros*, near; *ethmos*, sieve; *eidos* form) प्रोजेथमोइड; अस्थि मत्स्यों के मस्तिष्क के आगे के भाग की एक हड्डी ।

prosiphon—(Gk. *pro*, for; *siphon*, tube) पूर्व-निनाल ।

prosocoel—(Gk. *proso*, forward; *koilos*, hollow) पूर्वाग्र मस्तिष्क गुहा; अग्रगुहा ।

prosodetic—(Gk. *prosodos*, advance) पूर्वाग्र चंचु ।

prosodus—(Gk. *prosodos*, advance) पुरानलिका ।

prosoma—(Gk. *pro*, before; *soma*, body) देहाग्र भाग; शरीर (देह) के आगे का भाग; अग्रकाय; प्रोसोमा ।

prosopyle—(Gk. *proso*, forward; *pyle*, gate) अग्रछिद्र; सम्पर्कीय छिद्र; आगम द्वार ।

prostalia—(L. *pro*, forth; *stare*, to stand) प्रोस्टेलिया (स्पीक्यूल); हैक्साक्टोनेलिया (Hexactenellia) के प्रक्षेपित स्पीक्यूल (दृढ़ा) ।

prostate—(L. *pro*, before; *stare*, to stand) पौरुष ग्रन्थि; पुरस्थ ग्रन्थि; प्रोस्टेट ग्रन्थि ।

prostate—(L. *prostratus*, thrown down) शयान; लम्बगत; लम्बा पड़ा हुआ ।

prostatic—(L. *pro*, before; *stare*, to stand) पौरुषी; पौरुष ग्रन्थि सम्बन्धी ।

prostemmate—(Gk. *pro*, before; *stemma*, wreath) प्रोस्टेमट; प्रचक्षुक संरचना कुछ कोलेम्बोला (*collembola*) जन्तुओं में ।

prosternum—(L. *pro*, before; *sternum*, breast bone) पुरास्टर्नम; पुरावक्षोदर; प्राघरक ।

prostheca—(Gk. *prostheke*, appendage.) प्रोस्थेका (अवयव); कुछ भृंग (beetle) अर्थकों में; चिबुकास्थि (मैन्डीबिल) की चल अन्तः पालि ।

prosthetic—(Gk. *prosthetos*, added) प्रोस्थेटिक; किसी प्रोटीन योगिक के अप्रोटिनक तत्व ।

prosthion—(Gk. *prosthios*, foremost.) प्रोस्थियन; कूपिका वलय (alveolar arch) का मध्य बिन्दु, जिसे कूपिका बिन्दु (alveolar point) कहते हैं ।

prostomiate—(Gk. *pro*, before; *stoma*, mouth) मुखाग्र रचनायुक्त ।

prostomium—(Gk. *pro*, before; *stoma*, mouth) मुखाग्र रचना; प्रोस्टोमियम; अभिमुख; पुरोमुख ।

protamines—प्रोटामीन्स; मत्स्यों के वृषण में पाया जाने वाला साधारण मौलिक प्रोटीन ।

protandris—(Gk. *protos*, first; *aner*, male.) पुंपूर्वता; पूर्णपुंसी ।

protandrous—(Gk. *protos*, first; *aner*, male) पुंपूर्वतीय ।

protandry—(Gk. *protos*, first; *aner*, male) पुं-पुंसकता; पूर्वपुंसी; पुंपूर्वता ।

protease—(Gk. *protos*, first) प्रोटियेस (एन्जाइम); कोई भी प्रोटीन अपघटक (proteolytic) एन्जाइम ।

protegulum—(L. *pro*, before, *tegulum*, covering.) प्रकवच; त्रैक्रियोपोड की, अर्ध चन्द्राकार या अर्ध अश्रु-टनीय (semielliptical) भ्रूणक कवच ।

proteid—(Gk. *protos*, first; *eidos*, from) प्रोटोइड; पौषों का नाइट्रोजन पदार्थ ।

protein—(Gk. *protos*, first) प्रोटीन; कोशिका प्रोटोप्लाज्म का नाइट्रोजनयुक्त यौगिक; जैवी पदार्थ का लक्षणी जटिल यौगिक जो एमीनो अम्लों के संयुजता से बनता है तथा सामान्यतः गन्धक (Sulphur) लिये होता होता है । समस्त जीवित अमीनो अम्ल (aminoacids) से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं । स्वपोषी अंगी (autotrophic organisms) अकार्बनिक पदार्थों से प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं । प्रोटियोलिटिक एन्जाइम (proteolytic enzyme) से ये विनष्ट होते हैं । प्रोटीन अन्य पदार्थों के साथ आसानी से मिल जाते हैं । न्यूक्लियिक अम्ल के साथ, न्यूक्लियोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ म्यूको (muco) या ग्लाइको प्रोटीन तथा वसा के साथ लिपो-प्रोटीन (lipoprotein) बनाते हैं ।

proteism—(L. *proteus*, a sea' god) रूपविपर्ययता ।

protembryo—(Gk. *protos*, first; *embryon*, embryo) पुराभ्रूण; निषिक्त डिम्ब तथा अन्य अवस्थायें ।

protentomon—(Gk. *protos*, first; *entomon*, insect) कीट आद्य प्ररूप (काल्पनिक) कीटों का एक काल्पनिक आद्य प्ररूप ।

proteoclastic—(Gk. *protos*, first; *klan*, to break) प्रोटीन नाशक ।

proteolytic—(Gk. *protos*, first; *lysis*, loosing) प्रोटीनलपी; प्रोटीन परिवर्ती; प्रोटीन प्रभावी, प्रोटीन अपघटक ।

proteolytic ferment—प्रोटीन परिवर्तक उद्दीपक ।

protease—(Gk. *protos*, first) प्रोटियोस ।

proterandrous—(Gk. *proteros*, earlier; *aner*, male) पूर्वपुंसक; पुंपूर्वी ।

proteranthous—(Gk. *proteros*, earlier; *anthos*, flower) पुष्प पूर्व पुष्पता ।

proterodont—पूर्वोर्ध्वदन्ती ।

proterogenesis—(Gk. *proteros*, forward; *genesis*, descent) पूर्ववृत्ति; पूर्व विकास; प्रोटेरोजेनेसिस ।

proteroglyph—(Gk. *proteros*, in front; *glyphein*, to carve) पूर्वोर्ध्व विषदन्ती, अग्र विषदन्ती ।

proterogynous—(Gk. *proteros*, earlier; *gyne*, women) पूर्व नारीत्व; पूर्वस्त्रैयता ।

proterozoic—(Gk. *proteros*, earlier; *zoon*, animal) पूर्व (पुरा) युग जन्तु, प्राग्जीव ।

prothalloid—(Gk. *pro*, before; *thallos*, young shoot) प्रोथैलस सदृश ।

prothallus—(Gk. *pro*, before, *thallos*, young shoot) गैमीटोफाइट; एक छोटी पतली संरचना जिसे युग्मकोद्भिद (gametophyte) कहते हैं । यह बीजाणु से वधित अगुणित लैंगिक सतति होती है; तन्तु की कोशिका का विभाजन पार्श्व तल पर होता है और दायें-बायें नयी कोशिकायें बनती हैं और शीघ्र ही हृदय के आकार की एक चपटी संरचना बन जाती है जिसे प्रोथैलस (prothallus) कहते हैं । इसमें दो पालियाँ होती हैं तथा बीच में एक खाँच होती है । फर्न में प्रोथैलस, गैमीटोफाइट पीढ़ी होती है ।

protheca—(Gk. *pro*, before; *theke*, box) पुरापिटिका; आदि प्रावरक ।

prothetely—(Gk. *prothein*, to run before; *telos*, completion) पूर्व लक्षणता; कीट अर्भक में प्यूपा या अन्य लक्षणों का वर्धन या प्रदर्शित होना ।

prothorax—(Gk. *pro*, before; *thorax*, chest) अग्रवक्ष पुरावक्ष; सन्धिपादों (arthropoda) के वक्षखण्ड (thoracic segment) का अग्र भाग (anterior part) ।

prothrombin—(Gk. *pro*, before; *thrombos*, clot) प्रोथ्रोमबिन, प्रथ्रोमबिन । थ्रोमबोजन (Thrombogen) का थ्रोमबोप्लास्टिन और कैल्शियम से कर्मशील होकर थ्रोमबिन का निर्माण ।

prothyalosome—(Gk. *protos*, first; *hyalos*, glass; *soma*, body) प्रजननिक क्षेत्र; जननिक कोषिका (germinal vesicle) में जननिक बिन्दु को घेरे हुए क्षेत्र ।

protista—(Gk. *protistos*, first of all) प्रोटिस्टा; प्रजीवी; प्रप्राणी; आद्यजीव; वह सर्वप्रथम बना हुआ प्राण या जीव जिससे एक कोशकीय जन्तु और पौधे बने हैं ।

protistology—(Gk. *protistos*, first of all; *logos*, discourse) प्रप्राणी विज्ञान; प्रजीव विज्ञान ।

protobasidium—(Gk. *protos*, first; *basidion*, small pedestal) कवक जाल पूर्वांग; आद्य बेसिडियम ।

protoblast—(Gk. *protos*, first; *blastos*, bud) प्रकोष्ठ; आद्यकोरक ।

protobroch—(Gk. *protos*, first; *brochos*, mesh) आद्य केन्द्रक; विश्रामित गोनिया (gonia) का न्यूक्लियस ।

protocephalon—(Gk. *protos*, first; *kephale*, head) प्रथम मस्तिष्कीय खण्ड; आद्य शीर्ष ।

protocercal—(Gk. *protos*, first; *kerkos*, tail) कपालिपुच्छी; द्विभक्त (पुच्छ); द्विभक्त पुच्छीय; आद्य पालिगुच्छ । [देखिये diphyercal]

protocerebrum—(Gk. *protos*, first; *L. cerebrum*, brain) अग्रप्रमस्तिष्क; (१) कीटों के मस्तिष्क का अग्र भाग जो सिर के नेत्र खण्ड में स्थिति गैंगलिया के संयुज होने से बना होता है । (२) केकड़ावंशी (क्रोशिया) में गैंगलिया केन्द्रों का अग्र युगल ।

protocnemes—(Gk. *protos*, first; *kneme*, wheel spoke) अग्र आंत्र योजनी; जूएनथेरिया (zoantharia) में आंत्र योजनी (mesenteries) के छः मौल युगल (six primary pairs) ।

protochordata—पुरापृष्ठदण्डी ।

protoconch—(Gk. *protos*, first; *kongche*, shell) अर्भक शक्ति ।

protocone—(Gk. *protos*, first; *konos*, cone) पराशंकु; आद्य मध्यशंकु ।

protoconid—(Gk. *protos*, first; *konos*, cone; *idos*, form) पुराघर शंकु; आदिदंताग्र ।

protoconule—(Gk. *protos*, first; *konos*, cone) पुराशिखर; अग्र मध्यशंकु ।

protocorm—(Gk. *protos*, first; *kormos*, trunk) प्रघनकंद; प्रोटोकॉर्म ।

protocranium—(Gk. *protos*, first; *kranion*, (skull) पुराकपाल ।

protoderm—(Gk. *protos*, first; *derm*, skin) आद्य चर्म; आद्य स्तर ।

protoepiphyte—(Gk. *protos*, first; *epi*, upon; *phyton*, plant) आद्य अधिपादप ।

protogene—(Gk. *protos*, first; *genos*, descent) पुराजीन, प्रोटोजिन ।

protogenesis—(Gk. *protos*, first; *genesis*, descent) पूर्वजनन; प्रारम्भिक जनन ।

protogenic—(Gk. *protos*, first; *genos*, offspring) पुराजनी; आदि जात ।

protogynous—(Gk. *protos*, first; *gyne*, woman) पूर्व स्त्रीनता; पूर्व नारीत्व ।

protogyny—(Gk. *protos*, first; *gyne*, woman) पूर्वनारित्वता; पूर्वस्त्रीपक्षता; प्रोटोगात्री ।

protohaem—(Gk. *protos*, first; *haima*, blood) प्रोटोहीम; हिमेटिन (haematin) ।

protokaryon—(Gk. *protos*, first; *karyon*, nut) प्राष्टि; पुराअष्टि ।

protoloph—(Gk. *protos*, first; *lophos*, crest) प्रशिखर; अग्र शिखर; ऊर्ध्वक चर्बक वी अनुप्रस्थ अग्र शिखर ।

protomala—(Gk. *protos*, first; L. *mala*, cheek) प्रमाला; सहस्रपादियों (myriapods) का एक मंडिबिल (mandible) ।

protomerite—(Gk. *protos*, first; *meros*, part) प्रोटोमेराइट; प्रीमाइट; प्रोटो गिगेराइन्स (gregarines) में मज्जा जीवद्रव्य का अग्र भाग ।

protomitosis—(Gk. *protos*, first. *mitos*, thread) पुरा विषम विभाजन; प्रसूत्री विभाजन ।

protomonostelic—(Gk. *protos*, first; *monos*, alone; *stela*, column) प्ररंभी (तना या जड़) ।

protomont—(Gk. *pro*, early; *tome*, cutting; *onta*, beings) प्रोटोमोन्ट; होलोट्राइका (Holotricha) के जीवन चक्र में पोषक और स्योति विभक्ति स्थितियों के मध्य अस्थिर अवस्था ।

protonema—(Gk. *protos*, first; *nema*, thread) प्रसूत्र; प्रथम तंतु । मॉस (moss) का सूत्रीय थैलस जिससे मॉस का पौधा अंकुरित होता है ।

protonematoid—(Gk. *protos*, first; *nema*, thread; *idos*, form) प्रथम तंतुवत्; प्रथम तंतु सम ।

protonephridial—(Gk. *protos*, first, *nephros*, kidney) प्रोटोनेफ्रिडिक; आदि वृक्ककी; प्रवृक्कक; पट्ट कृमि (tape worm) आदि का विसर्जन जल नलिका संस्थान (तंत्र) ।

protonephridium—(Gk. *protos*, first; *nephros*, kidney; *idian*, dim) प्रोटोनेफ्रिडियम ।

protoneurone—(Gk. *protos*, first; *neuron*, nerve) प्रनाड़ीकोष्ठ; एक ध्रुवीय गण्डीय कोष्ठ ।

protopathic—(Gk. *protos*, first; *pathos*, feeling) प्रसंचेदक ।

protopepsia—(Gk. *protos*, first; *pepsis*, digestion) प्रपचन; आमाशय में पचन से पूर्व की क्रियाएँ ।

protophloem—(Gk. *protos*, first; *phloios*, tree bark) प्रपोषवाह (फ्लोएम); संवहन बण्डल के प्रथम पोषवाह (फ्लोएम) के तत्व ।

protophyte—(Gk. *protos*, first; *phyton*, plant) आद्यपादप; प्रोटोफाइट; एक कोशिकीय ~~जीव~~ ।

protoplasm—(Gk. *protos*, first; *plasma*, form) जीवनतत्व; जीवन सत्व; प्रोटोप्लाज्म; जीव द्रव्य ।

protoplasmic—(Gk. *protos*, first; *plastos*, formed) जीवन तत्वीय; जीवन सत्वीय; जीवन-तत्व सम्बन्धी; जीवद्रव्य सम्बन्धी; जीवद्रव्यी ।

protoplast—(Gk. *protos*, first; *plastos*, formed) प्ररस; प्रकण; प्रोटोप्लास्ट; पूर्वलव; जीवद्रव्यक ।

protopod—(Gk. *protos*, first; *pous*, foot) प्रपादी; आद्यपाद; अग्रपादी; अग्र खन्डों में लगे हुए टाँगों वाला ।

protopodite—(Gk. *protos*, first; *pous*, foot) आघार पादांश; आदि पादांश; प्रोटोपोडाइट ।

basipodite—मूलपादांश ।

coxipodite—प्रमूलपादांश ।

endopodite—अन्तर्पादांश ।

epipodite—उपपादांश ।

exopodite—बहिर्पादांश ।

protopile—(Gk. *protos*, first; *pous*, foot) पंखाय; प्रशावपिच्छ ।

protospore—(Gk. *protos*, first; *sporos*, seed) प्रथम-बीजाणु; प्रथम पीढ़ी का बीजाणु (स्पोर) ।

protostele—(Gk. *protos*, first; *stela*, column) ठोसरंभ; प्ररंभ; संवहन ऊतक का केन्द्रीय चक्र ।

protostigmata—(Gk. *protos*, first; *stigma*, pricked mark) प्राथमिक श्वास छिद्र; प्राक् प्रांगुल ।

protostoma—(Gk. *protos*, first; *stoma*, mouth) प्राथमिक मुख; आद्य मुख ।

protostylic—(Gk. *protos*, first; *stylos*, column) आद्यशूलिकी ।

prototheca—(Gk. *protos*, first; *theke*, box) प्रपिटिका; प्राथमिक पिटिका ।

protherian—(Gk. *protos*, first; *therion*, small animal) पुरा-स्तनी; पुरास्तन पायी; अण्डजस्तनपायी ।

prototroch—(Gk. *protos*, first; *trochos*, wheel) पुराघूर्ण; आदि चक्र ।

prototrophic—(Gk. *protos*, first *trophe*, nourishment) अजैविकाहारी (वनस्पति-आहारी); सर्व संश्लेषी ।

prototype—(Gk. *protos*, first, *typos*, model) मूलादर्श; मूल प्रतिमा; आदि प्ररूप ।

protovertebrae—(Gk. *protos*, first; L. *vertebra*, vertebra) पुरा कशेरु; प्रकशेरु; आद्य कशेरु ।

protoxylem—(Gk. *protos*, first; *xylon*, wood) प्रोटोजाइलम; आद्य दारु ।

protozoaea—(Gk. *protos*, first, *zoon*, animal) प्रोटोजुइया; सन्धिपादों (arthropod) का अर्भक या लार्वा विशेष ।

protozoology—(Gk. *protos*, first; *zoon*, animal; *logos*, discourse) पुरा जन्तु विज्ञान; प्राजीव शास्त्र; एक कोशिकीय विज्ञान; आदि जन्तु विज्ञान ।

protozoon or protozoa—(Gk. *protos*, first; *zoon*, animal) पुरा जन्तु; एक कोशिकीय; अकोशिकीय प्रोटोजोआ ।

protozygote—(Gk. *protos*, first *zygone*, yoke) नुराभ्रूणकोशिका ।

protractor—(L. *pro*, forth *tractus*, drawn out) प्रोट्रेक्टर; प्रसारक (मांस पेशी); अपाकुंचक ।

protrusible—(L. *protrudere*, *pro*, forward *trudere*, to thrust) निःसरणशील; बहिःसारी ।

protuberance—शोफ; प्रोदवर्ध; हड्डी के ऊपर गाँठ सम आकृति ।

proventriculus—(L. *pro*, forth; *ventriculus*, small stomach) प्रोवेन्ट्रीक्युलस; पूर्व आमाशय; ग्रंथिल जठर ।

provinculum—(L. *pro*, before; *vinculum*, bond) पुराबन्ध; आदि बहुदन्ती हिन्ज (कब्जा) ।

provitamin—(Gk. *pro*, before; L. *vita*, life; *ammoniacum*, resinous gum) प्रविटामिन; विटामिन पूर्वांग ।

proximal—(L. *proximus*, next) निकटस्थ; समीपस्थ; केन्द्र (मध्य) की ओर स्थित; निकटवर्ती ।

proximal end—(L. *proximus*, next) निकटस्थ छोर (अन्त) ।

proximity—(L. *proximus*, next) समीपता; निकटता; समीप्य ।

prozymogen—(Gk. *pro*, before; *zyme*, leave; *genes*, producing) जाइमोजन पूर्वांग ।

pruinose-(L. *pruina*, hoar-frost) फुल्ल; श्वेत कण या गोलिका (globule) से आवृत ।

psalterium-(L. *psalterium*, psalter) ओमोसम; उप-जडर; सालटेरियम; रोमंथशीलों (ruminants) के आमाशय (stomach) की तृतीय कोषिका ।

psammophilous-(Gk. *psammos*, sand; *philos*, loving) बालुका प्रेमी; मरुवासी; बालुकागगी; रेगिस्तान में समृद्ध होने वाला ।

psammophore-(Gk. *psammos*, sand; *phora*, carrying) बालुवाही; बालुकावाही ।

psammophyte-(Gk. *psammos*; sand; *phyton*, plant) बालुपादप ।

psammascere-(Gk. *psammos*, sand; L. *serere*, to put in a row) बालुपादप संतति ।

pseudambulaerum-(Gk. *pseudes*; false; L. *ambulare*, to walk) छद्म वीथी क्षेत्र ।

pseudannual-(Gk. *pseudes*, false; L. *annus*, year) छद्म वर्षीय; ऐसे पौधे जो अपनी वृद्धि को वर्ष में पूरा कर लेते हैं पर अगली पीढ़ी हेतु कंद (bulb) आदि छोड़ देते हैं ।

pseudapogamy-(Gk. *pseudes*, false; *apo*, away; *gamos*, marriage; छद्म अपवृत्त ।

pseudaposematic-(Gk. *pseudes*, false; *apo*, form; *sema*, sign) मिथ्याभ्रमकारी ।

pseudasporary-(Gk. *pseudes*, false; *apo*, away; *sporos*, seed) छद्म बीजाणुकता; (१) द्विगुणित बीजाणु (diploid spore) से युग्मकोद्भिद (गैमीटोफाइट) का उद्भिद होना; (२) अगुणिता (haploisis) के बिना ही बीजाणु निर्माण ।

pseudaxis-(Gk. *pseudes*, false; *axis*, axle) कृत्रिमक्ष; छद्मक्ष ।

pseudepisematic-(Gk. *pseudes*, false; *epi*, upon; *sema*, sign) छद्म अधिवोधक; मिथ्या अधिवोधक; प्रलोभक चिन्हों या वर्णों का प्रदर्शित करना ।

pseudhaemal-(Gk. *pseudes*, false; *haima*, blood) कृत्रिम रक्तिय; छद्म रक्तिय ।

pseudoboloptic-(Gk. *pseudes*, false; *bolos*, whole; *optikos*, relating to sight) कूट नेत्रता;

डिप्टरा (Diptera) में संयुज नेत्रता (bolloptic) और पृथक् नेत्रता (dichoptic) के मध्य की दशा ।

pseudimago-(Gk. *pseudes*, false; L. *imago*) छद्मप्रौढ़; उपप्रौढ़; कूट प्रौढ़; कूट पूर्णक ।

pseudoalveolar-(Gk. *pseudes*, false; L. *alveus*, hollow) छद्मगर्तक; कूट गर्तक ।

pseudoaposematic-देखिए pseudaposematic ।

pseudoaquatic-(Gk. *pseudes*, false; L. *aqua*, water) छद्मोदक; आर्द्रवासी ।

pseudoblepharoblast-(Gk. *pseudes*, false; *blepharis*, eye lash; *plastos*, formed) छद्माधोपिण्ड; मिथ्या-अधोपिण्ड ।

pseudobrachium-(Gk. *pseudes*, false; *brachion*, arm) मिथ्याग्रह; स्यूडो ब्रेकियम ।

pseudobranch-(Gk. *pseudes*, false; *branchia*, gills) मिथ्यागिल, छद्मगिल ।

pseudobulb-(Gk. *pseudes*, false; L. *bulbus*, bulb) छद्म शल्क कंद; आभासी शल्क कंद, कूट कन्द ।

pseudobulbil-(Gk. *pseudes*, false; L. *bulbus*, bulb) छद्म पत्र-प्रकलिका; कुछ फर्न की अभिवृद्धि ।

pseudobulbous-(Gk. *pseudes*, false; L. *bulbus*, bulb) कूट कंदीय; छद्म कंदीय; छद्म कंद द्वारा मरुद्-भिदी (xerophytic) जीवन के उपयुक्त होना ।

pseudocarp-(Gk. *pseudes*, false; *karpos*, fruit) आभासी फलिका; कूट फल; मिथ्या फल; ऐसा फल जिसमें ग्रण्डाशय के अतिरिक्त अन्य भाग फल बनाते हैं ।

pseudocellus-(Gk. *pseudes*, false; L. *ocellus*, little eyes) छद्माक्षिका ।

pseudocentrous-(Gk. *pseudes*, false; L. *centrum*, centre) मिथ्या केन्द्री; कूट कशेरुकायी ।

pseudocilia-(Gk. *pseudes*, false; L. *cilium*, eye lid) अस्थायी तंत्र; छद्मतन्त्र; अस्थायी प्ररस सूत्र; आभासी पक्षमाम ।

pseudocoel-(Gk. *pseudes*, false; *koilos*, hollow) मिथ्या कोटर; छद्म कोटर; कूट गुहा; कूट प्रगुहा ।

pseudoconch-(Gk. *pseudes*, false; *kongche*, shell) मिथ्याकपर् ।

pseudocone-(Gk. *pseudes*, false; *konos*, cone) मिथ्यायौगिक नेत्र; छद्मयौगिक नेत्र; कूट शंकु नेत्र ।

pseudocongugation—(Gk. *pseudes*, false; L. *cum*, with; *jugum*, yoke) कृत्रिम संयोगता; कूट संयुग्मन ।

pseudocostate—(Gk. *pseudes*, false; L. *costa*, rib) कृत्रिम पर्णुक; कृत्रिमशिरायुक्त; कूट शिराल ।

pseudocyst—(Gk. *pseudes*, false; *kystis*, bladder) कृत्रिम स्योति; कूट पुटी ।

pseudodeltidium—(Gk. *pseudes*, false; Δ delta; *idion*, *dim*) कूट त्रिकोणिका; छद्म (कूट) विवर पट्ट ।

pseudoderm—(Gk. *pseudes*, false; *derma*, skin) छद्माच्छद्; विच्छद्; कूट चर्म ।

pseudodont—(Gk. *pseudes*, false; *odous*, tooth) शृङ्गदन्ती; कूट दन्त ।

pseudofoliaceous—(Gk. *pseudes*, false; L. *folium*, leaf) कूट पर्णी; पत्तियों (पर्ण) जैसे फेनाव वाला ।

pseudogamy—(Gk. *pseudes*, false; *gamos*, marriage) कृत्रिम निषेक; आभासी युग्मन ।

pseudogaster—(Gk. *pseudes*, false; *gaster*, stomach) कृत्रिम आमाशय; कूट जठर ।

pseudogastrula—(Gk. *pseudes*, false; *gaster*, stomach) छद्म गैस्ट्रूला; छद्म-द्विस्तर; कूट कन्दुक ।

pseudogyne—(Gk. *pseudes*, false; *gyne*, woman) छद्म मादा; कूट जाया ।

pseudoheart—छद्म हृदय; एकाइनोडर्म का अक्षीय अंग ।

pseudolamina—(Gk. *pseudes*, false; L. *lamina*, plate) छद्म पत्रक; पर्णभिवृन्त (phykode) का फैला हुआ शिखरस्थ भाग ।

pseudolegs—केटर पिलर के घड़ पर पाये जाने वाली असन्धिक पाद ।

pseudomanubrium—(Gk. *pseudes*, false; L. *manubrium*, handle) छद्म-मुष्ठिक; कूट हस्तक ।

pseudometamerism—(Gk. *pseudes*, false; *meta*, after; *meros*, part) छद्म खण्डता; कूट विखण्डता ।

pseudomitotic—(Gk. *pseudes*, false; *mitos*, thread) कूट खण्डी ।

pseudomixis—(Gk. *pseudes*, false; *mixis*, mingling) कृत्रिम सम्मिश्रण; आभासी जनन ।

pseudomonocotyledonous—(Gk. *pseudes*, false; *monos*, alone; *cotyledon*, cup-like hollow) आभासी एक बीजपत्रकी; कूट एक बीजपत्री; दो बीजपत्रक परन्तु दानों इस प्रकार मिले हुए कि वे एक ही दिशाई देते हैं ।

pseudomonocyclic—(Gk. *pseudes*, false; *monos*, alone; *kyklos*, circle) आभासी एक चक्री; कूट एक चक्री ।

pseudonavicella—(Gk. *pseudes*, false; L. *navicella*, small boat) आभासी नौकाभ; छद्म नौकाभ ।

pseudonucleoli—(Gk. *pseudes*, false; L. *nucleus*, kernel) छद्मोपाटि; छद्म-उपाटि; कूट उपकेन्द्रक ।

pseudonychium—(Gk. *pseudes*, false; *onyx*, claw) कृत्रिम नख ।

pseudo-osculum—(Gk. *pseudes*, false; L. *osculum*, small mouth) छद्म निर्गमद्वार ।

pseudoparenchyma—(Gk. *pseudes*, false; *para*, beside; *enchyma*, infusion) आभासी मूद्दतक; आभासी परेन्काइमा ।

pseudopenis—(Gk. *pseudes*, false; L. *penis*, penis) मिथ्याशिशन; छद्म शिशन; कूट शिशन ।

pseudo-operculum—(Gk. *pseudes*, false; L. *operculum*, lid) कृत्रिमछद्; क्षणिकछद्; कूट प्रच्छद् ।

pseudoperianth—(Gk. *pseudes*, false; *peri*, round; *anthos*, flower) आभासी परिदल; किन्हीं लिबरवट्स में स्त्रीधानी को घेरे हुए आवरण ।

pseudoperidium—(Gk. *pseudes*, false; *peridion*, small wallet) आभासी इसीडियोस्पोरच्छद ।

pseudoplasmodium—(Gk. *pseudes*, false; *plasma*, form) कृत्रिमप्लासमोडियम; कूट (आभासी) प्लैजमोडियम ।

pseudopod—(Gk. *pseudes*, false; *pous*, foot) क्षणिकपाद; अस्थिरपाद; मिथ्यावाद; अस्याईपाद; पादाभ ।

pseudopodiospore—(Gk. *pseudes*, false; *pous*, foot; *sporos*; seed) अमीवक; अमीवाणु; अमीवाकार स्पोर समूह जो क्षणिक पाद से गति करता है; बीजाणु अमीनाभ ।

pseudopodium

pseudopodium—(Gk. *pseudes*, false; *pous*, foot; *eidōs*, form) क्षणिकपाद; अस्थाईपाद; मिथ्यापाद, कृत्रिमपाद; अस्थिरपाद; कूटपाद; पादाम ।

pseudopore—(Gk. *pseudes*, false; *poros*, channel) क्षणिक छिद्र; कूट छिद्र ।

pseudopregnancy—(Gk. *pseudes*, false; L. *prae*, before; *gignere*, to beget) कूटगर्भाविस्था; मिथ्यागर्भ; निषेक बिना सहायी उत्पादक अंगों का बनना, जिससे वास्तविक गर्भ की दशा उपस्थित हो जाती है ।

pseudopupa—(Gk. *pseudes*, false; L. *pupa*, puppet) अर्धप्यूपा; कूटकोशित; कूटप्यूपा ।

pseudoramose—(Gk. *pseudes*, false; L. *ramus*, branch) मिथ्याशाखीय ।

pseudoramulus—(Gk. *pseudes*, false, L. *ramulus*, small branch) कृत्रिमशाखा; किन्हीं शैवाल (algae) की कृत्रिम शाखा ।

pseudoraphe—(Gk. *pseudes*, false; *rhaphe*, seam) आभासी सन्धि (सीवन); कुछ डायटम (diatoms) में चिकना अक्षीय क्षेत्र ।

pseudorhabdites—(Gk. *pseudes*, false; *rhabdos*, rod) छद्मशलाकायें ।

pseudosacral—(Gk. *pseudes*, false; L. *sacer*, sacred) छद्मसंकेत ।

pseudoscolex—(Gk. *pseudes*, false; *skolex*, worm) छद्ममीवा सिर; कूट मूर्ध ।

pseudosematic—(Gk. *pseudes*, false; *sema*, sing) छद्मभ्रमो; छद्मभ्रमोत्पादकी ।

pseudoseptate—(Gk. *pseudes*, false; L. *septum*, division) छद्म व्यवधानी; आभासी पटी ।

pseudosessile—(Gk. *pseudes*, false; L. *sedere*, to sit) आभासी आवृत्ती; सामान्य रूप से वृन्त उदरीय कीट, पर जब वृन्त (petiole) इतना छोटा हो कि वृक्ष व उदर बिल्कुल पास-पास दिखाई दें ।

pseudosperm—(Gk. *pseudes*, false; *sperma*, seed) छद्म बीज या अंडप (carpel) ।

pseudospore—(Gk. *pseudes*, false; *sporos*, seed) छद्म स्पोर ।

pseudostele—(Gk. *pseudes*, false; *stela*, pillar) रंभाभ; आभास रंभक जैसे पर्ण की मध्य शिरा ।

pseudostoma—(Gk. *pseudes*, false; *stoma*, mouth) छद्म मुख; क्षणिक मुख ।

pseudotrachea—(Gk. *pseudes*, false; L. *trachea*, wind-pipe) आहार संवाहक-नाली; छद्म श्वास-नलिका; कूटवातक; कूटश्वास नली ।

pseudovarium—(Gk. *pseudes*, false; L. *ovarium*, ovary) छद्म डिम्ब ग्रन्थि ।

pseudovum—(Gk. *pseudes*, false; L. *ovum*, egg) मिथ्या डिम्ब; कूट अण्डाणु ।

pseudozoaea—(Gk. *pseudes*, false; *zoon*, animal) स्यूडोजुड्या; छद्मजुड्या अंभक विशेष ।

psosas—(Gk. *psosa*, loins) सोआस; प्सोआस; जंघास की दो मांसपेशीय, वृहत् और लघु ।

psorospermis—(Gk. *psora*, itch; *sperma*, seed) (१) सूक्ष्मपरजीवी अंगी । (२) स्पोरोजोआ प्रत्याघात स्थितिक अवस्थायें ।

psychogenetic—(Gk. *psychic*, soul; *genesis*, descent) मनोद्भव ।

psychon—(Gk. *psyche*, mind) नाड़ी या तंत्रिका संगम; मानसिक ।

psychophysics—(Gk. *psyche*, mind; *physikos*, physical)—मनो-भौतिक शास्त्र; भौतिक उत्तेजना और संवेदनाओं का पारस्परिक गुण और परिमाण सम्बन्धी अध्ययन ।

psychophysiology—(Gk. *psyche*, mind; *physis*, nature; *logos*, discourse) मानसिक क्रिया विज्ञान; मनो-व्यापार शास्त्र ।

psychosomatic—(Gk. *psyche*, mind *soma*, body) देह-मस्तिष्कीय; देह-मस्तिष्क ।

psychozoic—(Gk. *psyche*; mind; *zoon*, animal) मानव प्रधान (भूगोलिक युग) ।

psychophil—(Gk. *psychros*, cold; *philein*, to love) शीतरागी; शीतप्रेमी—जैसे कुछ एक बैक्टीरिया ।

psychrophyte—(Gk. *psychros*, cold; *phyton*, plant) शीतप्रेमी पादप ।

pteralia—(Gk. *pteron*, wing) पक्ष संयोजक; पक्ष-कठिका ।

pteregrate—(Gk. *pteron*, wing; *grates*, worker) अण्वीय पिपीलिका ।

pteridology—(Gk. *ptēris*, fern; *logos*, discourse) फर्न विज्ञान; वनस्पतिशास्त्र को वह शाखा जिसका सम्बन्ध फर्न (fern) के अध्ययन से होता है।

pteridophyte—(Gk. *ptēris*, fern; *phyton*, plant) टेरीडोफाइट; इसके अन्तर्गत ट्रेकियोफाइट (वाहिनी ऊतक वाले पौधे), साइलौप्सिडा, लाइकैप्सिडा (क्लव माँस); इक्वीसीटम और टिरोप्सिडा (फर्न) सम्मिलित रहते हैं।

pteric—(Gk. *pteron*, wing) पंखवर्ण।

pterins—(Gk. *pteron*, wing) टेरिज; किन्हीं तितलियों के पंखों के वर्ण।

pterion—(Gk. *pteron*, wing) टेरियोन; त्रिअस्थि सन्धि का बिन्दु; पैराइटल, फ्रन्टल और स्फीनोइड के पक्ष की सन्धि का बिन्दु।

ptero—पक्ष; पंख।

ptero-cardiac—(Gk. *pteron*, wing; *kardia*, heart) टीरोकार्डियक; पिच्छोपम अस्थिक क्रशटेशिया (crustacea) की जठर चक्की के आनत छोरे युक्त अस्थिक (ossicles)।

ptero-carpous—(Gk. *pteron*, wing; *karpos*, fruit) पिच्छ-फल; पिच्छ-फल वाला; सपच्छ फल।

ptero-dium—(Gk. *pteron*, wing) सपच्छ फल; समारा (Samara); इस प्रकार के फल एक या द्विवीजी होते हैं—फलभित्ति पक्ष बनाती है। उदाहरण—चिलविल (elm); पुतली (maple); एसर (Acer)।

ptero-oid—(Gk. *pteron*, wing; *ptēris*, fern; *eidōs*, form) पंखोपम; पंख सदृश।

ptero-paedes—(Gk. *pteron*, wing; *pais*, child) टीरोपेडीज; ऐसा शिशु पक्षी जो अण्डे से निकलते ही उड़ने के योग्य होता है।

ptero-pe-gum—(Gk. *pteron*, wing; *pege*, source) पक्षाघार।

ptero-podial—(Gk. *pteron*, wing; *pous*, foot) पक्षपादी; टीरोपोडा (ptero-poda) या सागर तितलियों (sea-butterflies) में मध्य-पाद (mid foot) के पक्षोपम पालि।

ptero-podium—(Gk. *pteron*, wing; *pous*, foot) पंखपाद; पक्षपाद।

pterospermous—(Gk. *pteron*, wing; *sperma*, seed) पक्षबीजी।

ptero-stigma—(Gk. *pteron*, wing; *stigma*, mark) पंखबिन्दु; पक्षबिन्दु।

ptero-theca—(Gk. *pteron*, wing; *theke*, case) पंखकोष; पक्षावरक।

ptero-tic—(Gk. *pteron*, wing; *ous*, ear) टेरोटिक पंखोपम कर्णास्थि; पक्ष कर्णिका।

ptery-gial—(Gk. *pteron*, wing) पंखीय; पंख सम्बन्धी।

ptery-giophore—(Gk. *pterygion*, little wing; *pherein*, to bear) लघुपक्षधर; कोई एक उपास्थिक फिन किरण (पख अर) जो फिन को सम्हाले रहती है।

ptery-gium—(Gk. *pterygion*, little wing) टेरीजियम; पंखक; पक्षक।

ptery-go-branchiate—(Gk. *pteryx*, wing; *branchia*, gills) पंखोपम गिली; पंखाकार श्वास छिद्री।

ptery-goda—(Gk. *pteryx*, wing; *eidōs*, form) उपपक्ष; कीटों के टेगुली (tegulae)।

ptery-goid—(Gk. *pteryx*, wing; *eidōs*, form) टेरीगॉइड (अस्थि विशेष); त्र्यंगिका।

ptery-go-mandibular—(Gk. *pteryx*, wing; L. *mandibulum*, jaw) टेरीगॉइड और मैन्डिबुलर सम्बन्धी।

ptery-go-maxillary—(Gk. *pteryx*, wing; L. *maxilla*, jaw) टेरीगॉइड और मैक्सिला सम्बन्धी; स्फीनोइड (sphenoid) के टेरीगॉइड प्रवर्ध और मैक्सिला के मध्य का विदर (fissure)।

ptery-go-palatine—(Gk. *pteryx*, wing; L. *palatus*, palate) टेरीगॉइड और पैलेटाइन सम्बन्धी।

ptery-go-podial—(Gk. *pteryx*, wing; *pous*, foot) टेरीगो-पोडियल; पंखपादी (श्लैष्म ग्रन्थि); उपास्थि मत्स्यों में आर्लिगकों से सम्बन्धी श्लैष्म ग्रन्थियाँ।

ptery-go-quadr-ate—(Gk. *pteryx*, wing; L. *quad-ratus*, squared) टेरीगो-क्वाड्रेट—मत्स्यों में चिबुक वलय (mandibular arch) की एक उपास्थि।

ptery-go-spinous—(Gk. *pteryx*, wing; L. *spina*, spine) टेरीगो-श्लीय; पार्श्व टेरीगॉइड प्लेट और

pterylae

स्फीनोइड के धूली/प्रवर्ध के बीच का पेशीवन्ध (लिगा-
मेंट) ।

pterylae-(Gk. *pteron*, wing; *hyle*, wood) पिच्छ
क्षेत्र; पक्ष क्षेत्र; पक्षी के शरीर के वह क्षेत्र जिन पर पंख
लगे रहते हैं ।

pterylosis-(Gk. *pteron*, feather; *hyle*, a wood)
पक्ष विन्यास; पिच्छ विन्यास ।

ptilinum-(Gk. *ptilon*, feather) टिलिनम; निर्गम-
कोष; षटपादों या कीटों (insects) में विशु षटपाद के
सिर/पर आगे की ओर स्थित एक फूची हुई धैली ।

ptyalia-(Gk. *ptyalon*, saliva) टायालिन; टायालिन
माही-पाचक क्षोभक; शूक (saliva) में पाया जाने वाला
क्षोभक रस ।

ptyxis-(Gk. *ptyxis*, fold) किसलय-घलन या
टिक्सिस अर्थात् बाल पत्तियाँ कली में किस ढंग से
लिटपी रहती हैं । यह कई प्रकार का होता है—

reclinate-अवनत या रेक्लिनेट जैसे क्रोटम, लोकाट ।

conduplicate-मध्य शिरा-वलित जैसे कचनार,
अमरुद ।

plicate-वलित या प्लिकेट, जैसे ताड़ ।

crumpled-अनियमी वलित, जैसे पातगोभी ।

circinate-कुण्डलित या सर्सिनेट, जैसे फर्न ।

convolute-संवलित या कौनवोल्यूट, जैसे केला ।

involute-प्रति केन्द्रज या इन्वोल्यूट, जैसे कमल ।

revolute-कोर कुंचित या रिवोल्यूट ।

puberty-(L. *pubertas*, adult state) यौवन; प्रौढ़
दशा; यौवनारम्भ ।

puberulent-(L. *pubes*, adult) लोमश;
सूक्ष्मरोमिल ।

pubes-(L. *pubes*, adult) प्यूवीस; वस्ति प्रदेश;
प्यूविक प्रदेश ।

pubescence-(L. *pubescere*, to become mature)
रौमी; प्रौढ़ता; रोमिल; रोमश ।

pubescent-(L. *pubescere*, to become mature)
प्रौढ़; रोमावृत्त; रोमिल ।

pubic-(L. *pubes*, mature) प्यूविक; जघन; जघन-
अस्थि ।

pubis-(L. *pubes*, mature) प्यूवीस; (१) जघनास्थि
का अग्रभाग । (२) श्रोणि वलय का अग्र-अवर भाग ।

pubental-(L. *pubere*, to be ashamed) योनि
क्षेत्रीय; योनि स्थली ।

pubendum-(L. *pubere*, to be ashamed) योनि;
वाह्य मादा जननेन्द्रिय ।

puffing-फूत्कार; उच्छ्वन । एक साथ बहुत से बीजाणु
का निःसारण ।

pullulation-(L. *pullulare*, to sprout) जेमोद्भयन
(gemination) जैसे यीस्ट (yeast) कोशिकाओं का
मुकलन वनस्पतिक उत्पादन ।

pulley-(L. *pullanus*, pull) घूर्ण; घिरनी; घिरी ।

pulmobranchia-(L. *pulmo*, lung; Gk. *branchia*,
gills) गिल-फुफुस; पुस्तकीय फुफुस; मकड़ी आदि
जन्तुओं का श्वासांग; फुफुस क्लोम ।

pulmonary-(L. *pulmo*, lung) फुफुसीय; फुफुस
सम्बन्धी; फुफुस ।

pulmones-(L. *pulmo*, lung) फुफुस— ।

pulp-(L. *pulpa*, fruit pulp) गुदा; मज्जा; लुगदी ।

pulsating vacuole-संकुचनशील स्थल; स्पंदमान ।

pulse-(L. *pulsus*, driven) नब्ज; धमनी स्फुरण
(स्पन्दन); दाल ।

pulsillum-(L. *pulsare*, to beat) पश्च कशा-
भिका ।

pulvillar-(L. *pulvillus*, small cushion) नखोप-
घान ।

pulvilliform-(L. *pulvillus*, small cushion;
forma, shape) नखोपघानोपम ।

pulvillus-(L. *pulvillus*, small cushion) नखोपघान;
पादतलव; पादतल्य ।

pulvinar-(L. *pulvinus*, cushion) उपघानोपम; पर्ण-
वृत्ततली ।

pulvinate-(L. *pulvinus*, cushion) उपघानी; उपघान
युक्त; तल्ययुक्त ।

pulvinulus-(L. *pulvinus*, cushion) नखोपघान ।

pulvinus-(L. *pulvinus*, cushion) पलवाइनस; कोशिका
स्फीति; कुछ पत्तियों में पर्णाधार फूल कर कुछ मोटा
हो जाता है, जिसे पलवाइनस कहा जाता है—जैसे छुई-
मुई; अमलतास; गुलमोहर आदि ।

punctate—(L. *punctum*, point) चिह्नित; चिह्नकार; बिन्दुवृत्त ।

punctulate—(L. *dim*, of *punctum*, point) लघु छिद्री; लघु चिह्नित ।

punctum—(L. *punctum*, point) पन्कटम; सूक्ष्म बिन्दु ।

puncture—(L. *punctura*, prick) भिद्; चोभ ।

pupa—(L. *pupa*, puppet) प्यूपा; पिटिका; कोशित; कोषावृत्ति; षटपाद या कीटों (insects) के जीवन वृत्त (life-cycle) की तृतीयावस्था ।

pupal—(L. *pupa*, puppet) प्यूपीय; प्यूपा सम्बन्धी ।

puparium—(L. *pupa*, puppet; *forma*, shape) पिटिका कोष; प्यूपा कोष; कोशितावरण ।

pupiform—(L. *pupa*, puppet; *forma*, shape) पिटिकोपम ।

pupigerous—(L. *pupa*, puppet; *gerere*, to bear) प्यूपाधारी; प्यूपायुक्त; कोशितधारी ।

pupil—(L. *pupilla*, pupil; of eye) प्यूपिल; तारा; कनीनिका; पुतली ।

pupillary—(L. *pupilla*, pupil of eye) कनीनिका सम्बन्धी; पुतली सम्बन्धी ।

pupiparous—(L. *pupa*, puppet; *parere*, to beget) प्यूपाजन; कोशितज; प्यूपास्थिति तक बने हुए बच्चे जनने वाला ।

purines—(Gk. *pyren*, nucleus) प्यूरिन्स; बेरसायन जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होता है, जैसे एडीनाइन (adenine) और ग्वानाइन (guanine) जो उपापचय में होते हैं ।

Purkinje, cells of—(J. E. purkinje, Bohemian physiologist) परकन्जे की कोशिकाएँ—प्रमस्तिष्क में प्लास्कनुमा कोशिकाएँ जो प्रमस्तिष्क बल्बल (कॉर्टेक्स) में पाई जाती हैं ।

pustule—(L. *pustula*, pimple) स्फोट ।

pusule—(L. *pusula*, blister) असंकुचनशील स्थली; प्रधानी ।

putamen—(L. *putamen*, shell) पुटामन; कर्पूर कला । (२) गुठली, अठि ।

pycnic—(Gk. *pyknos*, thick) घना; स्थूल ।

pycnidiophore—(Gk. *pyknos*, dense; *iodon*, *dim*; *pherein*, to bear) पिकनिडियोफोर; पिकनिडिया उत्पादी कोनिडियोफोर ।

pycnidiospore—(Gk. *pyknos*, dense; *idion*, *dim*, *sporos*, seed) पिकनीडियोस्पोर; पिकनीडिया द्वारा बीजाणु का उत्पादन ।

pycnidium—(Gk. *pyknos*, dense; *idion*, *dim*) पिकनीडियम; (१) पुट ग्रीवा अंग या पुमणुजन (गोधूम रस्ट (wheat-rust) में; (२) फन्जाई और लाइकिन्स में वर्तक (सूचि) बीजाणु (stylospores) पात्र ।

pycnosis—(Gk. *pyknosis*, condensation) कोष्ठापकपर्ता; प्रघनन; पिकनोसिस ।

pycnotic—(Gk. *pyknosis*, condensation) कोष्ठापकर्पी; पिकनोसिस सम्बन्धी ।

pygal—(Gk. *pyge*, rump) पाइगल; वर्यान्त; पृष्ठ-पश्चान्तर ।

pygidiai—(Gk. *pygidion*, narrow rump) पृष्ठ-पश्चान्तरी; पाइजिडियल ।

pygidium—(Gk. *pygidion*, narrow rump) पुच्छ पट्टिका; अन्त्यपट्टिका; पाईगीडियम; पाइजिडियम ।

pygochord—(Gk. *pyge*, rump; *chorde*, cord) पृष्ठपश्चान्तर मेड़ प्रवर्धन; पुच्छ-रज्जु ।

pygostyle—(Gk. *pyge*, rump; *stylos*, column) पाईगोस्टाइल; पुच्छ कृषकास्थि; फालक; पुच्छ-फाल ।

pylangium—(Gk. *pyle*, gate; *anggeion*, vessel) पाइलेंजियम; पीलेंजियम; पश्च घमनी कांड ।

pylocyte—(Gk. *pylon*, gateway; *kytos*, hollow) छिद्र कोशिका; छिद्र कोषिका; निर्गमाणु ।

pylome—(Gk. *pyloma*, gate) पुरा मुख; प्रजीव मुख; द्वारक; पाइलोम ।

pyloric—(Gk. *pylors*, gate-keeper) पाइलोरिक; पक्वाशयिक; जठर निर्गम ।

pyloric constriction—पाइलोरिक सिकुड़न ।

pylorus—(Gk. *pyloros*, gate-keeper) पाइलोरस; आमाशय निम्नद्वार; जठर निर्गम ।

pyramid—(L. *pyramis*, pyramid) पिरैमिड; त्रिकोणाकृति; सूच्याकार या शुंडाकृति ।

pyrene—गुठली ।

pyrenin

pyrenin—(Gk. *pyren*, fruit stone) पाइरेनिन; उप-केन्द्रक का पदार्थ—पैरा-न्यूक्लियेन ।

pyrenocarp—(Gk. *pyren*, fruit stone; *karpos*, fruit) (१) अष्टिल फल; गुठली युक्त मरस फल ।
(२) एक प्रकार का ऐस्कोकार्प (ascocarp) ।

pyrenoid—(Gk. *pyren*, fruit stone; *eidōs*, form) पैरेनॉइड; केन्द्रक कण; निम्न पादपों के रंगहीन प्ररसकण (plastid) ।

pyrenophore—(Gk. *pyren*, fruit stone; *pherein*, to bear) केन्द्रकधारी; साइटोप्लाज़म का वह भाग जिसमें न्यूक्लियस (केन्द्रक) होता है ।

pyretic—(Gk. *pyretis*, fever) तापवर्धक ।

pyridoxin—पाइरीडोक्सिन, विटामिन बी-६; एडरमाइन (adermine) ।

pyriform—(L. *pyrum*, pear; *forma*, shape) पाइरीफोर्म; सेवोपम; नाखरूप; सेव (pear) के आकार की कौशेय ग्रन्थि (silk gland) आदि ।

pyritic—माक्षिकी; पाइराइटी ।

pyxidium—(Gk. *pyxis*, box; *idion*, *dim*) अनुप्रस्थ-स्फुटीफल; पिक्सोडियम; सम्पुटीफल जो अनुप्रस्थ फूटता है जैसे चौलाई और कुल्फा के फल ।

pyxis—(Gk. *pyxis*, box) पिक्सिस; प्रवृत्त विवृत; लाइक्सिस में प्रवृत्त (podetium) का विवृत (dilatation) भाग ।

Q

Q-disc—"A" विम्ब या विषमदैशिक (anisotropic) ।

quadrate—(L. *quadratus*, squared) क्वाड्रेट; हनुसंघिका ।

quadratojugal—(L. *quadratus*, squared, *jugum*, yoke) क्वाड्रेटो-जुगल; हनुसंघिगंडिका ।

quadratomandibular—(L. *quadratus*, squared; *mandibulum*, jaw) क्वाड्रेट-मेन्डिविल-सम्बन्धी ।

quadratus—(L. *quadratus*, squared) क्वाड्रेटस ।

quadricephal—(L. *quattuor*, four; Gk. *karpos*, fruit) चतुष-अंडपी ।

quadriceps—(L. *quattuor*, four; *caput*, head) क्वाड्रीसेप्स (पेशी) ।

quadrifarious—(L. *quadrifarious*-fourfold) चार पंक्तिक; चतुष्पंक्तिक ।

quadrifid—(L. *quattuor*, four; *tindere*, to cleave) चतुष्खण्डित; चार भागों में बटा हुआ; चतुर्भाजित ।

quadrifoliate—(L. *quattuor*, four; *folium*, leaf) चतुष्पर्णी; चारपर्णकी ।

quadrigenal bodies = corpora quadrigena—चतुष्पिण्ड ।

quadrjugate—(L. *quattuor*, four; *jugum*, yoke) चार युगल पिच्छकी; चार युगल पर्णक ।

quadrilocular—(L. *quattuor*, four; *loculus*, small space) चार कोण्टवी; चतुर्कोण्टकी ।

quadrimate—(L. *quattuor*, four; *manula*, spot) चतुर्विन्दुक ।

quadrinate—(L. *quattuor*, four; *penna*, wing) चतुर्पंखी; चार पंख वाला; चतुष्पिच्छकी ।

quadrilateral—(L. *quattuor*, four; *tuberculum*, a small hump) चतुर्गुंड; चार ट्युबर्किल (गड्ढे) वाले दांत ।

quadrumanous—(L. *quattuor*, four; *manus*, hand) चतुर्हस्त ।

quadrupedal—(L. *quattuor*, four; *pes*, foot) चतुष्पद; चतुष्पाद; चतुष्पाद ।

quadruplex—(L. *quadruplex*; four fold) चार प्रमुख जीनी ।

qualitative inheritance—गुणात्मक वंशागति; ये वह वंशागति होती है जिसमें किसी एक विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति (expression) प्रजाति के व्यक्तियों में अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करती है जिसे असंतत विभिन्नता (discontinuous variation) कहते हैं जैसे लिंग (sex) कुछ जीन के वृहत् प्रभाव पर निर्भर होता है।

quantitative inheritance—मात्रात्मक वंशागति; ये वह वंशागति होती है जिसमें किसी एक लक्षण की अभिव्यक्ति शून्य-शून्य एक स्थिति के बाद दूसरी क्रमशः प्रदर्शित होती है इसे संतत विभिन्नता (continuous variation) कहा जाता है—जैसे मानव का डील डोल (stature)—कई जीन के सह प्रक्रिया से बनता है, जिसमें जीन प्रत्येक अपना आंशिक प्रभाव डालते हैं।

quaternary—(L. *quaterni*, four each) चतुर्थ; चतुर्थ महाकाव्य।

quarter—(L. *questus*, fourst) चतुष्क; चतुर्दली।

quaternate—(L. *quaterni*, four each) चार अस्त मन।

queen—(A. S. *cwen* queen), रानी।

queen bee—(A. S. *cwen*, queese) मक्ष रानी; रानी मक्षिका।

quiescent—शान्त अवस्था; शांत।

quill—(O. Fr. *quille*, a peg) क्विल; कुइल; पिच्छ-मूल; शलं।

quill feathers—क्विलदार पंख; पर्ण-पिच्छ; पंख पिच्छ।

quinary—(L. *quini*, five each) पंचक; पंचकभागी समिति।

quinate—(L. *quini*, five each) पांच सपत्रक; एक ही विन्दु से पांच पत्रक (leaflets) निकलते हुए।

quineuncial—(L. *quinque*, five; *uncia*, twelfth part) पंच विन्यासी।

quincunx—(L. *quinque*, five; *uncia*, twelfth part) पंचरचनक; पांच पर्ण या दल का इस प्रकार विन्यास कि दो बाहर, दो अन्दर और पांचवां कुछ अन्दर और कुछ बाहर।

quincocostate—(L. *quinque*, five; *costa*, rib) पंच शिरी पर्ण।

quinquefarious—(L. *quinque*, five; *jarium*, in rows, पंच दिशी; पंचदिक्की।

quinquefid—(L. *quinque*, five; *tubese*, to cleave) पंचखण्डित; पांच भागों में बंटा हुआ।

quinquefoliate—(L. *quinque*, five; *folium*, leaf) पंच पर्णी।

quinquepartite—(L. *quinque*, five; *partitus*, divided) पंच विभाजी; पंच विभक्तिक।

quinquetubercular—(L. *quinque*, five; *tuberculum*, a small hump) पंचगड्ड; पांच ट्युर्बकिल गड्ड वाले (दांत)।

R

Rabbit—(M. E. *rabet*, dim. of a form seen in old dutch *robbe*) खरगोश; शशक; [नोट-खरहा शब्द hare के लिये प्रयोग करना चाहिये] ।

race—(F. *race*, race, family) नस्ल; नसल, प्रजाति; जाति ।

racemation—(L. *racemus*, bunch) द्राक्षोपम गुच्छता ।

raceme—(L. *racemus*, bunch) रेसीम (पुष्पक्रम); एक प्रकार का पुष्प संवृन्त असीमाक्षी पुष्प क्रम; इसमें एक बढ़ी हुई रेकिस पर संवृन्त पुष्प अग्रभािसारी क्रम (acropetal succession) में लगे रहते हैं—उदाहरण—मूली, सरसों, लाइनेरिया इत्यादि ।

racemiferous—(L. *racemus*, bunch; *ferre*, to carry) रेसीमधारी ।

racemiform—(L. *racemus*, bunch; *forma*, shape) रेसीमरूपक ।

racemose—(L. *racemus*, bunch) गुच्छीय; असीमाक्षी (पुष्प क्रम); द्राक्षगुच्छाभ ।

racemule—(L. *racemulus*, small bunch) असीमाक्षक; लघु गुच्छीय, लघु रेसीम ।

racemulose—(L. *racemulus*, small bunch) लघु असीमाक्षक ।

rachial—(Gk. *rhachis*, spine) रेकिस सम्बन्धी; प्राक्षीय ।

rachial—Gk. *rhachis*, spine) प्राक्षीय ।

rachidian—(Gk. *rhachis*, spine) रेकीडियन; रेकिस के समीप या रेकिस पर ।

rachiform—(Gk. *rhachis*, spine; L. *forma*, shape) रेकिस सदृश :

rachilla—(Gk. *rhachis*; spine) संक्षिप्त रेकिस ।

rachiodent—(Gk. *rhachis*, spine; *odous*, tooth) कूटदन्ती; ऐसे सर्प जो अण्डे (eggs) खाते हैं और जिनके अग्रवक्षक (anterior thoracic) कशेरुकों (vertebrae) के अग्रः प्रवर्धन कूटोपम होते हैं और दाँतों की तरह का काम देते हैं ।

rachiostrictous—(Gk. *rhachis*, spine; *stichos*; sow) फिनाक्ष; क्षेपणी-अक्ष ।

rachis—(Gk. *rhachis*, spine) रेकिस; प्राक्ष; सुषुम्ना स्तम्भ; पक्ष दण्ड; ढण्डल ।

rachitomous—(Gk. *rhachis*, spine) रेकीटोमस; संयुक्तांगी कशेरु; वह कशेरु जो मिनन टुकड़ों के मिलने से बनते हैं ।

[देखिये—*temnospondylous*—टेमनोस्पोन्डाइलस]

radial—(L. *radius*, ray) अरीय; अर-; अर सम्बन्धी ।

radial canal—अर नलिका; अरीय नाल ।

radial symmetry—अर समांशता; अरीय सम्मित; अरीय सममिति ।

radiale—(L. *radius*, ray) रेडियल; पोरु की हड्डी ।

radiate—(L. *radius*, ray) अरसमांशी; विकिरण करना ।

radiatiform—किरणानविकोपम; किरणानविक तटी रश्मि पुष्पक युक्त; (with radiating marginal-florets) ।

radicivorous—(L. *radix*, root; *vorcare*, to devour) जड़भोजी ।

radical—(L. *radix*, root, मूलजाभासी; मूलज ।

radicant—(L. *radicari*, to take root) (१) स्तम्भ मूल; ऐसी जड़ युक्त जो तने से विकसित होती है । (२) मूलन (rooting) ।

radicel—(Dim. of L. *radix*, root) लघु मूल ।

radiciflorous—(L. *radix*, root; *flos*, flower) मूल-पुष्पी; मूलज पुष्पी ।

radiciform—(L. *radix*, root; *forma*, मूल रूपी; जड़ सदृश ।

radicivorus—(L. *radix*, root; *colere*, to inhabit) जड़-वासी; जड़ प्रेमी ।

radicle—(L. *radix*, root) मूलांकुर; लघुमूल; छोटी जड़; मूलांकुर और प्रांकुर (*plumule*) युक्त केन्द्रीय अक्ष का निम्न भाग, भ्रूणिक ।

radicolous—(L. *radix*, root; *colere*, to inhabit) जड़ वासी; जड़ प्रेमी ।

radicose—(L. *radix*; root) दीर्घ मूलक ।

radicular—(L. *radix*, root) लघु मूलक ।

radicule—(L. *radix*, root) मूलिका (rootlet) ।
radiculose—(L. *radix*, root) बहुमूलिकीय ।
radiobiology—विकिरण-जैविकी ।
radio-carpal—(L. *radius*, ray; *carpus*, wrist) रेडियो-कारपल; त्रिज्या-कर्भस्थिक ।
radiole—(L. *radiolus*, small shuttle) कूटक ।
radiolysis—विकिरण अपघटन ।
radioreceptor—(L. *radius*, ray; *receptor*, receiver) अन्त्यांग ग्राही (ज्ञापक) ।
radiosymmetrical—(L. *radius*, ray, Gk. *syn*, with; *metron*, measure) अरसमांशी; समसमांशी ।
radioulnar—(L. *radius*, ray; *ulna*, elbow) रेडियो अलनर; रेडियस और अलना सम्बन्धी; प्रकोशिकास्थियों सम्बन्धी; रेडियो अलनर; अन्तरा प्रकोष्ठिका ।
radius—(L. *radins*, ray) रेडियस (१) वहिप्रकोष्ठास्थि; त्रिज्या; ह्यूमेरस (humerus) और कारपल (carpal) के मध्य में स्थित प्रकोष्ठास्थि (२) षटपादों या कीटों (insects) के पक्ष (wing) की एक नस (vein) ।
radix—(L. *radix*, root) मूलांक; उद्गम बिन्दु; किसी संरचना जैसे आयोटा (aorta) का उद्गम बिन्दु (point of origin) ।
radula—(L. *radere*, to scrape) रेडुला; आरीयन्त्र; रेती जिन्हा, घषित्र; गैस्ट्रोपोड (gastropod), घोंघा आदि के मुख के अन्दर पाई जाने वाली एक पट्ट के आकार वाली बनावट जिसके ऊपर सख्त काइटिन (chitin) की बनी हुई पत्तियों की कतार रहती है ।
radulate—(L. *radere*, to scrape) रेड्यूलेट; घर्ष कांग; आरीयन्त्री ।
raduliform—(L. *radere*, to scrape; *forma*, shape) रेड्यूलोपम; घर्षकोपम; घर्षकाकार; आरी नुमा (सदृश) ।
rainey's corpuscles—(G. *rainey*, english morphologist) रेने-कण; [रेने वैज्ञानिक का नाम] (१) आयत (elongated) स्पोरोजोन (sporozoan) या रेने-कण जो कि ऐच्छिक मांस पेशियों (voluntary muscles) के रेशों (fibres) में पाये जाते हैं । (२) सरकोसिस्टिस (sarcocystis) के स्पोर । (रेने कण) ।

ramal—(L. *ramus*, branch) शाखोद्भव; शाखीय; शाखा सम्बन्धी ।
ramate—(L. *ramus*, branch) शाखान्वित; शाखीय ।
ramellose—(L. *ramus*, branch) लघु शाखीय ।
ramentaceous—(L. *ramenta*, shavings) तनु शल्की; रैमेन्टेशियस ।
ramentiferous—(L. *ramenta*, shavings, *ferre*, to carry) तनु शल्कधारी; रैमेन्टमधारी ।
ramentum—(L. *ramenta*, shavings) रैमेन्टम; तनु-शल्क । (१) फर्न पत्तियों पर पाई जाने वाली भूरी शल्कोपम संरचनायें (आकृतियाँ), (२) आयात कला—रोम अधिच्छद् अभिवृद्धियाँ ।
rameous—(L. *ramus*, branch) शाखीय ।
remicolous—शाखावासी ।
ramicorn—(L. *ramus*, branch; *cornu*, horn) विभक्त स्पर्शक; शाख शृंग; ऐसे षटपाद या कीट (insects) जिनके स्पर्शक या स्पर्श तन्त्र बड़े हुए होते हैं ।
ramiferous—(L. *ramus*, branch; *ferre*, to bear) शाखीय; शाखाधारी; शाखाधर ।
ramification—(L. *ramus*, branch; *facere*, to make) शाखा न्यास; प्रप्रति शाखा; प्रशाखन; बहुशाखन ।
ramiform—(L. *ramus*, branch; *forma*, shape) शाखोपम; शाखा समान; शाखा रूप ।
ramigerous—(L. *ramus*, branch; *gerere*, to carry) शाखाधारी; शाखा युक्त; शाखों वाला ।
ramiparous—(L. *ramus*, branch; *parere*, to beget) शाखाजन; शाखाप्रसू; शाखा उत्पन्न करने वाला ।
ramose—(L. *ramus*, branch) बहुशाखीय; बहुशाखा युक्त; शाखान्वित ।
ramule—(L. *ramulus*, twig) प्रशाखा (twig) ।
ramuliferous—(L. *ramulus*, twig; *ferre*, to bear) प्रशाखीय; प्रशाखाधारी ।
ramulose, ramulous—(L. *ramulus*, twig) लघु प्रशाखीय ।
ramulus, ramuscule—(L. *ramulus*; twig) लघु-प्रशाखा ।
ramus—(L. *ramus*, cranch) रेमस; शाखा; १—कोई शाखोपम आकृति, २—पृष्ठ दण्डियों (vertebrates) का जवड़ा (हनु) । ३—रोटीफर्स (rotifers) के चर्वण यन्त्र

का एक भाग । ४-स्पाइनल तंत्रिका की शाखाएँ ५-पक्षों के पिच्छक (barb) ।

ramus communicans-संयोजक शाखा; समबन्धक शाखा ।

ranine-(L. rana, frog) जिह्वा-अघतली ।

ranivorous-(L. rana, frog; vorare, to devour) मेंढ़क भोजी, मेंढ़क खाने वाला जन्तु ।

ranvier's nodes-(A. ranyier, french histologist) रनवियर-पर्व, मेडुलरी (medullary) तंत्रिका सूत्रों (nerve fibres) के वह स्थान जहाँ पर मेडुलरी (medullary) पिधान (sheath) या मज्जापिधान (myelin sheath) का भाग नहीं होता है, जिसके कारण उस स्थान पर पर्व या गाँठ (node) बन जाता है ।

rapaceous-शलजम रूप ।

raphe-(Gk. raphe, seams) सेवनी; सन्धि रेखा ।

raphides-(Gk. raphis, needle) रेफिड्ज; सूचिकण; खरिक-कण; वनस्पति कोशिकाओं में पाये जाने वाले छोटे-छोटे कैल्शियम ऑक्सलेट (Calcium oxalate) के कण जो उपापचय प्रक्रिया के उत्पाद होते हैं ।

raphidiferous-(Gk. raphis, needle; L. ferre, to carry) सूचिकण युक्त ।

raptatory-(L. raptare, to rob) भक्षी; मोषी ।

raptorial-(L. raptare, to rob) मोषक; भक्षक; प्रराह पक्षी ।

rat-(A. S. raet, rat) चूहा; मूषक; मूसा; उन्दुर ।

rat snake-मूषक सर्प ।

rasorial-(L. radere, to scratch) निघर्षणी; निघर्षणक; क्षुरण; खुरण ।

rassenkreis-(Ger. Rasse, rae; kreis, circle) बहुप्ररूपक जाति ।

rastellus-(L. radere, to rasp) चंगुलांग दंत समूह; अण्टपाद (arachnid) के चंगुलांग (chelicera) का एक दंत समूह ।

rate-gene-गति प्रभावी जीन; गतिकारक; वर्धन प्रक्रिया की गति प्रभावक जीन ।

Rathke's pouch-(M. H. Rathke; German anatomist) रेयके-प्रसेव (स्यूत); १-केशेरूकों में मौखिक वाह्य चर्म की अंधवर्ध (diverticulum) ।

२-पूर्व पीपूष ग्रन्थि (prepituitary gland) निर्माण प्रारम्भ ।

ratitae or ratite-(L. ratis, raft) रेटीटी; दीड़ने वाले पक्षी ।

rattle-(M. E. ratelen, to clatter) रेटिल; शिज; खड़खड़ाहट पैदा करने वाला श्रंग; झकारोत्पादक श्रंग ।

rattle snake-रेटिल सर्प; अमेरिका में पाया जाने वाला एक सर्प विशेष जिसके कि दुम में तीन चार सख्त खड़खड़ाहट उत्पन्न करने वाले टुकड़े लगे रहते हैं, जिनको कि रेटिल (rattle) कहते हैं ।

rauber's layer-(A. rauber, estonian anatomist) रौवर स्तर; कोशिकघिच्छद-प्रावृत्त ।

ray-(L. radius, ray) १-रे-एक प्रकार की मत्स्य (मछली) विशेष । २-कण्टक धारियों (echinoderms) की एक वाहु या भुजा; ३-किरण रश्मि; ४-पाद । (५) पल-अर । [देखिये aktis]

ray florets-रश्मिपुष्पक; कम्पोजिटी फूलों के बाह्यतम (outermost) रश्मिपुष्पक (florets) ।

reaction-प्रतिक्रिया ।

reaction time-प्रतिक्रिया समय; उत्तेजना और प्रतिक्रिया समय; उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य का समय अवकाश ।

read-एवोमिसम; अश्वीयानी; रोमथशीलों (ruminants) के आमाशय का चतुर्थ भाग ।

realm-परिमण्डल ।

rearrangement-पुनर्न्यास; पुनर्विन्यास ।

recapitulation theory-पुनरावलोकन वाद (मत); पुनरावर्तन सिद्धान्त; रीकैपीटुलेशन थ्योरी; प्रत्येक प्राणी वृद्धिक्रम में अपनी जाति के विकास में पाई जाने वाली अवस्थाओं को फिर दुहराता है । यह मत पुनरावलोकन वाद कहलाता है इसको वोनवेयर (von baer) का कानून या वायोजेनेटिक नियम (biogenetic law) के नाम से भी कहा जाता है ।

recent-आधुनिकयुग; अभिनव युग ।

recent (epoch) era-अभिनव महाकल्प ।

receptacle-(L. recepire, to receive) आशय; पात्र; घानी ।

receptaculum—(L. *recipere*, to receive) पात्र; गृहीत; अण्डाधान ।

receptaculum chyli—(*thoracic duct*) काईली पात्र; वसालसीका धान; ओरस प्रणाली (*thoracic duct*) के निचले भाग में स्थित कोटर (*cavity*) ।

receptaculum ovarum—डिम्बग्राही, डिम्बगृही; केचुए (*earthworm*) आदि में अण्डे या डिम्ब एकत्रित करने वाला पात्र (अंग) ।

receptaculum seminis—वीर्याणुग्राही; मादा में वीर्याणु गृहण करने वाला अंग ।

receptive spot—प्रवेशांक; वीर्याणु प्रवेश स्थान; अण्डे में वह बिन्दु या स्थान जहाँ से वीर्याणु प्रवेश करता है ।

receptor—(L. *recipere*, to receive) ज्ञापक; वेदना-ग्राही; संग्राहक; ऐसा ज्ञान कोष्ठ या कोशिका जो बाहरी उत्तेजना को ग्रहण करता है । ये विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक ज्ञापक एक ही प्रकार की संवेदना ग्रहण करने की क्षमता लिये होता है जैसे ताप (*thermoreceptor*); प्रकाश (*photoreceptor*); दबाव (*thigmoreceptor*) आदि । जब प्रयाप्त मात्रा में उत्तेजना ज्ञापक पर पड़ती है, तब उस उत्तेजना को ज्ञापक तंत्रिका द्वारा तंत्रिका कोशिकाओं तक प्रेरित कर देता है जिससे जन्तु को उसका अनुभव होता है ।

recess—(L. *recessus*, withdrawn) विविक्त स्थान; रिसेस ।

recessive—(L. *recessus*, withdrawn) संवृत; अप्रभावी ।

recessive character—संवृत लक्षण; अपसरण शील लक्षण; अप्रभावी लक्षण ।

reciprocal hybrids—मिथसंकर; द्विप्रसंकर; व्युत्क्रम-संकर; व्यतिसंकर; ऐसा संकर जो किसी एक उपजाति के नर तथा दूसरी उपजाति की मादा से तथा एक अन्य पहले की मादा और दूसरे के नर से उत्पन्न हो ।

recline—(L. *reclinare*, to lean) अवनत; आनती; (१) शिखर से आघार तक पीछे की ओर मुड़ा हुआ ।

(२) बीजांड (*ovule*) बीजांड वृन्त (*funiculus*) से लटकता हुआ ।

reclining—(L. *reclinare*, to lean) आनत; कृशांगी ।

recon—पुनराणु ।

rectifide spirit—शीघतसुरा; विशुद्ध मध्यसार; परिशोधितस्प्रिट ।

recrudescence—(L. *re*, again; *crudescere*, to become hard) पुनर्प्रसर्षण; मलाशयिक; पुनः उद्भव ।

recruitment—(O. F. *recruter*, from L. *recrescere*, to grow again) प्रवलीकृत; शक्तिवृधता; अतिरिक्त प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं का क्रियाशील होना जिससे अधिक प्रतिवर्ती क्रिया सम्भव होती है । जबकि एक ही मात्रा की उत्तेजना निरन्तर दी जा रही हो ।

rectal—(L. *rectus*, straight) मलाशयी; मलाशय सम्बन्धी ।

rectal gland—मलाशयी ग्रन्थि; मलाशयिक ग्रन्थि ।

rectigradations—उपयुक्त-विकासवृत्ति; कृमिक विकास ।

rectinerval—(L. *rectus*, straight; *nervus*, nerve) अवक्र-तंत्रिकायुक्त ।

rectipetality—(L. *rectus*, straight; *petere*, to seek) स्वकीय वृत्ति ।

rectirostral—(L. *rectus*, straight; *rostrum*, beak) अवक्र चंचुक; सीधी चौंच वाला; ऋजुचंचु ।

rectiserial—(L. *rectus*, straight; *series*, row) सरल पंक्तिक; समरेख-कृमिक ।

rectivenous—(L. *rectus*, straight; *vena*, vein) सरल शिरायी ।

rectogenital—(L. *rectus*; straight; *genitalia*, genitals) गुदा-जननेन्द्रिय; मलाशय-जननेन्द्रिय ।

rectouterin—(L. *rectus*, straight; *uterus*, womb) मल-गर्भाशय सम्बन्धी; पश्च गर्भाशयिक बंध (*ligament*) ।

rectovesical—(L. *rectus*, straight; *vesica*, bladder) मल-मूत्राशयिक; मलाशय और मूत्राशय सम्बन्धी ।

rectricial—(L. *regere*, to rule) पुच्छ-पक्षीय, रेक्ट्री-सियल; दुम के पंखों सम्बन्धी ।

rectrix or rectrices—रेक्ट्रिक्स; पुच्छ पक्ष; पक्षियों के दुम के पंख; पुच्छ पिच्छ ।

rectum—(L. *rectus*, straight) रेक्टम; गुदा; मलाशय; अन्न-प्रणाली के अन्तिम छिद्र (पापु) से पहले का चौड़ा भाग जिसमें मल एकत्रित रहता है ।

rectus—(L. *rectus*, straight) रेक्टस; मांस पेशी विशेष ।

recurrent

recurrent—(L. *re*, back; *currere*, to run) आव-
तर्क; प्रत्यावर्तिन; प्रत्यावर्ती ।

recurved—(L. *re*, back; *curvus*, bent) पुर्ननयत;
दुबारा मुड़ा हुआ; प्रतिवक्र; प्रतिवक्रित ।

recurvirostral—(L. *re*, back; *curvus*, curved;
rostrum, beak) पुर्ननयत चंचुक; अधिवक्र चंचु ।

red corpuscle—लाल रक्त कण; लाल रक्ताणु; रक्त
(खून) के लाल कण; लाल रघिर कणिका ।

redia—(F. *redi*, italian scientist) रेडिया; ट्रिमे-
टोडा (trematoda) का अर्भक या लार्वा (larva) ।

reduced—(L. *re*, back; *ducere*, to lead) न्यूनित;
क्षीण ।

reduction—(L. *raductus*, reduced) ह्रास; क्षीणता;
न्यूनीकरण ।

reduplicate—(L. *re*, again; *duplicare*, to repeat)
पुनर्वलित; प्रतिवलित । इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास
(aestivation) जिसमें कौरक के दल या बाह्यदल सम्पर्क
विन्दु बाह्य की ओर घूमे हुए होते हैं ।

reduviid—(L. *reduvia*, hanghail) उदबंधी; षट-
पादियों या कीटों (insects) के अण्डे जो अणुद्वार या
माईक्रोपाइल (micropyle) से सुरक्षित लगे रहते हैं ।

reflected—(L. *reflectere*, to turn back) परावृत्तित;
पुनरावृत्त; प्रतिबिंबित ।

reflex—(L. *reflectere*, to turn back) परावर्तन;
प्रतिवर्त ।

reflex action—परावर्तित प्रक्रिया (क्रिया), प्रतिवर्ती क्रिया,
परावर्तित, कार्य, उत्तेजना का आप से आप प्रति उत्तर;
ऐसा कार्य जिसमें संवेदीय (sensory) तंत्रिका द्वारा प्राप्त
उत्तेजना का प्रति उत्तर मस्तिष्क अथवा सुषुम्ना से परा-
वर्तित होकर गतिकारी तंत्रिका द्वारा सम्पन्न होता है । यह
अनैच्छिक कार्य होते हैं ।

reflex arc—परावर्तन चाप ।

reflexed—वलित; नत ।

refracted—(L. *re*, back; *frangere*, to break)
अपवर्तित ।

refractory—(L. *refractarius*, obstinate) दुर्गलनीय;
अन उत्तरदायिनी ।

regeneration—(L. *re*, again; *generare*, to beget)
पुनरुत्पादन पुनरुत्पत्ति; पुनर्जनन; पुनरुद्भवन; अंगी द्वारा
नष्ट हुए ऊतकों या अंगों का पुनः स्थापित कर लेना पुन
रुत्पादन या पुनरुद्भवन (regeneration) कहलाता है ।
यह शक्ति विभिन्न जन्तु समुदायों में अलग-अलग होती है ।
कुछ पट्टकमियों (platyhelminthes) में एक छोटा सा टूक
सम्पूर्ण शरीर का पुनरुत्पादन कर लेता है जबकि स्तनी में
केवल यह शक्ति जखम या चोट को भरने, परिधि तंत्रिका
सूत्रों का पुनःरोहण और प्रति पूरक (compensatory)
अतिवृद्धि (hypertrophy) तक ही सीमित होती है । वन-
स्पतियों में पुनरुत्पादन एक सामान्य लक्षण होता है
जिस कारण पादप संचरण (plant propagation) में
इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है ।

regma—(Gk. *rhegma*, fracture) रेगमा; यह भिदुर
(schizocarpic) प्रकार के फल होते हैं जो बहुअण्डपी
जायांग से बनते हैं और फटने पर उतने ही भागों में
विभक्त हो जाते हैं जितने कि उसमें अण्डपी (carpel)
होते हैं । प्रत्येक भाग को गोलाणु या कॉक्स (coccus)
कहते हैं । उदाहरण जिरेनियम, एरण्ड इत्यादि ।

regio-olfactoria—घ्राण प्रदेश ।

region—(L. *regere*, to rule) प्रदेश ।

regression filial—सन्तति परावर्तन; प्रतिक्रमण; विल-
क्षण दम्पतियों की सन्तति में अपने पितरों के असामान्य
लक्षणों का कम मात्रा में प्रकट होना और इस प्रकार
उनका फिर अपने जाति प्रकार की सामान्य अवस्था से
सदृश्य दिखलाना अर्थात् उसकी ओर लौट जाना ।

regular—(L. *regula*, rule) घरीय सममिति या त्रिज्या-
सममिति (actinomorphic) पुष्प आदि ।

Reissner's membrane—(E. *Reissner*, German
physiologist) रेसीनर कला (कर्ण में) ।

rejuvenescence—(L. *re*, again; *juvenescere*, to
grow young) कायाकल्प; पुनर्जीवनता; पुनर्जुवन ।

relax—(L. *re*, away form; *laxare*, to loosen)
शैथिल्य; शिथिलन ।

relaxation time—शिथिलन समय; निवृत्त काल; उत्तेजना
के हटाने के पश्चात् उत्तेजना से निवृत्त पाने का समय ।

relaxed condition—शिथिल-अवस्था; विश्रांत दशा;
प्रमुक्त दशा ।

relay cell

relay cell—प्रतिसारण कोशिका; रिलेकोशिका; तंत्रिका कोशिका मध्यस्थ (interneurone) या अन्तर्वर्तिकी (inter-nuncial) ।

relict—(L. *relictus*, abandoned) विश्वस्ता; कार्य विहीन पर मूलतः यथाकाल व्यावहारिक ।

Remak's fibres—(R. *Remak*, German anatomist) रिमाक सूत्र; भूरे या जिलेटिनक तंत्रिका सूत्र; विघान-हीन (non-medukated or amyelinated) तंत्रिका सूत्र ।

Remak's plexus—रिमाक तंत्रिका जाल; मेसेनर तंत्रिका जाल; तंत्रिका सूत्रों का क्षुद्रांत्र के अघः श्लेष्मक (sub-mucosa) का गण्डक जाल ।

remiges, remax—(L. *remex*, *rower*) रेमीजेस; कुइल; प्रचुद-पंख; दण्डघर पक्ष; पक्ष पिच्छ; पक्षियों के डैने के पंख ।

remiges primary—प्राथमिक दण्डघर पक्ष ।

remiges secondary—गौण दण्डघर पक्ष ।

remiped—(L. *remus*, oar; *pes*, foot) रेमीपैड; डांड-पादी; ऐसे जन्तु जिनके पाँव पतवार की तरह कार्य करने के अनुकूल होते हैं ।

remnant—अवशेष; अवशिष्ट ।

renal—(L. *ren*, kidney) वृक्कीय; वृक्क-; गुर्दा या वृक्क सम्बन्धी ।

renal portal—वृक्क-कोशिकान्तक; वृक्क निवाहिका ।

renes—(L. *ren*, kidney) वृक्क ।

renette—(L. *ren*, kidney) ग्रन्थिल विसर्जन कोशिका ।

reniculus—(Dim. of *ren*, kidney) वृक्कदल ।

reniform—(L. *ren*, kidney; *forma*, shape) वृक्काकार; वृक्कोपम ।

renin—(L. *ren*, kidney)—रेनिन; एक वृक्क प्रोटीन जिसका प्रभाव बहुमूत्र प्रवाह (diuretic) तथा नलिका दाब (vasopressor) का होता है ।

rennin—(A. S. *rennan*, to cause to ruin) रेनिन; दूध का दही बनाने वाला उद्दीपक रस (enzyme) ।

renopericardial—(L. *ren*, kidney; Gk. *peri*, round; *kardia*, heart) वृक्कहार्दिक; वृक्क-हृदय सम्बन्धी तन्त्रयुक्त नलिका (उच्च मौलस्का में पाई जाने वाली) ।

repand—(L. *repandus*, bent backwards) तरगतटी-भंगनत; तरंगित कोर ।

repandodontate—(L. *repandus*, bent backwards; *dens*, tooth) अल्पतरंगी ।

repent—(L. *repere*, to crawl) सृप ।

replacing bone—स्थान निवेशास्थि; स्थान निवेशक-अस्थि; प्रतिस्थापी अस्थि ।

repletes—(L. *repletus*, filled up) परिपूरित ।

replicate—(L. *re*, back; *plicare*, to fold) द्वैधीय; प्रतिकृत ।

replum—(L. *replum*, bolt) रेप्लम; आभासीपट; १-सिलिक्यूआ (siliqua), क्रूसीफेरी कुल के फल में जो आरम्भ में एक कोष्ठकी होता है परन्तु कोष्ठक के बीच में आभासीपट (replum) बन जाने से द्विकोष्ठकी हो जाता है ।

२-जेर सम्बन्धी पट ।

reproduction—(L. *re*, again; *pro*, forth; *ducere*, to lead) जनन; उत्पादन; उत्पत्ति प्रक्रिया; पुनस्त्यादन ।

redroductive organs—जननांग; उत्पादक-अंग ।

reproductive system—उत्पादन संस्थान (मण्डल); जनन मण्डल या तन्त्र; जनन तंत्र ।

reptiles—(L. *reptilis*, to creep) सर्पक; सृपीशील जन्तु; सरीसृप रेप्टाइल्स ।

reptilia—(L. *repere*, to crawl) सृपीशील या सर्पक वर्ग; उरग; रेप्टीलिया; सरीसृप ।

reptiloid—(L. *repere*, to crawl; Gk. *eidōs*, form) सर्पकोपम; सर्पक लक्षणी ।

repugnatorial—(L. *repugnare*, to resist) प्रतिरोधकता; विरुद्धता ।

reservoir—(L. *reservare*, to keep back) आशय; बापी ।

residual air—अवशेष वायु; निश्वासन में अधिकतम वायु निकालने के पश्चात् जो वायु फुफ्फुस में अवशेष रह जाती है, उसे अवशिष्ट (अवशेष) वायु कहा जाता है ।

resilifer—(L. *resilire*, to leap back; *ferre*, to carry) प्रापक संविधारी ।

resilium—(L. *resilire*, to leap back) प्रापक सन्धि; द्विकर्पर (bivalve) सीपीयों में घूमने वाली सन्धि ।

- resin**—(L. *resina*, gum) यक्षधूप; सर्जरस ।
- resistant**—(L. *re*, again; *sistere*, to make to stand) प्रतिरोधी; प्रतिरोधक ।
- respiration**—(L. *re*, again; *spirare*, to breathe) श्वास; श्वास कार्य; श्वास-प्रक्रिया; श्वसन ।
- respiration centre**—श्वास केन्द्र ।
- respiratory**—(L. *re*, again; *sporare*, to breathe) श्वासक; श्वास-; श्वसन; श्वसनी ।
- respiratory quotient**—श्वसन-गुणांक; एक ही समय में प्रयोगित श्वासीजन की मात्रा और निष्कासित कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा का अनुपात ।
- respiratory system**—श्वास प्रश्वास संस्थान (मण्डल) ।
- respiratory tract**—श्वास पथ ।
- response**—(L. *re*, back; *spondere*, to promise) प्रत्युत्तर; अनुक्रिया; प्रतिवेदन ।
- restiform**—(L. *restis*, rope; *forma*, shape) रज्जूकार; रज्जुरूप ।
- restitution** (L. *restitutio*, restoration) प्रत्यानयन; प्रत्यवस्थान; प्रत्येकत्रण ।
- १—ऊतक के पृथक टुकों के मिलने से एक काय पिण्ड का बनना ।
- २—कोरक खंड (ब्लास्टोमियर) ।
- ३—पुनरुद्भवन (regeneration) ।
- resupinate**—(L. *resupinare*, to bend back) प्रतीप-मोटन; इस प्रकार से मोटन (twisted) कि भाग अधो-मुखी हो जावें ।
- resupination**—(L. *resupinere*, to bend back) प्रतिलोमन ।
- resting**—विराम; सुप्त ।
- rete**—(L. *rete*, net) जाल; जालिका ।
- rete malpighii**—मालपीजियन जाल; बाह्यस्तर का गहरा भाग ।
- rete mirabile**—धमनी जाल; मछलियों (fishes) के प्लाविक कोषिका (swim bladder) की भित्ति पर स्थित धमनियों का जाल ।
- rete mucosum**—मालपीजियन जाल ।
- reticulous**—(L. *rete*, net) जालोपम; जाल सदृश ।
- retial**—(L. *rete*, net) जालिका सम्बन्धी ।
- reticle**—(L. *reticulum*, small net) रेटिकिल; जालिका ।
- reticular**—(L. *reticulum*, small net) रेटिकुलर; जालदार प्ररस; जाल-प्ररस; जालिका ।
- reticular cells**—जाल-कोशिकायें; अस्थि मज्जा, स्प्लीन और लसीका ग्रंथि की मध्योतक कोशिकायें (mesenchymal cells) जो कणीश्वेताणु (granulocytes) लसीकाणु (lymphocytes) और एक केन्द्रकाणु (monocytes) को जन्म देती हैं ।
- reticular theory**—(L. *reticulum*, small net; Gk. *theorein*, to view) जाल-मत; जाल-प्ररसमत; इस मतानुसार जीवन तत्व (protoplasm) का कम पतला पदार्थ ऐसे सूत्रों के जाल रूप में पाया जाता है जो स्वयं अनेक सूक्ष्म गोल कणों से बने होते हैं; जाल के छेदों में दूसरा पदार्थ जो अधिक द्रव होता है, भरा रहता है ।
- reticulate**—(L. *reticulum*, small net) जालोपम; जाल सदृश; जालिका रूपी ।
- reticulocyte**—(L. *reticulum*, small net; *kytos*, hollow) जालिकाणु; अपरिपक्व लाल रक्तानु; जालिका कोशिका ।
- reticulo-endothelial**—(L. *reticulum*, small net; Gk. *endon*, within; *thele*, nipple) जालिका—अन्तःस्तर ।
- १—विभिन्न अंगों की कोशिकायें या स्थिर पुरा रक्त कोशिकायें (histiocytes) जो प्रतिरक्षी (antibodies) के उत्पादन में भक्षक कोशिकाओं का व्यापार करती हैं या लाल रुधिर कणों को नष्ट करती हैं ।
- २—जालिका (reticulum), अन्तःस्तर कोशिकाओं (endothelial cells) और अमरकारी पुरारक्त कोशिकाओं का तन्त्र या उपापचय यन्त्र (metabolic apparatus) ।
- reticulose**—(L. *reticulum*, small net) जालिका युक्त ।
- reticulum**—(L. *reticulum*, small nes) रेटिकुलम; जालिका; करंड; रोमंथ कारियों (ruminants) के आमाशय का द्वितीय भाग; २—कोशिकाओं का जालदार जीवन तत्व या प्रोटोप्लाज्म (protoplasm) ।
- retiform**—(L. *rete*, net; *forma*, shape) जालिका-वत्; जालिकाभ ।
- retina**—(L. *rete*, net) रेटिना; नेत्रान्त्र पटल; दृष्टि पटल ।

retinaculum—(L. *retinere*, to retain) उपबंधनी ।
 १—एक लघु ग्रन्थिल पुंज जिस पर ऑरकिड (orchid) का परागपिंड (pollinium) स्फुटन पर अनुषक्त (adhere) हो जाता है ।
 २—एक सूचक बंध जो विभिन्न भागों को बांधे रखता है ।
 ३—सिरीपीड्स (cirripedes) में एक तनु हुकीय उभार जो अण्डावरण (eggcase) को यथास्थान रखता है ।
 ४—कुछ कीटों में एक आकृति जो अग्र और पश्च पंखों को साथ जोड़ती है ।
 ५—स्प्रिंगटेल्स (springtails) में एक प्रतिवर्तित अवयव जो फुरकुला (furcula) को उदर के नीचे पकड़े रखती है ।

retinence—(L. *retina*, retina) रेटीनेन्स; अन्धकार अनुकूलित चक्षुओं में पीत दृष्टव्य (visual yellow) से निर्मित कैरीटीन युक्त दृष्टि पटल (रेटीना) वर्ण ।

retinal—(L. *rete*, net) रेटीनल; नेत्रान्त्र पटल; नेत्रांत-पटल सम्बन्धी; दृष्टि पटलीया ।

retinerved—(L. *rete*, net; *nervus*, sinew) तंत्रिका जालीय; शिरा या नाड़ी या तंत्रिका जाल युक्त ।

retinoblasts—(L. *rete*, net; Gk. *blastos*, bud) दृष्टिपटल कोरक; दृष्टिपटल की अविच्छिद् कोशिकाएँ जो तंत्रिका कोशिकाओं (neuroblasts) और अविच्छिद् भ्रूणिक कोशिकाओं (spongioblasts) को जन्म देती हैं ।

retinophore—(L. *rete*, net; Gk. *pherein*, to bear) स्फाटिक कोशिका; आर्थोपोडा में उपनेत्रिका (ommatidium) की एक स्फुटिक कोशिका (crystal cell) ।

retinula—(L. *rete*, net) रेटीनुला; आपात वर्णक कोशिकाओं का समूह जो उपनेत्रिका का अन्ततम तत्व बनाता है ।

retort-shaped organ—भभका रूपी अंग; हेमिप्टेरा में मैक्सिलरी सूचिकाओं (maxillary stylets) के समीपस्थ छोरों पर स्थित ग्रन्थिल ऊतक विशेष ।

retractile—(L. *retractus*, withdrawn) संकुचनशील; संकुचक; आकुंचनशील; सिकुड़ने वाला; ऐसा अंग जो अन्दर की ओर खींचा जा सके ।

retractor—(L. *retrahere*, to draw back) रिट-

रेक्टर; प्रत्यागामी; आकुंचक; निवर्तक; संकुचन पेशी अंग या आकृति को भीतर की ओर खींचने वाली मांस पेशी ।

retrobulbar—(L. *retro*, backwards; *bulbus* ball) अक्षिगोलक पश्च ।

retrocaecal—(L. *retro*, backwards; *caecus*, blind) अन्ध-नलिका पश्च; सीकम पश्च ।

retrofract—(L. *retro*, backwards; *fractus*, broken) अधोकोणत ।

retrogression—(L. *retro*, backwards; *gradus*, step) अपकर्षता; अधोगमन; प्रतीप-गमन; विपरीतगमन गति; प्रतिक्रमण ।

retrogressive—(L. *retro*, backwards; *gradus*, step) अधोगामी; प्रतिक्रमणी ।

retrogressive evolution—अधोविकास ।

retrolingual—(L. *retro*, backwards; *lingua*, tongue) जिह्वा पश्च; अधोजिह्वा ।

retromorphosis—(L. *retro*, backwards; Gk. *morphe*, form) अधोनिर्माण; अपकर्ष निर्माण; विपरीत वर्धन (परिवर्धन) ।

retroperitoneal—(L. *retro*, backwards; Gk. *peri*, round; *teinein*, to stretch) पशुदर्या पश्च; उदरास्तर पश्च; उदरास्तर के पीछे; उदरास्तर और मेरुदण्ड के बीच की दूरी ।

retropharyngeal—(L. *retro*, backwards; Gk. *pharynx*, pharynx) अधोकण्ठीय ।

retropubic—(L. *retro*, backwards; *pubes*, mature) श्रोणि पश्च; प्यूविक पश्च; प्यूविक समवाय (symphysis) के पीछे स्थित वसा ऊतक का एक पुंज (गद्दा) ।

retrose—(L. *retro*, backwards; *vertere*, to turn) परानत; अधोनत; पश्चमुखी ।

retroserrate—(L. *retro*, backwards; *serra*, saw) पश्च दन्तुरिक; पश्चदंती ।

retroserrulate—(L. *retro*, backwards; *serrula*, small saw) लघु-परानतदंती ।

retrouterine—(L. *retro*, backwards; *uterus*, womb) गर्भाशय पृष्ठक ।

retroverse

retroverse—(L. *retro*, *versus*, turned backwards) पश्चनती; परानत ।

retroversion—(L. *retro*, backwards; *vertere*, to turn) प्रत्यावर्तन; पुनरावर्तन ।

retuse—(L. *retusus*, blunted) भंग अधिकोणक; (पत्ती या कवच) इसमें अग्रक चौड़ा तथा मध्य में चौड़ी उथली भंग लिये होता है ।

revehent—(L. *renehens*, carrying back) प्रत्यागमी, वृक्क निवाहिका तंत्र में वे रक्त नलिकाएँ जो उत्सर्जन अंगों से रक्त को वापिस ले जाती हैं ।

reversed—(L. *reversus*, turned back) व्यस्तक ।

reversion—(L. *re*, back; *vertere*, to turn) विपर्ययण; प्रत्यावृत्ति; पैतृक-पुनरावृत्ति; पुनरुद्भव; प्रत्यावर्तन ।

reversionary—(L. *reversio*, turning back) पैतृक-वर्तनीय ।

revert—(L. *re*, back; *vertere*, to turn) पैतृक-पुनरावृत्तिक ।

rhabdite—(Gk. *rhabdos*, rod) शलका (१) शलका कार पिण्डक । (२) मैथुन प्रवर्धन (gonapophysis) । (३) यष्टिका ।

rhabditiform—(Gk. *rhabdos*, rod; L. *forma*, shape) शलोपम; रेवडीटीफॉर्म; यष्टिका रूप; सूत्र कृमियों (round worms) का अर्भक या लार्वा विशेष ।

rhabditis—(Gk. *rhabdos*, rod) रेवडीटिस; रेवडाइ-टिस; शलिस; सूत्र कृमियों (round worm) का अर्भक या लार्वा ।

rhabdocrepid—(Gk. *rhabdos*, rod; *krepis*, foundation) रेवडोक्रेपिड; एक अक्षीय दीर्घ दृढ़ा पर संस्थापित स्पंज स्फीक्यूल ।

rhabdoid—(Gk. *rhabdos*, rod; *eidos*, form) शलो-पम; शलकाकार ।

rhabdolith—(Gk. *rhabdos*, rod; *lithos*, stone) खरिक्शल; कुछ एककोशिकीय (protozoa) में पाई जाने वाली खरिक् मय शल जिससे उसकी दीवारें मजबूत; रहती हैं ।

rhabdome—(Gk. *rhabdos*, rod) यष्टिका; शलखण्डों से निर्मित परावर्तिनी शलका (यष्टिका) ।

rhabdomere—(Gk. *rhabdos*, rod; *meros*, part) शलखण्ड; रेवडोमियर; रेटीना (retina) का परावर्ती (refracting) तत्व ।

rhabdopod—(Gk. *rhabdos*, rod; *pous*, foot) शलालिगक; यष्टिपाद; नर पटपादों या कीटों (insects) के आलिगक अंग (clasper) का एक टूक (भाग) ।

rhabdosphere—(Gk. *rhabdos*, rod; *sphaira*, globe) खरिक्शल पुंज ।

rhabdus—(Gk. *rhabdos*, rod) शलकूट ।

rhachis—(Gk. *rhachis*, spine) । [देखिये—*rachis*]

Rhaetic—(L. *Rhaetia*, Grisons and Tirol) रहीं-टिक; रेटिक (जीवाश्म) ।

rhagon—(Gk. *rhax*, berry) रेगोन (जन्तु विशेष) ।

rhamphoid—(Gk. *rhamphos*, beak; *eidos*, form) चंचोपम; चंचुकाकार ।

rhamphotheca—(Gk. *rhamphos*, beak; *theka*, case) रेम्फोथीका; चंचुच्छद, पक्षियों के चोंच के ऊपर का दृढ़ आवरण ।

rheobase—(Gk. *rhein*, to flow; *basis*, ground) न्यूनतम विद्युत उत्तेजना; अलिपण्ठा विद्युत प्रेरणा; अलिष्ठ घारा ।

rheo-receptors—(Gk. *rhein*, to flow; L. *recipere*, to receive) घारा-ज्ञापक; विद्युत-ज्ञापक ।

rheotaxis—(Gk. *rhein*, to flow; *taxix*, arrangement) घारा-न्यास; विद्युत-न्यास ।

rheotropic—(Gk. *rhein*, to flow; *trophe*, turn) विद्युतवेदी; विद्युत उत्तेजीय; बिजली या विद्युत उत्तेजना (stimulus) का प्रति उत्तर (response) करने वाला ।

rheotropism—(Gk. *rhein*, to flow; *trophe*, turn) घारावृत्ति; घारावेदना; घनात्मक (positive) या ऋणात्मक (negative) जल, वायु या घारा (water or air current) का प्रभाव ।

rhesus factor—आर एच कारक (Rh factor); रीसस कारक; मानव और रीसस कपी के रुविर में पाया जाने वाला प्रतिजन (antigen); उन व्यक्तियों में जिनमें यह कारक नहीं होता है rh प्रतिरोधी (antibody) से समूह नित (agglutinalid) करता है और मैन्डल प्रभावी Mendelian dominant) लक्षण की तरह वंशानुगत होता है ।

rhexis—(Gk. *rhexis*, a breaking) क्रोमोसोम या परम्परा सूत्र खण्डन ।

rhinal—(Gk. *rhis*, nose) नासकीय; घ्राण-; नासा-; नासा सम्बन्धी ।

rhinal fissure—घ्राण दरार ।

rhinarium—(Gk. *rhis*, nose) नासा क्षेत्र ।

rhinencephalon—(Gk. *rhis*, nose; *engkephalos*, घ्राण-मस्तिष्क; मस्तिष्क का घ्राण दल (lobe) ।

rhinion—(Gk. *rhis*, nose) नासा सर्म्पकांग : वह विन्दु स्थल जहाँ नासा-नलिकाएँ मिलती हैं ।

rhinocoel—(Gk. *rhis*, nose; *koilos*, hollow) घ्राण कुहर; राइनोसील ।

rhinopharynx—(Gk. *rhis*; nose; *pharyngx*, pharynx) छिन्न-कण्ठ ।

[देखिये—nasopharynx अनुवन्ध कण्ठ]

rhinophore—(Gk. *rhis*, nose; *pherein*, to bear) घ्राण प्रक्षेप; घ्राणघर । किन्हीं मौलस्का (mollusca) में श्वाँस के पीछे की ओर पाया जाने वाला प्रक्षेप या प्रवर्धन (process) जिसका कि कार्य घ्राण सम्बन्धी माना जाता है ।

rhinocerus, rhinoceros—(Gk. *rhis*, nose; *keras*, a horn) गैंडा ।

rhinotheca—(Gk. *rhis*, nose; *theke*, case) चंचु-आवरण; जम्भावरक ।

rhipidate—(Gk. *rhipis*, fan) बीजनोपम; तालपत्रोपम पंखेनुमा ।

rhipidium—(Gk. *rhipis*, fan; *idion*; dim) बीजनोपम; जन्तु-मुकुलों (zooids) का बीजनोपम संघ ।

rhipidostichous—(Gk. *rhipis*, fan; *stichos*, row) बीजनाकार फिन ।

rhizanthous—(Gk. *rhiza*, root; *anthos*, flower) मूलजपुष्पी; जड़ का अना और उससे सीधा फूल (पुष्प) का निकलना ।

rhizautoicous—(Gk. *rhiza*, root; *auks*, self; *oikos*, house) पुंस्त्रीघानी संहती ।

rhizine—(Gk. *rhiza*, root) मूलाभास; मूलोपम; मूलाभ ।

rhizocaline—(Gk. *rhiza*, root; *kalein*, to summon) राइजोकैलिन; मूलोत्पादी; मूलवर्धक । कुछ पौधों

के पराग और पत्तियों में तथा जन्तुओं के मूत्र में उपस्थित पदार्थ जो मूलोत्पत्ति को वृद्धि प्रदान करता है ।

rhizocarp—(Gk. *rhiza*, root; *korpos*, fruit) राइजोकार्प; वारहमासी शाक ।

rhizocarpous—(Gk. *rhiza*, root; *karpos*, fruit) राइजोकार्पस; वारहमासी जड़ और वर्षीय स्तम्भ युक्त ।

rhizocaul—(Gk. *rhiza*, root; L. *caulis*, stem) प्रमूल काण्ड ।

rhizocorm—(Gk. *rhiza*, root; *kormos*, log) घनकंद या कार्म; उदाहरण जिमीकंद, केसर, वण्डा या घुइयाँ आदि ।

rhizogonic, rhizogenous—(Gk. *rhiza*, root; *genos*; descent) मूलज; मूलजनक ।

rhizoid—(Gk. *rhiza*, root; *eidos*, form) मूलाभास; राइजवाएड; (१) थैलस की जड़ सदृश अभिवृद्धियाँ जैसे माँस, लिवरवटर्स, फर्न, एल्गी आदि में ।

(२) प्रोथैलस के अघरस्थ तल पर नीचे की ओर निकलते हुए एक कोशिकीय रोम ।

rhizomatous—(Gk. *rhizoma*, root) प्रकंदी; मूलाभास; मूल सदृश; मूलोपम ।

rhizome—(Gk. *rhizoma*, root) राइजोम; प्रकंद; मोटा स्तम्भ जो आंशिक रूप से भूमि पर तथा आंशिक रूप से भूमि के अन्दर रहता है और जिससे प्रारोह ऊपर की ओर तथा जड़ नीचे की ओर निकलती हैं ।

rhizomorph—(Gk. *rhiza*, root; *morphe*, form) तन्तु-जटा; किन्हीं फन्जाई में हाइफा (कवक तंतु) के जड़ समान मोटे-मोटे सूत्र (जटायें) ।

rhizomorphous—(Gk. *rhiza*, root; *morphe*, form) जड़समान; तन्तु जटा सदृश; जड़ सदृश ।

rhizodermis—मूलीय त्वचा; मूल त्वचा ।

rhizophagons—(Gk. *rhiza*, root; *phagein*, to eat) जड़भोजी; मूलाहारी ।

rhizophore—(Gk. *rhiza*, root; *pherein*, to bear) राइजोफोर; एक नग्न शाखा जो भूमिगत बढ़कर शिखर पर जड़ निकालती है ।

rhizophorous—(Gk. *rhiza*, root; *pherein*, to bear) मूलधारक ।

rhizoplasts—(Gk. *rhiza*, root; *plastos*, moulded) राइजोप्लास्ट; कृपाभियों (Flagellata) में अनुमूलक (पैरा-

ब्लास्ट) या अघोषिण्ड (blepharoblast) और न्यूक्लियस (nucleus) को जोड़ने वाले तन्तु (fibrillae) ।

(२) अक्ष सूत्र (axonemes) का अन्तःकोशिका द्रव्य (intracytoplasmic) भाग ।

rhizopodium—(Gk *rhiza*, root; *pous*, foot) सूत्र-क्षणिक पाद; जटा पाद ।

rhizosphere—(Gk. *rhiza*, root; *sphaira*, ball) मूल मण्डल; पौधे की जड़ को घेरे हुए मिट्टी ।

rhizotaxis—(Gk. *rhiza*, root; *taxis*, arrangement) मूल विन्यास; जड़ विन्यास ।

rhodophane—(Gk. *rhodon*, rose; *phainein*, to appear) लालक्रोमोफेन ।

rhodophore—(Gk. *rhodon*, rose; *phainein*, to appear) रोडोफोर; क्रोमोफोर; पक्षी (birds) सर्पक (reptiles) तथा मत्स्यों (fishes) आदि के रेटिना (retina) में पाया जाने वाला लालतैल्य गोलिका (oil globule) ।

rhodophyll—(Gk. *rhodon*, rose; *phyllon*, leaf) लालवर्णक; लाल शैवाल (एल्गी) का लाल वर्णक ।

rhodopsin—(Gk. *rhodon*, rose; *opsis*, sight) लाल-पीत वर्ण; रोडोप्सिन; दृष्टि-पीत; दृष्टिपटल शलाकाओं (retinal rods) का अस्थायी लाल-पीत वर्ण ।

rhodoxanthin—(Gk. *rhodon*, rose; *xanthous*, yellow) रोडोजेन्थिन; कैरोटिनॉयड वर्ण; $C_{40}H_{50}O_8$ ।

rhombencephalon—(Gk. *rhombos*, wheel; *engkephalos*, brain) पश्च मस्तिष्क; तृतीय आद्य कोशिका ।

rhombic—(Gk. *rhombos*, wheel) समचतुर्भुजी; विषमलंबाक्ष; मस्तिष्क के समचतुर्भुजाकार खात (fossa) पर ओष्ठ (lip) और खाँचें (grooves) ।

rhombogen—(Gk. *rhombos*, wheel; *genos*, offspring) चक्रज; मीसोजोआ (mesozoa) के जीवनवृत्त की पैतृकावस्था की एक स्थिति, जिससे इन्फूजोरोफोर्म (इन्फूजोसीमाकार) भ्रूण या नर उत्पन्न होता है ।

rhomboid—(Gk. *rhombos*, wheel; *eidōs*, form) समचतुर्भुजाकार; समान्तर असम चतुर्भुज ।

rhomboideus, major and minor—रोम्बोइडियस, दीर्घ और लघु (पेशी); स्कैपुला (स्कन्दास्थि) और

थोरेसिक कलेरूक (वक्ष कशेरू) को जोड़ने वाली एक समान्तर पेशी ।

rhomboid-ovate—रोम्बाइड और ओवल (अण्डाकार) स्वरूप वाली ।

rhopalium—(Gk. *rhopalon*, club) रोपेलियम; गदोपम; डिस्कोमेडूसी (discomedusae) के तट पर स्थित गदोपम (club-shaped) वेदनांग (sense organs) ।

rhynchocoel—(Gk. *rhynchos*, snout; *koilos*, hollow) प्रोथोत्सर्गक; शुण्डगुहा; निमटिया (nemertea) का वह कोटर जो सिकुड़ कर प्रोथ (porboscis) को बाहर की ओर निकाल देता है ।

rhynchodaeum—(Gk. *rhynghos*, snout; *hodayos*, pert, away) रिन्कोडियम; चुंडमार्ग, निमटिया (nemertine) का पूर्व प्रमस्तिष्कीय क्षेत्र ।

rhynchodont—(Gk. *rhynchos*, snout; *odous*, tooth) छिन्न-चंचुक ।

rhynchoporous—(Gk. *rhynghos*, beak; *pherein*, to bear) चंचुक ।

rhynchostome—(Gk. *rhynghos*, snout; *stoma*, mouth) प्रोथद्वार; धूधन-मुख ।

rhythm—(Gk. *rhythmos*, measured motion) लय; ताल ।

rhythmical—(Gk. *rhythmos*, measured motion) ताल वद्ध ।

rib—(A. S. *ribb*, rib) पशूका; पसली; शिरा ।

rib, false or floating—स्वतन्त्र या मिथ्या पसली ।

Ribaga's organ—रिवागा अंग; रिवागा मार्ग; वल्लेसी अंग (साइमेक्स (cymex) में पाया जाने वाला) को जाती हुई विवृति (opening) या मार्ग ।

reboflavin—(L. *ribes*, corrent; *flavus*, yellow) रिबोफ्लैविन; विटामिन बी₂ या वृद्धिकारक जी (G); ऑक्सीकरण प्रक्रिया के हेतु परम आवश्यक; लेक्टोफ्लैविन, $C_{17}H_{20}O_6N_4$ ।

rectal—(L. *riktus*, mouth aperture) बाँक; जूम्भ; पक्षियों के मुँह की बाँक (mouth gape) या मुँह का खुला भाग ।

ridge—(A. S. *hrycg*, ridge) मेड़; मुँडेर; कटक ।

rigor—(L. *rigor*, stiffness) काठिन्य; अशैथिल्य; निष्ठुरता ।

rigor mortis

rigor mortis—मृत्युपश्च दृढ़ता; मृत्युज काठिन्य; मृत्यु-परांत परिवर्तन; मृत्यु होने के पश्चात् मायोसीन (myosin) के कारण शरीर का कड़ा होना ।

rima—(L. *rime*; cleft) दीर्ण; विदर; दरार ।

rimate—(L. *rima*, cleft) विदरज ।

rimiform—(L. *rima*, cleft; *forma*, shape) दिदरा-कार; दीर्णाकार ।

rimose—(L. *rima*, cleft) बहु दीर्णज ।

rimulose—(L. *rimula*, small cleft) लघुदीर्णा ।

rind—(A. S. *rinde*, bark) बाह्यपर्त; छिलका ।

ring canal—मुद्रा नलिका; वलय नाल; हाइड्रोजोया वंशज प्राणियों में गोलाकार नलिका जो तट के समान्तर पाई जाती है ।

ring cell—वलय कोशिका; फर्न की बीजाणुधानी वलय, की एक मोटी भित्ति वाली कोशिका ।

ring gland—वलय ग्रन्थि; डिप्टेरा (Diptera) में काया-स्तरण हार्मोन उत्पादी ग्रन्थियाँ जिन्हें बीजमैत्र ग्रन्थि (Weismann's gland) भी कहा जाता है । यह ग्रन्थि आयोटा (aorta) के इर्द-गिर्द होती हैं ।

ring vessel—परिधि नलिका; वलय वाहिनी; वलय-वाहिका ।

ringent—(L. *ringi*, to open mouth) ओष्ठीय (दल या कपाट) ।

riparian—(L. *ripa*, river bank) नद तटवासी ।

risorius—(L. *risus*, laughter) रिसोरियस; कपोल मांस पेशी ।

rivinian—(A. Q. *Rivinus*, German anatomist) रेवीनियन; (१) अघः जिह्वा ग्रन्थि व नलिकाओं सम्बन्धी । (२) आनन कला को घेरे हुए अस्थि वलय पर का एक दतुर (notch) ।

rivose—(L. *rivus*, stream) सीता या खात युक्त ।

rivulose—(L. *rivulus*, rivulet) संकीर्ण रेखित ।

rod epithelium—रेखित कोशिकाओं का बना अघि-च्छद (एपीथीलियम) ।

rod fibre—रेटीना शलाका से सम्बन्धित सूत्र ।

rod fructification—शलाका स्फीती ।

rod granule—शलाका सूत्र का न्यूक्लियस (केन्द्रक) ।

rodent—(L. *rodere*, to gnaw) रोडेन्ट; कृन्तक प्राणी; कुतरने वाले जन्तु जैसे चूहा, गिलहरी, खरगोश आदि ।

roding—पक्षियों का क्षेत्र रक्षणार्थ पलायन (flight) ।

rods and cones—रोड और कोन; शलाका तथा शंकु; दण्ड और शंकु; रेटीना के कोष्ठ या कोशिकायें ।

rolandic—(L. *Rolando*, Italian anatomist) रोलैंडिक (दरार) ! प्रमस्तिष्क गोलार्ध (cerebral hemisphere) का दरार या केन्द्रीय सीता ।

root—(A. S. *wyrt*, root) जड़; मूल !

root borer—मूल वेधक ।

root cap—मूल छत्र; मूल गोप ;

root cell—मूलकोशिका; एल्गा का वर्णहीन आघार ।

root climber—घारोही जड़ें; मूल रोहिणी ।

root hairs—मूल रोम ।

root nodules—मूल ग्रन्थिकायें ।

root parasite—मूल परजीवी ।

root parasitism—मूल परजीविता ।

root pocket—मूल पिधान ।

root pressure—मूल-दाव; मूलीय दाव; वह दाव जिसके कारण पानी पौधों की अक्षीय रंभ में बढ़ता है ।

root process—मूल-प्रवर्ध ।

root sheath—मूलांकुर चोल ।

root stalk—राइजोम; प्रकंद ।

root tubercles—मूल गंड; मूलगुलिकायें ।

rootlet—मूल प्रशाखा; मूलिका ।

root of tongue—जिह्वा मूल ।

root of tooth—दन्त मूल ।

rosaceous—(L. *rosa*, rose) गुलाब सदृश; पाँच दलों का गोलाकार विन्यास ।

rosellate—(L. *rosa*, rose) पुष्पाकार ।

Rosenmuller's organ—(J. C. *Rosenmuller*, German anatomist)—रोजनमुलर-अंग; एपूफोरोन (अवशिष्ट अंग) भ्रूण के वुल्फियन पिण्ड के अवशेष—उपांड (epididymis) का समजात (homologous) ।

rosette—(F. *from*; L. *rosa*, rose) रोजेट; स्तव; पुष्पाकार पुंज; बोरोन (boron) या जस्त (zinc) की न्यूनता से उत्पन्न एक पादप रोग ।

rostell—(L. *rostellum*, dim; of rostrum, beak) धूयन; धूथड़ी ।

rostellar—(L. *rostellum*, small beak) धूथनीय; धूथड़ी सम्बन्धी; तुण्डक ।

- rostellate**—(L. *rostellum*, small beak) तुण्डकी ।
- rostellum**—(L. *rostellum*, small beak) रोजटिलम; तुण्डक; मांस पट्ट; पट्टकमियों (tape worm) में गद्दीनुमा मांस पट्ट जिस पर हुक लगे रहते हैं ।
- rostral**—(L. *rostrum*, beak) शूथनीय; चंचुक; चंचु सम्बन्धी; तुण्डीय ।
- rostrate**—(L. *rostrum*, beak) चंचुक; तुण्डी ।
- rostriform**—(L. *rostrum*, beak; *forma*, shape) चंचुकोपम ।
- rostrulate**—(L. *L. rostrulum*, small beak) लघु चंचुकोपम ।
- rostrulum**—(L. *rostrulum*, small beak) लघु चंचुक ।
- rostrum**—(L. *rostrum*, beak) रोस्ट्रम; चूंड; चंचुकार प्रवर्धन या चंचु (१) क्रेफिश के चक्षुओं के मध्य का निकला हुआ प्रवर्धन । (२) सिरीपीडिया में उपांड (capitulum) के आघार पर स्थित मध्य अधरीय पट्ट (mid ventral plate) । (३) गिरीगैराइन का अग्र भाग जो एपीमेराइट (epimerite) बनता है । (४) अग्रघ्राण क्षेत्र (५) वेसीस्फीनाइड का अग्र संलग्न भाग ।
- rosular, rosulate**—(L. *rosa*, rose) पुष्प विन्यासी ।
- rot**—(A. S. *rotian*, to rot) सड़ना; गलना; विगलन ।
- rotate**—(L. *rota*, wheel) घूर्ण; भ्रमक ।
- rotator**—(L. *rota*, wheel) घूर्णनक; भ्रमणक (चक्रकार मांस पेशी) ।
- rotiform**—(L. *rota*, wheel; *forma*, shape) भ्रमकोपम; भ्रमकाकार ।
- rotula**—(L. *rotula*, small wheel) रोटूला; रोटयुला; चपनी ।
- rotular**—(L. *rotula*, small wheel) लघुचक्रोपम; छोटे पहिये की शकल का ।
- rotuliform**—(L. *rotula*, small wheel; *forma*, shape) चक्रीकार ।
- rotundifolious**—(L. *rotundus*, round; *folium*, leaf), दलुलपर्णी ।
- rouget cells**—(A. D. *mouget*, french physiologist) रोगेट कोशिकायें, रूजे कोशिकायें ।

- rouleaux**—(F. *ronleau*, roll) रोल्यु; पुङ्क; सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक लगे हुए जैसे रक्त कण ।
- rubiginose, rubiginous**—(L. *rubigo*, rust) जंगवर्णी; भूरा-लाल वर्णक; मोरचे (जंग) के रंग का ।
- rubrospinal**—(L. *ruber*, red; *spina*, spine) रूवरोस्पाइनल; सुषुम्ना में लाल केन्द्रक के अक्ष सूत्रों का तंत्रिका पुंज ।
- ruderal**—(L. *rudus*, debris) कूड़ावासी ।
- rudiment**—शेषांश ।
- rudimentary**—(L. *rudimentum*, first attempt) अर्धविकसित; अपूर्ण विकसित; अल्प विकसित ।
- rudimentary organ**—अर्ध विकसित अंग ।
- ruff**—(A. S. *reafah*, to reave) लोमांचल । गर्दन पर लोम अथवा पंखों की झालड ।
- Ruffini's organ**—(A. *Ruffini*, Italian anatomist) रूफिनी-अंग; उँगलियों के अघोत्वकीय ऊतकों में तंत्रिका तंत्रों की संमिश्र शाखाओं को लिये हुए अन्त्य पिण्ड (end bulbs) ।
- rufinism**—(L. *rufus*, reddish) लाल वर्णता ।
- ruga**—(L. *ruga*, wrinkle) रूगा; सिलवट; बलिस; बलि ।
- rugate, rugose, rugous**—(L. *rugare*, to wrinkle) बलिभीय; सिलवटी ।
- rugulose**—(L. *ruga*, wrinkle) सूक्ष्म बलिभीय ।
- rumen**—(L. *rumen*, throat) रूमेन; पिचिंड; रोमैथ-शील (ruminants) के आमाशय का पहला भाग ।
- ruminant**—(L. *rumen*, throat) रोमन्थ शील (जन्तु); रोमन्थी; रूमिनेट ।
- ruminare**—(L. *ruminare*; to chew the end) रूमिनेट; जुगाली करना; चबिताभ ।
- ruminatio**—(L. *ruminatio*, chewing of cud) रोमन्थन; चबिताभन; निदिध्यासन ।
- runcinate**—(L. *runcina*, plane) अघरनती; पिच्छकी पर्ण (pinnatifid leaf) जिसके विभाजन आधार की ओर झुके हों—जैसे डेन्डेलियन (dandelion) ।
- runner**—(A. S. *rinnan*, to run) विसर्पी या रेंगने वाले तने; इन तनों की पर्व सन्धियों या नोड्स पद जड़ें निकलती

हैं और कक्ष कलिकायें नये वायवी पौधों को जन्म देती हैं ।

rupestrine, rupicolime, rupicolous—(L. *rupes*, rock; *colere*, inhabit) चट्टानवासी; शैलवासी ।

ruptile—(L. *rumpere*, to break) अनियत स्फूटी ।

rust—(A. S. *rust*, redness) जंक; मोरचा; जंग-फिट्ट-घासों का एक रोग ।

rut—(M. E. *ruiten*, to rut) मद; मदकाल; ऋतु; पुंमद ।

S

Sabuline—(L. *sabulum*, sand) मरुत; रेतीला; बालुक; बालुकोद्भव; बालु या रेत में उगने या बढ़ने वाला ।

sac—(L. *saccus*, sack) कोश; थैली; तरल या द्रव कोश; गोमी ।

saccate—(L. *saccus*, sack) कोशीय; सपुट; थैली युक्त ।

saccharose—(Gk. *sakchar*, suger) सैकरोज; शर्कराघु, गन्ने की चीनी; शर्करा ।

sacciferous—(Gk. *saccus*, sack; *ferre*, to bear) कोषधारी; कोषिक ।

sacciform—(L. *saccus*, sack; *forma*, shape) कोषोपम; कोषाकार; कोष रूप ।

sacculate—(L. *sacculus*, small bag) कोषिकामय ।

sacculus—(L. *sacculus*, small bag) (१) सेकूलस; कर्णाघो-कोषिका (२) कोषिका (३) अणुकोश (४) गोलिका, गोणिका ।

sacculus rotundus—गोलान्त कोषिका ।

saccus—(L. *saccus*, sack) सेकस; थैली; कोष ।

sacral—(L. *sacer*, sacred) सैकल; त्रिकी; त्रिक सम्बन्धी; सेकमी ।

sacral index—त्रिकसूत्र; त्रिकास्थि के अग्र भाग की लम्बाई को आधार पर की १०० गुना चौड़ाई से भाग देने पर जो अङ्क आता है, वह त्रिकास्थि की इकाई कहलाती है ।

sacral ribs—सैकल-पुर्शक ।

sacrocaudal—(L. *sacer*, sacred; *cauda*, tail) त्रिक-पुच्छी; सैकम पुच्छी ।

sacrococcygeal—(L. *sacer*, sacred; Gk. *cokkyx*, cuckoo) त्रिक-कॉक्सोजियल; सैकरो-कॉक्सोजियल; सैकम-पुच्छास्थिक (पेशा) ।

sacro-lumbar—(L. *sacer*, sacred; *lumbus*, loin) सैकरो-लम्बर; त्रिक-कटि ।

sacrospinal—(L. *sacer*, sacred; *spina*, spine) सैकरो-स्पाइनल; त्रिक-सुपुम्नीय; त्रिकमेरु ।

sacrovertebral—(L. *sacer*, sacred; *vertebra*, joint) सैकरो-कशेरुक; सेकम कशेरुक ।

sacrum—(L. *sacre*, sacred) सैकम; त्रिकास्थि; वस्ति कशेरुक; वह कशेरुक जिनसे श्रोणि-बलय (pelvic girdle) जुड़ी रहती है ।

sagitta—(L. *sagitta*, arrow) सेजीटा; आयती; शराशमक; सैजिटा; बाणाकार (१) बाणाकार कृमि विशेष (२) अस्थि-मत्स्य (teleosts) के कर्णाघो कोषिका (sacculus) के आयत कण ।

sagittae—(L. *sagitta*, arrow) बाणिक; सेजिटी; हाई-मेनोप्टेरा (hymenoptera) में आन्तरिक जननेन्द्रिय कपाट (genital valve) ।

sagittal—(L. *sagitta*, arrow) सममिताधी; अग्रपदच-काट, मध्य समांतर तल; लड़ी लम्बकाट (कर्तन) ।

sagittocyst—(L. *sagitta*, arrow) बाण-स्योति शरपुरी; तर्कुपुटी ।

sagittate—(L. *sagitta*, arrow; Gk. *kystis*, bladder) सेजीटेड; बाणाकार; बाणसिरोपम; तीर की नोक के सदृश आकृति ।

saliva

saliva—(L. *saliva*, spittle) थूक, राल; लाला लुग्रावः लार; मुँह के अन्दर स्थित राल ग्रन्थियों (salivary glands) से निकला हुआ श्राव (secretion) जिसमें टाइलिन (ptyalin) नामक क्षोभक रस होता है और जो माढ़ी (starch) को शक्कर (sugar) में बदल देता है।

salivary—(L. *saliva*, spittle) राल—; राल सम्बन्धी; लार—।

salivary gland—लालाग्रन्थि; राल ग्रन्थि।

salivation—(L. *saliva*, spittle) लार का मुँह में बहना।

salmon—समान; मत्स्य विशेष।

salpingian—(Gk. *salpingx*, trumpet) तूर्यन; कर्ण या फेलोपियन नलिका सम्बन्धी।

salpingopalatine—कर्ण नली और तालु सम्बन्धी।

salpinx—(Gk. *saipingx*, trumpet) तूर्य; मँलिपंकस; (१) कर्ण नली। (२) फेलोपियन नलिका।

salsuginous—(L. *salsngo*, saltness) क्षारमृत्तिको-त्त्व, लवण, युक्त मिट्टी में उगने वाले।

saltation—देखिये mutation—उत्परिवर्तन।

saltatorial—(L. *saltare*, to leap) प्लवगी; वल्गी; कूदने के लिये व्यवस्थित; कूदने वाले कीटों की टाँगें।

saltigrade—(L. *saltare*, to leap) प्लवग; वल्गेचारी; कूदकर चलने वाले जन्तु जैसे कुछ कीट।

samara—(L. *samara*, seed of elm) समारा; सपक्ष फल; यह द्विवीजीफल होते हैं, फलभित्ति फैलकर दो पक्ष (wings) बनाती है। उदाहरण—मधुलता, चिल विल (indian elm), पुतली (maple), एसर (acer) आदि।

samaroid—(L. *samara*, seed of elm; Gk. *eidōs*, form) समारा समान; सपक्षफल सदृश।

sanguicolous—(L. *sanguis*, blood; *colere*, to inhabit) रक्तवासी, रघिर वासी।

sanguiferous—(L. *sanguis*, blood; *ferre*, to early) रक्तवाहिनी।

sanguivorous—(L. *sanguis*, blood; *vorare*, to devour) रक्ताहारी; रघिर भोजी; रघिराहारी।

sanidaster—(Gk. *sanidion*, panel; *aster*, star) अंतराल कंटकी; स्थेयकंटकी; दंडतारक; सैनिडैस्टर।

santorini's cartilage—G. D. *santorini*, italian anatomist) सेन्टोरिन-उपास्थि; शृङ्गोपास्थि। नाद कोष को बनाने वाली एक उपास्थि।

santerini duct—सेन्टोरिन नलिका; सहायी क्लोम नलिका।

saphena—(Gk. *saphenes*, clear) सफीन; टाँग की एक उत्कृष्ट शिरा।

saphenous—(Gk. *saphenes*, clear) सफीनस; (१) आन्तरिक या बाह्य सफीना सम्बन्धी; (२) फेमोरल (femoral) की एक शाखा।

sapro—उपसर्ग जिसका अर्थ "गलना या सड़ना" है।

saprobic—(Gk. *sapros*, rotten; *bios*, life) गलितो पजीवन; पूर्ति जीवता; मृत जीवता।

saprobiont—(Gk. *sapros*, rotten; *bion*, living) गलितोप जीव।

saprogenic—(Gk. *sapros*, rotten; *genes*, producing) गलितजन।

sapropelic—(Gk. *sapros*, rotten; *pelos*, mud) पूर्तिपंकी।

saprophage—(Gk. *sapros*, rotten; *phagein*, to eat) गलिताहारी, मृत भक्षी; पूर्ति भक्षी।

saprophagous—(Gk. *sapros*, rotten; *phagein*, to eat) भूतोपजीवी, मृत भक्षी।

saprophyte—(Gk. *sapros*, rotten; *phyton*, plant) गलितोपवृक्षी; वनस्पति गलितोपजीवी; मृत पादप जीवी।

saproyhytism—(Gk. *sapros*, rotten; *phyton*, plant) गलितोपवृक्ष-वृत्ति।

saprozoic—(Gk. *sapros*, rotten; *zoon*, animal) गलितोपजीवी; जन्तु-गलितोप जीवी; मृत जन्तु जीवी।

saprozoite—(Gk. *sapros*, rotten; *zoon*, animal) गलितोप जीव; मृत भक्षी।

sap-weed—मृदु काण्ड।

sarc—(Gk. *sarx*, flesh) सार्क; सौम्य।

sarcenchyma—(Gk. *sarx*, flesh; *engchyma*, infusion) कणी मृदूतक।

sarcocarp—(Gk. *sarx*, flesh; *karpos*, fruit) मांसल फल भित्ति; फल का गूदे वाला भाग।

sarcocystin—(Gk. *sarx*, flesh; *kystis*, bladder)

सारकोसिस्टिन; एक प्रकार का विष जो सारकोस्पोरोडिया से प्राप्त होता है ।

sarcoocyte-(Gk. *sarx*, flesh; *kytos*, hollow) सौम्य कोशिका; मांसल कोशिका; मांस पेशी कोष्ठ; बाह्य सत्व (ectoplasm) की मध्य तह ।

sarcode-(Gk. *sarx*, flesh) मांसली; प्रदैहिकतत्व; निम्न जन्तुओं या वनस्पतियों का जीवन तत्व ।

sarcoderm-(Gk. *sarx*, flesh; *derma*, skin) मांस त्वक; मांसल पर्त ।

sarcodic-(Gk. *sarx*, flesh) मांसोपम; मांसलोपम; प्रदैहिक तत्व सदृश ।

sarcodictum-(Gk. *sarx*, flesh; *diktyon*, net) द्वितीय प्रदैहिकतत्व क्षेत्र; रेडियोलेरिया (Radiolaria) में द्वितीय या जलीय प्रदैहिक तत्व क्षेत्र ।

sarcogenic-(Gk. *sarx*, flesh; *genes*, producing) मांसोत्पादक; मांसज ।

sarcoid-(Gk. *sarx*, flesh; *eidos*, form) मांसोपम; मांसलवत्; सार्कोइड ।

sarcolemma-(Gk. *sarx*, flesh; *lemma*, skin) मांसलाच्छद; सार्कोलिम्मा; पेशी चोल; सोर्कोलिमा; मांसाच्छद; मांस सूत्रों के ऊपर की पारदर्शक लचीली झिल्ली ।

sarcology-(Gk. *sarx*, flesh; *logos*, discourse) मांस विज्ञान; पेशीविज्ञान ।

sarcolyte-(Gk. *sarx*, flesh; *lyterios*, loosing) पेशी कोशिका; मांसकोशिका ।

sarcoma-(Gk. *sarx*, flesh) शोफ; मांसावृद्ध ।

sarcomatrix-(Gk. *sarx*, flesh; *L. matrix*, womb) चर्तुप्रदैहिक तत्व क्षेत्र (रेडियोलेरिया का) पाचन और समीकरण का स्थल ।

sarcomere-(Gk. *sarx*, flesh; *meros*, part) मांस-खण्ड; पेशीखण्ड; सार्कोमियर; पिशितांश ।

sacrophagous-(Gk. *sarx*, flesh; *phagein*, to eat) मांसाहारी ।

sarcoplasm-(Gk. *sarx*, flesh; *plasma*, mould) मांससत्व; मांसमध्यी प्ररस; सार्कोप्लाज्म; पेशीद्रव्य ।

sarcosoma-(Gk. *sarx*, flesh; *soma*, body) मांस-पिण्ड; सौम्यपिण्ड ।

sarncosperm-(Gk. *sarx*, flesh; *sperma*, seed) मांसगृह; मांसगाँठ ।

sarcostyle-(Gk. *sarx*, flesh; *stylos*, pillar) मांसशलाका; सार्कोस्टाइल; पिशतदंडिका ।

sarcotesta-(Gk. *sarx*, flesh; *L. testa*, shell) सौम्य चोलांश; चोल का मुलायम, मांसल बाह्य भाग ।

sarcotheca-(Gk. *sarx*, flesh; *theke*, box) मांस-पिघान ।

sarcous-(Gk. *sarx*, flesh) मांसीय; पेशीय ।

sarmentaceous-(L. *sarmentum*, twig) विसर्पी; भूमि पर रंगने वाले तने युक्त ।

sarmentum-(L. *sarmentum*, twig) विसर्पी तना; विसर्पी आरोही ।

sardine-सारडाइन; सारडीन; एक प्रकार की मछली ।

sarothrum-(Gk. *sarothron*, broom) सारोश्रम; पराग कूची; भ्रमर मधुमक्खी आदि में पाया जाने वाला बड़ा हुआ रेशेयुक्त गुल्फीय सन्धि जिससे पराग सिम-टता है ।

sartorius-(L. *sartor*, tailor) सारटोरियस; पेशी-विशेष, जानु श्रोणि आकोचनी पेशी ।

satellite-(L. *satelles*, attendant) अनुपंगी; अनु-यायिन, अनुगामी; सैटेलाइट ।

saurian-(Gk. *sauros*, lizard) गोधिका; छिपकली सदृश या सम्बन्धी; सरीसृप-।

saurognathous-(Gk. *sauros*, lizard; *gnathos*, jaw) गोधिका हन्व; गोधिका हनुयुक्त; गोधिका या छिपकली (lizard) के सदृश जबड़े की हड्डियों से युक्त ।

sauroid-(Gk. *sauros*, lizard; *eidos*, form) गोधि-कोपम; गोधिकाकार ।

savanna-(Sp. *sabana*) नवाना (घास के मैदान); उष्ण कटिबन्ध के ऐसे घास के मैदान जिनमें शुष्क वनस्पतियाँ तथा विक्षिप्त (scattered) वृक्ष भी होते हैं ।

saxicavous-L. *saxum*, rock; *cavus*, hollow) शिनावेवक; शैलवेधी ।

saxicoline-(L. *saxum*, rock; *colere*, to inhabit) शिलावासी; शैलवासी ।

scaberulous-(L. *scaber*, rough) अल्पादक; रुद्धी ।

scabrate-(L. *scaber*, rough) रुद्ध; ताम; दृक्

या अन्य इसी प्रकार की आकृतियों से ढके होने के कारण खुरखुरा होना ।

scala—(L. *scala*, ladder) सोपान-नलिका; निश्रेणी; नसैनी; स्केला; कर्ण शंकु (cochlea) की तीन में से कोई सी एक सीढ़ीनुमा नलिका ।

scalariform—(L. *scala*, ladder; *forma*, shape) सोपानोपम; सीढ़ीनुमा ।

scale—(A. S. *seala*, shell, husk) शल्क; बल्कल; खड़पल्ला; प्राणियों के चमड़े के ऊपर की परत ।

scaly—(A. S. *sceala*, shell, husk) शल्की ।

scalene—(Gk. *skalenos*, uneven) स्केलीन; विषम कोणिक पेशी ।

scalp—(M. E. *scalp*) टाँट; मस्तक त्वचा; शिरोवल्क ।

scalpel—स्केलपेल; लछुरिका; अस्त्र चिकित्सक (surgeon) का चाकू (नश्तर) ।

scalpella—(L. *scalpellum*, small knife) स्केलपिला; द्विपक्ष (diptera) पटपादों (insects) के मैक्सिला (maxilla) का एक भाग ।

scalpriform—(L. *scalprum*, chisel; *forma*, shape) रूखानी रूप; रूखानी (छेनी, टाँकी) सदृश ।

scalprum—(L. *scalprum*, chisel) छेदकदन्त तट; छेदक दन्त (कीले) का काटने वाला किनारा ।

scamdent—(L. *scandere*, to climb) आरोही (१) स्तम्भ-मूल या प्रतान से आरोही पौधे; (२) जमीन पर घिसटता हुआ अथवा शाक आदि पर फैला हुआ तना ।

scansorial—(L. *scandere*, to climb) वल्लरी ।

scape—(Gk. *skapos*, stalk) स्केप; प्रवृत्त: ईषा; द्विपक्षियों (diptera) के स्पर्श तन्त्र के दो मूल खण्डों द्वारा निर्मित आकृति; पुष्प दड ।

scapha—(L. *scapha*, boat) उडुप; प्रसीता ।

scaphium—(Gk. *skaphe*, boat) उडुप-प्रवर्द्धन ।

scaphocephalic—(Gk. *skaphe*, boat; *kephale*, head) उडुपसिरी ।

scaphocerite—(Gk. *skaphe*, boat; *keras*, horn) उडु शृङ्ग ।

scaphognathite—(Gk. *skaphe*, boat; *gnathos*, jaw) उडुप-हनु ।

scaphoid—(Gk. *skaphe*, boat; *eidos*, form) ऊडु-पोपम; नौकाकार; नौकारूपी; नौकाभ ।

scapiform—(Gk. *skapos*, stalk; L. *forma*, shape) ईषाकार; ईषोपम; नावाकार ।

scapose—(Gk. *skapos*, stalk) ईषोपम ।

scapula—(L. *scapula*, shoulder blade) स्कैपुला; स्कैप्युला; अंसफलक ।

scapular—(L. *scapula*, shoulder blade) अंसफलकी; अंसफलक—; अंसफलक सम्बन्धी ।

scapus—(L. *scapns*, stem, stalk) ईसा; पंख या बाल का डण्डल; लोमकण्ड; पिच्छकाण्ड ।

scarfskin—A. S. *sceorfa*, scurf) त्वगावरण बाह्य-त्वक् ।

scarious—(F. *scarieux*, membranous) शल्की; भिल्लीनुमा ।

scavengar—अपमार्जक ।

schindylesis—(Gk. *schindylesis*, fissure) विदीर्ण-पच्छड़ी ।

schistocytes—(Gk. *schizein*, to cleave; *kytos*, hollow) विदीर्ण कोशिका विरक्त कोशिका अणुरवताणु; खंडरवताणु; खंडाणु ।

schizocarp—(Gk. *schizein*, to cleave; *karpos*, fruit) भिदुर (दीर्ण) फलपत्र; दो शुष्क बीज पत्र जो सूखने पर या अधिक एक बीजी अण्डपों में अलग-अलग हो जाते हैं ।

schizocarpic—(Gk. *schizein*, to cleave; *karpos* fruit) दीर्णफल; भिदुरफल, यह फल बहुबीजी होते हैं तथा परिपक्व होने पर ये अनेक अस्फोटी टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं—इन टुकड़ों को फलांशक (mericarps) कहते हैं । फलांशक में एक या एक से अधिक बीज होते हैं । फलभित्ति के सड़ने पर ही बीज मुक्त होते हैं ।

उदाहरण : लोमेन्टम; क्रेमोकार्प; कासैरुलस; समारा; रेग्मा ।

schizochroal—(Gk. *schizein*, to cleave; *chros*, body surface) स्फोटकोनिक नेत्र; विदीर्ण कोनिया तथा पृथक ताल युक्त नेत्र ।

schizocoel—(Gk. *schizein*, to cleave; *koilos*, hollow) विदारज ।

schizogamy—(Gk. *schizein*, to cleave; *gamos*, marriage) लिंग स्फोटता; दीर्णयुग्मकता; लिंग भंजनता; मुकुल (zooid) के लिंगी (sexual) और अलिंगी (asexual) कोशिकाओं का पृथक् होना।

schizogenesis—(Gk. *schizein*, to cleave; *genesis*, descent) स्फोटता; भंजनोत्पादनता; खण्डजननता; विखंडनीय-जनन।

schizogenetic—(Gk. *schizein*, to cleave; *genesis*, descent) स्फोटीय।

schizognathous—(Gk. *schizein*, to cleave; *gnathos*, jaw) छिन्न तालु; दीर्णहनु।

schizogony—(Gk. *schizein*, to cleave, *gonos*, offspring) स्फोट-जनन; खण्ड विभंजन; विखंडनी जनन।

schizokinete—(Gk. *schizein*, to cleave; *kinetos*, movable) स्फोट-कृमि; विदीर्ण-कृमि; दीर्णयुग्मज।

schizont—(Gk. *schizein*, to cleave; *onta*, beings) स्फोटी; शाइजेंट; दीर्णक; परजीवी स्पोरोजोआ (sporozoa) के जीवन में भक्षकाणु (trophozoite) के बाद की स्थिति।

schizontoblast—(Gk. *schizein*, to cleave; *onta*, beings; *blastos*, bud) विदीर्णज; दीर्णकोरक।

schizontocyte—(Gk. *schizein*, to cleave; *on*, being; *kytos*, hollow) स्फोट-कोशिका; दीर्णकाणु स्फोटी कोशिका।

schizopelmous—(Gk. *schizein*, to cleave; *pebma*, sole of foot) स्फोटीरज्जुक; विदीर्ण पादतली रज्जुक।

schizophyte—(Gk. *schizein*, to cleave; *phton*, plant) स्फोटी पादप; ऐसे पादप जो पूर्णरूप से भंजन द्वारा ही उत्पादन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट; नीलहरीत शैवाल आदि।

schizopod stage—स्फोटपाद स्थिति; दशपादी कैंकडावंशी (decapod crustacean) के वर्धन में वह वर्धनावस्था जो प्रौढ़ माइसिस (Mysis) से समस्त वक्षावयव में बहिपादांश (exopodite) और अन्तर्पादांश (endopodite) भाग युक्त होने में समानता लिये हुए होती है।

schizorhinal—(Gk. *schizein*, to cleave; *rhis*, nose) विदीर्णनासी; खंडनासीय; ऐसे नासा छिद्रों वाले

जिनके पश्च तट कोणाकार (angular) या दरार (slit-like) सदृश हों। [देखिये holorhinal]

schizostele—(Gk. *schizein*, to cleave; *stela*, post) स्फोटीरंभ; कई रंभ बंधों में से एक बंध जो स्तम्भ के रंभजन (plerome) के विभाजन से बनता है।

schizostely—(Gk. *schizein*, to cleave; *stela*, apost) स्फोटीरंभता; स्तम्भ की वह दशा जिसमें रंभजन (plerome) कई बंधों को जन्म देता है तथा प्रत्येक में एक संवाहन पुल होता है।

schizothecal—(Gk. *schizein*, to cleave; *theke*, case) विदीर्ण पट्टक; खण्डावरक।

schizozoite—(Gk. *schizein*, to cleave; *zoon*, animal) स्फोटाणु; दीर्णजन्तुक; शाहीजोजोइट; ऐसे अंशणु (merozoite) जो स्फोटी (schizont) के प्रत्येक खण्ड से बनते हैं।

schwann's sheath—शान-पिधान; सूत्रच्छद; आद्य पिधान।

sciatic—(Gk. *ischion*, hip-joint) शियाटिक; श्रोणि; श्रोणिक; नितम्ब; नितम्बी।

science—(L. *scientia*, to know) विज्ञान।

scientist—(L. *scientia*, to know) वैज्ञानिक।

scion—(G. *scion*, shoot) प्रारोह या शाखा (कलम लगाने हेतु)।

scissiparity—(L. *scissio*, cleaving; *parere*, to beget) स्फोटता; भंजनोत्पादनता; खण्डता।

scissors—कैंची।

sclera—(Gk. *skleros*, hart) स्क्लीरा; शुक्ला; बहिष्पटल; ध्वेतपटल; कठिनाच्छद; अक्षि गोलक (eyeball) का दृढ़ अपार दर्शक तथा रेशेदार सबसे ऊपर की पर्त (sclerotic-स्क्लीरोटिक)।

scleratogenous layer—प्रकशेरु-स्तर।

sclere—(Gk. *skleros*, hard) दृढ़क; छोटी अस्थिवत् आकृति जैसे छिद्र देहियों (sponges) के स्पीक्यूल या दृढ़ा (spicule)।

sclereid—पापाण-कोशिका; कण-कोशिका।

sclerenchyma—(Gk. *skleros*, hard; *enchyma*, infusion) दृढ़सक; दृढ़ कोपाभित्तिक। पीधों में या अधिक आलम्बन (mechanical support) देने वाला ऊतक

विशेष । इसकी काशिकायें छद्र अवकाशिक (lumen) काष्ठज घनी, अलचीली भित्ति युक्त होती हैं । परिपक्वता पर इनमें जीवित प्रोटोप्लाज़म भी नहीं होता है । ये कोशिकायें दो प्रकार की होती हैं एक फाइबर (रेशे) (fibres) और दूसरी दृढ़ कोशिकायें (stone cells) या स्कलेसिड्स (scleroids) । फाइबर (रेशे) कोशिकायें लम्बी होती हैं और इनसे ही सन (flax) या सनई (hemp) बनती है । दृढ़ कोशिकायें फलों में पाई जाती हैं ।

sclerobase—(Gk. *skleros*, hard; *hasis*, lesse) खरिक अघा (अलसायोनेरिया—*Alcyonaria* में) ।

scleroblast—(Gk. *skleros*, hard; *blastos*, bud) अपरिपक्व कण-कोशिका; दृढ़ोत्पादक कोशिका; कंकजन-कोशिका; छिद्रदेहियों (sponges) की वह कोशिका (cell) जिससे स्पीक्यूल या दृढ़ा (spicule) उत्पन्न होते हैं ।

scleroblastic—(Gk. *skleros*, hard; *blastos*, bud) ककालोत्पादक (तन्तु); कंकजनज ।

sclerocarp—(Gk. *skleros*, hard; *kulrpos*, frint) दृढ़ चोल; सरस फल की अधिकतर अन्तःफलभित्ति (endocarp) ।

sclerocauly—(Gk. *skleros*, hard; *kaulos*, stalk) दृढ़स्तम्भ; स्तम्भ में अधिक अस्थिवत् दृढ़क आकृति ।

sclerocorneal—(Gk. *skleros*, hard; L. *cornea*, cornea) स्कलीरा—कोनिया सम्बन्धी ।

scleroderm—(Gk. *skleros*, hard; *derma*, skin) दृढ़त्वक; दृढ़-चर्म ।

sclerodermatous—(Gk. *skleros*, hard; *derma*, skin) दृढ़ चर्मक ।

sclerodermite—(Gk. *skleros*, hard; *derma*, skin) दृढ़ावरण; सन्धिपादों (arthropoda) के शरीर के एक खण्ड का कठोर बाह्यावरण ।

sclerogen—(Gk. *skleros*, hard; *genos*, offspring) दृढ़ात्मक; काष्ठ-तन्तु ।

sclerogenic, sclerogenous—(Gk. *skleros*, hard; *genes*, producing) काष्ठज; काष्ठ स्रावक ।

scleroid—(Gk. *skleros*, hard, *eidos*, form) काष्ठोपम ।

sclerophyll—(Gk. *skleros*, hard; *phyllon*, leaf) दृढ़पर्णी ।

sclerophyllous—(Gk. *skleros*, hard; *phyllon*, leaf) दृढ़पर्णी; पत्तियों में अधिक दृढ़कोशिका भित्तिक ऊतक होने के कारण सूखे को अधिक वर्दाशत करने वाली पत्तियों वाला ।

sclerophylly—(Gk. *skleros*, hard; *phyllon*, leaf) पर्णदृढ़ता; पत्तियों में अधिक दृढ़क होने की दशा ।

scleroproteins—(Gk. *skleros*, hard; *protos*, first) स्कैलेरोप्रोटीन; एल्ब्युमीनोइड्स; प्रोटीन समूह जो बन्धक, अस्थिक एवं अघिच्छद् ऊतकों से होते हैं जैसे ऑसोन (ossein), कोलाजन (collagen), जिलेटिन (gelatin), क्रोड्रिन (chondrin), इलास्टिन (elastin) और किरेटिन (keratin) आदि ।

scleroseptum—(Gk. *skleros*, hard; L. *septum*, division) दृढ़पट; मैट्रीपोर मूंगों (madrepore cerals) में कैल्शियम कार्बोनेट (calcium carbounate) की बनी एक अरीय खड़ी भित्ति (radial vertical wall) ।

sclerosis—(Gk. *skleros*, hard) कठिनता; दृढ़न; कठोरपन बन्धक तन्तुओं (connective tissues) के आघिक्थ के कारण कठोरपन ।

sclerotol—(Gk. *skleros*, hard) स्कलीरोटिकी ।

sclerotesta—(Gk. *skleros*, hard; L. *testa*, shell) दृढ़ चोलांतर; बीज के चोल का दृढ़ अन्तः स्तर ।

sclerotic—(Gk. *skleros*, hard) स्कलीरोटिक; शुक्ला; दृढ़ीकृत ।

sclerotic ossicles—दृढ़-अस्थिक; पक्षीभ्रों के स्कलीरा (sclera) को घेरे हुए छोटी हड्डियों (अस्थिक) का एक बलय ।

sclerotoid—(Gk. *skleros*, hard; *eidos*, form) दृढ़क सदृश-स्कलीरोटिओइड ।

sclerotium—(Gk. *skleros*, hard) दृढ़न; स्कलीरोशियम; कवकी विश्रामी, सुप्त या शीत अवस्था जबकि वे एक दृढ़ कवक जाल के पुंज बन जाते हैं ।

sclerotome—(Gk. *skleros*, hard; *tome*, cutting) प्रकशेरुक; कशेरुकजनक ।

sclerous—(Gk. *skleros*, hard) दृढ़ी ।

scobinate—(L. *scobina*, file) ब्रह्मनोपम; रेती सदृश तल वाले ।

scolecid—(Gk. *skolex*, worm) मीवा-सिरी; स्कोले-सिड ।

scoleciform—(Gk. *skolex*, worm; L. *forma*, shape) मीवा-सिरोपम ।

scolecite—(Gk. *skolex*, worm) कृमिसम शाखा; डिस्कोमाइसिटीज (Discomycetes) में कवक जाल से निकलने वाली कृमिसम शाखा ।

scolex—(Gk. *skolex*, worm) मीवा-सिर; स्कोलेक्स; मूर्धा; मीवाकृमियों या टेपवर्म (tape-worm) का सिर या अगला भाग ।

scolite—(Gk. *skolex*, worm; *lithos*, stone) स्कोलाइट; कृमिगार; बिल या माँद; कृमि अश्म ।

scolopale—(Gk. *skolos*, stake; *pale*, struggle) स्थाणु विहंगिका; तर्कुसंवेदिका का लोलित केन्द्रीय खूँटी-नुमा भाग ।

scolophore—(Gk. *skolos*, stake; *pherein*, to bear) यष्टि-धारी; तर्कुसंवेदिका; षट्पाद (insects) के श्रवण यन्त्र के चेतनागों को धारण करने वाली आकृति ।

scolopidium—(Gk. *skolops*, stake; *idion*, dim) स्कोलोपीडियम; यष्टिका; तर्कुसंवेदिकाधर ।

scolus—(Gk. *skolos*, thorn) शूल-यष्टि ।

scopa—(L. *scopa*, brush) बर्तिका; आघर्षणी मधुमक्खियों में पराग को समेटने की कूँची सदृश आकृति ।

scopate—(L. *scopa*, brush) बर्तिका ।

scopiform—(L. *scopa*, brush; *forma*, shape) बर्तिकोपम ।

scopula—(L. *scopula*, small brush) लघुवर्तिका; स्कोपुला; थूकगुच्छ ।

scopulate—(L. *scopula*, small brush) लघु-वर्तिका ।

scopuliferous—(L. *scopula*, small brush; *ferre*, to carry) लघुवर्तिकाधारी ।

scopuliform—(L. *scopula*, small brush; *forma*, shape) लघुवर्तिकोपम ।

scorpioid—(Gk. *skorpios*, scorpion; *eidōs*, form) वृश्चिकोपम; विच्छु (वृश्चिक) की तरह का; वृश्चिकाभ; (२) कुण्डलित (पुष्प-क्रम) ।

scorpioidcyme—कुण्डलित ससीमाक्षी पुष्प क्रम । इसमें मुख्य अक्ष के सिरे पर केवल एक पुष्प होता है और अक्ष के दोनों ओर दाएँ और बाएँ पार्श्व शाखायें वारी-वारी से निकली होती हैं जिनके सिरों पर भी एक एक पुष्प होता है—उदाहरण—जलघनियाँ (Ranunculus); हीलियी-ट्रोपियम (Heliotropium) ।

scotoma—(Gk. *skotos*, darkness) ध्वांत; आंध्र-बिन्दु ।

scotopic—(Gk. *skotos*, darkness; *ops*; eye) ध्वांत; ध्वांत-नेत्रक; तिमिरानुकूलित ।

[देखिये उलटा photopic प्रकाश-नेत्रक]

scrobe—(L. *scrobis*, ditch) उपकुल्या; स्क्रोव; घुघिर; विखांच ।

scrobicula—(L. L. *dim*, of *scrobis*, ditch) स्क्रोवी-कुला; परिखा; इकीनोइड (echinoid) आवरण के गंड के चारों ओर चिकना क्षेत्र ।

scrobiculus—(L. *dim*, of *scrobis*, ditch) स्क्रोवी-कुलस; उप-कुल्यक; अभिखाती ।

scrotal—(L. *scrotum*) अण्ड-कोषीय;

scrotum—(L. *scrotum*) अण्ड-कोष; वृषण कोष; स्तनी (mammals) में वीर्याणु ग्रन्थियों (testicles) को रखने वाला कोष ।

scurf—(A- S. *scurf*) शल्क चर्म; पपड़ी ।

scutal—(L. *scutum*, shield) स्कूटल; उन्हारी ।

sculate—(L. *scutum*, shield) स्कूलेट; उन्हारिक ।

scute—(L. *scutum*, shield) शल्क; बल्कल; प्रशल्क; सर्पक (reptiles), मत्स्यों (fishes) तथा शल्की कीटों (scaly insects) के बाहर का शल्क ।

scutella—(L. *scutellum*, small shield) स्कूटेला; प्रशल्क ।

scutellar—(L. *scutellum*, small shield) स्कूटेलर; पृष्ठिका पश्च सम्बन्धी ।

scutellate—(L. *scutellum*, small shield) स्कूटैलेट; प्रशल्करूपी; लघु ढालवत; लघुढाली ।

scutellation—(L. *scutellum*, small shield) प्रशल्की भवन ।

scutelligerous

scutelligerous—(L. *scutellum*, small shield) स्कूटेलमधारी; स्कूटेलायुक्त ।

scutelliplanter—(L. *scutellum*, small shield; *planta*, sole of foot) प्रशल्की गुल्फ ।

scutellum—(L. *scutellum*, small shield) स्कूटेलम; प्रढाल; प्रशल्क; (१) गुल्फ शल्क (पक्षियों में) । (२) पृष्ठिका पश्च (कीटों में) ।

scutiform—(L. *scutum*, shield; *forma*, shape) ढालरूपी; ढालाकार ।

scutigerous—(L. *scutum*, shield; *gerere*, to bear) ढालधारी ।

scutiped—(L. *scutum*, shield; *pes*, foot) ढालयुक्त पाद; स्कूटेल (पृष्ठिकाओं) से ढका पाँव ।

scutum—(L. *scutum*, shield) स्कूटम; ढाल; पृष्ठिका मध्य (षट्पादों में) । कलीलियों (ticks) का पृष्ठ ढाल ।

scyphiferous—(L. *scyphus*, cup; *ferre*, to bear) पुटिधारी; चषकधारी ।

scyphiform—(L. *scyphus*, cup) चषकोपम ।

scyphistoma—(Gk. *skyphos*, cup; *stoma*, mouth) पुटि-मुख; चषकास्य ।

scyphose—(Gk. *skyphos*, cup) पुटिकोपम ।

scyphula—(L. *dim.* of *scyphus*, cup) पुटिका ।

scyphulus—(dim. of L. *scyphus*, cup) लघुपुटिका ।

scyphus—(L. *scyphus*, Gk. *skyphos*, cup) साइफस, (१) नारसीसस (narcissus) का चषक (प्याला); (२) कीपाकार दल (corolla); (३) कुछ लाइकिस (lichens) में प्रवृत्त (podetium) का प्यालेनुमा फँला हुआ भाग ।

scyphozoa—साइफोजोआ; मेंडूसा-काय; स्काइफी जोआ ।

sea urchin—सी-अचिन; शेल्यी ।

sebaceous—(L. *sebum*, tallow) तैल्य; वसामय; वसासम; स्नेहिक ।

sebiferous—(L. *sebum*, tallow; *ferre*, to carry) तैल्य वाहक ।

sebific—(L. *sebum*, tallow; *facere*, to make) स्नेहोत्पादक; तैल्यजनी ।

sebum—(Gk. *sebum*, tallow) सीबम; वसा; तैल्यग्रन्थि स्राव; त्वग्बसा ।

secodont—(L. *secare*, to cut; Gk. *odous*, tooth) कर्तन-दन्ती ।

secondary—(L. *secundus*, second) गौण; सहकारी; द्वितीयक; दूसरे क्रम का ।

secondary bud—गौण-कलिका; अक्षीय-कलिका ।

secondary growth—गौण-वृद्धि ।

secondary host—गौण-सत्कारी (पोषक); ऐसा सत्कारी (पोषक) जिसमें परिजीवी का अलैंगिक वर्धन (asexual reproduction) होता है ।

अप्रवाह-मलेरिया परजीवी । जिसमें मनुष्य (man) मुख्य सत्कारी पोषक (primary host) और मच्छर, गौण सत्कारी पोषक माना जाता है जबकि परिभाषा के अनुसार इसका विपरीत होना चाहिये अर्थात् मनुष्य गौण तथा मच्छर मुख्य ।

secondary prothallium—गौण प्रोथैलस; सिलेजिनेला (*selaginella*) में यद्यपि प्रोथैलियम बन जाने के पश्चात् दीर्घ बीजाणुक में एक अतिरिक्त ऊतक, जिसे द्वितीयक या गौण प्रोथैलस कहा जाता है ।

secondary roots—द्वितीयक मूल; प्रमुख मूल की गौण शाखायें ।

secondary spore—गौण बीजाणुक (स्पोर); ऐस्कस बीजाणु (ascospore) ।

secondary sexual character—गौण लिंग या लैंगिक लक्षण ।

secondary tissue—गौण ऊतक; कागजन (फिलोजन phellogen) से बना ऊतक—वाहर काग या कार्क (cork); और अन्दर कागस्तर (phellogen) ।

secondary wood—कैम्बियम (cambium) या ऐघा ऊतक से बना काष्ठ (wood) ।

secondarily—गौणतया ।

secretin—(L. *secernere*, to separate) सैक्रेटिन; अन्न की श्लेष्मकला से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो अग्नाशय (पैन्क्रियेटिक) स्राव को प्रोत्साहित करता है ।

secretion—(L. *secretio*, separation) स्रवण; स्राव; कोशिकाओं या ग्रन्थियों द्वारा पृथक् या प्रकल्पित किया हुआ तरल या पदार्थ । सामान्यतः यह प्रक्रिया उत्सारण (extrusion) द्वारा ही होती है पर कोई कोशिका या ग्रन्थि स्वयं नष्ट होकर स्रवण करती है, जैसे तेल ग्रन्थि (sebaceous gland) । इनको पूर्ण स्रावी ग्रन्थि कहा जाता है ।

secretory—(L. *secernare*, to separate) स्राविक; स्राव सम्बन्धी; स्रावी ।

sectile—(L. *secare*, to cut) खण्डित; छेद्य; विभाजित; छोटे हिस्सों या कोठरियों (compartments) में बंटा हुआ ।

section—(L. *secare*, to cut off) काट; कर्तन; अङ्ग के खण्ड; अनुभाग; परिच्छेद; सेक्शन ।

sectioning—(L. *secare*, to cut off) खण्डीकरण ।

sectorial—(L. *sector*, to cut) कर्तन; काटने के उप-युक्त ।

secund—(L. *secundus*, following) क्रमिक; एक ही ओर क्रम से स्थापित; एक पक्षवर्ती ।

secundiflorous—(L. *secundus*, following: *flos*, flower) एक पक्ष पुष्पक ।

secundines—(L. *secundus*, following) द्विभ्रूणावरण; द्वीणिक कलाये; बीजांड अन्तश्चोल ।

secundly—(L. *secundus*, following) एक पक्षक; स्तम्भ या अक्ष के केवल एक ओर ।

sedentary—(L. *sedere*, to sit) निश्चल; स्थानबद्ध; अनुद्ध; अचल; स्थावर; निरुद्योगी; गतिहीन; किसी आधार पर स्थिर जन्तु ।

seed—(A. S. *seed*, seed) बीज ।

seed bud—बीजांड (ovule) ।

seed coat—चोल (testa) ।

seed leaf—बीज-पत्र (cotyledon) ।

seed plant—बीज पादप (seed-bearing plant) ।

seed stalk—बीजांडवृत्त (funicle) ।

seed vessel—बीजधानी (structure containing seed such as pod—फली)

Seessel's pouch—(A. Seessel, American embryologist) सीसेल कोशिका; वेक्का—फेरिजियल (मुखकण्ठीय) कला के पीछे अग्रान्त्र (foregut) के अग्र छोर से निकला हुआ । पृष्ठ-अन्तःचर्मीय (dorsal endodermal) अंधवर्ध कोशिका (diverticulum) ।

segment—(L. *segmentum*, piece) खण्ड ।

segmental—(L. *segmentum*, piece) खण्डीय; खंड; खंडयुक्त ।

segmentation—(L. *segmentum*, piece), (१) खंडन; खंडी भवन; (२) भाजन; विभाजन (डिम्ब); निषिक्त डिम्ब का कोशिकाओं में बंटना या विभाजित होना ।

segmentation cavity—विभाजन कोटर; खंडी भवन गुहा ।

segmentation nucleus—विभाजन अण्डि (न्यूक्लियस) ।

segmented—खंड; खंडित ।

segregation—(L. *segregare*, to separate) पृथक्करण; निश्लेष; अलग करना; वियोजन; विसंयोजन; संपृथक्कन ।

seismonastic—(Gk. *seismos*, earthquake; *nastos*, pressed close) कम्पानुकुचनी (भूकम्पी) ।

sejugous—(L. *sex*, six; *jugum*, yoke) षष्ठ युग्मी ।

selenodont—(Gk. *selene*, moon; *odous*, tooth) अर्ज्य दन्त; शशिदन्त ।

selenoid—(Gk. *selene*, moon; *eidos*, form) अर्ज्योपम; सेलेनाइड ।

selenotropism—(Gk. *selene*, moon; *trope*, turn) अर्ज्य वृत्ति; चन्द्रानुवर्तन ।

self directed movement—स्वनिर्दिष्ट गति; स्वाधीन गति ।

self differentiation—स्वतः विभेदन ।

self fertile—स्वनिषिक्त ।

self fertilised—स्वयं निषेक; स्वनिषेचित ।

self pollination—स्वयं सेचन; स्वपरागण ।

self supporting—स्वालम्बी; स्वावलम्बी ।

self turcica—(L. *sell*, saddle; *turcicus*, turkish) तुर्क पर्याण; पल्माणिका ।

sematic—(Gk. *sema*, sign) भ्रमकारी; प्रबोधन; भ्रमोत्पादक; भ्रमबोधक ।

semeiography—(Gk. *semeion*, sign; *graphein*, to write) चिह्नहालिलेखन ।

semen—(L. *semen*, seed) वीर्य; शुक्र ।

semiamplexicaul—(L. *semi*, half; *amplecti*, to embrace; *caulis*, stem) अर्ध स्तंभालिगी ।

semianatropous—(L. *semi*, half; Gk. *ana*, up; *trope*, turn) अर्धप्रतीप ।

semicaudate—(L. *semi*, half; *cauda*, tail) अर्धपुच्छ; लघुपुच्छी; अर्धपुच्छी ।

semicircular—(L. *semi*, half; *circulus*, circle) अर्धवृत्त; अर्धगोलाकार; अर्धवृत्ताकार ।

semiclasp—(L. *semi*, half; M. E. *clasp*, to hold) अर्धालिगन; अपूर्ण आलिगन ।

semicomplete—(L. *semi*, half; *completus*, filled) अपूर्ण; अर्धपूर्ण; सामिपूर्ण ।

semifloret—(L. *semi*, half; *flos*, flower) अर्ध पुष्पक; कम्पोजिट पुष्प का रश्मि पुष्पक ।

semiflosculous—(L. *semi*, half; *flosculus*, small flower) अर्ध पुष्पाभिका; जीभिकाकार पुष्पकी ।

semilocular—(L. *semi*, half; *loculus*, small place) अर्ध कोष्ठकी; अपूर्ण कोष्ठकी अण्डाशय (ovary) ।

semilunar—(L. *semi*, half; *luna*, moon) अर्ध-चन्द्राकार; चन्द्रार्ध; अर्ध चक्र—।

semimembranous—(L. *semi*, half; *membranous*, membranous) अर्धकला युक्त; कलार्ध पेशी ।

semimetamorphosis—(L. *semi*, half; Gk. *metamorphosis*, transformation) आंशिक या अर्ध रूपान्तर; अर्धकायांतरण ।

seminal—(L. *semen*, seed) शुक्र या वीर्य—; वीर्य सम्बन्धी; शुक्रीय ।

seminal receptacle—वीर्याणु ग्राहक; शुक्र ग्राहक; शुक्राधान ।

seminal vesicle—वीर्याणु पिटिका; शुक्राशय ।

semination—(L. *seminatio*, sowing) वीर्याणु अर्कष वीज; रोपण ।

seminiferous—(L. *semen*, seed; *ferre*, to carry) शुक्र वाहिनी; शुक्र जनक; वीजघर ।

seminude—(L. *semi*, half; *nudus*, naked) अर्धनग्न; अनावृत ।

seminymp—(L. *semi*, half; *nympha*, nymph) अर्धनिम्फ; अंशार्भक; अर्ध प्रप्रौढ़; षटपाद (insect) के विकास में प्रौढ़ावस्था के बिल्कुल नजदीक की स्थिति ।

semiovate—(L. *semi*, half; *ovum*, egg) अर्ध गोलाकार; अर्ध अंडाकार ।

semioviparous—(L. *semi*, half; *ovum*, egg; *parere*, to beget) अर्ध-अण्डज; अंशाण्डज; अण्ड-जरायुज; अण्ड और जरायुज के मध्य के जैसे मारसूपियल (marsupials) जन्तु जिनके बच्चे जन्म के समय अल्प विकसित होते हैं ।

semionoid—(L. *semi*, half; *ovum*, egg; Gk. *eidōs*, form) अर्ध अण्डाभ ।

semipalmate—(L. *semi*, half; *palma*, palm of hand) अर्धतालक; अर्ध जालांगुनीय; आधी दूर तक पदांगुलियों (toes) का झिल्ली में बंधा होना ।

semiparasite—(L. *semi*, half; Gk. *parasitos*, eating beside another) अर्धपरजीवी; अपूर्ण या आंशिक परजीवी ।

semipenniform—(L. *semi*, half; *penna*, feather; *forma*, shape) अर्धपक्षाकार; अर्धपिच्छरूप ।

semipermeable—(L. *semi*, half; *per*, through; *meare*, to pass) आंशिक प्रसरणशील; उपपारगम्य; अर्ध-प्रवेश्य; अर्ध-पारगम्य ।

semiplacenta—(L. *semi*, half; *placenta*, flat cake) अपतनशील जेर; अर्धअपरा; आंशिक कमल (आँवल) ।

semiplume—(L. *semi*, half; *pluma*, feather) आंशिक पिच्छ; अपूर्ण पिच्छ ।

semipupa—(L. *semi*, half; *pupa*, puppet) अर्ध-प्यूपा; अर्धकोष ।

semirecondite—(L. *semi*, half; *recondere*, to conceal) अर्धगुप्त ।

semisagittate—(L. *semi*, half; *sagitta*, arrow) अर्धवाण सिरी ।

semisaprophyte—(L. *semi*, half; Gk. *sapros*, rotten; *phyton*, plant) आंशिक गलितोपजीवी ।

semispecies—(L. *semi*, half; *species*, particular kind) उप प्रकार; उपवर्ग; उपजाति; भूगोलिक पृष्क-करण के कारण प्रकार विभिन्नता ।

semispinalis—(L. *semi*, half; *spinalis*, spinal) सेमीस्पाइनेलिस (पेशी); पीठ और गर्दन की एक मांस पेशी जो मेरूदण्ड के दोनों ओर फैली हुई होती है तथा

अनुप्रस्य प्रवर्धन से उद्भित होकर कशेरुक के तोरण कूट (spinous process) से जुड़ती हैं ।

semistreptostylic—आंशिक अस्थिर क्वाड्रेण्टी ।

semitendinosus—(L. *semi*, half; *tendo*, sinew) सेमीटेन्डीनोसस (जंघासा पेशी); अर्धस्नायुमय पेशी ।

semitendinous—(L. *semi*, half; *tendere*, to stretch) अर्ध स्नायुक; आंशिक रज्जुक ।

semituberous—(L. *semi*, half; *tuber*, hump) अल्प कंदिल (गाँठदार) मूलक ।

senescence—(L. *sevesere*; to grow old) उत्तरा-दस्था; वृद्धावस्था; जीर्णता; एक कोशिकीय जन्तु की कई द्विभाजन के पश्चात् की दशा ।

senility—(L. *senilis*, senile) वृद्धता; जीर्णता; बुढ़ापा; एक कोशिकीय (protozoa) का प्राण भूत (vital) क्षय या थकावट (exhaustion) ।

sensation—वेदना (वेदन); संवेदन; संवेद ।

sense organ—चेतनांग; वेदनांग; ज्ञानेन्द्रिय; संवेदांग ।

sensiferous—(L. *sensus*, sense; *ferre*, to carry) वेदना वाहक ।

sensile—(L. *sensus*, sense) चेतना युक्त ।

sensilla—(L. *sensus*, sense) लघु वेदनांग (संवेदनांग); संवेदिका ।

sensitive—(L. *sensus*, sense) संवेदी; सचेतन; चेतनावत; संवेदनशील; प्रतिसंवेदी; सुग्राही, सूक्ष्मग्राही ।

sensorial—(L. *sensus*, sense) संवेदी क्षेत्र सम्बन्धी ।

sensorium—(L. *sensus*, sense) ज्ञानमण्डल; संवेदी-क्षेत्र; ज्ञानेन्द्रियों (sense-organs) सहित तंत्रिकातंत्र (nervous system) ।

sensory—(L. *sensus*, sense) संवेदीय; संवेदी ।

sentient—(L. *sentire*, to feel) संवेदी ।

sepal—(F. *sepale*; L. *separare*, to separate) बाह्यदल ।

sepaled—(L. *separare*, to separate) बाह्यदली ।

sepaline—(L. *separare*, to separate) बाह्यदलाम ।

sepalody—(L. *separare*, to separate; Gk. *eidōs*, form) बाह्यदल रूपण ।

sepicolous—(L. *sepes*, hedge; *colere*, to inhabit) झाड़ीवासी; प्राचीरवासी; बाड़ावासी ।

septal—(L. *septum*, partition) व्यवधानी; जवनिकी; पट-; पटीय ।

septate—(L. *septum*, partition) व्यवधानक; पट-युक्त व्यवधानों से बंटा हुआ ।

septempartite—(L. *septem*, seven; *pars*, part) सप्त भागी; सात भागों में बंटी हुई पत्ती ।

septenate—(L. *septeni*, seven each) सप्त भागी ।

septicidal—(L. *septum*, division; *caedere*, to cut) पट-स्फुटन; पट विदारक ।

septiferous—(L. *septum*, partition; *ferre*, to bear) व्यवधानक ।

septifolious—(L. *septum*, seven; *folium*, leaf) सप्तपर्णी; सात पत्रक; सात पर्णी ।

septiform—(L. *septum*, partition, *forma*, shape) व्यवधानोपम ।

septifragal—(L. *septum*, partition; *frangere*, to break) पटभंजक ।

septomaxillary—(L. *septum*, partition; *maxilla*, jaw) सेप्टोमैक्सिलरी; सेप्टोमैक्सिलरी; पटजंभिका ।

septonasal—(L. *septum*, partition; *nasus*, nose) नासिका व्यवधान ।

septulate—(L. *septulum*, small septum) लघु व्यवधानी ।

septulum—(L. *septulum*, small septum) लघु व्यवधान ।

septum—(L. *septum*, partition) विभाजक भित्ति; व्यवधान; जवनी; वियुज; पट; विभाजिका ।

septum lucidum—पारभासी पट; लूसीडम व्यवधान; प्रमस्तिष्क गोलार्ध की महासंयोजक पिंड (कॉर्पस कैलोसम) और चापिका (फॉर्निक्स) के बीच की पतली शन्द्रुखनी भित्ति ।

septum narium—नासा पट ।

septum transversum—(१) भ्रूणीय मध्यपट (डाय-फ्राम);

(२) अर्धचन्द्राकार नलिका के तुम्बिका (ampulla) के अन्दर की मेड़ ।

seral—(L. *serere*, to put in a row) क्रमकी । वनस्पति समुदाय चरम सीमा या संतुलन पर पहुँचने से पहिले ।

sere

sere—(L. *serere*, to put in a row) क्रमक ।
 sericate—(L. *sericum*, silken) कौशेय; रेशमी ।
 series—(L. *serere*, to join) श्रेणी ।
 serific—(L. *sericum*, silk; *facere*, to make) कौशेयोत्पादक ।
 sericulture—कौशेय-अभिवृद्धि ।
 serology—(L. *serum*, whey; Gk. *logos*, discourse) रक्त-रस विज्ञान; मेदुर विज्ञान; सीरम विज्ञान ।
 serosa—(L. *serum*, whey) श्रोदक; सफेद पतली झिल्ली; लसीकला; सिरोसा ।
 serosity—(L. *serum*, whey) मस्तु; जन्तुद्रव (animal fluid) का जलीय (watery) भाग (part) ।
 serotinous—(L. *serus*, late) सन्ध्याचर; ऋतु अंतिक ।
 serous—(L. *serum*, serum) श्रोदक; मेदुर; सीरस; सीरमी; जल सदृश तरल जो कोशिकाओं, तन्तुओं, ग्रन्थियों आदि में पाया जाता है ।
 serous alveoli—श्रोदक कूपिका ।
 serous membrane—श्रोदक कला ।
 serozyme—(L. *serum*, serum; Gk. *zyme*, leaven) श्रोमविनोजिन ।
 serpent—(L. *serpens*, pr. p. of *serpere*, to creep) साँप; सर्पक; भुजंग; नाग; उरग ।
 serpulite—(L. *serpula*, small snake; Gk. *lithos*, stone) जीवाश्म नलिका; सर्पुलाइट ।
 serra—(L. *serra*, saw) शारी; दाँतेदार बनावट ।
 serrate—(L. *serra*, saw) दंतुर; अनुक्रकच; किनारे पर शारी की तरह दाँतेदार; क्रकची ।
 serratiform—(L. *serra*, saw) क्रकचोपम; दन्तुरोपम ।
 serration—(L. *serra*, saw) दंतुरी; सिरेशन; क्रकचघार; क्रकचन ।
 serratirostral—(L. *serra*, saw; *rostrum*, beak) क्रकच; चंचु; दंतुर-चंचु ।
 serrato-denticulate—(L. *serra*, saw; *dens*, tooth) बहुदंतरी ।
 serrature—(L. *serra*, saw) दुत्तरक ।
 serratus magnus—बृहत्-क्रकचिनी; सिरेटस मैनस (पेशी); ऊर्ध्व पशुकाओं से अंस फलक (स्कैपुला) तक फैली हुई पेशी ।

serriferous—(L. *serra*, saw; *ferre*, to carry) दन्तरी ।

serriform—(L. *serra*, saw; *forma*, shape) दन्तुरोपम ।

serriped—(L. *serrula*, small saw) दन्तुरपादी ।

serrula—(L. *serrula*, small saw) दाँतक; क्रकच ।

serrulate—(L. *serrula*, small saw) सूक्ष्मदंतुरी ।

serrulation—(L. *serrula*, small saw) लघुदंतुर; सूक्ष्मदुत्तरिकता ।

Sertoli cells—(E. *Sertoli*, Italian histologist) सरटोली कोशिकायें; वृषण (testes) में वधित शुक्राणुओं से सम्बन्धित अघिच्छद् कोशिकायें ।

serule—(L. *serere*, to put in a row) सूक्ष्म क्रमक; लघुक्रमक; निम्न जैव प्रकारों का क्रम ।

serum—(L. *serum*, whey) रक्तद्रव; सीरम; रक्तोद; रक्त वषा; रक्त रस (जल सदृश) जो खून के थक्का बनने पर अलहदा हो जाता है ।

serrum albumin, serum, globulin—सीरम के दो प्रोटीन—सीरम अल्युमिन और सीरम ग्लोबुलिन ।

sesamoid—(Gk. *sesamon*, sesame; *eidos*, form) सीसेमोइड; बतुलिका; पुनर्वृतिक; स्नायु या कंडरों (tendon) के अन्तर्गत तथा सन्धि (joint) के समीप बनी हुई हड्डी; जैसे पटेला या चापी (patella) ।

sesamoidal—(L. *sesamon*, sesame; *oidos*, form) सीसेमोइड अस्थि सम्बन्धी ।

sessile—(L. *sedere*, to sit) १—स्थिर; स्थावर; अचल; २—अस्तम्भ; स्तम्भहीन; ३—अवृत; ४—स्थानबद्ध ।

seta—(L. *seta*, bristle) सीटा; रोमिका; संपुटकवृत्त; शूक ।

setal sac—शूकीय कोष ।

setaceous—(L. *seta*, bristle) सीटायुक्त; रोमिकायुक्त ।

setiform—(L. *seta*, bristle; *forma*, shape) रोमिकोपम; शूकाकार; शूकमय ।

setigerous—(L. *seta*, bristle; *gerere*, to bear) रोमिकाधारी (युक्त); शूकधारी ।

setigerous sac—शूकधर कोष; कीटोपोडा (chaetopoda) के (parapodium) में अघिच्छद् के अन्तर्वलन से

बना एक कोप जिसमें शूक (सीटी) के पुलन्दे रखे रहते हैं ।

setirostral—(L. *seta*, bristle; *rostrum*, back) रोमिका चंचु ।

setobranchia—(L. *seta*, bristle; Gk. *branchia*, gills) शूक-ब्रलोम;

१—डेकापोड्स (decapods) के गिल से लगे हुए शूकों के गुच्छे ।

२—कक्षीपादांश (coxopodite) शूक ।

setose—(L. *seta*, bristle) रोमिका युक्त ।

setula—(*dim*, form; L. *seta*, bristle) दृढ़-लोमिका; शूकक ।

setuliform—(*dim*, form; L. *seta*, bristle) दृढ़-लोमिकोपम; शूकाकार ।

setulose—(*dim*, form; L. *seta*, bristle) दृढ़-लोमिका युक्त; शूककी ।

sex—(L. *sexus*, sex) लिङ्ग या लिंग (स्त्री या पुरुष); लक्षण, विशेषतायें, बनावटें, कार्य आदि का योग जिससे जन्तु या वनस्पति को नर या मादा कहा जाता है ।

sex-chromosome—लिंग परम्परा सूत्र; लिंग गुण सूत्र; लिंग क्रोमोसोम; वह क्रोमोसोम जिसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से लिंग निश्चित होता है । इसी अर्थ के अन्य शब्द—

१—X या Y क्रोमोसोम;

२—idiochromosome—लिंगी क्रोमोसोम;

३—monosome—एकल सूत्र;

४—heterochromosome—लिंग परम्परा सूत्र;

५—special or odd chromosome—विशिष्ट या देहातिरिक्त या अयुग्म गुण सूत्र ।

sex differentiation—लिङ्ग-भेद; लिंग-विभेदन ।

sexdigitate—(L. *sex*, six; *digitus*, finger) पष्ठांगुलिक ।

sexfid—(L. *sex*, six; *findere*, to cleave) पष्ठभाजित ।

sexfoil—(L. *sex*, six; *folium*, leaf) षट्पर्णी; एक अक्ष पर छः पत्ती या पत्रक (leaflets) ।

sexhormones—(L. *sexus*, sex; Gk. *hormaein*, to excite) जननांग उद्दीपक ।

sex-limited inheritance—लिंग सीमित परम्परा; लिंग सह लग्न परम्परा ।

sex-linked inheritance—लिंग सम्बद्ध परम्परा ।

sex-mosaic—नरनारी; लिंग खचित; लैंग-मोजेक ।

sex-reversal—लिंग-परिवर्तन; लिंग-परावर्तन ।

sexual—(L. *sexus*, sex) लिंगी; लैंगिक; लिंग सम्बन्धी; यौन ।

sexual cell—लिंगी कोशिका; डिम्ब या शुक्राणु ।

sexual cycle—लिंग वृत्त; लैंगिक चक्र ।

sexual dimorphism—लिंग-भेद; लैंगिक द्विरूपता; उसी जाति के नर और मादा में बनावट, माप, रंग, शक्ति आदि में भेद ।

sexual elements—लैंगिक तत्व ।

sexual organ—जननेन्द्रिय; लिंगावयव ।

sexual reproduction—लिंगी उत्पादन; लैंगिक जनन; मैथुनोत्पादन ।

shaft—(A. S. *scaft*, spear shaft) दण्ड; कांड डन्ठल; पक्ष का डन्ठल; लम्बी हड्डी का सीधा गोलाकार (डण्ठलनुमा) भाग ।

shank—(A. S. *sceanca*, leg) अग्र जंघा; जंघा; पिडली या अग्रो जानु ।

Sharpey's fibres—(W. *Sharpey*, scottish surgeon) छिद्रक सूत्र; शार्पे सूत्र; श्वेत सूत्रों (white fibres) और स्थितिस्थापक सूत्रों (elastic fibres) के खरिक्मय पुलन्दे जो अस्थित्वक पत्रकों (periosteal lamellae) को भेदते तथा बाँधे रखते हैं ।

sheath—(A. S. *sceth*, shell or pod) पिघान; रक्षा-वरण; वेणुन; आच्छद ।

shedding—(A. S. *sceadan*, to separate) निष्पतन; झड़ना ।

shell—(B. S. *scell*, shell) कर्पर; खोल; कवच; तुप (egg); युक्ति; छिलका; कोश ।

shield—(A. S. *scyld*, protection) ढाल; परिरक्षक; शील्ड; फलक; विशल्क ।

shin—(A. S. *scina*, the shin) पिडली ।

shoal—(L. *schola*, school) मत्स्य दल; स्तोम, शोल; माघ स्थल ।

shoulder

shoulder—(A. S. *sculdor*, shoulder) अंस; कंधा; स्कंध ।

shoulder blade—अंसफलक ।

shoulder girdle—अंसवलय; अंस मेखला ।

shrimp—भोंगा (केंकड़ावंशी); चिंगट; श्रिम्प ।

sialic—(Gk. *sialon*, saliva) लार सम्बन्धी; साइ-एलिक ।

sialoid—(Gk. *sialon*, saliva) लारोपम; लारवत् ।

siblings—(A. S. *sible*, kin) सहोदर; आप्त; समाभासी ।

sicula—(L. *sicula*, small dagger) सिकुला; बर्छाकार; असिका ।

side-chain theory—शृंखला प्रक्रिया मत; अरलिक्व (Ehrlich's) का मुक्ति (imminity) प्रदान मत । इस मतानुसार यह माना जाता है कि विष (toxins) पौष्टिक प्रोटीनों (nutritive proteins) के समस्त लक्षणों को जिनसे वह सामान्य रूप से समानीकरण करते हैं, अपने में अपना कर ही जैव प्रद्रव्य (living protoplasm) से समानीकरण करते हैं ।

siderocyte—(Gk. *sideros*, iron; *kytos*, hollow) आयसक-कोशिका; स्वतन्त्र लोह युक्त कोशिका ।

siderophil—(Gk. *sideros*, iron; *philos*, loving) आयसी; लोटरागी; लोहरंजक; ऐसे जन्तु जो लोहे या आयस की उपस्थिति में समृद्ध होते हैं ।

sieve cell—चालनी कोशिका; चालनी नलिका की पतली भित्ति वाली आपात कोशिका ।

sieve disc or plate—चालनी विम्ब या प्लेट; चालनी कोशिका की घनी अन्तिम छिद्रक भित्ति से चलनी प्लेट या विम्ब बना हुआ ।

sieve pit or pore—चालनी गर्त या छिद्र चालनी विम्ब के गर्त या छिद्र ।

sieve tissue—फ्लोएम (पोषवाह) के संवाहक पोटलिका का सारभूत ऊतक ।

sieve tubes—चालनी नलियाँ; पोषवाह नलिकाएँ जो पतली, आयात कोशिकाओं की बनी होती हैं और जिनमें होकर पोषक तत्व बहते हैं ।

sight—(A. S. *siht*, sight) दृष्टि; नजर; निगाह ।

sigillate—(L. *sigillum*, seal) मुद्राकार चिन्हित; किन्हीं प्रकंद और मूलों पर मुद्राकार चिन्ह ।

sigmoid flexure—सिग्माकार वक्रता; 'S' की शबल का दोहरा मोड़ जैसे पक्षियों की गर्दन का या वृहदंत्र (colon) का ।

sigma—(Gk. E. *sigma*) सिग्मा; 'C' के आकार का दृढ़ या स्पीक्यूल (spicule) ।

sigmoid—(Gk. E, *sigma*; *eidos*, form) सिग्माकार; सिग्मोपम; अवग्रहाकार; अव ग्रहरूपी; सिग्मारूपी ।

signet ring stage—मुद्रिकावस्था; मुद्रिकाकार अवस्थिति; मुद्रावस्था ।

silicle—(L. *siliculla*, little pod) सिलिकिल; सिलिक्यूआ (siliqua) फल का चपटा रूप जिसे सिलिक्यूला (siliqua) कहते हैं ।

silicole—(L. *silex*, flint; *colere*, to inhabit) सिलिका भूमिवासी ।

silicular—(L. *silicula*, little pod) सिलिकिल युक्त ।

siliqua—(L. *siliqua*, pod) सिलिक्यूआ (siliqua); यह कूसीफेरी कुल का खास फल है । यह द्विअण्डपी; सुपीरियर, अण्डाशय से बनता है । प्रारम्भ में अण्डाशय एक कोशिकीय होता है परन्तु आभासी पट (replum) बन जाने से द्विकोशिकीय हो जाता है । फटने पर फल के दोनों अंश अलग हो जाते हैं और बीज पट लगे रहते हैं ।

siliquiform—(L. *siliqua*, pod; *forma*, shape) सिलिक्यूआरूपी ।

siliquose—(L. *siliqua*, pod) सिलिक्यूआधारी ।

silkworm—कौशेय कृमि; रेशम का कीड़ा (कीट) ।

silurian—(L. *silures*, a people of britain) सिल्यूरीन ।

silvicolous—(L. *silvicola*, forest inhabitant) वनवासी ।

simian—(L. *simia*, ape) सिमियन; वानर या ऐप (ape) की विशेषता युक्त मानव ।

similar—(L. *similis*, like) समान; समरूप; सदृश ।

simple eyes—सामान्य चक्षु; सरल चक्षु; सरल नेत्र ।

simple reflex arc—सरल परावर्तन चाप ।

simple tissues—सरल तन्तु । (ऊतक)

- simplex**—(L. *simplex*, simple) सरल; सिम्प्लेक्स ।
- simulation**—(L. *simulare*, to stimulate) छद्मता; अनुकरण; अनुसार, शत्रु को धोखा देने के लिये विशेष-ताओं या आकृतियों का अपनाना; आमक अनुरूपता ।
- sincipital**—(L. *semi*, half; *caput*, head (सिरो-अग्रिय ।
- sinciput**—(L. *semi*, half; *caput*, head) शिरोअग्र; सिरोअग्र; सिरोर्ध्व ।
- sinistral**—(L. *sinister*, left) वामरूख; वामावर्त; बाईं ओर; बाया; वह संख जो बाईं ओर घूमा हुआ होता है ।
- sinistrorse**—(L. *sinister*, left; *vertere*, to turn) वामचक्रक; वामावर्तित; बाईं ओर घूम; हुआ घुमाव ।
- sinuate**—(L. *sinus*, curve) जिह्वा; लहरी वनदाने-दार तट वाला; तरंगित; लहरदार ।
- sinu-auricular**—(L. *sinus*, gulf; *auricula*, small ear) कुल्या-ग्राहिका; शिरा-अलिन्द सम्बन्धी ।
- sinu-auricular aperture**—कुल्या-ग्राहिका छिद्र ।
- sinu-auricular wall**—शिरा-अलिन्द भित्ति ।
- sinupalliate**—(L. *sinus*, curve; *pallium*, mantle) अपूर्ण मैन्टली; अपूर्ण पिघानी; जिह्वा पिघानी ।
- sinus**—(L. *sinus*, curve, or gulf) कुल्या; साइनस; कोटर; शिरानाल ।
- sinusvenosus**—साइनस विनोसस; शिरा-कुल्या; शिरा कोटर ।
- sinusoid**—(L. *sinus*, curve; Gk. *eidos*, form) रक्तस्थल; सूक्ष्म रक्त स्थान; (यकृत आदि में) ।
- siphon**—(Gk. *siphon*, reed or tube) साइफन; निनाल; नाल ।
- siphonate**—(Gk. *siphon*, tube) निनाली; निनाल-युक्त; विनाली ।
- siphonet**—(Gk. *siphon*, tube) निनालिका; मधु-चूषक नलिका; विनालिका ।
- siphonium**—(Gk. *siphon*, tube) नलिका बंध; साइ-फोनियम; फिल्लोमय नलिका ।
- siphonogamous**—(Gk. *siphon*, tube; *gamos*, marriage) नालयुग्मनी; विनाल निषेचन; पराग नलिका द्वारा निषेचन ।
- siphonogamy**—(Gk. *siphon*, tube; *gamos*, marriage) विनाल-निषेचन; नाल युग्मन ।
- siphonoglyph**—(Gk. *siphon*, tube; *glyphein*, to engrave) निनाललीक) ग्रसिका खाँच; सीऐनीमोन (sea-anemone) के निगल (gullet) पर स्थित एक या दो क्षितीष (horizontal) लीक का प्रसीता (groove) ।
- siphonophore**—(Gk. *siphon*, tube; *pherein*, to bear) निनाली; निनालधारी ।
- siphonoplax**—(Gk. *siphon*, tube; *plax*, tablet) निनालपट्ट; विनालपट्ट ।
- siphonostele**—(Gk. *siphon*, tube; *stela*, post) नालरंभ; फर्न का पोला (पुटाकार) स्तम्भ ।
- siphonostetic**—(Gk. *siphon*, tube; *stela*, post) नालरंभक ।
- siphonostomatous**—(Gk. *siphon*, tube; *stoma*, mouth) निनालमुखी; विनालमुख; नाल परिमुखी ।
- siphonozoid**—(Gk. *siphon*, tube; *zoon*, animal; *eidos*, form) निनाल मुकुल; विनाल जीवक ।
- siphorhinal**—(Gk. *siphon*, tube; *rhis*, nose) निनाल-नासी ।
- siphuncle**—(L. *siphunculus*, small tube) सिफंकिल, लघुनिनाल ।
- siphunculate**—(L. *siphunculus*, small tube) लघु निनाली; सिफंकुलेट ।
- sirenia**—(L. *siren*, a cord) साइरेनिया; दरवाई गाय; समुद्र गावः ।
- sitology**—(Gk. *sitos*, food; *logos*, discourse) खाद्य विज्ञान ।
- sitotoxin**—(Gk. *sitos*, food; *toxikon*, poison) खाद्य विष ।
- sitotropism**—(Gk. *sitos*, food; *trophe*, turn) खाद्य वृत्ति ।
- situation**—स्थिति ।
- skeletal**—(Gk. *skeletos*, dried) अस्थि पंजर सम्बन्धी; कंकाली; कंकालिक; कंकाल— ।
- skeletal system**—कंकालमण्डल (तंत्र) ।
- skeletogenous**—(Gk. *skeletos*, hard; *genascin*,

skeleton

- to produce) अस्थिजनन; कंकालजनक; वह भ्रूणांग जो आगे चलकर अस्थि संस्थान (तंत्र) का भाग बनाते हैं ।
- skeleton—(Gk. *skeletos*, dried) पंजर; कंकाल; ठठरी; हड्डी का ढाँचा; अस्थि-पंजर; खाका ।
- skeletoplasm—(Gk. *skeletos*, hard; *plasma*, mould) अस्थि प्ररस ।
- sketch—रेखाचित्र; स्केच ।
- skiaphyte—(Gk. *skia*, shade; *phyton*, plant) छायावासी पादप, जैसे कुछ शैवाल (एल्गी) चट्टानों आदि के नीचे रहने वाले ।
- skin—(A. S. *seinn*, skin) त्वचा; खाल; त्वक, चर्म ।
- skiophilous—(Gk. *skia*, shade; *philein*, to love) छायाप्रेमी ।
- skotoplankton—(Gk. *skotos*, darkness; *planktos*, wandering) तिमिरप्लाविक; ५०० मीटर की गहराई पर रहने वाले प्लाविक जन्तु (plankton) ।
- skotoaxis—(Gk. *skotos*, darkness; *taxis*, arrangement) तिमर वृत्ति; तमोनुचलन ।
- skull—(M. E. *skulle*, cranium) करोटि; खोपड़ी; कपाल ।
- slide—(A. S. *slidan*, to slide) स्लाइड; काँच की पट्टी ।
- slimy—(A. S. *slim*) लुआवदार; लसलसा; फिसलने वाला, अवपंकी ।
- slough—(M. E. *slouh*, skin of snake) काँचली; विमोचन; निर्मोक, कंचुक; कंचुली; सर्प आदि का ऊपरी खोल जो नियत समय पर स्वतः उतर जाता है ।
- smegma—(Gk. *smegma*, unguent) स्मेगमा; शिक्षात्र या भगशिशान (clitoris) ग्रन्थि का स्राव; शिशनाय (praeputiale) वषा (सीवम) ।
- smell—(M. E. *smel*, odour) गन्ध; बू; वास; महक ।
- snout—धूथन; प्रोथ ।
- soboies—(L. *soboles*, shoot) सोबोलीस; अन्तः भू-स्तारी या सकंर—एक प्रकार का भूमिगत तना ।
- soboliferous—(L. *soboles*, shoot) अन्तः भूस्तारी-घर ।

- sociation—(L. *sociase*, to associate) सूक्ष्म संगम; वनस्पति की एक स्वरूपतर इकाई ।
- society—(L. *societas*, company) अंगी समूह; कई अंगियों द्वारा बनाकर रहना ।
- socket—(A. dim of sock) गर्त; गतिका; सॉकेट ।
- socket of tooth—दन्तोलूख ।
- soft palate—कोमलतालु ।
- soil—(L. *solum*, ground) मृत्तिका; मृदा; मिट्टी; भूमि ।
- solar—(L. *sol*, sus) सौर ।
- solar plexus—सौर नाड़ी जाल; उदर नाड़ी जाल ।
- solarisation—(L. *solaris*, solar) प्रकाश निरुद्धता; पौधों में सूर्य की तेज रोशनी के कारण कार्बन एकीकरण (carbon assimilation) का बन्द या रुक जाना ।
- soldier aunt—सैनिक चींटी ।
- sole—(L. *solum*, bottom) पादतल; तलुवा; पाडुका तल; सोल; तली ।
- soleaform—(L. *solea*, sandal; *forma*, shape) पादतालोपम ।
- solenia—(Gk. *solen*, channel) सोलेनिया; अन्तरुच्छद्; अस्तरी कोशिकाओं से घिरी हुई नाली (channel) ।
- solenocyte—(Gk. *solen*, channel; *kytos*, hollow) लण्ड कोशिका; नलिकाकार कोशिका; नलोत्सर्ग कोशिका ।
- solenostele—(Gk. *solen*, channel; *stela*, column) नलीरंभ ।
- solenostelic—(Gk. *solen*, channel; *stela*, column) नलीरंभीय ।
- solenoxylic—नलीदारुक ।
- soleus—(L. *solea*, sole of foot) सोलियस; चपटी पिडिली (calf) की एक पेशी जो गैस्ट्रॉविलनियस दूसरी पिडिली की बड़ी मांस पेशी के नीचे स्थित होती है ।
- solid—(L. *solidus*, solid) ठोस; पिड; घनाकृति ।
- soliped—(L. *solus*, single; *pes*, foot) एक खुरी जैसे अश्व या घोड़ा ।
- soma—(Gk. *ssam*, body) शरीर; देह; पिण्ड; काय ।

somactids—(Gk. *soma*, body; *aktis*, ray) काय-किरण; सोमाक्टिडस; क्षेपणी आलम्बी; चर्णीय क्षेपणी किरण की अन्तःस्थ आलम्बी ।

somacule—(Gk. *soma*, body) सोमाकूल-एक काल्पनिक इकाई ।

somaesthesia—(Gk. *soma*, body, *aisthesis*, sensation) अन्तर्वेदना; काय संवेदना; त्वचा (skin), मांस पेशी (muscles) या आन्तरिक देहांतों (internal organs) से उत्पन्न उत्तेजना (stimuli) के कारण वेदना (sensation) ।

somatic—(Gk. *soma*, body) दैहिक; शारीरिक; शरीर सम्बन्धी; कायिक ।

somato—(Gk. *soma*, body) दैहिक या शारीरिक अर्थ का उपसर्ग ।

somatoblast—(Gk. *soma*, body; *blastos*, bud) दैहिक कोष्ठज; कायकोरक ।

somatocyst—(Gk. *soma*; body; *kystis*, bladder) दैहिक कोषिका; कायपुटी ।

somatoderm—(Gk. *soma*, body; *derma*, skin) देहच्छद; मीसोजोआ (mesozoa) की बाह्य कोशिका ।

somatogamy—(Gk. *soma*, body; *gamos*, marriage) कृत्रिम परिणय; काययुग्मन; दैहिक निषेक; काल्पनिक सम्भोग ।

somatogenic—(Gk. *soma*, body; *gennaein*, to produce) दैहिक कोष्ठज; कायजन; दैहिक कोशिकाओं से बना हुआ ।

somatome—(Gk. *soma*, body; *tome*, cutting) दैहिक-खण्ड ।

somatophyte—(Gk. *soma*, body; *phyton*, plant) सोमेटोफाइट; काय-यादप; ऐसा पादप (पौधा) जिसकी कोशिकायें मुख्यतः प्रौढ़ काय ऊतक में वर्धित होती हैं ।

somatoplasm—(Gk. *soma*, body; *plasma*, mould) दैहिक कोशिका प्ररस (प्लाजमा) ।

somatopleurc—(Gk. *soma*, body; *pleura*, side) बहिर्भित्ति; कायस्तर; सोमेटोप्लूर; देह-भित्ति; मध्यस्तर (mesoblast) की बाहरी भित्ति जो बाह्य स्तर से घनिष्ठ सामीप्य (proximity) रखती है ।

somatotypc—(Gk. *soma*, body; *typos*, pattern)

काय-प्ररूप; सोमेटाइड; नापत्तोल के अनुसार पूर्णरूप से शरीर से आदर्श प्ररूपी जीव ।

somatropic—(Gk. *soma*, body; *tropoikos*, turning) वृद्धि प्रवर्त्तक; वृद्धि उद्दीपक ।

somite—(Gk. *soma*, body) खण्ड; देह खण्ड, काय खण्ड ।

sonic—(L. *sonare*, to sound) ध्वनि सम्बन्धी; ध्वनिक ।

sonoran—(*sonora*, Mexican State) सोनोरन जन्तु भौगोलिक उत्तरी अमरीका का दक्षिणी क्षेत्र जिसमें उत्तरी मेक्सिको-नवशीत प्रदेश (nearetic) और नियोट्रॉपिकल (neotropical) क्षेत्र सम्मिलित रहते हैं ।

soral—(Gk. *soros*, heap) बीजाणुधानी पुंजीय ।

soredial—(Gk. *soros*, heap) कवक जाल पुंजीय; सोरेडियल ।

sorediate—(Gk. *soros*, heap) कवक जालधारी; सोरीडियेट ।

soredium—(Gk. *soros*, heap) सोरीडियम; कवक जाल पुंज ।

sroriferous—(Gk. *soros*, heap; L. *ferre*, to carry) बीजाणुधानी पुंजधारी ।

sorosis—(Gk. *soros*, heap) सोरोसिस-संग्रहित (composite) फल । यह फल पूरे पुष्पक्रम के संपरिवर्तन से बनता है । इस प्रकार के फलों में रेकिस (. . chis) और स्पेडिक्स पुष्पक्रम (spadix inflorescence) के अन्य पुष्पीय अंग सामुज्यित होकर संग्रहित फल बनाते हैं । उदाहरण—कटहल, अनन्नास, शहतूत आदि ।

sorption—(L. *sorbere*, to suck in) आचम; चूषण; परिशोषण; शोषण; शोषण या चूषण द्वारा पदार्थ का सतह पर लिया जाना ।

sorus—(Gk. *soros*, heap) स्तवक; बीजाणुधानी-पुंज; सोरस; किन्हीं सारकोडाइना (sarccodina) में स्पोरो (spores) का समुदाय या समूह (cluster) ।

space=cavity—(L. *spatium*, span) कोटर; अक्काश; आकाश ।

spadicous—(L. *spadix*, palm-branch) स्पेडिक्सधारी; स्पेडिक्स के समान विन्यासी ।

spadiciform—(L. *spadix*, palm-branch; *forma*, shape) स्पेडिक्सबल; स्पेडिक्स समान ।

spadicose

spadicose—(L. *spadix*, a palm-branch) स्पेडिक्स समान ।

spadix—(L. *spadix*, palm-branch with fruit) १—स्पेडिक्स (पुष्प क्रम); इसमें रेक्सिस मोटी तथा मांसल होती है और सभी पुष्प एक या एक से अधिक स्पेथी शल्कपत्र (spathy scale) से घिरे रहते हैं—उदाहरण—अरबी । अक्ष के आधार पर मादा पुष्प, बीच में बन्ध्य पुष्प और इसके आगे नर पुष्प स्थित होते हैं—अक्ष के सारे के नग्न भाग को एपेण्डिक्स कहते हैं ।

संयुक्त स्पेडिक्स (Compound spadix) भी होते हैं—इसमें स्पेडिक्स की मुख्य अक्ष शाखान्वित ही जाती है और प्रत्येक शाखा पर पुष्प लगे होते हैं—उदाहरण—नारियल, ताड़ आदि ।

२—कुछ सीलेन्टेटा में वर्धित मुष्टिक (manubrium) का अन्तःचर्मीय शेषांश (rudiment) ।

३—नोटीलस (Nautilus) के कुछ स्पर्शकों का शंकुसम (conoid) सम्मेलन (मिश्रण) ।

spanandry—(Gk. *spanos*, scarce; *aner*, male) दुर्लभता; नरों (males) की संख्या में आदिस्ता २ कमी जैसे कुछ कीटों (insects) में ।

spanogamy—(Gk. *spanos*, scarce; *gamos*, marriage) नारी स्वल्पता; जायाल्पता; उत्तरोत्तर मादाओं की संख्या में न्यूनता ।

spasm—(Gk. *spasmos*, tension) उद्वेष्टन; अनैच्छिक पेशी संकुचन ।

spasmoneme—(Gk. *spasmos*, spasm; *nema*, thread) साटोप-पेशी; आकर्षसूत्र; खण्ड मांस पेशियों से बनी हुई एक मोटी डण्ठल सदृश मांस पेशी ।

spat—(A.S. *spætan*, to spit) स्वाट; द्विकपाटी सीपी (bivalve molluscs) के शिशु ।

spathaceous—(Gk. *spathe*, broad blade) फलकी ।

spathe—(Gk. *spathe*, broad blade) फलक ।

spathed—(Gk. *spathe*, broad blade) फलकधारी ।

spathella—(Gk. *spathe*, broad blade) लघु-फलकी ।

spathose—(Gk. *spathe*, broad blade) फलकोपम; फलकी ।

spatula—(L. *spatula*, spoon) वशास्थि; चम्मचा-कृति ।

spatulate—(L. *spatula*, spoon) चम्मचाकृतिक ।

spawn—(O. F. *espandre*, to seed) डिम्ब समूह; अण्डयुग्ज; अण्डजनन; जलांडक; जाल ।

spay—(L. *spado*, eunuch) डिम्ब ग्रन्थि कर्तन ।

specialised—विशिष्ट ।

speciation—(L. *species*, particular kind) जाति विकास; जाति उद्भवन ।

species—(L. *species*, particular kind) जाति; स्वीशीज; जाति भेद; (१) एक ही भाँति के जन्तु जो आपस में मैथुन कर सकें । (२) एक क्रमिक इकाई, जिसमें कई नस्लें मिली होती हैं और जिनके मिलने से वंश (genus) बनता है ।

specific—(L. *species*, particular kind; *facere*, to make) विशिष्ट; विलक्षण; असामान्य; विशेष प्रकार का ।

specific activity—विशिष्ट सक्रियता ।

specific character—विशिष्ट लक्षण ।

specific duration of life—विशिष्ट जीवन काल ।

specific sense centre—विशिष्ट ज्ञान केन्द्र ।

specificity—(L. *species*, kind; *facere*, to make) वैशेषिक; विशिष्टता; किसी विशेष जाति से सम्बन्धित या किसी विशिष्ट जाति में सीमित ।

spectrum—(L. *spectrum*, appearance) स्पेक्ट्रम; वर्णपट; प्रकाश की किरणों के विश्लेषण से बना हुआ वर्ण पट ।

spelaeology—(Gk. *spelaiion*, cave; *logos*, discourse) कंदरा विज्ञान; कंदरा और कंदरा जीवन का अध्ययन ।

sperm—(Gk. *sperma*, seed) वीर्याणु; शुक्र; वीर्य; नर निषेकाणु; पुमणु; बीज ।

sperm centrosome—शुक्र केन्द्र पिण्ड; वीर्याणु सेन्ट्रो-सोम ।

sperm mother cell—वीर्याणु मातृ-कोशिका; नर-जनन कोशिका ।

sperm nucleus—शुक्राणु; नर पुराणु; वीर्याणु-अणु; वीर्याणु न्यूक्लियस ।

spermatid—(Gk. *sperma*, seed; L. *ducere*, to lead) वीर्याणु नलिका ।

spermaphyte—(Gk. *sperma*, seed; *phyton*,

spermary

- plant) बीज पादप; पुष्पोद्भिद् (फैनरोगम); पुमणु पादप (स्पर्मेटोफाइट) ।
- spermary—(Gk. *sperma*, seed) शुक्र-ग्रन्थि; वीर्याणु ग्रन्थि ।
- spermatangium—(Gk. *sperma*, seed; *anggeion*, vessel) अचल पुमणुधानी । किन्हीं शैवाल (एल्गी) की पुंधानी (antheridium) ।
- spermato—शुक्र या वीर्य अर्थ का उपसर्ग ।
- spermateleosis—(Gk. *sperma*, seed; *telein*, to bring to maturity) वीर्याणुत्पत्ति ।
- spermatheca—(Gk. *sperma*, seed; *theke*, case) स्पर्मथिका; वीर्य ग्राहिका; शुक्र ग्राहिका; वीर्य कोषिका; शुक्रधानी ।
- spermatie—(Gk. *sperma*, seed) वीर्याणु-; वीर्याणु सम्बन्धी ।
- spermatie duct—वीर्याणु नलिका ।
- seprmatid—(Gk. *sperma*, seed) वीर्याणुक; शुक्राणु-पूर्व ।
- spermatiferous—(Gk. *sperma*, seed; L. *ferre*, to carry) वीर्याणु-वाहक ।
- spermatiphore—(Gk. *sperma*, seed; *pherein*, to bear) अचल पुमणुघर; स्पर्मेटियोफोर; स्पर्मेशियम-घर ।
- spermatise—(Gk. *sperma*, seed) निषेक ।
- spermatium—(Gk. *sperma*, seed) अचल पुमणु; लाल शैवाल (red algae) का अचल पुमणु (non-mobile sperm) ।
- spermatoblast—(Gk. *sperma*, seed; *blastos*, bud) वीर्याणुज ।
- spermatoblastic—(Gk. *sperma*, seed; *blastos*, bud) वीर्याणुजन ।
- spermatocyst—(Gk. *sperma*, seed; *kysts*, bladder) वीर्याणुकोषिका ।
- spermatocyte—(Gk. *sperma*, seed; *kytos*, hollow) वीर्याणु कोशिका; नर जनन कोशिका ।
- spermatocytogenesis—(Gk. *sperma*, seed; *kytos*, hollow; *genesis*, descent) वीर्याणु-कोशिका जनन ।

- spermatogenesis—(Gk. *sperma*, seed; *genesis*, descent) वीर्याणु जनन; शुक्राणु-जनन; शुक्र-जनन ।
- spermatogenetic—(Gk. *sperma*, seed; *genesis*, descent) वीर्याणु जनन सम्बन्धी ।
- spermatogonial—(Gk. *sperma*, seed; *gonos*, offspring) वीर्याणु-पूर्वज कोषिकीय ।
- spermatogonium—(Gk. *sperma*, seed; *gonos*, offspring) वीर्याणु पूर्वज कोशिका; वीर्याणु-मातृ कोशिका, पुमणुजन; स्पर्मेटोगोनियम ।
- spermatoid—(Gk. *sperma*, seed; *eidos*, form) वीर्याणु सदृश ।
- spermatomerites—(Gk. *sperma*, seed; *meros*, part) वीर्याणु कण ।
- spermatophore—(Gk. *sperma*, seed; *pherein*, to bear) वीर्य-पिटिका; शुक्र पुटी; शुक्रघर; शुक्राणुघर ।
- spermatophyte—(Gk. *sperma*, seed; *phyton*, plant) बीजपादप; पुष्पोद्भिद् (फैनरोगम); स्पर्मेटोफाइट ।
- spermatoplasm—(Gk. *sperma*, seed; *plasma*, mould) वीर्याणु कोशिका प्ररस; वीर्याणु कोशिका जीवन सत्व ।
- spermatoplast—(Gk. *sperma*, seed; *plastos*, moulded) नर जनन कोशिका ।
- spermatosome—(Gk. *sperma*, seed; *soma*, body) वीर्याणु पिण्ड ।
- spermatotoxin—(Gk. *sperma*, seed; *toxikon*, poison) वीर्याणु विष; शुक्रविष ।
- spermatozeugma—(Gk. *sperma*, seed; *zeugma*, union) वीर्याणु संयोग ।
- spermatozoa—(Gk. *sperma*, seed; *zoon*, animal) वीर्याणु; शुक्राणु ।
- spermatozoid—(Gk. *sperma*, seed; *zoon*, animal; *idion*, dim) वीर्याणु; पुमणु; नर जनन कोशिका; स्वतन्त्र प्लावी (free swimming) नर जन्तु (male gamete) ।
- spermatozoon—(Gk. *sperma*, seed; *zoon*, animal) वीर्याणु; नर जनन कोशिका; शुक्राणु ।
- spermiducal—(Gk. *sperma*, seed; L. *ducere*, to lead) वीर्याणु-; वीर्याणुक; वीर्य ग्राहक ।

spermiduct

spermiduct—(Gk. *sperma*, seed; L. *ducere*, to lead) वीर्याणु नलिका; शुक्र वाहिनी ।

spermin—(Gk. *sperma*, seed) स्परमिन; वीर्याणु ग्रन्थि उद्दीपक ।

spermine—(Gk. *sperma*, seed) स्परमाइन; वह रसायन जिसका कि फॉस्फेट (phosphate) वीर्याणु में पाया जाता है ।

spermiocalyptrotheca—(Gk. *sperma*, seed; *kalyptra*, covering; *theke*, case) वीर्याणु शिरस्क ।

spermiogenesis—(Gk. *sperma*, seed; *genesis*, origin) वीर्याणु जनन; शुक्राणु जनन; वीर्याणुक (spermatid) से वीर्याणुओं (spermatozoon) का वर्धन ।

spermism—(Gk. *sperma*, seed) वीर्यवाद; यह मत या वाद (theory) कि भ्रूण (embryo) केवल वीर्याणुओं (spermatozoon) से ही बनता है ।

spermium—(Gk. *sperma*, seed) वीर्याणु; बीजाणु; [नोट—spermato-जन्तु विज्ञान में तथा (sperma) वनस्पति विज्ञान में नर सत्व के लिये प्रयोग में लाया जाता है] ।

spermoblast—(Gk. *sperma*, seed; *blastos*, bud) वीर्याणुज ।

spermocarp—(Gk. *sperma*, seed; *karpos*, fruit) निषिक्त डिम्ब पूर्वज कोशिका; निषिक्तांड फलिका ।

spermocentre—(Gk. *sperma*, seed; L. *centrum*, a centre) वीर्याणु सेंट्रोसोम; वीर्याणु केन्द्र पिण्ड; (male centrosome) ।

spermoderm—(Gk. *sperma*, seed; *derma*, skin) बीजावरण; बीजाच्छद् ।

spermogoniferous—(Gk. *sperma*, seed; *gonos*, offspring; L. *ferre*, to carry) बीजाणुघानी-धर; वीर्याणु सम्पुटी ।

spermogonium—(Gk. *sperma*, seed; *gonos*, offspring) वीर्याणु सम्पुट ।

spermogonous—(Gk. *sperma*, seed, *gonos*, offspring) वीर्याणु सम्पुटक ।

spermology—(Gk. *sperma*, seed; *logos*, discourse) बीज विज्ञान; शुक्राणु विज्ञान ।

spermotheca—(Gk. *sperma*, seed; *theke*, case) वीर्य कोषिका; वीर्य ग्राहिका; मैथुन (copulation) में

प्राप्त वीर्याणुओं को ग्रहण करने वाली कोषिका (sac या chamber) ।

spermozeugma—(Gk. *sperma*, seed; *zeugma*, bond) वीर्याणु सस्लेप ।

sphacelate—(Gk. *sphakelos*, gangrene) क्लिष्ट; विशीर्ण ।

sphacelia—(Gk. *sphakelos*, gangrene) स्फासलिया; फंगस के वर्धन में कवक जाल के टूटकर बने अलैंगिक स्पोराणु जो दहक (sclerotium) या अर्गट (ergot) बनाते हैं ।

sphaeraphides—(Gk. *sphaira*, globe; *raphis*, needie) कैल्शियम अॉक्सलेट के सूच्याकार स्फटिक (क्रिस्टल) का जमाव; वनस्पति कोशिकाओं में सूक्ष्म स्फटिकों के गोलाकार पुंज ।

sphaerenchyma—(Gk. *sphaira*, globe; *engchyma*, juice) स्फेरेंगकिमा; गोलाकार कोशिकाओं के ऊतक ।

sphaeridia—(Gk. *sphaira*, globe; *idion*, dim) गोलिका ।

sphaeroid—(Gk. *sphaira*, globe; *eidos*, form) वतुल; गोलाकार; गोलोपम ।

sphaeroblast—(Gk. *sphaira*, globe; *eidos*, formed) जीवज कल्पित जीवाणु कोशिका जैसे वायोब्लास्ट (bioblast) ।

sphagnicolous—(Gk. *sphagnos*, moss; L. *colere*, to inhabit) शैवाल वासी; काई वासी ।

spheno-ethmoid—(Gk. *sphen*, wedge; *ethmos*, sieve; *eidos*, form) स्फीनेथमाइड; पञ्चटास्थि; जतुभ्रंशिका ।

sphenoid—(Gk. *sphen*, wedge; *eidos*, form) स्फीनॉइड; संपीडास्थि; जतुक ।

sphenoidal—(Gk. *sphen*, wedge; *eidos*, form) स्फीनोइड सम्बन्धी; संपीडास्थिक; जतुक ।

sphenolateral—(Gk. *sphen*, wedge; L. *latus*, side) पार्श्व जतुक; स्फीनोलेटरल (उपास्थि); सम्बन्धक (trabecular) के समानान्तर एक पृष्ठीय युगल उपास्थि ।

sphenomandibular—(Gk. *sphen*, wedge; L. *mandibulum*, jaw) जतुक-अधोहचरिकाक; स्फीनोइड और मैन्डिबल सम्बन्धी (लिगामेंट) ।

sphenomaxillary—(Gk. *sphen*, wedge; *maxilla*, jaw) जतुक-ऊर्ध्वहनु-; स्फीनोइड और मैक्सिला सम्बन्धी ।

sphenopaletine—(Gk. *sphen*, wedge; L. *palatus*, palate) जतुक-तालव्य; स्फीनोइड और पैलेट (तालु) सम्बन्धी ।

sphenoparietal—(Gk. *sphen*, wedge; L. *paries*, wall) जतुक-पैराइटल (कपाल अस्थि); स्फीनोइड और पैराइटल सम्बन्धी ।

sphenopterygoid—(Gk. *sphen*, wedge; *pteryx*, wing; *eidōs*, form) जतुक-त्र्यंगिका-; स्फीनोइड और टेरीगॉइड सम्बन्धी ।

sphenosquamosal—(Gk. *sphen*; wedge; L. *squama*, scale) जतुक-शल्कास्थि-; स्फीनाइड और स्ववैमोजल अस्थियों के बीच की सेवनी (suture) ।

sphenotic—(Gk. *sphen*, wedge; *ous*, ear) जतुकोपम; स्फीनोटिक; कई मत्स्यों में पाई जाने वाली पोस्ट फ्रन्टल (post-frontal) कपालास्थि ।

sphenoturbinal—(Gk. *sphen*, wedge; L. *turbo*, whirl) जतुक-घूर्णास्थि-; स्फीनोटरवाइनल; स्फीनोइड का पत्रक प्रवर्धन ।

spheraster—(Gk. *sphaira*, globe; *aster*, star) तारावृत्त; बहुकिरणी; गोलाकार दृढ़ या स्फीक्यूल (spicule); गोलतारक; स्फीरैस्टर ।

spheroidal—(Gk. *sphaira*, globe; *eidōs*, form) वृत्ती; गोलाभ ।

spherome—(Gk. *esphairomen*, made globular) भेदकण ।

spheromere—(Gk. *sphaira*, globe; *meros*, part) वृत्तखण्ड ।

spheroplasts—(Gk. *sphaira*, globe; *plastos*, formed) जीवज कण ।

spherula—(L. *sphaerula*, small globe) स्फेरुला; वृताकार दृढ़; निगोलिका ।

spherulate—(L. *sphaerula*, small globe) लघु-वृतावरणी; छोटे-छोटे गोलों से ढका हुआ ।

sphincter—(Gk. *sphinggein*, to bind tight) स्फिन्क्टर; संवरणी; प्रवरोधनी; छिद्रावरोधक पेशी;

वह पेशियां जो छेदों के चारों ओर गोलाकार स्थित रहती हैं ।

sphragidal—(Gk. *sphragis*, seal) श्यानी ।

sphragis—(Gk. *sphragis*, seal) श्यान ।

sphygmie—(Gk. *sphygmos*, pulse) हृदयोद्धर्षी; आंकुचन द्वितीय अवस्थिति ।

sphygmoid—(Gk. *sphygmos*, pulse; *eidōs*, form) नाड़ियोपम ।

sphygmus—(Gk. *sphygmos*, pulse) नाड़ी (नाडि) नब्ज ।

spicate—(L. *spica*, spike) स्वाइकघर; कीलकी; कणिशघर ।

spicose—(L. *spica*, spike) स्वाइक युक्त ।

spicula—(L. *spicula*, small spike) लघुकीलक; कंटिका ।

spicular—(L. *spicula*, small spike) कीलक युक्त; दृढ़ या स्फीक्यूल युक्त कांटेदार नोकदार ।

spiculate—(L. *spicula*, small spike) लघुकीलकी-; दृढ़ या स्फीक्यूल ।

spicule—(L. *spicula*, small spike) स्फीक्यूल; दृढ़; दृढ़क; कंटिका; (१) अपृष्ठ दण्डी (invertebrates) में खरिक्मय या चूर्णमय (calcareous) सुई के आकार की आकृतियां; (२) छिद्र देहियों (sponges) का अस्थि पंजर ।

spiculiferous—(L. *spicula*, small spike; *ferre*, to carry) कणिषी; दृढ़ या स्फीक्यूल घारी; कंटिका घारी ।

spiculiform—(L. *spicula*, small spike) कणिषोपम; दृढ़ोपम ।

spiculum—(L. *spicula*, small spike) स्वाइकूलम; कणिष; स्त्रिकूलम; शिखात्र ।

spider—(A. S. *spinnan*, to spin) लूता; मकड़ी; उर्ण नाभ; स्वाइडर ।

spider cells—उर्णनाभ-कोष्ठ; लूता कोशिका ।

spigelian—(A. van, den, *spiegel* or *spigelius*, flemish anatomist) स्वाइगेलियन (यकृत खण्ड) ।

spigots—(L. *spica*, spike) तांतवांग; मकड़ी या रेगम के कीड़े का कातने वाला अंग ।

spike

spike—(L. *spica*, *spike*) स्वाइक पुष्पक्रम—यह असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम (racemose inflorescence) होता है। इसमें बड़ी हुई रेकिस (पुष्पाक्ष) पर अवृत्त पुष्प अग्रामिसारी क्रम (acropetal succession) में लगे रहते हैं। इसके रूपान्तर संयुक्त स्वाइक तथा स्वाइकिका (spike of spikelets) आदि होते हैं। उदाहरण—लटजीरा (chaff flower); पिपलामूल (piper-longum)।

spikelet—(L. *spica*, *spike*) स्वाइकिका; घासों का द्वितीयक स्वाइक (secondary spike)।

spina—(L. *spina*, *spine*) कंटक; कंट; स्वाइना।

spinal—(L. *spina*, *spine*) सुपुम्नीय; सुपुम्ना सम्बन्धी।

spinal canal—सुपुम्ना नलिका।

spinal cord—सुपुम्ना; मेरु रज्जु।

spinal column—मेरुदण्ड; रीढ़।

spinalis—(L. *spina*, *spine*) स्वाइनेलिस; कशेरुकों (vertebrae) को संयुक्त करने वाली मांसपेशी।

spinate—(L. *spina*, *thorn*) कण्टकी; शूल।

spination—(L. *spina*, *thorn*) कण्टक न्यास; शूलन।

spindle—(A. S. *spinman*, to spin) तुकु; तरकुट; तकुआ।

spindle shaped—तकु टाकार; तकु रूपी।

spine—(L. *spina*, *spine*) (१) कण्टक; शूल; तेज नोकीला प्रवर्द्धन (हड्डी आदि का)। (२) पृष्ठ वंश; रीढ़।

spinescent—(L. *spinescere*; to become spiny) सकण्टकी; गोपुच्छाकार।

spiniferous—(L. *spine*, *spine*; *ferre*, to carry) शूली; शूलधारी।

spiniform—(L. *spina*, *spine*; *forma*, shape) कण्टकोपम; शूलवत्।

spinneret—(A. S. *spinman*, to spin) तन्तु वाय यन्त्र; वायन ग्रन्थि; वयित्र; स्पिनरेट।

spinnerule—(A. S. *spinman*, to spin) कौशेय वाहक।

spinning glands—कर्तक ग्रन्थि; वयन ग्रन्थि; कौशेय ग्रन्थि; वह ग्रन्थियाँ जो मकड़ी को जाला बनाने के लिये तथा रेशम के कीड़े को रेशम बनाने के लिए पदार्थ देती हैं।

spinose—(L. *spina*, *spine*) बहुकण्टकी।

spinous—(L. *spina*, *spine*) सकण्टक; शूलमय; कण्टकी; काँटेदार।

spinous process—सुपुम्ना प्रवर्धन; तोरण कूट।

spinulate—(L. *spinula*, small spine) लघुकण्टकी।

spinulation—(L. *spinula*, small spine) कण्टकी रक्षावरण।

spinule—(L. *spinula*, small spine) लघुकण्टक (शूल या काँटा); शूलिका।

spinulescent—(L. *spinula*, small spine) शूल प्रवृत्तिक।

spinuliferous—(L. *spinula*, small spine; *ferre*, to bear) शूलिकाधारी।

spinzfinned—शूलकिरणी क्षेपणीयुक्त।

spiracle—(L. *spiraculum*, air hole) स्वाइरकल; वात छिद्र; श्वास रन्ध्र;

१—प्रथम कण्टकीय छिद्र (pharyngeal aperture) या दैहिक दरार (visceral cleft)।

२—मत्स्यों में टायड वलय और मँडीबुलर वलय (arch) के मध्य का क्लोम पथ (branchial passage);

३—टेडपोल (tadpole) में पार्श्व-क्लोम छिद्र।

४—सिटेशिया (catacea) में नासा छिद्र।

५—स्केट (skete) और रे (ray) मत्स्यों में चक्षु के पीछे स्थिति श्वास-छिद्र।

६—कीटों का श्वासन छिद्र।

७—ब्लास्टोइडिया (Blastoidea) में मुँह को घेरे हुए पाँच छिद्रों में से कोई एक।

spiracular—(L. *spiraculum*, air-hole) वातछिद्री; श्वास छिद्र युक्त; श्वासरंध्री।

spiraculate—(L. *spiraculum*, air-hole) वात-छिद्रक।

spiraculiform—(L. *spiraculum*, air-hole; *forma*, shape) वातछिद्रोपम; वातछिद्र रूपी।

spiral—(L. *spira*, coil) चक्राकार; सर्पिल; पेंचदार।

spiralia—(L. *spira*, coil) सर्पिल संरचना; स्तम्भित कुण्डलीय आकृति।

spiral, oblique or alternating cleavage—सर्पिल या तिरछा या वैकल्पिक विदलन।

spiral valve—सर्पिल कपाट; टिलियोस्ट के अतिरिक्त सब ही मत्स्यों में अंत्रभित्ति का सर्पिल (चक्राकार) अन्तर्वलन।

spiral vessels

spiral vessels—सर्पिल वाहिनियाँ; रंभ के प्रथम जाइलम तत्व—जो सर्पिल सूत्रों के रूप में नलिकाओं के अन्दर कुण्डलित रहते हैं जिससे वे शीघ्र दैर्घ्यवृद्धि (increase in length) के लिये अनुकूलित होते हैं ।

spiranthy—(Gk. *speira*, coil; *anthos*, flower) पुष्पांश स्थानभ्रंशता; व्यावर्तन से पुष्प के भागों का स्थानान्तरण ।

spiraster—(L. *spira*, coil; *aster*, star) चक्र-किरणी दृढ़ या स्पीक्यूल; सर्पिलतारक; स्पाइरैस्टर ।

spire—(L. *spira*, coil) उत्सेध; मोनार; शिखर; संसर्पिल ।

spireme—(Gk. *speirema*, coil) स्पाईरीम; शुल्की; अष्टोत्सेध ।

spiricles—(L. *spira*, coil) बीज चोल प्रवर्ध ।

spiriferous—(L. *spira*, coil; *ferre*, to bear) जिह्मी; सर्पिल आकृतिक ।

spirillum—(L. *spirillum*, small coil) जिह्मक ।

spirivalve—(L. *spira*, coil; *valvae*, folding doors) व्यावर्तीकपाट; सर्पिल कपाटी ।

spiroid—(L. *spira*, coil; Gk. *eidōs*, form) व्यावर्तीकपम ।

spironeme—(L. *spira*, coil; Gk. *nema*, thread) व्यावर्तीसूत्र; सर्पिल सूत्री ।

spirulate—(L. *spira*, coil) व्यावर्ती ।

splanchnic—(Gk. *splanchnon*, entrail, *koilos*, hollow) पुरीतत; देहांगिक; अंतरंग ।

splanchnocoel—(Gk. *splanchnon*, entrail; *koilos*, hollow) देहांगिक कोटर; अंतरंग पूर्वगुहा ।

splanchnocranium—देहांहिक कपाल ।

splanchnology—(Gk. *splanchnon*, entrail; *logos*, discourse) देहांगीय विज्ञान; शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जिसका सम्बन्ध आन्तरिक अंगों से रहता है ।

splanchnology—(Gk. *splanchnon*, entrail; *logos*, discourse) देहांग विज्ञान; कायकी विज्ञान (anatomy) की वह शाखा जिसमें देहांग (viscera) का अध्ययन किया जाता है ।

splanchnopleure—(Gk. *splanchnon*, entrail; *pleura*, sida) अन्तर्भित्ति; मध्यस्तर (mesoblast) की आन्तरिक तह, जो आन्तरिक अङ्गों (viscera) से संलग्न (applied) रहती है ।

spleen—(Gk. *splen*, spleen) प्लीहा, तिल्ली; कशेरुकी (vertebrates) का वह अंग, जिसमें लसिकाणु (lymphocytes) वनते हैं तथा रक्तानु (red blood corpuscles) नष्ट होते हैं ।

splenetic—(Gk. *splen*, spleen) प्लैहिक; प्लीहा सम्बन्धी ;

splenia—(L. *splenium*, a patch) स्प्लेनियल ।

splenic—(Gk. *splen*, spleen) प्लैहिक; प्लीहा सम्बन्धी ।

splenium—(L. *splenium*, patch) निषिप; क्लोसम पिण्ड का पश्च तट; पट्टिका; स्प्लीनियम ।

splenius—(L. *sulenips*, a patch) स्प्लेनियस; सिर को खड़ा रखने वाली गरदन की पेशी ।

splenocyte—(Gk. *splen*, spleen; *kytos*, hollow) प्लीहा कोशिका; पुरारक्त (endothelial) कोशिका; दीर्घ एक केन्द्रक श्वेताणु ।

splenophrenic—(Gk. *splen*, spleen; *phren*, midriff) स्प्लीनोफ्रेनिक; स्प्लीन (प्लीहा) और माय पट (डायाफ्राम) से सम्बन्धित ।

spondyl—(Gk. *spondylos*, vertebrae) कशेरु ।

spondylus—(Gk. *spondylos*, vertebrae) कशेरुक; स्पॉन्डीलस ।

sponge—(Gk. *spongia*, sponge) स्पंज; छिद्रदेही (porifera) संघ (phyla) का एक जन्तु विशेष ।

spongicolous—(L. *spongia*; *spenge*; *colere*, to inhabit) स्पंजवासी; छिद्रदेहियों (sponges) के शरीर के अन्दर वास करने वाला ।

spongin—(L. *spongia*, sponge) स्पंजिन; वह विशेष कार्बनिक या ऑर्गेनिक (organic) पदार्थ, जिससे छिद्र-देहियों (sponges) का कंकाल बना होता है ।

sponginblast—(L. *spongia*, sponge; Gk. *blastos*, bud) स्पंजिनोत्पादक कोशिका; स्पंजिन कोरक ।

spongioblasts—(Gk. *spongia*, sponge; *blastos*, bud) अविच्छिद्, भ्रूणिक कोशिका; स्पंजिनोब्लास्ट ।

spongiocyte—(Gk. *spongia*, sponge; *kytos*, hollow) स्यली कोशिका; स्पंजाणु ।

spongioplasm—(Gk. *spongia*, sponge; *plasma*, mould) कणमय जीवन तत्व; कोशिका द्रव्य जाल ।

spongiouse—(L. *spongia*, sponge) स्पंजीक ।

spongophore

spongophore—(Gk. *sponggos*, sponge; *pherein*, to bear) स्पंजधारी ।

spongophyll—(Gk. *sponggos*, sponge; *phyllon*, leaf) स्पंज-पर्णी; विरल मृदूतक (parenchyma) युक्त पर्ण, जिसमें खंभ-ऊतक (palisade tissue) ऊर्ध्व व निम्न अधि चर्म (epidermis) के मध्य में होता है—जैसे कुछ जलीय पौधे (aquatics) ।

spongy parenchyma—छिद्रीय मृदूतक; विरल स्पंजी मृदूतक । पत्ती के नीचे के तल पर ढीला ऊतक जिसके बीच-बीच में अत्यधिक कोशिकान्तर स्थल होता है ।

spongy—(L. *sponggos*, sponge) छिद्रिष्ठ; छिद्र युक्त; शोषण शील; स्पंजी ।

spontaneous generation—निर्जीवी-जीवोत्पत्ति; निर्जीव से जीवोत्पत्ति; स्वयं उत्पत्ति (स्वयमुत्पत्ति) ।

spoon—चमस; कंबि; चम्मच; (१) द्विपक्ष (डिप्टेरा (Diptera) में भार संधानकों (balancers) के आधार पर स्थित एक लघु पट्टिका (sclerite)—उपपक्ष (tegula); या पक्षांत (pinion) ।

sporabola—(Gk. *sporos*, seed; *bolos*, a throw) बीजाणु प्रक्षेप; बीजाणु (स्पोर) का संछेदी या प्रक्षेप-पथ जो प्रांगुल (sterigma) से विसर्जित (discharged) होता है ।

sporadic—(Gk. *spordikos*; scattered) कदाचनिक या यत्रतत्रिक (वनस्पति); ऐसे पौधे जो परिमित स्थानों से ही बन्धे होते हैं ।

sporadim—(Gk. *sporaden*, scattered about) चल-पोषज; स्पेराडिन; गिगराइनस (gregarines) के पोषज trophozoites) जो अन्न-प्रणाली कोटर (gut lumen) में गति करते रहते हैं ।

sporange—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) स्पोर-कोष ।

sporange—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) स्पोर कोष; बीजाणुधानी ।

sporangial—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) स्पोरैजियल; बीजाणुधानी सम्बन्धी ।

sporangiiferous—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel; L. *ferre*, to bear) बीजाणुधानी धर ।

sporangiiform—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel; L. *foma*, shape) बीजाणुधानी सदृश ।

sporangiocarp—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel; *karpos*, fruit) परिवेष्ट बीजाणुधानी; ऐस्कोकार्प; कवक फलभित्ति (peridium) से घिरी हुई स्पोरपुंज और वंध्य कवक जात से बनी एक आकृति ।

sporangiolum—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) लघु बीजाणुधानी; द्वितीयक या छोटी कम स्पोर युक्त बीजाणुधानी ।

sporangiophore—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel; *pherein*, to bear) बीजाणुधानी धारक ।

sporangium—(Gk. *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) स्पोर कोषक; बीजाणुधानी ।

spore—(Gk. *sporos*, seed) स्पोर; बीजाणु या जीवाणु जो बढ़कर एक नवीन प्राणी बन जाता है ।

spore formation—स्पोर जनन; रेणु उत्पादन ।

spore mother cells—स्पोर मातृ कोशिका ।

sporetia—(Gk. *sporos*, seed) स्पोरेशिया; इडियो-क्रोमेटिया; जनक क्रोमेटिन का क्रोमेटिया (रज्योपकणिका) स्पष्ट (इडियो) रज्योप्रकणिका (Idiochromidia) ।

sporidiferous—(Gk. *sporos*, seed; L. *ferre*, to bear) स्पोरीडियाधारी; बीजाणुकधारी ।

sporidiole—(Gk. *sporos*, seed) आयवेसिडियम (प्रोटोप्लासीडियम); प्राक्कवक तन्तु (प्रोमाइसीलियम) से बनने वाला बीजाणुक (sporidium); बीजाणुज कोशिका ।

sporidium—(Gk. *sporos*, seed; *idion*, dim) आद्य बीजाणुक; ऐस्कोस्पोर ।

sporiferous—(Gk. *sporos*, seed; L. *ferre*, to bear) स्पोरधारी ।

sporification—(Gk. *sporos*, seed; L. *facere*, to make) स्पोर निर्माण ।

sporiparity—(Gk. *sporos*, seed; L. *parere*, to beget) स्पोरोत्पादन; स्पोरजनन ।

sporiparous—(Gk. *sporos*, seed; L. *parere*, to beget) स्पोरोत्पादी ।

sporoblast—(Gk. *sporos*, seed; *blastos*, bud) स्पोर-कोशिका; स्पोरज; बीजाणुकोरक ।

sporocarp—(Gk. *sporos*, seed; *karpos*, fruit) ऐस्कोकार्प; परिवेष्ट बीजाणुधानी ।

sporocyst—(Gk. *sporos*, seed; *kystis*, bladder) स्पोर सिस्ट; स्पोर स्योति; बीजाणु पुटी ।

sporocystid—(Gk. *sporos*, seed; *kystis*, bladder; *-idos*, form) स्पोर-सिस्टज ।

sporocyte—(Gk. *sporos*, seed; *kytos*, hollow) स्पोर मातृ कोशिका ।

sporodochium—(Gk. *sporos*, seed; *docheion*, holder) स्पोरोरोकियम; कोनिडियमघरों का अर्धगोला-र्धाय जमाव ।

sporoduct—(Gk. *sporos*, seed; L. *ducere*, to lead) स्पोर प्रसारक नलिका ।

sporogenesis—(Gk. *sporos*, seed, *genesis*, descent) स्पोर उत्पादन; रेणुजनन; बीजाणुजनन ।

sporogenous—(Gk. *sporos*, seed; *gennaen*, to produce) स्पोरज; बीजाणुजन ।

sporogonial—(Gk. *sporos*, seed; *gonos*, offspring) स्पोरोगोनियस सम्बन्धी ।

sporogonium—(Gk. *sporos*, seed; *gonos*, offspring) स्पोरोगोनियम; बीजाणुक निर्माण । स्त्रीधानी (archegonium) के निषिक्त अंडगोल (oosphere) से वर्धित संरचना जो माँस (masses) में अलैंगिक बीजाणुक बनाती है ।

sporogony—(Gk. *sporos*, seed; *gemmaen*, to produce) स्पोरोत्पादन विधि; बीजाणु उद्भवन ।

sporoid—(Gk. *sporos*, seed; *eidos*, like) स्पोरोपम ।

sporokinete—(Gk. *sporos*, seed; *kinein*, to move) स्पोर कृमिकाणु; स्पोराणुक; गति युक्त स्पोर; चर बीजाणु ।

sporont—(Gk. *sporos*, seed; *on*, being) स्पोरोन्ट; बीजाणुजन, स्पोरोजोआ (sporozoa) के जीवन चक्र में जन्मुमातृ कोशिका (gametocyte) ।

sporophore—(Gk. *sporos*, seed; *pherein*, to bear) स्पोरधारी; बीजाणुधर ।

sporophydium—(Gk. *sporos*, seed; *phyus*, shoot; *idion*, dim) स्पोरोफिडियम; बीजाणु प्रारोह; कुछ थैलोफाइट्स (thallophytes) की बीजाणुधानी (sporangium) ।

sporophyll—(Gk. *sporos*, seed; *phyllon*, leaf) स्पोर-पर्ण; बीजाणु पर्ण ।

sporophyte—(Gk. *sporos*, seed; *phyton*, plant) बीजाणु उद्भिद; बीजाणु पादप;

१-फर्न में बीजाणुधानीयुक्त बीजाणुपर्ण से ढका हुआ स्तम्भ ।

२-वनस्पति उत्पत्ति विपर्यय संततिधरो में दुगुणित स्पोर-जनन स्थिति (diploid spore producing phase) ।

[देखिए—gametophyte—युग्मकोद्भिद]

sporoplasm—(Gk. *sporos*, seed; *plasma*, mould) स्पोर जीवन सत्व; स्पोरोजोइट; बीजाणु द्रव्य ।

sporosac—(Gk. *sporos*, seed; L. *saccus*, sack) स्पोर थैली; बीजाणु कोष ।

sporozoa—(Gk. *sporos*, seed; *zoon*, animal) स्पोरोजोआ ।

sporozoid—(Gk. *sporos*, seed; *zoon*, animal) स्पोराणुक; संघकोष्ठ ।

sporozoite—(Gk. *sporos*, seed; *zoon*, animal) स्पोरोजोइट; बीजाणुज ।

sporozont—(Gk. *sporos*, seed; *zoon*, animal) स्पोरोजोन्ट; स्पोराणु; रेणु जीवक ।

sport—आखेट ।

sporulation—(L. *sporula*, small seed) स्पोर जनन; स्पोरोद्धार; बीजाणु जनन; स्पोर त्राण; बहु कोशिका भंजन द्वारा भ्रूणस्तवक (brood) का वनना ।

spot—बिन्दु ।

spotting—चिन्हन ।

spur—(A. S. *spora*, spur) प्रचोदन; कंट; पदकंट; स्पर; नख; शुडिका; दलपुट ।

spuriae—(L. *spurius*, false) उपपक्ष (एलूला) या वास्टर्डपक्ष (bastard wing) के पंख—पक्षियों के डैने की प्रथमांगुलि के तीन पिच्छ मूल (कुइल) ।

spurious—(L. *spurius*, false) कृत्रिम; कल्पित; मिथ्या ।

squama—(L. *squama*, scale) शल्क; वल्क; शल्किका ।

squamate—(L. *squama*, scale) शल्की ।

squamation—(L. *squama*, scale) शल्क न्यास ।

squamella—(Dim. of L. *squama*, scale) लघु शल्क; सहपत्र; पेलिया ।

squamellate

- squamellate—(L. *squama*, scale) लघुशल्की ।
 squamiferous—(L. *squama*, scale; *ferre*, to bear) शल्की; शल्कधारी ।
 squamiform—(L. *squama*, scale; *forma*, shape) शल्कोपम; शल्करूपी ।
 squamosal—(L. *squama*, scale) स्क्वेमोजल-अस्थि विशेष; शल्कास्थि ।
 squamosse—(L. *squama*, scale) शल्की ।
 squamata—(L. *squama*, scale) स्क्वेमेटा; शल्किन (सर्पक वर्ग) ।
 squamous—(L. *squama*, scale) शल्काकार ।
 squamous epithelium—शल्क-अधिच्छद्; शल्की खचित-अधिच्छद् ।
 squamula—(L. *squama*, scale) लघु शल्क; (१) कुछ कीटों में उपपक्ष (tegula); (२) घासों में सूक्ष्म कलाजाल शल्क-लॉडिक्यूल (lodicule); (३) जिम्नोफायोना (Gymnophiona) में कोई एक लघु गोलाकार क्षेत्र जिसमें कोषिका शल्क विभाजित होते हैं ।
 squamulate—(L. *squama*, scale) लघु शल्की ।
 squarros—(L. L. *squarrosus*, scurfy) रूक्षी; दृढ़ पर्ण या प्रलंबित शल्कों के कारण रूक्ष (rough) ।
 squarrose—(L. L. *squarrosus*, scurfy) रूक्षाभासी ।
 squirrel—(dim of L. *sciurus*) गिलहरी; चमर पुच्छ; चित्तुरी; कलन्दक ।
 stable—(L. *stabilis*, to stand) (१) स्थाई; (२) अस्थिर ।
 stadium—(L. *stare*, to stand) स्टेडियम; (१) पट-पादों (insects) में केंचुली बदलने या प्रपतन के बीच का समय; (२) जन्तु के जीवन इतिहास की एक स्थिति ।
 stage—(L. *stare*, to stand) अवस्था; स्थिति ।
 stag-horned—(Icel. *stiga*, to mount; A.S. *horn*) स्टेग-शृंगक; महामृग शृंगक ।
 stagnant—बंधा हुआ; रुद्ध ।
 stagnicolous—(L. *stagnum*, standing water; *colere*, to inhabit) स्थिर जलवासी ।
 stalk cell—स्तम्भ कोशिका; बंध्य कोशिका ।

- stalk eyed—स्तम्भ नेत्रक; डन्ठल या स्तम्भ लगी हुई आँख वाला ।
 stamen—(L. *stamen*, warp) पुंकेसर; मुख्यभाग प्रत्येक पुंकेसर में पुंतन्तु (filament), परागकोश (anthers) और जो योजी होते हैं आपस में परस्पर जुड़े रहते हैं । यह पुष्प का नर अंग होता है । पुंकेसर मिलकर पुमंग (androecium) बनाते हैं ।
 staminal—(L. *stamen*, warp) पुंकेसर सम्बन्धी ।
 staminate—(L. *stamen*, warp) पुंकेसरी; पुंकेसर-युक्त ।
 staminiferous—(L. *stamen*, warp, *ferre*, to bear) पुंकेसरधारी ।
 staminode—(L. *stamen*, warp; Gk. *eidos*, form) बंध्य पुंकेसर ।
 staminody—(L. *stamen*, warp; Gk. *eidos*, form) पुंकेसर रूपण ।
 stapedius—(L. *stapes*, stirrup) स्टैपीडियस; स्टैपीज (stapes) कान की उपास्थि से लगी हुई मांस पेशी अर्थात् ।
 stapes—(L. L. *stapes*, stirrup) स्टैपीज; रकाव ।
 starch—(A. S. *stearc*, stiff) माढ़ी; कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन युक्त यौगिक—[सूत्र (C₆H₁₀O₅)_n] ।
 stasimorphy—(Gk. *stasis*, standing; *morphe*, form) अतिक्रमाकृति, अवरूद्ध वर्धन के कारण आकृति का अतिक्रम (deviation) ।
 stasis—(Gk. *stasis*, standing) निरूद्धता; अवरूद्धता; शरीर के रुधिर इत्यादि घातुओं की गति की रुकावट ।
 static—(Gk. *statikos*, causing to stand) स्थिर ।
 statoblast—(Gk. *statos*, stationary; *blastos*, bud) स्थिरज; स्थिराकुर; अचल कोरक ।
 statocone—(Gk. *statos*, stationary; *kanis*, dust) स्थिरांग; संतुलनरेणु ।
 statocyst—Gk. *statos*, stationary; *kystis*, bladder) स्थिति ज्ञापक; स्थिति कोशिका; समतुलन-पुटी; साम्यवेदी ।
 statocyte—(Gk. *statos*, stationary; *kytos* hollow) स्थिति कणिका; समतुलन-कण; संतुलनाणु ।

statolith—(Gk. *statos*, stationary; *lithos*, stone) खरिक कण; संतुलनाश्म ।

statorhab—(Gk. *statos*, stationary; *rhobdos* rod) स्थिति कणिका दण्ड; समतुलक-कण दण्ड ।

statospore—(Gk. *statos*, stationary; *sporos*, seed) निश्चेष्ट स्पोर; गति शून्य स्पोर (गोलाणु); आसुप्त बीजाणु ।

staurophyll—(Gk. *stauros*, palisade; *phyllon*, leaf) पूर्ण खंभ ऊतकी पर्ण ।

steapsin—(Gk. *stear*, tallow; *pepsis*, digestion) स्टीपसिन; एक प्रकार का क्षोभक रस ।

stearin—(Gk. *stear*, tallow) स्टीयेरिन; नेह या चर्बी (fat) का वह भाग जिसकी मोमवत्ती बनाई जाती है ।

steganopodous—(Gk. *steganos*, covered; *pous* foot) पूर्ण जालपादी ।

stege—(Gk. *stege*, roof) स्टीजे; स्टीगे; कोर्टीपटल; कोर्टी (carti) की शलाकाओं का अन्तःस्तर ।

stegocarpous—(Gk. *stegain*, to cover; *karpos*, fruit) सच्छद संपुटी ।

stegocrotaphic—(Gk. *stege*, roof; *krotaphos*, the temples) छिद्र कुटली; वह खोपड़ी (skull) जिसमें पृष्ठ भाग में नासिका; चक्षु तथा पैराइटल छिद्र होते हैं ।

stellar system—रंभ तंत्र; पीधों का संवाहक और उससे सम्बन्धित बन्धक ऊतकों का तंत्र ।

stela—(Gk. *stela*, pillar) रंभ; तने और जड़ में, रंभजन (plerome) से वधित संवाहक ऊतकों का एक मोटा संपूरक (strand) ।

stellar, stellate—(L. *stella*, star) तारोपम; ताराकार; तारकीय ।

stelocytтарous—(Gk. *stela*, pillar; *kyttaros*, honey-comb cells) स्तम्भ कंकती ।

[देखिये phragmocytтарous-ग्राधार कंकती]

stem—(A. S. *stemma*, tree stem) तना; पीधे की मुख्य अक्ष; तने में पर्व सन्धि या नोड्स (nodes) तथा पर्व या इण्टरनोड होते हैं और जहाँ से पत्तियाँ और शाखाएँ निकलती हैं ।

stemma—(Gk. *stemma*, garland) अक्षिका; नेत्रिका ।

stenobaric—(Gk. *stenos*, narrow; *baros*, weight) मितोच्चता वासी; तनुदावी; अल्पदावी ।

stenobathic—(Gk. *stenos*, narrow; *bathys*, deep) मितागाधवासी; अल्पगभीरी ।

stenochoric—(Gk. *stenos*, narrow; *cheros*, place) अल्प वंदित ।

stenohaline—(Gk. *stenos*, narrow; *halinos*, saline) मितलवणानुकूली; तनुलवणी ।

stenohygric—(Gk. *stenos*, narrow; *hygros*, wet) मितार्द्रवासी; अल्पाद्री ।

stenonotal—(Gk. *stenos*, narrow; *noton*, back) संवृत वक्षी; मितवक्षी; तनुवक्ष पृष्ठकी ।

stenopetalous—(Gk. *stenos*, narrow; *petalon*, leaf) तनु दली ।

stenophagous—(Gk. *stenos*, narrow; *phagein*, to eat) मिताहारी; तनुभक्षी; अल्प विष भक्षी ।

stenophyllous—(Gk. *stenos*, narrow; *phyllon*, leaf) तनुपर्णी ।

stenosepalous—(Gk. *stenos*, narrow; *F. sepal*, sepal) तनुवाह्यदली ।

stenostomatous—(Gk. *stenos*, narrow; *stoma*, mouth) मितमुखी ।

stenothermic—(Gk. *stenos*, narrow; *therme*, heat) मिततापी; तनुतापी ।

stenotopic—(Gk. *stenos*, narrow; *topos*, place) मितक्षेत्री; मित स्थानी; तनुस्थैतिक; अल्पस्थैतिक ।

stensen's duct—(N. *stensen*, Danish physiologist) स्टेन्सेन्स नलिका; पैराटाईड ग्रन्थिनलिका ।

stephanion—(Gk. *stephanos*, crown) शिरस वाहन; स्टीफैनियन ।

stercobillin—(L. *stercus*, dung, bilis, bile), स्टरकोविलिन; यूरोविलिन; मल का भूरा वर्ण, C₂₃H₄₂O₆N₄ ।

stercomarium—(L. *stercus*, dung) स्टरकोमारियम; मिश्रित विष्ठा तंत्र; कन्हीं सारकोडाइना (sarcodina) मिश्रित विष्ठा तंत्र ।

stercome—(L. *stercus*, dung) स्टरकोम; सारकोडाइना विष्ठा ।

stercoral—(L. *stercus*, dung) मल (विष्ठा) सम्बन्धी ।

- stereo—ठोस या घन अर्थ का उपसर्ग; स्टीरियो; त्रिविम ।
- stereoblastula—(Gk. *stereos*, solid; *blastos*, bud) स्थिर-ब्लैस्टूला, घनकोरक ऐसा एकीनोइड (echinoid) अर्भक जो असाधारण रचना के कारण द्विस्तर नहीं बन पाता है अर्थात् ब्लैस्टूला ही रह जाता है ।
- stereocilia—(Gk. *stereos*, rigid; L. *cilium*, eye-lash) अचलपक्षमाभिका; उपांड (एपिडिडिमिस) वाहिनी की अघिच्छद पर अचल सावी प्रवर्धन ।
- stereognostic—(Gk. *stereos*, solid; L. *gnoscere*, to know) संघात वेदी; स्थिर ज्ञापी; वह ज्ञानेन्द्रिय जिससे नाप, शकल तथा वजन का ज्ञान होता है ।
- stereokinesis—(Gk. *stereo*, solid; *kinesis*, movement) संपर्कगति; स्पर्शन्यास; घन गति क्रम ।
- stereome—(Gk. *stereos*, solid) स्टेरियोम; अबलंबोतक घन खंड ।
- stereoplasm—(Gk. *stereos*, solid; *plasma*, mould) घनिक तत्व; घन द्रव्य; जीवन तत्व या प्रोटोप्लाज्म (protoplasm) का अधिक घना भाग ।
- stereospondylous—(Gk. *stereos*, solid; *spondylous*, vertebrate) घना कशेरु; युक्तकशेरुकीय; संयुक्तांगी कशेरु; संयुक्त कशेरु; वह कशेरु जिसके भाग पूर्णतया मिश्रित एवं संयुक्त हों ।
- stereotaxy—(Gk. *stereos*, solid; *taxis*, arrangement) स्पर्श न्यासता, घनानुचलनता ।
- stereotropism—(Gk. *stereos*, solid; *tropē*, turn) आसंगवृत्ति; स्पर्श वृत्ति; अंगियों (organism) की ठोस वस्तुओं पर चिपकने की वृत्ति ।
- sterigma—(Gk. *sterigma*, support) प्रांगुल ।
- sterile—(L. *sterilis*, barren) वंध्य; बाँझ; निष्फल; रोगाणुरहित ।
- sterilise—(L. *sterilis*, barren) वधिया करना; अरुता करना; अनुर्वर करना ।
- sternal—(Gk. *sternon*, chest) (१) वक्षकीय; अघरकीय; वक्षास्थि; सम्बन्धी; (२) संलग्न; पर्श; ऐसी पसली (rib) जो वक्ष से लगी होती है ।
- sternebrae—(L. *sternum*, breast bone; *ebra*, on analogy of vertebra) स्टेर्नब्री ।
- sternellum—(dim. of L. *sternum*, breast bone) स्टेर्नेलुम; वक्षिका; उपाघरक ।
- sternite—(Gk. *sternum*, chest) वक्षपटल; अघरकांश ।
- sternoclavicular—(L. *sternum*, breast bone; *claviculum*, small key) स्टेर्नो-क्लैविकुलर; वक्ष-क्लैविकुली; ओस्थिजनुक हसुली की हड्डी तथा वक्षास्थि के मध्य की सन्धि ।
- sternocostal—(L. *sternum*, breast bone; *costa*, rib) वक्ष-पशुकी ।
- sternokleidomastoid—(Gk. *sternon*, chest; *kleis*, key; *mastos*, breast; *eidōs*, form) स्टेर्नो-क्लैडोमैस्टोइड (पेशी); गर्दन की तिरछी मांस पेशी जो वक्षास्थि (स्टर्नम) से स्तनोप प्रवर्धन (mastoid process) तक फैली हुई ।
- sternotribe—(Gk. *sternon*, chest; *tribein*, to rub) वक्ष मार्जनिक (पुष्प) ।
- sternoxiphoid—(Gk. *sternon*, chest; *xiphos*, sword; *eidōs*, form) वक्ष-खड्गाकार; स्टेर्नो-फोइड ।
- sternum—(L. *sternum*, breast bone) स्टेर्नम; वक्षक; वक्षास्थि; अघरपटल या अघर पट्ट; उरोस्थि; अघरक ।
- sterraster—(Gk. *sterros*, solid; *aster*, star) घन तारा विन्यास; घन तारक; ऐसा तारा विन्यास (aster) जिसकी किरणें ठोस रूप में सिलिका द्वारा जुड़ी रहती हैं ।
- sterrula—(Gk. *sterros*, solid) स्टेरूला; अलसायोनेरिया (alcyonaria) का ठोस, स्वतन्त्र, प्लाविक अर्भक ।
- stichidium—(Gk. *stichos*, row; *idion*, dim) चतुष्बीजाणुक पात्र; कुछ शैवाल (एल्गी) में चतुष्बीजाणुक पात्र ।
- stichochrome—(Gk. *stichos*, row; *chroma*, colour) निस्त्व पंकितक ।
- stigma, stigmata—(Gk. *stigma*, mark) (१) वात छिद्र; (संधिपादों में) (२) एक कोशिकीय के चक्षु चिह्न; (३) तितली आदि के पंख के रंगीन चिह्न ।
- stigmatic—(Gk. *stigma*, mark) वातछिद्री ।

- stigmatiferous—(Gk. *stigma*, mark; L. *ferre*, to carry) दातछिद्रधानी ।
- stimulant—(L. *stimulare*, to incite) उत्तेजक; उद्दीपक; प्रोत्साहक; उत्तेजना उत्पादक (stimulus producing) ।
- stimulation—(L. *stimulare*, to incite) उत्तेजना; उद्दीपन ।
- stimulose—(L. *stimulare*, to incite) (१) उत्तेज्य; उत्तेजित होने वाला (२) दशक सूत्री ।
- stimulus, stimuli—(pl.) (L. *stimulus*, good) उत्तेजना; उद्दीपक; उद्दीपन ।
- sting—(A. S. *stiugan*, to sting) दंश; डंक; जहर का दाँत ।
- stinging cell—दंशक कोशिका; दंश-कोशिका; दंशन कोशिका ।
- stipel—(L. *stipes*, stalk) अनुपर्णिका पत्रक के अनुपर्ण रूपक उद्वृद्धि (out growth) ।
- stipellate—(L. *stipes*, stalk) अनुपर्णिकी ।
- stipes—(L. *stipes*, stalk) उद्वृन्त; स्टाईपीज; छत्रिक-वृन्त ।
- stipiform—(L. *stipes*, stalk) उद्वृन्तोपम ।
- stipitate—(L. *stipes*, stalk) उद्वृन्ती ।
- stipular—(L. *stipes*, stalk) उद्वृन्ती; डण्ठली; अनुपर्णी ।
- stipular—(L. *stipula*, stem) स्टीप्यूल युक्त; अनु-पत्री ।
- stipulate—(L. *stipula*, stem) अनुपत्रक ।
- stipule—(L. *stipula*, stem) अनुपत्र; अनुपर्ण; पत्ती के आघार पर स्थित पत्तीनुमा, पंखनुमा या काँटेनुमा आकृति ।
- stipuliform—(L. *stipula*, stem; *forma*, shape) अनुपत्राकार ।
- stirp, stirps—(L. *stirps*, stock) प्रणुद; निषिक्त डिम्ब (fertilised ovum) में पाई जाने वाली जीवाणुओं (genus) की संख्या ।
- stock—(A. S. *stoc*, post) स्कन्ध; प्रभव; स्टाक (१) वृक्ष या भूप का वह तना जिसमें कलम लगाने हेतु कोरक (bud) लगाई जाती है ।
(२) जीवधन (live stock),

- (३) पोलिकीटा (Polychaeta) में कलिकोत्पादन या जेमोद्भवन (gemination) में अलैंगिक मुकुल द्वारा केवल एक लिंग के लैंगिक मुकुल का उत्पादन ।
- stolon—(L. *stolo*, shoot) स्टोलॉन; प्ररोहक; भूस्त्री; देहांकुर ।
- stolonate—(L. *stolo*, shoot) स्टोलॉनधारी; देहांकुरी ।
- stoma, stomata—(Gk. *stoma*, mouth) वर्तुल छिद्र; रंध्र; मुख; पत्रमुख; पत्रदलों की सतह में स्थित छोटे-छोटे छिद्र । निमेटोडों या सूत्र कृमियों (nematodes) में मुँह और गलनलिका (oesophagus) के बीच का भाग ।
- stomach—(Gk. *stomachos*, throat, gullet) आमाशय; मेदा (समासों में आमा—); जठर ।
- stomachic—(Gk. *stomachos*, gullet) आमाशयिक; उदर सम्बन्धी ।
- stomatal—(Gk. *stoma*, mouth) मुखछिद्री; मुख-छिद्रोपम; रंध्र; स्टोमी ।
- stomate—(Gk. *stoma*, mouth) मुखछिद्री; सरंध्र ।
- stomatiferous—(Gk. *stoma*, mouth; L. *ferre*, to carry) स्टोमाधारी ।
- stomatogastric—(Gk. *stoma*, mouth; *gaster*, stomach) मुख-आमाशयिक; मुख जठरी; मुख और आमाशय सम्बन्धी (तंत्रिका, रुधिर नलिका आदि) ।
- stomidium—(Gk. *stoma*, mouth; *idion*, dim) रंध्रक; अन्त्यमुखछिद्र; एकटीनियेरिया में स्पर्शकों के सिरे पर का छिद्र ।
- stomions—(Gk. *stomion*, small mouth) अन्तस्-च्छदी छिद्र ।
- stomium—(Gk. *stoma*, mouth) रंध्रक; सम्पुट छिद्र ।
- stomocoel—(Gk. *stoma*, mouth; *koirlos*, hollow) मुखगुहा ।
- stomodaeum—(Gk. *stoma*, mouth; *odaios*, part way) स्टोमोडियम; मुखगर्त; मुखपथ; अग्रान्त; अग्र नली का अग्रिम भाग ।
- stone—गुठली, अष्ठि; पत्थर ।
- stone cell—पाषाण-कोशिका; दृढ़-कोशिका ।
- strand—(see fibre) सूत्र; रज्जुक, स्ट्रान्ड; प्रपथ; लट्ट ।
- strangulated—(L. *strangulare*, to throttle) आकुंची ।
- stratification—(L. *stratum*, layer; *facere*, to make) स्तरीकरण; स्तरण; स्तर विन्यास ।

- stratified epithelium—तहदार अघिच्छद; स्तरित एपीथीलियम ।
- stratiform—(L. *stratum*, layer; *forma*, shape) स्तरोपम ।
- stratose—(L. *stratum*, layer) स्तरी; स्तरित; तहों या स्तरों में जमा हुआ ।
- stratum—(L. *stratum*, layer) फलक; स्तर; स्ट्रेटम ।
- stratum compactum—स्ट्रेटम काम्पेक्टम, निविड स्तर ।
- stratum corneum—स्ट्रेटम कॉर्नियम; कणी-स्तर ।
- stratum germinativum—मालपोगी स्तर; अंकुरण स्तर; स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ।
- stratum granulosum—स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम; कणी स्तर ।
- stratum lucidum—स्ट्रेटम लूसिडम; स्वच्छ स्तर; त्वचा के कणस्तर (stratum corneum) और कणी स्तर (stratum granulosum) के मध्य का कोशिका स्तर ।
- stratum spongiosum—स्ट्रेटमस्पंजियोसम; स्पंज स्तर; पत्था का पीछे का तीन चौथाई भाग ।
- stratum synoviate—स्ट्रेटम साइनोवियेट; स्नाहिक स्तर; सायनोविया कला ।
- strepsinema—(Gk. *strepsis*, twisting; *nema*, thread) व्यावृत सूत्र-स्थिति; कुंचित सूत्र; स्ट्रेप्सिनेमा; अर्धविभाजन (meiosis) की वह स्थिति जिसमें परम्परा सूत्र प्रायः मोटन या व्यावृत (twisted) दशा में होते हैं ।
- strepsitene—(Gk. *strepsis*, twisting; *tainia*, hand) व्यावृत सूत्र स्थिति; ह्रास विभाजन (meiosis) की वह स्थिति जिसमें द्विसूत्र स्थिति (diplotome) सूत्र व्यावृत (twisted) होते हैं ।
- streptostylic—(Gk. *streptos*, plant; *stylos*, column) अस्थिर क्वाडरेटी; चलस्तंभी ।
[देखिये monimostylic स्थिर क्वाडरेटी]
- stria—(L. *stria*, groove, channel) संकीर्ण रेखा; घारी ।
- striated—(L. *striatis*, grooved) घारीदार; रेखित ।
- stridulating organ—भ्रंशारांग; घर्षण-ध्वनि अंग; रगड़ कर भनभन शब्द निकालने वाला अङ्ग (टिड्डे आदि की टाँग पर स्थित) ।
- striga—(L. *striga*, ridge, furrow) कचोपम-शल्क; (bristle like scale) ।
- strigate—(L. *striga*, ridge) कचोपम शल्की ।
- strigilis—(L. *strigilis*, curry-comb) मृज; शहद की मक्खी की प्रथम टाँग पर स्थित कंचीनुमा वनावट, जिससे स्पर्श शृंग साफ किया जाता है ।
- strigillose—(L. *strigilla*, small ridge) सूक्ष्म लीकी ।
- strigose—(L. *striga*, ridge) संहत लोभी; सूक्ष्म लीकी; पिडलक; नतरोमी ।
- string—(L. *stringere*, to draw tight) शुल्व रज्जु; सूत्र, तार; तंतु, घागा ।
- striola—(L. *striola*, small channel) आवलि; सूक्ष्म संकीर्ण रेखा ।
- striolate—(L. *striola*, small channel) आवलिक ।
- striped—घारीदार; रेखित ।
- strebila—(Gk. *strobilos*, fir cone) निगड़; प्रशंखल; शृंखला खण्डमान; पट्टकृमियों (tape-worms) के शरीरांगों की एक शृंखला या निगड़ (chain) ।
- strobilaceous—(Gk. *strobilos*, fir cone) प्रशृंखली ।
- strobilation—(Gk. *strobilos*, fir cone) शृंखलीकरण) प्रशृंखलन; स्ट्रोविलेशन ।
- strobile—(Gk. *strobilos*, fir cone) प्रशृंखलिक ।
- strobiliferous—(Gk. *strobilos*, fir cone; L. *ferre*, to carry) शंकुघारी ।
- strobiloid—(Gk. *strobilos*, fir cone) शंकुखी, प्रशृंखलोपम ।
- strobilus—(Gk. *strobilos*, fir cone) प्रशृंखलिक; शंकु ।
- stroma—(Gk. *stroma*, bedding) आघरण; किसी अंग का ढाँचा (frame) ।
- stromatic—(Gk. *stroma*, bedding) आघरणी; पीठिकीय ।
- stromatolysis—(Gk. *stroma*, bedding; *lysis* loosening) आघरण नाशक या ह्रास ।
- strombuliferous—(dim. of L. *strombus*, spiral snail; *ferre*, to carry) चक्रांगी ।
- strombuliform—(dim. of L. *strombus*, spiral snail; *forma*, shape) चक्राकार; बर्तुलाकार ।

strongyle

strongyle—(Gk. *strongylos*, rounded) सूत्रदेही कुंठितांत (कंटिका) ।

strophiolate—(L. *strophiolum*, small garland) स्ट्राफिओलेट; शोधी हाइलम; हाइलम को घेरे हुए गंड ।

strophioles—(L. *strophiolum*, small garland) बीज चोलक; कैरकल बीज चोल पर छोटे गंड (शोफ) ।

struma—(L. *struma*, scrofulous tumour) शोफ, स्ट्रूमा; उत्सर्पिन । पादप अंग पर उत्सर्पिन (swelling) ।

strumiferous—(L. *struma*, tumour, *ferre*, to carry) शोफधारी ।

strumiform—(L. *struma*, wen; *forma*, shape) गद्देनुमा; मांसावुर्दोपम ।

strumose, strumulose—(L. *struma*, wen) मांसावुर्दी ।

structure—(L. *structura*, to build) रचना; बनावट; संरचना ।

struggle for existence—जीवन संग्राम; जीवन संघर्ष; जीवन स्थिति के लिये संघर्ष ।

stupeous—(L. *stupa*, tow) आस्तरण ।

stupulose—(L. *stupa*, tow) शण सूत्री ।

stylar—(L. *stylus*, pricker) शूकिकीय ।

stylate—(L. *stylus*, pricker) शूकिकी ।

style—(Gk. *stylos*, pillar; L. *stilus*, pricker) दण्ड; सूचि; शूकिका ।

stylét—(L. *stilus*, pricker) सूचिका; शूकिकायें ।

stylifer—(L. *stilus*, pricker; *ferre*, to carry) सूचिधर; शूकधर ।

styliferous—(L. *stilus* pricker; *ferre*, to carry) शूकधारी, सूचिधारी ।

styliform—(L. *stilus*, pricker; *forma*, shape) शूकोपम ।

stylocomic—(Gk. *stylos*, pillar; *konos*, cone) सूचि कीलकी ।

styloglossal—(Gk. *stylos*, pillar; *glossa*, tongue) सूचि-जिह्वी; शरजिह्विकीय ।

stylohyal—(Gk. *stylos*, pillar; *hyoeidos*, y-shaped) सूचि-हायल; शूककंटिका ।

stylohyoid—(Gk. *stylos*, pillar; *hyoeidos*, y-shaped) सूचि-हायड ।

styloid—(Gk. *stylos*, pillar; *eidos*, form) सूत्राकार; वतिकाम; शूकाम ।

stylomandibular—(Gk. *stylos*, pillar; L. *mandibulum* jaw) स्टाइलो-मेन्डीबुलर; टेम्पोरल अस्थि के स्टाइलोइड प्रवर्ध से ग्रथो तत्व के कोण तक फैला हुआ पेशी बंध (लिगामेंट) ।

stylo mastoid—(Gk. *stylos*, pillar; *mastos*, breast; *eidos*, like) स्टाइलो-मैस्टोइड; सूचि-हायड-प्रवर्ध और स्तनोपम (mastoid) प्रवर्ध के बीच का अस्थि छिद्र ।

stylopharyngeus—(Gk. *stylos*; pillar; *pharynx*, pharynx) स्टाइलो फैरिजियस (पेशी); सूचि-हायड प्रवर्ध और कण्ठ तक फैली हुई पेशी ।

stylopodium—(Gk. *stylos*, pillar; *pous*, foot) सूचिपाद; जंघा या उर्ध्व बाहु; वतिकपाद; स्टाइलोपोडियम ।

stylospere—(Gk. *stylos*, pillar; *sporos*, seed) वृत्त स्पोर; तन्तु बीजाणु; कोनीडियम ।

stylosporous—(Gk. *stylos*, pillar; *sporos*, seed) वृत्त-स्पोर सम्बन्धी ।

stylostegium—(Gk. *stylos*, pillar; *steges*, roof) अपतृण-किरीट; दुग्ध अपतृण (milk weed) पांशों का अन्तः किरीट (inner corona) ।

stylostome—(L. *stylus*, pricker; Gk. *stoma*, mouth) सूचिछिद्र; शर छिद्र; चिचड़ी या विट्थी (mite) द्वारा पोषक की त्वचा में बनाया हुआ छिद्र ।

stylus—(L. *stilus*, pricker) सूचि; नोकीला उभाड़; कंटिका; शूक ।

sub—अधः; अल्प; आधीन, सहायक उप, अर्थ का उपसर्ग ।
subabdominal—(L. *sub*, under; *abdomen*, belly) अधः उदरस्थ; अधोदरीय ।

subacuminate—(L. *sub*, under; *acumen*, point) अल्प शृंडाकृतिक ।

subaduncate—(L. *sub*, under; *aduncus*, hooked) अल्प नामित ।

subaerial—(L. *sub* under, *aer*, air) अल्प वायवी; भूपृष्ठीय ।

subalpine—(L. *sub*, under; *alpinus*, alpine) अघः अल्पाइन क्षेत्री; पहाड़ पर कम लकड़ी होने वाली जगह पर पाये जाने वाले प्राणी ।

subalternate—(L. *sub*, under; *alternus*, one after another) अल्पविकल्पक ।

subapical—(L. *sub*, under; *apex*, extremity) अघः शिखरस्थ; अल्प-मूर्धन्य; उपशिखाग्र ।

subarachnoid—(L. *sub*, under, Gk. *arachne*, spider's web; *eidōs*, form) अघः तन्त्रच्छद् (कोटर), तन्त्रच्छद् (arachnoid) और कोमलाच्छद् (piamater) के बीच की कोटर जिसमें प्रमस्तिष्क-मेरू (cerebro-spinal) तरल भरा रहता है ।

subarborescent—(L. *sub*, under; *arborescens*, growing into a tree) अघः वृक्षोपम ।

subarcuate—(L. *sub*, under; *arcus*, bow) अघः चाप; शिशुकपाल में एक अन्ध खात (blind fossa) जो उर्ध्व (सुपरा) अर्ध चन्द्राकार नलिका के पीछे तक फैला हुआ होता है ।

subatrial—(L. *sub*, under; *atrium*, ball) अघः अलिन्द; लेंसिलेट (lancelet) के वर्धन में वे अनुदैर्घ्य मेडें जो पश्चपाश्वरीय वलय (metapleural folds) की अन्तः पार्श्व ओर होती हैं तथा जो मिलकर अलिन्द का अघर भाग बनाते हैं ।

subauricular—(L. *sub*, under; *auricula*, external ear) अघःकर्ण; अघकर्णिक ।

subaxillary—(L. *sub*, under; *axilla*, arm-pit) अघःकक्षी ।

sub-basal—(L. *sub*, under; Gk. *basis*, foundation) अघः मूलक ।

sub-bronchial—(L. *sub*, under; *branchia*, gills) अघः गिली; अघक्लोमी ।

sub-bronchial—(L. *sub*, under; Gk. *brongchos*, wind pipe) अघः श्वास नलिका ।

sub-calcareous—(L. *sub*, under; *calcar*, spur) अघः चूर्णी; लगभग खरिकी (चूने युक्त)

subcalcarine—(L. *sub*, under; *calcar*, spur) सबकैल्केरिन; मस्तिष्क की जिह्वी घुमेड़ (gyrus); अघः कैल्कैर दरार ।

subcallosal—(L. *sub*, under; *callus*, hare skin)

अघः डेट; महासंयोजक पिंड (कार्पस कैलोसम के नीचे की घुमेड़ (gyrus) ।

subcampanulate—(L. *sub*, under; *campanula*, little bell) अल्पकार; उपघंटाकार ।

subcapsular—(L. *sub*, under; *capsula*, little chest) कोषिकान्तर; सम्पुट के अन्दर ।

subcardinal—(L. *sub*, under; *cardo*, hinge) उप-प्रमुख (शिरा); मध्यवृक्क (mesonephros) के बीच में युगल शिरायें (veins) ।

subcarinate—(L. *sub*, under; *carina*, keel) अल्प कीलोपम ।

subcartilaginous—(L. *sub*, under; *cartilago*, gristle) अल्प उपास्थिक; अघोपास्थिक ।

subcaudal—(L. *sub*, under; *cauda*, tail) अघः पुच्छी ।

subcaudate—(L. *sub*, under; *cauda*, tail) सपुच्छोपम; पुच्छ या पूंछ सदृश प्रवर्धन वाला; अघ-पुच्छी ।

subcaulescent—(L. *sub*, under; *caulis*, stalk) अतिलघुस्तम्भी; अल्पस्तम्भी ।

subcellular—(L. *sub*, under; *cellula*, small cell) कोशिकान्तरी; अघः-कोशिकीय; उपकोशिकीय ।

subcentral—(L. *sub*, under; *centrum*, centre) अघःकेन्द्री; उपकेन्द्री ।

subchea—(L. *sub*, under; Gk. *chele*, claw) अपूर्ण चंगुल; उपकरज ।

subchelate—अपूर्ण चंगुली; उपकरजक ।

subchordal—(L. *sub*, under; *chorda*, cord) अघः पृष्ठदण्डी; उपरज्जु- ।

subclavate—(L. *sub*, under; *clavus*, club) अल्प-मुद्गरोपम; उपमुद्गराकार ।

subclavian—(L. *sub*, under; *clavis*, key) सब क्लैवियन; अघःक्लैविकली; अघोजन्तुक ।

subclimax—(L. *sub*, under; Gk. *klimax*, ladder) उपचरम; उपपराकोटिक ।

subcoracoid—(L. *sub*, under; [Gk. *korax*, crow; *eidōs*, like) अघः कोराकाएड ।

subcordate—(L. *sub*, under; *cor*, heart) अल्प हृदयोपम; उपहृदयाकार ।

subcortical—(L. *sub*, under; *cortex*, bark) अधः वल्कीय; उपवल्कुटीय ।

subcosta—(L. *sub*, under; *costa*, rib) अधः पशुक; उपपशुका ।

subcostal—(L. *sub*, under; *costa*, rib) अधः पशुकीय; उपपशुक ।

subcoxa—(L. *sub*, under; *coxa*, hip) अधः कवचा; उपकक्षांग ।

subcrenate—(L. *sub*, under; L.L. *crena*, notch) अल्प कुण्डन्ती ।

subcrural—(L. *sub*, under; *crus*, leg) अधः अग्रजघेय (पेशी) ।

subcubical—(L. *sub*, under; *cubus*, cube) उपघनी (कोशिकायें) ।

subcutaneous—(L. *sub*, under; *cutis*, skin) अधः त्वच; अधः त्वचीय; अत्रत्वक ।

subcuticular—(L. *sub*, under; *cuticle*, cuticle) अधः वहिश्छद्; अधः त्वक; अत्रोपत्वचीय ।

subcutis—(L. *sub*, under; *cutis*, skin) अधः त्वचीय ।

subdentate—(L. *sub*, under; *dens*, a tooth) अल्प दंतुरित ।

subdermal—(L. *sub*, under; Gk. *derma*, skin) अधः अन्तश्छद्; उपचर्म ।

subdominant—उप प्रभावी ।

subdorsal—(L. *sub*, under; *dorsum*, back) उपपृष्ठीय ।

subdural—(L. *sub*, under; *durus*, hard) अत्रदृढ-तानिका ।

subepiglottic—(L. *sub*, under; Gk. *epi*, upon; *glatta*, tongue) अधः कण्ठ पिचानी ।

subepithelial—(L. *sub*, under; Gk. *epi*, upon; *thellein*, to grow) अधः अधिच्छद् ।

suber—(L. *suber*, cork tree) काग; काक ।

subereous—(L. *suber*, cork tree) काग तांतवी ।

suberiferous—(L. *suber*, cork-tree; *ferre*, to bear) कागोत्पादी ।

suberification—(L. *suber*, cork tree; *facere*, to make) कागरूपण ।

suberin—(L. *suber*, cork tree) सुबेरिन (मोमीया पदार्थ) ।

suberisation—(L. *suber*, cork-tree) सुबेरिनीकरण ।

suberose—(L. *suber*, cork-tree) कोर्की ।

subgalea—(L. *sub*, under; *galea*, helmet) अधः उष्णीय; अधः गैलिया; उपगेलिया ।

subgeniculate—(L. *sub*, under; *gericulum*, little knee) अल्प नती ।

subgenital—(L. *sub*, under; *genitalis*, genital) अधः जननांग; अत्रजनन ।

subglenoid—(L. *sub*, under; Gk. *glene*, socket; *eidōs*, form) अधःगिलेनोइड गर्त ।

subglossal—(L. *sub*, under; Gk. *glossa*, tongue) अधः जिह्वक ।

subhymenium—(L. *sub*, under; Gk. *hymen*, membrane) अधः हाइमीनियम ।

subhyoid—(L. under; Gk. *hyooides*, y-shaped) अधः हाएड ।

subiculum—(L. *subiculum*, under layer) अधः स्तर; किन्हीं फन्जाई का सूत्रीय कवक जाल ।

subimago—(L. *sub*, under; *imago*, imitation) उपप्रौढ़; अधः प्रौढ़ ।

subjugal—(L. *sub*, under; *jugum*, yoke) अधः जुगल; अधः कपोलास्थि ।

sublaryngeal—(L. *sub*, under; Gk. *larynx*, larynx) अधः लैरिन्स ।

sublenticular—(L. *sub*, under; *lenticula*, small lentil) अधः तालोपम; अल्प तालोपम; किञ्चित् मूसराकार ।

sublethal—अवघातक ।

sublingua—(L. *sub*, under; *lingua*, tongue) उपरसनक; उपजीभ ।

sublingual—(L. *sub*, under; *lingua*, tongue) अधः जिह्वी; अधोजिह्वा ।

sublittoral—(L. *sub*, under; *litus*, sea-shore) अधः सागरतटी ।

sublobular

sublobular—(L. *sub*, under; *lobis*, lobe) अघः
दलोपम ।

sublocular—(L. *sub*, under; *loculus*, little place)
अघकोटो ।

submalleate—(L. *sub*, under; *malleus*, hammer)
अघ. युगद्रास्थि (मैलियस-कान की एक उपास्थि) ।

submarginal—(L. *sub*, under; *margo*, margin)
अत्तरजटी ।

submaxilla—(L. *sub*, under; *maxilla*, jaw)
अघः मैन्सिला ।

submaxillary—(L. *sub*, under; *maxilla*, jaw)
अघः उपअगोहेनु; उप जन्म्य ।

submental—(L. *sub*, under; *mentum*, chin)
अघः चिवुक ।

submentum—(L. *sub*, under; *mentum*, chin)
प्रत्योष्ठमूल; सबमेन्टम; अघः चिवुकांग ।

submersed—(L. *submergere*, to submerge) निमग्न
पादपः निमज्जित ।

submicron—(L. *sub*, under; Gk. *micros*, small)
अणुतत्त्व; अतिसूक्ष्म तत्त्व; सबमाइक्रान; ऐसा कण या
आकृति जो केबल अतिसूक्ष्मदर्शी (ultramicroscope) की
सहायता से देखी जा सके ।

submucosa—(L. *sub*, under; *mucosus*, mucus)
अघ.श्लेष्मक ।

subnasal—(L. *sub*, under; *nasis*, nose) अघः
नासिक; उपनासा ।

subneural—(L. *sub*, under; Gk. *neuron*, nerve)
अघः नार्डी; अघस्तंत्रिका ।

subnotochordal—(L. *sub*, under; Gk. *noton*,
back; *chorde*, cord) अघोदण्ड; अघःपृष्ठदण्डीय;
यथार्थं पृष्ठदण्ड (notochord) के अघर पर एक शलाका
जिसे अघोदण्ड; (hypochord) कहते हैं ।

suboccipital—(L. *sub* under; *occiput*, back of
head) क्पालांश; अघानुकपाल; पश्च के नीचे स्थित
पेशी, तंत्रिका या त्रिकोणक आकृति ।

subocular shelf—अघाक्षि फलक; अघाक्षि कोटर
(sub orbital) से अन्दर की ओर निकलता हुआ फलक
जो मत्स्यों में चक्षु गोलक को साधता है ।

suboesophageal—(L. *sub*, under; Gk. *oisopha-*
gos, gullet) अघः निगर; अघोत्रसिका ।

subopercular—(L. *sub*, under; *operculum*,
cover) अघः गिलादरणी; अघप्रच्छद ।

suboperculum—(L. *sub*, under; *operculum*,
cover) अघप्रच्छद; मत्स्यों की प्रच्छद (operculum) की
एक कला-अस्थि ।

suboptic—(L. *sub*, under; Gk. *optikos*, relating
to sight) अघः चक्षुक; अघदूक ।

suboral—(L. *sub*, under; *os*, mouth) मुखान्न;
अघः मुखी; उपमुखीय; उपमुख ।

suborbital—(L. *sub*, under; *orbis*, circle) अघः
अक्षिक; अघः नेत्रगुहा; उपनेत्रख; अघाक्षि ।

subovate—(L. *sub*, under; *ovum*, egg) अघ-
अण्डाकार; अघअण्डवत् ।

subpalmate—(L. *sub*, under; *palma*, palm) अघ-
हस्ताकार (पर्ण) ।

subparietal—(L. *sub*, under; *paries*, well) अघः
पैराइटल ।

subpectinate—(L. *sub*, under; *pecten*, comb)
अघकंकताकार; अघः पेक्टिनेट ।

subpedunculate—(L. *sub*, under; L.L. *pedun-*
culus, little foot) अघवृत्तकी; अघति सूक्ष्म वृत्ती ।

subpericardial—(L. *sub*, under; Gk. *peri*,
round; *kardia*, heart) अघः पेरीकारडियम (हृदया-
वरण) ।

subperitoneal—(L. *sub*, under; Gk. *peritonaion*,
something stretched round) अघः उदरास्त्री,
उदरा स्तर (peritoneum) के नीचे स्थित वन्धक
ऊतक ।

subpetiolar—(L. *sub*, under; *petiolus*, little foot)
पर्णवृत्ताघस्थ ।

subpharyngeal—(L. *sub*, under; Gk. *pharyngx*,
pharynx) अघः कण्ठी; अघगृसनी ।

subphrenic—(L. *sub*, under; Gk. *phren*, mid-
riff) अघः मध्यपट; अघडायफ्राम ।

subpial—(L. *sub*, under; *pia*, kind) अघः क्रोमला-
च्छद् ।

subpubic—(L. *sub*, under; *pubos*, adult) अघः श्रोणि; उपजघन ।

subpulmonary—(L. *sub*, under; *pulmo*, lung) अघः फुफ्फुसी; उपफुफ्फुसी ।

subradius—(L. *sub*, under; *radius*, ray) अवमुख्य-अर; सवरेडियम; अरीय जन्तुओं में चतुर्थ श्रेणी का अर अर्थात् जो गौण अर (adoradius) और प्रअर (perradius) के बीच में स्थित अर या गौणअर (adradius) और मुख्य अर (interradius) के बीच में स्थित अर ।

subradular—(L. *sub*, under; *radere*, to scrape) अघोरडुली; अघोषपिन्ड; रेडुलाधारी (odontophore) के अग्र छोर पर स्थित वह अंग जिसमें तंत्रिकाओं के अन्त होते हैं ।

subramose—(L. *sub*, under; *ramus*, branch) अवशाखीय; अल्पशाखीय ।

subreniform—(L. *sub*, under; *renes*, kidneys; *forma*, shape) अघः वृक्कोपम; आवृक्काकार ।

subretinal—(L. *sub*, under; *rete*, net) अङ्गः रेटीना; अघः दृष्टिपटली ।

subrostral—(L. *sub*, under; *rostrum*, beak) अघः चंचुक; उपतुंडीय ।

subsacral—(L. *sub*, under; *sacrum*, sacred) अघः त्रिकी; अनुत्रिकी ।

subsartorial—(L. *sub*, under; *sacrum*, sacred) अघः जानुश्रोणि आकोचनी ।

subscapular—(L. *sub*, under; *scapula*, shoulder blade) अघः फलकी; अंसफलकाघस्य ।

subsclerotic—(L. *sub*, under; Gk. *skleros*, hard) अघः श्वेतपटल; अघः स्वलीरा; अक्षि गोलक के दृढ़ अपारदर्शक (स्वलीरा) और रक्तक पटल (choroid) के बीच ।

subscutal—(L. *sub*, under; *scutum*, shield) अघः पृष्ठठाली; अघः स्कूटम (पृष्ठिका मध्य); क्लीलियों (ticks) की स्फैलिक ग्रन्थि या जेने अंग जो पृष्ठठाल (scutum) के नीचे स्थित होता है ।

subserere—(L. *sub*, under; *serere*, to put in a row) उपक्रमक; द्वितीय क्रमिक ।

subserous—(L. *sub*, under; *serum*, whey) अघः श्रौदिक फला ।

subserrate—(L. *sub*, under; *serra*, saw) अवदंतुरिक; दंतुरिकप्राय ।

subsessile—(L. *sub*, under; *sedere*, to sit) अवतंतुरिकप्राय ।

subsidiary cells—प्रतिरिक्त कोशिकायें; अतिरिक्त परिवर्तित अघिच्छद् कोशिकायें जो द्वार कोशिकाओं (guard cells) के बाहर होती हैं ।

subspatulate—(L. *sub*, under; *spatula*, spoon) चमसप्राय ।

subspinous—(L. *sub*, under; *spina*, spine) कंटकरूपण; अवकंटकी ।

substantia—(L. *substantia*, substance) पदार्थ ।

substantia adamantina, eburnea, ossea—दंत एनेमिल, डेन्टीन और सीमेन्ट ।

substantia gelatinosa—श्लेपी पदार्थ; सुधुम्ना में श्लेपी तंत्रिका श्लैष्म (gelatinous hemoglia) कुछ तंत्रिका कोशिकाओं सहित ।

substantia nigra—धूसर स्तर; मध्य मस्तिष्क में धूसर कोशिकाओं का अघं चन्द्राकार स्तर ।

substantia reticularis—जालीय पदार्थ; मेडुला ऑन्लिंगेटा में अग्र और पार्श्व जालीय आकृतियाँ ।

substantive variation—पर्याय या संस्व भिन्नतायें; भागों के पदार्थ या वनावट में वास्तविक परिवर्तन (भिन्नतायें) ।

substernal—(L. *sub*, under; *sternum*, breast bone) अघः वक्षस्थित; अवस्टरनम ।

substrate—(L. *sub*, under; *stratum*, layer) आधार; अवस्तर; क्रियाधार ।

(१) जाइलोमाइट; वह पदार्थ जिस पर कि एन्जाइम क्रिया करता है ।

(२) वनस्पति श्वसन में वह पदार्थ जिसका कि आवसीकरण होता है ।

(३) श्वसन आधार पदार्थ ।

substratose—(L. *sub*, under; *stratum*, layer) स्तरक प्राय; अवस्तरक; सूक्ष्म स्तरित ।

substratum—(L. *sub*, under; *stratum*, layer) आधार; अवधिष्ठान; अघः स्तर ।

subtectal

subtectal—(L. *sub*, under; *TECTUM*, roof) अघः छात्रः; एलीस्फोनोइड; मस्स्य खोपड़ी की एलीस्फोनोइड (अस्थि) ।

subtegminal—(L. *sub*, under; *tegmēn*, covering) अवप्रवार; अघः छदिका; अघः अन्तःचोल; वीज के अन्तःचोल (*tegmēn*) के नीचे ।

subtentacular—(L. *sub*, under; *tentacle*, tentacle) अवस्पर्शक ।

subthoracic—(L. *sub*, under; Gk. *thorax*, breast) अघःवक्षीय; अघोवक्षीय ।

subtrapezoidal—(L. *sub*, under; Gk. *trapesion* small table; *eidōs*, forma) समलंबाभप्राय ।

subtruncate—(L. *sub*, under; *truncatus*, maimed); (१) कुछ-कुछ कटा हुआ, (२) सहसा अदस्ताद ।

sub-type—उपप्ररूप; अवप्ररूप ।

subtypical—(L. *sub*, under; *typus*, image) कल्पादर्शी; अल्पादर्शी; अवप्ररूपी ।

subulate—(L. *subula*, awl) आरा रूपक; सूच्यग्री; आघार से शिखर तक पतली और नुकीली पत्ती विशेष जैसे प्याज ।

subumbellate—(L. *sub*, under; *umbella*, small shade) अवछत्रक ।

subumbonal—(L. *sub*, under; *umbo*, boss) अघः आम्बो; द्विकपाटी (*bivalve*) जन्तुओं के कर्पर के सबसे ऊँचे भाग (आम्बो—*umbo*) के आगे या नीचे स्थित ।

subumbrella—(L. *sub*, under; *umbra*, shade) अवछत्र; मेडुसोइड के घण्टे (*bell*) का अवतल (*concave*) अन्तःतल ।

subuncinate—(L. *sub*, under; *uncus*, hook) अव-अंकुशाकार ।

subungual—(L. *sub*, under; *unguis*, nail) अघः नखधर; अघनख या चंगुल या खुर ।

subunguis—(L. *sub*, under; *unguis*, nail) अव-नखर; पंजे (*claw*) का अधर शल्क ।

subvaginal—(L. *sub*, under; *vagina*, sheath) अघः पिधान; अवपिधान ।

subvertebral—(L. *sub*, under; *vertebra*, turning) joint) अघः कशेरू दण्डी; अवकशेरूक ।

subzygomatic—(L. *sub*, under; Gk. *zygon*, yoke) अघः जाईगोमैटिक; अघः कपोलास्थिक ।

succession—(L. *sucsessio*, succession) अनुक्रम ।

successive—(L. *sucsessio*, succession) आनुक्रमिक; उत्तरोत्तर ।

succiferous—(L. *succus*, sup; *ferre*, to carry) रस वाहिनी ।

succiput—(L. *sub*, under; *caput*, head) अघः शिरस्क; पटपाद के गर्दन के छिद्र के नीचे का स्थल ।

succise—(L. *succisus*, lopped off) एकाएक; आकस्मिक ।

succuluous—(L. *sub*, under; *cubare*, to lie down) पर्णापरिपर्ण; अग्रति व्याप्त (पर्ण) ।

succulent—(L. *succus*, sap) गूदेदार; रसदार; मांसलोद्भिद् ।

succus—(L. *succus*, juice, sap) रस; ग्रन्थि द्वारा स्रावित तरल ।

succus entricus—अन्नरस ।

sucker—(A. S. *sucan*, to suck) ।

(१) चूषक ।

(२) अन्तः भूस्तारी या सकर (तना) यह तना भूमि के नीचे रेंगता हुआ आगे बढ़ता है । तने के नोड पर कक्षस्थ कलिकायें स्थित होती हैं जो खिलकर हवाई शाखाएँ बनाते हैं । नोड के निचले घरातल से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं । जैसे पोदीना, गुलदाऊदी ।

sucrose—(F. *sucre*, sugar) गन्ने की चीनी; [C₁₂H₂₂O₁₁] ।

suctorial—(L. *sugere*, to suck) चूषण; चूषणार्थ; चषक ।

sudor—(L. *sudore*, sweat) पसीना; स्वेद ।

sudoriferous—(L. *sudor*, sweat; *ferre*, to carry) स्वेदोत्पादक; स्वेदवाहिनी; स्वेद स्रावक; पसीना ले जाने वाली या पैदा करने वाली ग्रन्थि ।

suffaminal—(L. *sufflamen*, blast) वात्या; किन्हीं लुप्त मस्सियों में क्लोम कोष्ठ निर्माण करने वाली प्लेट ।

suffrutex—(L. *sub*, under; *frutex*, shrub) छोटी झाड़ी; उप भूप ।

suffruticose—(L. *sub*, under; *frutex*, shrub) भुषी ।

Summation—संकली करण; पृथक् उत्तेजनाओं का संकली (additive) प्रभाव । संकलीकरण एक मुख्य विधि है जिससे प्रेरणायें आपस में मिलकर तंत्रिका कोशिका पर प्रभाव डालती हैं और यह प्रभाव किसी एक प्रेरणा से उत्पन्न प्रभाव से भिन्न होता है । परिणाम-स्वरूप जन्तु के व्यवहार में स्पष्ट क्रमिकता दृष्टिगोचर होती है ।

संकलीकरण का एक सरल उदाहरण निम्नांकित ही सकता है—

मान लीजिए कि तंत्रिका कोशिका अ का अन्तर्ग्रंथन तंत्रिका कोशिका ब और स से है । जो प्रेरणायें केवल ब या स में आती हैं वे अ के अन्दर किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करने में सफल नहीं होती हैं, पर यदि प्रेरणा साय-साथ या तुरन्त एक के बाद ब और स में आती है तो उन दोनों की सम्मिलित क्रिया अ में प्रेरणा उत्पन्न कर देती है । इसी को संकलीकरण कहा जाता है । संकलीकरण प्रेरणाओं का पार्थक्य (separation) या तो स्थानिक (spatial) हो, प्रेरणाओं का एक ही तंत्रिका कोशिका के भिन्न अन्तर्ग्रंथन पर पहुँचे, अथवा कालगत (temporal) अर्थात् प्रेरणायें एक ही कोशिका के एक ही अन्तर्ग्रंथन पर क्रमशः पहुँचें । अनेक प्रेरणायें किसी भी एक संकलन कर्ता प्रक्रिया से सम्बन्धित होती हैं । कशेरूकों में कालगत संकलीकरण एक ही अन्तर्ग्रंथन पर नहीं होता है ।

sugent—(L. *sugere*, to suck) चूसक ।

sulcate—(L. *sulcus*, furrow) सीता युक्त; लीकी; लीकयुक्त ।

sulcation—(L. *sulcation*, ploughing) कर्पण; नलियों और मुँडेरों का बनना ।

sulcus or sulci—(L. *sulcus*, furrow) सीत; परिखा ।

summer egg—ग्रीष्मण्ड; स्वच्छ जलवासी किस्मों के पतले तुषी शीघ्र वर्धित होने वाले अण्डे जो ग्रीष्म काल में दिए जाते हैं ।

supercarpal—(L. *super*, over; *carpus*, wrist) अति मणि वंधिका (carpal) ।

supercilia—(L. *super*, over, *cilia*, eyelids) भौं; भ्रू ।

superciliary—(L. *super*, over; *cilia*, eyelids) भौं सम्बन्धी; अर्धक्षि ।

super—अति; अधिक, बढ़कर अर्थ का उपसर्ग ।

supercilia—(L. *super*, over; *cilia*, eyelids) भौं; भ्रू ।

superficial—(L. *super*, over; *facies*, face) बाह्य (वाहरी, ऊपरी); छिछला; अगाढ़; गाघ; वरातल पर या नजदीक ।

superfoetation—(L. *super*, over; *foetus*, big with) अतिरिक्त गर्भ; अतिनिषेचन; भिन्न मदकालों (oestrous period) में एक ही गर्भाशय (uterus) में दो डिम्बों का एक के बाद एक का निषेक होने की रथा ।

superfunction—अतिफलन ।

superglottal—(L. *super*, over; Gk. *glotta*, tongue) जिह्वोपरि ।

superior—(L. *superior*, upper) ऊर्ध्व; ऊर्ध्ववर्ती; ऊपरी; श्रेष्ठ ।

superior border—ऊर्ध्वतट ।

superior extremity—ऊर्ध्व अवयव ।

superior labial—ऊर्ध्व-श्रोणीय ।

superior lip—ऊर्ध्व-श्रोष्ठ ।

superior meatus—ऊर्ध्व सुरंगा ।

superior mesentric—ऊर्ध्व-अंत्रधारी ।

superior nasal meatus—नासोर्ध्व सुरंगा ।

superior umbilicus—ऊर्ध्व पिच्छ छिद्र ।

superlinguae—(L. *super*, over; *lingua*, tongue) ऊर्ध्वजिह्वी; उपरिजिह्व; किन्हीं पट्टादों में हाइपोफेरिस के युग्म-दल ।

superparasite—(L. *super*, over; *parasitos*, foot) बाह्य परजीवी; अधिपरजीवी ।

supersacral—(L. *super* over; *sacrum*, sacred) त्रिकोपरि; अधिद्विक; अधिसेक्रम ।

supersonic—(L. *super*, over; *sonare*, to sound) अश्रव्य; पराध्वनिकी; मानव कर्ण (human ear) से न सुनी जाने वाली ध्वनि ।

supersphenoidal—(L. *super*, over; Gk. *sphen*,

wedge; *eidos*, form) अधिस्पीनोइडल; अधिसंपीडा-स्थिक ।

supervolute—(L. *super*, over; *volvere*, to roll) संकलित; अधिविलुटी; कोरक में अत्यधिक विलुट (rolled) विन्यास ।

supinate—(L. *supinus*, bent backwards) पश्चनत; पीछे की ओर झुका हुआ ।

supination—ऊर्ध्व स्थिति; उत्तानन; भुजाकी हथेली को ऊपर की ओर उठाने की गति ।

supinator brevis and longus—सुपीनेटर ब्रेविस और लॉगस—भुजा के दो मांस पेशीयाँ जो हथेली को ऊपर करने में काम में आती हैं ।

supplemental air—शेष पूरक वायु; संपूरक वायु; रेचक वायु; अनुपूरक वायु; परिशिष्ट वायु; वह वायु की मात्रा जो साधारण प्रवास के पश्चात् भी निकाली जा सकती है ।

suppression—(L. *sub*, under; *pressus*, pressed) निग्रह; लुप्तांगता; किसी अंग की वृद्धि का रुक जाना ।

supra—सुपरा; ऊपर, उर्ध्व, अधि या अधिक अर्थ का उपसर्ग; सुपरा शब्द का प्रयोग सरल होने के कारण किया जाना चाहिए ।

supra-acromial—(L. *supra*, above; Gk. *akros*, summit; *omos*, shoulder) अंसफलक के अक्रोमियन (acromion) प्रवर्ध से ऊपर ।

supra anal—(L. *supra*, above; *anus*, anus) गुदोर्ध्व; सुपरा गुदा; अधिगुद ।

supra-auricular—(L. *supra*, above; *auris*, ear) कर्णोर्ध्व; सुपरा-कर्णो; अधिकर्णिक ।

supra-branchial—(L. *supra*, above; *branchiae*, gills) गिलोर्ध्व; सुपरागिली; अधिक्लोम ।

suprabuccal—(L. *supra*, above; *bucca*, cheek) अधिमुखीय; मौलिकोपरि; कपोल और मुख से ऊपर ।

supra-caudal—(L. *supra*, above; *cauda*, tail) पुच्छोर्ध्व; सुपरा पुच्छी; अधिपुच्छी ।

supracellular—(L. *supra*, above; *cellula*, small cell) कोष्ठोर्ध्व; सुपरा कोष्ठीय ।

supracerebral—(L. *supra*, above; *cerebrum*, brain) सुपराप्रमस्तिष्कीय; अधिप्रमस्तिष्कीय ।

suprachoroid—(L. *supra*, above; Gk. *chorion*, skin) अधिरक्तक पटल (कोरोइड) ।

supraclavicle—(L. *supra*, above; *clavicula*, small key) अधिजत्रुक; सुपरा-क्लैविकिल; अंसवलय (shoulder girdle) की एक अस्थि (मत्स्यों में) ।

supraclavicular—(L. *supra*, above; *clavicula*, small key) अधि-जत्रुकी; अधि-क्लैविकिली ।

supracleithrum—(L. *supra*, above; Gk. *kleithron*, key) अधि-जत्रुक; सुपरा-क्लैविकिल ।

supracondylar—(L. *supra*, above; Gk. *kondylos*, knob) अधि-अस्थि कंदी ।

supracostal—(L. *supra*, above; *costa*, rib) पशु-कोर्ध्व; सुपरा पशुकीय; अधि-पशुक ।

supracoxa—उपरिकक्षांग ।

supracranial—(L. *supra*, above; Gk. *kranion*, skull) करोटि वाह्य; सुपरा-करोटि; अधिकपालीय ।

supradorsal—(L. *supra*, above; *dorsum*, back) पृष्ठोर्ध्व; सुपरापृष्ठीय; उर्ध्वपृष्ठक; अधिपृष्ठक; अधि-पृष्ठीय ।

supra-ethmoid—(L. *supra*, above; Gk. *ethmos*, sieve; *eidos*, form) सुपरा-इथमॉइड; भर्भरिका (मीजेथमॉइड) के बाहर एक अस्थि ।

supraglenoid—(L. *supra*, above; Gk. *glene*, socket) अधि अंस-उलूखल; ग्लीनॉइड कैविटी के ऊपर (अस्थि प्रोथ्य या ककुद—tuberosity) ।

suprahyoid—(L. *supra*, above; *hyooides*, y-shaped) हाइडोर्ध्व; सुपराहाएड; अधिकंठिक ।

supralabial—(L. *supra*, above; *labium*, lip) ओष्ठोर्ध्व; सुपरा ओष्ठीय; अध्योष्ठ ।

supraloral—(L. *supra*, above; *lorum*, thong) सुपरा लोरल; (१) पक्षियों में चोंच या आँख के बीच के स्थान से ऊपर ।

(२) सर्पों में आँख के ऊपर का स्थान ।

supramaxillary—(L. *supra*, above; *maxilla*, jaw) अधिजम्भिक; ऊर्ध्वहनु सम्बन्धी ।

supranasal—(L. *supra*, above; *nasus*, nose) नानोर्ध्व सुपरा नासा; अधिनासा ।

supraoccipital—(L. *supra*, above; *occiput*, back of head) सुपरा-ओक्सीपिटल; अध्यनुकपाल ।

supraocular—(L. *supra*, above; *oculus*, eye) ऊर्ध्व चाक्षुष; सुपरा चक्षुः; अधिनेत्र ।

supraorbital—(L. *supra*, above; *orbis*, circle) अक्षिकोर्ध्व; सुपरा-अक्षिकी; अध्यक्षि ।

suprpharyngeal—(L. *supra*, above; Gk. *pharyngx*, pharynx) कण्ठोर्ध्व; सुपरा-कण्ठी; उपरिग्रसनीय ।

suprapubic—(L. *supra*, above; *pubes*, adult) प्यूविकोर्ध्व; सुपराप्यूविक ।

suprapygial—(L. *supra*, above; *pyge*, rump) पृष्ठपश्चान्तरोर्ध्व; सुपरापृष्ठपश्चान्तरी ।

suprarenal—(L. *supra*, above; *renes*, kidney) वृक्कोर्ध्व; सुपरावृक्क; अधिवृक्क ।

suprarenal bodies, capsule or glands—वृक्कोर्ध्व या सुपरा पिण्ड, सम्पुट या ग्रन्थियाँ; उपवृक्क (एड्रीनल) ग्रन्थि ।

suprarenin—(L. *supra*, above; *renes*, kidneys, एड्रीनेलिन; सुपरारेनिन ।

suprarostal—(L. *supra*, above; *rostrum*, beak) सुपरारोस्टल; अधितुंड ।

suprascapula—(L. *supra*, above; *scapula*, shoulder blade) फलकोर्ध्व; सुपरा स्कैपुला; अध्यंसफलक ।

suprascapular—(L. *supra*, above; *scapula*, shoulder blade) फलकोर्ध्वी; सुपरा स्कैपुलर; अध्यंसफलकी ।

supraseptal—(L. *supra*, above; *septum*, partition) व्यवधानोर्ध्व; सुपरा व्यवधानी ।

suprasphenoid—(L. *supra*, above; Gk. *sphen*, wedge) सुपरास्फीनॉइड, स्फीनॉइड (संपीडास्विय) उपास्थि के पृष्ठ और स्थिति कलाजात अस्थि विशेष ।

suprasphenoidal—(L. *supra*, above; Gk. *sphen*, wedge) अधिस्फीनॉइडल ।

supraspinal—(L. *supra*, above; *spina*, spine) सुपुम्नोर्ध्व; सुपरासुपुम्नीय ।

supraspinatous—(L. *supra*, above; *spina*, spine) सुपरास्पाइनेटस; अध्यंस पृष्ठिका; अध्यंसपेशी ।

suprastapedial—(L. *supra*, above; *stapes*, stirrup) स्टेपीडियलोर्ध्व; सुपरा-स्टैपीडियल ।

suprasternal—(L. *supra*, above; *sternum*, breastbone) वक्षकीय-ऊर्ध्व; सुपर वक्षकीय; अधिउरोस्थि ।

suprastigmal—(L. *supra*, above; *stigma* mark) वातछिद्रोर्ध्व; सुपरा वात छिद्री; अधिश्वासछिद्री ।

supratemporal—(L. *supra*, above; *tempora*, temples) सुपरा टेम्पोरल; अधिशंख ।

suprathoracic—(L. *supra*, above; Gk. *thorax*, breast) वक्षोर्ध्व; सुपरा वक्षीय; अधिवक्षीय ।

supratonsillar—(L. *supra*, above; *tonsillae*, tonsils) सुपराटोन्सिलर; अधिगलतुंडिका ।

supratrochlear—(L. *supra*, above; Gk. *trochlea*, pulley) सुपराट्रोचिलयर; अधिघूर्णीय; घूर्ण (trochlea) के ऊपर की सतह ।

supratympanic—(L. *supra*, above; *tympanum*, drum) श्रानकोर्ध्व; सुपरा श्रानकीय; अधिध्वनिपरक ।

sural—(L. *sura*, calf of leg) पिडिका; पिडका सम्बन्धी; टाँग की पिण्डली सम्बन्धी ।

surangular—(L. *supra*, above; *angulus*, angle) ऊर्ध्व कोणिक; अधिकोणिक; कुछ मत्स्यों, सूपी तम्र पक्षियों के निचले जबड़े की हड्डी ।

surculose—(L. *surculus*, twing) चूषक युक्त ।

surculus—(L. *sarculus*, twing) भूस्तरी प्रारोह, वायवी और स्वतन्त्र सकर (sucker) ।

surface—(L. *super*, and *face*, L. *facies*) तल, पृष्ठ; सतह; धरातल ।

suscept—(L. *suscipere*, to undergo) प्रभावशील; प्रभाव पड़ने योग्य ।

suspension—(L. *suspendere*, to hang down) उद्वन्ध; निलंबन ।

suspensor—(L. *suspendere*, to hang down) निलम्ब; उद्वन्धक; निलम्बक ।

suspensorium—(L. *suspendere*, to hang down) अदलम्बक; निलम्बिका; हायड बलय (hyoid arch) का ऊपरी भाग जिससे निचला जबड़ा लटका रहता है ।

sustentacular—(L. *sustentaculum*, prop; support) सहायी ।

sustentaculum lienis—सस्तेन्दाकुलम लीनिस; प्लीहा साधक उदरास्तर भाँज ।

sustentaculum tali—सुल्कास्थि सहायी; सस्तेन्दाकुलम टैली; ।

sustentor

sustentor—(L. *sustinere*, to sustain) आलंबी ।sutural—(L. *sutura*, seam) सीवन सम्बन्धी ।

sutural bones—वोरमियन (wormian) अस्थि; सीवनी अस्थियाँ; ऐसी एकल अस्थियाँ जो अक्रमिक सीवनी के पथ में पाई जाती हैं विशेषतः लैम्बाडॉइडी (lambdoidal) सीवन और पञ्च कलान्तराल (fontanelle) में ।

suture—(L. *sutura*, seam) सेवनी; सीमन; सन्धि-रेखा; सीवन ।

Swammerdam's glands—(J. Swammerdam, Dutch naturalist) स्वामरडेम ग्रन्थियाँ; परिगुच्छिकीय ग्रन्थियाँ ।

Swammerdam's vesicle—स्वामरडेम कोषिका; गैस्ट्रो-पोडा की शुक्रधानी (स्पर्मथिका) ।

swarm—(A. S. *swarm*, swarm) समूह; झुण्ड; समुदाय; दल; वृन्द; भुंड ।

swarm spore—चल बीजाणु (zoospore) ।

sweat—(A. S. *swat*, sweat) स्वेद; पसीना ।

sweat gland—स्वेद ग्रन्थि ।

swimmerets—प्लावक अंग; तरण पाद; तरणक; केकड़ा वंशी (crustaceans) के उदरीय अवयवों में से कुछ एक अवयव जो जन्तु को आंशिक रूप में तैरने में सहायता देते हैं ।

swim bladder—प्लावी कोषिका ।

swimming funnel—तरण कीप; डाइब्रेकियेटा (Dibranchiata) की प्रावार-गुटिका (mantle cavity) से जल को बाहर फेंकने वाली नलिका ।

swimming ovaries—तरण-अण्डाशय; अकेन्थोविफैला (Acanthocephala) में अण्डाशय (ovary) से छूटे हुए परिपक्व अण्डाणु (ova) जो देह गुहा (body cavity) में तैरते रहते हैं ।

swimming plates—तरण-प्लेट; टीनोफोरा (ctenophora) में आठ समानान्तर (equidistant) पक्षमाभिकामय (ciliated) कंकतोपम प्लेट, जो अंगी के नोदक अंग (propeller organ) होते हैं ।

syconium—(Gk. *sykon*, fig) साइकोनस (syconus) फल; यह हाइपैन्थोडियम (hypanthodium) पुष्पक्रम के पकने से बनता है । इसमें पुष्पासन एक बन्द खोखली

संरचना बनाता है, जिसके अन्दर स्त्रीकेसरी पुष्पों से एकीन बनते हैं; सभी एकीन मिलकर संग्रथित फल (composite fruit) निर्मित करते हैं, इन फलों में खाने योग्य भाग पुष्पासन ही होता है—जैसे वरगद; अंजीर, गूलर आदि ।

sylvian—(F. *sylvius*, or *de la boe*, french anatomist) सिलवियन; सिल्विससी; फ्रांसीसी रचना विशेषज्ञ ।symbiont—(Gk. *syn*, with; *bioun*, to live) सह-जीवी ।symbiosis—(Gk. *symbioun*, to live together) सहजीवन; सहजीविता ।symbiotic—(Gk. *symbioun*, to live together) सहजीवी ।symmetrical—(Gk. *syn*, with; *metron*, measure) समांशी; सम्मित; सममित ।symmetry—(Gk. *syn*, with; *metron*, measure) समांशता; तुल्यांशता; समता; सम्मिति, सममिति ।sympathetic—(Gk. *syn*, with; *pathos*, feeling) सहानभूतिक; अनुकम्पी ।

sympathetic nervous system—सहानुभूतिक या अनुकंपी नाड़ी (तंत्रिका) मण्डल (तंत्र) ।

sympathin—(Gk. *syn*, with; *pathos*, feeling) सम्पेथिन; अनुकम्पी तंत्रिका द्वारा त्याज्य पदार्थ जिसमें एड्रीनेलियन (adrenaline) के शरीर क्रियात्मक (physiological) लक्षण होते हैं ।sympathoblast—(Gk. *syn*, with; *pathos*, feeling; *blastos*, bud) अनुकंपीकोरक; अनुकंपी कोशिकज; वह कोशिका जो अनुकंपी गुच्छिका (गैंगलिया) की तंत्रिका कोशिका (neurone) में वधित होती है ।sympathomimetic—(Gk. *syn*, with; *pathos*, feeling; *minetickos*, imitating) अनुकम्पीसम; अनुकम्पानुकारी; पदार्थ विशेष जो अनुकम्पी उत्तेजना सदृश ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं ।sympatric—(Gk. *syn*, with; *patra*, native land) एकदेशी; समस्थानिक ।

[देखिये—allopatric—भिन्न देशी]

sympetalous—(Gk. *syn*, with; *petalon*, leaf) संयुक्तदली (gamopetalous) ।

symphily—(Gk. *syn*, with; *philein*, to love) सहभोगता; सहतोषण; संगिता ।

symphoresis—(Gk. *syn*, with; *pherein*, to bear) एकीभूगति; स्वरमैटिड समूह की सरटोली (sertoli) कोशिका तक एकीभूगति ।

symphyllodium—(Gk. *syn*, with; *phyllon*, leaf; *eidōs*, form) संयुक्त बीजांडधर शल्क ।

symphogenesis—(Gk. *symphyein*, to grow together; *genesis*, descent) सह जननता; बहुतन्तुजन; किन्हीं दो अन्य अंगों के मिलने से किसी अंग की वृद्धि ।

symphysial—(Gk. *symphysis*, growing together) समवायी ।

symphysis—(Gk. *symphysis*, a growing together) समवाय; सिम्फाइसिस; संधान; युग्मास्थि संयोग; किसी जोड़ या युग्म (pair) की दाहिनी और बाईं दोनों भागों की अस्थियों का परस्पर मिल जाना ।

symplast—(Gk. *syn*, with; *plastos*, formed) समकण; संलवक ।

symplectic—(Gk. *symplektos*, plaited) सिम्प्लेक्टिक—मत्स्य खोपड़ी की एक अस्थि विशेष जो क्वाड्रेट (quadrate) और हायोमैन्डीबुलर (hyomandibular) के बीच में होती है ।

simplex—(Gk. *symplektos*, plaited) सिम्प्लेक्स, क्रियाशील पदार्थ और जीवद्रव्य प्रोटीन का मिश्रण जिससे एन्जाइम बनता है । जैसे एगोन (agon), फीरोन (pheron) आदि ।

sympodial—(Gk. *syn*, with; *pous*, foot) संधिताक्षी ।

sympodite—(Gk. *syn*, with; *pous*, foot) समपादांश; आधार पादांश; संपादांश ।

sympodium—(Gk. *syn*, with, *pous*, foot) संधात-अक्ष ।

symptom—लक्षण ।

synacme—युक्त परिपक्वता; समकालपक्वता; स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों के साथ-साथ परिपक्व होने की दशा ।

synaesthesia—(Gk. *syn*, with; *aisthesis*, sensation) सह संवेदना, किसी एक ही ग्राही द्वारा दो उत्तेजनाओं जैसे ध्वनि और वर्ण दोनों ही का साथ-साथ ग्रहण करना ।

synangium—(Gk. *syn*, with; *anggeion*, vessel) सिनजियम; साईनेनजियम ।

synantherous—(Gk. *syn*, with; *antheros*, flowery) संयुक्त परागकोशी, परागकोशों का मिलकर नलिका बनाना ।

synanthous—(Gk. *syn*, with; *anthos*, flower) युक्त पुष्पी ।

synanthy—(Gk. *syn*, with; *anthous*, flower) युक्त पुष्पता ।

synaposium—(Gk. *syn*, with; *aposis*, want) सह-सपेक्ष; प्रतिकूल सहवासता; प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे रोग या पर्यावरण दशाओं के कारण जन्तुओं का सह-जीवन या सहवास ।

synaposematic—(Gk. *syn*, with; *apo*, form; *sema*, sign) सह भ्रमकारी ।

synapse—(Gk. *synapsis*, union) तंत्रिका संगम; अन्तर्ग्रंथन; एक तंत्रिका कोशिका का दूसरे से अपनी शाखाओं द्वारा छुआ जाना । समस्त जन्तुओं का तंत्रिका तंत्र असंख्य पृथक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जो केवल अन्तर्ग्रंथन द्वारा ही एक दूसरे से लगाव लिये होती हैं । प्रत्येक कोशिका का एक्सॉन (axon) दूसरी कोशिका के ड्रुमक (dendrite) से अपनी अंत्य-शाखाओं से मिलकर अन्तर्ग्रंथन (synapse) बनाते हैं । प्रत्येक एक्सॉन (जब तक कि वह प्रेरक कारक सूत्र का न हो) कई अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से अन्तर्ग्रंथन करते हैं और प्रत्येक कोशिकाकाय (cell body) और ड्रुमक (जब तक कि वह संवेदीय कोशिकाओं के न हों) भी अन्तर्ग्रंथन करते हैं । किसी बड़े माप के कशेरुक की प्रेरक तंत्रिका कोशिका (motor nerve cell) में कई सहस्र अन्तर्ग्रंथन होते हैं । किसी प्रेरणा को अन्तर्ग्रंथन पर पहुँच कर दूसरी तंत्रिका कोशिका को उत्तेजित करना होता है ।

synapsid—(Gk. *synapsis*, union) संयुक्त छिद्र कपाल ।

synapsis—(Gk. *synapsis*, union) युग्मीकरण; सूत्र-युग्मन; सिनेप्सिस ।

synaptene—(Gk. *synapsis*, union; *tainia*, hand) युग्म बंध; संपट्टः हास विभाजन (meiosis) में सूत्र युग्मता या जाईगोटीन (zygotene) अवस्था ।

synaptic membrane

synaptic membrane—मध्यवर्तिनकला, सूत्र युग्मन कला; तंत्रिका छोर और पेशी तन्तु के बीच मध्य वर्तिनकला (intervening membrane) या दो तंत्रिका कोशिकाओं (neurone) के बीच की कला ।

synapticula—(Gk. *synaptos*, united) सिनैप्टीकुला; संयुजशलाका; पटबंध ।

synaptychus—(Gk. *syn*, with; *a*, together; *ptyche*, plate) संयुजपलेटी ।

synarthrosis—(Gk. *syn*, with; *arthron*, joint) युत संघि; सहसंघि; ऐसी संघि जिसमें दो अस्थियों के तल सीधे पास-पास एक दूसरे से मिले हुए हों और बन्धक तन्तु या काचीय उपास्थि से अचल बन्धे हों ।

syncarp—(Gk. *syn*, with; *karpos*, fruit) युक्तांडप (पुंजफल—aggregate fruit) ।

syncarpous—(Gk. *syn*, with, *karpos*, fruit) युक्तांडपी ।

syncarpy—(Gk. *syn*, with; *karpos*, fruit) युक्तांडपता ।

syncerebrum—(Gk. *syn*, with; L. *cerebrum*, brain) सयुक्त पिण्डक मस्तिष्क; संप्रमस्तिष्क ।

synchondrosis—(Gk. *syn*, with; *chondros*, cartilage) उपास्थि एक रूपता; उपास्थि संलिष्टता; वह अस्थि संयोग जिसमें संयुक्तक उपास्थि होती है ।

synconium—(Gk. *syn*, with; *kranion*, skull) सिन्कोनियम या साइकोनियम; अंजीर का पुष्प क्रम ।

syncraniate—(Gk. *syn*, with; *kranion*, skull) करोटि एक रूप; संकरोटीय, कबोहू तत्वों (vertebral elements) का करोटि या कपाल (skull) के माथ एक भाव होना ।

syncranterian—(Gk. *syn*, with; *kranteres*, wisdom tooth) अविरत दन्ती ।

syncryptic—(Gk. *syn*, with; *kryptos*, hidden) समान गोपक रंगी; ऐसे जन्तु जो असम्बन्धित होते हुए भी सामान्य गोपक रंगी (cryptic) होने के कारण समानता रखते हैं ।

syncytium—(Gk. *syn*, with; *kytos*, hollow) बहुअष्टि रूता, सिनसिशियम; बहु-न्युक्लियस आकृति ।

syndactyl—(Gk. *syn*, with; *daktylos*, digit) संयुक्तांगुलिक; युक्तांगुलि ।

syndactylism—(Gk. *syn*, with; *daktylos*, digit) संयुक्तांगुलित्व; युक्तांगुलिकता ।

syndesis—(Gk. *syndesis*, a binding; together) संयुजता; स्नायु सन्धि ।

syndesmology—(Gk. *syndesmos*, ligament; *logos*, discourse) बन्ध विज्ञान; लिगामेंट विज्ञान; रचना विज्ञान की वह शाखा, जिसमें बन्ध (ligament) तथा सन्धियों का वर्णन रहता है ।

syndesmosis—(Gk. *syndesmos*, ligament) बन्ध-समवायता; तंतुसन्धि ।

syndrome—(Gk. *syn*, together; *dromien*, to run) सहकारी चिह्न ।

synecology—(Gk. *syn*, together; *oikos*, household; *logos*, discourse) (जन्तु संघ) परिस्थिति विज्ञान; संपारिस्थितिकी ।

synecthry—(Gk. *syn*, with; *echthros*, hatred) कुत्सा सहजीवनता; ऐसे विद्वेषी या कुत्सा (hated) व्यक्तियों का सहजीवन जो आपस में द्वेष रखते हैं ।

synema—(Gk. *syn*, with; *nema*, thread) सहसूचक; संसूची ।

syneresis—(Gk. *syn*, together; *ereidein*, to press) द्रव पृथकता; संकोच पार्थक्य; थक्का बने हुए खून का सिकुड़ना और सीरम (तल) का अलहदा होना ।

synergic—(Gk. *synergos*, cooperator) सहयोगी; संकर्मी ।

syngamy—(Gk. *syn*, with; *gamoo*, marriage) जन्युसंलयता; निषेकोत्पादन; लिगोत्पादन; संयुग्मन; युग्मक संलयन ।

syngenesis—(Gk. *syn*, with; *genesis*, descent) निषेकोत्पादनता; सहजनन ।

syngenetic—(Gk. *syn*, with; *genesis*, descent) निषेकोत्पन्न; सहजात ।

syngnatha—(Gk. *syn*, with; *gnathos*, jaw) युक्त हन्व ।

syngonic—(Gk. *syn*, with, *gone*, seed) उभय-लिगता; उभय जन्युता; एक ही बीजाणुधानी में नर और मादा जन्यु को उत्पन्न करना ।

synizesis—(Gk. *synizesis*, contraction)

संघिता; (१) युग्मीकरण के मध्य न्यूक्लियस की आकुंचन स्थिति; (२) कनीनिका (तारा) का संकुचन ।

synkaryon—(Gk. *syn*, with; *karyon*, nut) संयुजाष्टि; युग्मजकेन्द्रक; पुराष्टि (pronuclei) के संयुजता के कारण बना हुआ भ्रूण कोशिका (zygote) का अष्टि या केन्द्रक (nucleus) ।

synoecious—उभयलिंगता; उभयकेसरता; उभयधानियता; पुंधानी (antheridia) और स्त्रीधानी (archegonia) दोनों ही एक पात्र (receptacle) पर; या पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही फूल में ।

synoekete—(Gk. *syn*, with; *oiketes*, dweller) सहनिवासी; सह-अतिथि; जन्तुधल (colony) में सहन किया हुआ अतिथि (guest) ।

synovial—(Gk. *syn*, with; L. *ovum*, egg) सिनोविया; स्नेहिक; गाढ़ा, चमकीला सिनोविया कला (synovial membrane) का स्त्राव ।

synovial membrane—सिनोविया कला; स्त्रावकला ।

synpelmous—(Gk. *syn*, with; *pelma*, sole) युक्त-कण्ठरी; अंगुलियों को पृथक करने से पूर्व दो कण्ठरों का एक साथ मिल जाना ।

synoviparous—(Gk. *syn*, with; L. *sacrum*, sacred) सिनोविया स्त्रावी ।

synsacrum—(Gk. *syn*, with; L. *sacrum*, sacred) सिन्सेक्रम; संत्रिक; समत्रिकी; पक्षियों (birds) में श्रोणि वलय (Pelvic girdle) को धारण करने वाले संयुज कशेरु (fused vertebrae) ।

synsepalous—(Gk. *syn*, with; F. *sepale*, sepal) युक्त बाह्यदली ।

synspermous—(Gk. *syn*, with; *sperma*, seed) युक्त बीजा ।

synsporous—(Gk. *syn*, with; *sporos* seed) युक्त कोशिकीय; कोशिका संयुजता (conjugation) द्वारा संचरण (propagation) जैसे शैवाल (algae) ।

syntechnic—(Gk. *syn*, with; *techne*, skill) संनिपात; वातावरण (environment) के कारण असम्बन्धित (unrelated) जन्तुओं (animals) में समानता ।

syntenosis—(Gk. *syn*, with; *tenon*, sinew) स्नायुकसन्धि ।

syntrophoblast—(Gk. *syn*, together; *trepheim*, to nourish; *blastos*, bud) युक्त पोष कोशिका; पोषकोरक बहुकेन्द्रकता; प्लास्मोडिट्रोफोब्लास्ट ।

syntropic—(Gk. *syn*, together; *trope*, turn) समान वृत्ति; सह अनुवर्ती ।

syntype—(Gk. *syn*, with; *typos*; pattern) सह प्ररूप । (देखिए cotype—सह प्ररूप) ।

synusia—(Gk. *synousia*, a living together) पादप समुदाय भाग ।

synzoospore—(Gk. *syn*, with; *zoon*, animal; *sporos*, seed) संयुज संघ कोशिका; संचल बीजाणु ।

syringium—(Gk. *syringx*, pipe) पिचकारी सद्श । कुछ पटपादों (insects) में अहित कारक (disagreeable) द्रव को निकालने वाला पिचकारी सद्श (syringe like) अंग (organ) ।

syringograde—(Gk. *syringx*, pipe; L. *gradus*, step) पिचकारी चालक ।

syrinx—(Gk. *syringx*, pipe) स्वर वाद्य; शब्दिनी; सिरिक्स ।

system—(Gk. *systema*—*syn*, together; *histemi*, I. place) (१) संस्थान (२) मण्डल (३) तंत्र, (४) संहति (५) निकाय (६) प्रणाली (७) समूह ।

systemic arch—दैहिक घमनी ।

systillius—(Gk. *syn*, with; *stylos*, column) सिस्टीलियस; मास का स्तम्भकाष्ठद ।

systole—(Gk. *systole*, drawing together) आकुंचन संकुचन; प्रकुंचन, सिस्टोल ।

systophe—(Gk. *systophe*, a gathering) प्रकाश पोष; प्रकाश से प्रवृत्त मंड कणों (starch granules) हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट) में समुच्चय ।

systylous—(Gk. *syn*, with; *stylos*; column) संसवत वर्तिकी ।

syzygium—(Gk. *syn*, with; *zygon*, yoke) संयुगी; गिरगौराइन समूह ।

syzygy—(Gk. *syn*, with; *zygon*, yoke) संयुक्तता, युति-वियुति; संयुग; ह्रास विभाजन (meiosis) में परम्परा सूत्रों के टुकड़ों (chromosome fragments) का पुनः संगठन ।

T

Tables—(L. *tabula*, board) (१) संविद; चपटी हड्डियों विशेषतः कपाल की हड्डियों के बाह्य या अन्तःस्तर; (२) सारणी ।

tube foot—नलिकापाद ।

tabula or tabulae—(L. *tabula*, table) टेबुला; व्यवधानिका; हाइड्रोकोरेलाइना (*hydrocorallina*) में लम्बे नलिकाओं को काटती हुई क्षैतिज व्यवधानिकाओं या विभक्तियाँ ।

tabulare—(L. *tabula*, table) टेबूलेर; कुछ कशेरु-दण्डियों के कपाल की पश्च-अस्थि (पश्चास्थि) ।

tachygenesis—(Gk. *tachys*, quick; *genesis*, descent) प्रवृत्तोत्पत्ति; द्रुतवर्धन; द्रुतोत्पत्ति; त्वरित परिवर्धन; जाति-विकास (phylogeny) में प्रवृत्त (accelerated) वर्धन या उत्पत्ति (development) ।

[देखिये उल्टा *bradygenesis*—अवरुद्धोत्पत्ति]

tachytelic—Gk. *tachys*, quick; *telos*, fulfilment) द्रुतविकासी; द्रुतोद्भिद; ऐसा जन्तु जो निश्चित या सामान्य चाल से अधिक गति या तीव्रता से विकसित हुआ है ।

tactic—(Gk. *taktos*, arranged) वृत्ति सम्बन्धी ।

tactile—(L. *tangere*, to touch) स्पर्शक; स्पर्श ।

tactical—(L. *toctus*, touch) स्पर्श वेदी; स्पर्शीय; स्पर्श चेतना सम्बन्धी ।

tadpole—टेडपोल; दैगची; मण्डूकार्भक; मेंढक की अर्भक-कावस्था (larval stage) का नाम ।

taenia—(L. *taenia*, ribbon) टेनिया; पट्टाकृति तंत्रिका या मांस; टीनिया ।

taeniate—(L. *taenia*, ribbon) फीतेनुमा ।

taenidium—(taenidia-pl)—(Gk. *tainia*, ribbon; *idion*, dim) टेनीडियम; व्यावर्ती सूत्र ।

taenioid—(Gk. *tainia*, ribbon; *eidōs*, form) पट्टाकार; मीनोपम; पट्टुकृमि या मीवा (tape-worm) सदृश; फीताम ।

tagmata—(Gk. *tagma*, corps) अनीक; इकाई; भाग; खण्ड-समूह; (molecular) प्रमाणु दल ।

tail—(A. S. *taegel*, hair) पूँछ; पुच्छ; डुम ।

talocalcaneal—(L. *talus*, ankle-bone; *calcaneum*, heel) गुल्फास्थि-पाणिनीय । गुल्फास्थि (एस्ट्रैगैलस *astragalus*) और पाणिनीका (कैलकैनियस *calcaneous*) सम्बन्धी ।

talon—(F. form L. *talus*, ankle) नखर; (१) शिकारी पक्षी का पंजा; (२) चर्वक दन्त (molar tooth) का पिछला उभड़ा भाग (३) दंतज ।

taloscaphoid—(L. *talus*, ankle; Gk. *skaphe*, boat; *eidōs*, form) टैलो-स्कैफाइड—; गुल्फास्थि-नौकाम (स्कैफाइड) अस्थि सम्बन्धी ।

talus—(L. *talus*, ankle) टैलस; एस्ट्रैगैलस; गुल्फास्थि; घुटिकास्थि; पादमलवा ।

tangoreceptor—(L. *tangere*, to touch; *receptor*, receiver) भारज्ञापक; दबाव संवेदक; स्पर्शग्राही ।

tapetal—(L. *tapetum*, carpet) टेपीटम सम्बन्धी; कुथीय ।

tapetic—कुथज ।

tapetum—(L. *topetum*, carpet) टेपीटम; कुथ ।

tap-root—(M. E. *tappe*, short pipe; A. S. *wyrt*, root) मूसला जड़; मुख्य जड़ का ऊपरी भाग मोटा और नीचे का भाग क्रमशः पतला होता जाता है । जैसे जैसे जड़ नीचे की ओर बढ़ती है इससे द्वितीयक तथा तृतीयक शाखाएँ निकलती हैं; मुख्य जड़ तथा इसकी शाखाएँ मिल कर मूसला जड़-तंत्र (tap-root system) बनाती हैं । उदाहरण—गाजर, चुकन्दर, मटर; चना आदि ।

tapeworm—मीवा; मीवा कृमि; टेपवर्म; फीता कृमि ।

tarsal—(Gk. *tarsos*, sole of foot) गुल्फ; टखना; टार्सल ।

tarsale or tarsalia—(Gk. *tarsos*, sole of foot) प्रपादास्थि; पाँव के तलुवे की हड्डियाँ ।

tarsi—(Gk. *tarsos*, sole of foot) टारसी; पलकों (eyelid) को सहारने सा साधने वाले सघन वन्धक तन्तुपट्ट ।

tarsometatarsal

tarsometatarsal—(Gk. *tarsos*, sole of foot; *meua*, beyond) टारसोमेटाटारसल; पाँव के तलुवे और टखने की मिली हुई हड्डी ।

tarsophalangeal—(Gk. *tarsos*, sole of foot; *phalangx*, line of battle) टारसोफेलनजियल; टखने और उँगली सम्बन्धी ।

tarsus—(Gk. *tarsos*, sole of foot) गुल्फ; टखने की हड्डी; टासंस ।

tartareous—(L. *tartarium*, acid spilt) रूक्षी; रूक्ष; खुरदरी तथा टेढ़ी सतह या तल वाला ।

taste bud—स्वादु-कलिका (कोरक) ।

tautomeric—(Gk. *tauto*, the same; *meros*, part) साम्य-खण्डी ।

tautonym—(Gk. *tauto*, the same; *onyma*, name) सनामता; जाति या प्रकार या उप जाति का एक ही नाम देना ।

taxeopodous—(Gk. *taxis*, arrangement; *pous*, foot) साक्षपादी; टारसल हड्डियों की टाँग की हड्डियों का सीधी रेखा में होना ।

taxis—(Gk. *taxis*, arrangement) न्यास; अनुचलन; अंगियों (organism) का किसी उत्तेजना (stimulus) की ओर आकर्षण या हटाव के कारण न्यास (arrangement) ।

taxonomy—(Gk. *taxis*, arrangement; *nomos*, law) वर्गीकरण विज्ञान; वर्गिकी; यह शाखा प्राणियों के विविध जातियों (species) के अन्वेषण और परिचय से सम्बन्ध रखती है और प्राकृतिक सम्बन्ध (natural relationship) के आधार पर जन्तुओं के क्रमानुगत समुदायों (graded groups) में यथास्थल रखने का प्रयत्न करती है ।

teats—धन, अंगुलेटा (खुरी प्राणी) के स्तन का अगला भाग; चूचुक ।

tectology—(Gk. *tektion*, builder; *logos*, discourse) रचना निर्माण विज्ञान; रचना विधान विज्ञान; वह रचना विज्ञान (morphology) जिसमें अङ्गी (organism) व्यापारिक इकाइयों (physiological units) से पृथक रचनाओं का समूह माना जाता है ।

tectorial—(L. *tectus*, covered) आच्छादित; छादक किल्ली ।

tectospondylic—(L. *tectus*, covered; Gk. *spondylos*, vertebra) खरिकाच्छादित कशेरू ।

tectrices—(L. *tectus*, covered) प्रच्छन्न पक्ष ।

teeth—(A. S. *toth*, tooth) दाँत; दन्त ।

tegmen—(L. *tegmen*, covering) टिगमन; त्वक्; अन्तःकवच ।

१—नर कोटों का नवाँ उदरीय पृष्ठकखंड (abdominal tergite) ।

२—ऑर्थोप्टिरा (orthoptera) का अग्रपक्ष (anterior wing) ।

३—कर्ण-पटह गहवर (tympanic antrum) के ऊपर पतली अस्थि की प्लेट ।

४—बीज चोल (seed-coat) का अन्तःस्तर ।

५—अन्तःपार्श्व पटल (endopleura) ।

tegumentum—(L. *tegmen*, covering) कोरकी-रक्षा-वरण; छादिका; आच्छद् ।

tegula—(L. *tegula*, tile) टेगुला; उप-पक्ष ।

tegular—(L. *tegula*, tile) टेगुला; टेगुला सम्बन्धी ।

tegment—(L. *tegula*, tile) टेगुमेन्ट; भावेष्टन; त्वकावरण ।

tela—(L. *tela*, web) तन्त्र तन्तु; जालोपम तन्तु (ऊतक), अघ्यावरण ।

telamon—(Gk. *telamon*, supporting strap) टिलामोन; गुदापट्ट; अघोकटिका ।

telarian—(L. *tela*, web) जाल कर्तक; तन्त्र तन्तु-कर्तक ।

teleceptor—(Gk. *tele*, far; L. *capere*, to take) प्रकर्ष ज्ञापक; दूर-ग्राह्य; ऐसा ज्ञापक या वेदनांग (sense organ) जो दूर पर प्रारम्भ होने वाली उत्तेजना को ग्रहण करता है ।

telegamic—(Gk. *tele*, far; *gamos*, marriage) मादा प्रकर्षी; फासले से मादा को आकर्षित करने वाला ।

telegenesis—(Gk. *tele*, far, *genesis*, descent) कृत्रिम गर्भावान ।

telegony—(Gk. *tele*, far; *gamos*, offspring) प्ररूप सन्तति ।

teleianthous—(Gk. *teleios*, complete, *anthos*, flower) उभयजननांगी (पुष्प) । जायांग (gynoecium) और पुमंग (androecium) युक्त पुष्प ।

- telemetacarpel—(Gk. *tele*, for; *meta*, after; *karpos*, wrist) आसन्न करभिका ।
- telecephalon—(Gk. *teleos*, far; *engkephalos*, brain) पूर्वाग्र मस्तिष्क ।
- teleodont—(Gk. *teleos*, complete; *odous*, tooth) दीर्घ दन्तक ।
- teleology—उद्देश्यवाद; टिलियोलॉजी ।
- teleophore—(Gk. *teleos*, complete; *pharein*, to bear) मेडूसाधारी ।
- teleoptile—(Gk. *teleos*, complete; *ptilon*, feather) पूर्णपक्ष; प्रौढ़पिच्छ ।
- teleorganic—(Gk. *teleos*, complete; *organon*, instrument) विज्ञेयिक ।
- teleostei—टिलियोस्टि; टेलिओस्टीआई (अस्थिमीन) ।
- telescopicform—(Gk. *tele*, far; *skopein* to view; *L. forma*, shape) दूरदर्शकोपम; दूरबीन के आकार का ।
- telentosorus—(Gk. *teleute*, completion; *soros*, heap) टेल्यूटोसोरस; टेल्यूटो बीजाणुधानी पुंज ।
- teleutospore—(Gk. *teleute*, completion; *sporos*, seed) टेल्यूटोस्पोर; टेल्यूटो बीजाणु ।
- teleutosporeiferous—(Gk. *teleute*; completion, *sporos*, seed; *L. ferre*, to carry) टेल्यूटोस्पोर धारी ।
- teliostage—(Gk. *telos*, end; *F. etage*, stage; form *L. stare*, to stand) टिल्योस्टेज; टिलिया स्थिति फन्जाई की प्रौढमावस्था जिसमें टिलिया (*telia*) उत्पन्न होते हैं ।
- teloblast—(Gk. *telos*, end; *blastos*, bud) टेलोब्लास्ट; अन्तकोष्ठ; अन्तकोरक; अन्त-जन; एक बड़ी कोशिका जिससे नवीन छोटी-छोटी कोशिकाओं की पंक्ति अंकुरित होती है जैसे खण्ड देहियों (*annelid*) के भ्रूणों में ।
- telocentric—(Gk. *telos* end; *koilos*, centre) अन्त-सूत्रक; अन्तकेन्द्री ।
- telocoele—(Gk. *telos*, end; *koilos*, hollow) अन्तगुहा; (१) मस्तिष्क की प्रथम या द्वितीय गुहा; (२) पार्श्व विवर या गुहा (*lateral ventricle*); (३) पूर्वाग्र मस्तिष्क कोषिका (*telencephalic vesicle*) ।
- telodendrion—(Gk. *telos*, end; *dc. drion*, dim

- of *dendron*, tree) अन्तद्रुमक; अक्षक (*axon*) का अन्तिम शाखा पुंज (*terminal arborisation*) ।
- telokinesis—(Gk. *telos*, end; *kinesis*, movement) अन्तःस्थिति; सूत्र-कोशिका विभाजन (*mitosis*) की वह अन्तिम स्थिति, जिसमें दुहिताण्ड या दुहिता केन्द्रकों (*daughter nuclei*) का पुनः निर्माण होता है ।
- telolecithal—(Gk. *telos*, end; *lekithos*, yolk) अन्तयोकी; टेलोलेसीथल, ध्रुव स्थित डिम्बान्न डिम्ब; गोलाघर्ष पीतकी; ऐसे अण्डे, जिनमें योक या डिम्बान्न (*yolk*) एक ओर स्थित रहता है ।
- telolemma—(Gk. *telos*, end; *lemma*, skin) अन्तपिषान ।
- telome—(Gk. *telos*, end) टेलोमे; बीजाणु-उद्भिन्ध (*sporophytic*) इकाई; कॉर्मोफाइट (*cormophyte*) में वृत्त (*stalk*) और बीजाणुधानी (*sporangium*) की एक आकृतिक इकाई (*morphological unit*) ।
- telomere—(Gk. *telos*, end; *meros*, part) अन्तखण्ड; परम्परा सूत्र का केन्द्र खण्ड (*centromere*) से स्थित अन्तिम भाग ।
- telomitic—(Gk. *telos*, end; *motos*, thread) अन्तसूत्रक ।
- telophase—(Gk. *telos*, end; *phasis*, aspect) अन्तस्थिति; अन्त्य रूप; विषम कोशिका विभाजन की अन्तिम आकृति, जिसमें न्यूक्लियस विभाजन (*nuclear division*), पूर्ण होने पर प्ररस (*cytoplasm*) विभाजन भी हो जाता है ।
- telophragma—(Gk. *telos*, end; *phragma*, tence) अन्त-प्रावर; अन्त्यवृत्ति ।
- telosynapsis—(Gk. *telos*, end; *synapsis*, union) अन्त-युग्मीकरण ।
- telosyndesis—(Gk. *telos*, end; *syndesis*, binding together) अन्त संयुजता; हास कोशिका विभाजन (*meiosis*) में अर्ध परम्परा सूत्रों (*chromosomes*) को आपस में छोर द्वारा संयुजता (*union*) ।
- telotaxis—(Gk. *telos*, end; *taxis*, arrangement) अन्त-वृत्ति; अन्त-दिक् विन्यास; प्रत्युत्पन्न ।
- telotroch—(Gk. *telos*, end; *trochos*, wheel) गुद्म-अन्तवक; गुदपूर्वगुच्छ, अन्त घूर्ण; ट्रोकोस्फियर (*trochosphere*) में गुदा (*anus*) से पूर्व स्थित तंतु का गुच्छ या स्तंभक (*tuft*) ।

telotrophic—(Gk. *telos*, end; *trophe*, nourishment) अन्तपोषी ।

telson—(Gk. *telson*, extremity) टेलसन; पुच्छखण्ड अन्तावयव; केकड़ा वंशियों (crustacea) के उदर (abdomen) का अन्तिम (terminal) आयुग्मिक (unpaired) खण्ड (segment) ।

telum—(Gk. *telos*, end) टीलम; अन्तोदर खण्ड; पट-पाद या कीट (insect) के उदर (abdomen) का अन्तिम खण्ड (last segment) ।

temnospondylous—(Gk. *temnein*, to cut; *spondylous*, vertebra) व्यक्त कशेरुक; अयुक्तकशेरुकीय; ऐसे जन्तु जिनके कशेरुक कई टुकड़ों या टुकड़ों के व्यक्त या जुड़ने (articulation) से बनते हैं और जो एक दूसरे से पृथक् होते हैं ।

temple—(L. *tempora*, temples) कनपटी; कान और आँख के मध्य का भाग; टेम्पल ।

temporal—(L. *tempora*, temples) टेम्पोरल; कनपटी सम्बन्धी; कालिक; शंख ।

temporal fossae—गण्डखात; शंखखात ।

temporalis—(L. *tempora*, temples) टेम्पोरैलिस (मांस पेशी); हनु सम्बन्धी मांस पेशी; शंखपेशी ।

temporomaxillary—(L. *tempora*, temples; *maxilla*, jaw) टेम्पोरोमैक्सिलरी; पश्चान्ती शिरा ।

tenaculum—(L. *tenax*, holding) टैनाकुलम ।

१—शैवाल का स्थापनांग (hold fast) ।

२—कुछ सी-एनीमोन (sea anemone) में बालु-कण (sand grains) को स्थित करने हेतु बाह्य चर्म क्षेत्र ।

३—टेलिऑस्ट (teleosts) मत्स्यों में चक्षु गोलक से खोपड़ी तक फैला हुआ तन्तु पट (fibrous band) ।

tendency—(L. *tendere*, to stretch) प्रवृत्ति; रुचि ।

tendinous—(L. *tendere*, to stretch) स्नायोपम; स्नायुमय; स्नायु युक्त ।

tendon—(L. *tendere*, to stretch) स्नायु; टेन्डन; रज्जु; बंध; कंडरा ।

tendril—O. F. *tendrillon*, tender spring) प्रतान; (१) पर्णप्रतान (जब पत्ती प्रतान (tendrils) का रूप धारण कर लेती है) । (२) टेण्ड्रिल-आरोही पौधे—रन

पौधों में चढ़ने वाले अंग प्रतान या टेण्ड्रिल कहलाते हैं । पौधे के विभिन्न भाग जैसे तने की शाखा, सम्पूर्ण पत्ती या इसका कुछ अंश, पुष्पक्रम आदि संपरिवर्तित होकर प्रतान बनाते हैं । प्रतान प्रायः डोरे के समान पतले होते हैं ।

tendrillar—(O. F. *tendrillon*, tender sprig) प्रतानी ।

tenent—(L. *tenere*, to hold) कुडुप; फले हुए किनारों वाले नलिका रोमों से स्थिर ।

tenelar—(L. *tener*, tender) अपरिपक्व ।

Tenon, Capsule of—(J. R. *Tenon*, French anatomist) टेनन सम्पुट; चक्षु गोलक पिघानक ।

tensor—(L. *tendere*, to stretch) टेनसर; प्रदिश; उत्तानक; वह मांस पेशी जो शरीर के किसी भाग को उत्तान (stretch) करती है ।

tentacles—(L. *tentaculum*, feeler) स्पर्श शृङ्ग; स्पर्शक; (समासों में केवल) तन्त्र; संस्पर्शक ।

tentacular—(L. *tentaculum*, feeler) स्पर्श शृङ्गीय; स्पर्श शृङ्ग सम्बन्धी; स्पर्शक ।

tentaculiferous—(L. *tentaculum*, feeler; L. *forma*, shape) स्पर्श शृङ्गधारी; स्पर्शकधर ।

tentaculiform—(L. *tentaculum*, feeler; L. *forma*, shape) स्पर्श शृङ्गोपम; स्पर्शक रूप ।

tentaculocyst—(L. *tentaculum*, feeler; Gk. *kystis*, bladder) स्पर्श शृङ्ग-कोशिका; शिरस्तन्त्र कोशिका; स्पर्शक पुटी ।

tentaculozooids—(L. *tentaculum*, feeler; Gk. *zoon*, animal; *eidos*, form) शिरस्तन्त्र मुकुल; स्पर्श जीवक ।

tentaculum—(L. *tentaculum*, feeler) शिरस्तन्त्र स्पर्शक; स्पर्शिका ।

tentilla—(L. *tentare*, to feel) उपस्पर्शक; स्पर्श शाखा ।

tentorium—(L. *tentorium*, tent) टेन्टोरियम; (१) कीटों (insects) के मस्तिष्क को सहारा देने वाला काइटिन (chitin) का बना हुआ ढाँचा; (२) दृढ़द (dura mater) की अनुप्रस्थ (transverse) भाँज (fold); (३) मस्तिष्कटदि ।

tepal

tepal—(F. *tepale*, from *petale*) परिदल पुंज खण्ड (जो बाह्यदल अथवा दल से सम्बन्धित हो) ।

teratology—(Gk. *teras*, monster; *logos*, discourse) विकृताकृति विज्ञान; विरूपता विज्ञान; विकृति विज्ञान; जन्तु (animals) और वनस्पतियों (plants) की विकृत कृतियों (malformations) सम्बन्धी विज्ञान ।

tercine—(L. *tertius*, third) तृतीयावरण; बीजांड का तृतीय चोल ।

terebra—(L. *terebra*, borer) वेधक (डिम्बस्थापक); वेधनी ।

terebrate—(L. *terebra*, borer) वेधकीय; विकीर्ण-रन्ध्री ।

teres—(L. *teres*, rounded) टेरिस; अंसान्वितिका; (१) यकृत का वृताकार बन्धक तन्तु; (२) मांस पेशियाँ-वृहतटेरिस (*teres major*) और लघु टेरिस (*teres minor*) जो स्कंध (*scapula*) से अग्र बाहु अस्थि—ह्यूमेरस (*humerus*) तक फैली होती हैं ।

terete or teretial—(L. *teres*, rounded) वृताकार; वृत्तोपम ।

tergal—(L. *tergum*, back) टरगल; पृष्ठ पट्ट सम्बन्धी ।

tergminate—(L. *ter*, thrice; *gemi*, twins) त्रिविभक्त; त्रिशालीय ।

tergite—(L. *tergum*, back) टरगाइट ।

tergosternal—(L. *tergum*, back; *sternum*, breast bone) पृष्ठपटल; टरगोस्टर्नल; पृष्ठकाधरकीय; पृष्ठाघो पटली; टरगाइट (*tergite*) और स्टर्नाइट (*sternite*) को जोड़ने वाला ।

tergum—(L. *tergum*, back) टरगम; पृष्ठ पट्ट (पटल); नोटम; पृष्ठक ।

terminal—(L. *terminus*, end) अन्तिम; अन्तस्य; अन्त्य; अन्तका; अन्त सम्बन्धी; सिरा ।

terminal arborisation—अन्तिम शाखा पुंज ।

terminalia—(L. *terminus*, end) लिंगक; उपान्तक ।

terminology—(L. *terminus*, end or a boundary) परिभाषिक शब्द; शब्दावली ।

termitarium or termitary—(L. *termes*, wood-

worm) दीमक गृह; दीमक का सुचारु रूप से बना हुआ घर ।

termitophil—(L. *termes*, woodworm; Gk. *phil-* *lein*, to love) दीमक गृह वासी ।

termones—(Gk. *termon*, limit) लिंग निर्णायक; कुछ एक-कोशिकीय (protozoans) में लिंग निर्धारक या निर्णायक (sex-determining) पदार्थ या उद्दीपक (hormone) ।

ternary ternate—(L. *terin*, three each) त्रिशंगी ।

ternatopinnate—(L. *terni*, three each; *pinna*, feather) त्रिपिच्छक पर्ण; प्रत्येक संयुक्त पत्ती (compound leaf) में तीन पिच्छाकार (pinnate) पर्णक (leaflet) का होना ।

terranian—(L. *terra*, earth) भूमि सम्बन्धी ।

erraneous—(L. *terra*, earth) भूमि पर उगने वाला ।

terraqueous—(L. *terra*, earth) द्विधा; जल थलका ।

terrestrial—(L. *terra*, earth) भूमिक; भूमि या पृथ्वी पर वास करने वाले; स्थलीय; पार्थिव; भौमिक ।

terrigenous—(L. *terra*, earth; *gignere*, to produce) औद्भिदी; पार्थिविक; स्थलज; पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला ।

territory—(L. *territorium*, domain) राष्ट्र; प्रदेश; क्षेत्र ।

tertiary—(L. *tertius*, third) तृतीयक; तृतीय श्रेणी का; तिजारी; त्रियेसिक ।

tessellated—(L. *tessella*, small stone cube) घनाच्छदी; घनों (cubes) से निर्मित; कुह्मि चित्रित ।

test—(L. *testa*, shell) टेस्ट; बाह्य दृढावरण (रक्षात्मक आवरण); चोल ।

testa—(L. *testa*, shell) टेस्टा; बाह्य कर्पर; बीज चोल ।

testaceous—(L. *testa*, shell) टेस्टावृत; टेस्टा या बाह्य कर्पर (outer shell) से ढका हुआ; इष्टिकावर्णी ।

testicle—(L. *testis*, testicle) अण्ड कोष; वृषण; फोता; अण्ड ग्रन्थि ।

testicular—(L. *testis*; testicle) अण्डकोषीय; अण्डकोष सम्बन्धी ।

testis, (pl) testes—(L. *testis*, testicle) चुक्र-ग्रन्थि; धीर्य ग्रन्थि; नर जनन ग्रन्थि; वृषण ।

testis sac—वीर्यज पेटी ।

testosterone—(L. *testes*, testicle; Gk. *stear*, swet) टेस्टोस्टीरोन; वृषण हार्मोन; $C_{19}H_{29}O_2$.

testudinate—(L. *testudo*, tortoise) कूर्म; कछुए की पीठ के सदृश कवच रखने वाले जन्तु ।

tetaniform—(Gk. *tetanos*, stretched; L. *forma*, shape) उत्तानोपम ।

tetanise—(Gk. *tetanos*, stretched) प्रतिष्ठापन संकोचता; क्रमिक प्रतिष्ठापन निर्घात (induction shock) से पेशी को संकुचन प्रदान करना ।

tetanus—(Gk. *tetanos*, stretched) घनु स्तम्भ; उत्तानित; टिटनेस ।

tethelin—(Gk. *tethys*, titaness) टियेलिन; पिट्यूटर की पिण्ड से पृथक वृद्धिकारक तत्व ।

tetra—चतुः; चार अर्थ का उपसर्ग ।

tetrabranchiate—(Gk. *tetras*, four; *branchia*, gills) चतुर्गिरी; चतुष्कलोमी ।

tetracarpellary—(Gk. *tetras*, four; *karpos*, fruit) चतुर्पांडपी; चतुर्भंडपी ।

tetracerous—(Gk. *tetras*, four; *karas*, horn) चतुर्शृङ्गी; चतुर्शृङ्गी ।

tetrachotomous—(Gk. *tetracha*, fourfold; *tome*, cutting) चतुर्भाजी; चतुर्खण्डी; चतुर्भाजिनोप ।

tetracoccus—(Gk. *tetras*, four; *kokkos*, kernel) चतुर्गोलाणुक; चतुः फलांशकी ।

teracrepid—(Gk. *tetras*, four; *krepis*, edge) चतुर्किरणो; सूक्ष्म चतुररीय ।

tetract—(Gk. *tetras*, four; *akits*, ray) चतुर्किरणो दूढ़ा या स्पीक्यूल (spicule); टेट्रैक्ट; चतुर्दिशिका ।

tetractine—(Gk. *tetras*, four; *aktis*, ray) सम-चतुररीय (स्पीक्यूल) ।

tetracyclie—(Gk. *tetras*, four; *kyklos*, circle) चतुर्दशकी; चतुर्चक्र ।

tetrad—(Gk. *tetras*, four) चतुष्क; चतुष्दली; चतुष्प ।

tetradactyl—(Gk. *tetras*, four; *daktylos*, finger) चतुर्पांगुलिक; चतुर्गुलिक; चतुर्गुलित ।

tétradynamous—(Gk. *tetras*, four; *dynamis*, power) कूषीफेरी कुल के चतुर्दीर्घी पुष्पो में बाहर की ओर दो पुंकेसर अंदर के चार पुंकेसरों की अपेक्षा लम्बाई में छोटे होते हैं । इस प्रकार के पुमंग को चतुर्दीर्घी पुमंग कहते हैं, जैसे सरसों, मूली आदि ।

tetragonal—(Gk. *tetras*, four; *gonia*, angle) चतुष्कोणी; द्विसमलंबाक्ष ।

tetragynous—(Gk. *tetras*, four; *gynē*, female) चतुर्जायांगी ।

tetralophodont—(Gk. *tetras*, four; *lophas*, crest; *odous*, tooth) चतुर्शिखरी चर्बक; चतुष्कण्ठी; टेट्रा लोफोडॉन्ट ।

tetralophous—(Gk. *tetras*, four; *lophos*, crest) चतुर्शिखरी; चतुर्शिखर ।

tetramerous—(Gk. *tetras*, four; *meros*, part) चतुष्खण्डी; चतुष्पटी; चार खण्डों से चार की गुण संख्या से बना हुआ भाग ।

tetramite—(Gk. *tetras*, four; *mitos*, thread) चतुर्सूत्रक ।

tetramorphic—(Gk. *tetras*, four; *morphe*, form) चतुर्रूपी ।

tetrandrous—(Gk. *tetras*, four; *aner*, man) चतुः पुंकेसरी ।

tetrapetalous—(Gk. *tetras*, four; *petalon*, leaf) चतुष्दली ।

tetraploid—(Gk. *tetraple*, four-fold) चतुर्गुणक; चतुष्दली; चतुर्गुणित ।

tetrapneumonous—(Gk. *tetras*, four; *pneumon*, lung) चतुर्-पृच्छोपम फुफ्फुस ।

tetrapod—(Gk. *tetras*, four; *pous*, foot) चतुर्पादी, चतुष्पादी; चतुष्पाद ।

tetrapterous—(Gk. *tetras*, four; *pteron*, wing) चतुर्पक्षज ।

tetrapyrenous—(Gk. *tetras*, four; *kyren*, fruit stone) चतुर्प्रच्छिन्न फल ।

tetraquetrous

tetraquetrous—(Gk. *tetras*, four; L. *quadratus*, squared) चतुर्कोणक ।

tetrarch—(Gk. *tetras*, four; *archos*, chief) चतुर आदिदारुक ।

tetraselenodont—(Gk. *tetras*, four; *selene*, moon; *odous*, tooth) चतुर्चन्द्रोपम कूटक (चर्बक दन्त); चार चन्द्राकार कूटों वाला चर्बक दन्ती ।

tetrasepalous—(Gk. *tetras*, four; F. *sepale*, sepal) चतुश्वाह्यदली ।

tetraspermous—(Gk. *tetras*, four; *sperma*, seed) चतुर्बीजी ।

tetrasporangium—(Gk. *tetras*, four; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) चतुर्बीजी बीजाणुधानी ।

tetraspore—(Gk. *tetras*, four; *sporos*, seed) चतुर्स्पोरी; चतुर्बीजाणु ।

tetrasporocystid—(Gk. *tetras*, four; *sporos*, seed; *kystis*, bladder) चतुर्स्पोर सिस्टिज ।

tetrastichous—(Gk. *tetras*, four; *stichos*, row) चतुर्पंक्तिक ।

tetrathecal—(Gk. *tetras*, four; *theke*, case) चतुर्कोषी ।

tetraxon—(Gk. *tetras*, four; *axon*, axis) चतुर्-सूत्राक्षी; चतुराक्षी; सम चतुरंरी ।

tetrazoic—(Gk. *tetras*, four; *zoon*, animal) चतुर्-रेंगुक; चतुर्-रेंगुजीवी ।

thalamencephalon—(Gk. *thalamos*, receptacle; *engkephalos*, brain) थैलेमनसिफेलोन; अर्न्तमस्तिष्क; पश्चादाग्र मस्तिष्क ।

thalamus—(Gk. *thalamos*, receptacle) थैलेमस; पुष्पासन; चेतक (कशेरुकी); वेश्म (अकशेरुकी) ।

thalassin—(Gk. *thalassa*, sea) थैलेसिन (विष); सी-एनीमोन जन्तुओं के स्पर्शक का विष ।

thalassoplankton—(Gk. *thalassa*, sea; *planktos*, wandering) समुद्रिक प्लावी (प्लावक); समुद्रप्लवक ।

thalline—(Gk. young shoot) थालिन; थैलस युक्त ।

thalloid—(Gk. *thallos*, young shoot; *eidos*, form) थैलसोपम; थैलस सदृश ।

thallome—(Gk. *thallos*, young shoot) थैलस सदृश ।

thallophyte—(Gk. *thallos*, young shoot; *phyton*, plant) थैलोफाइटा; ऐसे पादप जिनमें तना और जड़ में विभेद नहीं होता जैसे एल्गी (शंवाल); फन्जाई (कवक) और लाइकिन्स । इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियाँ नहीं होती हैं—जिनमें यह अंग पाये भी जाते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है ।

thallospore—(Gk. *thallos*, young shoot; *sporos*, seed) थैलोस्पोर; थैलस बीजाणु । फंगस के वनस्पति भाग में स्पोर-कोशिका ।

thallus—(Gk. *thallos*, young shoot) थैलस; कोशिका समूह जिसमें पत्ती और तना में कोई विभेद नहीं होता है जैसे थैलोफाइटा में ।

thanatoid—(Gk. *thanatos*, death; *eidos*, from) प्राणधानी; प्राणनाशक ।

thanatology—(Gk. *thanatos*, death; *logos*, discourse) मृत्युशास्त्र; मौत विज्ञान; मृत्यु सम्बन्धी मत ।

thanatosis—(Gk. *thanatos*, death) मरण सन्नता; मरणाभास ।

thebasian—(A. C. *thebesius*, German anatomist) थेबेसियन (कपाट); किरिटी कोटर (coronary sinus) का कपाट ।

theca—(Gk. *theke*, case) पेटिका; रक्षकावरण; खोल; कक्ष; प्रावरक ।

thecacyst—(Gk. *theke*, case; *kystis*, bladder) वीर्याणुच्छद् ।

thecaphore—(Gk. *theke*, case; *pherein*, to bear) प्रावरकघर ।

thecasporous—(Gk. *theke*, case; *sporos*, a seed) श्रावृत बीजाणु; प्रावरक बीजाणु ।

thecate—(Gk. *theke*, case) च्छदी, गतिक ।

thecium—(Gk. *theke*, case) थीसियम; बीजाणु-धारी ।

thecodont—(Gk. *theke*, case; *odous*, tooth) गतिकोदन्त (दन्त गा दांत); गतदन्ती ।

theelin—(Gk. *thelys*, female) थेलिन; कापकीय

(follicular) हार्मोन; फोली कुलिन; आँस्ट्रिन; एस्ट्रोन;
C₁₈H₂₂O₃.

theelol—(Gk. *thelys*, female) धीलोल; माद्य भ्रूव
में उपस्थित जलयुक्त धीलोल; आँस्ट्रियोल (oestriol);
C₁₈H₂₄O₃ ।

thelyblast—(Gk. *thelys*, female; *blastos*, bud)
परिपक्वमादा जनन कोशिका ।

thelygenic—(Gk. *thelys*, female; *genos*, offspring)
मादा प्रसवनी; केवल मादा बच्चे प्रसव या जनने
वाली ।

thelyotoky—(Gk. *thelys*, female; *tokos*, offspring)
अनिषेक नारी जनन; अनिषेक स्त्रीजनन; ऐसा
अनिषेकज उत्पादन (parthenogenesis) जिसमें मादा
ही उत्पन्न होती है ।

thelyplasm—(Gk. *thelys*, female) *plasma*, mould)
मादा द्रव्य; मादा सत्व ।

[देखिये arrhenoplasm—नर-सत्व]

thenal—(Gk. *thenar*, palm of hand) चर्पटी; कर
तल या हथेली सम्बन्धी ।

thenar—(Gk. *thenar*, palm of hand) अंगुष्ठ
पेशी ।

thermogenesis—(Gk. *therme*, heat; *genesis*,
descent) तापोत्पादक ।

thermogenic—ताप जनक ।

thermolysis—(Gk. *therme*, heat; *lysis*, loosing)
तापक्षीणता; तापांशन; ताप-अपघटन ।

thermonasty—(Gk. *therme*, heat; *nastos*, close
pressed) ताप-अनुकुंचन ।

thermophil—(Gk. *therme*, heat; *philos*, loving)
तापसमृद्धी; तापप्रेमी; ताप रागी ।

thermophylactic—(Gk. *therme*, heat; *phylakti-*
kos, fit for preserving) उष्णोद्भक्त; तापशीली ।

thermoscopic—(Gk. *therme*, heat; *skopein*, to
view) ताप संवेदी; ताप बोधक ।

thermosphere—वायु वायुमंडल ।

thermotactic—(Gk. *therme*, heat; *taxis*, arrange-
ment) तापवृत्ति ।

thermotaxis—(Gk. *therme*, heat; *taxis*, arrange-
ment) तापवृत्ति; तापन्यास; ताप अनुचलन ।

thermotropism—(Gk. *therme*, heat; *trope*, turn)
तापामवृत्ति; तापानुवर्तन ।

theromorpha—वीरोमोर्फा; स्तनियों के सद्यः स्तनघारी
भूचर (रेंगने वाले) सृषी ।

thesocytes—(Gk. *thesis*, deposit; *kytos*, hollow)
निषाकोशिका; संनयाणु ।

thickening—(A. S. *thicce*, thick) स्थूलीकरण; घना
या गाढ़ा होना ।

thigh—(A. S. *theoh*, thigh) उरु; जघा या जाँघ ।

thigmocyte—(Gk. *thigema*, touch; *kytos*, hollow)
स्पर्श-कोशिका; स्पर्शाणु ।

thigmomorphosis—(Gk. *thigema*, touch; *mor-*
phosis, form) स्पर्श-रूपान्तर; स्पर्श के कारण आकृति
में परिवर्तन होना; स्पर्श-रूपान्तरण ।

thigmotaxis—(Gk. *thigema*, touch; *taxis*,
arrangement) स्पर्श-न्यास; स्पर्शानुचलन; स्पर्श-गति;
स्पर्श उत्तेजना (touch stimulus) का गति कारक प्रति
उत्तर (reaction) ।

thigmotropism—(Gk. *thigema*, touch; *trope*,
turn) स्पर्शामिवृत्ति; स्पर्शानुवर्तन ।

thiogenic—(Gk. *thicion*, sulphur; *genacoin*, to
produce) गन्धकोत्पादक ।

thiophil—(Gk. *thicion*, sulphur; *philos*, to love)
गन्धक समृद्धी; सल्फाइडरागी ।

thistle—स्तन गर्त, कुछ जन्तु जैसे मोनोट्रीम त्वचा में
स्थित रूईदार गड्ढे जिनके रोमों द्वारा बच्चे दूध
पीते हैं ।

thoracic—(Gk. *thorax*, chest) वक्षीय; दक्ष; वक्ष
सम्बन्धी ।

thoracic duct—शौरस प्रणाली; वक्ष-प्रणाली ।

thorax—(Gk. *thorax*, chest) वक्ष; उच्च वक्ष-
दण्डियों में गर्दन और उदर (abdomen) के बीच का
भाग, जिसमें हृदय; फेफड़े आदि स्थित रहते हैं; अन्य
जन्तुओं में तिर के पीछे का क्षेत्र ।

thread cells—सूत्र कोशिका; सीलोमान्शीर्षों या सीले-
न्ट्रेट्स (coelentrates) में प्रहारी कोशिकाएँ (stinging
cells) ।

threadworm—सूत्र कृमि; सूत्र या घागे सदृश आकृति वाले परजीवी कृमि जैसे चूने आदि ।

thremmatology—(Gk. *threnma*, nursing; *logos*, discourse) प्रजनन शास्त्र ।

thrombin—(Gk. *thrombos*, clot) थ्रॉम्बिन; फाइब्रिन-उद्दीपक जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देती है ।

throat—(A. S. *throta*, the throat) कण्ठ ।

thrombocytes—(Gk. *thrombos*, clot; *kytos*, hollow) थक्का कण; विम्बाणु; रुधिर को थक्का या जमाने वाले कण; थ्रॉम्बोसाइट ।

thrombogen—(Gk. *thrombos*, clot) थ्रॉम्बोजिन; प्रोथ्रॉम्बिन ।

thrombokinase—(Gk. *thrombos*, clot; *kinein*, to move) थ्रॉम्बोकाइनेस; एक कारक जो फ़ैलिथियम के साथ प्रोथ्रॉम्बिन को क्रियाशील कर थ्रॉम्बिन बनाता है और जो ऊतकों और रुधिर प्लेटलेट्स (blood platelets) में पाया जाता है; थ्रॉम्बोप्लास्टिन ।

thromboplastid—(Gk. *thrombos*, clot; *plastos*, moulded) थ्रॉम्बोप्लास्टिड; रुधिर प्लेटलेट ।

thromboplastin—(Gk. *thrombos*, clot; *plastos*, moulded) थ्रॉम्बोप्लास्टिन; थ्रॉम्बोकाइनेस या थ्रॉम्बोप्लास्टिक कारक; थ्रॉम्बोजाइम; साइटोजाइम ।

thrombosis—(Gk. *thrombosis*, clot) जमना या थक्का बनाना; घनास्रता; थ्रॉम्बोसिस ।

thrombozyme—(Gk. *thrombos*, clot; *zyme*, leaven) थ्रॉम्बोकाइनेस; थ्रॉम्बोजाइम ।

thrum-eyed—दिशा-चातुक; लघु वृत्तिकी; दीर्घ पुंकेसरी नलिकाकार दलपुंज के किनारे तक फैले हुए ।

[देखिये—pin-eyed—अल्प भू पुंकेसरी एवं नलिकाकार दल के मुँह पर चक्षु चिन्ह युक्त]

thumb—(A. S. *puma*, thumb) अंगुष्ठ; अंगूठा ।

thyloses—(Gk. *thylakos*, pouch) मृदूतक निर्माण; द्वितीयक काष्ठ के दबाव के कारण मृदूतक पुंजों का काष्ठ बाहिकाओं के अन्दर निर्माण ।

thymocyte—(Gk. *thymos*, thymus; *kytos*, hollow) थाइमोसाइट; थाइमस के वल्कल में लघु लसिकाणु ।

thymovidin—(Gk. *thymos*, thymus; L. *ovum*, egg) थाइमोविडीन; पक्षियों में थाइमस का एक हार्मोन जो तुप (shell formation) और अण्ड श्वेत (albumin) निर्माण को प्रभावित करता है ।

thymus—(Gk. *thymos*, thymus) थाइमस; कण्ठ के निचले भाग में स्थित नली हीन ग्रन्थि जो युवावस्था प्रारम्भ होने के साथ विलीन हो जाती है; इसके स्राव से लिंग सम्बन्धी परिपक्वता (sexual maturity) शीघ्र आती है ।

thyreoid—(Gk. *thyreos*, oblong-shield; *eidos*, form) थाइरिआइड; फलकाभ; फलकी; छत्राकार—एक अन्तःस्रावी ग्रन्थि ।

thyridium—(Gk. *thyra*, door; *arytaina*, pitcher; *eidos*, form) रोमहीन क्षेत्र; कुछ कीटों के पक्ष पर रोमहीन श्वेत क्षेत्र ।

thyro-arytenoid—(Gk. *thyra*, door; *arytaina*, pitcher; *eidos*, form) थाइरो-अरेटिनॉइड (पेशी); स्वरयंत्र (larynx) की एक पेशी विशेष ।

thyroepiglottic—(Gk. *thyra*, door; *epi*, upon; *glotta*, tongue) थाइरोएपीग्लोटिक (लिंगामेंट) ।

thyroglossal—(Gk. *thyra*, door; *glossa*, tongue) अबटुजिह्वा; चुल्लिया ग्रन्थि और जिह्वा सम्बन्धी ।

thyrohyal—(Gk. *thyra*, door; *hyooides*, y-shaped) अबटुकण्ठिका; थाइरोहायल; जिह्वास्थि का दीर्घ शृंग (greater cornua) ।

thyrohyoid—(Gk. *thyra*, door; *hyooides*, y-shaped) थाइरोहायड; अबटु जिह्वास्थि पेशी ।

thyroid—(Gk. *thyreos*, oblong shield; *eidos*, form) थाइराइड; चुल्लिका ग्रन्थि; अबटु ग्रन्थि; श्वास नलिका के समीप स्थित नली हीन ग्रन्थि, जिसके स्राव से बच्चे की वृद्धि को प्रेरणा मिलती है ।

thyrotropic—(Gk. *thyra*, door; *trope*, turn) थाइरोट्रोपिक (हार्मोन) ।

thyroxine—(Gk. *thyreos*, oblong shield) थाइरॉक्सिन; चुल्लिका ग्रन्थि का स्राव ।

thyrsoid—(Gk. *thyrsos*, ward; *eidos*, form) थिरसूम सदृश ।

thyrsus—(Gk. *thyrsos*, ward) थिरसूस (मिश्रित पुष्पक्रम); एक मिश्रित पुष्पक्रम जिसके मुख्य अक्ष

असीमाक्षी (racemose) और अन्य अक्ष तसीमाक्षी (cymose) दुहरे शंकु रूपक गुल्म युक्त होती हैं ।

thysanuriform—(Gk. *thysanos*, fringe, *oura*, tail; *L. foma*, form) कम्पोडिया-सदृश (डिभक) ।

tibia—(L. *tibia*, shin) टिविया; अग्र जंघास्थि; अर्न्त-जंघिका; टांग की बड़ी घुटने से टखने तक की हड्डी; पट-पाद (insects) तथा मकड़ी (spider) की टांग का चतुर्थ जोड़ ।

tibial—(L. *tibia*, shin) टिविया सम्बन्धी ।

tibiofibula—(L. *tibia*, shin; *fibula*, buckle) टिवियोफीबुला; टांग की एक हड्डी ।

tick—(M. E. *teke*, tick) चिचड़ी या चीचड़ी; कुटकी किलनी ।

idal—(A. S. *tid*, time) ओधी; ज्वारीय;

१—वायु की वह राशि जो सामान्य रूप से प्रत्येक अन्तः श्वास और उच्छ्वास में ली जाती है [व निकाली जाती है ।

२—तरंग-प्रकुंचन में मुख्य रुधिर बहाव ।

Tiedemann's vesicles—(F. *Tiedemann*, German anatomist) टेडेमान कोषिकायें; एस्टेरॉइडिया में असीमाक्षी कोषिकायें ।

tige—(F. *tige*, stem) स्तम्भ, तना ।

tigellum—(F. *tige*, stem) टिजेलम; मूलांकुर (radicle) और प्रांकुर (plumule) से बनी केन्द्रीय भ्रूणीय अक्ष ।

tigroid—(Gk. *tigroeiides*, spotted) निस्ल कण ।

timbal—(F. *timbale*, kettle drum) डिडिम; भींगर (cicades) में ध्वनोत्पादक अंग; मर्दल ।

tip—(a variant of top) अग्र; अग्रभाग; अणि ।

tip of the toe—पादाग्र; प्रपद ।

tissue—(F. *tissu*, woven) तन्तु; ऊतक; टिश्यू; समान कोशिकाओं के संगठन से बनी आकृति ।

connective tissue—संघितन्तु या संयोजक तन्तु (ऊतक) ।

elastic tissue—स्विति स्थायक तन्तु (ऊतक) ।

epithelial tissue—अधिच्छद् तन्तु (ऊतक) या एपीथीलियल ।

fatty tissue—वसाय तन्तु (ऊतक) ।

lymphoid tissue—लसिका तन्तु (ऊतक) ।

Tissue culture—ऊतक संवर्ध; ऊतक संवर्धन ।

toe—(A. S. *ta* (pl. *ten*) पादांगुलि ।

tocopherol—टोकोफिरोल; विटामिन 'ई' $C_{29}H_{50}O_2$; जो अंकुरित गेहूँ में होता है; यह बन्ध्यता प्रतिकारी विटामिन होता है ।

tokocytes—(Gk. *tokos*, offspring; *kytos*, hollow) स्पंज-संतति कोशिका; प्रजाणु ।

tokostome—(Gk. *tokos*, birth; *stoma*, mouth) मादा जनन छिद्र; प्रजमुख; प्रसव छिद्र जैसे सृजली के कीटाणु (mites) आदि में ।

tomentose—(L. *tomentum*, stuffing) लोमावृत; सघन-रोमिल ।

tomentum—(L. *tomentum*, stuffing) जूटक पर्ण या तना; पर्ण या तना सघनरोमों की गद्दी से युक्त ।

tomite—(Gk. *tome*, cutting; *mitos*, thread) टोमाइट; अर्भक विशेष (holotricha-जन्तुओं का) ।

tomont—(Gk. *tome*, cutting; *onta*, being) टोमोन्ट; होलोट्राइका (holotricha) जन्तुओं के जीवन इतिहास की एक स्थिति ।

tone—(L. *tonus*, a sound) ध्वनि; स्वर ।

tongue—(A.S. *tunge*, tongue) जिह्वा; जीभ; रसना ।

tonofibrillae—(Gk. *tonos*, tension; *L. fibrilla*, small fibre) घना-तन्तुकी ।

tonoplast—(Gk. *tonos*, tension; *plastos*, modelled) घनासत्व ।

tonotaxis—(Gk. *tonos*, tension; *taxis*, arrangement) घना-न्यास ।

tonsil—(L. *tonsilla*, tonsil) टॉन्सिल; जिह्वा मूल ग्रन्थि; गुटिका; गलतुण्डिका ।

tonsilla—(L. *tonsilla*, tonsil) टोनसिला; जिह्वा मूल उपग्रन्थि ।

tonus—(Gk. *tonos*, tension) उत्तान; टोनस; तान; तनन ।

topaesthesia—(Gk. *topos*, place; *aesthesia*, sensation) स्पर्श निवान स्थल ।

tooth—(A. S. *toth*, *tooth*) दाँत; दन्त ।

topochemical—(Gk. *topos*, place; *chemia*, trans-mutation) स्थल रसिक ।

topodeme—(Gk. *topos*, place; *domos*, people) स्थली ।

topotaxis—(Gk. *topos*, place, *taxis*, arrangement) स्थल-न्यास; स्थलानुचलन ।

topotype—(Gk. *topos*, place; *typos*, image) स्थलादर्श; मूलस्थानप्ररूप; स्थानप्ररूप; वास्तविक प्रतिरूप के पाये जाने वाले स्थान से एक नमूना (तन्तु) ।

torcula—(L. *torcular*, wine press) कुल्यासम्मिलन; टॉकूला; प्रमस्तिष्कीय रुधिर कुल्यायो (blood sinuse) का संगम या (सम्मिलन) ।

torma—(Gk. *tormos*, socket) टॉरमा; गर्त; अ्रवट ।

tormogen—(Gk. *tormos*, socket; *genos*, descent) गर्तज; अ्रवरजन ।

tornaria—(L. *tornare*, to turn) टोरनेरिया; वैले नोग्लोसिस (*balanoglossus*) का स्वतन्त्र अ्रभंक ।

tornote—(L. *tornare*, to turn) मुथरा; कुंठाग्र; धाराहीन (मुथरी) भुजाओं (किनारों) वाला, जैसे स्पीक्यूल या दृढ़ा (*spicule*) ।

torose—(L. *torus*, swelling) ग्रन्थिल; मांसीय गांठों युक्त; गांठोंदार, मणिमय ।

torques—(L. *torques*, necklace) मालोपम ।

torsion—(L. *torquere*, to twist) घुमाव; विगोटन; व्यावर्तन; पेंचदार ऐंठन ।

torticone—(L. *torque*, to twist; *conus*, cone) व्यावर्तित शंकु ।

tortoise—कूर्म; कच्छप; कमठ; कछुआ ।

torulose—(L. *torulus*, small swelling) गुलिका; छोटी-छोटी गांठोंदार; मनकामय ।

torulus—(L. *torulus*, small swelling) टोरूलस; स्पर्शक-पिण्ड ।

torus—(L. *torus*, swelling) टोरस; टॉरस;

१—वृत्तज ठोस-बलय ।

२—पुष्पासन ।

३—पोलीकीटा (*Polchaeta*) में अंकुश (*uncini*) धारी मेड़ ।

४—डिप्टिरा (*Diptera*) में वृन्त (*pedicel*) ।

totalpalmate—(L. *totus*, all; *palma*, palm of hand) पूर्णफिल्लीकृत; पूर्णजालांगुलीय; सम्पूर्ण फिल्लीदार; ऐसे जन्तु जिनकी अंगुलियां फिल्ली से बंधी हों ।

totipotent—(L. *totus*, all; *potens*, powerful) पूर्ण शक्तिज; पूर्णवली; पूर्णशक्त ।

touch—(Ger. *zucken*, to draw) स्पर्श; छूना ।

toxaspire—(Gk. *toxos*, bow; L. *spira*, coil) बहुघुमड़ी, एक से अधिक पेंचदार घुमाव वाला ।

toxicity—(Gk. *toxikon*, poison) विषता; आविषालुता ।

taxicology—(Gk. *toxikon*, poison; *logos*, discourse) विष विज्ञान; अ्रविषालुता विज्ञान ।

toxiferous—(Gk. *toxikon*, position; L. *ferre*, to carry) विषधारी; अ्रविषधर ।

toxigenic—(Gk. *toxikon*, poison, *genea*, descent) विषोत्पादक; अ्रविषजन ।

toxin—(Gk. *toxikon*, poison) विष; टॉक्सिन; अ्रविष ।

toxoid—(Gk. *toxikon*, poison; *eidos* form) विषोपम; विषसदृश; विषसमान; अ्रविषाभ; टॉक्सॉइड ।

toxos—(Gk. *toxos*, bow) घनुषोपम; घनुषाकार ।

toxophores—(Gk. *toxikon*, poison; *pherein*, to carry) विषकारक ।

trabant—(Ger. *trabant*, satellite) उपरंजक सूत्र ।

trabeculae—(L. *trabeculia*, little beam) ट्रेविकुली; धरनीक; सम्बन्धी ।

trabecular—(L. *trabecula*, little beam) धरनीकोपम; धरनी के आकार का; सम्बन्धक ।

trabs cerebri = corpus callosum—कोरपस कैलोसम ।

trace elements—चिन्ही घटक; अ्रति अल्प तत्व; जैविक अंगियों या ऊतकों में अ्रति अल्प मात्रा में पाये जाने वाले प्राकृतिक घटक जैसे : Silver (Ag)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Copper (Cu)

Iron (Fe)

Lithium (Li)

Manganese (Mn)

Nickel (Ni)

Lead (Pb)

Strontium (Sr) आदि ।

trachea—(L. *trachia*, wind pipe) श्वास नली; कण्ठनाल; वातक; श्वासनी या श्वासिका; श्वास प्रणाली ।

tracheal—(L. *trachia*, wind pipe) श्वासनी गण श्वासिका सम्बन्धी; वातक ।

tracheid—(L.L. *trachia*, wind pipe) ट्रेकीड; वाहिनिका (कोशिका) ।

tracheid cells—वाहिनिका समकोशिकायें; संचरण ऊतक (transfusion tissue) में ट्रेकीड सदृश पाई जाने वाली कोशिकायें ।

trachein—(L.L. *trachia*, wind pipe) ट्रेकीन; कुछ प्लवी कोटों के श्वासिका (trachea) वायु कोषों में पाया जाने वाला कलिल पदार्थ (colloid substance) जो आर्द्रता के मात्रानुसार फैलता या सिकुड़ता है ।

trachelate—(Gk. *trachelos*, neck) ग्रीवाकार; संकुचित; अविस्तीर्ण ।

trachelomastoid—(Gk. *trachelos*, neck; *mastos*, breast; *eidos*, form) ट्रेकिलोमेस्टोइड; ग्रीवा क्षेत्र और स्तनाकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी ।

trachenchyma—(L. *trachia*, wind pipe; Gk. *engchyma*, infusion) ट्रेकेनकाइमा; वातक वाहिका ऊतक ।

tracheobronchial—(L. *trachia*, wind pipe; Gk. *brongchos*, bronchial tube) वातक-ब्रलोमी (ग्रन्थि) ।

tracheole—(L. *trachia*, wind pipe) अन्तश्वासिका; अन्तिम श्वास नली शाखा; लघुवातक; श्वासनलिका ।

trachyglossate—(Gk. *trachys*, rough; *glossa*, tongue) रूक्ष जिह्वक ।

tract—(L. *trabere*, to draw) पथ; क्षेत्र; प्रदेश ।

tractellum—(L. *trabere*, to draw) अग्रकपा ।

tragus—(Gk. *tragos*, goat) ट्रेगस; कर्णमूश; कर्ण तुंगक ।

trama—(L. *trama*, woof) अन्तर्भाग; ड्रामा; फंगस गिलका अन्तर्भाग ।

traits—विशेष भाव या चिन्ह ।

transad—(L. *trans* across) व्याघात-जीव; ट्रान्जैड; एक जातीय या समान जातीय जन्तु जो कि वातावरण व्याघात (environmental barrier) के कारण अलहदा हो गये हों ।

transect—(L. *trans*, across; *secare*, to cut) वरण लथल; ट्रान्सेक्ट; जन्तु या वनस्पति अघ्ययन करने के हेतु चुना हुआ सीमित स्वल ।

transformation—(L. *transformare*, to change in shape) परिणित; रूपान्तर परिवर्तन; परिणमन ।

transfusion tissue—संचरण ऊतक; जिम्नोस्पर्म का मृदूतक (parenchymatous) वाहिनिकासम कोशिकाओं (tracheidal cells) का बना ऊतक ।

transilient—(L. *transilire*, to leap over) विच्छन्न; भिन्नता ।

transitional—(L. *transire*, to go across) अन्त-स्थानित; परिवर्तन का; संक्रामो ।

translocation—(L. *trans*, across; *locus*, place) अदल बदल; स्थानापन्नता; स्थानांतरण ।

transmedian—(L. *trans*, across; *medius*, middle) मध्यंतर ।

transmutation theory—रूपान्तर मत—यह कि एक प्रकार दूसरे प्रकार से रूपान्तरित या विकसित (evolve) हो सकता है ।

transpalatine—(L. *trans*, across; *palatus*, the palate) ट्रान्सपैलेटाइन; पारतालव; मगर; (crocodile) के मस्तिष्क की एक हड्डी ।

transpiration—(L. *trans*, across; *spirere*, to breathe) प्रस्वेदन; वाष्पोत्सर्जन ।

transpyloric plane—ट्रान्सपाइलोरिक तल; काल्पनिक क्षैतिज तल जिनसे उदर (abdomen) कृमिन् क्षेत्रों में वंटता है ।

transplantation—स्थानान्तर निधान ।

transudate—(L. *trans*, beyond; *sudare*, to sweat) प्रसेव; पारस्त्रवण ।

transversal—(L. *transversus*, across) अनुप्रस्थी; त्रियंक छेदी रेखा ।

transverse—(L. *transversus*, across) अनुप्रस्थ; आड़ा ।

transverse process—अनुप्रस्थ प्रवर्धन; अनुप्रस्थ प्रवर्ध ।

transverse section—अनुप्रस्थ काट (खर्चन) ।

transversum—(L. *transversus*, across) ट्रान्सवर्सम; सरीसृप (reptiles) की सोपड़ी की एक अस्थि विधेय जो टेरीनाइड से मैक्सिला तक होती है ।

- transversus**—(L. *transversus*, across) ट्रान्सवरसस (अनुप्रस्थ पेशी) ।
- trapezium**—ट्रेपीजियम; अतुल्य लम्बक; समलम्ब; विषम कोण चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजा समानान्तर हों ।
- trapeziform**—(Gk. *trapezium*, small table; L. *forma*, shape) समलम्बोपम; ट्रेपीजियम रूपी ।
- trapezius**—(Gk. *trapezium*, small table) ट्रेपीजियस; चौड़ी, चपटी त्रिकोणक गर्दन और कन्धे की पेशी विशेष ।
- trapezoid**—(Gk. *trapezium*, small table; *eidōs*, form) समलम्बाकार ।
- traumatic**—(Gk. *trauma*, wound) अपकारी; क्षती; क्षतिज ।
- traumatin**—(Gk. *trauma*, wound) अभिघातिन; ईसा; ट्रोमाटिन; क्षतविक्षत वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाने वाला रसायन, जो अक्षति कोशिकाओं को विभाजित करने की क्षमता रखता है; अभिघात हार्मोन; $C_{11}H_{17}O_4N$ ।
- traumatonasty**—(Gk. *trauma*, wound; *nastos*, close pressed) अभिघात वर्तन ।
- traumatotropic**—(Gk. *trauma*, wound; *trope*, turning) अभिघात अनुचलन ।
- traumatotropism**—(Gk. *trauma*; wound; *trope*, turn) अभिघात अनुचलनता ।
- traumotaxis**—(Gk. *trauma*, wound; *taxis*, arrangement) क्षतवृत्ति; अघात व्यास ।
- trefoil**—(L. *trifolius*, three-leaved) त्रिपत्रक ।
- tremelloid**—(L. *tremere*, to trouble) श्लेषोपम; श्लेषवत् ।
- trephocyte**—(Gk. *trephein*, to nourish; *kytos*, hollow) घात्री कोशिका; घाय कोशिका; पोषकाणु ।
- trephones**—(Gk. *trephein*, to nourish) ट्रिफोन; पुष्टल; ऐसे पदार्थ जो कोशिकाओं के क्षीण होने से बनते हैं और जिनके द्वारा कोशिका-विभाजन (cell division) प्रोत्साहित होता है ।
- triactinal**—(Gk. *tria*, three; *aktis*, ray) त्रिकिरणी; त्रिभरी ।
- triadelphous**—(Gk. *tria*, three; *adelphous*, brother) त्रिसंधी ।
- triaene**—(Gk. *triaina*, trident) त्रिशाखीय; त्रिकण्टिका ।
- triandrous**—(Gk. *tria*, three; *aner*, man) त्रिपुंकेसरी ।
- triangle**—(L. *triangularis*, three-sided) त्रिभुज, त्रिकोण ।
- trianthous**—(Gk. *trir*, three, *anthos*, flower) त्रिपुष्पी ।
- triarch**—(Gk. *triu*, three; *arche*, beginning) त्रिदारूक ।
- triarticulate**—(L. *tres*, three; *articulus*, joint) त्रिसंधिक; त्रिक; त्रिसन्धित ।
- triassic**—(Gk. *tria*, three) त्रियेसिक; ट्राइऐसिक ।
- triaster**—(Gk. *tria*, three; *aster*, star) त्रितारा; त्रितारक ।
- triaxon**—(Gk. *tria*, three; *axis*, axle) त्रिअक्षीय; त्र्यक्षिका ।
- tribe**—(L. *tribus*, tribe) संघ शाखा; जन, जाति, उपकुल ।
- triboluminescence**—(Gk. *tribein*, to rub; L. *luminescence*, to grow light) घर्षण दीप्ति ।
- tribracteate**—(L. *tres*, three; *bractia*, thin plate of metal) त्रिसहपत्रक ।
- trica**—(F. *tricoter*, to knit) ट्राइका ।
- tricarPELLAAY**—(Gk. *tria* three; *karpos*, fruit) त्रिअंडपी ।
- triceps**—(L. *tres*, three; *coput*, head) ट्राइसेप्स; त्रिशिरी मांस पेशी; त्रिभक्त; त्रिशिरस्क ।
- trichidium**—(Gk. *thrix*, hair; *idion*, dim) प्रांगुल ।
- trichilium**—(Gk. *thrix*, hair, *ile*, crowd) रोमिल उपधान; किन्हीं वर्णवृत्त के आघार पर गुथे हुए रोमों की गद्दी ।
- trichites**—(Gk. *thrix*, hair) यष्टिक; घनकच; ट्राइकाइट ।
- trichobothrium**—(Gk. *thrix*, hair; *bothros*, pit) संवेदीय लोम; मकड़ी आदि जन्तुओं में पाये जाने वाले संवेदनात्मक लोम ।
- trichocarpous**—(Gk. *thrix*, hair; *karpors*, fruit) सरोम फल ।

trichocyst

- trichocyst—(Gk. *tyrix*, hair; *kdstis*, bladder) लोमित-कोशिका; दंशिकाभक; ट्राइकोसिस्ट ।
- trichodragmata—(Gk. *thrix*, hair; *dragma*, sheaf) लोम पोटलिका ।
- trichogen—(Gk. *thrix*, hair; *genos*, descent) लोमोत्पादक; शूकजन ।
- trichogyne—(Gk. *thrix*, hair; *gyne*, woman) लोमित ग्राह्य कोशिका; स्त्रीधानी रोम ।
- trichoid—(Gk. *thrix*, hair; *eidos*, form) लोमोपम; लोमवत्; लोम सदृश; रोमसम; रोमाकार ।
- trichome—(Gk. *trichoma*, growth of hair) लोमाच्छद्; त्वचारोम ।
- trichophore—(Gk. *thrix*, hair; *pherein*, to bear) लोमधारी ।
- trichosiderin—(Gk. *thrix*, hair; *sideros*, iron) ट्राइकोसिडेरिन; मानवकेशों से पृथक् किया लौहयुक्त लाल वर्ण ।
- trichosis—(Gk. *thrix*, hair) लोम वंटन; असाधारण लोम वृद्धि ।
- trichothallic—(Gk. *thrix*, hair; *thallos*, young shoot) तन्तुक थैलस; तंतुथैलसी ।
- trichotomous—(Gk. *tricha*, three fold, *tome*, cutting) त्रिभागे; त्रिविभक्त ।
- trichromatic—(Gk. *tria*, three; *chroma*, colour) त्रिरंगभावी; त्रिवर्णक ।
- tricipital—(L. *tres*, three; *caput*, head) त्रिअर्न्त-गमी; त्रिशिरस्त्री ।
- triccoccus—(Gk. *tria*, three; *kokkos*, kernel) त्रिअंडपी ।
- triconodont—(Gk. *tria*, three; *konos*, cone; *odous*, tooth) त्रिशंकुदन्त ।
- tricostate—(L. *tres*, three; *costa*, rib) त्रिपशुंक; त्रिशिराल ।
- tricotyledonous—(Gk. *tria*, three, *kotyledon*, cup like hollow) त्रिवीजपत्री ।
- tricrotic—(Gk. *tria*, three; *krotein*, to beat) त्रिस्पंदनी ।
- tricurral—(L. *tres*, three; *crus*, leg) त्रिपदी ।

- tricuspid—(L. *tres*, three; *cuspis*, point) त्रिकुस्पी ।
- tricuspidate—(L. *tres*, three; *cuspis*, point) त्रिशिखरी ।
- tridactyl—(Gk. *tria*, three; *daktylos*, finger) त्रिअंगुलिक ।
- tridentate—(L. *tridens*, three, pronged) त्रिदंतु रित; तीन दाँते दार; त्रिशुली; ट्राइडेन्टेट ।
- tridynamous—(Gk. *tria*, three; *dynamis*, power) त्रिदीर्घी ।
- trifacial—(L. *tres*, three; *facies*, face) पांचवी कपालीयतंत्रिका-ट्राइजेमीनल ।
- trifarious—(L. *trifarius*, of three sorts) त्रिय; तीन तीन के झुण्डों में; तीन किस्मों या भेद (kinds) वाला; तीन सतह या तल (surfaces) वाला ।
- trifid—(L. *trifidus*, three-forked) त्रिभक्त; त्रिशाल ।
- triflagellate—(L. *tres*, three; *flagellum*, whip) त्रिकपातन्त्री; त्रिकपी; त्रिकशाभ ।
- trifoliate—(L. *tris*, three; *folium*, leaf) त्रिपर्णी ।
- trifoliolate—(L. *tres*, three; *foliota*, small leaf) त्रिपर्णक ।
- trifurcate—(L. *trifurcatus*, three forked) त्रिभाजी; त्रिशालित ।
- trigamma—(Gk. *tria*, three; *r*, gama) त्रिदेक् ।
- trigamous—(Gk. *tria*, three; *gamos*, marriage) त्रिजन; त्रिविध पुष्पी ।
- trigeminal—(L. *trigeminus*, triplet) ट्राइजेमिनल; त्रिअंगीय; त्रिधारा; त्रिशाली ।
- trigon—(Gk. *tria*, three; *gonia*, angle) त्रिकोणक; दंताग्र त्रिकोण; उर्ध्व कल्प या शिखर त्रिभुज (उर्ध्व हनु चर्बक दन्त पर) ।
- trigonal—(Gk. *trigonos*, triangular) त्रिकोणी; त्रिभुजी; त्रिसमनताक्ष ।
- trigone—(Gk. *trigonon*, triangle) त्रिभुजाकार स्थल; कोणस्थूलता ।
- trigonid—(Gk. *trigonon*, triangle) त्रिकोणिक; अथः कल्प या शिखी त्रिभुज (अथो हनु चर्बक दन्त पर) ।
- trigynous—(Gk. *tria*, three; *gyne*, woman) त्रिवर्तिकी ।

trijugate

- trijugate**—(L. *tria*, three; *jugum*, yoke) त्रियुगल पर्णक ।
- trilabiate**—(L. *tres*, three; *labium*, lip) त्रिम्रोष्ठीय ।
- trilobate**—(Gk. *tria*, three; *lobos*, lobe) त्रिदली; त्रिपालि ।
- trilocular**—(L. *tres*, three; *loculus*, little place) त्रिकोषीय; त्रिकोष्ठीकी ।
- trilophodont**—(Gk. *tria*, three; *lophos*, crest; *odus*, tooth) त्रिमेडशिरस्क; त्रिकटकदन्त ।
- trilophous**—(Gk. *tria*, three; *lophos*, crest) त्रिकिरिटी; त्रिशिर ।
- trimerous**—(Gk. *tria*, three; *meros*, part) त्रयस; त्रितयी; त्रिगुणन खण्डी; तीन या तीन की गुणन संख्या के भागों से बना हुआ ।
- trimonocious**—(GL. *tria*, three; *monos*, alone; *oikos*, house) त्रिलिगी (पुष्प); नर, मादा और उभय लिंग तीनों प्रकार के पुष्पों का एक ही पौधे पर होना ।
- trimorphism**—(Gk. *tria*, three; *morphe*, form) त्रिरूपम्बन- निरूपता, एक प्रकार में तीन विभिन्न आकृतियों या रूपों का होना ।
- trinernate**—(L. *tres*, three; *nerus*, sinew) त्रिशिरी; त्रिपर्शुकी ।
- trinomial**—(L. *tres*, three; *nomen*, name) त्रिशब्दीय (नाम) त्रिपदी ।
- trioecious**—(Gk. *tria*, three; *oikos*, horse) त्रिओक्सो; नर, मादा और उभयलिंगी पुष्पों को विभिन्न पौधों पर होना ।
- triosseum**—(L. *tria*, three; *ossa*, bones) त्रिअस्थि छिद्र; तीन हड्डियों के बीच में का छेद; कॉराकोइड (coracoid), क्लैविकल (clavicle) और स्कापुला (scapula) की संधि पर स्थित छिद्र ।
- triovulate**—(L. *tres*, three; *ovam*, egg) त्रिवीजांडी ।
- tripartite**—(L. *tres*, three; *partitus*, separated; त्रिपालि; त्रिभागी ।
- tripetalous**—(Gk. *tria*, three; *petalon*, leaf) त्रिदली ।
- tripinnate**—(L. *tres*, three; *pinna*, feather) त्रिपिच्छाकार ।
- tripinnatifid**—(L. *tres*, three; *pinna*, feather; *findere*, to cleave) त्रिदीर्घपिच्छाकार ।
- tripinnatisect**—(L. *tres*, three; *pinna*, feather; *secere*, to cut) त्रिदीर्घतम पिच्छाकार ।

- tridle-nemed**—त्रिशिरी; तीन शिरा (vein) युक्त पर्ण ।
- triplex**—(L. *triplex*, three-fold) त्रयी; त्रैषा ।
- triplicostate**—(L. *tripilus*, triple; *costa*, rib) त्रिपर्शुक ।
- triploblastic**—(Lk. *triplos*; triple; *blastos*, bud) त्रिस्तरी; त्रिजनन स्तरी; त्रिकोरकी ।
- triplocaulescent**—(L. *tripilus*, triple; *caulis*, stalk) त्रिधुरी; तृतीयकाक्षी ।
- tripiod**—(Gk. *triploos*, threefold) त्रिगुण रंजक सूत्री; त्रिगुणित; सामान्य रंजक सूत्रों की संख्या से तिगुनी संख्या वाले ।
- triplostichous**—(Gk. *triplos*, three fold; *stichos*, row) त्रिदृष्टि पटल स्तरी; विच्छु (scorpion) डिम्बक के चक्षु तीन दृष्टि पटल—पूर्व दृष्टि पटल, दृष्टि पटल और पश्च दृष्टि पटल—स्तरो युक्त ।
- tripod**—(Gk. *tria*, three; *pous*, foot) त्रिपादी; (दढ़ा); त्रिपादी; तिपाई ।
- tripolar**—(Gk. *tria*, three; *polos*, axis) त्रिध्रुवी; विषम कोशिका विभाजन (mitosis) में रंजक सूत्रों (chromosomes) का असाधारण अवस्था में दो ध्रुवों के स्थान पर तीन ध्रुवों में बंटा होना ।
- tripus**—(L. *tripus*, tripod) ट्राइपस; वात कोपिका (air bladder) के समीप स्थित पश्च वेबेरियन (weberian) अस्थिक (ossicle) ।
- triquetrous**—(L. *triqueture*, three-cornered) त्रिअपांगी; त्रिकोणी; त्रितली ।
- triquetrum**—(L. *triquetrum*, triangle) ट्राइक्वूटेरम; फानाकार (cuneiform) करमास्थि; वोरमियन (wormian) अस्थि ।
- triquinate**—(L. *tres*, three; *onini*, five each) त्रिपंच विभक्ति; पहले तीन में और फिर प्रत्येक पांच में बंटा हुआ ।
- triradial**—(L. *tres*, three; *radius*, ray) त्रिकिरणी; त्रिररी ।
- trisepalous**—(Gk. *tria*, three; F. *sepale*, sepal) त्रिवाह्यदली ।
- triseptate**—(L. *tres*, three; *septum*, partition) त्रिव्यवधानी ।
- triserial**—(L. *tres*, three; *series*, row) त्रिपत्तिक; त्रिकमी; त्रिक्री ।

trisporous

trisporous—(Gk. *tria*, three; *sporos*, seed) त्रि-
स्पोरक; त्रिवीजाणुक ।

tristachyous—(Gk. *tria*, three; *stachys*, ear of
corn) त्रिस्पाइकी ।

tristichous—(Gk. *tria*, three; *stichos*, row)
त्रिस्तम्भी; त्रिपङ्क्ति ।

tristyly—(Gk. *tria*, three; *stylos*, pillar) त्रिवर्तिकी;
पुष्प में तीन प्रकार से लघु, मध्यम और लम्बे (दीर्घ)
वर्तिका (style) युक्त ।

triternate—(L. *tres*, three; *terni*, three each)
त्रिविभक्त, त्रिक-त्रयी ।

tritibial—(L. *tres*, three; *tibia*, shin) त्रिअन्त-
गुल्फिका ।

tritoblasts—(Gk. *tritos*, third; *blastos*, bud)
तृतीय कोरक ।

tritocerebrum—(Gk. *tritos*, third; L. *cerebrum*,
brain) ट्राईटोसेरिब्रम; तृतीय प्रमस्तिष्क; तृतीय मस्तिष्क
दल (कीटों में) ।

tritocone—(Gk. *tritos*, third; *konos*, cone) त्रय
चर्चक कसप ।

tritor—(L. *tritius*, rubbed) घर्षण तल; चर्चकतल ।

tritozoid—(Gk. *tritos*, third; *zoon*, animal;
eidos, form) तृतीय संतति मुकुल ।

tritubercular—(L. *tres*, three; *tuberculum*, small
hump) त्रिकूटी; त्रिगुलिक ।

trituberculy—(L. *tres*, three; *tuberculum*, small
hump) चर्चक दन्त वर्धन मत्त ।

triungulin—(L. *tres*, three; *ungula*, claw) ट्राइ-
अंगुलिन; त्रियांगुलिक; त्रिख डिम्भक ।

trivium—(L. *trivium*, cross-road) दूरस्थ त्रिकिरण;
त्रिभुजिका; स्टारफिश (star fish) की मैट्रिपोराइट
(madreporite) से दूर की तीन किरणें ।

trizoic—(Gk. *tria*, three; *zoon*, animal) त्रिरेणु
जीवी ।

trochal—(Gk. *trochos* wheel) चक्राकार; चक्रोपम;
चक्रीय ।

trochanter—(Gk. *trochanter*, runner) ट्रोकेन्टर ।
जंघास्थि उर्ध्व छोर प्रवर्द्धन; गिलरक ।

trochanter greater—(major)—बृहत् (दीर्घ) ट्रोकेन्टर ।

trochanter lesser—(minor) क्षुद्र (लघु) ट्रोकेन्टर ।

trochanter third—(tertius)—(१) तृतीय ट्रोकेन्टर
(२) पटपाद (insects) और मकड़ी (spider) आदि में
कॉक्सा (coxa) तथा फीमर के बीच का खण्ड ।

trochanteric fossa—ट्रोकेन्टर-मध्यम खात ।

trochantin—(Gk. *trochanter*, runner) लघु ट्रो-
केन्टर ।

trochate—(Gk. *trochos*, wheel) चक्री; चक्राकार
आकृति युक्त ।

trochalminthes—ट्रोकलमिथोज; चक्री जीव विशेष ।

trochlea—(Gk. *trochilia*, pulley) ट्रोकलिया; घूर्ण;
चक्रक ।

trochlear—(Gk. *trochilia*, pulley) घूर्णोपम; ट्रोक-
लिया सम्बन्धी ।

trocheblasts—(Gk. *trochos*, wheel; *blastos*, bud)
चक्रकोरक; खंडित डिम्ब के वे भाग जो ट्रोकोफोर का
मुख पूर्व बलय (prototroch) बनाने हेतु निर्दिश
होता है ।

trochoid—(Gk. *trochos*, wheel; *eidos*, form)
चक्रोपम; चक्राकार; चक्राकार गति करने योग्य;
चक्रात्म ।

trochophore-trochosperc—(Gk. *trochos*, wheel;
sphaera, globe) चक्रधारी; ट्रोकोफोर-गोलस्फा (mol-
lusca) या अन्य अनेक कृमियों (worms) की स्वतन्त्र
(free) प्लाविक (swimming) सानुद्रिक (pelagic)
अभ्रक अवस्था ।

trochus—Gk. *trochos*, wheel) ट्रोकस; रोटीफर
(rotifer) डिम्ब (disc) का क्षेत्र ।

tropic—(Gk. *tropis*, keel) कीलोपम ।

trophallaxis—(Gk. *trophe*, nourishment; *allaxis*,
interchange) अन्तर-अभरण (पोषण); पोषणविषम ।

trophamnion—(Gk. *trophe*, nourishment; *am-
nion*, foetal membrane) पोष उत्प ।

trophcetoderm—(Gk. *trophe*, nourishment;
eidos, outside; *derma*, skin) पोष कोरक पर्त;
स्तनी की जनन कोशिका (blastocyst) का बाह्य
स्तर ।

troph

troph-(Gk. *trophe*, nourishment) ट्राफी; कीटों (insects) का एक मुखी अवयव; चर्करांग ।

trophic-(Gk. *trophe*, nourishment) पोषणी; पोषण (खाद्य) सम्बन्धी; पोषी ।

trophidium-(Gk. *trophe*, brood; *idion*, dim) ट्रोफोडियम; पिपीलिका (चीटी) की प्रथम अश्रंकावस्था ।

trophifer, trophiger-(Gk. *trophe*, nourishment; *L. ferre, girere*, to carry) ट्रोफीफर; सिरका पश्चात् पार्श्वी क्षेत्र जिसके साथ मुखी अवयव लगे रहते हैं ।

trophoblast-(Gk. *trophe*, nourishment; *blastos*, bud) ट्रोफोब्लास्ट; पोषण कोशिका; पोष कोरक ।

trophochromatin-(Gk. *trophe*, nourishment; *blastos*, bud) भृतिरंज्य; पोष क्रोमैटिक; अजनन रंज्य; वह अष्टिरंज्य (chromatin) जो पोषण और जनन के अतिरिक्त अन्य व्यापारों (functions) से सम्बन्ध रखता है । [देखिये *idiochromatin*]

trophochrome-(Gk. *trophe*, nourishment; *chroma*, colour) ट्रोफोक्रोम; पुष्टिरंज्य ।

trophocytes-(Gk. *trophe*, nourishment, *kytos*, hollow) पोषकाणु; संवर्धन कोशिका; पौष्टिक कोशिका; ऐसी कोशिकाएँ जो वर्धन (development) में इस्तेमाल होती रहती हैं ।

trophoderm-(Gk. *trophe*, nourishment; *derma*, skin) पुष्टिच्छद्; चर्मिका बाह्य स्तर; पोष जन स्तर ।

trophodisc-(Gk. *trophe*, nourishment; *diskos*, plate) पोष बिम्ब; खाद्य बिम्ब; ट्रोफोडिस्क; किन्हीं हाइड्रोजोआ (hydrozoa) का मादा जनन पोलिप (gonophore) ।

trophology-(Gk. *trophe*, nourishment; *logos*, discourse) पुष्टि विज्ञान ।

trophonemata-(L. *trophe*, nourishment; *nema*, thread) गर्भाशय ग्राह्याङ्कुर; पोषक सूत्र ।

trophont-(Gk. *trophein*, to feed; *on*, being) ट्रोफॉन्ट; संवर्धन स्थित ।

trophonucleus-(Gk. *trophe*, nourishment; *L. nucleus*, kernel) पोषणग्रन्थि; पोष केन्द्रक; बृहत् ग्रन्थि; दीर्घग्रन्थि; द्विग्रन्थिक एक कोशिकीय जन्तुओं का

वह बड़ा केन्द्रक जो कि वृद्धि आदि को अवस्थित करता है ।

trophophore-(Gk. *trophe*, nourishment; *pherein*, to bear) भृतिधारी; पोषकधर ।

trophoplasm-(Gk. *trophe*, nourishment; *plasma*, mould) भृति-तत्व; पोष द्रव्य कोशिका का भृति व्यापारों (vegetative functions) से सम्बन्ध रखने वाला भाग । [देखिये *idioplasm*]

trophoplast-(Gk. *trophe*, nourishment; *plastos*, moulded) भृति-कोशिका; अष्टिक या अष्टिकहीन कोशिका विशेष; पोष लवक ।

trophosome-(Gk. *trophe*, nourishment; *soma*, body) भृतिपिण्ड; पौष्टिक-पिण्ड; पोषकाय ।

trophospongia-(Gk. *trophe*, nourishment; *spongia*, sponge) ट्रोफोस्पॉन्जिया ।

trophoanenia-(Gk. *trophe*, nourishment) *tainia*, ribbon) पोष झूणीय गुदीय प्रवर्ध (किन्हीं मत्स्यों में) ।

trophotaxis-(Gk. *trophe*, nourishment; *taxis*, arrangement) खाद्य न्यास; पोषानुचलन ।

trophothylax-(Gk. *trophe*, nourishment; *thylax*, sack) खाद्य कोपिका; भृति कोपिका ।

trophotropism-(Gk. *trophe*, nourishment; *trope*, turn) खाद्याभिवृत्ति; खाद्यवृत्ति; पोषानुवर्तन ।

trophozoite-(Gk. *trophe*, nourishment; *zoon*, animal) पुष्टि जीवक; पोषज; ट्रोफोजोइट; पोष जीवाणु ।

trophozooid-(Gk. *trophe*, nourishment; *zoon*, animal; *eidos*, form) पाचन मुकुल; भृति मुकुल । [देखिये *gastrozooid*]

tropibasic-(Gk. *trope*, turn; *basis*, base) ट्रोपी-बेसिक (कपाल); ऐसा उपास्थि कपाल जिसमें हाइपो-फाइसियल रन्ध्र (पिट्यूटरी रन्ध्र) और सामान्य संबन्धक (ट्रैवीक्यूला) होते हैं ।

tropic-(Gk. *trope*, turn) दिकाकर्षण; अयतवृत्त ।

tropical-ऊष्ण कटिबंधीय ।

tropicae-(Gk. *trope*, turn) ट्रोपाइन; अन्तः वृत्ति ।

tropism-(Gk. *trope*, turn) वृत्ति; अभिवृत्ति किसी उत्तेजना के प्रति जीव की निश्चित वृत्ति; अनुवर्तन ।

tropophyte

tropophyte—(Gk. *trope*, turn; *phyton*, plant) अनुवर्तनी पादप; ऐसा पौधा जो ग्रीष्म में आर्द्र रागी (hygophilous) और शीत में मरुरागी (xerophilous) होता है।

tropotaxis—(Gk. *trope*, turn; *taxis*, arrangement) समांशदिक विन्यास; सममितानुचलन।

true ribs—यथार्थ पर्शुकायें या वास्तविक पर्शुकायें; वे पसलियाँ जो वक्षक (thorax) से जुड़ी होती हैं।

truncate—(L. *truncatus* cu' off) कटा हुआ; कतरा हुआ; लूनाग्र; खंडित।

truncus arteriosus—ट्रंकस आरटीरियोसस; वृहत् धमनी; महाधमनी; धमनीकांड।

trunk—(Fr. *tone*, from; *truncus*, stem of tree) घड़; किसी रचना का प्रधान भाग; २—वृक्ष का घड़, ३—कवच; ४—सूंड (हाथी की) (५) कांड (६) प्रकांड (७) महा वाहिनी।

trunk legs—घडपाद; डेका पोडा (decapoda) के वडपाद (pereopods); वक्षीय गतिकारी टाँगें।

tryma—(Gk. *tryme*, hole, ट्रिमा; ऐसा अठिल (trupe) जिसमें बाह्यभित्ति पृथक की जा सकती है तथा अन्तःभित्ति द्विकपाटी होती है अन्तः भित्ति की दीवार से कई शुष्क पट्ट विकल कर बीजपत्र के बीच में प्रवेश किये होते हैं—जैसे—ग्रखरोट।

trypanomonad—(Gk. *trypanon*, anger; *monas*, unit) ट्रिपेनामोनड; ट्रिपनोसोम (trypanosome) जन्तु के जीवन की एक स्थिति।

trypanorhynchus—(Gk. *trypanon*, anger; *rhyngchos*, snout) प्रलम्ब प्रोथ।

trypsin—(Gk. *tryein*, to rob down; *pepsis*, digesting) ट्रिप्सिन; क्षोभकरस, वल्लोम का।

trypsinogen—(Gk. *tryein*, to rub down; *pepsis*, digesting; *genos*, birth) ट्रिप्सीनोजन; ट्रिप्सीनोत्पादक।

tryptophane—(Gk. *tryein*, to rub down; *pepsis*, digesting; *phainein*, to appear) ट्रिप्टोफेन; पौधों में पाया जाने वाला एक अमीनो-अम्ल; $C_{11}H_{12}O_2N_2$ ।

tryptic—(Gk. *tryein*, to rub down; *pepsis*, digesting) ट्रिप्टिक; ट्रिप्सिन से उत्पन्न।

tubar—(L. *tuba*, pipe) नालीदार; प्रणालिक।

tubate—(L. *tube*, pipe) प्रणालीकोपम; नली के आकार का।

tube—(L. *tuba*, pipe) नली; नाली; प्रणाली; नलिका; प्रणाल।

tuber—(L. *tuber*, knob) १—तना-कन्द या स्टेम ट्यूबर; यह भूमिगत तना होता है, आतू एक परिवर्तित तना है, जिसे कन्द या ट्यूबर कहते हैं। २—गोलाकार शोफ।

tubercle—(L. *tuberculum*; small hump) ट्यूबर्किल; अषाण्ड; गाँठ; गड्ड; कन्दुक; गुलिका।

tuberculate—(L. *tuberculum*, small hump) कंदिन; कन्दुकी; गुलिकीय।

tuberculose—(L. *tuber-culum*, small hump) कंदिन कंदिन; कंदुकी; अषाणडी।

tuberculum—(L. *tuberculum*, small hump) अषाण्ड; गुलिका।

tuberiferous—((L. *tuber*, hump; *ferre*, to bear) अषाणडी।

tuberiform—(L. *tuber*, hump; *forma*, shape) कंदुकोपम; नाल रूप।

tuberosity—(L. *tuber*, hump) कन्दुद; अर्बुद; हड्डी पर गोल उभरी हुई गेंद की तरह की याकृति।

tubicolous—(L. *tubus*, tube, *colere*, to inhabit) नली वासी; प्रणाल वासी; नालवासी।

tubicorn—(L. *tubus*, tube) प्रणाल शृङ्गी; पोने सींग वाला; नाल शृंग।

tubifacient—(L. *tubus*, tube; *faciens*, making) प्रणाल निर्माणक; नाल कर।

tubilingual—(L. *tubus*, tube; *lingua*, tongue) प्रणाल जिह्वी; नाल जिह्व।

tubiparous—(L. *tubus*, tube; *parere*, to beget) प्रणाल ज्ञावी; नाल प्रज।

tubulate—(L. *tubulus*, small tube) प्रणालिक।

tubule—(L. *tubulus*, small tube) नलिका; लोटी नली।

tubuliferous—(L. *tubulus*, small tube; *ferre*, to carry) नलिका युक्त।

tubuliflorous—(L. *tubulus*, small tube; *flor*, flower) नलिकीय पुष्पक।

tubuliform—(L. *tubulus*, shall tube; *forma*, shape) नलिकोपम; नलिकारूप।

tubulose

tubulose—(L. *tubulus*, small tube) नलिका युक्त; नलिकामय; नाल युक्त ।

tubulus—(L. *tubulus*, small tube) नलिकी ।

tuft—गुच्छ ।

tundra—टुन्ड्रा—वृक्षहीन शीत प्रदेश ।

tunic—(L. *tunica*, coating) आच्छादन; ऊपर से ढकने वाला छिलका, भिल्ली आदि ।

tunicate—(L. *tunica*, covering) आच्छादित; आच्छादी ।

tunicle—(L. *tunicula*, little coat) त्वक् ।

tunnel of corti—(A. *corti*, Italian histologist) कोर्टी की सुरङ्ग ।

turbinal—(L. *turbo*, whirl) घूर्णास्थि ।

turbinate—(L. *turbo*, whirl) भ्रमरक ।

turgescence—(L. *turgescere*, to swell) स्फीतता; स्फीति; उच्छिन्नता; फूला हुआ या सूजा हुआ होना ।

turgor—(L. *turgere*, to swell) स्फीति ।

turio, turio—(L. *turio*, shoot) शल्क-प्रारोह-भूमि-गत तनों से निकलने वाला प्रारोह ।

tychocoen—(Gk. *tyche*, chance; *koinos*, common) भिन्न वातावरणी; सामान्य दैवयोगी; भोजन क्षेत्र सगति (biocoenosis) के वे सदस्य जो विभिन्न निवास स्थल दशाओं में सफलता पूर्वक रहते हैं ।

(देखिये—*eucoen*—यथार्थ वातावरणी)

turtle—कूर्म ।

tusk—रद ।

tychopotamic—(Gk. *tyche*, chance; *potamos*) प्रच्छन्न समुद्री ।

tylhexactine—(Gk. *tylos*, knob; *hex*, six; *aktis*, ray) सषड्भुज किरणी ।

tylosis—(Gk. *tylos*, knob) चर्म काठिन्य ।

tylostyle—(Gk. *tylos*, knob; *stylos*, pillar) टाइलोस्टाइल; एक मुंड कंटिका; ऐसा स्वीक्यूल जो सिरे पर नुकीला तथा दूसरे सिरे पर सगंडी या मुंडी (knobbed) हो ।

tylotate—(Gk. *tylos*, knob) सगंडी; समुंडी ।

tylote—(Gk. *tylos*, knob) उभयमुंड कंटिका ।

tylotic—(Gk. *tylos*, knob) चर्म काठिन्यी ।

tylotoxen—(Gk. *tylos*; knob; *oxys*, sharp) टाइलोटोक्सिया; उभय मुंड कंटिका जिस का एक तीक्ष्ण छोर स्वीक्यूल की सतह की ओर निर्दिष्ट हो ।

tympanic cavity—(Gk. *tympanum*, drum) आनक-गुहा; कर्णपटह गुहा ।

tympanic membrane—आनक कला; कर्णपटह भिल्ली ।

tympanum—(Gk. *tympanum*, drum) आनक; कर्णनिक; कर्ण पटह ।

type—(L. *typus*, image) (१) प्रतिरूप; प्ररूप; आदर्श; वर्गीकरण में अधिक से अधिक लक्षणों को रखने वाला प्राणी; (२) उदाहरण; (३) प्रकार ।

type number—प्ररूप गुण सूत्र संख्या; आदर्श संख्या ।

typhlosole—(Gk. *typhlos*, blind; *solen*, channel) टिफ्लोसोल; आंत्रवलन; भित्तिपत या भित्ति भाज; खण्ड-देहियों (annelida) की अन्तड़ियों में अन्दर की ओर पाया जाने वाला भित्तिपत या भाँज जो लम्ब रूप में निकला रहता है ।

typical—(Gk. *typos*, pattern) रूपक; आदर्शक ।

typology—(Gk. *typos*, pattern; *logos*, discourse) प्रतिरूप विज्ञान ।

tyramine—(Gk. *tyros*, cheese, *ammoniacum*, resinous gum) टिरामिन; टिरोसिन (tyrosine) पर वैकटीरिया के प्रभाव से बना रसायन जो घमनी चाप (artireal pressure) को ऊँचा कर देता है। सिफैलोपोडा (cephalopoda) द्वारा भी लाबित ।

आणुविक सूत्र— $C_8H_{11}ON$ ।

tyrosine—(Gk. *tyros*, cheese) टिरोसिन; वनस्पतियों द्वारा संश्लेषित तथा जन्तुओं द्वारा प्रयोगिक—मेलैनिन, एडीमेलिन और थाइरोक्सिन बनाने में—

आणुविक सूत्र— $C_9H_{11}O_3N$ ।

tyson's glands—(E. *tyson*, english, anatomist) टाइसन ग्रन्थि, शिशन (penis) के कंगूरे के चारों ओर स्थित तैल्य ग्रन्थि ।

twins—यमज; जुटुआं; जुड़वां; यमल ।

U

Udder—(A. S. *under*, *udder*) स्तन; थन; ऊधस ।
ulna—(L. *ulna*, *elbow*) अलना; अंतः प्रकोष्ठास्थि; कुहनी से कलाई तक की हाथ की दो लम्बी समानान्तर हड्डियों में से अन्दर वाली हड्डी ।
ulnar—(L. *ulna*, *elbow*) अलना-; अलना सम्बन्धी; अन्तः प्रकोष्ठिका ।
ulnar artery—अलना-धमनी ।
ulnar vein—अलना-शिरा ।
ulnar nervure—अलना-नखुयोर; अंतः प्रकोष्ठिका नखुयोर; पटपादों (*insects*) के पंख पर फैली हुई झाड़ी खड़ी शिरा ।
ulnare—(L. *ulna*, *elbow*) अलनर; अंतः मणिवंधिका; प्रकोष्ठिकी; अलना के दूरस्थ सिरे (*distal end*) पर स्थित कलाई की सबसे नजदीक की एक हड्डी ।
ulno-carpal—(L. *ulna*, *elbow*; *carpus*, *wrist*) अलना कारपल; प्रकोष्ठिका और कलाई सम्बन्धी ।
ulno-radial—(L. *ulna*, *elbow*; *radius*, *radius*) अलना- रेडियल; अलना (प्रकोष्ठिका) और रेडियस सम्बन्धी ।
ulotrichous—(Gk. *oulos*, *woolly*; *thrix*, *hair*) उर्णलोमी; उर्णरोम, उर्णा या घुँघुँला वाल युक्त; उर्णाम-केशी ।
ultimobranchial bodies—क्लोम कोषिकाय; १-पश्च क्लोमी या उर्ध्व हृदयावरण काय; २-पांचवी कण्ठकीय कोषिकाओं की युगल प्राथमिक ग्रन्थियाँ जो बाद में परिभ्रष्ट होकर लुप्त हो जाती हैं ।
umbel—(L. *umbella*, *dim.* of *umbra*, *shade*) पुष्पछत्र (पुष्पक्रम); इसमें मुख्य-भक्ष भक्षिक छोटी होती है और सभी पुष्प एक ही स्थान से निकलते हैं; सबसे छोटे पुष्प केन्द्र में और सबसे पुराने परिधि की ओर स्थिति होते हैं—उदाहरण—ब्राह्मी; चेरी (*cherry*) आदि ।
compound umbel—संयुक्त पुष्प छत्र—जैसे घनिया, गाजर, सौंफ आदि । इसमें पुष्पछत्र (*umbel*) की मुख्य भक्ष कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं और प्रत्येक शाखा एक पुष्पछत्र बनाती है ।

umbellate—(L. *umbella*, *shade*) पुष्पछत्र विन्यास ।
umbelliferous—(L. *umbella*, *shade*; *ferre*, *to carry*) पुष्प छत्रधारी ।
umbelliform—(L. *umbella*, *shade*; *forma*, *shape*) पुष्प छत्रोपम ।
umbelligerous—(L. *umbella*, *shade*; *gerere*, *to carry*) पुष्पछत्रक ।
umbellula—(L. *umbellula*, *dim.* of *umbella*, *shade*) लघु पुष्पछत्र ।
umbellulate—(L. *umbellula*, *small umbel*) पुष्पछत्र और लघु पुष्पछत्र युक्त ।
umbellule—(L. *umbellula*, *small umbel*) द्वितीयक पुष्पछत्र ।
umbilical—(L. *umbilicus*, *navel*) नाभ्य; नाभोय; नाभि सम्बन्धी; टूँडी सम्बन्धी ।
umbilical artery—नाभिधमनी ।
umbilical cord—नाल; नाभि रज्जु; भ्रूण और कमल (*placenta*) को मिलाने वाली रक्त व खाद्य वाहक रज्जु ।
umbilical ligament—नाभि लिगामेन्ट ।
umbilical region—नाभि प्रदेश ।
umbilical vein—नाभि-शिरा ।
umbilicate—(L. *umbilicus*, *navel*) नाभोपम; नाभि सवृक्ष; नाभिकावान ।
umbilicus—(L. *umbilicus*, *navel*) नाभि; नाभिना; टूँडी; पक्ष-छिद्र ।
umbo—(L. *umbo*, *shield boss*) भ्रमोग; प्रकूट पान्थो; (१) ढाल के उभरे हुए भाग सदृश शोष या गाँठ (*protuberance*); (२) चंचु या द्विकपाटी कर्पर (*shell*) का सबसे ऊँचा उठा हुआ भाग ।
umbonate—(L. *umbo*, *shield boss*) पान्थो युक्त; गाँठ सदृश प्रवर्धन युक्त, फट्टुद युक्त ।
umbrauliferous—(L. *umbraulium*, *dim.* of *umbra shade*) छत्रक; छत्रधारी; छत्रपर ।
umbrauliform—(L. *umbraulium*, *umbrella*;

umbraculum

forma, shape) छत्रोपम; छत्राकार; छातेनुमा; छाता रूप ।

umbraculum—(L. *umbraculum, sun-shade*) छत्रिक; अम्ब्रेकुलम ।

umbrella—(L. *umbrella, sun-shade*) छत्र; छाता; प्रछत्र; जैलीफिश (jelly fish) का सिकुड़ने वाला गोल ऊपरी भाग ।

unabsorbed—अशोषित ।

unciferous—(L. *uncus, hook; ferre, to carry*) अंकुशधारी; अंकुशधर ।

unciform—(L. *uncinus, hook; forma, shape*) हुकाकार; हुकोपम; अंकुशोपम; अनुशाकार ।

uncinate—(L. *uncinus, hook*) असीनेट; अकुशी ।

uncinate process—असीनेट प्रवर्द्धन; अंकुशाकार; प्रवर्द्धन; तिर्यक, पक्षियों की पसली (rib) पर स्थित पीछे की ओर घूमा हुआ अंकुशाकार प्रवर्द्धन ।

uncinus—(L. *uncinus, hook*) अन्साइनस; अंकुशक; अवांकुश ।

unconditioned reflex—अननुर्बाधित प्रतिवर्तन (प्रतिवर्ती क्रिया) ।

[देखिये—conditioned or acquired reflex—प्रतिवन्धित प्रतिवर्तन या उपाजित प्रतिवर्तन]

uncus—(L. *uncinus, hook*) अन्कस; अंकुश; नर (male) (lepidoptera) के नवम उदरीय खण्ड के पृष्ठभाग पर स्थित हुकोपम या द्विविभक्त (hooked or bifid) प्रवर्द्धन (process) ।

under wing—नीचे का पक्ष; उत्तर पक्ष ।

undose—(L. *undosus, billowy*) ऊँध; लहरियेदार ।

undigested—अनपचा; अपचा; बिना पचा हुआ ।

undivided—अविभक्त; बिना बंटा हुआ ।

undulating membrane—अनडूलेटिंग झिल्ली (कला); उत्सर्पण शील; तंत्री जवनी; तरंगित कला ।

ungual—(L. *unguis, nail*) नखी; पंजा या खुर वाला ।

unguical—(L. *unguiculus, nail*) पंजे वाला; चंगुलक ।

unguiculate—(L. *unguiculus, nail*) चंगुली; पंजे युक्त; नखर युक्त ।

unguiform—(L. *unguis, nail*) पंजे के आकार का; चंगुलोपम; नख रूपी ।

unguis—(L. *unguis, nail*) चंगुल; नखर; नख या पंजों की पृष्ठ प्लेट ।

unguifactor—(L. *unguis, claw; tractus, pull*) नखराकुंचक पट्ट; अंगुट्टेक्टर; कीटों में मध्य अवनतक पट्ट जिससे नखर की संकुचन पेशी लगी होती है ।

ungula—(L. *ungula, hoof*) खुर; नखरक ।

ungulata—(L. *ungula, hoof*) अंगुलेटा; खुरी प्राणी; स्तनीय (mammals) का एक गण (order) ।

ungulate—(L. *ungula, hoof*) खुरी; खुरदार ।

unguigrade—(L. *ungula, ; gradus, step*) खुर-गामी; खुर से चलने वाले प्राणी; खुरचारी ।

uniaxial—(L. *unus, one; axis axis*) एकाक्षीय; एक घुरी; एक अक्ष रेखा या घुरी वाला; एकाक्ष ।

unibranchiate—(L. *unus, one; Gk. brangchia, gills*) एक गिली; एक क्लोमी; एक गिल (gill) या गिल फड़ा युक्त ।

unicapsular—(L. *unus, one; capsula, case*) एक कुहरी; एक कोषीय ।

unicell—(L. *unus, one; cellula, cell*) एक कोशिकीय अंगी; प्रोटोफाइटोन या प्रोटोजोआ ।

unicellular—(L. *unus, one; cellula, cell*) एक कोशिकीय; एक सैलीय; एक कोशिक ।

unciliate—(L. *unus, one; cilium, eyelash*) एक तंत्री; एक पक्षमाभी ।

unicorn—(L. *unus, one; cornu, horn*) यूनीकोर्न; एक शृङ्ग; एक शृङ्ग नामक कल्पित जन्तु ।

unicostate—(L. *unus, one; costa, rib*) एक पशुकी; एक पसली वाला; एक शिरा युक्त, पत्ती आदि ।

unicotyledenous—(L. *unus, one; Gk. kotyle, leaf*) एक वाली; एक बीजपत्री ।

unicuspid—(L. *unus, one; cuspis, point of spear*) एक कस्पी; एक शिखरी ।

unidactyl—(L. *unus, one; Gk. daktylos, finger*) एकांगुलिक ।

uidentate—(L. *unus, one; dens, tooth*) एक दंतुरी ।



- uniembryonate—(L. *unus*, one; Gk. *embryon*, foetus) एक भ्रूणी ।
- unifacial—(L. *unus*, one; *facies*, face) एक पृष्ठी; एक तली; एक सतह या तल वाला ।
- unification—(L. *unus*, one; *facere*, to make) एकीकरण ।
- uniflagellate—(L. *unus*, one; *flagellum*, whip) एक कपातन्त्री; एक कशाभी ।
- uniflorous—(L. *unus*, one; *flos*, flower) एक पुष्पी ।
- unifoliate—(L. *unus*, one; *folium*, leaf) एक पत्रक; एक पत्रो; एक पर्णी ।
- unifoliate—(L. *unus*, one; *foliolum*, dim. of *folium*, leaf) एक पत्रक ।
- unigeminal—(L. *unus*, one; *geminus*, twin-born) एक श्रेणिक (रन्ध्र) ।
- unihumoral—(L. *unus*, one; *humor*, fluid) एक द्रवी; केवल एक तंत्रिकीय द्रव से ही कर्मोयुक्त (active) होने वाले ।
- unijugate—(L. *unus*, one; *iugum*; yoke) एक युगली; पिच्छाकार पर्ण जिसमें एक युग्म पत्रक हों ।
- unilabiate—(L. *unus*, one; *labium*, lip) एक ओष्ठी ।
- unilaminate—(L. *unus*, one; *lamina*, layer) एक पतक; एक पर्ती; केवल एक पर्त वाला ।
- unilateral—(L. *unus*, one; *latus*, side) एक पार्श्वीय ।
- unilocular—(L. *unus*, one; *loculus*, dim. of *locus*, place) एक कोषिक; एक कोष्ठी ।
- unimucronate—(L. *unus*, one; *mucro*, sharp point) एक तीक्ष्णारी; एक नोकदार ।
- union—(L. *unus*, one) संयोग, मेल; एका; मिलाप; मंघ; सम्मिलन ।
- uninucleate—(L. *unus*, one; *nucleus*, nucleus) एकाण्टिक; एक न्यूक्लियस वाला; एक केन्द्रकी ।
- uniovular—(L. *unus*, one; *ovum*, egg) एक डिन्डी; एक बीजा ।
- uniparous—(L. *unus*, one; *parere*, to beget) एकीत्वादक; एक प्रसवी; (ऐसे जन्तु) जो एक ही दच्चा जनते या देते हैं; एक शारी; एकप्रसू ।
- uniped—एक पादी ।
- unipetalous—(L. *unus*, one; Gk. *petalon*, leaf) एक पली ।
- unipolar—(L. *unus*, one; *polus*, pole) एक ध्रुवी; एक ध्रुवक ।
- unipotent—(L. *unus*, one; *potens*, powerful) एक शक्तिज; ऐसी कोशिकाएँ जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं में वर्धित हो सकती हैं ।
[देखिये totipotent—पूर्ण शक्तिज; पूंजवली]
- uniramous—(L. *unus*, one; *ramus*, branch) एक शाखी ।
- uniseptate—(L. *unus*, one; *septum*, hedge) एक व्घानी; एक जवनिकी ।
- uniserial—(L. *unus*, one; *series*, rank) एक पक्तिज; एक क्रमिक ।
- uniserrate—(L. *unus*, one; *serra*, saw) एक चक्रकी ।
- unisetose—(L. *unus*, one; *seta*, bristle) एक दृढलोमी ।
- unisexual—(L. *unus*, one; *sexus*, sex) एक निर्गी; ऐसे जन्तु या प्राणी जिनमें नर (male) और मादा (female) अलग-अलग होते हैं ।
- unispiral—(L. *unus*, one; *spira*, coil) एकावर्तित; एक चक्रक ।
- univalent—(L. *unus*, one; *valere*, to be strong) एकक ।
- univalve—(L. *unus*, one; *valvare*, folding doors) एक कपाटी ।
- universal donor—सार्वभौमिक रक्तोपहारी; रक्त के लक्षणों के अनुसार मनुष्यों को चार वर्गों A, B, C, D, में बाँटा जाता है, इसमें से चतुर्थ वर्ग D (डी) को सार्वभौमिक रक्तदाता या रक्तोपहारी कहते हैं । इनका खून किसी भी अन्य मनुष्य में दिया किसी हानिकारक प्रतिप्रिया के मिलाया जा सकता है ।
- universal recipient—सार्वभौमिक रक्त ग्राही । यह मनुष्य जिसके रक्त में किसी भी अन्य वर्ग के रक्त

univoltine

का रक्त बिना किसी हानिकारक प्रतिक्रिया के मिलाया जा सकता है।

univoltine—(L. *unus*, one; It. *volta*, time) एक अंडकक्षी; एक बूड़ी; कुछ कौशेयकृमि और कोसिड्स (coccids) जो एक ऋतु में एक ही बूड़ (brood) देते हैं।

unpaired—(L. *un*, lot; *par*, equal) अयुग्मक; अयुगलित।

unreal—काल्पनिक; अवास्तविक।

upper, superior—ऊर्ध्व; ऊपरी; ऊपर का, उपरि।

upper arm—प्रगण्ड; ऊपर की भुजा; कोहनी (elbow) के ऊपर का हाथ का भाग।

upper border—ऊर्ध्वतट (किनारा, धारा)।

upper eyelid—ऊर्ध्व पलक (नेत्रच्छद); ऊपर का पलक।

upper jaw—ऊर्ध्वहनु; ऊपरी जबड़ा।

urachus—(Gk. *ouron*, urine; *echein*, to hold) यूरेक्स; मूत्र-बंध; मूत्रनाभि रज्जु; मूत्राशय से नाभि तक फैली हुई रेशेदार रस्ती (मूत्र-बंध)।

urate—(Gk. *ouron*, urine) यूरेट; यूरिक अम्ल का एक लवण।

urecolate—(L. *urceolus*, small pitcher) कलसीकार (कर्पर shell आदि)।

urecolus—(L. *urceolus*, small pitcher) कुम्भक।

urea—(Gk. *ouron*, urine) यूरिया; कारबेमाइड; एन स्फाटनिक विसर्जन पदार्थ; मूत्र का मुख्य घटक; $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ।

uredinium—(L. *uredo*, blights) यूरिडिनियम; किट्ट (rust) में किट्ट बीजाणु (uredospores) धारी कवक-जाल (mycelium)।

uredo—(L. *uredo*, blight) अवानिल बीजाणु; यूरीडो; किट्ट (rust) फन्जाई की शीष्म अवस्था (यूरीडो स्पोर)।

uredosorus—(L. *uredo*, blight; Gk. *soros*, heap) अवानिल शीष्मणुबंध; यूरीडोसोरोस; यूरीडियम पुंज।

uredospores—(L. *uredo*, blight; Gk. *sporos*, seed) अवानिल बीजाणु; यूरीडोस्पोर।

ureotelic—(Gk. *ouron*, urine, *telos*, end) यूरिया-उत्सर्गी; नाइट्रोजन का यूरिया की तरह विसर्जन।

ureter—(Gk. *oureter*, ureter) यूरेटर; मूत्र नलिका; मूत्र वाहिनी।

urethra—(Gk. *ourethra*, from; *ouron*, urine) यूरेथरा; मूत्र मार्ग; नर व मादा दोनों में ही मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाने वाली नलिका (मार्ग); नर में वीर्याणु भी इसी नलिका द्वारा बाहर आते हैं।

uric acid—यूरिक अम्ल; $\text{C}_5\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_3$; ट्राइऑक्सीपूरीन (trioxypurine); स्तनीयों में न्यूक्लियक अम्ल के उपापचय का अन्तिम उत्पाद; पक्षियों और सरीसृप के मूत्र का प्रमुख नाइट्रोजन युक्त घटक।

uricase—यूरीकेस; वृक्क और यकृत की एक एन्जाइम जिससे यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण एलेनटोइन (allantoin) और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है।

uricolytic—(Gk. *ouron*, urine; *lyein*, to loose) यूरिक अम्ल विघटनी।

uricotelic—(Gk. *ouron*, urine; *telos*, end) यूरिकाम्ल उत्सर्गी।

urinary—(Gk. *ouron*, urine) मूत्र सम्बन्धी; मूत्रीय; मूत्र।

urinary bladder—मूत्राशय।

urinary system—मूत्र संस्थान (मण्डल)।

urinary tubules—मूत्र नलिकाएँ।

uriniferous tubules—मूत्र उप नलिकाएँ।

urine—(L. *urina*, urine) मूत्र; स्तनीयों में वृक्क से विसर्जित तरल; पक्षियों और सरीसृप में ठोस या अर्ध-ठोस विसर्जित पदार्थ।

uriniparous—(Gk. *ouron*, urine; *parere*, to beget) मूत्रोत्पादक।

urinogenital—(Gk. *ouron*, urine; *genos*, birth) मूत्र-जनन।

urinogenital canal—मूत्र-जनन नलिका।

urinogenital system—मूत्र-जनन संस्थान या तन्त्र।

urite—(Gk. *oura*, tail) यूराइट; संधि-पादों (arthropoda) का एक उदर खण्ड (abdominal segment)।

urn—(L. *urna*, pitcher) कुम्भ; कलस; एक प्रकार का पात्र।

urobilin—(Gk. *ouron*, urine; L. *bilis*, bile) यूरो-बिलिन; मूत्र का पिगल (brown) वर्णक; स्टरकोबिलिन; $\text{C}_{23}\text{H}_{14}\text{O}_6\text{N}_4$ ।

urocardiac ossicle—पुच्छहृदयी अस्थिक; क्रस्टेशिया (crustacea) की जठर चक्की की एक छोटी मजबूत छड़ ।

urochord—(Gk. *oura*, tail; *chorde*, cord) पुच्छ-दण्ड; पुच्छ रज्जु ।

urochordata—(Gk. *oura*, tail; *chorde*, cord) पुच्छ दण्डक; यूरोकोर्डेटा; पुरातन पृष्ठ दण्डी (primitive chordates) का एक उपसंघ (sub-phyla) ।

urochrome—(Gk. *ouron*, urine; *chroma*, colour) यूरोक्रोम; मूत्र-वर्ण । वह रसायन जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है ।

urocoel—(Gk. *ouron*, urine; *koilos*, hollow) यूरोकोएल; मूत्र कोटर; मूत्र गुहिका; मौलस्का (mollusca) का विसर्जन अंग ।

urocyst—(Gk. *ouron*, urine; *kystis*, hollow) यूरोसिस्ट; मूत्र कोषिका; पुच्छपुटी ।

urodaeum—(Gk. *ouron*, urine; *odaios*, way) यूरोडियम; मूत्र-पायु; मध्यपायु; पक्षियों में पायु (cloaca) का वह भाग जिसमें मूत्र नलिकाएँ तथा जनन-नलिकाएँ खुलती हैं ।

urodelous—(Gk. *oura*, tail; *delos*, visible) यूरो-दिलस; पुच्छी; स्याई पुच्छ वाला; चिर पुच्छी ।

urogastric—(Gk. *oura*, tail; *gaster*, stomach) पश्च-भ्रामाशयिक; पुच्छ जठरीय ।

urohyal—(Gk. *oura*, tail; *hyocides*, y-shaped) यूरोहायल; पुच्छकंठिका; १-हायड बलय का अधोहायल के नीचे का मध्यीय टुक; २-वेसीब्रेन्कियोस्टीगल ।

uromere—(Gk. *oura*, tail; *meros*, part) पुरा-खण्ड; पश्च-खण्ड; पुच्छ खण्ड; उदरखण्ड; यूरोमियर ।

uroneme—(Gk. *oura*, tail; *nema*, thread) यूरो-नीम; पुच्छोपम ।

uropatagium—(Gk. *oura*, tail; L. *patagium*, border) पुच्छोपांत; पुच्छकला; चिमगादड़ (bat) में पाई जाने वाली जाँघ की हड्डियों के बीच की झिल्ली ।

uropod—(Gk. *oura*, tail; *pous*, foot) यूरो-पाद उदरपाद; उदरावयव ।

uropygial—(Gk. *oros*, end of os sacrum; *pyge*, rump) यूरोपाइजियल; पुच्छ-कुच्चीय ग्रन्थि ।

uropygium—(Gk. *oros*, end of os sacrum; *pyge*, rump) यूरोपाइजियम; पुच्छ कुच्च; पश्चांतकुर; पक्षियों के बड़ के सिरे पर उमड़ा हुआ स्थान जिसके अन्दर पुच्छ कक्षक रहते हैं और जिस पर पूँट के पंख लगे होते हैं ।

uropyloric—(Gk. *oura*, tail; *pyle*, gate) पश्च-पाइलोरिक; केकड़ा जन्तुओं (crustaceans) के श्वासाय का पश्च भाग ।

urorectal—(L. *urina*, urine; *rectus*, straight) पश्च-मलाशयिक; वह भ्रूणिक व्यवधान (embryonic septum) जो कि अंत्र (intestine) को पायु (anal) और मूत्र-जनन भागों में विभक्त करता है ।

urorubin—(Gk. *ouron*, urine; L. *ruber*, red) यूरोरुबिन; मूत्र-रक्तक ।

urosacral—(Gk. *oura*, tail; *sacrum*, sacred) पुच्छ शैफल; पुच्छशिक ।

urosome—(Gk. *oura*, tail; *some*, body) पुच्छ-पिण्ड; पुच्छकाय; सन्धिपादों (arthropoda) में उदर-प्रदेश, मत्स्यों आदि में पुच्छ प्रदेश ।

urostege—(Gk. *oura*, tail; *stege*, roof) पुच्छ-कुबल; उदरीय पुच्छ पट्ट ।

urosteon—(Gk. *oura*, tail; *osteon*, bone) पश्चास्थिक करण ।

urosternite—(Gk. *oura*, tail; *sternon*, breast) यूरोस्टर्नाइट ।

urosthenic—(Gk. *oura*, tail; *sthenos*, strength) सवल पुच्छी ।

urostyle—(Gk. *oura*, tail; *stylos*, pillar) यूरो-स्टाइल; पुच्छदण्ड; द्विधाजीवी (amphibian) के पृष्ठ-दण्ड (vertebral column) की अन्तिम अस्थि विशेष ।

ursus—भालू; भ्रंसत ।

urticant—(L. *urtica*, nettle) घात कोमिका; दंशक कोमिका; घादंशी ।

urticularial—(L. *urtica*, nettle) घादंशी; प्रकोषित ।

urticator—(L. *urtica*, nettle) दंशक कोमिका ।

use—उपयोग ।

use inheritance—उपार्जित लक्षणों का प्रेषण ।

uterine—(L. *uterus*, womb) गर्भाशयिक; गर्भाशय सम्बन्धी; गर्भाशय ।
 uteroabdominal—(L. *uterus*, womb; *abdomen*, stomach) गर्भाशय-उदरीय ।
 uterosacral—(L. *uterus*, womb; *sacrum*, sacred) गर्भाशय-सैकल ।
 uterovaginal—(L. *uterus*, womb; *vagina*, vagina) गर्भाशय-योनि सम्बन्धी ।
 uterovesical—(L. *uterus*, womb; *vesicula*, vesicle) गर्भाशय-मूत्राशय सम्बन्धी; गर्भाशयाशयी ।
 uterus—(L. *uterus*, womb) गर्भाशय; कृक्षि (कोख) ।
 uterus masculinus—(१) पुं गर्भाशय; नर के अन्दर अवशिष्ट मुलेरियन नलिका (Mullerian duct) की मध्यम कोपिका; जो मूत्रजनन नलिका (urino

genital duct) के पृष्ठ तल पर लगी होती है ।
 (२) पोरुपी कोप (utricle prostaticus) ।
 utricle, utriculus—(L. *utriculus*, small bag) कर्णोर्ध्व-कोप; दृति; जलीय पौधों का वाताशय ।
 utricular—(L. *utriculus*, small bag) कोपक ।
 uva—(L. *uva*, grape) यूवा; अंगूर की तरह का सरस न फूटने वाला फल; इसमें केन्द्रीय बीजाण्डन्यास (central placentation) होता है ।
 uvea—(L. *uva*, grape) यूविया; आइरिस (iris) के पृष्ठ तल को ढकने वाला रंजक अधिच्छद (pigmented epithelium) ।
 uvula—(L. *uva*, grape) यूवुला; अलि जिह्वा; गले की घण्टी । (२) मूत्राशय में एक छोटा सा उभार जो पोरुप ग्रन्थि के कारण होता है ।

V

Vaccine—(L. *vacca*, cow) वैक्सीन; टीका ।
 vacuolar—(L. *vacuus*, empty) स्थली मय; रसधानी युक्त ।
 vacuolated—(L. *vacuus*, empty) स्थली युक्त; धानी युक्त ।
 vacuole—(L. *vacuus*, empty) स्थल; रसधानी; कुण्डिका; धानी; कोशिका द्रव में स्थित स्थान (स्थल) जिसमें वायु, रस या अर्ध पक्व खाद्य रहते हैं ।
 vacuolisation—(L. *vacuus*, empty) धानी निर्माण; धानीता ।
 vacuome—(L. *vacuus*, empty) रसधानी तन्त्र; किसी एक कोशिका का रसधानी तन्त्र ।
 vagal—(L. *vagus*, wandering) वेगस सम्बन्धी; वेगसी ।
 vagina—(L. *vagina*, sheath) योनि; मूलच्छद; आच्छद ।
 vaginal—(L. *vagina*, sheath) योनि सम्बन्धी; योनि ।
 vaginal artery—योनि धमनी ।

vaginal nerve—योनि तंत्रिका ।
 vaginal process—योनि प्रवर्धन ।
 vaginal vein—योनि शिरा ।
 vaginate—(L. *vagina*, sheath) आच्छदी ।
 vaginervose—(L. *vagus*, wandering; *nervus*, sinew) अक्रमक शिरायें; अक्रमशिराल ।
 vaginicolous—(L. *vagina*, sheath; *colere*, to inhabit) आच्छद-वासी ।
 vaginiferous—(L. *vagina*, sheath; *ferre*, to carry) आच्छदी; आच्छदधारी ।
 vaginipennate—(L. *vagina*, sheath; *penna*, feather) आच्छदपंख; आच्छद पंखी ।
 vaginula—(L. *vaginula*, *dim.*, of *vagina*, sheath) १-लघु आच्छद ।
 २-मांस में बीजाणु-उद्भिद (स्पोरोफाइट) के निचले भाग को घेरे हुए पिधान या आच्छद ।
 vagus—(L. *vagus*, wandering) वेगस; प्राणेशा; दशम् मस्तिष्क नाड़ी; तंत्रिका ।

vallecula—(L. *vallis*, valley) प्रसीता; अवसाद; खात; गड्ढा; वैलेकुला ।

vallecular canal—वैलेकुली कैनल; हॉर्स टेल (horse tail) के तने के बल्कुट ऊतक में पाई जाने वाली कैनलों में से एक ।

valleculate—(L. *L. dim*, of *L. vallis*, valley) खातीय ।

valvate—(L. *valva*, fold) कपाटी; तट भ्रवलम्बी ।

valve—(L. *valva*, fold) कपाट; वाल्व; ऐसी फाटक सदृश आकृति जो केवल एक ही दिशा में तरल को बहने देती हैं ।

valve of vieussens—(R. *Vieussens*, French anatomist) वियूसेन्स कपाट; अग्र पिघानी कुंठिका; प्रमस्तिष्क में उर्ध्व वृत्तों के बीच में फैला हुआ श्वेत पदार्थ का पतला स्तर ।

valvelet—(L. *valvula*, *dim*, of *valva*, fold) लघु-कपाट ।

valvulae conniventes—इलैगम कला भाँज; अग्र प्रणाली में ड्यूडेनम (duodenum) से इलियम (ileum) तक पाया जाने वाला चक्राकार पर्त जो स्रावोत्पादन तथा सीखने के लिए अधिक क्षेत्र बनाते हैं ।

valvular—(L. *dim*, of *valva*, fold) कपाटसम; कपाट रूपी ।

vane—(A. S. *fana*, small flag) वैन; पिच्छ फलक; पंख का वह भाग जिसमें बार्ब (barb) लगे होते हैं; पंख; पंखुड़ी ।

vannus—(L. *vanuus*, fan) पदच पालि; गुदा-पालि; कुछ कीटों में पश्च पंख की पंखेनुमा पदच पालि ।

variant—(L. *varians*, changing) परिवर्त; विपर्यासी; ऐसे व्यक्ति या जाति विशेष जो एक या अधिक विशेषताओं में मूल से भिन्न होते हैं ।

variate—(L. *variare*, to change) अनित्य; विचर ।

variation—(L. *variare*, to change) परिवृत्ति विकार; विभिन्नता; विविधता; वह विकार या परिवृत्ति जिनमें प्राणी अपनी जाति विशेष से भिन्न प्रतीत होता है ।

varicellate—(L. *varix*, ridge) घस्पष्ट मेड़ी; फुट-कीय ।

variety—(L. *varietas*, various) गोत्र; वैराट्टी; प्रजाति; फिस्म; उपजाति ।

variole—(L. *varius*, various) खातिका; वैरिओल; छोटी गतनुमा आकृति जो कीटाणुओं के विभिन्न भागों में पाई जाती है ।

varix, varices—(Plural) (L. *varix*, dilatation) त्रितति रेखा; उत्कूट ।

vas, vasa—(Plural) (L. *vas*, vessel) नलिका, वाहिनी; प्रणाली ।

vasa deferentia—शुक्र प्रणाली; शुक्रवाहक; वीर्य नलिका; अण्डकोष से शिथल तक जाने वाली नलिकाएँ ।
vasa efferentia—वीर्य उपनलिका; शुक्रवाहिका; अण्डकोष से शुक्र प्रणाली तक लगी हुई छोटी-छोटी उपनलिकाएँ ।

vasa vesorum—पोष वाहिनियाँ; वृहत् घमनियों और शिराओं के लिए पोष वाहिनियाँ (nutrient vessels) ।

vasal—(L. *vas*, vessel) पात्र सम्बन्धित ।

vascular—(L. *vasculum*, small vessel) नलिका युक्त; द्रव वाहक; संवहनी ।

vascular areas—वाहक क्षेत्र ।

vascular bundle—संवहन पूल; पीधों के तनों और जड़ों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह जो जाइलम और फ्लोएम भागों के बने होते हैं—बहुतों में इन दोनों को अलहदा करते हुए कैम्बियम (cambium) की एक पतली पट्टी भी रहती है ।

vascular tissue—वाहक तन्तु; संवहन ऊतक ।

vascular tunic—संवहन-आच्छादन; क्रोरोइड (chroroid), सिलियरीकाय (ciliary body) और आइस (iris) ।

vasculum—(L. *vasculum*, small vessel) कुम्भाकार पर्ण; घटपर्णी; घटस्पांग ।

vasifactive—(L. *vas*, vessel; *facere*, to make) वाहिका जन; नव रूपिर नलिका निर्माणक ।

vasiform—(L. *vas*, vessel; *forma*, shape) नलिकीय पम; नलिकाकार; वाहिका रूप ।

vasoconstrictor—(L. *vas*, vessel; *constringere*, to draw tight) (रक्त) नलिका संकोची; वाहिका संकोचक ।

vasodilator

vasodilator—(L. *vas*, vessel; *dilatatus*, separated) (रक्त) नलिका प्रसारक; वाहिका विस्फारक ।

vasoganglion—(L. *vas*, vessel; Gk. *ganglion*, little tumour) वाहिका गुच्छिका ।

vasomotor—नलिका चालक; वाहिनी प्रेरक; वाहिका प्रेरक ।

vasopressin—(L. *vas*, vessel; *pressus*, pressure) वासोप्रेसिन; वाहिका संकुचक; पिट्यूटरी ग्रन्थि के पश्च दल का एक हार्मोन जो पेशियों को उत्तेजित करता है तथा घमनियों का संकुचन कर रक्त चाप बढ़ाता है ।

vastus—(L. *vatus*, immense) वासटस; जंघानुपेशी (क्वाड्रीसेप्स) का एक भाग ।

vater's corpuscles—(A. Vater, German anatomist) वेटर कणिकायें; पेसीनी स्पर्श कण ।

vector—(L. *vactor*, bearer) वाहक; प्रसारक; रोगाणु प्रसार करने वाले जन्तु; रोगवाहक; वेक्टर ।

vegetal pole—भृतिध्रुव; ब्लास्टुला (blastula) का वह पार्श्व जिस पर बृहत् कोशिका (megameres) एकत्रित होते हैं ।

vegetative—(L. *vegetare*, to quicken) पौष्टिक भृति—; कायिक; वनस्पतिक ।

vegetative cone—भृति शंकु ।

vegetative reproduction—वनस्पतिक उत्पादन; कायिक जनन ।

vein—(L. *vana*, vein) १—शिरा; वह रक्त नलिकायें जो अशुद्ध रक्त अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं; २—नसें; कीटाणुपक्ष की नसें व पत्तीदल (leaf blade) की नसें ।

veinule—उपशिरा ।

velamen—(L. *velum*, sail) गुंठिका; वेलामन; आर्द्रता-ग्राही ।

velar—(L. *velum*, sail) गुंठिका; अञ्चली या वीलमी या वीलम समीप स्थित ।

velarium—(L. *velum*, covering) विच्छदक साइफो-जोआ (scyphozoa) में टैन्टीकिल सहित छत्र तट ।

velate—(L. *velum*, covering) विच्छादित ।

veliger—(L. *velum*, velum; *gerere*, to carry) वेलीजर, मोलस्का (mollusca) जन्तुओं का अर्भक ।

velum—(L. *velum*, covering) वीलम; अञ्चल; परदा सदृश आकृति; चर्म ।

(१) हाइड्रोमेडूसी (hydromedusae) और कुछ जैली फिश में भिल्ली या छद् सदृश संरचना ।

(२) लैन्सिलेट (lancelet) में मुख गुहा (buccal cavity) से सम्बन्धित भिल्ली ।

(३) क्रोकोडीलिया (crocodilia) में उत्क्षेप सदृश संरचना जो पश्च नासा रन्ध्रों (choanae) को मुख गुहा में खुलने से रोकती है ।

(४) कुछ सिलियेट्स (ciliates) में मुख गुहा के किनारे पर लगी भिल्ली ।

(५) वेलीजर अर्भक (veliger larva) का पक्षमाभिका प्लवक अंग (ciliated swimming organ) ।

(६) कुछ थैलोफाइटा (thallophyta) में छत्रिकावृत (stipe) से छत्र (pileus) तक फैला हुआ ऊतकों का पुंज ।

velutinous—(It. *velluto*, velvet) उर्णी; लोमी; मखमली; बहुत महीन कोमल, घने छोटे बालों से ढका हुआ ।

velvet—(M. E. *velvet*, velvet) मृदुगी; मखमल; मुलायम रक्तमय त्वचा जो हिरनों आदि के उगते हुए सींगों पर लगी होती है ।

vena, venae—(L. *vena*, vein) शिरा ।

vena cava—महाशिरा; वीनाकेवा ।

venation—शिरा विन्यास ।

venin—(L. *venenum*, poison) वेनिन; सर्प विष ।

venom—(L. *venenum*, poison) विष; जहर; जीवविष ।

venomosalivary—(L. *venenum*, poison; *salivare*, to salivate) विपाक्त लाला ग्रन्थि ।

venomous—(L. *venenum*, poison) विषाक्त; विषैला जहरीला; विषयुक्त; जीविषालु ।

venose—(L. *vena*, vein) शिराल; बहुशिरा ।

venous—(L. *vena*, vein) (१) शिरा—; शिरा सम्बन्धी ।

venous blood—ओषजन हीन या अशुद्ध खून; शिरा रधिर ।

venous plexus—शिरा जाल ।

vent-(L. *findere*, to cleave) गुदा; पायु; निकास ।
 venter-(L. *venter*, belly) उदर; निम्न उदर सम्बन्धी
 तल; उदरक; अंडधा; तंडुक ।

ventrad-(L. *venter*, belly; *ad*, to) अघरीय;
 निम्न या अघर तल की ओर; अघरोन्मुख ।

[देखिये dorsad—पृष्ठीय]

ventral-(L. *venter*, belly) अघरीय; अघरस्थ; अघर
 देशीय; अघर सम्बन्धी; अघर—।

ventral blood vessel—अघर रक्त नलिका ।

ventral nerve cord—अघर तंत्रिका रज्जु ।

ventral scale—अघर शल्क ।

ventral sucker—अघर चूपक ।

ventral surface—अघर तल ।

ventricle-(L. *ventriculus*, belly) वैन्ट्रीकल; क्षेपिका
 क्षेपक कोष; निलय; गुहा ।

ventricle of brain—द्विवर ।

ventricle of heart—निलय ।

ventricose-(L. *venter*, belly) असमान स्फीतिकी ।

ventricular-(L. *ventriculus*, belly) क्षेपिका या
 निलय सम्बन्धी ।

ventrodorsal-(L. *venter*, belly; *dorsum*, back)
 अघो पृष्ठीय; अघर पृष्ठी ।

ventrolateral-(L. *venter*; belly; *latus*, side)
 अघो पार्श्वीय; अघर पार्श्व ।

venula-(L. *venula*, dim of *vene*, vein) शिराका;
 लघु शिरा; उपशिरायें; पटपाद (insects) के पक्ष की
 उपशिरायें ।

vermian-(L. *vermis*, worm) कृमिकोपम ।

vermicular-(dim, of L. *vermis*, worm) कृमिक;
 कृमि सदृशी ।

vermiculate-(dim, of L. *vermis*, worm) लीक
 चिह्नी ।

vermicule-(dim of L. *vermis*, worm) कृमि
 काणु ।

vermiform-(L. *vermis*, worm; *forma*, shape)
 कृमिकोपम; कृमिकार; कृमि रूप ।

vermiform appendix—वर्मिफोर्म ऐपेंडिक्स; अनुबन्ध
 नलिका; कृमि रूप परिदोषिक ।

vermis-(L. *vermis*, worm) वर्मिस ।

१-प्रभस्तिष्क का बलयकार (annulated) मध्यीय
 भाग ।

२-पक्षियों और सरीसृप में प्रभस्तिष्क (cerebellum) का
 केन्द्रीय भाग ।

vernalisation-(L. *vernalis*, of the spring) वसन्ती-
 करण; पादप-संवर्धन मत; ताप-प्राद्र स्थिति; ऊष्ण-
 स्थिति ।

१-यह मत कि पादप का संवर्धन अनुक्रम (sequence)
 अन्योन्य (इत्तरेतर) स्वतन्त्र स्थितियों पर निर्भर
 होता है ।

२-वायविक और कुछ बहुवर्षीय पौधों में प्रकाश-ताप स्थित
 (photophese) से पूर्व प्रथम संवर्धन स्थिति—अर्थात्
 ताप-आर्द्र स्थिति ।

[देखिये—thermophase—ताप-आर्द्र स्थिति
 joronisation = Vernalisation]

vernalised-(L. *vernalis*, of the spring) अंशवर्धित
 पादप; बीने से पूर्व ही जिस पौधे ने अपना आंशिक
 वर्धन पूर्ण कर लिया हो ।

vernation-(L. *vernatio*, sloughing) कोरक पर्ण
 विन्यास; किसलय विन्यास ।

verruca-(L. *verruca*, wort) ठेंठ; गूमडा; किणक;
 मांसांकुर ।

verruciform-(L. *verruca*, wort; *forma*, shape)
 ठेंठोपम; गांठनुमा ।

verrucose-(L. *verruca*, wort) ठेंठी; ठेंठदार; ठेंठ
 युक्त; किणमय ।

versatile-(L. *versare*, to turn around) स्वतन्त्र
 गति कारक; चहुं ओर घूमने वाला; वृत्तदोली ।

versicoloured-(L. *versare*, to change; *color*,
 colour) भिन्न वर्णी; ढबलवर्णी ।

verson's glands—वरसन ग्रन्थि; निर्मोक ग्रन्थि ।

vertebra-(L. *vertebra*, joint) कशेर, कशेरुका;
 कीबस; बशेरक ।

vertebra prominens—सप्तम श्रेणीय कशेरु (seventh
 cervical vertebra) ।

vertebral-(L. *vertebra*, joint) बशेरुकी; बशेरु
 सम्बन्धी; कशेरु-; बशेरक ।

vertebral artery—बशेरु धमनी ।

- verteberal column—कशेरू दण्ड ।
 vertebra arterial canal—कशेरू घमनी छिद्र ।
 vertebrate—(L. *vertebra*, joint) कशेरूकी; कशेरू दण्डक; रीढ़ की हड्डी वाले पृष्ठ दण्डक ।
 vertebration—(L. *vertebra*, joint) कशेरू करण; कशेरू सदृश भागों में बंटना ।
 vertex—(L. *vertex*, top) शीर्ष; शिखर; मूर्धा ।
 vertical—(L. *vertex*, top) खड़ी; खड़ा; ऊर्ध्वाधर ।
 vertical margin—खड़ा तट ।
 vertical section—खड़ी काट; खड़ी लम्बी काट ।
 verticil—(L. *verticillus*, dim. of *vertex*, whirl) चक्रक; चक्र विन्यास । पुष्प, और पुष्पक्रम आदि संरचनाओं का अक्ष पर एक ही बिन्दु से लगे होना ।
 verticillaster—(L. *verticillus*, small whorl) कूट चक्रक; विशेष युग्म शाखिता ससीमाक्षी पुष्पक्रम; यह एक जटिल पुष्पक्रम होता है। तुलसी कुल (*labiatae*) के पौधों में पाया जाता है। इसमें विपरीत पत्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पत्ती के कक्ष में एक युग्म शाखित ससीमाक्ष (*dichasial cyme*) होता है, परन्तु इसमें केवल दो कुण्डलित साइम होते हैं। सभी अवन्त पुष्प एक ही स्थान पर एकत्रित रहते हैं इस कारण कक्ष के चारों ओर एक आवर्त-सा बन जाता है। उदाहरण—हलकुश ।
 verticillate—(L. *verticillus*, small whorl) चक्री; ऐसे स्पर्शक जिनकी सन्धि दृढ़ लोमों से घिरी रहती हैं ।
 verumontanum—(L. *verv*, spit; *montanum*, mountainous) शिशन मेड़ ।
 vesica—(L. *vesica*, bladder) आशय; कोषिका ।
 vesical—(L. *vesica*; bladder) आशयिक; आशय सम्बन्धी ।
 vesicle—(L. *vesicula*, dim of *vesice*, bladder) कोषिका; तरल युक्त लघु कोष; आशय; पुटिका; स्फोट-गर्त ।
 vesicula—(L. *visicula*, small bladder) वेसीकुला; छुद्रकोषिका ।
 vesicula seminalis—वीर्याणु कोषिका ।

- vesicular—(L. *vesicula*, small bladder) कोषकीय; कोषमय; आशय-; पुटिकामय; स्फोटगर्ती; आशयी ।
 vesicular ovarian follicle—ग्रैफीयन कोषक ।
 vesiculase—(L. *vesicula*, small bladder) वेसी-कुलेस; (उद्दीपक विशेष) जो शुक्राशय के रस को गाढ़ा करता है ।
 vespertine—(L. *vesper*, evening star) सन्ध्यो-न्मीली ।
 vespid—(L. *vespa*, wasp) वरटोपम; भिड़नुमा; ततैया सदृश; वरभि; वरटाभ ।
 vessel—(L. *vescellum*, dim of *vas*, a vase) पात्र; नलिका; वाहिनी; वाटिका ।
 vestibular—(L. *vestibulum*, passage) मार्गयुक्त; पथी; प्रघाणी ।
 vestibule—(L. *vestibulum*, passage) नेहली; प्रघाण; डेहरी; वेस्टीव्यूल; उपकोटर, ऐसे कोटर (*cavity*) जो किसी अन्य कोटर में खुले; (२) कर्ण गुहा; कर्ण कुहर; (३) हृदय गुहा; हृदय कुहर; (४) नासागुहा; नासा कुहर; (५) श्वास गुहा; पटपाद (*insects*) में वह कोष जो श्वास छिद्र (*spiracle*) और श्वास नलिकाओं के बीच में स्थित रहता है; (६) मध्य गुहा; (७) गर्भाशय गुहा ।
 vestige—(L. *vestigium*, trace) अवशेष; अंगावशेष; पदांशक; वह अंग विशेष जो पुरखों या पूर्वजों (*ancestors*) में पूर्ण रहा हो ।
 vestigial—(L. *vastigim*, trace) अवशिष्ट अंग; अव-शिष्टांग; अवशेषी ।
 vestiture—(L. *vestis*, garment) देहावरण; जैसे पंख शल्क (*scutes*) आदि ।
 veterinary—(L. *vcterinarius*, pert beast of bur- den) जन्तु सम्बन्धी; पशु ।
 vexillery—(L. *vexillum*, standard) वेक्सिलरी; एक प्रकार का कोरछादी (*imbrecate*) विन्यास जिसमें ऊपर की पंखुड़ी (दल) अन्य पर मुड़ी हुई होती है ।
 vexillate—(L. *vexillum*, standard) वेक्सिलम युक्त ।
 vexillum—(L. *vexillum*, standard) वेक्सिलम;
 १—ध्वजक; पेपीलियोनेटी कुल के पुष्पों में अपनी दल (पंखुड़ी) जिसे ध्वज (*standard*) भी कहते हैं ।
 २—पिच्छ फलक ।

- via**—(L. *via*, way) मार्ग; रास्ता; पथ ।
- viable**—(F. *vie*, life; able) प्राणभूत; जीवन (प्राण) युक्त; जीवनक्षम ।
- vibracula**—(L. *vibraculum*, whip) विवरेकुला; कशा; कशा प्रवर्ध ।
- vibratile**—(L. *vibrare*, to quiver) प्रदोलक; प्रदोली; कम्पी ।
- vibratile corpuscles**—प्रदोल-कण ।
- vibrio**—(L. *vibrare*, to quiver) विवरियो ।
- vibrioid**—(L. *vibrissa*, nostril hair) विवरियोपम; स्पर्शलोम; गुंफलोम; विल्ली आदि जन्तुओं के मूछ के बाल ।
- vibrissa**—(L. *vibrissa*, nostril hair) स्पर्शलोम; दृढ-रोम; १—जन्तुओं के चेहरों या नथुनों के बाल, २—विल्ली के मूछ के बाल, ३—चंचु के आधार पर या आंख के परिवृत पर पंख । ४—डिप्टेरा (Diptera) में मुख गुहा के उर्ध्व कोण के समीप युग्मित श्रूक में से एक ।
- vicariation**—(L. *vicarius*, deputy) प्रतिस्थान; विभिन्न पर्यावरण में सदृश जातियों का पृथक पाया जाना ।
- vicinism**—(L. *vicinus*, neighbour) सामीप्य विभिन्नता; सम्बन्धित प्रकारों को समीपता के कारण विभिन्नता की ओर प्रवृत्ति ।
- villiform**—(L. *villus* shaggy hair forma, shape) मखमली ।
- villus**—(L. *villus*, shaggy hair) ग्राहकांकुर; दीर्घ-रोमी; आंतों के भीतरी स्तर पर स्थित छोटी-छोटी प्लेटें ।
- vimen**—(L. *vimen*, twig) कीमल शाखा ।
- vinculum, vincula**—(L. *vinculum*, bond) विन्कुलम; रेखाबंधनी; रेखाकोष्ठक; १—पक्षियों में पाँव के प्रमुख दो टेन्डनों को बांधने वाला बन्ध । २—लेपीडोप्टेरा (Lepidoptera) में अण्डरपटल क्षेत्र में नवां खण्ड ।
- virescence**—(L. *virescere*, to grow green) हरित वर्ण; हरीविभागम ।
- viper**—वाइपर; एक विषैला साँप; नंडलि; पृदाङ्गु; घोपस ।

- virgate**—(L. *virga*, rod) शलाकाकार; वेधाकार ।
- virgula**—(L. *dim.* of *virga*, rod) वर्गुला जघु शलाका ।
- virgin**—(L. *virgo*, virgin) अक्षत योनी स्त्री; कुमारी; प्राकृत; अक्षत ।
- virus**—(L. *virus*, poisonous liquid) वाइरस; विषाणु; न्यूक्लिओप्रोटीन के सत्व जो ऐसे निस्पंदकों (filters) में से छन जाते हैं जिनमें से वैक्टोरिया नहीं छन पाते हैं इनमें अनेक लक्षण जैवी अंगियों के होते हैं और यह अपने विषाक्त अथवा रोगोत्पादक प्रभावों से पहिचाने जाते हैं ।
- viscera**—(L. *viscera*, bowels) अन्तरांग; देहांग; गह्वरांग आन्तरिक अंग; आन्तरिक देहांग; अन्तःस्वाङ्ग ।
- visceral**—(L. *viscera*, bowels) देहांग सम्बन्धी; देहांगी; अंतरंग ।
- visceral arch**—दैहिक वलय; देहांग तोरण ।
- visceral ganglion**—देहांग गण्ड ।
- visceral loop**—देहांग शिख्य ।
- viscerocranium**—(L. *viscera*, bowels; *cranium*, skull) देहांग कपाल; अंतरंग कपाल; उपास्थि या अस्थि पिटिका (वक्स) जिसमें मस्तिष्क व अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ रहती हैं ।
- visceromotor**—(L. *viscera*, bowels; *motor*, to move) देहांग चालक; देहांगों को गति प्रेरणा ले जाने वाली पेशियाँ; अंतरंग प्रेरक ।
- viscosity**—(L. *viscosus*, viscous) दयानता; दिक्ता-सिता । तरलों में कणों के एक दूसरे से चिपकने के कारण अन्तःघर्षण ।
- viscous**—(L. *viscosus*, sticky) लसलसा द्रव; दयान; निस्कासी ।
- vision**—(L. *visio*, to see) दृष्टि; नजर ।
- vision centre**—दृष्टि केन्द्र ।
- visual purple**—रोटोपसिन; दृश्य-नील लोहित ।
- visual violet**—प्रायोडोपसिन (*iodopsin*) ।
- visual region**—दृष्टि प्रदेश ।
- vital capacity**—पुनःपुनः की शक्ति; पूरक (complemental), सामान्य ज्वारीय (tidal) और संपूरक (supplemental) वायु की मात्रा जो पुनःपुनः द्वारा ली जाती है ।

vital force—जैविक शक्ति; जैव शक्ति; प्राणभूत शक्ति ।

vital functions—प्राणभूत कर्म (व्यापार); शरीर के वह कर्म या व्यापार जिन पर प्राण या जीवन आधारित रहता है ।

vitalism—(L. *vita*, life) जैव शक्तिवाद; जीव शास्त्रीयों का यह मत कि जीवित अंगियों में भौतिक और रसायनिक शक्तियों से भिन्न अपनी विशिष्ट शक्ति होती है ।

vitamins—(L. *vita*, life; *ammoniacum*, resinous gum) विटामिन; जीवनीय गण; खाद्योज ।

यह वह कार्बनिक यौगिक (organic compounds) होते हैं जो विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं में प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाये जाते हैं और जिनकी नितान्त आवश्यकता अंगियों (organism) की सामान्य वृद्धि एवं स्वस्थ जीवन के लिये होती है । अंगी को इनको बाहर से परिस्थिति (वातावरण) से ही प्राप्त करना होता है क्योंकि सामान्य रूप से अंगी में इनके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है । कभी-कभी जन्तु अपनी आवश्यकता हेतु इनका निर्माण कर लेते हैं जैसे विटामिन 'डी' मानव द्वारा प्रकाश की सहायता से संश्लेषित कर लिया जाता है तथा विटामिन 'बी' कीट तथा कशेरुकों की अंत्र में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है । यह सूक्ष्म मात्रा में ही प्रभावी होते हैं । यह शक्ति प्रदान नहीं करते हैं पर शक्ति परिवर्तन हेतु तथा उपापचय नियंत्रण हेतु अनिवार्य होते हैं । यह जल अथवा वसा में घुलनशील होते हैं और असंतृप्त (unsaturated) ऐलिफेटिक ऐल्कोहोल (aliphatic alcohol) होते हैं । विटामिन की आवश्यकता के बल पर षोषित (heterotrophic) अंगियों को ही होती है । जबकि स्वपोषित जीव (autotrophic organism) जैसे पौधे—वाह्य कार्बनिक यौगिकों पर आश्रित नहीं होते हैं । किसी एक परपोषित जीव के लिये जो विटामिन होता है सम्भवतः वह एक दूसरे के लिये नहीं होता है क्योंकि इसकी या तो उस परपोषित को आवश्यकता ही नहीं होती है या फिर वह उसके द्वारा संश्लेषित कर लिया जाता है । अतः विटामिन सामान्य न होकर केवल विशिष्ट होते हैं । इनकी मात्रा सदैव दूसरे जीव द्वारा संश्लेषित कर उस जीव को मिलती रहती है जिससे कि इसकी आवश्यकता होती है । इनकी

कमी से अनेक रोग होते हैं तथा उपापचय प्रक्रिया अवरूद्ध होती है जिससे जीव की वृद्धि स्तम्भित (stunted) हो जाती है ।

विटामिन 'ए' (A)—इसका दूसरा नाम 'प्रतिश्रुक्नेत्रता विटामिन' (antixerophthalmic vitamin) या प्रति संक्रामक (anti-infections) होता है । इसकी केवल मानव और अन्य कशेरुकों को ही आवश्यकता होती है अन्य जीवों को नहीं । यह वसा में घुलनशील होता है और यकृत इसका संग्रहणार होता है । यह विटामिन श्लैष्म—अधिच्छद (mucous epithelium) और दृष्टि-क्रिया-शीलता के हेतु अनिवार्य होता है । इसकी कमी से अधिच्छद् कोशिकाओं (epithelial cells) में क्षीणता (atrophy) आ जाती है तथा चक्षुश्लैष्म कला स्थानीय बैक्टीरिया संक्रामण के हेतु सुग्राह्य हो जाती है जिससे रात्रि अन्धता (night blindness) और नेत्र शुष्कता (xerophthalmia) नामक रोग मुख्यतः होते हैं । यह मत्स्य कृत तैल, दुग्ध वसा तथा रंगीन साग सज्जियों में केरोटीन (carotene) के रूप में पाया जाता है । इसकी मानक (standard) इकाई (unit) अन्तर्राष्ट्रीय इकाई है जो ०.६ माइक्रोग्राम विशुद्ध B केरोटीन की क्रिया-शीलता के बराबर होती है । पूर्व की इकाईयाँ कॉडलिवर आइल (codliver oil) इकाई होती थी जो २०.५ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के समान थी । मूर (Moor) की ब्लू इकाई (Blue unit) ६० अन्तर्राष्ट्रीय इकाईयों के बराबर होती है ।

विटामिन 'ए_१' (A₁)—यह एक किस्म का विटामिन ए (A) है जो सामुद्रिक मत्स्यों के चक्षु ऊतकों में पाया जाता है । यह अधिकांश विटामिन 'ए' के लक्षणों युक्त ही होता है, अन्तर केवल इतना होता है कि परा बैंगनी (ultra violet) स्पेक्ट्रम में भिन्न शोषण (absorption) युक्त होता है ।

विटामिन 'ए_२' (A₂)—यह भी विटामिन 'ए' प्रकार का ही विटामिन होता है, जो स्वच्छ जलीय मत्स्यों के यकृत में होता है ।

विटामिन बी (B)—यह कई जल घुलनशील विटामिनों का समूह होता है, जिसके अन्तर्गत थायामिन (thiamin) बी_१; रिबोफ्लेविन (riboflavin) बी_२; निकोटिनिक अम्ल (niacin निकोटीनिकमाइड [नाइ-सीनएमाइड (niacin amide), निकोटीनिक अम्ल

एमाइड (nicotinic acid amide)]; पाइरीडोक्सिन (pyridoxine), पाइरीडोक्सल (pyridoxal) पाइरीडोक्सामाइन (pyridoxamine). एल्फा और बीटा पाइरेसिन (pyracin)-विटामिन बी₆ समुदाय; बायोटिन, (biotin), पैंटोथेनिक अम्ल (pantothenic acid); फोलिक अम्ल (folic acid), निकोटिनिक अम्ल (nicotinic acid), कोबालामीन (cobalamine)-बी₁₂ समुदाय और सम्भवतः कोलाइन (choline) होते हैं। निकोटिनिक अम्ल (nicotinic acid) और निकोटिनेमाइड (nicotinamide) को पैलेग्रा रोधीकारक (pellagra-preventing factor) संक्षेप में पी० पी० कारक (P. P. factor) या प्रति पैलेग्रा कारक (antipellagra factor) भी कहते हैं।

विटामिन बी₁-थायामीन (thiamin)

विटामिन बी₂-रिबोफ्लेविन (riboflavin)

विटामिन बी₃-निकोटिनेमाइड (nicotinamide)

विटामिन बी₄-इसका निर्धारण अभी तक ठीक-ठीक नहीं हो सका है। यह यीस्ट (yeast) से प्राप्त होता है तथा जल धुलनशील होता है। इससे चूहों (rats) और मुर्गीयों (chicks) में पक्षाघात (paralysis) नहीं होता है।

विटामिन बी₅-यह कारक चूहों में वृद्धि तथा पक्षियों में वजन बढ़ाने के लिये आवश्यक होता है। इसको पेट्रो कारक (Petro factor) भी कहते हैं।

विटामिन बी₆-पिरीडोक्सिन (pyridoxine)—इसको प्रति त्वकशोथ (anti dermatitis) विटामिन कहा जाता है। यह उन सब पदार्थों में पाया जाता है जिनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है।

विटामिन बी₇-एडेनिलिक अम्ल (adenylic acid) विटामिन बी₈ व विटामिन बी₁₁-यह संज्ञा उन पदार्थों को दी जाती है जो फोलिक अम्ल (folic acid) के साथ पाये जाते हैं।

विटामिन बी₁₂-साइनोकोबालामिन (cyanochboalamin) यह विटामिन लाल रुधिर रक्तानु कोशिकाओं की परिपक्वता तथा सामान्य तंत्रिकीय क्रियाओं के लिये अनिवार्य होता है। यह विटामिन प्रत्युरक्तता कारक (anti-anæmic factor); लाल रुधिर रक्तानु परिपक्वता

कारक (enrythrocyte maturing factor); बाह्य कारक (extrinsic factor); प्रति प्रणाशी अरक्तता कारक (antipernicious-anæmia factor); यकृत का परिपक्वता कारक (maturation factor of liver); जन्तु-प्रोटीन कारक (animal-protein factor) होता है। साइनोकोबाल एमिन; $C_{63}H_{93}O_{14}N_{14}PCO$; यह प्रत्येक जन्तु उत्पाद और कुछ समुद्री खाद्यों में तथा रुमेन और एल्गी सदृश किण्वित पदार्थों में मौजूद होता है। मानव में यह यकृत में सक्रिय कोएंजाइम के रूप में उपस्थित होता है।

विटामिन बी₁₂ से सम्बद्ध तत्वों में से मुख्य—

साइनोकोबाल एमिन बी₁₂ ए

हाइड्रोक्सोबाल एमिन बी₁₂ बी

नाइट्रोसीकोबाल एमिन बी₁₂ सी

ये तीनों ही सांघातिक अरक्तता के उपचार में उपयुक्त होते हैं।

विटामिन बी₁₂-यह अनिर्धारित (बिना पहिचाना) स्फुटिक यौगिक है, जो मानव मूत्र से पृथक किया गया है। इसके प्रभाव से अस्थि मज्जा की कोशिकाओं की गुणितता में अत्यन्त वृद्धि तथा कैंसर कोशिकाओं के उत्पादन में कमी होती है। यह भी प्रत्यारक्तताकारक (anti anæmia factor) होता है।

विटामिन बी₁₃-पैन्गामिक अम्ल (pangamic factor)

विटामिन बी सी (Bc)-फोलिक अम्ल (folic acid)

विटामिन बी सी₁ (Bc₁)-संयुक्त फोलिक अम्ल (conjugating folic acid)

विटामिन बी टी (Bt)-यह भील वर्म (Tenebrio molitor) के पोषण (nutrition) के लिये आवश्यक होता है।

विटामिन बी एक्स (Bx)-पैरा अमीनो बेन्जोइक अम्ल (para aminobenzoic acid)।

विटामिन 'सी'-एस्कॉरबिक अम्ल (ascorbic acid)। यह विटामिन दांत, हड्डी, पेशी मसल (muscular walls) के अन्तरा कोशिक पदार्थ (intercellular substance) के लिये आवश्यक होता है। इसकी कमी में स्कर्वी (scurvy) नामक रोग होता है। यह जम्मा (heat) से नष्ट हो जाता है। इसकी एक अन्तरा-कोशिका इन्वर्ट की सदृश ५० माइक्रोग्राम के बराबर होती है। इसके अन्य नाम प्रति स्कर्वी (antiscorbutic), स्कर्वी

विटामिन डी

नाशक (scorbutanin) और प्रति स्कर्वी कारक (anti-scorbutic factor) भी हैं।

विटामिन डी—यह विटामिन स्टीरोल (sterols) होते हैं। इनकी आवश्यकता विटामिन डी की तरह मनुष्य तथा अन्य कशेरुकों को होती है। इसकी कुछ मात्रा मनुष्य अपनी त्वचा में स्थित पूर्ववर्ती (precursor) से सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परा-वैगनी (ultra violet) किरणों से संश्लेषित कर लेता है। यह वसा में घुलनशील होता है। यकृत इसका संग्रहागार होता है। इसकी न्यूनता से बच्चे में रिकेट्स (rickets) तथा कभी-कभी प्रौढ़ में अस्थि मृदुता (osteomalacia) या अस्थि सुपिरता (osteoporosis) नामक रोग होते हैं। विटामिन का प्रभाव कैल्शियम और फॉस्फेट (phosphate) के अवशोषण और निक्षेपण (deposition) पर होता है। सामान्य रूप से कॉड लिवर आइल (cod liver oil) में यह सबसे अधिक पाया जाता है। यह अण्ड पीत, मत्स्य यकृत तथा मूत्रजन में होता है।

विटामिन 'डी₁'—कैल्सीफेरोल (calciferol) और एक अन्य स्टीरोल (sterol) के मिश्रण का नाम।

विटामिन 'डी₂'—कैल्सीफेरोल (calciferol)।

विटामिन 'डी₃'—कॉड लिवर आइल (cod liver oil) में प्राकृतिक पाया जाने वाला विटामिन या 7-डिहाइड्रो-कोलेस्ट्रॉल (7-dehydro-cholesterol) से बनाया जाने वाला विटामिन।

विटामिन 'डी₄'—इनएडियेटेड २२-डाइहाइड्रोअरगोस्टेरोल (inadialid 22-dihydro-ergosterol)।

विटामिन 'डी₅'—इनएडियेटेड ७-डिहाइड्रोसिटो-स्टेरोल (inadialid 7-dehydrosinosterol)।

इस विटामिन की यू० एस० पी० (U.S.P.) या अन्तर्राष्ट्रीय इकाई ००.२५ माइक्रोग्राम डी₃ की होती है। इसको एक मानक इकाई बराबर होती है। १,०००,००० अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयों के और एक औषधि इकाई बराबर होती है १२.५ से १७ अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयों के।

विटामिन 'ई'—टोकोफेरोल (Tocopherol)—तीन टोकोफेरोल, एल्फा (α) बीटा (β) और गामा (γ) में विटामिन 'ई' की सक्रियता होती है। यह प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों ही प्रकार का होता है। यह वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से गर्भपात तथा नर

में वंध्यता (sterility) होती है। यह बिनीले के तेल (cotton seed oil), अंकुरित गेहूँ व घान के तेल (wheat rice germ oil) तथा ऐल्फालफा (alfalfa) में पाया जाता है। एल्फाटोकोफेरोल (α-tocopherol) बी २-३ मिलीग्राम की मात्रा चूहों में निषेचन की मात्रा होती है इसे वंध्ययारोधी विटामिन (antisterility) भी कहा जाता है।

विटामिन 'एफ'—यह विटामिन फैटी अम्ल (fatty acids) जैसे लीनोलेक (Linoleic-C₁₈H₃₂O₂), लीनोलेनिक (Linolenic-C₁₈H₃₀O₂), और अरेकीक्लोनिक (Arachidonic-C₂₀H₃₂O₂) होते हैं।

विटामिन 'जी'—रिबोफ्लेविन—देखिये विटामिन 'बी₂'।

विटामिन 'एच'—बायोटिन (Biotin), यह विटामिन बी कम्प्लेक्स का एक घटक होता है। यह जल में घुलनशील होता है तथा वह सह एन्जाइम 'आर' ('R') के समान होता है।

विटामिन 'एच₁'—पैरा अमीनो बेन्जोइक अम्ल (para aminobenzoic acid)।

विटामिन 'जे'—इस विटामिन के सम्बन्ध में अभी अधिक जानकारी नहीं है। यह विटामिन गिनीपिगा (Guinea pig) की अभिवृद्धि के लिये आवश्यक होता है।

विटामिन 'के'—यह विटामिन नेपथोक्विनोन (Naphthoquinone) के तीन व्युत्पन्नों विटामिन के₁, विटामिन के₂ और विटामिन के₃ का एक समूह होता है। रक्त का थक्का बनाने हेतु यह विटामिन अनिवार्य होता है। इससे यकृत में प्रोथ्रोमबिन (Prothrombin) का निर्माण होता है जिससे रक्त का थक्का बनता है। इसकी न्यूनता का रक्त प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। इसकी सक्रियता प्रति-रक्त स्रावी (anti hemorrhagic) होती है। यह विटामिन पालक, करमकल्ला (cabbage), फूल गोभी, टमाटर और सोयाबीन तेल आदि में पाया जाता है।

विटामिन 'के₁'—फाइटोनाडियोन (phytonadione)।

विटामिन 'के₂'—२ मिथाइल-३-डाइफारवैसिल—१, ४-नेपथोक्विनोन (2-methyl-3-difarvesyl-1, 4-naphthoquinone)।

विटामिन 'के₃'—मीवाडीन (mevadine)।

विटामिन 'एल'—यह दुग्ध स्राविक विटामिन होता है।

एल,—यकृत सारसत्त में होता है ।

एल,—यीष्ट (yeast) में होता है ।

विटामिग 'एम'—फोलिक अम्ल (Folic acid) ।

विटामिन 'पी पी'—निकोटिनिक अम्ल (nicotinic acid)—
नीवू के रस का गन्ध पदार्थ (citrin) यही विटामिन
होता है ।

विटामिन 'आर'—मह विटामिन मुर्गी के बच्चों के लिये
प्रतिवार्य होता है ।

विटामिन 'बी'—यह विटामिन भी मुर्गी के बच्चों के वर्धन
से सम्बन्धित होता है ।

विटामिन 'एक्स'—जिस विटामिन को पहिले विटामिन 'पी'
की संज्ञा दी गई थी उसी को अब विटामिन 'एक्स' कहा
जाता है ।

vitellarium—(L. vitellus, yolk) विटेलेरियम; डिम्बान्न
कोशिका प्रजनन; पोषद अंडाशय ।

vitelligenous—(L. vitellus, yolk; gignere, to
beget) डिम्बान्नज; पीतकजन ।

vitellin—(L. vitellus, yolk) विटेलिन; डिम्बान्न या
योक (yolk) प्रोटीन; पीतक ।

vitelline—(L. vitellus, yolk) विटेलीन; डिम्बान्नी;
डिम्बान्न सम्बन्धी; पीतक; पीतकी ।

vitellophags—(L. vitellus, yolk; Gk. phagein,
to eat) पीतकाशन; ऋशटेसिशन और कीट अण्डों की
वियुक्त (isolated) कोशिकाएँ जो अन्तर्जन (hypoblast)
बनाती हैं ।

vitellose—(L. vitellose—(L. vitellus, yolk) पीतक
पच्य ।

vitellus—(L. vitellus, yolk) डिम्बान्न, योक; पीतक ।

vitrella—(L. vitrum, glass) विट्रीला; अकशेरू दंडियों
(invertebrates) में चक्षुओं में पाया जाने वाला स्फाट
या रवेदार (crystalline) शंकु (cone) ।

vitreous humour—(L. vitreus, glassy) विट्रियस-
द्रव; काचाभ द्रव ।

vitta, vittae—(L. vitta, band or fillet)

१—छत्रक फलों में तैल्य पात्र;

२—डायपेटम में अनुर्ध्व्य मेड़ ;

३—वर्ण पट्ट ।

vivification—(L. vivus, living; facere, to make)
जीवत्वता; जीवनता; समीकरण में प्रतिक परिवर्तन
जिनसे प्रोटीड पदार्थ जो शोशिका द्वारा लिया गया है

जैवी प्रोटोप्लाज्म के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है ।

viviparity—(L. vivus, alive; parere, to beget)
शिशुजता; जरायुजता ।

viviparous—(L. vivus, living; parere, to beget)
शिशुज; जरायुज; दच्चा जनने वाले प्राणी; सजीव
प्रजक ।

vocal—(L. vox, voice) ध्वनि या स्वर सम्बन्धी ।

vocal cords—स्वर या ध्वनि रज्जु; घोष तन्त्र ।

vocal sac—ध्वनि कोष; प्रसेव; नाद कोष; स्वर कोष ।

volar—(L. vola, palm of hand) हस्त तल या पाद
तल; हाथ की हथेली या पाँव के तलुवे सम्बन्धी ।

volkman's canal—वोकमैन नलिकाएँ; अस्थि इत्यादि
में रक्त नलिकाओं के मार्ग ।

voluntary—(L. voluntis, will) ऐच्छिक; स्वाधीन ।

voluntary muscles—ऐच्छिक मांस पेशी ।

volute—(L. volvere, to roll) वलयिक ।

volutin grains—वोल्यूटिन कण; वह कण जो मूविल्लयस
निर्माण में शोषित किये जाते हैं ।

volva—(L. volva, wrappers) बीजाणुधर कोशिका;
सर्वाञ्चल; अ्रवगुंठन ।

volvate—(L. volva, wrapper) अ्रवगुंठनी ।

vomer—(L. vomer, plough share) वोमर (अस्थि
विशेष) ।

vomerine—(L. vomer, plough share) वोमेराइन;
फलकास्थि; (अस्थि विशेष) ।

vomerine teeth—फलकास्थि दन्त (दाँत) ।

von, baer's law—(N. E. von baer-russian bio-
logist) वोनबैयर-रूसी जीव विज्ञान वेत्ता का पुनरा-
वलोकन वाद (recapitulation theory) सिद्धान्त ।

voracious—(L. vorare, to devour) प्राचूर ।

vortex—(L. vortex, vertex) विसर चक्र; भ्रमिन ।

vulva—(L. vulva, vulva) नाग; मादा जननेन्द्रि
वाह्य अंग ।

vulviform—(L. vulva, vulva) भनाकार; भगोपन; भग
रूप ।

vulvouterine—(L. vulva, vulva; uterus, womb)
भग-गर्भाशयिक ।

vulvovaginal—(L. vulva, vulva; vagina, sheath)
भग-योनि सम्बन्धी ।

W

W-chromosome—डब्लू-गुणसूच; डब्लू-क्रोमोसोम; X-क्रोमोसोम जबकि मादा विषम युग्मक लिंग (heterozygous) होता है।

w-substance—डब्लू पदार्थ; एक पिट्यूटकी हार्मोन जो वर्ण-कोशिकाओं (chromotophores) में संकुचन प्रोत्साहित करता है।

wadders—(A. S. *wadan*, to move) जलचर; पानी में चलने वाले प्राणी।

waddler—लघुपदचारी;

waist—(A. S. *waext*, growth) कमर, कटि।

wall—(L. *vallum*, rampart) भित्ति; प्रावर।

Wallace's line—(A. R. *wallae*, english naturalist) वालेस रेखा; एक काल्पनिक रेखा जो आस्ट्रेलियन और ऑरियन्टल जन्तु भूगोलिक क्षेत्रों को पृथक् करती है और जो बाली और लम्बोक (Bali and Lom bok), सेलेबीज और बोर्नियो (eelebes and Borneo) के बीच होती हुई फिलीपाइन्स के पूर्व होकर जाती है।

wallerian degeneration—(A. V. *Waller*, english physiologist) वलेरियन अपकर्ष; आघात द्वारा उत्पन्न तंत्रिका सूत्र अपकर्ष।

wandering cells—(A. S. *wandrian*, to turn round) परिभ्रमी कोशिका; भ्रमण कोशिका, परिकोशिका।

wardering resting cells—परि ऊतक-कोशिकाएँ वन्धक ऊतक में वृहत्भक्षक कोशिकाएँ।

Warburg's factor (O. *Warburg*, German physiologist) वारबर्गस कारक; श्वसन एन्जाइम; अन्तर्कोशिकीय आक्सीकरण उत्प्रेरक।

warburg's yellowenzyme—वारबर्ग-पीत एन्जाइम, पीता आक्सीकारक उत्प्रेरक; रिबोफ्लैविन (riboflavin); प्रोटीन और फोस्फेरिक अम्ल का गठन जो कोशिका श्वसन के लिये अनिवार्य होता है।

warm blooded—परिमित तापी; नियत तापी समतापी; ऐसे जन्तु जिनके शरीर का ताप निश्चित तथा समीप के वातावरण से ऊँचा रहता है; [उलटा cold blooded—अभित तापी]।

warning colours—सूचनात्मक रंग; भयसूचक रंग;

अपसूचक रंजन; चेतावनी देने वाल रंग; ऐसे रंग जो विप्ले या अखाद्य प्राणियों के विप्लेपन या बदजायकेपन आदि की सूचना देते हैं।

warped—आवलित।

wart—(A.S. *wearie*, wart; probably allied to *verruca*) ठेंठ; गूमड़ा; गाँठ; फला; मस्सा; किण; कीलक; गण्ड।

wasp—ततैया, भिड़; ताना; तानक।

waste material—दूषित पदार्थ; अवसाद।

waste products—मल-पदार्थ; अपशिष्ट उत्पाद; उत्सर्ग।

water cells—जल-कोशिकाएँ; तरल-कोशिकाएँ; ऊँट के आमाशय की विशिष्ट कोशिकाएँ जो तरल को एकत्रित रखती हैं।

water culture—जल-संवर्धन।

water gland—जल-ग्रन्थि; पर्ण के पर्णमध्योतक (mesophyll) की संरचना जिससे पर्ण मुख (stomata) द्वारा जल विसर्जन का नियंत्रण होता है।

water pore—जल छिद्र १—जल विसर्जन हेतु पर्ण-शिरा का शिखरस्थ छिद्र।

२—एन्टीडोन (Antedon) की मुखदिशी (actinal) बिम्ब भित्ति में सूक्ष्म पक्षमाभिक रन्ध्र (छिद्र)।

water stomata—पर्ण-रन्ध्र; पत्तियों के तलों पर जल विसर्जन हेतु रन्ध्र।

water tube—जल-नलिका; क्लोभ आकृतियों से सम्बन्धित जल नलिकाएँ।

water vascular system—जल-नलिका मण्डल; कंटक देहियों (echinoderm) की वह नलिका मण्डल जिनमें होकर जल समस्त शरीर में घूमता है।

wattle—(M. E. *watel*, bag) वाटल; मांसलपालि; ओजक; मुर्गे (मुर्गे) आदि के कण्ठ के नीचे लटकती हुई मांस की झिल्ली।

wax—(A. S. *weax*, wax) मोम; सिक्क; मधु मक्खियों द्वारा बनाया हुआ पदार्थ।

wax pocket—मोम गोह; मक्खी के पेट पर स्थिति कोटर या गोह।

web—(A. S. *weble*, web) (१) जाला (मकड़ा);

(२) जालपाद; पादजाल; पंजे की झिल्ली (पानी के पक्षियों; मेण्डक आदि में)।

Weberian apparatus—(*E. H. weber*, german physiologist) वेबरियन संयंत्र; वेबर उपकरण; साइप्रोनीफोरमीस (cypriniformes) में वेबर-अस्थिकाओं में वेबर-अस्थिकाओं सहित पाया जाने वाला उपकरण-चार लघु अस्थियों की एक श्रृंखला जो परिकोष्ठ (atreum) के अस्थिरन्द्र से प्लवय-आशय (air-bladder) के दोनों ओर होती है।

weber's law—वेबर-नियम; यह निष्कर्ष कि समान दो उत्तेजनाओं के अन्तर कुछ सीमा तक बराबर से अवगम्य (perceptible) होते हैं।

Weber's line—(*M. weber*, Dutch zoologist) वेबर-रेखा एक काल्पनिक रेखा जो ऐसे टापुओं को जिनमें इन्डोमलायन (indo-malayam) जन्तु समुदाय का आधिक्य होता है पपूयन (Papuan) गुप्त समुदाय आधिक्य वालों से पृथक करती हैं।

wedge bones—पचड़ास्थि; फान-अस्थि; दो कशेरुओं के जोड़ पर स्थित अघोवर्ती अस्थि खण्ड (बहुधा छिपकली आदि में पाये जाते हैं)।

weevil—घुन; (कीड़ा)।

weismannism—(*weismann*, german biologist) वीजमैन मत; वीजमैन नामक जर्मन प्राणी विज्ञान वेता का विकास (evolution) तथा परम्परा (heredity) सम्बन्धी मत, कि उपाजित (acquired) लक्षण (character) सन्तति में नहीं पहुँचते हैं।

whale—व्हेल; तिमि; एक प्रकार का स्तनी (mammal)।

wharton's duct—(*T. wharton*, english anatomist) वारटन-वाहिनी; उपजम्य वाहिनी; अघोजंभवाहिनी।

wharton's jelly—वारटन-श्लैष्म; नाभिरज्जु (umbilical cord) का श्लैष्मिक गर्भ (core)।

whal—(*A.S. hwelian*, to inflame) संदीपन उत्तेजित होने पर पेशी सूत्र का दीर्घ कालीन छोटा तथा मोटा होना।

wheel—(*A. S. hwelian*, to inflame) संदीपन; उत्तेजना द्वारा मांस पेशी का निरंतर सिकुड़ना या फैलना।

wheel animacule—चक्र प्राणी: चक्र जीवाणु।

wheel organ—चक्रांग;

१—रोटीफर की चक्राकार (trochal) विंग; गतिक पक्षभाषिक बलय)।

२—सिफैलोकॉर्ड (cephalochorda) के मुखगुहा की विशिष्ट पक्षभाषिक अघिच्छद संरचना।

whiskers—कुम्फ; गल गुच्छे, गण्ड लोम; गलमुच्छ; रमच्छ।

white ants—दीमक; वल्म।

white body—श्वेत पिण्ड; मीलस्का (mollusca) का चक्षु पिण्ड।

white blood corpuscles—श्वेत (रक्त) कण; रक्त के श्वेत कण।

white commissure—श्वेत सम्बन्धक; सुपुम्ना के मध्य अघर दरार का फर्श बनाने वाला एक श्वेत सूत्रों का अनुप्रस्थ पट्ट।

white corpuscle—श्वेत कण।

white fiber—श्वेत सूत्र।

white matter—श्वेत पदार्थ; मस्तिष्क व सुपुम्ना आदि की रचना में।

white yolk spheres—श्वेत डिम्बान्न प्रदेश।

whorl—(*A. S. hweorfan*, to turn) चक्र; चक्कर।

wight—जन्तु; प्राणिन।

wilting coefficient—मुरझाना-गुणांक; कुम्हलाने या मुरझाने के समय भूमि में आर्द्रता का प्रतिशत।

wind fertilisation—वायु-परागण; वायु-निषेण।

wind pipe—श्वास नली; वायु नली।

wing—(*M. E. winge*, wing) बाजू; डैना; पक्ष; पंख।

१—बहुत से बीजों का पार्श्व फैलाव।

२—कोई झिल्ली सदा फैलाव।

३—स्फीनॉइड (sphenoid) का पार्श्व प्रवर्ध।

४—पेपीलियोनेटी के फूलों में दो पार्श्व दल (petal) में से एक।

५—कीटों का उड़ान अंग।

६—पक्षियों, चिमगादड़ और टीरोडेक्टेशन (ptero-dactyl) में अघ्रायय उड़ान के लिये परिवर्तित।

७—पक्षक; पक्ष (ala)।

wing coverts—प्रच्छन्न पक्ष।

wing pad—कीटपूपा का अविस्तृत पंख।

wing petal—पार्श्वदल पैपिलियोनेटी पुष्प की पार्श्व पंखुडी ।
winter egg—शीत डिम्ब; शिशिरांड बहुत से स्वच्छ जलीय जन्तुओं के घनेतुषयुक्त अण्डे, शीतकाल में शीत से बचने तथा अपने को सुरक्षित रखने हेतु ।

[देखिये—summer egg—ग्रीष्मांड]

wirsung's duct—(J. G. *wirsung*, Banarian surgeon) वीरसंग वाहिनी; प्रमुख अग्न्याशय वाहिनी ।

wisdom tooth—अक्ल डाड़ ।

wolf tooth—वुल्फ दन्त; अश्वों में कभी-2 उपस्थित, एक छोटा अग्रचर्षक दाँत ।

wolfian—(*wolff*-russian embryologist) वुल्फीयन; वुल्फ (*wolff*) भ्रूण वेत्ता द्वारा मालूम की हुई जन्तु शरीर की कुछ बनावटें ।

wolffianduct—वुल्फ नली; वृक्क में पाई जाने वाली एक बनावट ।

wolfian ridges—वुल्फ मेढ़; झ्रूण में मध्य रेखा के दोनों ओर मुँडेरनुमा बनावट जिस पर भुजा के अंकुर बनते हैं ।

wood—(A. S. *wudu*, wood) काष्ठ; वृक्षों के तने का दृढ़ पदार्थ; संवहन चूलों का दासूक (जाइलम) ।

wood vessel—काष्ठ आघार । कोशिका संलय से बनी एक लम्बी नलिकाकार संरचना ।

womb—(A. S. *wamb*, womb) गर्भाशय ।

woolner's tubercle—(T. woolner, British sculptor) वुलनद गुलिका; डारवीनियन गुलिका ।

worker—उद्योगी ।

worm—(L. *vermis*, worm) कृमि ।

wormian bones—(O. *worm*, or *warmins*, Danish anatomist) वोरमियन अस्थियाँ; सेवनी अस्थियाँ ।

wound hormones—जखम (क्षति) हार्मोन; जखमी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न पदार्थ जो जखम को भरने हेतु उत्तेजक का कार्य करता है ।

wrist—(A.S. *wrist*, to twist) कलाई; पोंचा (पहुँचा) मणि ।

wrist bone—मणि बंधकास्थि; मणिक ।

wrist joint—मणि बन्ध ।

X

X-bodies—एक्स पिण्ड; कोशिकाओं में बाहरस द्वारा प्रभावित प्रोटीन सदृश परिग्रह (inclusions) ।
x-chromosome—एक्स-क्रोमोसोम; लिग-गुणसूत्र ।
x-generation—एक्स-संतति; युग्मकोद्भिद् (गैमीटो-फाइट); 2x बीजाणु उद्भिद् (स्पोरोफाइट) संतति ।
x-organ—एक्स-अंग; कुछ क्रशटेशिया (crustacea) में चक्षु वृत्त पर एक छोटा कोश रूपी अंग ।
x-zone—एक्स-क्षेत्र; अन्तःवल्क (inner cortex) का असार (transitory) क्षेत्र ।
xanthein—(Gk. *xanthos*, yellow) जैन्थेन; पुष्पों का पीत वर्ण ।
xanthine—(Gk. *xanthos*, yellow) जैन्दिन; डाइ-ऑक्सी प्युरिन (Dioxy-purine), पेशी, यकृत, क्लोम, मूत्र और कुछ पौधों में जाने वाला रसायन; $C_5H_4ONO_2$ ।
xanthocarpous—(Gk. *xanthos*, yellow; *karpos*, fruit) पीत फल; पीला फल ।
xanthodont—(Gk. *xanthos*, yellow; *odontos*, tooth) पीत-दन्त; पीतदन्ती ।
xantholencophore, xanthopore—(Gk. *xanthos*, yellow; *leakos*, white; *pherein*, to bear) पीत-वर्णधारी कोशिका ।
xanthophane—(Gk. *xanthos*, yellow; *phainein*, to appear) पीतावभास ।
xanthophyle—(Gk. *xanthos*, yellow; *phyllon*, leaf) जैन्वोफिल; पर्ण-पीत; पत्तियों में पाया जाने वाला पीला रंग; क्लोरोफिल का एक घटक; लूटेन (lutein); $C_{40}H_{56}O_2$ ।
xanthopous—(Gk. *xanthos*, yellow; *pous*, foot) पीतस्तम्भी; पीले तने वाला ।
xanthopsin—(Gk. *xanthos*, yellow; *opsis*, sight) जैन्वोप्सिन; पीत दृष्टव्य; कीट पक्षुओं का पीतवर्णी पदार्थ ।
xanthopterine—(Gk. *xanthos*, yellow; *pteron*, wing) जैन्वोप्टेरिन; निट (warp) आदि त्वक् को पीला करने वाला पीत वर्ण; $C_{18}H_{12}O_2N_{16}$ ।

xanthosomes—(Gk. *xanthos*, yellow; *soma*: body) पीत-कण; फोरामिनीफेरा (Foraminifera) के विसर्जित कण ।
xanthospermous—(Gk. *xanthos*, yellow; *sperma*, seed) पीत-बीजी; पीले बीज वाला ।
xenarthral—(Gk. *xenos*, strange; *arthron*, joint) जीनाग्रि; स्तनपायी वर्ण (class mammalia) का एक गण (order) ।
xenia—(Gk. *xenios*, hospitable) जीनिया; अति-प्रदलता; अरर पराग-प्रभाव; नर पितृक के कुछ लक्षणों का बीज, फल, या मादा अंगों में उपस्थित होना ।
xeniobiosis—(Gk. *xenios*, hospitable; *bioun*, to live) पोपी जीवन, आगत जीवन; परवास चीटी निवहों (colonies) में आतिथ्य ।
xenocic—(Gk. *xenos*, strange; *oikos*, house) रिक्त खोल वासी; किसी अन्य अंगी के खाली खोल (कवच) में रहना ।
xenogamy—(Gk. *xenos*, strange; *gamos*, marriage) पर-निषेचन ।
xenogenesis—(Gk. *xenos*, of range; *genesis*, descent) १—उत्पत्ति विपर्यय;
 २—स्वयंमुत्पत्ति; स्वतन्त्रोत्पादन ।
xenogenous—(Gk. *xenos*, strange; *genos*, descent) बहिजात; बाह्य उत्तेजना से प्रादुर्भाव; अंगी के बाहर उद्भव ।
xenology—पोपी विज्ञान ।
xenomorphosis—(Gk. *xenos*, strange; *morphosis*, a shaping) मस्वरूपता; विपमोत्पत्ति । किसी अंग या आकृति का आसाधारण स्वरूप पर होना ।
xenophya—(Gk. *xenos*, strange; *phyein*, to grow) विदेशकीय तुण; परकीय तुण; परितत्त्वनिमित्त तुण; बाह्य निमित्त तुण ।
 [देखिये—antophya—अन्तकीय तुण]
xenoplastic—(Gk. *xenos*, strange; *plastos*, formed) पर-पोपी; निम्न पोषक में किसी बन्धन (strait) का जना देना ।

xerarch—(Gk. *xeros*, dry; *arche*, beginning) शुष्कता रम्भी; खुस्क रंभता से मध्यरंभता की ओर जाने की दशा ।

xeric—(Gk. *xeros*, dry) न आर्द्री, शुष्की; न्यून आर्द्रता के लक्षणों से युक्त; सूखे वातावरण को पसन्द करने वाले ।

xerochasy—(Gk. *xeros*, dry; *chasis*, separation) शुष्क-स्फुटनता ।

xeromorphic—(Gk. *xeros*, dry; *morphe*, form) शुष्क-रूपक; शुष्कतानुकूलित ।

xerophilous—(Gk. *xeros*, dry; *philein*, to love) महरागी; शुष्करागी; सीमित आर्द्र पादप ।

xerophyte—(Gk. *xeros*, dry; *phyton*, plant) शुष्करागी पादप; मरु-पादप; मरुद्भिद ।

xerophyton—(Gk. *xeros*, dry; *phyton*, plant) शुष्क-पादप ।

xerosere—(Gk. *xeros*, dry; L. *serere*, to put in a row) मरु-क्रमक; मरु-क्रमिक-पादप ।

xerotherm—(Gk. *xeros*, dry; *therme*, heat) शुष्क-ताप रागी ।

xiphihumeralis—(Gk. *xiphos*, sword; L. *humerus*, shoulder) जीफॉइड-ह्यूमेरस पेशी; जीफाइड (xiphoid) उपास्थि से ह्यूमेरस तक फैली हुई मांस पेशी ।

xiphiplastron—(Gk. *xiphos*, sword; F. *plastron*, breast plate) जीफीप्लास्ट्रोन; पश्चवर्म; कक्षप गण (किलोनिया-chelonia) के वक्षपटल (प्लास्ट्रोन) की चतुर्थ पार्श्व लैट ।

xiphisternum—Gk. *xiphos*, sword; L. *sternum*, breast-bone) जिफिस्टर्नम; पश्चउरोस्थि ।

xiphoid—(Gk. *xiphos*, sword; *eidos*, shape) खड्गाकार; अस्याम ।

xiphoid process—उरोस्थि प्रवर्ध; वक्षास्थि का अन्तिम टुक; लिमूलस (Limulus) की पूँछ या उदर का अन्तःवयव (telson) ।

xiphophyllous—(Gk. *xiphos*, sword; *phyllon*, leaf) अस्य-पर्ण; असिरूपी पर्ण ।

xiphosura—जिफोसुरा; जाइफोसुरा ।

xylem—(Gk. *xylon*, wood) जाइलम; दारु; संवहन वण्डल का काष्ठीय भाग ।

xylocarp—(Gk. *xylon*, wood; *karpos*, fruit) काष्ठीय-फल ।

xylochrome—(Gk. *xylon*, wood; *chroma*, colour) काष्ठ-वर्णक; मृत होने से पूर्व काष्ठ-कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वर्णक ।

xylogen—(Gk. *xylon*, wood, *genes*, producing) कष्ठज ।

xyloid—(Gk. *xylon*, wood; *eidos*, shape) काष्ठोपम; काष्ठाकार ।

xyloma—(Gk. *xylon*, जाइलोमा; वृक्ष की गाँठ; किन्हीं फंजाई में कवक जाल का कठोर पुंज जो स्पोरधारी आकृतियों को जन्म देती हैं ।

xylophagous—(Gk. *xylon*, wood; *phagein*, to eat) काष्ठाहारी ।

xylostroma—(Gk. *xylon*, wood; *stroma*, bedding) काष्ठाघरण; कुछ काष्ठ-नाशक फंजाई का कंबल सदृश कवक जाल (mycelium) ।

xylotormous—(Gk. *xylon*, wood; *tennein*, to cut) काष्ठकर्तक; काष्ठ छेदक ।

Y

- Y-chromosome**—वाई क्रोमोसोम; वह लिंग क्रोमोसोम जो एक्स (X) क्रोमोसोम का विषम जन्युक (heterogametic) लिंग में जोड़ा वनता है।
- y-granules**—वाई-कण; डिम्बान्न कण; नर जनन कोशिकाओं में डिम्बान्न (yolk) से मिलते हुए पाये जाने वाले कण।
- yarovization**—देखिए—Jarovization; vernalisation आदि।
- yellow body**—पीत पिंड; कार्पस ल्यूटियम।
- yellow cartilage**—पीत उपास्थि।
- yellow cells**—पीत कोशिकायें;
- १—एनेलिडा (Annelida) की अंत्र को घेरे हुए पीत कोशिकायें (chloragogen cells)।
 - २—टर्बिलेरिया (Turbellaria) की अंत्र में पाई जाने वाली कोशिकायें।
 - ३—रेडियोलेरिया (Radiolaria) में सहजीवी शैवाल (symbiotic algae) या हरित जीव जुक्लोरेनी (zoochlorellae)।
 - ४—जूएन्थेली (zooxanthellae)।
 - ५—क्रोमो-अरजेनटाफिन (chromo-argentaffin) कोशिकायें।
- yellow-enzyme**—पीत-एन्जाइम; कोशिका द्रव्य के लिये अनिवार्य रिबोफ्लेविन (riboflavin), प्रोटीन और फोस्फोरिक अम्ल का मिश्रण, जो एन्जाइम का काम करता है।
- (२) पीत अण्विचारक उत्प्रेरक।
 - (३) साइटोफ्लेविन (cytoflavin)।
- yellow fibres**—पीत सूत्र।
- yellow spot**—पीत बिन्दु।
- yolk**—(A. S. *geloca*, the yellow part) योक; डिम्बान्न; (अण्डे की) जर्दी या पीतांश; डिम्बान्न।
- yolk-duct**—योक नली; डिम्बान्न नली; डिम्बान्न नली।
- yolk epithelium**—डिम्बान्न आवरण; डिम्बान्न अन्वेषन झिल्ली।
- yolk gland**—डिम्बान्न (डिम्बान्न) ग्रन्थि।
- yolk nucleus**—डिम्बान्न (डिम्बान्न) केंद्र; योक न्यूक्लियस।
- yolk plates**—डिम्बान्न (डिम्बान्न) प्लेट; योक प्लेट।
- yolk plug**—योक प्लग; डिम्बान्न (डिम्बान्न) स्तम्भ।
- yolk pyramids**—योक (डिम्बान्न या डिम्बान्न) पिरैमिड।
- yolk reservoir**—योक (डिम्बान्न; डिम्बान्न) संवदाशय; डिम्बान्नशय।
- yolk-sac**—योक सैक; डिम्बान्न या डिम्बान्न कोष।
- yolk spherules**—योक (डिम्बान्न या डिम्बान्न) गुलिका।
- yolk stalk**—डिम्बान्न (डिम्बान्न) नाल या शण्ड; योक स्टाक।
- young**—तरुण।
- ypsiliform**—(Gk. *r*, *upsilon*; L. *forma*, shape) (इप्सिलिफोर्म) द्विगुणाकार।
- ypsiloid**—(Gk. *r*, *upsilon*; *eidos*, resemblance) द्विगुणाकार।
- ypsiloid cartilage**—द्विगुणाकार उपास्थि; इप्सिलोइड उपास्थि।


Z

Z-chromosome—जैड क्रोमोसोम; वाई (Y) क्रोमोसोम जबकि मादा विपम जन्तुक (heterozygous) लिंगी होती है।

z-disc—जैड-डिस्क; माध्यमिक त्रिम्ब; कृजे की झिल्ली; अन्त-प्रावर (telophragma); प्ररसचारी (plasmophore)।

zalambdodont—(Gk. *za*, very; *lambda*, λ; *odous*, tooth) लैम्बडोडोन्टी कटक दन्त; ऐसे कीट भक्षी जिनके चर्वक दन्त (molar teeth) संकीर्ण तथा 'V' के आकार की मेड़ से युक्त होते हैं।

zeaxanthin—(Gk. *zea*, corn; *xanthos*, yellow) जीएन्थिन; मक्का (maize) या यौक का पीत वर्णक; लूटेन (lutein), पीत पर्ण (xanthophyll)



zero—शून्य।

zero, physiological—ताप अनुकूलन बिन्दु।

zeugopodium—(Gk. *zeugos*, joined; *pous*, foot) अवयव अग्रश; ज्यूगोपोडियम।

१—प्रकोष्ठ (forearm); कुहनी से नीचे वाला भाग।

२—अग्रजंघा या पिडली (shank)।

zinn, zonule of—(J. G. *zinn*, German anatomist) जोनूला सिलिएरिस; (zonula ciliaris) निलंबन कक्षाभ कला। काचोभकला (hyeloid membrane) जो चक्षु लैन्स की निलंबन रनायु (suspensor ligament) बनाती है।

zoaea—(Gk. *zoe*, life) जुइया।

zoantharia—जुएन्थेरिया; एक उपवर्ण (sub-class) का नाम।

zoantheta—(Gk. *zoon*, animal; *anthos*, flower) जन्तु कुसुम; जन्तु प्रसून; अनुप्रस्थ पक्षमाभिका भेलला युक्त जूएन्थिड अर्भक विशेष।

zoanthina—(Gk. *zoon*, animal; *anthinos*, flower) जूएन्थीना अनुदैर्घ्य पक्षमाभिका भेलला युक्त जूएन्थिड अर्भक विशेष।

zoarium—(Gk. *zoon*, animal) जोएरियम; व्यक्ति समुच्चय।

zodiophilous—जन्तु परागित; ऐसे पुष्प जो कीटों के अतिरिक्त अन्य जन्तुओं से परागित होते हैं।

zoaea, zoaea—(Gk. *zoe*, life) जुइया (अर्भक); कुछ दशपादी (decapod) क्रशटेसियस (crustaceus) का प्राथमिक अर्भक।

zoaeform—(Gk. *zoe*, life; L. *forma*, shape) जुइया रूपी।

zoecium-zoecium, जुइसियम।

zoetic—(Gk. *zoe*, life) जीवन सम्बन्धी।

zoic—जान्तविक; जन्तु सम्बन्धी।

zoid—(Gk. *zoon*, animal; *idion*, dim) चलबीजाणु; हीमोस्पोरीडिया (heamosporidia) में बीजाणु कोरक (sporoblasts) के विभाजन से बना बीजाणुज (sporozoite)।

zoidiogamic—(Gk. *zoon*, animal; *idion*, dim; *gamos*, marriage) पुमणु निषेचित; जल द्वारा लाये हुए पुमणु (spermatozooids) द्वारा पौधों का निषेचन।

zoidiogamy—(Gk. *zoon*, animal; *idion*, dim; *gamos*, marriage) पुमणु निषेचन; चल पुमणु द्वारा निषेचन।

zodiophore—(Gk. *zoon*, animal; *idien*, dim; *pherein*, to bear) बीजाणुधर; हीमोस्पोरीडिया में स्पोर (बीजाणु) मातृ कोशिका या बीजाणु कोरक जो अण्डक (oocyte) के विखण्डन से बनी होती है।

zona—(Gk. *zone*, girdle) मण्डल।

zone arcuata—आरक्वेटा मण्डल; कॉर्टी (corti) के चक्राकार (spiral) अंग को साथे हुए आधार कला (basilar membrane) का अन्दरूनी भाग।

zona fasciculata—फैसिकुलेट मण्डल।

zona glomerulosa—कोशिका गुच्छ मण्डल सम्पुट के नीचे अग्रि वृक्क (suprenal) वल्कल (cortex) के बाह्य स्तर को बनाने वाली गोल-कोशिकाओं का समूह।

zona pectinata—पेन्टिनेट मण्डल; कंकताभ मण्डल।

zona pellucida—विशद मण्डल; स्वच्छद मण्डल; अंडा-वरण पारदर्शी।

zona radiata—रेडियेट मण्डल; अरधारी मण्डल; अरं-कित अंडावरण।

na reticularis—सजाल मण्डल ।

nal—माण्डलिक ।

nal symmetry—अनुवृण्डता, समवृण्डता ।

nal symmetry—(L. zona, girdle) मंडलीय वितरण; कटि-
वीय लक्षण ।

nal view—कटिवंघ दृश्य; डायएटम का वह दृश्य
जिसमें मेखला दिखाई देती है ।

nary placenta—कटिवन्ध कमल ।

nate—(L. zone, girdle) १—मुद्रारेखित (२) एक
विकृत; एक पंक्ति में लगे हुए जैसे कुछ चतुर्बीजाणु
(tetraspores) ।

nation—(L. zona, girdle) कटिवन्ध विन्यास या
वितरण ।

ne—मण्डल; कटिवन्ध क्षेत्र ।

nociliate—(Gk. zone, girdle; L. cilium, eye-
lash) पश्माभिका पट्टी, जैसे कुछ एनेलिडा के
संकेत ।

noid—(Gk. zone, girdle) मण्डल सदृश ।

nolimnetic—(Gk. zone, girdle; limne, pool)
वच्छ जल प्लवक ।

noplacental—(L. zona, girdle; placenta, cake)
कटिवन्ध कमल युक्त ।

onula ciliaris—जोनूला सिलिएरिस; जोनूल ऑफ
ज़िन् (zonule of zinn); काचोपम कला जो चक्षु ताल
का आलम्ब स्नायु (suspensory ligament) बनाती
है ।

onule—(L. zonule, dim. of zona, girdle) लघु
मण्डल; लघु मेखला; लघु पट्टी (belt) ।

oamylon—(Gk. zoon, animal; amydon, starch)
पामंड; जूएमाइलॉन; जन्तुमादी पदार्थ; कोशिका द्रव्य
में सुरक्षित खाद्य जैसे कुछ प्रोटोजोवा में ।

o) पैरा-ग्लाइकोजन (paraglycogen) ।

oanthellac—(Gk. zoon, animal; anthos,
flower) जन्तुपुष्पी; क्रिप्टोमोनड्स (cryptomonads)
जो कुछ सामुद्रिक प्रोटोजोवा के साथ सहजीवी होते हैं ।

oapocrisis—(Gk. zoon, animal; apokrisis,
answer) पर्यावरण प्रति उत्तर; सर्व प्रति उत्तर; समस्त
पर्यावरण या पर्यावरण दशाओं के प्रति जन्तुओं का
प्रति उत्तर ।

zoobiotic—(Gk. zoon, animal; bios, life) जन्तु
परजीवी; जन्तु के ऊपर परजीवी जैसे कुछ फंजाई ।

zooblast—(Gk. zoon, animal; blastos, bud)
जन्तु कोशिका ।

zoocaulon—(Gk. zoon, animal; kaulos, stalk)
जन्तु-द्रुमक ।

zoochorellac—(Gk. zoon, animal; chloros,
green) हरितजीव; जुश्रोक्लोरेली ।

zoochonic—(Gk. zoon, animal; chorein, to
spread) प्राणि—प्रकीर्ण; जन्तु परिक्षेपित ।

zoocoenocyte—(Gk. zoon, animal; koinos,
common; kytos, hollow) संयुज चलबीजाणु; पश्मा-
भिकी संकोशिका ।

zoocyst—(Gk. zoon, animal; keystis, sac)
बीजाणुपुटी; प्राणिपुटी ।

zoocytium—(Gk. zoon, animal; kytos, hollow)
जुसाइशियम; प्राणिकित्स आकृति; कुछ इन्फ्यूज़ोरिया
(infusoria) में सामान्य श्लैष्मिक बहुधा क्षारीय
आधारक (मैट्रिक्स) ।

zoodendrium—(Gk. zoon, animal; dendrom,
tree) प्राणि-द्रुमक; कुछ निवह इन्फ्यूज़ोरियन्स (infuso-
rians) का वृक्षोपम (द्रुमक) क्षारीय स्तम्भ (stalk) ।

zodynamics—(Gk. zoon, animal; dynamics,
power) प्राणि-कार्यकी; प्राणि गतिकी ।

zoocial—(Gk. zoon, animal; oikos, house)
प्राणि कोष्ठकसम; प्राणि मुकुल सदा ।

zoocium—(Gk. zoon, animal; oikos, house)
प्राणि—कोष्ठक; जीवकधानी; पॉलीज़ोएन (polyzoan)
पोप मुकुल का घेरे हुए कोश या कोष्ठ ।

zoocerythrin—(Gk. zoon, animal; erythros, red)
प्राणि लोहित, जूएरीथ्रिन; कई पक्षियों के पंखों में पाया
जाने वाला लाल वर्णक ।

zoofulvin—(Gk. zoon, animal; L. fulvus, yellow)
जूकनविन; प्राणि पीतवर्ण; जन्तुओं में पाया जाने वाला
पीला वर्ण ।

zoogamete—(Gk. zoon, animal; gametes,
sponse) जन युग्मक ।

zoogamy—(Gk. zoon, animal; gamos, marriage)
संयुजी उत्पत्ति; निषेक्षोत्पत्ति ।

zoogina

- zoogina—(Gk. *zoon*, animal) जन्तु सम्बन्धी ।
- zoogenesis—(Gk. *zoon*, animal; *gignesthai*, to produce) जन्तुत्पादन; जन्तुसृष्टि ।
- zoogeography—(Gk. *zoon*, animal; *ge*, earth; *grapheion*, to write) जन्तु भूगोल; जन्तु प्रसार विज्ञान; जन्तु भौगोलिक ।
- zoogeographical regions—(जन्तु) प्रसार प्रदेश भूप्राणि; विस्तार क्षेत्र ।
- zoogloca—(Gk. *zoon*, animal; *gloia*, glue) श्लैष्माकृत जीवाणु; प्राणि श्लैष; श्लैष्मिक आधारक में डूबा हुआ बैक्टीरिया पुंज जिसके कारण बहुधा रंग दीप्ति पटल निर्मित होता है ।
- zoogonidium—(Gk. *zoon*, animal; *gonos*, offspring) चलबीजाणु ।
- zoogonous—(Gk. *zoon*, animal; *gonos*, offspring)—*viviparous* जरायुज ।
- zooid—(Gk. *zoon*, animal; *eidos*, like) जूड्ड; जीवक; जन्तु मुकुल; जन्तु कलिका (कलिका या मुकुल = bud) ।
- zoolith—(Gk. *zoon*, animal; *lithos*, stone) प्राणि अश्म; जीवाश्म; जान्तवाश्म ।
- zoology—(Gk. *zoon*, animal; *logos*, discourse) जन्तु-विज्ञान; जन्तुशास्त्र; प्राणी विज्ञान; प्राणि विज्ञान ।
- zoologist—जन्तु वैज्ञानिक; प्राणि विज्ञानी ।
- zoome—(Gk. *zoon*, animal); जूम; प्राणि पारिस्थितिक इकाई ।
- zoon—जन्तु ।
- zoonerythrin—जुनेरिथ्रिन; जानवरों में पाया जाने वाला एक प्रकार का लाल रंग ।
- zoonite—(Gk. *zoon*, animal) देहखण्ड; सन्धिक जन्तु के शरीर का एक देहखण्ड ।
- zoonomy—(Gk. *zoon*, animal; *nomos*, law) जीवन सम्बन्धी नियम ।
- zoophilous—(Gk. *zoon*, animal; *philein*, to love) जीवरागी; जन्तुरागी । ऐसे पौधे जो जन्तुओं द्वारा परागित होते हैं ।
- zoophyte—(Gk. *zoon*, animal; *phyton*, plant) प्राणि-द्रुम; प्राणि-पादप, पौधों जैसी आकृति वाला जन्तु ।

- zooplankton—(Gk. *zoon*, animal; *planktos*, wandering) प्राणि-प्लवक ।
- zooplasm—(Gk. *zoon*, animal; *plasma*, mould) प्राणि-प्ररस; जैव पदार्थ जो पोषक तत्वों हेतु अन्य जैवी उत्पादों पर निर्भर होते हैं ।
- zoosperm—(Gk. *zoon*, animal; *sperma*, seed) १—अलैंगिक चल बीजाणु; २—वीर्याणु ।
- zoosporangium—(Gk. animal; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) जूस्पोरधानी; बीजाणुधानी (sporangium) जिसमें अलैंगिक चल बीजाणु (zoospore) वधित होते हैं ।
- zoospore—(Gk. *zoon*, animal; *sporos*, seed) सघ कोष्ठ; अलैंगिक चल बीजाणु; जूस्पोर ।
- zootaxy—(Gk. *zoon*, animal; *taxis*, arrangement) जन्तु वर्गीकरण ।
- zootechics—(Gk. *zoon*, animal; *techne*, craft) जन्तु कला विज्ञान; वह वैज्ञानिक कला जो जन्तु संवर्धन, उत्पादन आदि ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रयोग में आती है ।
- zoothome—(Gk. *zoon*, animal *thomos*, heap) प्राणि शोध; जैवी मूंगे (living coral) में कोई एक व्यक्ति समूह ।
- zotomy—(Gk. *zoon*, animal; *temnein*, to cut) प्राणि विच्छेदन ।
- zootoxin—(Gk. *zoon*, animal; *toxikon*, poison) प्राणि-विष ।
- zootrophic—(Gk. *zoon*, animal; *trephein*, to nourish) जन्तु समभोजी; विषमपोषी ।
- zooxanthellae—(Gk. *zoon*, animal; *xanthos*, yellow) जूएन्थेली; विभिन्न जन्तुओं में रहने वाली पील, भूरे या सहजीवी एक कोशिकीय शैवाल ।
- zooxanthin—(Gk. *zoon*, animal *xanthos*, yellow) जूएन्थिन; पीत वर्ण जो विभिन्न पक्षियों के पंखों में पाया जाता है ।
- zuckerkandl's bodies—(E. *zuckerkaud*, Australian anatomist) जुकरकांड पिंड; भ्रूणिक उदरीय महाधमनी (abdominal aorta) के दोनों ओर पाया जाने वाला क्रोमैफिन (chromaffin) अंतक या परागुच्छिकायें (paraganglia) ।

zygantrum—(Gk. *zygon*, yoke; *antrum*, cane) योजिकोटर, जाइगैन्ट्रूम; योजिखत; कुछ छिपकली (lizards) और सर्प के कशेरूकों (vertebral) की तंत्रिकीय चाप या सुपुम्ना तौरण (neural arch) के पश्च तल पर एक खात (fossa) ।

[देखिये zygosphene—जाइगोस्फीन—योजिप्रवर्ध]

zygapophysis—(Gk. *zygon*, yoke; *apophysis*, process of a bone) सन्धिक प्रवर्धन; जाइगोपोफासिस; योजिप्रवर्ध ।

zygobranchiate—(Gk. *zygon*, yoke; *branchia*, gills) जाइगोब्रैकियेट; युग्मिक विसर्जन अंग तथा सममिति बलोमी; गैस्ट्रोपोडा का एक गण (order) ।

zygocardiac ossicles—युग्म जठरास्थिक; क्रगटेशिया (केफड़ावंशी) की जठर चक्की के युग्मिक पार्श्व अस्थिक (ossicles) ।

zygodactyl—(Gk. *oygos*, yoke; *daktylos*, digit) युग्मांगुलीय; दो उँगली आगे की और दो पीछे की फँसाये रहने वाले (पक्षी जैसे तोते) ।

zygodont—जाइगोडोन्ट; उत्तंग युग्मी (दाँत) ।

zygogenetic—(Gk. *zygon*, yoke; *genesis*, origin) निषेकोत्पन्न; निषेकजलीय ।

[देखिये—parthenogenetic—अनिषेक जननीय; अनिषेकोत्पन्न]

zygoid—(Gk. *zygon*, yoke; *eidos*, form) द्विगुणित (diploid) ।

zygoma—(Gk. *zygoma*, yoke) जाइगोमा (कपोल अस्थि तौरण) ।

zygomatice—जाइगोमैटिक ।

zygomatice arch—जाइगोमैटिक वलय ।

zygomatice process—जाइगोमैटिक प्रवर्धन ।

zygomaticeofacial—(Gk. *zygoma*, yoke; *L. facies*, face) जाइगोमैटीकोफैसियल (प्रस्थि छिद्र) जाइगोमैटिक प्रवर्ध के कपोल तल (molar surface) पर का एक अस्थि छिद्र (foramen) तंत्रिका और वाहिनियों के लिए ।

zygomaticeotemporal—(Gk. *zygoma*, yoke; *L. tempora*, temples) जाइगोमैटीकोटैम्पोरल; जाइगोमैटिक प्रवर्ध के कनपटी तल (temporal surface) पर स्थित सेवनी, अस्थि छिद्र तंत्रिका आदि ।

zygomelous—(Gk. *zygon*, yoke; *melos*, limb) युग्मानुबंधी; युग्म अवयवी (पिन) ।

[देखिये—azygomelous—अयुग्म अवयवी]

zygonema—(Gk. *zygon*, yoke; *nema*, thread) जाइगोनीमा; युग्म नूत; ह्रास विभाजन (meiosis) में सूत्र युग्मता (amphitene) या शुक्ल नूत युग्मता (zygotene) स्थिति ।

zygomorphic, zygomorphous—(Gk. *zygon* yoke; *morphe*, shape) एक समांशी; एक तक्षीय; द्विपार्श्व समांशता ।

[देखिये—monosmmetrical]

zygophase—(Gk. *zygon*, yoke; *phasis*, aspect) द्विगुणित स्थिति ।

[देखिये—diplophase, gamophase—]

zygophore—(Gk. *zygon*, yoke; *pherein*, to bear) कुछ फंजाई में संयुग्मनी कवक तन्तु (conjugating hypha) ।

zygophyte—(Gk. *zygon*, yoke; *phyton*, plant) युग्म-पादप; ऐसा पौधा जिसमें दो समान उत्पादक कोशिकाएँ निषेक में संयुक्त होती हैं ।

zygopleural—(Gk. *zygos*, yoke; *pleucron* side) द्विपादवीय सममितिक ।

zygoneury—(Gk. *zygon*, yoke; *neurion*, nerve) तंत्रिका-युग्मता ।

zygopodium—(Gk. *zygon*, yoke; *pous*, foot) जाइगोपोडियम; प्रकोष्ठ या अग्र जंघा ।

zygosis—(Gk. *zygosis*, a joining) संयुजता संयुग्मन ।

zygosperm—(Gk. *zygon*, yoke; *sperma*, seed) जाइगोस्पर्म; संयुग्मनी बीजाणु ।

zygysphene—(Gk. *zygon*, yoke; *sphen*, wedge) जाइगोस्फीन; सन्धिक प्रवर्ध ।

zygosporangium—(Gk. *zygon*, yoke; *sporos*, seed; *anggeion*, vessel) तल बीजानुसानी ।

zygospore—(Gk. *zygon*, yoke; *sporos*, seed) जाइगोस्पोर; युग्मस्पोर; युग्म बीजाणु ।

zygotaxis—(Gk. *zygon*, yoke; *taxis*, arrangement) पारस्परिक आनर्पण; त्रिही फंजाई में दो विनिष्ठ कवक तन्तु के संयुग्मन की रचना ।

zygote—(Gk. *zygotes*, yoked) युग्म कोशिका युक्त कोशिका जाइगोट ।

zygotene—(Gk. *zygon*, yoke; *tainia*, band) युग्म युग्मता; ह्रास-विभाजन (meiosis) की युग्मस्थिति (pro-

zygotic

- phase) जिसमें शूलवी सूत्र (spireme threads) जोड़ों (pair) में जुड़े होते हैं ।
- zygotic—(Gk *zygotos*, yoked) १—जाइगोट सम्बन्धी; २—निषेक के पश्चात् तुरन्त उत्परिवर्तन ।
- zygotoblast—(Gk. *zygotos*, yolked; *blastos*, bud) जाइगोटोब्लास्ट; भ्रूणकोशिकज; हीमग्रमीवी में जाइगोट खण्ड के विखण्डन से उत्पन्न बीजाणुज (sporo-zoite) ।
- zygotomere—(Gk. *zygotos*, yolked; *meros*, part) जाइगोट खण्ड—जाइगोट की एक कोशिका ।
- zygotonucleus—(Gk. *zygotos*, yolked; L. *nucleus*, kernel) जाइगोटो न्यूक्लियस; संयुज केन्द्रक; दो युग्मक केन्द्रकों (gametonuclei) के संयुजता से बना केन्द्रक (nucleus) ।
- zygotropism—(Gk. *zygon*, yolked; trope, turn) संयुजवृत्ति; एक दूसरे की ओर संयुज कवक तन्तुओं की वृद्धि ।
- zygozoospore—(Gk. *zyoon*, yolked; *zoon*, animal; *sporos*, seed) संसंयुत्री चल कोशिका ।

- zymase—(Gk. *zyme*, leaven) जाइमेस; यीस्ट कोशिकाओं (yeast celis) में पाया जाने वाला एक क्षोभक रस (enzyme) जो शर्करा (sugar) को शराव या सुरासार (alcohol) में परिणित करता है ।
- zymin—(Gk. *zyme*, leaven) जाइमिन, एन्जाइम या फर्मेंट ।
- zymocont—(Gk. *zyme*, leaven; *kontos*, pole) शकाकार कण पिण्ड; पेंक्रियेटिक कोशिका का शलाकाकार कण पिण्ड (chondeiosome) ।
- zymo-excitor—एन्जाइम प्रोत्साहक ।
- zymogen—(Gk. *zyme*, leaven; *genes*, proveing) जाइमोजन; प्रोएन्जाइम; एन्जाइम से पूर्व का पदार्थ ।
- zymogenic—(Gk. *zyme*, leaven; *genes*, producing) एन्जाइम उत्पादक ।
- zymosis—(Gk. *zymosis*, fermentation) एन्जाइम प्रभाव; एन्जाइम प्रक्रियाएँ ।
- zyinotic—(Gk. *zymotikos*, causing fermentation) उत्तापज; संक्रामक द्वारा उत्पन्न रोग ।

परिशिष्ट

प्राणिशास्त्र के अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ केवल प्रत्यय (पूर्वलग्न या प्रथम उपपद) तथा उत्तरस्थ (अनुलग्न या द्वितीय उपपद) की व्याख्या से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द एक्टिनॉप्टेरिजिप्स (Actinopterygii) जो एक प्रकार की मछली होती है—में पूर्वलग्न या प्रथम उपपद "actino" है और दूसरा अनुलग्न या द्वितीय उपपद "pterygii" है—"actino" का अर्थ "ray" अर्थात् "किरण" तथा "pterygii" का अर्थ "fin" मछली का 'पर'—'फिन' या "क्षेपणी" होता है। इन दोनों को मिलाकर "किरण क्षेपणी युक्त" ही जाता है। इस प्रकार प्रायः अनेक शब्दों का अर्थ सरलता से जाना जा सकता है। ऐसे समस्त पूर्वलग्न तथा उत्तरलग्न या अनुलग्न पदों की सूची इस खण्ड में दी गई है। इनके जान लेने से अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ-बोध प्राणि-शास्त्र जिज्ञासु को हो सकता है और इनकी सहायता से पूर्वखण्ड में अंकित अधिकांश शब्दों को समझा जा सकता है।

a—(Gr. not) negates succeeding part of word : अ-, नहीं।

उदाहरणार्थ—*acauline*—अस्तम्भी (तना); बिना तने या स्तम्भ वाला।

acoel, without coelom असीलोमी।

acrania, without head—अकपाली।

ab—(L. away, off) opposite of ad—अप, परे, दूरी पर, दूर। यह उपसर्ग शब्दों के पहिले लग कर उसमें निषेध, अपकर्ष का भाव उत्पन्न करता है।

उदाहरणार्थ—*abaxial*, away from axis—अपाक्ष, किसी संरचना का वह तल जो अक्ष से परे हो।

aboral, away from mouth—अप मुख; मुख पर।

abductor, muscle that draws away from given position—अपवर्तनी।

acro—(Gr. akros, outermost)—शीर्ष, उच्चतर, शिखरस्थ, (मांसपेशी); चोटी वाला; अग्र-।

उदाहरणार्थ—*acromegaly*—अग्र कायता।

acrosome—अग्र पिंडक; वेधक शीर्ष।

acrocarpic—अक्षांत फली जैसे शैव (mosses)।

actino—(Gr. aktis ray)—किरण।

उदाहरणार्थ—*actinocarpous*—अरफली।

actinopodial, ray footed—किरण पादी।

actinotroch, ray wheel—किरण चक्री।

ad—(L. toward to) opposite of ab : उप-; समीप; अभि।

उदाहरणार्थ—*adrenal* at (near) the kidney—उपवृक्क; वृक्क के समीप।

adductor, muscle that draws toward given position—समीप कर्षी; अभिवर्तनी।

adoral—अभिमुखीय।

afferent—(L. adferre, to carry) : to lead or carry toward given position, opposite of efferent; अभिवाही; प्रन्तर्गामी।

उदाहरणार्थ—*afferent nerve*—अभिवाही तन्त्रिका।

afferent blood vessel—प्रन्तर्गामी रक्त नलिका।

amphi—(Gr. on both sides) “दोनों ओर”; “चारों ओर” ।

उदाहरणार्थ—*amphioxus*, pointed at both sides—एम्फीओक्सिस—दोनों ओर से नुकीला जन्तु विशेष ।

amphicarpous—उभय फली, दो प्रकार के फल उत्पन्न करने वाला ।

amphispoire—उभय बीजाणु, उत्पादीय तथा विश्राम स्पोर दोनों तरह से कार्य करने वाला ।

an—(Gr. not) like a-, used before vowel or “h” एक, ऐन ।

उदाहरणार्थ—*anamniote*—एनैमिनोटा ।

anhydride—एनहाइड्राइड ।

ana—(Gr. up, throughout; again back) सारे के बीच में ।

उदाहरणार्थ—*analogy* likeness, resemblance—एक रूपता; एकसापन ।

analysis, thorough separation—विश्लेषण; परीक्षण ।

anatomy, cutting up—बीड़फाड़ की विद्या ।

andro—(Gr. aner, man, male) नर; पुंस ।

उदाहरणार्थ—*androgen*, male producing hormone—पुंसोद्दीपक; ऐन्ड्रोजन ।

androecium—पुंगकेसरों की पिण्डी ।

anterior, antero—(L. ante, before, in front of) : at near or toward front end; अग्र; अग्रस्थ; अग्र भागस्थ ।

उदाहरणार्थ—*anterior border*—अग्रवर्ती किनारा; अग्रतट ।

an:tro-suprior—अग्रोर्ध्व ।

antho—(Gr. anthos, flower) प्रसून ।

उदाहरणार्थ—*anthozoa*, flower like coelentrates animals—ऐन्थोजोआ; प्रसून काय (जन्तु) ।

anthophilous—प्रसून-प्रेमी ।

anthropo—(Gr. anthropos, man, human) मानव-; मनुष्य या नर का अर्थ देने वाला उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*anthropoid*, man like ape—ऐन्थ्रोपोइड; मानव-रूपि (वानर आदि मनुष्याकार पशु) ।

anthropeic, by human means—मानवीय प्रभाव ।

apical—(L. apex, tip) : belonging to an apex, being at or near the tip—शिखर सम्बन्धी; शिखाग्र; मूर्धन्य; शिखरस्थ ।

उदाहरणार्थ—*apical plate*—शिखाग्र पट्ट ।

apo—(Gr. away, off, from) comp. to L. ab-; far lying opening) अप- ।

उदाहरणार्थ—*apophyle*—अपद्वार ।

apotype—अपरूप ।

arch, archeo—(Gr. archos, chief) first, main, earliest—पुरातन; आद्य; पुरा- ।

उदाहरणार्थ—*archentron*, first embryonic gut—अर्चांत्र; पुरांत्र ।

archeocyte, chief cell—आद्य कोशिका ।

archeospore, beginning seed—आद्य स्पोर ।

archannelida, primitive annelid—आर्कीएनिलिडा; आद्य ऐनिलिड प्राणी ।

arthro—(Gr. arthron, joint) सन्धि ।

उदाहरणार्थ—*arthropoda*, joint-legged—सन्धि पादी ।

arthrospore, joint-seed—सन्धिक बीजाणु ।

arthritis, joint inflammation—सन्धि, शोथ (रोग) ।

- asc-asco—(Gr. askos, sac) कोष ।
उदाहरणार्थ—*aschelminthes*, sac worm—ऐस्केलमिन्थीज; शोषिक-कृमि ।
ascocarp, bag fruit—स्पोर-स्रोत कवच ।
ascospore, bag seed, स्योति स्पोर ।
- aster-, aster—(Gr. aster, star) तारा; तारक ।
उदाहरणार्थ—*asteroid*, star shaped animals (star fish) ऐस्टेरोइड; तारोपम या एस्टर सद्य जन्तु ।
- auto—(Gr. same, self) स्व; स्वतः ।
उदाहरणार्थ—*autogamy*, self fertilisation, स्वपरिणय; स्वयंसेचन ।
autointoxication, self posion, स्वविषता ।
autotrophic, self nourishment, स्वपोषी ।
- axo—(Gr. axine, axis) pertaining to an axis; अक्ष-; अक्ष ।
उदाहरणार्थ—*axoneme*, अक्ष सूत्र ।
axial filament, अक्षीय तन्तु ।
axostyle, अक्षदण्ड ।
- bi—(L. bis, twice, double, two) द्वि; दोबार; दोहरा; दो गुना (दुगुना) ।
उदाहरणार्थ—*bilateral*, द्विपार्श्वीय ।
bicuspid, having two points, द्विकल्पी ।
binate, two by two, द्विपत्रक-पत्र ।
- bio—(Gr. bios, life, pertaining to life) जीवन मूलतः यूनानी [(ग्रीक शब्द)] ।
उदाहरणार्थ—*biology*, जीव शास्त्र ।
biomass, जीव पिण्ड ।
biophyte, जीव पादप ।
biosphere, जीव क्षेत्र ।
- blast, blast-, blasto—(Gr. blastos, embryo) : pertaining to embryo, कोरक; भ्रूण-; भ्रूणिक ।
उदाहरणार्थ—*blastocoel*, embryonic cavity, कोरक गुहा ।
blastokinesis, beed movement, भ्रूण गति ।
mesoblast, middle layer of embryo, मध्यभ्रूण; कोरक (भ्रूण) का मध्य स्तर ।
- brachio—(L. brachium, arm) भुजा-; बाहु- ।
उदाहरणार्थ—*brachiopod*, arm footed animal, भुजापादी ।
brachiolaria, arm possessing larva, कृष्ण भुजा ।
- branch, branchio—(Gr. branchia, gills) गिल; गिली ।
उदाहरणार्थ—*lamellibranch*, having plate like gills, पटलिकाय गिली ।
branchiopod, animals with gills on feet. पाद-गिली जन्तु ।
branchial, sac or breathing sac, गिली- ।
- cardio—(Gr. kardia, heart) हृदयी; हृदय-; हृदय सम्बन्धी ।
उदाहरणार्थ—*pericardial*, around the heart, हृदयावरणी ।
- caudal—(L. cardo, tail) at near or toward the tail, पुच्छीय; पुच्छ-; पूछ या पुच्छ सम्बन्धी ।
- cephale—(Gr. kephale, head) मस्तिष्कीय-; शिर- ।

उदाहरणार्थ—*cephalothorax*, शिरोवक्ष ।

cephalopod, head footed animal, शिरस्पाद ।

cerci, cercal, cercó—(Gr. *kerkos*, tail) pertaining to tail—पूँछ-; पूँछ सम्बन्धी; पूँछ वाला ।

उदाहरणार्थ—*cercaria*, tailed fluke larva, सरकेरिया; पुच्छाभंक; पूँछ वाला पट्ट. कृमियों का अर्भक ।

cercopithecoid, tailed monkey, पूँछ वाला बन्दर ।

anal cerci, गुदालूम ।

cervical—(L. *cervix*, neck) at, near, or toward the neck region, ग्रैव-; ग्रैवयी; ग्रीवा सम्बन्धी ।

chaeto—(Gr. *chaite*, bristle hair) शूक; रोमिका ।

उदाहरणार्थ—*chaetognath*, bristle jawed animal) शूक; रोमिका हनु (जन्तु) ।

chilo—(Gr. *chilos*, lip) ओष्ठ ।

उदाहरणार्थ—*chilopod*, 'lip' footed—काइलोपोडा; ओष्ठ पादी ।

chloro—(Gr. *chloros*, green) हरित ।

उदाहरणार्थ—*chlorocruorin*, green blood pigment, हरित र्वासक; क्लोरोक्रयूओरिन—किन्हीं कृमियों में रक्त रस में पाया जाने वाला र्वास सम्बन्धी पदार्थ ।

chloroplast, grass green moulded, पर्ण हरित कण ।

choana—(Gr. *choane*, funnel) कीप ।

उदाहरणार्थ—*choanocyte*, funnel bearing cell, कीप कोशिका ।

chondro—(Gr. *chondros*, cartilage) उपास्थि- ।

उदाहरणार्थ—*chondroblast*, cartilage forming cell, उपास्थि जन ।

chondrostei, cartilage possessing fish group, उपास्थि मत्स्य समूह ।

chord, chorda—(L. *chorda*, cord, string) दण्ड-; रज्जु- ।

उदाहरणार्थ—*notochord*, cord along back, पृष्ठदण्ड; रज्जुदण्ड ।

chordate, notochord possessing animal, पृष्ठदण्डी ।

chrome, chromo, chroma—(Gr. *chroma*, color) रंज्य ।

उदाहरणार्थ—*cytochrome*, cell pigment, कोशिका रंज्य ।

chromatophore, pigment carrier cell, रंज्यधारी ।

chromatophyll, leaf colour, पर्ण वर्ण; पर्ण रंजक पदार्थ ।

clad, clado—(Gr. *klados*, branch, sprout) शाखा-; शाखीय ।

उदाहरणार्थ—*triclade*, three branched, त्रिशाखी ।

cladode, sprout, पर्णाभ पर्व ।

cladose, sprout, शाखीय ।

-coel, coele-, coelo—(Gr. *koilos*, hollow cavity) सील; गुहा ।

उदाहरणार्थ—*pseudocoel*, false coelomic cavity, क्षम्यगुहा ।

coelenterate, possessing gut cavity, सीलन्टेट; गुहा जन्तु; गह्वर जन्तु ।

coeloroic, hollow animal, देहगुहा वासी ।

cranio—(Gr. *kranion* skull) कपाल ।

उदाहरणार्थ—*craniate*, skull possessing, कपाली ।

cten-, cteno—(Gr. *kteis*, comb) कंकत- ।

उदाहरणार्थ—*ctenoid*, comb like scale or gill structure, कंकतान; कंधीनुमा ।

ctenophyte, host plant killer, पोषकनाशी कंकती कवक ।

-cyst—(Gr. *kystis*, bladder, posuch, sac) पुटी; सिस्ट; कोपिका; स्योति ।

उदाहरणार्थ—*cystic*, स्योतीय; स्योति- ।

sporocyst, spore containing cyst, बीजाणु पुटी ।

cysticolous, स्योति वासी ।

cysticercus, पुटी-पुच्छक ।

cystospore, बीजाणु स्योति ।

-cyte, cyto—(Gr. *kytos*, vessel. container) pertaining to cell, कोशिका ।

उदाहरणार्थ—*cytoplasm*, cell substance, कोशिका द्रव्य ।

fibrocyte, fibre forming cell, रेशा निर्माणक कोशिका ।

cytosome, hollow body, कोशिका पिण्ड ।

-dactyl, dactylo—(Gr. *daktylos*, finger, toe) अंगुलि-; अंगुलिक ।

उदाहरणार्थ—*dactylar*, finger, अंगुलीय ।

dactylozoid, finger like. individual, डेक्टीलोजोवाइड; अंगुलीयम (प्राही मुकुल) ।

de—(L. *away*, from off) like Gr. *apo-*, नि; हीन ।

उदाहरणार्थ—*defoliate*, पर्णमोक्ष, निष्पर्ण ।

dehydration, removal of water, निर्जलीकरण ।

dipigmentation, रंग ह्रास ।

-dent, denti—(L. *dens*, tooth) like Gr. *dont*, दन्त; दन्ति ।

उदाहरणार्थ—*denticle*, little tooth, दन्तिका ।

dentition, दन्त विन्यास ।

dermis, -derm—(Gr. *derma*, skin) : चर्म; त्वचा ।

उदाहरणार्थ—*ectoderm*, outer skin tissue. बाह्य चर्म ।

epidermis, over skin (that is exterior layer) बाह्य त्वचा; षडिचर्म ।

di—(Gr. *twice*, double, two); like L. *bi-*, द्वि; दोहरा; दुगुना ।

उदाहरणार्थ—*disect*, to cut into two. द्विकर्तन; दो में काटना ।

dia—(Gr. *through*, across, thorough) मध्य; बीच में से ।

उदाहरणार्थ—*diaphragm*, across the midriff. मध्यपट या मध्य प्राचीर ।

dino—(Gr. *dinos*, whirling) चक्र; भ्रमण ।

उदाहरणार्थ—*dinoflagellate*, चक्र कशाभिक ।

dinosaur, whirling lizard. चक्रक गृहगोषा-पिका ।

sarcodina, whirling flesh. भ्रमणमांसल ।

diplo—(Gr. *diploos*, twofold) युग्म-; युग्ममक ।

उदाहरणार्थ—*diploid*, with two chromosome sets. युग्मक युग्म सूत्रक ।

diplopoda, animals with double set of legs. युग्म पायी ।

diplotene, double band. द्विसूत्री स्थिति ।

dis—(L. *apart*, away); अलग; पृथक; दूर इत्यादि सूत्रक उपसर्ग ।

- उदाहरणार्थ—*dissect*, cut apart (distinct from *di-* of. above) विच्छेदन (करना) ।
 distal—situated away from or far from point of reference (usually the main part of body) opposite to proximal. दूरस्थ-; proximal समीपस्थ का उलटा ।
 dont—(Gr. *odonts*, tooth) दन्त-; दंती ।
 उदाहरणार्थ—*thecodont*, having encased (socketed) teeth, गतदन्ती ।
 dorsal—(L. *dorsum*, back) at, near, or toward the back- पृष्ठ-; पृष्ठीय ।
 उदाहरणार्थ—*dorsiferous* पृष्ठवाही ।
opposite to ventral. अघर का उलटा ।
 dys—(Gr. *hard*, bad) बुरा ।
 उदाहरणार्थ—*dysfunction*, malfunction. कार्य हीनता; इंद्रियों का ठीक काम न करना ।
dysentary, bad intestine. आमामित्सार; पेचिश; आंतों का ठीक काम न करना ।
 echino—(Gr. *echinos*, spiny bristly): इकाइनो-; शाली ।
 उदाहरणार्थ—*echinoderm*, spiny skinned. शल्य चर्मी ।
echiuroid, having spines at hind end. शलयोपम ।
 eco—(Gr. *oikos*, house, home) वास स्थान सम्बन्धी; पारिस्थिति-; ।
 उदाहरणार्थ—*ecology*, study of organism habitat. पारिस्थितिकी ।
 ecto—(Gr. *ekots*, outside): बहिः; बाह्य- ।
 उदाहरणार्थ—*ectoderm* out side skin. बाह्य त्वचा ।
ectoproct, out side anus (that is, exterior to tentacle ring) गुदा बाह्या, एकटोप्रोक्ट ।
ectosarc,—बहिः; द्रव्य ।
 ectomy—(Gr. *ek*, ous of *tomein*, to cut): excision. कर्तन ।
 उदाहरणार्थ—*thyroidectomy*, partial or complete excision of the thyroid gland चुल्लिका कर्तन ।
 efferent—(L. *ex*. out, away *ferre*, to carry) to lead or carry away from given position-opposite of afferent, अपवाही; बहिगामी ।
 उदाहरणार्थ—*efferent nerve*, अपवाही तंत्रिका ।
efferent blood vessel, अपवाही रक्त वाहिनी ।
 endo—(Gr. *endon* within) अन्त; ।
 उदाहरणार्थ—*endoderm*; inner skin (tissue) layer. अन्त; स्तर या अंतश्चर्म ।
endothermic, requiring heat (that is, within reacting system) अन्त; ऊष्मी; ऊष्मा शोषी ।
 entero-, -enteron—(Gr. *enteron*, intestine): अंत्र-; आंत्र; आंत ।
 उदाहरणार्थ—*enterocoel*, coelom formed from intestine. आंत्र गुहा ।
archentron, first intestine. आर्षंत्र ।
 ento—(Gr. var. of *endo*; within) अंतः ।
 उदाहरणार्थ—*entoproct*, inside-anus (that is, within tentacle ring) अंतः गुदा ।
endoderm or, endoderm. अंतश्चर्म ।
 entomo—(Gr. *entomon*, insect) कीट- ।
 उदाहरणार्थ—*entomology*, study of insects. कीट विज्ञान ।

epi—(Gr. to, on, over, against): अधि-; बाह्य ।

उदाहरणार्थ—*edistome*, over the mouth) अधि मुख ।

epiblast, upon bud. अधिकोरक ।

epicardial, over the heart) हृद- बाह्य; हृदयोपरि ।

erythro—(Gr. *erythros* red): रक्त- ।

उदाहरणार्थ—*erythrocyte*, red (blood) cell. रक्ताण ।

erythophilous, रक्त कण प्रेमी ।

eu—(Gr. *good*, well proper): सु-; यथार्थ ।

उदाहरणार्थ—*eumetazoa*, metazoan proper. यथार्थ बहुकोशिकीय ।

eugenics, सुजनन-; मानवोत्कर्ष शास्त्र ।

eutheria, यथार्थ स्तनी ।

ex-, exo-, extro—(L. *out*, from, exterior): बाह्य-; बाह्य; वहि- ।

उदाहरणार्थ—*excurrent*-, to run out, वहिगामी, वहिवाही ।

exopterygote, exterior winged. वहि: पंखा पंखा ।

exothermic, releasing heat (that is, out of reacting system) बाह्य ऊष्मी; ऊष्मा उन्मोची ।

-fer, -fera—(L. *ferre*, to carry) like Gr. *phora*, युक्त; -की ।

उदाहरणार्थ—*foraminifera*, hole carrier. फोरामिनीफेरा; छिद्रीकी (जन्तु) ।

rotifer, wheel carrier. त्रमकी (जन्तु) ।

porifera, spore carrying animals (sponges). छिद्र देही (जन्तु); पोरीफेरा ।

form, formes—(L. *formis*, having the form of)—सदृश; समान ।

उदाहरणार्थ—*formicated*, vaulted मेहराब सदृश ।

perciform, perch like. यष्ट सदृश ।

frontal—(L. *front*, *forns*, forehead) in a horizontal place separating dorsal half from ventral half. अग्रललाट-; ललाट सम्बन्धी; पटलन्व (कर्तन या काट) ।

उदाहरणार्थ—*frontal bone*. ललाटास्थि ।

gamo-, -gamy—(Gr. *gamien*, to marry); pertaining to gametes or fertilization. संयुक्त-; यौग-; युग्मन ।

उदाहरणार्थ—*autogamy* स्वक युग्मन ।

gamophase संयुक्त स्थिति ।

ganostele संयुक्त रंग ।

gastro—(Gr. *gaster*, stomach) जठर; आनामय ।

उदाहरणार्थ—*gastrozoid*, feeding individual. जठर मुद्गल ।

gastrocoel, stomach cavity. आमाशय गुहा ।

-gen, -genic, geno—(Gr *genes*, born, created): जन; जनक; जनी ।

उदाहरणार्थ—*hydrogen*, water producing. उद्जन (जल, उद्; धारि) ।

myogenic, produced by muscles. पेशी जनक ।

genotypic, according to genetic constitution (gene content) आनुवंशिक ।

-gest, gest—(L. *gestare*, to carry) वहन-; निमग्न ।

उदाहरणार्थ—*ingest*, to carry in food. अंतर्ग्रहण; खाद्य निमग्न ।

gestation, period of foetus carrying within pregnant female. गर्भावधि; गर्भकाल ।

glosso-, glossus—(Gr. *glossa*, tongue) जिह्वा ।

उदाहरणार्थ—*glossopharyngeal*, pertaining to tongue and pharynx. जिह्वा-ग्रसनी ।

उदाहरणार्थ—*saccoglossus*, sac tongue possessing worm (hemichordate) सैकोग्लोलस; कोष जिह्वी जन्तु ।

gluco-, glyco—(Gr. *gleukos*, sweet) pertaining to sugars. ग्लेका-; ग्लाइको; शर्करा-; शर्करा सम्बन्धी ।

उदाहरणार्थ—*glucogenic*, sugar pronucing. शर्करा उत्पादक ।

glycolysis, break down of sugar. शर्करा ह्रासक ।

gnatho-, gnath—(Gr. *gnathos*, jaw) हनु-; चर्व- ।

उदाहरणार्थ—*ganathobase*, jaw like base. चर्व वर्ध ।

agnath, jawless. हनुहीन ।

gono—(Gr. *gonos*, generation) pertaining to reproduction; जनन-; गोनी- ।

उदाहरणार्थ—*gonozoid*, reproductive individual. जनन मुकुल; उत्पादक मुकुल ।

gonopore, reproductive opening. जनन छिद्र ।

gyn-, gyno—(Gr. *gyne*, women, female) नारी- ।

opposite of andro, नर ।

उदाहरणार्थ—*gynogenic*, female producing. नारी जनक; नारी उत्पादक ।

gynoeccium, female reproductive organ, जायांग ।

haem—see *hem*. रक्त- ।

haplo—(Gr. *haploos*, single) एकाकी; अयुग्म ।

उदाहरणार्थ—*haploid*, with one set of chromosome. अगुणित; एकाकी सूत्री ।

haplont simple being, अयुग्म सूत्री जीव ।

helminth—(Gr. *helminthos*, worm): -कृमि ।

उदाहरणार्थ—*platyhelminth*, flatworm पट्ट कृमि ।

aschelminth sacworm. कोषिका कृमि ।

hem-, hemo- hemato—(Gr. *haima*, blood) vas. of *haem*. हीम-; हीमो-; हीमेटो-; रक्त अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*haemoglobin*, red blood pigment-हीमोग्लोबिन; रक्त रंजक ।

hemi—(Gr. half) like *semi*-; अर्ध-; अंश-; ।

उदाहरणार्थ—*hemichordate*, अंश दण्डक ।

hemipiephyie, अर्धाधिपादप ।

hetero—(Gr. *heteros*, other, different) विपरीत या भिन्न; इतर; विषम अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*opposite of homo*, समान ।

heterology, असमरूपता ।

heterotrophic, feeding on other living things. विषमपोषित परपोषित ।

hex-, hexa—(Gr. six) छ; षट के अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*hexacanth* षटशूली ।

hexapod; six legged, षटपादी ।

holo...(Gr. *holos*, whole; entire): सम्पूर्ण; पूर्ण पूर्णतया अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*holostyly*, whole pillar. पूर्ण स्तम्भी ।

holotrophic, feeding on whole animals पूर्ण पोषित ।

holoblastic, cleavage into whole blastomeres in embryo. पूर्णभ्रंजी ।

homeo-homoio—(Gr. similar) सम; सदृश्य अथवा सामान्य अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*homeostatic*, remaining similar in state. समपरिस्थिती ।

homoiothermic, possessing constant temperature, समतापी ।

homo—(Gr. *homos*, same) समान ।

उदाहरणार्थ—*homogony*, same offspring. समान वंशरी ।

homopterous, same wing i. e. having the wings alike. समान पंखी ।

hydro—(Gr. *hydor*, water) जल या उद अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*hydrolysis*, dissolution by water. जल अपघटन ।

hydrotropism, जलभिवृत्ति ।

hyper—(Gr. above, over) अधिक; अति; अत्य अर्थों का उपसर्ग ।

opposite of hypo. न्यून ।

उदाहरणार्थ—*hyperplasia*—अति बाहुल्य ।

hypersensitivity, अति वेदनता ।

hypertrophy, overgrowth. अति वृद्धि ।

hypo—(Gr. under, less) अधर; अधीन; अपूर्ण; न्यून; अधोगत; दोष युक्त; अपर्याप्त; अधोगत; अतम अर्थ का उपसर्ग ।

opposite of hyper. अधिक; अति; अत्य ।

उदाहरणार्थ—*hypodermis*, "under" sk.n. चर्माधीनत; अधस्त्वचा ।

hypocotyl, बीजपत्राधार ।

hypocotyledonary, अधस्बीजपत्री ।

ichthyos—(Gr. *ichthyos*, fish) मत्स्य-; मत्स्य ।

उदाहरणार्थ—*osteichthyes*, bony fishes. अस्थि मत्स्य ।

ichthyosaur, fish like reptile. मत्स्यसम सृपी; इरिपयोसोरा ।

inter—(L. between, among) बीच में; एक साथ; अंतर; अन्त ।

उदाहरणार्थ—*intercellular*, between, cells. कोशिकांतर; अन्त; कोशिका ।

internode, फायान्तर ।

interpertolar, पर्ण वृत्तान्तर ।

intra—(L. within) भीतरी ओर; अन्दर अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*intracellular* within cells. अन्तकोशिकीय ।

intrafoliaceous, अन्तः पर्णी ।

intrapetalous, अन्तः दलान्तर ।

iso—(Gr. *isos*, equal) तुल्य; समान; सम (like homo) ।

उदाहरणार्थ—*isolecithal*, having evenly distributed yolk. समयोकी ।

isocarpous, सम संख्यक दली ।

itsogamy, समजन्युता, सम युग्मकता ।

lecithal—(Gr. *lekithos*, egg yolk) योक ।

उदाहरणार्थ—*lecithin*, any of the several complex nitrogenous substances found especially in the brain and nerve tissue and the egg yolk—लेसीथिन ।

lecithocoel डिम्बान्न कोटर ।

leuco—(Gr. *leukos*, white) श्वेत; निरंग ।

उदाहरणार्थ—*leucocyte*, white (blood) cell. श्वेताणु ।

leucocarpous, श्वेत फली ।

leucoplastids, श्वेत-कणिका ।

lip- lipo—(Gr. *lipos*, fat) : वसा-; वसा ह्लासक ।

उदाहरणार्थ—*lipoclastic*, fat splitting. वसा ह्लासक ।

lipase, fat splitting enzyme. लाइपेस; वसा विदलन ।

lipotropic, वसा उपापचय प्रभावी ।

logy—(Gr. *logos*, discourse, study) शास्त्र-; विज्ञान ।

उदाहरणार्थ—*zoology*, animal studies. जन्तु विज्ञान ।

ecology, परिस्थितिकी ।

lumbar—(L. *lumbus*, loin) : at near or toward loin region. कटि-; कमर ।

उदाहरणार्थ—*lumbosacral*, कटित्रिकी ।

lysis- lyti- lyte—(Gr. *lysis*, a loosening) अपघटन ।

pertaining to dissolving विघटन ।

उदाहरणार्थ—*electrolytic*, dissolution by electricity. विद्युत विघटन ।

autolysis, self-dissolution. स्व अपघटन ।

hydrolysis, जल विघटन ।

macro—(Gr. *makros*, long) : बृहत्; बड़ा; दीर्घ; लम्बा; इत्यादि सूचक उपसर्ग ।

opposite of micro. लघु; छोटा ।

उदाहरणार्थ—*macromere*, large embryo cell. बृहत् खण्ड ।

macrocarpous, large fruit, दीर्घफली ।

macrospore, दीर्घ स्पोर; गुरु बीजाणु ।

mastigo—(Gr. *mastix*, whip) : कषा ।

उदाहरणार्थ—*mastigophora*, flagellate bearing (protozoa) मेस्टीगोफोरा; कषातन्त्री (प्रोटोजोआ) ।

mastigoneme, whip hair. कषारोम ।

mero-mere-mer—(Gr. *meros*, part) : अंश; खण्ड ।

उदाहरणार्थ—*blastomere*, embryo cell. कोरक खण्ड ।

polymer, chemical of many similar parts, बहुखण्डज ।

meroblastic, cleavage into partial blastomeres. अनुखण्डी ।

merocyte, अंश कोशिका ।

merozoite, partly matured individual. अंशाणु ।

meso—(Gr. *mesos*, middle) : शब्द के आगे (पहले) लगाने पर 'मध्य' का अर्थ देने वाला ।

उदाहरणार्थ—*mesocotyle*, मध्य चपक ।

mesoderm, middle skin. मध्य स्तर ।

mesophloem, मध्य चल्कल ।

mesophyle, मध्य पर्ण ।

mesosome, middle body region. मध्य पिण्ड ।

meta—(Gr. *after*, behind) बीच में; साथ अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*metacoel*, hind cavity. मेटासील; पश्च गुहा ।

metakinesis, कोशिका विभाजन मध्यावस्था ।

metazoa, later advanced animals. मेटाजीवा ।

mono—(Gr. *monos*, single) एक-; अकेले के अर्थों में उपयुक्त होने वाला उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*monocarp*, एकफलक ।

monocotyledonous, एक बीजपत्री ।

monomial, a name of one-term only. एक शब्दक ।

monophagous, subsisting on one kind of food. एक खाद्यक ।

morph, morpho—(Gr. *morphe*, form) आकार; आकृति ।

उदाहरणार्थ—*morphology*, study of form (structure) आकारिकी; आकृति विज्ञान ।

metamorphosis, process of acquiring later adult structure. कायांतरण ।

morphosis, निर्माण विधि ।

myo—(Gr. *mys*, muscle) पेशी- ।

उदाहरणार्थ—*myocyte*, muscle cell. पेशी- कोशिका ।

myocoel, muscle associated coelom. पेशी; गुहा ।

myoneme, muscle like hair. पेशी सूत्र; पेशी संकुचक ।

neme, nemato—(Gr. *nema*, thread) सूत्र ।

उदाहरणार्थ—*axoneme*, अक्ष सूत्र ।

nematocyst, सूत्र कोशिका; दंशक कोशिका ।

nematode, सूत्र देही ।

nephro—(Gr. *nephros*, kidney) : वृक्क; गुर्दा; अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*nephric tubule*, वृक्कीय नलिका ।

nephrostome, वृक्क-छिद्र ।

neuro—(Gr. *neuron*, nerve) : तंत्रिका ।

उदाहरणार्थ—*neuropore*, तंत्रिक रंध्र ।

noto—(Gr. *noton*, the back) : पृष्ठ ।

उदाहरणार्थ - *notopodium*, पृष्ठ पादी ।

notochord, पृष्ठ रज्जु ।

octo—(Gr. *okto*, eight) : अष्ट; आठ ।

उदाहरणार्थ—*octopus*, आठपादी ।

oid, oida, oldea—(Gr. *oidos*, form) having the form of; L. form. मूर्त- ।

उदाहरणार्थ—*echinod*, एकीकोट अर्थात् एकाक्षरक मूर्त ।

oligo—(Gr. *oligos*, few small) : कम; थोड़ा; अल्प ।

उदाहरणार्थ—*oligochaete*, (having few bristle) अल्प शूकी ।

omni—(L. *omnis*, all) : सर्व शब्द के साथ मिलकर सर्वार्थक-शब्द ।

उदाहरणार्थ—*omnivore*, सर्वभक्षी ।

oo—(Gr. *oion*, egg) :

उदाहरणार्थ—*oocyte*, (egg cell) डिम्ब कोशिका ।

oozoid, अण्डज ।

opistho—(Gr. *opisthen*, opithen, rear, bind) पश्च- ।

उदाहरणार्थ—*opisthobranchia*, rear gilled animals (snails) पश्चगिली ।

oral—(L. *or*, *os*, mouth) at near or toward the mouth. मौखिकी; मौखिक; मुख; मुंह सम्बन्धी ।

osteo—(Gr. *osteon*, bone) अस्थि ।

उदाहरणार्थ—*osteoblast*, bone forming cell, अस्थिज ।

periosteum, tissue layer covering bone अस्थि परिवेष्टन ।

ostraco—(Gr. *ostrakon*, shell) pertaining to a skeletal (calcareous) cover or shield. कवच-; खोल; कोश ।

उदाहरणार्थ—*ostracoderm*, ओस्ट्रेकोडर्म; कवच चर्मीय ।

ote-, otic—(Gr. *ous*, ear) कर्ण-; कर्ण सम्बन्धी ।

उदाहरणार्थ—*otic*, vesside. कर्ण- ।

otolith, earstone. कर्ण-कण ।

ovi, ovo—(L. *ovum*, egg) अण्ड- ।

उदाहरणार्थ—*oviduct*, egg carrying duct, अंडवाहिनी ।

ovotestis, egg and sperm producing organ, अण्डवृषण ।

paleo—(Gr. *palaios*, old) जीवाणु ।

उदाहरणार्थ—*paleontology*, study of ancient (fossil) life. जीवाणु विज्ञान ।

palaebotany, पादपाश्म विज्ञान ।

para—(Gr. *para*, beside) पैरा-; पर-; पार्श्व ।

उदाहरणार्थ—*paracorolla*, परादल ।

paracyst, परापुटी ।

parapodium, side foot. पार्श्वपाद; पैरापोडियम ।

parazoa, animals on side branch of evolution (sponges). पैराजोआ ।

pectin—(L. *pecten*, comb) कंकत- ।

उदाहरणार्थ—*pectine*, comblike organ. कंकती ।

pectoral—(L. *pectorale*, breast plate); at, near or toward chest or shoulder region. अंसीय; अंस ।

ped, pedia, pedi—(L. *pes*, foot) (like Gr. *pod*) पादी; पाद ।

उदाहरणार्थ—*bipedal*, two footed. द्विपाद ।

pedipalp, leg-like appendage, पश्च स्पर्शक या पादोपम अवयव ।

pelvic—(L. *pelvis*, leasin) : at, near, or toward the hip region. श्रोणि; श्रोणीय ।

pent, penta—(Gr. *pente*, five) : पंच; पाँच ।

उदाहरणार्थ—*pentose*, five carbonsugar. पाँच कार्बनीय शर्करा ।

pentamerous, पंच भागी ।

pentaradial, five armed पंच भुजी ।

peri—(Gr. around) : परि ।

उदाहरणार्थ—*perigyny*, परिजायांगी विन्यास ।

perinium, परिलघु बीजाणु एपी-स्पोर ।

peristomial, around the mouth. परिमुत्ती ।

perisare, around the flesh, परिसार्क; परिद्रव्य ।

peristalsis, wave like compression around tubular organ (for example gut) प्रसा-
कुंचन; परिकुंचन ।

phago-phage—(Gr. eating) भक्ष ।

उदाहरणार्थ—*phagocyte*, cell eater, भक्षकाणु ।

bacteriophage, bacteria eater (virus) जीवाणुभोजी (भक्षी) ।

phono-, phone—(Gr. phone, sound) ध्वनि-; स्वर- ।

उदाहरणार्थ—*phonoreceptor*, sound sensitive sense organ—ध्वनि ग्राही (ज्ञापक) ।

phoro-, phore—(Gr. phoros, bearing carrying) (like L. fer) : धारी- ।

उदाहरणार्थ—*trochophore*, wheel bearing larva, चक्रधारी (सर्भक) ।

phoront, producing on, स्योति धवत्सा ।

photo- photic—(Gr. phoros, light) प्रकाश ।

उदाहरणार्थ—*photosynthesis*, प्रकाश-संश्लेषण ।

phonasty, प्रकाशानुकुंचन ।

phragm—(Gr. barrier) : पट ।

उदाहरणार्थ—*diaphragm*, partition muscle wall, मध्यपट ।

endophragm, internal skeletal plates. आन्तरिक पट ।

phyllo-, -phyll—(Gr. phyllon, leaf) : पर्णक-; पत्र ।

उदाहरणार्थ—*phyllopodium*, leaf shaped foot—पर्णम पादी; पत्र-पादी ।

chlorophyll, green pigment in leaf—पर्णहरित; क्लोरोफिल ।

phyto-, phyte—(Gr. phyton, plant) तरु; पादप-; -पादप ।

उदाहरणार्थ—*phytogenesis*, पादप संवर्धन ।

phytoplankton, plankton consisting of plant life. पद्म, प्लवक ।

metaphyta, (advanced) later plants. बहु कोमितीय पादप (हर) ।

pithecus—(Gr. pithekos, ape) मानव-वपि; मानवोपम वपि ।

उदाहरणार्थ—*australopithecus*, आस्ट्रेलिया मानव वपि ।

pithecanthropus, विपिकैन्थ्रोपस; मानवोपम वपि ।

placo—(Gr. plax, table, plate) : पत्रक ।

उदाहरणार्थ—*placoderm*, plate skined. पत्रक चर्म ।

placochromatic, पट्टरणी ।

plasm. plasm-, plast—(Gr. plasmē, form. mold) शर ।

उदाहरणार्थ—*protoplasm*, जीवद्रव्य; प्रोटोप्लाज्म ।

plasmosome, प्ररसकण, कोशिक द्रव्य कण ।

plasmotomy, कोशिका द्रव्य विभाजन ।

pleur, pleuro—(Gr. *pleurōn*, side rib) पार्श्व-; पार्श्वक ।

उदाहरणार्थ—*pleurocarpio*, पार्श्व शाखा फलिन ।

pleuron, पार्श्वक (बाह्य पंजर प्लेट) ।

plaura, पार्श्वक फुफ्फुसावरण ।

ploid—(Gr *plos*, fold) : number of chromosome sets per cell- गुणित; सूत्र-गुण ।

उदाहरणार्थ—*haploid*, अगुणित ।

diploid, द्विगुणित ।

polyploid, बहुगुणित ।

poly—(Gr *polys*, many) : बहु ।

उदाहरणार्थ—*polyadelphous*, बहुसंधी ।

polymorphic, many shaped- बहु आकृतिक ।

polychaeta, many bristled animal. बहु शूका ।

poro—(Gr. *poros*, pore) : छिद्र ।

उदाहरणार्थ—*porocyte*, छिद्र कोशिका ।

porophyllous, छिद्रपर्णी ।

porous, full of pores, छिद्र-; छिद्री ।

post-, postero-, posterior—(L. *behind*, after) : opposite of *pre*, *antero*-: at near or toward hind end or part. पश्च; पिछला; पीछे का अर्थ सूचक उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*post parital*, पश्च पैराइटल ।

pre—(L. *before*, in front of) : opposite of post-, पूर्व, पुर; उत्तर अर्थों में उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*preoral*, पूर्व मुखी ।

pro—(Gr. *before*, in front of) Like L. *pre*-; प्रो; पुरा; आगे; पूर्व अर्थ का उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*prohydrotropism*, जघन जलाभिवृत्ति ।

promycellium, कवक जाल पूर्वाग्र, प्रोमाइसीलियम ।

prostomial, पुरा मुखी ।

proct. procto—(Gr. *proctus*, anus); गुदा; गुदीय ।

उदाहरणार्थ—*ectoproct*, having anus, outside the ring of tentacles- स्पर्शक, बाह्य- गुदीय ।

proctodeal, an. I, गुदीय ।

proto—(Gr. *protos*, first) : आद्य-; मूल; प्रथम; आदि अर्थ में उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*protoblast*- आद्य कोरक ।

protozoa, first animal प्रोटोजोआ; आद्य जन्तु ।

protostome, first mouth प्राथमिक मुख ।

protocoel, first coelom मूल सीलोम; पूर्व सीलोम ।

proximal—(L. *proximus*, near) situated near to point of reference (usually the main part of body) समीपस्थ; निकटवर्ती केन्द्र (मध्य) की ओर स्थित ।

opposite of distal; दूरस्थ का उलटा ।

pseudo—(Gr. *pseudes*, false) छद्म-; कृत्रिम ।

उदाहरणार्थ—*pseudobulb*-, छद्म शल्क कंद ।

pseudocoel, false coelom. छद्म कोटर ।

pseudopodium, false foot. छद्मपाद; पादाम ।

ptero-, ptera, ptery—(Gr. *pteron*, wing fin) टेरो-; पक्ष-; पक्षक ।

उदाहरणार्थ—*pterospermous*, पक्षबीजी ।

aptera, wingless animals. अपिच्छ; अवक्ष ।

exopterygote, exterior winged. वहिपक्षक ।

pyge, pyg—(Gr. *pyge*, rump) मलद्वार; अन्त्य-; किसी जन्तु या कोशिका का अन्त का भाग ।

उदाहरणार्थ—*cytopyge*, cellular elimination pore in protozoa. कोशिका मलद्वार ।

pygidium, posterior abdominal region. (in arthropods) पुच्छ पट्टिका, अन्त्य पट्टिका ।

uropygial gland, oil secreting gland near tail in birds. पुच्छ कुब्जीय ग्रन्थि ।

rami, ramous—(L. *ramus*; branch, शाखा); शाखीय शाखी ।

उदाहरणार्थ—*biramous*, two branched. द्विशाखी ।

ramified, branched. शाखीय ।

renal—(L. *renes*, kidneys) : pertaining to the kidney वृक्क; वृक्कीय ।

retro—(L. *backward*, behind) : पीछे की ओर; पीछे ।

उदाहरणार्थ—*retrocerebral*, सेरीब्रम के पीछे ।

retroverse-, पश्चनती; परानत ।

rhabdo—(Gr. *rhabdos*, rod) : शलाका- ।

उदाहरणार्थ *rhabdite*, rod-shaped organelle-शलाका जीवाणु ।

rhabdocoel, flatworm possessing straight (rod like) intestine शलाका-अंत्र; मलसोपम अंत्र ।

rhabdome—यष्टिका ।

rhizo—(Gr. *rhizo*, root); राइजी-; मूल जड़ ।

उदाहरणार्थ—*rhizomorphous*, जड़ समान; जड़ सदृश ।

rhizopod, having root like feet. राइजीपोड; मूलोपम पाद ।

rhizoplast, राइजीप्लास्ट; मूलोपम द्रव्य ।

rhynch, rhyncho—(Gr. *rhynchos*, snout); नाक के आगे का उभरा हुआ भाग; सूंघन; सूंघ ।

उदाहरणार्थ—*kinorhynch*, having movable snout. चल या चलित मुँठी ।

rhynchocoel, सूंड-गुहा ।

sagittal—(L. *sagitta*, arrow) at near or toward plane bisecting left and right halves, in median plane. सममितार्थी अक्षपदच काट; मध्य समांतर तल ।

sacro, sate—(Gr. *sarkos*, flesh) प्रद्रव्य; सौम्य ।

उदाहरणार्थ—*coenosarc*, common flesh (living portions) कोशिका प्रभाग ।

sarcopterygii flesh finned (fished) सौम्य खैरली मत्स्य ।

saur-, saur—(Gr. *saurus*, lizard) शीपक ।

saurian, pertaining to lizards and reptiles including extinct. शीपकी ।

pterosaur—(flying reptile) प्रभुषी (उड़ने वाले सरीसृप) ।

schizo—(Gr. *schizein*, to split, part) चीक, भँजकन ।

उदाहरणार्थ - *schizocarpic*, दीर्घ-फल; भिदुरफल ।

schizocoel, coelom formed by splitting of tissue layer दीर्घ गुहा ।

schizogamy, reproduction by splitting. लिंग भंजनता ।

sclero - (Gr. *skeleros*, hard); कठोर-; हड्डी के समान कठोर तत्व ।

उदाहरणार्थ - *scleroprotein*, hard; (horny) protein- दृढ़ प्रोटीन ।

sclerotesta, hard shell—दृढ़ चोलांतर ।

sclera, hard layer शुक्ला; कठोर स्तर शुक्ल; स्वेत मटका ।

scypho—(Gr. *skypnos*, cup) प्याला-; पुटिका ।

उदाहरणार्थ - *scyphozoa*, cup shaped animals (jelly fish) सीड्रफीजोआ (मेडुसा काय) ।

scyphistoma, cupped mouth possessing larva, पुटिकाओं मुखी ।

scyphus, cup—नारसीस का प्याला (चपका) ।

seti, seta—(L. *seta*, bristle) like Gr. *chaeto*-; शूक-; शोमिका ।

उदाहरणार्थ—*staceous*—रोमिका युक्त ।

setiferous, bristle bearing-शूकधारी; शूक मय ।

-sona, -some, somato—(Gr. *some*, body) पिण्ड; काय; देह ।

उदाहरणार्थ—*chromosome*, pigmented body. गुण सूत्र; वर्ण पिण्ड ।

somatocoel, body coelom- कार्यगुहा ।

somatic mesoderm, outer mesoderm-कायिक मध्यजन स्तर ।

somatophyte, body phyton-काय पादप ।

spermo-, sperma-, spermato—(Gr. *sperma*, seed); शुक्राणु, शुक्र, वीर्य ।

उदाहरणार्थ—*spermatogenous*, seed offspring-वीर्याणु सम्पुटक ।

spermatophore, sperm bearing capsule वीर्य पिटिका ।

spermatozoa, seed animal वीर्याणु, शुक्राणु ।

splanchno—(Gr. *splanchon*, entrails) अंतरंग ।

उदाहरणार्थ—*splanchnic mesoderm*, inner mesoderm. अंतरंग मध्यजन स्तर ।

splanchnology, entrail discorurse. देहांग विज्ञान, अंतरांग विज्ञान ।

sporo—(Gr. *spora*, seed) बीजाणु ।

उदाहरणार्थ—*sporophyll*, बीजाणु पर्ण ।

sporozoa spore forming (protozoa) स्पोरोजोआ; बीजाणु उत्पादक जन्तु ।

sporogony, reproduction by spores. बीजाणु जनन ।

stato—(Gr. *statos*, standing statinory positioned) स्थिर, संतुलन ।

उदाहरणार्थ—*statolith*, position (indicating) stone. संतुलन कण ।

statoblast, stationary embryo, स्थिरज ।

stereo - (Gr. *stereos*, solid) घन या ठोस अर्थ का-उपसर्ग ।

उदाहरणार्थ—*stereoblastula*, solid blastula. स्थिर ब्लास्टुला ।

stereoplasm, घनिक तत्व, घन-तत्व ।

stereotropism, solid turn. आसंगवृत्ति ।

-stome, -stoma, -stomato—(Gr. *stoma*, mouth); मुख; मुखी ।

उदाहरणार्थ—*stomatiferous*, स्टोमाधारी, पत्र मुखीधारी ।

peristome, around the mouth परिमुख ।

syn-, sym—(Gr. syn, together with) सह; युग्मन ।

उदाहरणार्थ—*syngamy*, coming together of gametes, युग्मक संकलन ।

synapse, looping together of neurons. न्यून युग्मन ।

synarthrosis, with joint सहसंधि, युत्संधि ।

synthesis, construction, putting together- संश्लेषण ।

symbiosis, living together- सह जीवन ।

sympodium, संघात अक्ष ।

tango—(L. *tangere*, to touch) स्पर्श ।

उदाहरणार्थ—*tangoreceptor*, touch (receptive) sense organ. स्पर्श ग्रही ।

taxo-, taxi-, taxis—(Gr. *taxis*, arrangement) विन्यास, न्यास, -अनुचलन ।

उदाहरणार्थ—*taxonomy*; arrangement laws. वर्गीकरण ।

chemotaxis, "arrangement" movement produced by chemicals. रसायन प्रवृत्तन ।

tel-, tele-, teleo—(Gr. *telos*, end) : अन्त्य, अंत्या ।

उदाहरणार्थ—*teleianthous*, complete flower. उभय जननांगी ।

telophase, end phase. अंत्यावस्था ।

teleost, (fish with) bony end (adult) state. टिलियोस्ट; अस्त्रि मत्स्य ।

teleology, knowledge of end condition. मीमांसा; हेतु विद्या ।

tetra—(Gr. four) : चतु; चतुष् ।

उदाहरणार्थ—*tetracorpallery*, चतुर्पांडपी, चतुर्ग्रंथपी ।

tetrapod, four footed. चतुर्पादी; चतुष्पादी ।

theco, theca—(Gr. *theke*, case, capsule) गर्त-; पुटी; ग्राहिका ।

उदाहरणार्थ—*thecaphore*, case bearing. प्रावरकधर ।

thecodont, having socketed teeth. गर्तदंती ।

spermatheca, sperm receptacle. शुक्र ग्राहिका ।

thoracic—(L. *thorax*, chest); at near or toward chest region, or region between head and abdomen. वक्ष; वक्षीय ।

tone-, tomy—(Gr. *tome*, section, a cutting apart); गण्ड विच्छेदन ।

उदाहरणार्थ—*autotomy*, self dismemberment (of appendage) स्वविच्छेदन ।

myotome, muscle producing part- आदिपेशी, गण्ड ।

transverse—(L. *transversare*, to cross); at near or toward plane separating anterior and posterior; cross section. धनुप्रत्य ।

tr—(L. *tris*, three); त्रि ।

उदाहरणार्थ—*trichad*, three branched (digestive tract) त्रिशाखी ।

-trich, tricho—(Gr. *trichos*, wheel) लोम; रोम; दण्डिका ।

उदाहरणार्थ—*heterotrach*, (ciliate) possessing different types of hairs (cilia) विभिन्न रोम; त्रिभेद रोम ।

trichocyst, hair containing sec. दण्डिका रोम; रोमीय रोम ।

troch- trocho—(Gr. *trochos*, wheel) चक्र-; घटी; घण्टी ।

उदाहरणार्थ—*prototroch*, first (that is anterior wheel of cilia) मूल घुंटी चक्र ।

trochophore, (larva) bearing wheel of cilia रोमीकोश (लारवा), लारवा ।

- trophe, tropho**—(Gr. *trophos*, feeder) पोषक; खाद्य-; पोषित; खाद्य सम्बन्धी ।
 उदाहरणार्थ—*autotrophic*, self nourishing. trophozoite, feeding (that is mature) animal. स्वपोषित;
 स्वपोषणी ।
trophoblast feeding embryonic part. पोषण कोशिका ।
trophodisc पोषण विम्ब, खाद्य विम्ब ।
- uro-, ura**—(Gr. *oura*, tail) पुच्छ-; -पुच्छ ।
 उदाहरणार्थ—*uropod*, tail foot. पुच्छ पाद (जन्तु) ।
urochordate, tailed chordate. पुच्छ दण्डक (जन्तु) ।
anura, (tailless animals. amphibia) पुच्छहीन एम्फीबिया; निष्पुच्छ ।
- ventral**—(L. *venter*, belly) opposite to dorsal at, near, or toward the belly or underside. अघर;
 अघरीय; अघरस्थ; अघरदेशीय पृष्ठ का उल्टा ।
- zoo-, zoa-, zoon**—(Gr. *zoion*; animal) जन्तु-; जीवी ।
 उदाहरणार्थ—*zooplankton*, animal life of the plankton. जन्तु-प्लवक ।
protozoon, zooid, individual, animal (usually in a colony) प्रोटोजून; आदि जीवी ।

94025

